

मध्यएसिया का इतिहास

खण्ड २

राहुल सांकृत्यायन

विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्,
पटना

प्रकाशक
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्
पटना

पथम संस्करण
वि० सं० २०१४, शक.ब्द १८७९, मन् १९५७ ई०
सर्वाधिकार सुरक्षित

मूल्य

सजिम्द र. ०

मुद्रक
एच० एम० कामथ
नशनल हेराल्ड प्रेस,
लखनऊ

समर्पण

परंगत डा० काशीप्रसाद जायसवालको
जिनकी स्मृति अठारह वर्षोंके अनन्त विभोगके बाद भी
मेरे जीवन की प्रिय निधि है

वक्तव्य

इस पुस्तक के प्रथम खण्ड के 'वक्तव्य' में यह निवेदन किया जा चुका है कि परिषद् ने इसका प्रकाशन किस परिस्थिति में क्यों स्वीकृत किया था और इसकी मुद्रणशैली में परिषद् की नियम-परम्परा से कुछ भिन्नता होने का कारण क्या है ;

प्रस्तुत खंड की छपाई १९५४ ई० में ही शुरू हो गई थी। पहला खंड इसके बाद छपने लगा और इससे एक वर्ष पूर्व ही प्रकाशित हो गया। इस खंड के प्रकाशन में अनिवार्य कारणों से विलम्ब तो हुआ, पर कठिनाइयों को देखते हुए विलम्ब स्वाभाविक जान पड़ता है। विज्ञ पाठक इस बात का अनुमान कर सकते हैं।

पहले खण्ड से इस खण्ड का आकार डेवड़ा है। दोनों खण्ड मिलकर यह इतिहास एक हजार पृष्ठों से अधिक का हुआ है। इसकी विशालता के अनुसार लेखक की श्रमशीलता का अनुमान भी पाठक अनायास कर सकते हैं।

श्री राहुल जी की साहित्यसेवा पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने साहित्य के विभिन्न विषयों पर जितना अधिक लिखा है, उतना दूसरा कोई एक साहित्यसेवी अब तक नहीं लिख सका है। उन्हें केवल उद्भट लेखक न मानकर एक सुप्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था ही मानना उपयुक्त होगा। उनकी नई खोज और नई प्रतिभा की न देसे हुई हिन्दी-साहित्य की समृद्धि शायद उल्लेखनीय है।

वर्तमान युग की अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में एशिया का महत्त्व दिन-दिन बढ़ रहा है। उसमें भी मध्य एशिया के साथ भारत के ऐतिहासिक सम्पर्क की प्राचीनता पर ध्यान देने से इस इतिहास की उपायता और भी बढ़ जाती है। इसकी प्रामाणिकता का अनुभव स्वयं पाठक ही कर सकते हैं, क्योंकि श्री राहुलजी के बहुवर्षव्यापी मौलिक अनुसन्धान के परिणाम-स्वरूप यह इतिहास तैयार हुआ है। अतः आशा है कि इससे हिन्दी के चिरकालानुभूत अभाव की पूर्ति होगी।

कार्तिक-पूर्णिमा, शकाब्द १८७९

नवम्बर, १९५८ ई०

शिवपूजन सहाय

(संचालक)

प्रस्तावना

पुस्तकके अंतिम खंडको पाठकोके हाथ में जाते देखकर, मालूम होता है, एक बड़ा भार सिर से उतर गया। इस सारे समयमें कई बार आशा और निराशाके बीचमें भटकना पड़ा था। बाधायें कभी प्रकाशकर्ता औरसे और कभी प्रेसकी औरसे आ जाती थीं। एक प्रेसमें प्रथम खंडके आठ-दस फार्म कंपोज हो जानेके बाद काम रुक गया, और अंतमें प्रकाशक बदलने पर ही गाड़ी आगे चली। द्वितीय खंडको मैंने स्वयं कागज दे कर अपनी जिम्मेदारीपर प्रेसमें दे दिया, पर प्रेसकी गड़बड़ी इतनी हो गई, कि आशा नहीं थी, नया पार होगी। खैर, “कुफ टूटा खुदा-खुदा करके”। ऐसी बाधायें उपस्थित न हुईं होंतीं, तो ग्रंथ तीन साल पहले ही प्रकाशित हो गया होता।

मध्य-एशियाके इतिहासपर किसी भी भाषामें कोई विस्तृत ग्रंथ नहीं है। जो एकाध है भी, वह बहुत संक्षिप्त तथा कालमें बहुत दूरतक हमें नहीं ले जाते, और न वह आधुनिकतम सामग्रीपर आधारित हैं। मध्य-एशियाके इतिहासकी सामग्रीकी गवेषणा सोवियत रूसमें बहुत हुई है। किसी-किसी कालपर ग्रंथ भी लिखे गये, पर संपूर्ण कालके ऊपर लिखनेको आगेके लिये छोड़ दिया गया। इन बातों से लेख रुकी कठिनाई मालूम होगी। इस ग्रंथमें अनेक त्रुटियां होनी बिल्कुल संभव हैं। १९४७ के बाद की उल्लेख्य सामग्रीका बहुत कम उपयोग मैंने कर पाया है। भारत में सोवियतमें प्रकाशित ग्रंथ और अनुसंधान-पत्रिकायें मुलभ नहीं हैं।

मध्य-एशियामें चीनी मध्य-एशिया भी शामिल है। जिसके किसी-किसी कालपर इस ग्रंथमें काफी विवेचन हुआ है, पर पूरी तीरसे लिखना बाकी है। मेरी इच्छा तिब्बत को लेते चीनके इतिहासपर एक विस्तृत ग्रंथ लिखनेकी है। यदि उसके लिखनेमें सफल हुआ, तो यह कमोपूरी हो जायगी। पर, इसमें आधु और भौतिक बाधायें ही रास्ता रोके नहीं हैं, बल्कि हमारे स्वतंत्र देशकी नौकरशाही भी पूरी तीरसे रोड़ा अटकाने के लिये तैयार है। अंग्रेजी शासनमें सिर्फ पहली बार मुझे छिपकर तिब्बत जानेकी जरूरत पड़ी थी। मेरे राजनीतिक विचार उस वकत भी वही थे, जो आज हैं। पर, अंग्रेजी सरकार और अंग्रेज नौकरशाहोंने सांस्कृतिक कार्यके महत्वको समझते बाधा नहीं दी।

१९३४ ई० में मैं दूसरी बार तिब्बत जानेके लिये ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट के पास गंतोकेमें आज्ञापत्र लेने गया। नाम मालूम होते ही वह बड़े हर्षके साथ मिले। और आज्ञापत्र ही नहीं दिया, बल्कि अधिक आत्मीयता दिखलाने के लिये तिब्बतमें अपने लिये टुए फोटो दिखलाये, कितनी ही बातें पूछीं। उसीके स्थानपर १९५० में जो भारतीय सज्जन थे, वह मिलनेपर बिलकुल दूसरे ही साबित हुए। उन्हें तिब्बतके बारेमें कोई जिज्ञासा नहीं थी, और शिष्टाचारके नाते ही एक-दो मिनटके लिये मिले। नौकरशाही ने एक बार पासपोर्ट देनेसे इन्कार किया, खैर, दूसरी बार कोशिश करने पर वह मिल गया। उसके लिये बड़ी उत्सुकता इसी कारण है, कि तिब्बतमें भारतीय संस्कृत-ग्रंथोंकी नई तालप्रतियोंके मिलनेकी संभावना है।

ग्रंथके प्रकाशित होनेका सबसे अधिक श्रेय श्रीजगदीशचंद्र माथुर (तत्कालीन शिक्षा-परिवे, बिहार) और श्री शिवपूजन सहाय को है। शिवपूजन वाच्य तो ग्रंथको प्रकाशित देखनेके लिये मुझसे भी अधिक उतावले थे।

मंसूरी,

२०-९-५७

राहुल सांकृत्यायन

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ	अध्याय	पृष्ठ
भाग १		मंगोल-हथियार	
उत्तरापथ (१२००-१५५० ई०)		३. सरतक	२४
१. चीनमें मंगोल-वंश (१२००-१३६८ ई०) ३		४. उलकची	२६
१. छिन्न-गिगू	३	५. बरेक (बरका)	२६
२. उगेनाइ (नाइ-चुइ)	४	६. मङ्ग-गू-ते (मुङ्ग-खे) तेमूर	२९
३. गू-युगू, गो-वान (विङ्ग-चुइ)	६	७. तुदा-मङ्गू	२९
४. मुङ्ग-ये (स्यान्-चुइ)	७	८. तांगताइ	२९
५. कुविलेइ (शि-चू)	७	नांगाइके साथ संघर्ष	३०
(१) मार्की वांशी	१०	९. उज्वेक खान	३१
(२) जाति-व्यवस्था	१२	(१) आपसी संघर्ष	३१
६. थुगू-थेमूर (वेङ्ग-चुइ)	१४	(२) यूरोपपर अभियान	३४
७. खू-चुगू (बू-चुइ)	१४	(३) मास्को राजुल	३४
८. बीगन् थू (जुन्-चुइ)	१५	(४) इस्लामसे सहानुभूति	३६
९. गेगेन्, शुन्-फल (यिङ्ग-चुइ)	१५	१०. दिनीवेग	३८
१०. यिगु-थेमूर (ताइ-चिङ्ग-ति)	"	११. जानीवेग	३८
११. रिन्-छेन्-फगू, (यू-चू)	"	(१) प्लेग महामारी	३८
१२. कुनलः (मिङ्ग-तिङ्ग)	"	(२) ईरानपर आक्रमण	३९
१३. युगू-थेमूर (वेन्-चुइ)	१६	१२. बरदीवेग	४२
१४. रिन्-छेन्-पल् (निङ्ग-चुइ)	१६	१३. किलदीवेग	४२
१५. थेगन्-थेमूर (शुङ्ग-ति)	१६	१४. नौरोजवेग	४२
वंश-वृक्ष	१७	१५. चेरकेसवेग	४२
२. सुवर्ण-ओर्दू (१२२४-१३७५ ई०) १८		१६. ओर्दा शेख	४३
१. जू-छि (तू-शि)	१८	१७. खिजिर	४३
२. वा-तू खान, जू-छि-पुत्र	२०	१८. कुलफा	४३
(क) वाशिकर-विजय	२१	१९. तेमूरखोजा	४३
(ख) बोलगार-विजय	२१	२०. मुरीद	४३
(ग) सकामिन-विजय	२२	२१. अजीज	४३
(घ) मास्को-विजय	२२	२२. हाजीखां	४३
(ङ) कियेफ-विजय	२२	वंशवृक्ष	
(च) यूरोप-विजय	२३	३. श्वेत-ओर्दू (१२२४-१४२५ ई०)	४५
		१. जू-छि	४५

अध्याय	पृष्ठ	अध्याय	पृष्ठ
२. ओरदा, एसन	४६	वंशवृक्ष	७०
३. कोनिचि	४६	४. रूस रूरिक-वंश (९११-१५९४ ई०)	७१
४. बायन	४७	अवतरणिका	७१
५. ससीबूगा	४८	शक-मरमात	७१
६. एर्जेन	४८	वेन्द	७१
७. मुबारक खोजा	४८	अंत	७१
८. चमिताई	४८	रूसोके पड़ोसी मंगोलयिन	७३
९. उरुस खान	४८	बोल्गार	७३
१०. तोगताकिया	५०	खाज़ार	७४
११. तेमूरवेग	५०	पेचेनेगा	७५
१२. तोकतामिश	५१	क. क्रियेफके राजुल	७५
मास्को-ध्वंस	५१	१. रूरिक	७५
तेमूरके साथ लड़ाइयां	५५	२. ओलेग्	७७
प्रथम महाभियान	५६	३. ईगर	७८
द्वितीय अभियान	६०	४. ओलगा, ईगर पत्नी	८२
१३. कोइरिअक	६२	५. स्व्यातोस्लाव I	८२
१४. तेमूर कुतुलुक	६२	६. ब्लादिमिर	८३
१५. शादीबेक	६३	ईसाई-धर्म स्वीकार	८३
१६. पूलाद खान	६३	७. स्व्यातोपोल्क	८४
१७. तेमूर खान	६४	८. यारोस्लाव I	८४
१८. जलालुद्दीन जलाबेदी	६५	"रुस्कया प्राब्दा"	८५
१९. करीमबेदी	६५	९. इज्यास्लाव	८६
२०. चिङ्ग-गिङ्ग ओगलान	६५	स्व्यातोस्लाव	८७
२१. जब्बार बेदी	६६	१०. स्व्यातोपोल्क	८७
२२. दर्विस खान	६६	११. ब्लादिमिर मनोमाथ	८७
२३. चकरा खान	६६	"ईगर-सेना-गाथा"	८९
२४. किवेक	६६	ख. रोस्तोफ-सुज्दल-राजुल	९०
२५. उलुक मोहम्मद	६७	१२. यूरी I दीर्घबाहू	९०
२६. सैयद अहमद	६७	१३. अन्द्रेइ बगोल्गुवोव्स्की	९१
२७. मोहम्मद	६७	१४. व्सेवोलद	९१
बोरक (बुराकि)	६८	१५. यूरी	९२
२८. मुहम्मद सुल्तान	६९	१६. यारोस्लाव	९२
२९. दौलत बेदी	६९	नवोगोरद	९३
३०. कादिर बेदी	६९	१७. अलेक्सान्द्र नेव्स्की	९५
३१. शादी बेक	६९	ग. मास्को महाराजुल	९६
३२. सैयद (सैदक)	६९	१८. दानियल	९६
३३. कासिम	६९	२०. इवान I (खलीता)	९७
३४. अकनजर, हकनजर	७०	२१. सेमैओन	९७

अध्याय	पृष्ठ	अध्याय	पृष्ठ
२२. इवान II	९७	१६. तुवा (दुवा) तेमूर	१३४
२३. दिभिन्नि दोन्स्की	९८	१७. तरमाशेरिन (घर्म-छे-रिड)	१३४
२४. वासिली	९९	१८. बूजन	१३५
२५. वासिली II अंध	९९	१९. जेकिश	१३५
२६. इवान III	९९	२०. येस्मुन तेमूर	१३६
मंगोल शासन समाप्ति	१००	२१. अली सुल्तान	१३६
तुर्की	१००	२२. मुहम्मद पुलाद	१३६
अफनासीकी भारत-यात्रा	१०१	२३. काजान (गाजान)	१३६
२७. वासिली III	१०६	२४. दानिशमंद	१३६
२८. बेल्लेना	१०६	२५. बायन कुल्ली	१३६
२९. इवान IV		२६. तेमूरशाह	१३६
राज्य-विस्तार	१०७	२७. इलियास खोजा	१३७
घेरमक द्वारा साइबेरिया-विजय	१०९	२८. काबिलशाह	१३७
३०. फ्यादर	११५	चगताई-अर्थ-नीति	१३७
वंशवृक्ष	११७	साहित्य	१३७
		वंशवृक्ष	१३८

भाग २

दक्षिणापथ (१२२४-१७४३ ई०)		२. हुलाकू-वंश (१२५६-१३४५ ई०)	१३९
१. चगताई वंश (१२२२-१३७० ई०)	१२१	राजावलि	१३९
१. जगताई	१२१	१. हुलाकू, खुलागू	१३९
बुगारा-विद्रोह	१२१	२. अबका	१४३
राजावलि	१२५	३. अहमद तगूदर, निकोदर	१४३
२. करा हुलाकू	१२६	४. अरगून	१४३
३. येस्मू मड-गू	१२६	५. गैखातू	१४४
करा हुलाकू	१२७	६. बौदू	१४४
४. एग्गेना	१२७	७. गाजन	१४४
५. अलगू (अरिकबुगा)	१२८	८. उलजैतू (खुदाबन्दा)	१४५
६. मुबारकशाह	१२९	९. अबूसईद	१४५
७. वीराक	१२९	वंशवृक्ष	१४७
८. निगपई	१३१	हजारा	१४७
९. तोका तेमूर	१३१	साहित्य	१४७
१०. दुवा (दावा)	१३१	३. तेमूर-वंश (१३७०-१५०० ई०)	१४८
११. कुजेक (कंचोक)	१३३	१. तेमूरलंग	१४८
१२. तलिकू (खिजिर)	१३३	तोकतामिशपर आक्रमण	१५०
१३. केबेक	१३३	भारतपर आक्रमण	१५१
१४. एग्गेनबुगा	१३३	तेमूरके उत्तराधिकारी	१५४
केबेक (पुनः)	१३४	राजावलि	१५५
१५. इलिकदई	१३४	२. खलील सुल्तान	१५५
		३. शाहरख	१५५
		४. उलुगबेग	१५७

अध्याय	पृष्ठ	अध्याय	पृष्ठ
५. व्लादिस्लाव	२२१	१. बुरकि	२७५
२. रोमनोफ-वंश	२२४	२. गिराई	२७५
१. मिखाइल	२२५	३. बैरेंदक	२७७
चीनतक प्रसार	२२७	४. कासिम	२७७
२. अलेक्सी	२२७	५. मीमाश (विनाश)	२७७
शासन-यंत्र	२२८	६. ताहिर	२७७
उकड़न विलयन	२२९	७. उजियाक अहमद	२७८
बोल्गाकी-जातियां	२३४	८. अकनजर	२७८
राजिन-विद्रोह	२३५	९. शिगाई	२७९
साइबेरियामें प्रसार	२३८	१०. तववकल	२८०
चीनमें संबंध	२४१	११. इशिन	२८१
साइबेरियामें विद्रोह	२४४	१२. यमगीर, जहांगीर	२८२
साइबेरियामें रुसी बस्तियां	२४४	१३. तीफीक	२८२
३. फ्यांशोर	२४५	वंशवृक्ष	२८३
४. इवान IV	२४६	३. नोगाई	२८४
५. पीतर I	२४६	१. नोगाई (१३००-१७२४ ई०)	२८४
पूर्वमें प्रसार	२५१	१. नोगाई	२८४
शासन-न्याय	२५१	२. चुको	२८४
शिक्षा और संस्कृति	२५२	३. बुरी	२८५
पीतरवर्षमें निर्माण	२५२	४. कराकिज़िक	२८५
साइबेरिया	२५२	५. करा नोगाई	२८६
चीन के साथ संबंध	२५३	२. महानोगाई	२८६
६. एफ़ीग्न्या I	२५५	१. नूगदीन	२८६
७. पीतर II	२५६	२. ओकस	२८६
८. अश्रा	२५६	३. यमागुरची	२८६
९. इवान II	२५७	४. शेख ममाई	२८७
१०. एफ़िजावेना	२५७	५. युमुफ मिर्जा	२८७
११. पीतर III	२५८	६. अली मिर्जा	२८७
१२. स्कॉर्गिन्या II	२५९	७. इस्माईल मिर्जा	२८७
प्रथम तुर्की युद्ध	२६०	८. दीनमुहम्मद	२८८
रिमान-संदर्भ (बुगारेफ)	२६१	९. उफ़स	२८९
ईदेलिक नीति	२६२	१०. अल्ता	२८९
चीनमें संबंध	२६३	३. कराकल्पक	२९०
शिक्षा और संस्कृति	२६४	१. ऊपरी कराकल्पक	२९१
रूस परिवर्तनवादी गढ़	२६७	२. निचले कराकल्पक	२९१
१३. पावर I	२६८	वातिरख्यान काइथ	२९२
साइबेरियाकी जातियां	२७१	४. मुग़लिस्तान के खान (१३२१-१५६५ ई०)	२९३
२. श्वेत-बार्द (१४२५-१७०८ ई०)	२७५		
राजावलि	२७५	राजावलि	२९५

अध्याय	पृष्ठ	अध्याय	पृष्ठ
१. तुगलक तेमूर	२९५	३. सेङ्ग-गे	३२८
२. इलियास खोजा	२९६	४. गल्दन् I	३२८
३. खिजिर मुहम्मद	२९७	५. छेवङ्ग-रब्तान	३३०
४. शमाजहान	२९८	शासन-व्यवस्था	३३३
५. मुहम्मद	२९८	उपज	३३४
६. नवशोजहान	२९९	६. गल्दन् II छेरिङ्ग	२३४
७. शेरमुहम्मद	२९९	७. वायन	३३५
८. बेइस	३००	८. छेवङ्ग दोर्जे	३३५
९. शातुक	३०१	९. दावा छेरिङ्ग	३३५
१०. एसेनबुगा	३०१	१०. अमुरसना	३३६
११. दोस्तमुहम्मद	३०३	वंशवृक्ष	३३७
१२. यूनस	३०४	७. बोल्गा-कल्मक (१६१६-१७७१ ई०)	३३८
१३. महमूद	३०६	राजावलि	"
१४. मन्जूर	३०७	१. खुङ्ग थैची उर्लुक	"
१५. सईद	३०८	२. दै-शिङ्ग	"
तिब्बतपर जहाद	३११	३. फुन्-छोग	३३९
१६. रशीद	३१२	४. आयकम् थैची	"
१७. अब्दुल करीम	३१३	५. छेरिङ्ग दोण्डुव्	"
१८. मुहम्मद खान	३१३	६. दोण्डुव् अम्बो	"
१९. इस्माइल खान	३१३	७. दोण्डुव् थैची	"
वंशवृक्ष	३१४	८. उबासा	३४०
५. सिबिरखान (१५००-१६५९ ई०)	३१५	कल्मकोंका भागना	"
१. ईबक	३१५	वंशवृक्ष	३४२
२. मुर्तुजा	३१५	८. कजाक-ओर्दू (१७१८-१८१८ ई०)	३४३
३. कूचुम	३१६	क. मध्य-ओर्दू (१७१८-१८१९ ई०)	"
४. अली	३१८	१. पुलाद	"
५. इशिम	३१९	२. अबुल् मुहम्मद	३४५
६. अबलइ गिराई	३१९	३. अबलइ	३४६
७. दौलत गिराई	३१९	४. वली	३४८
वंशवृक्ष	३२०	ख. लवु-ओर्दू (१७४४-१८१८ ई०)	३५०
६. जुंगर-साम्राज्य (१५८२-१७५७ ई०)	३२१	१. अदिया	३५०
कल्मक-मंगोल	३२१	२. अबुलखैर	"
मंगोल-राजावलि	३२१	३. नूरअली	३५३
अंतर-मंगोलिया	३२४	४. एरली	३५६
बाह्य-मंगोलिया	३२४	५. इशिम	३५७
कजाक	३२५	६. ऐचुवक	"
जुंगर-राजावलि	३२५	७. जंती उरा	"
१. खराखुल	३२५	८. शेरगाजी	"
२. बातुर थैची	३२५	वंशवृक्ष	३५८
		ग. महा-ओर्दू (१७४०-६० ई०)	"

अध्याय	पृष्ठ	अध्याय	पृष्ठ
१. एलबर्स	३५९	१८. निकोलाइ II	३९४
२. तिउल बी	३६०	लेनिन	३९५
३. कुसियन बी	"	संस्कृति-साहित्य-विज्ञान	३९६
भाग ४		साहित्य और कला	३९६
दक्षिणा-पथ (१७४७-१९१७ ई०) ३६३		रूस-जापान-युद्ध	३९७
१. जारशाहीका अंतिम प्रसार	३६५	१९०५ की क्रांति	३९८
(१८०१-१९१७ ई०)	"	जापानसे संधि	४००
१४. अलेक्सांद्र	"	दिसंबरका विद्रोह	४०२
नोगोल्नियनसे युद्ध	३६६	वैदेशिक संबंध	४०६
मुबार	३७०	औद्योगिक प्रगति	४०८
काकेजम-विजय	३७१	चतुर्थ दूमाका चुनाव	४१०
बोलागाके लोग	३७२	विश्व-युद्धकी तैयारी	४११
भौगोलिक अभियान	"	बल्कान-युद्ध	"
दियंबरी-विद्रोह	३७३	प्रथम विश्व-युद्ध	४१२
चीनसे संबंध	३७४	मध्य-एशियामें युद्धका प्रभाव	४१४
१५. निकोलाइ I	"	फरवरी-क्रांति	४१५
पूर्वीवादी विभाग	३७६	२. खोदके खान (१७४७-१८७६ ई०)	४२०
ईगन-तुर्की-युद्ध	३७७	राजावल्लि	"
आर्मिलका विद्रोह	"	१. शाहखल बेक	"
मध्य-एशियामें रियासतें	३७८	२. रहीम बेक	४२१
साउवेरियामें प्रसार	३८०	३. अब्दुलकरीम बेक	"
सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रगति	३८२	४. एर्दनी बेक	"
हेजेन (एजेन)	"	६. आलम खान	४२२
व. ग. बेंडिन्की	"	७. उमर खान	४२३
वैज्ञानिक	३८३	८. मुहम्मद अली	४२४
साहित्यकार	"	९. शेरअली	४२७
पुश्किन	"	१०. मुराद	४२८
१६. अलेक्सांद्र I	३८५	१२. मरला खान	४२९
तुर्की-युद्ध	३८६	१३. शाह मुराद	४३१
राजनीतिक आन्दोलन	३८७	खुदायार (पुनः)	"
मध्य-एशियामें प्रसार	३८७	१४. सैयद मुस्तान	"
साउवेरिया और चीन	३८८	खुदायार (पुनः)	४३२
१७. अलेक्सांद्र III	३९०	१५. नासि रुहीन	४३५
प्रथम मजदूर-आंदोलन	३९१	रूसमें विलयन	४३७
शिक्षा और संस्कृति	३९२	वंश वृक्ष	४३८
साहित्य	"	३. बुगाराके अमीर (१७४७-१९२० ई०)	४३९
माक्सेवादका प्रचार आरम्भ	३९३	१. मुहम्मद रहीम	"
		२. दानियाल बी	४४०

अध्याय	पृष्ठ	अव्यय	पृष्ठ
३. शाह मुराद (नगीबेखा)	"	(३) बधशां	४६२
४. हैदर	४४४	(क) मुन्वान भाऊ	"
शासन-प्रबंध	४४५	(ख) भीर महम्मद	"
वैदेशिक संबंध	"	(ग) मीर यारबेक	"
५. हुसेन	४४६	(घ) जहांगीर	"
६. उमर	"	(ङ) महम्मद	"
७. नसरुल्ला	"	(४) मेमना	"
अंग्रेजोंकी चालें	४४८	(५) अंदमुद	४६३
प्रथम अफगान-युद्ध	४५०	(६) शाबिरमान	"
८. सैयद मुजफ्फरुद्दीन	४५१	(७) सरैपुल	"
रूससे युद्ध	"	खीनाके खान (१७१६-१८८१ ई०)	
९. अब्दुल अहद	४५३	१. बाहरी बंध	"
१०. मीर आलम	"	१. अरंक	"
शासन-प्रबंध	"	२. जेर गाजी	"
वंशवृक्ष	४५४	३. इल्बर्ग	४६७
४. छोटे-छोटे राज्य	४५५	४. ताहिर	४६८
१. उरातिप्पा और जीजक	"	५. अबुल् मुहम्मद	"
बाबा बेक, बेक मुराद	४५५	६. अबुल्गाजी II	"
२. शहरसब्ज	"	७. काश्प	"
(१) दानियाल अतालीक	"	८. अबलगाजी III	४६९
(२) खोजाकुल	४५७	२. कंकुरल-बंध	४७०
(३) अशुर कुली बेक	"	राजावलि	"
(४) इस्कन्दर	"	१. इल्तजार	"
(५) बाबाबेक	"	२. महम्मद रहीम	४७१
३. कोहिरतान	४५७	३. अल्ला कुल	४७३
उरगुत	"	अराफल रूसी अभियान	४७४
४. हिसारके इलाके	४५८	४. रहीम कुल	४७६
(१) करातगनि	४५९	५. अमीन	"
(२) दरवाज	"	६. अङ्कुल्ला	४७७
(३) कुलाब	"	७. कुनुलुक मुगद	"
(४) शगनान	"	८. सैयद मुहम्मद	"
(५) हिसार	"	मुहम्मद फना	४७९
५. तुखारिस्तान	"	९. मुहम्मद रहीम	"
(१) खुल्म	४६०	रूसी अभियान	४८०
खिलिच अली	"	वंशवृक्ष	४८७
(२) कुन्दुज	"	तुर्कमान	
(क) मुराद बी	"	१. तुर्कमान भूमि	४८८
(ख) मुहम्मद अमीन	४७	२. तुर्कमान कबीले	४८९

अध्याय	पृष्ठ	अध्याय	पृष्ठ
३. नेपाळों का शासन	४९१	(१) अनवर पाशा	५४२
४. पाशाक और खुरेसा	४९३	(२) ईशान मुल्तान	५४३
५. मसम बड़	४९४	(३) फुजैल मकसूम	५४६
गाउरेशिया और चीन	४८८	(४) इकाहीम गल्लू	"
६. बड़े दीये मनावनी	४९७	३. तिब्बतियान गणराज्य	"
७. मेरु-निर्माण	४९९	६. तुर्कमिस्तानमें क्रांति	
८. प्रजाशासक	"		
९. मेरु	५००	१. तुर्कमान कबीले	५४८

भाग ५

बौद्धबिम्ब क्रांति (१९१७-२९ ई०)

१. मसम में क्रांति

१. मसम में क्रांति	५०३
२. मसम में तीसरे मसम	५०४
तिब्बत में नेपाळिया	५०७
३. मसम में तीसरे मसम	५०८
४. मसम में तीसरे मसम	५११
५. तुर्कमिस्तानमें क्रांति	

१. तुर्कमिस्तानमें क्रांति	५१४
२. तुर्कमिस्तानमें क्रांति	५१७
३. तुर्कमिस्तानमें क्रांति	"
४. तुर्कमिस्तानमें क्रांति	५१९
५. तुर्कमिस्तानमें क्रांति	५२०
६. तुर्कमिस्तानमें क्रांति	५२४
७. तुर्कमिस्तानमें क्रांति	५२५
८. तुर्कमिस्तानमें क्रांति	६१७
९. तुर्कमिस्तानमें क्रांति	

१. तुर्कमिस्तानमें क्रांति	५२८
२. १९१६ का विद्रोह	५३०
३. क्रांति-संग्रह	५३२
४. मसम में शासनकी स्थापना	५३४
५. तिब्बतियानमें क्रांति	

१. तिब्बतियानमें क्रांति	५३५
२. १९१६ का विद्रोह	५३६
३. तिब्बतियानमें क्रांति	
१. तिब्बतियानमें क्रांति	५२९
२. तिब्बतियानमें क्रांति	५४२

२. तुर्कमिस्तान-निर्माण	५४९
३. क्रांति-संग्रह	५५०
४. तुर्कमिस्तानमें क्रांति	५५४

मान-चित्र

१. मंगोल-साम्राज्य	४
२. मंगोल-विजय	१९
३. मंगोल-वंशज	७२
४. क्रांति-संग्रह	७८
५. मसम-राज्य-विस्तार	९९
६. क्रांति	१०५
७. मंगोल-राज्य	१२३
८. तुर्कमिस्तान-राज्य	१४२
९. तुर्कमिस्तान-राज्य	१५२
१०. तुर्कमिस्तान-असुराखानी राज्य	१७५
११. तुर्कमिस्तान	१९८
१२. तुर्कमिस्तान (१७२१ ई०)	२३३
१३. तुर्कमिस्तानमें विस्तार	२३९
१४. तुर्कमिस्तानमें क्रांति	२७६
१५. तुर्कमिस्तानमें क्रांति	२८५
१६. तुर्कमिस्तान	२९४
१७. तुर्कमिस्तान	३२२
१८. तुर्कमिस्तान	३४४
१९. तुर्कमिस्तान प्रसार	४१८
२०. तुर्कमिस्तान (आधुनिक)	५०४-५

परिशिष्ट

१. तुर्कमिस्तान और भारत	५५७
२. तुर्कमिस्तान ग्रंथ	५९३
३. तुर्कमिस्तानक्रमणी	६०३

■

■

मध्य एशिया का इतिहास

खण्ड २

भाग १

उत्तरापथ (१२००-१५५० ई०)

चीनमें मंगोल-वंश

(१२००-१३६८ ई०)

१. छिङ्ग-गिस् (१२०६-२७ ई०)

मध्य-एशियामें मंगोलोंका राज्य कोई अलग-थलग नहीं था, बल्कि कितने ही समय तक चीनपर शासन करनेवाले मंगोल हगान (खाकान, खान) को ही सभी मंगोलखान अपना अधिराज मानते थे। १३ वीं सदीमें कोरियासे पोलैंड और साइबेरियासे पंजाब तक मंगोलोंका साम्राज्य फैला हुआ था। छिङ्ग-गिस्ने अपने विशाल साम्राज्यको अपने जीवन हीमें चारों पुत्रोंमें बांट दिया था, लेकिन साथ ही यह व्यवस्था की थी, कि सभी खान अपनेमेंसे एकको अपने ऊपर मानते हुये साम्राज्यमें एक तरहकी एकता कायम रखें। घुमन्तू जातियोंमें एक तरहकी जनतंत्रता स्वाभाविक है। घुमन्तू राजा घुमन्तूओंकी अपनी जिस सेनाके बलपर देश-विजय करते हैं, उसे अपने पक्षमें रखनेके लिये सैनिक जनतंत्रता कायम रखना जरूरी है। अपने पूर्वज घुमन्तू-राज्योंकी भांति छिङ्ग-गिस्के साम्राज्यमें भी सैनिक जनतंत्रता थी। कोई बड़े सवालका हल, या खानका निर्वाचन कूरिल्ताईमें होता था, जो सभी राजकुमारों, सैनिक सरदारों और जन-नायकोंसे मिलकर बनी थी।


मध्य-एशियामें मंगोलोंके शासनके इतिहासके समझनेके लिये जरूरी है, कि हम चीनके मंगोल-राजवंशके इतिहासको भी समझें, साथ ही सुवर्ण-ओर्दू, और ईरानके खुलागू-वंशको भी हम नहीं छोड़ सकते। इन मक्का भैत्री या शत्रुताके रूपमें बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। तंगूत नगरके विजयके पवन छिङ्ग-गिस् आहत हुआ था, जिससे ही अपने चलते-फिरते प्रासाद या महा-गाड़ीपर ही वह १८ अगस्त १२२७ ई० को मर गया। दुनियामें और राजाओंको भी अपने पुत्रोंमें राजका बंटवारा करते हम देखते हैं, लेकिन उसका एकमात्र परिणाम उनका जल्दी ही छिन्न-भिन्न हो नष्ट होनेके सिवा और कुछ नहीं होता। छिङ्ग-गिस् युद्ध और शासनकी व्यवस्थामें अद्भुत प्रतिभा रखता था, इसलिये उसके बंटवारेने कोई उम तरहका दुष्परिणाम तुरंत नहीं दिखलाया और करीब-करीब १२९४ ई० तक खुविलेके शासनके अन्त तक मंगोल-साम्राज्य बहुत शक्तिशाली और एकतावद्ध रहा, जिसमें छिङ्ग-गिस्की दूरदर्शनाका हाथ भी था, इसमें संदेह नहीं। छिङ्ग-गिस्के मरनेके बादही मंगोल-विजययात्रा मन्द नहीं हुई। १२७९ ई० में सम्पूर्ण चीन, हिन्द-चीन और बर्मापर खुविले (कुविलेइ) का शासन स्थापित हुआ। पश्चिम-दक्षिणमें कितना राज्य-विस्तार हुआ, उसके बारेमें हम आगे कहेंगे। छिङ्ग-गिस्के मरनेके एक साल बाद (१२२८ ई० में) मंगोल-सेना ईरानमें अस्पहान तक पहुंची थी।

छिङ्ग-गिस्की मृत्युके बाद तुरंत ही नये हगान (खान) का चुनाव नहीं हुआ। दो साल (१२२९-ई०) तक छिङ्ग-गिस्-पुत्र तू-लुइ और उसकी रानीकी देख-रेखमें शासन होता रहा और इस सारे समयमें मंगोलोंकी शक्ति घटनेकी जगह बढ़ती ही रही, यह छिङ्ग-गीसी व्यवस्थाका चमत्कार था।

चीनमें निम्न मंगोल खाकान हुये—

- | | |
|--|------------|
| १. छिङ्ग-गिस् (छिङ्ग-गीस, ताइ-चुङ्ग) | १२०६-२७ ई० |
| २. उगेताइ (ताइ-चुङ्ग छिङ्ग-गिस्)-पुत्र | १२२९-४६ " |
| ३. गू-युग (गोदन, उगेताइ-पुत्र चिङ्ग-चुङ्ग) | १२४६-५१ " |
| ४. मुङ्ग-खे (मङ्गू थोलोइ-पुत्र स्यान्-चुङ्ग) | १२५१-५९ " |
| ५. कुविलेइ (ह्वी-विलेइ तू-लोइ-पुत्र, छिङ्ग-गिस्-पौत्र शिचुङ्ग) | १२६०-९४ " |

६. थु-बू-थेमुर (ह्वो-बिलइ-पौत्र छिड-येन्-पुत्र चेङ-चुङ)	१२९४-१३०७ "
७. खू-लुग (धर्मपाल-पुत्र बू-चुङ)	१३०७-११ "
८. बोयन्-थू (धर्मपाल-पुत्र जुन्-चुङ)	१३११-२० "
९. गो-गेन् (शुद्धफल, बोयन्-थू-पुत्र यिङ-चुङ)	१३२०-२३ ई०
१०. यि-सु-थेमुर, (ताइ-चिङ-ती कमल-पुत्र)	१३२३-२८ "
११. रिन्-छेन्-फग् (यिसु-पुत्र यू-चू)	१३२८ "
१२. कुसलइ, (मिङ-चुङ खू-लुग-पुत्र)	१३२८-२९ "
१३. थुग्-थेमुर, (वेङ-चुङ बोयन्-थू-पुत्र)	१३२९-३२ "
१४. रिन्-छेन्-पल् (कुशल-पुत्र मिङ-चुङ)	१३३२-३३ "
१५. थेगन्-थेमुर, (शुङ-त थुग्-थेमुर-पुत्र)	१३३३-६८ "



२. उगोताइ, ओगोताइ, ताइ-चुङ (१२२९-४६ ई०)

१२२९ ई० में नये हगानके चुननेके लिये कूरिल् ताई (महापरिषद्) बैठी। तीन दिन तक खूब भोजन-पान होता रहा। कूरिल्ताई एक रायसे उगोताइको हगान निर्वाचित करना चाहती थी, लेकिन उगोताइ इसके लिये तैयार नहीं था। ज्येष्ठ-पुत्र जू-छिके मर जानेसे द्वितीय पुत्र चगताइ अपनेको उत्तराधिकारी समझता था, इसलिये वह उगोताइको क्यों पसंद करता? लेकिन कूरिल्ताईके निर्णयके विरुद्ध जाना उसके मानकी बात नहीं थी। अन्तमें उगोताइको हगान निर्वाचित कर उसे नम्देके ऊपर बैठा सरदारोंने कंधेपर उठाकर घुमाते हुये राजगद्दी देनेकी रसम अदा की। खूब घोड़ेके मांस और कूमिस-पान की दावत हुई, विजयकी अपार धन-राशिको उत्तराधिकारियोंमें बांटा गया। कूरिल्ताईने येल्यु चुत्साइको कोषाध्यक्ष बनाया, जो कित्तन-राजवंशी तथा बड़ा ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। योग्य राजनीतिज्ञ होते हुये वह ज्योतिष, गणित, भूगोल और वैद्यकका भी अच्छा पंडित था, और पहले ही पेकिङ्ग नगरका

वह राज्यपाल रह चुका था। येल्युका जन्म ११९० ई० में हुआ था, इस प्रकार राज्य-शासकके इस सर्वोच्च पदपर वह ३९ वर्षके उमरमें पहुंच गया। कूरिल्टाईने जू-छि-पुत्र सुन्ताइको बातुके साथ यूरोप-विजयके लिये भेजा। मध्य-एशियाकी मंगोल-सेनाने आगे बढ़कर मेसोपोतामिया, दियारबेकर, और आसपासकी भूमिका सर्वसंहार किया। चीनमें अपने बचे-बुचे राज्यके लिये खैरियत मनाते किन्-सम्राटने मंगोलोंसे सुलह करनी चाही, लेकिन मंगोल एक समय दो सम्राट माननेके खिलाफ थे। किनोने जानपर खेलकर मुकाविला किया और मंगोलोंको १२३० ई० में दो बार करारी हार दी। किन्-खतरा इतना बढ़ गया, कि उगोताइ और उसके भाई तू-लुइने स्वयं सेनाकी वागडोर अपने हाथमें ली। इस समय शेन्सी सारा मंगोलोंके हाथमें था और किन् (सुवर्ण) केवल होनान्के शासक रह गये थे। मंगोल कोरियापर भी हाथ साफ करना चाहते थे, इसलिये वहाँके राजाने मंगोल-राजदूतको मार डाला। इसपर मंगोल-सेनाने आक्रमण करके १२३२ ई० में कोरियापर अधिकार कर लिया। १२३२ ई० में सफल अभियानके बाद दोनों भाई मंगोलिया लौट आये, वहीं अक्टूबरमें तू-लुइका देहांत हो गया। अब छिड-गिस्-पुत्रोंमें जगतइ और चीन-सम्राट उगोताइ बच रहे थे।

छिड-गिस् (चंगेज) के जीवनमें ही एक बार मंगोल-सेना रूसके भीतर तक विजय-यात्रा कर आई थी। लेकिन वह बहुत कुछ लूट-मारका अभियान था। अब वह विजय करके वहाँ अपना दृढ़ शासन स्थापित करनेके लिये बड़ी थी। सुन्ताइने बोल्गाके किनारे अवस्थित बोल्गारोंकी राजधानी बोल्गार नगरको जीतना चाहा। बोल्गारोंसे पश्चिममें रहनेवाले रूसी खतरेको समझ गये थे : बोल्गार-ध्वंसके बाद मंगोल हमपर पड़ेंगे। इसीलिये कियेफ और स्मोलेन्स्कके रावलों (राजुलों)ने बोल्गारोंकी मदद की, जिससे उनकी राजधानी बच गई।

१२३४ ई० के मई महीनेमें चीनमें ११८ वर्ष शासन करनेके बाद किन्-राजवंश समाप्त हुआ। अब दक्षिणी चीनमें सुङ्-वंश बच रहा था, जो काफी शक्तिशाली था, इसलिये मंगोल उससे जल्दी छेड़-खानी करनेके लिये तैयार नहीं थे। किनोपर आक्रमण करते समय उन्होंने वचन दिया था, कि इस विजय के बाद हम सुङ्-वंश के लिये होनान खाली कर देंगे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। अदूरदर्शी दरबारियों ने मंगोल-शक्तिका ठीक अंदाजा नहीं लगा सुङ्-सम्राटको भड़काया। छिड-अन् (सि-यन-फू, शेन्सीमें), लोयाङ् (होनान्) और पेन-किङ् (नानकिङ्) यह तीन सुङ्-वंशकी राजधानियां थीं। सुङ्-सेनापति-ने आक्रमण करके लोयाङ् और पेन-किङ्को मंगोलोंके हाथसे मुक्त करा लिया। यह "आ बैल मुझे मार" वाली कहावत थी। मंगोलोंको अब सुङ्-वंशकी ओर ध्यान देना जरूरी था। इतने बड़े निर्णयकी हगान स्वयं नहीं कर सकता था, इसके लिये उसने १२३५ ई० में महा-कूरिल्टाई बुलाई। जिसने सुङ्-वंशको खतम करनेका निश्चय किया। दक्षिणी चीनके विरुद्ध तीन सेनायें भेजी गईं, जिनमें एकको सेनापति ओगोताइ-द्वितीय-पुत्र कू-तन तथा जेनरल तेंगरीके नेतृत्वमें सूचाउकी ओर बढ़ना था। दूसरी सेना तुमूताइ और चाङ्-जूके अधीन हू-कुङ्के ऊपर चढ़ी, ओगोताइका तृतीय पुत्र कू-चू, राजकुमार खुन-बुका और जेनरल चागनके नेतृत्वमें तीसरी सेना क्याङ्-नान्की ओर बढ़ी। इसी समय जू-छीके पुत्र बा-तूको पश्चिम-दिग्विजयका काम सौंपा गया।

माचं, १२३६ ई० में कू-चूने सुङ्-राज्यकी प्रधान नगरी सियाङ्-याङ्पर अधिकार कर लिया। मंगोल-साम्राज्यकी सीमा दक्षिणमें अब याङ्-ची तक पहुंच गई।

खु-बिले (कुबिलेइ) के पहले मंगोल-साम्राज्यकी राजधानी मंगोलियामें ओरखोन् और तुला नदियोंके बीच कराकोरम थी। राजधानी कहनेसे यह न समझना चाहिये, कि वहाँ कोई नगर बसा हुआ था। राजधानीका मतलब इतना ही था, खान सरदारोंके साथ मीलोंतक लगे नम्दे और दूसरे प्रकारके तम्बुओंमें अपने घोड़ों और पशुओंके साथ रहता था। ओगोताइने पहलेपहल वहाँ एक विशाल प्रासाद बनवाया, जिसका उद्घाटन १२३६ ई० में हुआ। इस प्रासादके बनानेमें बहुत परिश्रम किया गया था। चीनी कलाकारों ने मूर्तियों और चित्रोंसे उसे अलंकृत किया था। इसके चारों तरफ बगीचे लगे थे, और चारों दिशाओंमें चार बड़े-बड़े दरवाजे थे, जिनमेंसे एक हगान (सम्राट) के लिये, दूसरा राज-कुमारों, तीसरा अन्तःपुरिकाओं के लिये था, चौथे दरवाजेसे साधारण जनता जा सकती थी। महलके चारों ओर बड़े-बड़े सरदारोंके अपने महल थे, जिनके बाद बड़ा नगर था, जिसको ओर्दू-वालिक या

कराकोरम कहते थे। नगरके चारों ओर ऊंची प्राकार थी। कराकोरममें सम्राट्के निजी पारिवारिक खर्चके लिये प्रतिदिन पांचसौ गाड़ी भोजन-सामग्री आती थी। उसमेंसे कुछ वह अपने परिवारके लिये खर्च करता, बाकी दूसरोंमें वितरित करता। इसी समयसे मंगोल घुमन्तुओंका गादा जीवग खतम होने लगा और वह हर बातमें दुनियाकी सभ्य जातियोंकी नकल करने लगे।

ईरान और काकेशसकी ओर अब मंगोल अपना हाथ-पैर बड़ी दृढ़तासे बढ़ा रहे थे। १२२७ ई० में अरास और कुरा नदी तक अरमेनियापर उनका अधिकार हो गया। उसी साल उन्होंने जाजिया (गुर्जी) को विजय करते अरमेनियाकी राजधानी अनीका संहार किया। इसी साल २१ दिगम्बरको साइबेरियाके कीमती समूरोंके सबसे बड़े बाजार बोलगारपर बा-तूने आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया, सो भी ऐसा कि जिसके देखनेके लिये नगरमें एक भी आंख नहीं बच रही। पांच वर्ष पहले आत्म-रक्षा करके बोलगार नगरीने जो गुस्ताखी दिखलाई थी, मंगोलोंने उसका इस तरह बदला लिया। गिर-दरिया और अराल के उत्तर दूर तक फैली किपचक भूमिके हूणवंशधर घुमन्तू लड़नेमें मंगोलोंके कम नहीं थे, इसलिये उनपर अधिकार करना मंगोलोंके लिये टेढ़ी खीर था। १२३८ ई० में तू-लुइ (थो-लॉड) के पुत्र मुङ्ग-खे (मङ्गू) ने अपने भाई बुद्-जेकके साथ कास्पियनके किपचकोंपर आक्रमण कर उन्हें जीत लिया। किपचक-राजा पतचीमन और असेत (ओसेत)-राजा कचर ओगोला मारे गये। कोंगोमना नगर भी मंगोलोंके हाथमें चला गया और उसका राजा रोमन ईगरपुत्र वीरगनिको प्राप्त हुआ। १५ फरवरीको मास्को लेते उन्होंने ब्लादिमिर नगरपर अधिकार कर, पुरोहितोंको छोड़कर मंगोलोंने किसीको प्राणदान देना पसंद नहीं किया। वह वस्तुतः किसी देशमें भी युद्धको केवल राजनीतिक युद्ध रखना चाहते थे और उसे धार्मिक युद्धका रूप न लेने देनेके लिये हर तरहकी कोशिश करने थे।

ओगोताइको राज्य करते ११ साल हो गये थे, जब कि दिसम्बर १२४० ई० में बा-तूको मताने कियेफ नगरका सर्वसंहार किया, वहां की सारी कलाकृतियां और इमारतें अग्निमात् कर दीं। तबसे १५ वीं सदी तकके लिये कियेफ नगर उजाड़ हो गया। इसी साल अरमनीका राजा आवक अपनी वहिन तमता के साथ ओगोताइके दरबारमें सम्मान प्रकट करनेके लिये गया। उसी साल किपचक-राजा ओतियक मलदावियाकी ओर भागा।

१२४१ ई० में मंगोल-सेना लुवलिन नगरमें दाखिल हुई और उसने विस्तुला तकके प्रदेशको लूटा तथा जलाया। सार्चमें मंगोल क्राकोफ नगरमें थे, फिर लूटते-मारते आग लगाते सेलिसियाकी ओर बढ़े। ओडेर नदीको रतिबरके पास पार कर वह ब्रेसलाके सामने पहुंचे। आगे भी योजना बना वह लूटते-पाटते लिग्नित्ज नगरकी ओर बढ़े, जहांपर बीस हजार सेनाके साथ ड्यूक हेनरी द्वितीय मुकाबिलेके लिये तैयार था। मंगोल-सेना एक लाख बतलाई जाती है, जिसमें संदेह है। काइड नदीके तटपर अवस्थित उस मैदानमें—जहां पीछे वाल-स्टाट (युद्धक्षेत्र) गांव बसा—९ अप्रैल १२४१ ई० को वह युद्ध हुआ, जिसने यूरोपके भाग्यका फैसला किया। मंगोल विजय नहीं प्राप्त कर सके, और खिसियाये हुये वहांमें एक लीगपर अवस्थित लिग्नित्ज नगरको जलाते पीछे हटे। इस युद्धमें मरे लोगोंके काफ ९ बीरे हुये थे।

इससे पहले ही १२ मार्चको बा-तूने पेस्ते साढ़े तीन दिनके रास्तेपर हुंगरोंको हराया था। लिग्नित्जसे लौटकर उसने दलमासियाको लेते अद्रियातिक समुद्रके तटपर क्रोसियन (यूगोस्लाविया) तककी विजय-यात्रा की।

इस प्रकार ११ दिसम्बर १२४६ ई० में अपनी मृत्युके समयसे पांच साल पहले ही ओगोताइने अपने साम्राज्यको पश्चिममें अद्रियातिक समुद्र और ओडेर नदीके पास तक फैले देखा। मंगोलोंका कोई अपना सामन्तवादी धर्म नहीं था, इसलिये धर्मके बारेमें वह बड़ी उदारता और तटस्थता दिखाने थे, जिससे फायदा उठानेके लिये १२४५ ई० में ईसाइयों की ल्योन-परिपद् ने मंगोलियामें गिरनरी (धर्मदूत) भेजने का निश्चय किया।

३. गू-युग, कू-युक, गो-दन, चिङ्ग-चुङ्ग (१२५१-५९ ई०)

गू-युग ओगोताइ अर्थात् बड़े हगानका पुत्र था, जिसे कूरिल्ताईने अगस्त महीनेमें खान निर्वाचित किया। यद्यपि बक्षु (आम्दरिया) के दक्षिण दिग्विजयके (खुलाकूकी अधीनतामें) मुख्यव्यथित रूपसे होनेमें अभी तीन सालकी देर थी, लेकिन मंगोल-सेनायें खुरासान और अफगानिस्तानपर छाई

हुई थीं। १२५१ ई० में मंगोलोंने लाहौरको लूटा और जलाया, इस समय दिल्लीके तख्तपर नासिर खुसरो था।

४. मुङ्ग-खे, मुङ्ग-गू, स्यान्-चुङ्ग (१२५१-५९ ई०)

मुङ्ग-खे थो (ता) लोङ्का पुत्र तथा खु-वि-लेई (कुविलेइ) का अग्रज था। अबसे एक तरह सिंहासन थो-लोङ्की संतानमें चला गया। इन्हीं दोनों भाइयोंका छोटा भाई खु-ला-कू (हुलाकू) था, जिसने ईरान और मेसोपोतामियापर भी अपनी संतानों के लिये विजय प्राप्त की। १२५१ ई० में ही, जिस साल कि लाहौर का सर्वसंहार हुआ, मंगोल-सेनायें मेसोपोतामियामें प्रविष्ट हुईं, जहां उन्होंने दियारबेकर और मेयाफरकिक का सर्वसंहार किया। इसी समय उत्तराधिकारके लिये झगड़ेका परिणाम मंगोल-राज-कुमारोंमें वैमनस्यके रूपमें दिखलाई पड़ा, जिसके लिये १२५२ ई० में कूरिल्टाई बुलाई गई। इसी कूरिल्टाईमें जहां राजकुमारोंके मुकदमोंका फैसला किया, वहां जागीरों और अधिकारोंका बंटवारा भी किया। मुङ्ग-कुङ्ग-चुङ्ग-फू (शेन्सी), होनान् कुविलेइ (ह्विलेइ) को जागीरमें मिले। उसे मुङ्ग-वंशके खिलाफ दक्षिण-चीन में अभियान करनेवाली सेनाका सेनापति भी नियुक्त किया गया। खाकानके दूसरे भाई खुलाकू (हुलाकू) को ईरानकी ओर बढ़नेका काम सौंपा गया, जिसकी सहायताके लिये कित्तू-बुकाका नियुक्त किया गया। लेकिन अभी खुलाकूकी दिग्विजय मध्य-एसियाके पहाड़ों ही तक सीमित थी।

सबसे कड़ा संघर्ष दक्षिणी चीनमें मुङ्ग-वंशके साथ होनेवाला था, जिसके लिये कुविलेने बड़ी तैयारी (१२५३ ई०) की। शेन्सीमें उसने एक बड़ी सेना जमा की, लेकिन दक्षिणकी ओर बढ़नेमें जल्दी नहीं की—मंगोल-सेनायें पूरी तैयारी और योजनाके साथ अपना अभियान किया करती थीं। १२५३ ई० में ही मंगोल-सेनाओंने पूर्वी तिब्बत ले लिया, और उसी साल मुल्तान भी उनके हाथमें चला गया। इसी साल ईसाई मिशनरी स्वर्गिक मुङ्ग-खेके दरबारमें कराकोरम पहुंचा। उसने अपने यात्रा-विवरणमें मंगोल-साम्राज्य, उसके राजपथों और राजधानीका बहुत अच्छा वर्णन किया है। उसके लिखनेसे मालूम होता है, कि राज-परिवारके लोग ईसाई, बौद्ध और मुसलमान सभीकी पूजाओंमें शामिल हुआ करते थे। मार्का पोलोंकी महान् यात्रा मुङ्ग-खेके भाई कुविलेके समय हुई, लेकिन स्वर्गिकका यात्रा-विवरण भी काम महत्त्व नहीं रखता।

फरवरी १२५४ ई० में खुलाकूने अपनी विजय-यात्रा आरम्भ की। भारी सेनाके साथ वह ईरानकी ओर बढ़ा। सन्तारमें चारों तरफ मंगोलोंकी धाक जमी हुई थी। "एक बार खूनके कीचड़ और खोपड़ियोंके बड़े-बड़े मीतार खड़ा कर गांवों और नगरोंको ऐसा ध्वस्त कर दो, कि वहां कोई रोनेवाला न रहे, फिर कोई मंगोलोंके खिलाफ उठनेकी हिम्मत नहीं करेगा"—उनकी यह नीति सफल हो रही थी। १२५६ ई० में लालो, पूर्व-दक्षिणी तिब्बत और आवा (बर्मा) के राजाओंने अधीनता स्वीकार की। कोरियाका राजा अधीनता और सम्मान-प्रदर्शन करने के लिये स्वयं हगान (खाकान) के दरबारमें पहुंचा। अगले साल (१२५७ ई० में) तोङ्ग-किन् (अनाम) और था नदी तककी भूमिने मंगोलोंको अपना स्वामी स्वीकार किया। मुङ्ग-राज पूरी तौरसे खतम नहीं हो पाया था, लेकिन कुविलेइके प्रहारोंसे अब वह कुछ ही दिनोंका मेहमान था। कुविलेइकी इस सफलतापर मुङ्ग-खेको ईर्ष्या होने लगी। दरबारियोंने उसे भड़काया, कि कुविलेइ स्वयं खाकान बनना चाहता है। कुविलेइको जब यह खबर लगी, तो वह जल्दी-जल्दी अपने भाईके दरबारमें पहुंचा। उसके सौहार्द और अधीनता-प्रदर्शनसे मुङ्ग-खे बहुत प्रसन्न हुआ और कुविलेइके साथ स्वयं मुङ्ग-राज्यपर आक्रमण करने चला। इसी साल हगानने अपने भाई खुलाकूको वक्षुके दक्षिणका सेनापति नियुक्त किया।

१८ फरवरी (१२५९ ई०) को मुङ्ग-खे चुङ्ग-कुये (सू-चाउ) में मर गया। इस समय तक सारा मंगोल-साम्राज्य एक था, और भिन्न-भिन्न खानोंने अपनी स्वतंत्रता घोषित नहीं की थी।

५. कुविलेइ, ह्वोबिलेइ, स-छेन्, शि-चू, (१२६०-९४ ई०)

ह्वोबिलेइ कुविलेइ खानके नामसे अधिक प्रसिद्ध है। भाईके मरनेके बाद इसने कूरिल्टाईके निर्वाचनकी प्रतीक्षा न कर तुरन्त अपनेको हगान घोषित किया, लेकिन कूरिल्टाईकी रसमको वह हटाना नहीं

चाहता था। इसी साल उसने शाङ्-तू (कै-पिङ्-हू) में अपने लिये एक प्रासाद तथा किनने ही बौद्ध मंदिर बनवाये। मंगोल-सम्राटोंमें यही सबसे पहला सम्राट् था, जिसने सांस्कृतिक बातोंके महत्त्वको समझा। इसने जहां सांस्कृतिक जीवनकी बहुत-सी बाहरी बातें चीनसे लीं, वहां धर्मके रूपमें बौद्धधर्मको स्वीकार किया। गद्दी पर बैठनेके साल ही इसने शाङ्-तूमें कूरिलताई बुलवाई, जिनसे कुबिलेइको खाकान घोषित किया। फिर लाखोंकी संख्यामें एकत्रित सैनिकों और हजारों सरदारोंकी चार दिन तक भारी दावन चलती रही, बड़ा महोत्सव मनाया गया। इतना सब होनेके बाद भी गृहयुद्धकी आग भड़क उठी, जिसमें कुबिलेइके एक अपने भाईने भी हाथ बंटाया। कुबिलेइका छोटा भाई खुलाकू दूर ईरानमें था। वह आखिर तक अपने भाईका अनुगामी हो अपने राज्यको वृहत् मंगोल-साम्राज्यका अंग मानना रहा। इसका प्रभाव एक यह भी हुआ, कि ईरान और मेसोपोतामिया जैसे मुस्लिम दुनियाके गढ़में हुलाकू-वंश पीढ़ियों तक अपनेको बौद्ध रखनेकी कोशिश करता रहा। १२ सितम्बर १२५९ ई० को प्रस्थान कर हुलाकूने दियारबेकर, जजीरत (मेसोपोतामिया), रोहा, एदेस्सा, अर्जहम और निसिबीयर अधिकार कर लिया। रोहाके पास उसने भारी सैनिक प्रदर्शन किया, जिसमें अरमेनिया, रूम (सल्जूकी) आदिके राजा भी उपस्थित थे। प्रतिरोध करनेके अपराध में हलव (अलेप्पो) का सर्वसंहार हुआ। दमिश्कने आसानीसे मंगोल-जुआ स्वीकार कर लिया। इसी समय १२६० ई० में कुबिलेइके नामसे हुलाकूने नोट चलाया, जो दुनियाका सबसे पुराना कागजी नोट था।

दो वर्षके शासनमें गृह-युद्ध इतना भयंकर रूप ले चुका था, कि उसे दबानेके लिये १२६१ ई० में कुबिलेइको स्वयं मंगोलियापर धावा करना पड़ा। इस लड़ाईमें उसका प्रतिद्वंद्वी अरिगबूका पराजित हो कुछ दिनों बाद मर गया। कुबिलेइ अब अपनी स्थितिको ज्यादा मजबूत समझता था। यद्यपि चीनमें भी बौद्ध-धर्मका प्रचार था, लेकिन कुबिलेइने उसे तिब्बतसे स्वीकार किया। जिस समय मंगोल-सेनायें देश-विजयमें लगी हुई थीं, उसी समय तिब्बतके एक दूरदर्शी तथा अद्वितीय विद्वान् सक्पा महापंडित आनन्दध्वजने—जो सक्पापण्छेन्के नामसे अधिक प्रसिद्ध हैं—मंगोलियामें अपने धर्मप्रचारक भेजे। ईसाई खबरिक और मुल्लाओंको अपने काममें उतनी सफलता नहीं मिली, जितना कि गुमनाम तिब्बतसे आये बौद्ध-धर्मगतोंको। सक्पा पण्छेन्के उत्तराधिकारी तथा भतीजे लो-डो-ग्यल्-छेन्को कुबिलेइके गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। १२६१ ई० में कुबिलेइने अपने गुरुको फग्-पा लामा (आर्यगुरु) की उपाधि दी, जिसके ही नामसे वह आजकल तिब्बतमें मशहूर हैं। कुबिलेइको दूर मंगोलियाका कराकोरम राजधानीके लिये अनुकूल नहीं मालूम हुआ। पितृदेश होनेके कारण मंगोलियाके साथ चाहे जितना ही मद्-भाव हो, लेकिन एक विशाल साम्राज्यके शासनके लिये उपयुक्त स्थान वही हो सकता था, जहांमे यातायातकी सुविधा हो। पे-किङ्को ऐसा ही स्थान कुबिलेइने समझा और वही उसकी राजधानी बनी। १२६३ ई० में कुबिलेइने पितरोंकी पूजाके लिये वहां एक विशाल ताइ-न्याउ (धर्मशाला) बनवाई।

सुङ्-राज्यका अभी खतमा नहीं हुआ था। १२६४ ई० में सुङ्-सम्राट् ली-चुङ्के मरनेपर उसका भतीजा तू-चुङ् गद्दीपर बैठा। मंगोलोंने सुङ्-शक्तिको इतना सीमित कर दिया गया था, कि कुबिलेइ को उससे बहुत खतरा नहीं था, अतएव उसे जल्दी नहीं थी। १२६५ ई० में जगताइ खान मुबारकशाह मर गया, कुबिलेइने उसकी जगह बोरकको खान बनाया। अभी कुबिलेइका प्रतिद्वंद्वी अरिगबूका जिंदा था और १२६६ ई० में उसके मर जानेपर ही कुबिलेइको भारी खतरेसे मुक्ति मिली। इसी साल कई और मंगोल-खानोंकी मृत्यु हुई। सुवर्ण-ओर्दू खान बेरेक, जगताइ खान अलगू और मुबारकशाह, ईरानका खान हुलाकू मर चुके थे। हुलाकूकी जगह अबका ईरानका, मंगू तेमूर सुवर्ण-ओर्दूका और जगताइका मुबारकशाह खान बनाये गये। मुबारकशाहके जल्दी ही मर जानेपर कुबिलेइने बोरकको उसके स्थान पर नियुक्त किया।

१२६७ ई० में कुबिलेइने सुङ्-वंशका उच्छेद करनेके लिये दक्षिणी चीनके बचे हिस्सेपर आक्रमण किया। सबसे कड़ी लड़ाई सियाङ्-याङ् (सियाङ्-फू) में हुई। १२६८ ई० में मंगोल-सेनाने उसे चारों ओरसे घेर लिया, लेकिन उसे तीन साल तक नगरपर अधिकार करनेमें सफलता नहीं मिली। १२६६ ई० में कुबिलेइने जापानको अधीनता स्वीकार करनेके लिये पत्र लिखा, लेकिन अभिमानी जापानियोंने उसे माननेसे इन्कार कर दिया। सियाङ्-याङ्के मुहासरेके आरम्भके साथ-साथ कुबिलेइने जापानपर आक्रमण

मण करनेके लिये भारी तैयारी करनी शुरू की। द्वीप होनेके कारण जापानपर नौसेनासे ही आक्रमण किया जा सकता था, जिनके लिये हजारों जंगी जहाज बनाये जाने लगे।

चीनी भाषाके लिखनेके लिये वर्णमाला नहीं शब्द-मंकेतका उपयोग होता है, जिसमें अंकोंकी तरह कुछ गुंभीरे भी हैं, लेकिन उसमें उच्चारण-संकेतके लिये कोई स्थान नहीं है। मंगोल-भाषा उइगुर (सिरियावाली) लिपिमें लिखी जाती थी, जिनमें डेढ़ दर्जन भी अक्षर न होनेसे उच्चारण ठीक-ठीक रखना सम्भव नहीं था। कुविलेइके कहनेपर भारतीय और उससे निकली तिब्बती लिपिसे सुपरिचित होनेके कारण फरमाने १२६९ ई० में मंगोल-भाषाके लिये एक विशेष लिपि बनाई। इसी साल उसे कुविलेइने ता-पाउ-फा-वङ्की उपाधि प्रदान की। १२७१ ई० में कुविलेइने अपने वंशका नया नाम यु-अन रखा, जिस नामसे वह यंत्र आज भी चीनमें प्रसिद्ध है। इसी साल बर्मा (मी-यन) के राजासे अधीनता मनवानेके लिये मंगोल-सेना भेजी गई। १२७४ ई० में जहां सियाङ्-याङ्के विजयसे सम्राट्को बड़ी प्रसन्नता हुई, वहां यह खबर सुनकर बहुत खेद भी हुआ, कि मंगोल नौसेना चु-सिमाकी खाड़ी में जापानियों द्वारा घोर रूपसे पराजित हुई, सारा सैनिक बेड़ा नष्ट हो गया। इसमें शक नहीं उस समय जापानियोंसे भी भारी यद्दु सामुद्रिक तूफान हुआ।

अज्ञात समुद्रके बीचमें हुई चु-सीमाकी हार कुविलेइके विशाल साम्राज्य में उसकी धाकके कम होनेका कारण नहीं हो सकती थी। हां, जापानियोंमें यह भाव जरूर पैदा हो गया, कि हमारा देश अजेय है। सबमुक्त ही आगे की ६ शताब्दियों तक जापान बाहरी शत्रुओंसे बचा रहा, जब तक कि अमरीकी नौसेनाने १९ वीं शताब्दीके मध्यमें बुरी तरहसे हराकर जापानियोंकी आंखें नहीं खोल दीं। अगले साल १२७५ ई० में सेनापति बायतने चिङ्-चाउ नगरपर आक्रमण किया। नगर-निवासियोंको प्रतिरोध करनेका यही फल मिला, कि सेनापतिके हुकमसे लोगोंकी निर्मम हत्या की गई। इसी साल लिङ्-अन् राजधानी-पर भी मंगोलोंने अधिकार कर लिया। तबण सम्राट्की अभिभाविका सम्राज्ञीने अधीनता-स्वीकृतिके प्रतीकके रूपमें राजसिंहासनको भेजा; लेकिन सेनापति बायतनको यह अधिकार नहीं था, कि वह मुङ्ग-वंशका अवशेष भी रहने दे। उसने नगर-प्रबंधके लिये चीनियों और मंगोलोंकी एक परिषद् नियुक्त की। यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि उत्तरी चीन आधी शताब्दी पहिले हीसे मंगोलोंके हाथमें था, इसलिये मंगोल-भवन चीनियोंकी कमी नहीं थी। चार मंगोल-अफसर राजधानीकी चीजोंके संग्रह करनेके लिये नियुक्त हुये। उन्होंने भिन्न-भिन्न राज्यविभागों की मुद्रायें जमा कीं। अभिलेखा-गारमें उन्हें बहुत-सी किताबें, बही-खाते, ऐतिहासिक स्मृतिचिन्ह, भूगोल और ज्योतिष-सम्बन्धी रेखाचित्र आदि मिले। लिङ्-अन् (हङ्-चाउ) चीनकी सबसे बड़ी नगरी थी। उसका घेरा सी मील (२४ फरसक) था। नदीको आर-पार करने तथा दूसरे कामोंके लिये नगरमें बारह हजार पुल थे। नगर बारह विभागोंमें विभक्त था, जिनमेंसे हरएकमें बारह हजार घर तथा प्रत्येक घरमें बारह, बीस, चालीस तक व्यक्ति रहते थे। नगरके घर अधिकतर लकड़ीके थे। राजप्रासादमें बीस बड़े-बड़े हाल थे। सबसे बड़ी राजशाला खूब सजी हुई थी। उसकी दीवारोंपर ऐतिहासिक दृश्य सोनेसे चित्रित थे। सब मिलाकर नगरमें सोलह लाख आदमी रहते थे—बतीस हजार तोसिर्फ रंग्रेजोंके घर थे। सात सौ मंदिर थे। सेनापति बायतने राजमाता, रानी, सम्राट् ली-चुङ् और उसके अनुचरोंको खानके पास भेज दिया। महल छोड़नेसे पहले राजमाता और सम्राट्को खाकान (उत्तर) की ओर मुंह करके सात बार दंडवत् करनी पड़ी। कुविलेइकी प्रधान खातून (रानी) ने राजमाता और रानीके साथ अच्छा बर्ताव किया। राजधानीसे लाये सोने-चांदी और दूसरे खजानेको देखकर खातून रो पड़ी। वह इस प्राचीन राजवंशके ध्वंसमें मंगोल-राजवंशके उच्छेदकी छाया देख रही थी, सोच रही थी, “उस समय मेरे बच्चों की भी यही हालत होगी, जो कि आज (१२७७ ई०) इनकी हो रही है। मेरे वंशकी राजमाता, रानी और सम्राट्को भी एक दिन इसी तरह बेइज्जत हो बंदी बनना पड़ेगा।” लेकिन, मंगोल-वंशका अंत सुडकी तरह नहीं हुआ, क्योंकि मंगोलिया इस वंशको शरण देनेके लिये मौजूद थी।

कुविलेइका राज्यकाल केवल राजसी तडक-भड़क और दिग्विजयोंके लिये ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि कला और विज्ञानके भारी विकासका भी यही समय था। उसके गणितज्ञ तू-चीने १२८० ई० में राजाज्ञा पाकर ह्वाङ्-हो (पीत नदी) के उद्गमका पता लगानेका काम चार मासमें खतम किया।

१२८७ ई० में तोङ्क-किङ्क (हिन्द-चीन) ने अधीनता स्वीकार की। १२९० ई० में १०३ जिल्लोंमें आज भी मौजूद कंजूर (तिब्बती त्रिपिटक) को कुबिलेइने सुवर्णाक्षरोंमें लिखवाया। जापानमें नौसैनिक अभियान में असफल होनेपर भी कुबिलेइने समुद्र-विजयके निश्चयको छोड़ा नहीं। मृत्युमें एक साल पहिले १२९३ ई० में उसने तीस हजार सेनाके साथ एक हजार जंगी जहाज जावा आदिकी विजयके लिये भेजे। कुछ संघर्षके बाद जावाने अधीनता स्वीकार की।

जिस साल सुङ्क राजधानीका पतन हुआ, उसी साल मंगोल-सेनापति नासिहद्दीनने बर्मा और बंगालपर आक्रमण किया। बर्माकी राजधानीपर वह अधिकार नहीं कर सका, लेकिन दोनों देशों ने मंगोलोंकी आंशिक अधीनता जरूर स्वीकार कर ली। १२८४ ई० में बर्मापर पूरी तौरसे भी अधिकार हो गया। इसी समय कोचीन-चीनपर भी मंगोलोंने आक्रमण किया। इसी साल कुबिलेइ का दूत बुद्धकी दंत-धातुकी पूजाके लिये लंका पहुंचा। १२८७ ई० में तोङ्क-किङ्क (कोचीन-चीन) ने मंगोल-अधीनता स्वीकार कर ली।

पैंतीस साल राज्य करनेके बाद १२८४ ई० में अस्सी वर्षकी उमरमें कुबिलेइ हगानका देहान्त हुआ। "इतने बड़े साम्राज्यपर कुबिलेइसे पहले किसी एक व्यक्तिके शासन नहीं किया था। उसके राज्यमें सारा चीन, कोरिया, तोङ्क-किङ्क (कोचीन-चीन), गंगासे परे और पंजाबकी बहुत-सी भारतीय भूमि, साइबेरियासे तुर्की तकके देश, और पोलैंड और हंगरी तककी भूमि सम्मिलित थीं।"

(१) **मार्को-पोलो**—कुबिलेइके शासन और कालके ऊपर वेनिस-निवासी प्रसिद्ध पर्यटक मार्को पोलोकी यात्रा-पुस्तक द्वारा बहुत प्रकाश पड़ता है। १३ वीं शताब्दीमें वेनिस नगर युरोपका सबसे बड़ा व्यापार-केंद्र था। वेनिसी व्यापारियोंने सभी देशोंमें अपनी कोठियों के जाल बिछा रखे थे। इन्हीं व्यापारियोंमेंसे दो जौहरी-भाई मफियो और पोलो १२५५ ई० में व्यापार करने कान्स्तन्तिनोपोल आये। दोनों भाइयोंने वहां अपने रत्नोंका बहुत अच्छा दाम पाया। उससे उत्साहित होकर वह पासके क्षुद्र-एशियाके मंगोल-शासित प्रदेशमें सौदा करनेकी गरजसे प्रविष्ट हुये। यह भूमि हुलाकू-वंशके अधीन थी। वहां उन्हें कुबिलेइ खानका दूत मिला, जिसने पोलोसे साथ पेकिङ्क चलनेका प्रस्ताव किया। मंगोल-साम्राज्यमें जितना सुरक्षित यातायातका प्रबंध था, उतना उससे पहले और बावकी भी कई शताब्दियों तक नहीं देखा गया। मंगोलों का इतना आतंक था, कि कोई चोरी-बटमारी करनेकी हिम्मत नहीं करता था। युरोपसे चीनकी पूर्वी छोर तक लोग निश्चित हो स्थल-यात्रा करते थे। सामुद्रिक यात्राका भी अच्छा प्रबंध था। दोनों वेनिसी व्यापारी मंगोल-दूतके साथ कुछ समय बाद कुबिलेइके दरबारमें पहुंचे। हगानने उनका बड़ा सम्मान किया। उस समय पश्चिमी युरोपमें रोमके पोपका जबर्दस्त प्रभाव था। वह धार्मिक महन्त ही नहीं, बल्कि राजाओंका भी राजा था—किसी को गद्दीपर बैठाना या उतारना उसके बायें हाथका खेल था। कुबिलेइने पूरबके स्वामीके तौरपर पश्चिमी देशोंके प्रमुख पोप ग्रेगरीको एक पत्र लिखकर पोलोके हाथ भेजा। पोपने इस अवसरसे लाभ उठाना चाहा। हमें मालूम ही है, इससे पहले ही स्वरिक मुङ्क-खेके दरबारमें कराकोरम पहुंचा था। पोपने अपने संदेशको सुरक्षित पहुंचानेके लिये फिर निकोलो पोलोको चीन जानेके लिये मजबूर किया। अबकी बार निकोलोने अपने भाई मफियोको ही नहीं बल्कि सत्रह सालके पुत्र मार्को को भी साथ लिया। ईरान, मध्य-एशिया, पामीर, पूर्वी-तुर्किस्तान होते तीनों पोलो चीन पहुंचे। खानने उनका बड़ा सम्मान किया। मार्को पोलोकी प्रतिभा और योग्यतासे प्रभावित हो कुबिलेइने उसपर अधिक अनुकम्पा दिखलाई। उसे साम्राज्यके भिन्न-भिन्न भागोंमें भौगोलिक तथा दूसरी खोजें करनेके लिये भेजा। अन्तमें बढ़ते-बढ़ते मार्कोको याङ्क-चाउ जैसे एक बड़े समृद्ध नगरका राज्यपाल बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। पोलो बाप-बेटे सत्रह साल चीनमें रहे। गणतंत्री वेनिस नगरके नागरिक होनेके कारण वह केवल बनिया ही नहीं बल्कि सैनिक और दूसरी विद्याओंका भी काफी ज्ञान रखते थे। उन्होंने अपने पश्चिमी दुनियाके ज्ञान-द्वारा मंगोल-शासनको बहुत लाभ पहुंचाया। यद्यपि बारूदकी प्रारम्भिक तोपों, और पाषाणक्षेपक यंत्र (कताकुल) का उपयोग छिङ्क-गिस खानने भी किया था, लेकिन उसमें अब बहुत-से सुधार और विकास

किये गये, जिसमें पोलोका भी हाथ था। इनके सुझावके अनुसार बनाये हुये हथियारोंका इस्तेमाल १२७३ ई० में सियाङ्ग-याङ्ग नगरके मुहासिरेमें किया गया। उस अजेय नगरीको नतमस्तक करनेमें इन यंत्रोंका बहुत हाथ था, इसमें संदेह नहीं।

पोलो बड़े सम्मान और आनन्दके साथ चीन में रह रहे थे, लेकिन उधर मातृनगरी वेनिस इतना अपनी ओर खींच रही थी, कि उनकी नजरोंमें यह सारा सुख और आनन्द फीका था। उनकी प्रार्थनापर कुविलेइ खानने प्रसन्नतापूर्वक बिदाई दी। इसी समय एक मंगोल-राजकुमारी ईरानके मंगोल-राजकुमार के साथ ब्याह करनेके लिये भेजी जा रही थी। पोलो वाप-बेटों को भी उसी बधू-यात्रामें सम्मिलित कर दिया गया। अबके उनकी यात्रा समुद्र-मार्गसे हुई। वह अठारह महीने बाद पारसकी खाड़ी में पहुँचे, बन्दरगाहसे राजकुमारीको स्वागत कर समुद्रालवाले ले गये और पोलो वाप-बेटोंने वेनिसका रास्ता लिया, जहाँ कान्स्तंतिनोपोल होते १२९५ ई० में पहुँचे। तब तक कुविलेइको मरे एक साल हो गया था। हित-मित्र पोलोकी यात्राओंको सुनते नहीं थकते थे, लेकिन साथ ही वह इस बातका विश्वास करनेके लिये तैयार नहीं थे, कि हगानका राजस्व प्रतिवर्ष एकसे डेढ़ करोड़ सुवर्ण दुकान है, तथा उसके अधीन मिलियनों (करोड़ों) मानव हैं। इस संख्यापर विश्वास न कर उन्होंने मार्कोंको 'मिलियनी' (करोड़ी) नाम दे दिया था। उस युगमें युरोपमें पड़ोसी देशोंके झगड़े आम थे। वेनिस गणराज्यका झगड़ा गेनवावालोंसे था। इसी लड़ाईमें मार्को पोलो भी भाग लेने गया और युद्धबंदी बना। अपने बंदी-जीवनमें ही मार्को पोलोने अपनी यात्रा-कथा मध्यकालीन लेखक रस्तिसियन-दे-पीसाको सुनाई, जिसने उसके आधारपर "मार्को पोलोकी यात्रायें" नामक प्रसिद्ध पुस्तक तैयार की। मार्को पोलोकी यह यात्रा दुनियाकी यात्रा-पुस्तकों में सिरमौर मानी जाती है, जिसमें उसने अपने देखे हुये स्थानों, व्यक्तियों, रीति-रवाजों और दूसरी चीजोंका बड़ा सुंदर विवरण दिया है। वह कहता है— "सम्राटके दूत काम्बालू (खान-बालिग, पेकिङ्ग) से यात्रा करते समय हर पचीस मीलपर टिकान पाते हैं, जिसे वह लोग घोड़ाचौकी कहते हैं। प्रत्येक मंजिलपर एक बड़ी और सुंदर इमारत उनके ठहरनेके लिये बनी है। इमारतके सभी कमरे बढ़िया कालीनों और कीमती रेशमों से सजाये गये हैं। अगर कोई राजा भी इन मकानोंमें आ जाये, तो वह बड़े आरामसे ठहर सकता है। इन चौकियोंमेंसे कितनोंमें चार सौ और किन्हीं-किन्हींमें दो सौ घोड़े तैयार रहते हैं। चाहे दूतको ऐसी बे-रास्तेकी भूमिमें भी जाना पड़ रहा हो, जहाँपर टिकानकी आशा नहीं हो सकती, वहाँ भी कुछ फामलेपर ऐसा विश्राम-स्थान मिल जायेगा, जहाँ सभी आवश्यक चीजोंका प्रबंध होगा। इसीलिये सम्राटके दून चाहे जिन देशसे भी आयें, उनके लिये वहाँ सभी चीजें तैयार मिलती हैं।

"जो सम्पत्ति और समृद्धि खाकानके यहाँ देखी जाती है, उसे कभी किसी सम्राट, राजा या राजकुले पास नहीं देखा गया। इन सभी विश्रामस्थानोंमें दो लाख घोड़े तैयार रहते हैं, और इमारतें दस हजारसे ज्यादा हैं। सामान इतने बड़े पैमानेपर और अद्भुत ढंगके हैं, कि उनका वर्णन करना मुश्किल है।

"इस प्रबंधसे खाकान दस दिनकी दूरीके स्थानोंके समाचार एक दिन-रातमें पा लेता है। कितनी ही बार सबेरेके वक्त काम्बालू (पेकिङ्ग) से फल रवाना किया जाता है, और दूसरे दिन शामको वह खाकानके पास चेन्-दू (सन्दा) में पहुँच जाता है। आदमी एक दिनमें दो-डोई सौ मील चले जाते हैं, और उतनी ही यात्रा वह रातको करते हैं। इन दूतोंके शरीरपर एक चौड़ी पट्टी बंधी रहती है, जिसके चारों ओर घंटियाँ लगी रहती हैं। घंटियाँ दूरसे ही सुनाई देती हैं, जिसके कारण चौकीपर पहुँचनेके समय दूसरा दूत वहाँ तैयार मिलता है, जो उसी तरह पहले दूतको लाई चीजको लेकर घोड़ा दौड़ाने लगता है। चौकीका लेखक चीजकी प्राप्तिकी खिच आये हुये दूतको दे देनेके लिये हर वक्त तैयार रहता है। हर चौकीका लेखक दूतके आगमन और प्रस्थानका समय लिख लेता है। हर चौकीपर लगाम-चारजामा लगे तैयार ताजे घोड़े मौजूद रहते हैं। बस उसपर चढ़ो और पूरी चालते दौड़ाओ। फिर दूसरी चौकीपर जब दूरसे घंटीकी आवाज सुनाई देती है, तो दूसरा घोड़ा और सवार तैयार हो जाता है। जिस वेगसे वह दौड़ते हैं, वह बड़ा अद्भुत है। रातको भी वह उतना ही तेज चलते हैं, जितना दिनको, क्योंकि उनके साथ मशालची सवार होते हैं।

“ये घोड़सवार-दूत बहुत अच्छा वेतन पाते हैं। वह इतने मुश्किल कामको बिना अपने पेट, सिर और छातीको मजबूत पट्टीसे बांधे नहीं कर सकते। वह अपने साथ एक अंकित पट्टिका ले चलते हैं, जो इस बातको प्रकट करती है, कि वह बहुत जरूरी कामके लिये जा रहे हैं। इसीलिये यदि संयोगमे कहीं घोड़ेके अंग-भंग होने या गिर जाने से दूत सड़कपर पड़ जाये, तो वह दूसरा घोड़ा ले सका है। कोई उसकी मांगसे इन्कार नहीं कर सकता।”

मार्को पोलोने बतलाया है, कि उस समय प्रत्येक बड़े शहरमें एक दारोगा रहता था, जिम्मा काम था रास्तेकी देख-भाल करना।

4(२)जाति-व्यवस्था—चाहे भारतकी तरहकी कड़ी जाति-व्यवस्था न हो, किन्तु सभी सामन्ती शासनमें जातिभेदका होना आवश्यक देखा जाता है। ६ठी-७वीं शताब्दीमें ईरानमें जातिभेद करीब-करीब उगी तरहका था, जैसा भारतमें। मंगोलोंसे पहले चीनमें भी जातिभेद था। मंगोलोंने भी अपनी प्रजाको चार वर्गमें बांटा था, जिनमें प्रथममें उनके अपने मंगोल आते थे, द्वितीय वर्गमें से-मू (तुर्क मुसलमान), तूफान (तिब्बती), तुंगुत, मध्य-एसिया तथा पश्चिमी एसिया के दूसरे वह लोग थे, जो मंगोलोंके साथ नसली या सांस्कृतिक समीपता रखते थे। तीसरे वर्गमें उत्तरी चीनवाले थे, जो कि किन्-शासनके बाद मंगोल-शासन में आये थे। चौथे वर्ग में सुइ-साम्राज्यमें रहनेवाले दक्षिणी चीनी थे, जिन्होंने मंगोलोंका जबर्दस्त प्रतिरोध किया था, इसीलिये उन्हें सबसे निचले वर्गमें रखा गया था। पहले इन्हें किसी राजकीय सेवामें भरती होनेका अधिकार भी नहीं था। चीनमें पहलेसे चली आती अधिकारियोंकी परीक्षाओंमें यद्यपि चीनियोंके सम्मिलित होनेमें कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन चाहे चीनी परीक्षामें उच्चमे उच्च स्थान पाये, तब भी बाईं ओरकी सूचीमें उसका नाम लिखा जाता था, जब कि मंगोल और से-मू दक्षिणी सूचीमें स्थान पाते थे। नौकरीमें ले लेनेपर भी चीनियोंको मंगोल-भाषा सीखने और मंगोलोंके धर्मके प्रति सम्मान दिखानेके लिये मजबूर होना पड़ता। दंड देनेमें भी भेद-भाव रखा जाता। यदि कोई चीनी चोरी करता, तो पहले अपराधके लिये उसकी बाईं बांहमें गोदना गोद दिया जाता, दूसरी बार अपराध करनेपर दाहिनी बांहमें, तीसरी बार गर्दनपर, जिसे देखकर कोई भी आदमी अपराधीको पहिचान सकता था। लेकिन, उसी अपराधके लिये मंगोलोंको इस तरहका दंड नहीं दे मामूली जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता था। अगर कोई चीनी किसी मंगोल या से-मू को मार डालता, तो उसे मृत्यु-दंड मिलना और हत्यारेके परिवारसे धन वसूल करके मृत व्यक्तिकी अन्त्येष्टि आदिका खर्च दिलाया जाता। अगर हत्यारा मंगोल होता, तो उसे शराब के नशे, या झगड़ेके पागलपनको कारण बतलाकर जुर्माना या निर्वासनका दंडभर करके छोड़ दिया जाता था। १२७९ ई० की एक मंगोल-राजाज्ञाके अनुसार चीनियोंको हथियार रखनेका अधिकार नहीं था। धनुष-बाण भी न रख पानेके कारण वह शिकार नहीं कर सकते थे। भारतके अंग्रेज शासकोंकी तरह चीनमें मंगोल-शासकोंने भी जगह-जगह मंगोल-छावनियां कायम की थीं।

और भी विस्तृत वर्गीकरण करते हुये मंगोलोंने अपनी प्रजाको निम्न दस श्रेणियों में बांटा था—

(१) उच्च दरबारी, (२) अधीनस्थ या स्थानीय अफसर, (३) लामा (साधु), (४) ताड-साधु, (५) वैद्य, (६) कारीगर और मजूर, (७) शिकारी, (८) पेशावर लोग, (९) कन्फूसी पुरोहित और (१०) भिखमंगे। मंगोल कन्फूसी आचार्योंको बहुत नीची दृष्टिसे देखते थे, जत्र कि पुराने चीनी शासनमें कन्फूसी विद्वानों का स्थान राजवंशके बाद ही आता था। इसमें शक नहीं, चीनी विद्या और संस्कृतिके निधिरक्षकोंको उनके अनुरूप स्थान न दे मंगोलोंने बुरा किया था; लेकिन वह यह भी जानते थे, कि चीनी संस्कृति और सामन्तवादके इन अंधे पुजारियोंसे अपने लिये, हम कोई भलाईकी आशा नहीं रख सकते थे। कन्फूसी यदि केवल चीनी संस्कृति और कलाके ही नेता होते, तो समझौता हो जाता, अथवा यदि मंगोल पूरी तौरसे चीनी बननेके लिये तैयार होते, तब भी कन्फूसी विद्वानोंकी भिखारियोंके पास बैठनेकी जरूरत नहीं पड़ती। कन्फूसी शिक्षा और विद्वानोंके प्रभावको चीनके सभी सामन्ती शासक अपने लाभके लिये इस्तेमाल करते रहे। अभी हालमें चाङ्-काई-शाकने भी इस हथियारका पूरी तौरसे उपयोग करना चाहा। शासकके प्रति आंख मूंदकर सद्भावना और आज्ञाकारिता प्रदर्शित करना कन्फूसी शिक्षाका एक मुख्य अंग है, इसीलिये शासकोंकी उनपर विशेष अनुकम्पा होनी स्वा-

भाविक है। लेकिन कन्फूसी साहित्य और शिक्षामें एकमात्र दास-मनोवृत्ति सिखलाना ही नहीं है, उसमें कितनेही और भी उच्च सांस्कृतिक तत्त्व हैं, जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसका नीर-शीर-विवेक करते उपयोग करना नवीन चीनमें ही सम्भव हो सकता है।

मंगोल खाकान गैर-मंगोल जातियोंके लिये स्वेच्छारी और कितनी ही बार अतिनिष्ठुर शासक थे, लेकिन उस निष्ठुरताका प्रयोग वह हर वक्त नहीं करते थे। यद्यपि मंगोलोंके साथ उनका खास पक्षपात था, लेकिन अधीनस्थ जातियोंको भी वह अधिकारोंसे सवथा वंचित नहीं रखते थे। प्रायः सभी विजित देशोंमें उन्होंने पुराने राजाओं और सुल्तानोंको अपने अधीन शासक बनाकर रख छोड़ा, सिवाय उन देशोंके जहाँके लोगोंने उनका जबरईस्त प्रतिरोध किया था। कुविलेईने यद्यपि खानबालिग (पेकिङ्ग) को अपनी राजधानी बना उसे भव्य प्रासादोंवाली समृद्ध नगरीमें परिणत कर दिया था, लेकिन उसका भी अधिक समय तम्बुओंके भीतर बीतता था। मंगोल अपने घुमंतू जीवनको सैनिक जीवनका पर्याय समझते थे, इसीलिये चीन या दूसरे देशों पर शासन करनेवाले सभी मंगोल-खाकानोंकी राजधानियां चिड़िया-रैनबसेरा जैसी ही थीं। मंगोल-भाषामें राजधानी और प्रासादों को सराय कहते हैं। उसका अर्थ मुसाफिरोकी सरायका हर्गिज नहीं था। मार्को पोलोके अनुसार राजपथोंके हर मंजिलपर “सराय” (प्रासाद) थी, शायद उसीके कारण मुसाफिरोकी टिकानको भी सराय कहा जाने लगा। राजकुमारों और बड़े-बड़े सैनिक अफसरोंको राज्यके भीतर अपने-अपने भूखण्ड मिले हुये थे, जिनपर वह अपनी मर्जीके मुताबिक शासन करते थे। यद्यपि छिङ्ग-गिस्ने मध्य-एशियाके मुसलमानोंके साथ बड़ी क्रूरताका बर्ताव किया था, बलख, मेर्व, तूस जैसे कितने ही समृद्ध नगरोंकी वस्तुतः उमने ईटसे ईट वजा दी थी, जिसके कारण वह फिर नहीं उठ सके; लेकिन, पीछे मंगोलोंका बर्ताव मुस्लिम जातियोंके अधिक सहानुभूतिपूर्ण था, यह इसीसे पता लगता है, कि इन जातियोंको उन्होंने चारों वर्गोंमेंसे द्वितीय वर्गमें रखवा था। कुविले खानकी बर्मा और बंगालपर आक्रमण करनेवाली सेना का सेनापति नासिस्हीन भी इसका स्पष्ट उदाहरण है—मंगोल ऊँचे सैनिक पद को भी मुसलमानोंको देनेके लिये तैयार थे। इसका एक और भी कारण था—चाहे मध्य-एशियाके तुर्क मुसलमान हो गये हों, लेकिन जातितः वह मंगोलोंके भाई-बन्द थे। रूसियों और पश्चिमी जातियोंके खिलाफ अभियान करते समय मंगोलोंने किपचक तुर्कोंसे भाईचारा लगाकर उन्हें अपनी ओर कर लिया था, जिससे उन्हें एक लड़ाकू जाति सहायक मिल गई।

मंगोल-भाषाके प्रति मंगोल-शासकोंका अधिक पक्षपात स्वाभाविक था। उनके आज्ञापत्र उइगुर लिपिमें लिखी मंगोल-भाषामें हुआ करते थे। १३वीं शताब्दीके आरम्भमें चली हुई यह परिपाटी १५वीं शताब्दीके आरम्भ तक तेमूरलंग और उसके पुत्रोंके समय तक जारी रही। कट्टर मुसलमान होते भी यह लोग छिङ्ग-गिस् की वरासतको छोड़नेके लिये तैयार नहीं थे। लेकिन, मंगोल-भाषाका विकास जितना होना चाहिये था, उतना नहीं हो सका। “मंगोल-उन्निगुवा” (तोपचियां), “युवान-चाउ-बि-शी” जैसे कुछ इतिहास या दूसरे विषयोंके ग्रंथ उस समय मंगोल-भाषामें लिखे गये। पीछेके मंगोल-शासकोंके लिये ग्रंथ अधिकतर चीनी या पारसीमें लिखे गये, जो प्रायः इतिहाससे संबंध रखते थे। चीनमें मंगोल-भाषामें जो ग्रंथ लिखे गये, उनके अनुवाद चीनीमें भी हुये थे, पीछे मूल (मंगोल) ग्रंथ लुप्त हो गये और उनके चीनी अनुवाद भर बच रहे। कुविलेई खानने अपना ही नहीं अपने वंशका भी धर्म बौद्ध-धर्मको घोषित किया और अपने गुरु फग्पा लामाको तिब्बतका राज्य प्रदान किया, किन्तु उसने बौद्ध-ग्रंथोंके मंगोल-अनुवादका काम बहुत आगे नहीं बढ़ाया। १५ महाभारतोंके बराबर भारतीय ग्रंथोंके अनुवाद कन्जुर (बुद्ध-वचनानुवाद) और तन्जुर (शास्त्रानुवाद) के नामसे तिब्बती भाषामें मौजूद थे। उनमें (तिब्बती) कन्जुरको कुविलेई खानने स्वयं सोनेके अक्षरों में लिखवाया था, लेकिन उनका मंगोल-अनुवाद उस समय हुआ, जब चीनसे मंगोल-शासन खतम हो गया। मंगोल शायद संस्कृतकी तरह तिब्बती भाषामें ही धर्म-ग्रंथों का पढ़ना ज्यादा पुण्यदायक समझते थे। आज भी मंगोलियांमें कन्जुर और तन्जुरके मंगोल-भाषामें हो जानेपर भी उन्हें तिब्बती भाषामें पढ़ना ज्यादा पुण्यकार्य समझा जाता है। शायद यह भी कारण रहा हो, लेकिन उस समय आजकी तरह मंगोलोंमें तिब्बती भाषाका प्रचार नहीं था, इसलिये अधिकांश लोग तिब्बती ग्रंथोंको बिना समझे ही पढ़ सकते थे।

मंगोलोंके समयसे पहले ही चीनी कलाका सुवर्ण-युग थाङ्क-काल (६१८-८६९ ई०) कीत चुका था, तो भी मंगोलोंने कलाका संरक्षण-संबर्धन किया। नाट्य-कला के विकासमें तो उनका विशेष हाथ रहा। चीनमें संगीत, अभिनय और नृत्यका प्रयोग बड़ी साजसज्जाके साथ बहुत पहलेसे चला आता था, लेकिन तीनों चीजोंका पहले वैसा सुंदर सम्मिश्रण नहीं हुआ था, जैसा कि मंगोल-शासकोंके संरक्षणमें। मंगोल-वंशने नाट्य-कला की बड़ी अभिवृद्धि की, बड़े सुंदर-सुंदर रंगमंच बनवाये। दरबारके समय खानके साथ भिन्न-भिन्न देशोंके राजदूत भी नाटकका अभिनय देखते थे। उस समय नाट्यके लिये जो नियम और व्यवस्था कायम की गई, उससे चीनी रंगमंचको बहुत प्रेरणा मिली, जिसका प्रभाव आज भी देखा जाता है। चित्र-कलामें भी वस्तु-निर्वाचन, उसके चित्रण तथा प्रभावमें विशेष कार्य हुआ। मंगोलोंका गतिमय शक्तिशाली जीवन चित्रोंकी रेखाओंमें अंकित होने लगा, पुराने कालमें चले आये शान्तरसकी प्रधानताका स्थान अब वीर और रौद्ररसोंने लिया। अब भी शान्त प्राकृतिक दृश्य अंकित होते थे, लेकिन घुड़सवारी, शिकार और बाजके दृश्य अधिक प्रिय थे। अब बलसम्पन्न गतिको प्राप्तकर चीनी चित्रकलाको आगे बढ़नेको एक नया रास्ता मिला।

६. थुबु थेमुर, उल्द-शे-तू, चेङ्क-चुङ्क (१२९४-१३०७ ई०)

कुविलेइने कूरिलताईकी शक्तिको कमजोर कर दिया था, जिससे खानोंके निर्वाचनमें पहले-जैमी स्वतंत्रता नहीं बरती जा सकती थी। इसीलिये अब सारे मंगोल-खानजादोंमें किसी एकको चुननेकी जगह मृत खानकी संतानको ही उत्तराधिकारी समझा जाने लगा। कुविलेइका पुत्र छिङ्क-गेन् वापके समय ही मर गया था, इसलिये उसके पुत्र थुबु-थेमुरको गद्दी मिली। अब छिङ्क-गिस्की पांचवीं पीढ़ी चल रही थी। एक शताब्दी के विजयोंके बाद भी अभी मंगोलोंकी शक्तिका उतना ह्रास नहीं हुआ था। १३०० ई० में बमकिे सिंहासन-वंचित राजपुत्रने मंगोल-दरबारमें पुकार की, और मंगोल-सेनाने बमकिमें पहुंचकर उसे गद्दीपर बैठाया। कुविलेइके प्रतिद्वंद्वी अरिगनुकाके साथ प्रतिद्वंद्विता खत्म नहीं हुई थी। कै-दू खानने अब भी अपने उत्तराधिकारके दावेको नहीं छोड़ा था। १३०१ ई० में उसने थुबु-थेमुरके ऊपर जबर्दस्त आक्रमण किया, जिसमें चगताइ खानदान भी उसका सहायक था। करारकोरमके पास लड़ाई हुई। ओगोताइ-वंशी और चगताइ-वंशी दोनों खानोंको हार खानी पड़ी, कै-दू मारा भी गया। उसकी जगहपर उसका पुत्र चापर ओगोताइ खान बना, जिसने थुबु-थेमुरकी अधीनता स्वीकार कर ली। १३०३ ई० में पिङ्ग्याङ्क और ताइ-युआनमें, फिर १३०४ ई० में पिङ्ग-याङ्कमें भूकम्प हुये, जिसको लेकर तरह-तरहकी भविष्यद्वाणियां की जाने लगीं। सौ वर्ष पहले १२०६ ई० में छिङ्क-गिस् खानका घोषित हुआ था, इसलिये विरोधी यह भी अफवा उड़ा रहे थे, कि अब मंगोल-वंशका सितारा डूबनेवाला है। १३०६ ई० में कै-दूका समर्थक चगताइ दावाखान मर गया, जिसने अगले साल थुबु-थेमुर भी काल कवलित हुआ।

७। खू-लुग, कू-लुक, से-सन्, बू-चुङ्क (१३०७-११ ई०)

थुबु-थेमुरके मरनेके बाद उसके भाई धर्मपालका पुत्र खू-लुग कूरिलताई द्वारा खानका घोषित किया गया। भूकम्पके बाद अब १३०८ में अकाल और महामारीकी बारी आई, लेकिन वह सारे साम्राज्यमें नहीं फैल सकती थी। प्रजाको प्राणोंसे मोल चुकाना पड़ रहा था, लेकिन खानका दरबार पर उसका क्या प्रभाव हो सकता था? इसी साल चापर खान तथा दूसरे दरबार में आये, जिनकी बड़ी आवभगत हुई। चगताइ और ओगोताइ-परिवारोंके साथ होता संघर्ष अब दब गया था, इसलिये खू-लुग घरेलू-युद्धमें निश्चित था, तो भी १३०९ ई० में युन्ननमें भारी विद्रोह हुआ। युन्नन भारतीयतासे प्रभावित पूर्व-गंधार देशके नामसे प्रसिद्ध था। यहांके लोग संस्कृतिमें ही आगे बढ़े हुये नहीं थे, बल्कि अच्छे योद्धा भी थे। अपनी स्वतंत्रताके लिये उन्होंने कुविलेइका जबर्दस्त मुकाबिला किया था और जब कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया, तो उनमें से बहुत-से लोग भागकर थाई (स्याम), शान (बर्मा) और अहोम (आसाम) में चले गये, जहां उन्होंने नये राजवंशोंकी स्थापना की। १३०९ ई० में उन्होंने गंधारोंने अपने देश युन्ननमें जबर्दस्त विद्रोह किया, जिसके दबानेमें मंगोलोंको भारी मुश्किलका सामना करना पड़ा।

यद्यपि कुबिलेइके समय ही फग्पा (फग्स्-पा=आर्य) लामाने मंगोल-बादशाहके लिये नये अक्षर बना दिये थे, लेकिन इस अक्षरमें अंकित पहलेपहल तांबेके सिक्के खु-लुगने १३१० ई० में ढलवाये। इसी साल मंगोल-राजकुमार तु-ला (कोकोचू-पुत्र) ने असफल विद्रोह किया। थुबु-थेमुरके समय तक अभी बाहरके मंगोल-राजवंशोंके साथ चीनके खाकानका घनिष्ठ संबंध था, उसे अधिपति माना जाता था; लेकिन अब वह संबंध शिथिल होने लगा। फर्वरी १३११ ई० में खु-लुग मर गया और उसकी जगह उसका भाई बोयन्-थू गद्दीपर बैठा।

८. बोयन्-थू, आयुरपरवल, आयुर्बलीभद्र, बूयन्-तू, जुन्-चुङ (१३११-२० ई०)

खु-लुगकी मृत्युके साल ही उसके भाईको गद्दी मिली। ईरानका मंगोल-वंश कुबिलेइके छोटे भाई खुलाकू-खानका था, इसलिये जिस वक्त जू-छी, चगताइ और ओगोताइ खानोंका चीनके हगानसे (खकान) से मतभेद या झगड़ा भी रहता, उस समय भी ईरानके मंगोल-वंशका हगानके साथ बहुत सौहार्द रहता। १३१२ ई० की फर्वरीमें बोयन्-थू ने अपना दूत ईरानी खान उल-जै-तूके पास भेजा। पुराने कालसे चीनमें हिजड़े बनाकर उन्हें अन्तःपुरमें ही बड़े-बड़े स्थान नहीं दिये जाते थे, बल्कि राज्यके ऊंचे-ऊंचे पदों पर भी वह पाये जाते थे। १३१४ ई० में बोयन्-थूने सरकारी नौकरियोंमें हिजड़ोंका प्रवेश निषिद्ध कर दिया, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं, कि हिजड़े अब बाट के भिखारी बन गये। उसके लिये तो अभी १९११ ई० तक प्रतीक्षा करनी थी। अगले ही साल (१३१४ ई०) एक प्रमुख हिजड़ने एक सुंदर मन्दिर बनवाया। पिताकी गद्दी न पानेके कारण खुलुग-पुत्र कुसलने १३१६ ई० में चचाके विरुद्ध असफल विद्रोह किया। यह हम पहले देख चुके हैं, कि व्यापार और कृषि-उद्योगको धनका प्रधान स्रोत समझकर मंगोल-शासक उनकी उन्नतिकी ओर विशेष ध्यान देते थे। डेढ़ हजार वर्षोंसे अधिक समयसे रेशमकी जन्मभूमि चीन अपने सुंदर रेशमी कपड़ोंके लिये सारी दुनियामें प्रसिद्ध था। रेशम देशकी आमदनीका एक बड़ा भाग था। बोयन्-थूके शासन-कालमें १३१८ ई० में सरकारने तूतके वृक्ष लगाने तथा रेशमके कीड़े पालनेकी विधिके ऊपर एक पुस्तिका प्रकाशित की। शायद सरकारोंकी ओरसे इस तरहकी छपनेवाली पुस्तकोंमें यह सबसे पहिली थी।

फर्वरी १३२० ई० में बोयन्-थू मर गया और उसकी जगहपर उसका पुत्र गेगेन् गद्दी पर बैठा।

९. गेगेन्, शु-तु-फल (शुद्धफल), यिङ-चुङ (१३२०-२३ ई०)

मंगोल खान-वंशमें धर्मपाल, आयुर्बलीभद्र या शुद्धफल जैसे शुद्ध भारतीय नामोंका होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि अब मंगोल-राजवंश ही नहीं साधारण जनतामें भी बौद्ध-धर्म जातीय धर्म समझा जाने लगा था। गेगेन् (ग्य-गेन्) १८ वर्षका था, जब कि वह गद्दीपर बैठा और २१ सालकी आयुमें मर गया। उसके बाद छठे खान थुबु-थेमुरके भाई कमलका पुत्र यिसु-थेमुर गद्दीपर बैठा।

१०. यिसु-थेमुर, यिस्सुन-तइमुर, ताइ-चिङ-ति (१३२३-२८ ई०)

अब खानोंके शासनमें कोई विशेष बात नहीं थी। १३२३ ई० में "ताइ-युवान-तोङ-शी" (महा-मंगोल-विधान) प्रकाशित हुआ। अगस्त १३२८ ई० में खान मर गया और उसकी जगह उसका भतीजा रिन्छेन् गद्दी पर बैठा।

११. रिन्-छेन्-फग्, यू-चू (१३२८ ई०)

बहुत कम समय शासन करनेके कारण कितनी ही वंशावलियोंमें इसका नाम नहीं मिलता। रिन्-छेन्-फग् तिब्बती शब्द है, जिसका अर्थ है रत्न-आर्य। उसके बाद उसका भाई तथा खु-लुगका पुत्र कुसल गद्दीपर बैठा।

१२. कुसलऽ, कोसल, मिङ-तिङ (१३२८-२९ ई०)

अब वंशकी निर्बलताके सूचक चंद्र दिनोंके खान होते रहे।

१३. थुग्-थेमुर, उलजे-थू जीया-शा-तू, वेन्-चुङ्क (१३२९-३२ ई०)

यह बोयन्-थू खाकानका पुत्र तथा गेगेन्का भाई था। इसके शासन-कालमें १३३० ई० में फिर युन्नन्में विद्रोह हुआ, जो १३३१ ई० में भी जारी रहा। इसी समय चीन में अवर्षगके कारण अकाल पड़ा। उगी सालकी एक घटना बतलाती है, कि पहलेसे चले आये नियमोंका अब भी कितनी कड़ाईके साथ पालन किया जाता था। खाकानने साम्राज्यी वर्षपत्रको देखना चाहा, लेकिन अधिकारीने इन्कार कर दिया। यह परिपाटी इसलिये चली आती थी, जिसमें खाकान दरबारी इतिहास-लेखकमे मनमाना न लिखवा सके, इसीलिये दैनंदिनीको उसे दिखलाया नहीं जाता था। थुग्-थेमुरने अपनेको अपवाद बनाना चाहा, लेकिन दैनंदिनी लेखकने उसे दिखलानेसे इन्कार कर दिया।


१४. रिन्-छेन्-पल्, निङ्क-चुङ्क (१३३२-३३ ई०)

रिन्-छेन्-पल् भी तिब्बती शब्द है, जिसका अर्थ है रत्नश्री। यह कुसलका पुत्र था और केवल दो मास राज्य करके मर गया। इसके बाद अन्तिम खाकानका दीर्घकालीन राज्य शुरू हुआ।

१५. थेगन्-थेमुर, तोगोन्-तिमुर, शुङ्क-ति (१३३३-६८ ई०)

यह थुग्-थेमुरका पुत्र था। इसने ३५ वर्ष तक शासन किया। जान पड़ता है, राजवंशकी समाप्ति के लिये हर वंशमें वाजिदअली शाहके पैदा होनेकी अवश्यकता होती है। थेगन्-थेमुर चरम विलासी था। लामा लोगोंका प्रभाव भी राजवंशपर अब चरम सीमा को पहुंचा हुआ था। तिब्बतका धर्म, तांत्रिक बौद्ध-धर्म है, जिसे लामा-धर्म कहकर कितने ही लोग उसकी सारी जिम्मेवारी तिब्बतके ऊपर मढ़ना चाहते हैं। लेकिन, तांत्रिक बौद्ध-धर्म तिब्बतकी उपज नहीं है। वह भारतमें पैदा हुआ और यहीं चरम सीमापर पहुंचकर भारतके गारत करनेका एक कारण बना। प्रभावशाली लामोंका खाकानके ऊपर बहुत प्रभाव था। उसका तंत्र-मंत्रपर बहुत विश्वास था। पंच मकार-उन्मुक्त व्यभिचार भी जिसका एक प्रधान अंग था—का खुलकर प्रयोग खानके यहां होता था। बहुत निम्न श्रेणीके यौन-दुराचार साधनके अंग माने जाते थे। मंत्र-तंत्र-सिद्धि तथा भैरवी चक्र के लिये एक मकान बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था “निर्दोष-भवन”। वहां पर यौन-अतिचारकी हद की जाती थी। अन्तःपुरिकाओंको “दिग्ग नृत्य” के नामसे बहुत-सी अश्लील चेष्टाओंके प्रदर्शन करनेके लिये मजबूर किया जाता था। चारों तरफ विलासिता और व्यभिचारका बाजार गर्म था। यह वही समय था, जब चीन में १३२६, १३२७, १३३४, १३३६, १३४२ और १३४६ में जवर्दस्त अकाल पड़े थे। खान, उसके दरबारी और अधिकारी भैरवी चक्रमें मस्त थे, जब कि लोग भयंकर कष्टसे गुजर रहे थे। सूखा और अकालके समय किसानोंकी कोई खोज-खबर लेनेवाला नहीं था। यही नहीं, अब भी उन्हें दरबारके लिये भारी करोंको देना पड़ना था। मंगोल-वैसे भी निर्लिप्त विदेशी शासक थे, जिनके साथ चीनियोंका कोई सीहार्द नहीं था। इस क्रूरता-पूर्ण विलासमय जीवनसे तो चीनी जनताके नाकों दम हो गया। वह और अधिक दिनों तक इस दुःशासनको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। राजधानीसे दूर दक्षिणमें याङ्क-चि-उपत्यकामें विद्रोहियोंने गिर उठाया। जंगलकी आगकी तरह विद्रोह जल्दी ही सारे देश में फैल गया। विद्रोहियों का नेता चू-युवान्-चाङ्क एक किसानका लड़का था। उसने भूख और कष्टके दिन देखे थे, इसलिये वह किसानोंको विद्रोहमें शामिल करनेमें सफल हुआ। मंगोल-सेनाने विद्रोहको पहले कहीं-कहीं दबाया, लेकिन थोड़े ही समयमें सारी याङ्क-चि-उपत्यका चू-युवान्-चाङ्क के हाथमें चली गई। १३६८ ई० में उसने अपनेको स्वतंत्र सम्राट घोषित करते नान्-किङ्क में मिङ्क (प्रकाश)-वंशकी नींव रखी। इसी साल उमकी सेना पेकिङ्कके ऊपर चढ़ी। थेगन्-थेमुरके लिये मंगोलिया अभी सुरक्षित जगह थी, इसलिये वह वहां भाग गया। इस प्रकार चीनमें मंगोल-राज्यका अन्त हुआ। थेगन्-थेमुरके वंशज आगे मंगोलियापर शासन करते रहे, जहां समय बीतते-बीतते उनके अनेक राज्य हो गये, जिनका प्रभाव मध्य-एसियाके इतिहासपर मीले फिर एक बार पड़ा, जब कि १८ वीं शताब्दीके पूर्वार्द्धमें मालूम होता था, मध्य-एसिया में फिर एक विशाल मंगोल-साम्राज्य कायम होने जा रहा है; लेकिन पलासीकी लड़ाई १७५७ ई० के समय उमका नाश चीन और रूसके प्रहारोंसे हो गया।

चीनके मंगोल खाकानोंके समय पहले घनिष्ठतापूर्वक किन्तु पीछे शिथिलताके साथ चगताइ, जू-छि, हुलाकू आदिके राजवंशोंका संबंध रहा, इसका वर्णन आगे हम करेंगे। तू-लुइ-वंश के वर्णन के बाद अब हम जू-छि-वंशको लेते हैं जिसके शासनमें उत्तरी मध्य-एशिया और रूस बहुत समय तक रहे।



अध्याय २ सुवर्ण-ओर्दू

(१२२४-१४०० ई०)

छिङ्-गिस्के ज्येष्ठ पुत्र जू-छिके ओर्दूको "सुवर्ण-ओर्दू" के नामसे पुकारा जाता है, यद्यपि मुगलमान इतिहासकार इसे अधिकतर कोक-ओर्दू (नील-ओर्दू) के नामसे याद करते हैं, और जू-छिके ज्येष्ठ पुत्र ओर्दूके उलुसको अक-ओर्दू (श्वेत-ओर्दू) कहते हैं। रूसी प्रजा इन्हें जोल्तोय (सुवर्ण-ओर्दू) के नामसे जानती है।


१. जू-छि, तू-शि (म० १२२४ ई०)

छिङ्-गिस्के ज्येष्ठ पुत्र जू-छि या तू-शिकी मृत्यु बापसे छ महीने पहले हुई थी, यह हम कह आये हैं। जू-छिके बारेमें एक मुसलमान गुमनाम लेखककी कृति "शख्तुल्-अतराक" (तुर्कवंश-वृक्ष) में फिनती ही बातें कही गई हैं। मंगोलियासे दूर चले गये मंगोल तुर्क-समुद्रमें चंद बूंदोंकी तरह थे, और वह उनके भीतर हजम भी हो गये। इसीलिये इस लेखकने मंगोल-वंशवृक्षको तुर्क-वंशवृक्ष कहा। इस तथा दूसरे ग्रंथोंके अनुसार भी छिङ्-गिस्को अनुपस्थित देखकर उसके प्रतिद्वंद्वी मरकितोंने छिङ्-गिसी उलुसको मार भगाया और वह उसकी ज्येष्ठ पत्नी बुर्ते-फूजिन्को और बहुतसे आदमियोंके साथ पकड़ ले गये। बुर्ते-फूजिन् कंकुरत कबीलेके सरदार दाई-नोयन्की पुत्री थी। यही छिङ्-गिस्के चार प्रधान पुत्रों और पांच पुत्रियोंकी मां थी। बुर्ते-फूजिन्के पकड़े जानेके समय जू-छि मांके पेटमें ६ मासके गर्भके रूपमें था। केरत खान ओङ्-खान छिङ्-गिस्का बड़ा समर्थक था। वह छिङ्-गिस्को अपना पुत्र मानता था। जब छग घटनाका पता लगा, तो उसने मरकितोंपर आक्रमण कर बुर्ते-फूजिन् तथा उसके आदमियोंको लूटा लिया, और अपनी धर्म-बधूको फिर छिङ्-गिस्के पास भेज दिया। इसी समय रास्ते में जू-छि पैदा हुआ। पंथमें पैदा होनेके कारण ही उसका नाम जू-छि (पंथक) पड़ा। पीछे चगताइ खानोंका जू-छि-वंशके कोक-ओर्दू और अक-ओर्दूसे सदा झगड़ा होता रहा। इसीलिये चगताइ विद्वानोंके इतिहास-ग्रंथोंमें जू-छिको कलंकित करते हुये यह साबित करनेकी कोशिश की गई, कि जू-छि छिङ्-गिस्का पुत्र ही नहीं था। समर्थक इस बातके साबित करनेका प्रयत्न करते हैं, कि जू-छिकी मां केवल चार महीने छिङ्-गिस्के दूर रही, जब कि रास्तेमें जू-छि पैदा हुआ। "तुर्कवंश-वृक्ष" का लेखक यह भी कहता है—“चाहे पुत्र कितना ही अच्छा हो, असली और नकलीके प्रति पिताके प्रेममें जमीन-आसमानका अन्तर होता है। साइन् (छिङ्-गिस्) जू-छि खानके ऊपर हृदसे ज्यादा प्रेम और स्नेह रखता था।” जू-छि खानके मृत्युकी खबर जब उलुसमें पहुंची, तो उसे बापतक पहुंचानेकी किसीकी हिम्मत न हुई। यह काम दरबारी कवि उलुग-दुर्जिके सिरपर रखा गया। कविने हिम्मत करके पद्यमें उपमाके रूपमें यह खबर सुनाई, जिसे सुनकर छिङ्-गिस् बहुत दुःखी हुआ। कवि और छिङ्-गिस्के दुःखोंको तुर्की भाषाके पद्यमें प्रकट किया गया है, यद्यपि यह निश्चय है, कि छिङ्-गिस् तुर्की नहीं बोलता था, इसलिये यह पद्य पीछे बनाये गये हैं। तो भी इसमें संदेह नहीं, कि छिङ्-गिस्को अपने ज्येष्ठ पुत्रकी तरकसीके बाद भी उसके साथ असाधारण प्रेम था, इसीलिये उसे बहुत दुःख हुआ।

ख्वारेज्म-विजयके समय छिङ्-गिस्ने जू-छिको पूर्वमें कयालिकसे पश्चिममें सकसीनतकी दस्ते-किपचक (वर्तमान कजाकस्तान), बोलारों, आलानों, बश्किरों, उरुसों और चेरकासोंके देशोंके साथ वह भूमि भी प्रदान की, जहां कि तातारों (मंगोलों) के घोड़ोंकी टापें पड़ें। जू-छिका ओर्दू यद्यपि ज्येष्ठ पुत्र ओर्दू और द्वितीय पुत्र बा-तूके अधीन पहले हीसे दो उलुसोंमें बंट गया था, लेकिन श्वेत-ओर्दूके संस्थापक ओर्दाने जिस तरह अपने छोटे भाई बा-तूको अपना अधिपति स्वीकार किया, वैसे ही उसका श्वेत-ओर्दू भी अपनेको बा-तूके सुवर्ण-ओर्दूके अधीन मानता रहा। जू-छि ओर्दूका पूर्वी

भाग (किपचक-भूमि) श्वेत-ओर्दूकी माना जाता था । सुवर्ण-ओर्दूके ३९ शासक हुये—

१. जू-छि, तू-शि छिङ्ग-गिस्-पुत्र १२२४ ई०
२. वा-तू जू-छि-पुत्र १२२४-५५ "
३. सेर-तक वा-तू-पुत्र १२५५ "
४. उलकची वा-तू-पुत्र १२५५ "
५. बेरेके, वरका, जू-छि-पुत्र १२५५-६५ "
६. मुङ्ग-खे थे-मुर्, मंगू-थेमुर् तोगोन-पुत्र १२६५-८० "
७. तू-दा-मंगू तोगोन-पुत्र १२८०-८९ "
८. तोग्-ताइ, तोक्-तोगू, मंगू-थेमुर्-पुत्र १२८९-१३१३ "
९. उज्वेक तोक्-तोगूका भतीजा १३१३-४२ "
१०. तिनी (दिनी) बेग उज्वेक-पुत्र १३४२ "
११. जानी-बेग उज्वेक-पुत्र १३४२-५७ "
१२. बेदी-बेग जानी-पुत्र १३५७-५९ "
१३. कुलदी (कुल्या) बेग, जानी-पुत्र १३५९ "
१४. नौरोज (नूरुस) बेग जानी-पुत्र १३५९-६० "
१५. चेरकेस-बेग जानी-पुत्र १३६० "
१६. ओरदा शेख
१७. खिजिर
१८. कुलफा
१९. तेमूर खोजा
२०. मुरोद
२१. अजीज, बाजारची
२२. हाजी एरजन-पुत्र



२. बा-तू खान, सायन खान जू-छि-पुत्र (१२२४-५५ ई०)

छिङ्ग-गिस्के पोतोंमें बा-तू पहला था, जिसने चारों उलुसोंमेंसे एकके खानपद को दादाके जीवनमें ही प्राप्त किया। इसकी मां खू-जिन खातून कंकुरत-कबीलेके सरदार अंची नोयनकी लड़की थी। यद्यपि बातूसे बड़ा एक और भी भाई उर्दा (ओर्दा) था, लेकिन दादाने इसे ही अधिक योग्य समझा। छिङ्ग-गिस् पश्चिम दिशाके महत्त्वको समझता था, इसलिये द्वितीय पुत्र होनेपर भी समझ समझ बा-तू को बापका स्थान दिया। बड़े भाई ओर्दाने भी दादाके निर्णय को दिलसे स्वीकार किया, तथा उसके उलुसने भी बातूके उत्तराधिकारियों को अपना प्रधान माना। यद्यपि रूसियोंमें बा-तूका ओर्दू सुवर्ण-ओर्दूके नामसे प्रसिद्ध है, किन्तु पूर्वी इतिहासकार उसे कोक-ओर्दू (नील-ओर्दू)के नामसे ज्यादा जानते हैं—ओर्दाका उलुम अक-ओर्दू (श्वेत-ओर्दू)के नामसे प्रसिद्ध था। जू-छि ओर्दू, हम जानते हैं, लड़ाकू घुमन्तुओंका समूह था, जो जू-छिके मरनेपर बा-तू और ओर्दाने आधा-आधा बंट गया। ओर्दाने उलुसको बाम-दल और बा-तू को दक्षिण-दल भी कहा जाता था। बाम-दलमें वैसे बा-तूके भाई ओर्दा, तुकातेमुर, सिङ्ग-कुर और सिङ्ग-कुङ भी शामिल थे। समकालीन इतिहासकार मिनहागुद्दीन जुजजानी (११९३-१२२६) ने दिल्लीमें रहते अपने संरक्षक नासिरुद्दीन मुहम्मदशाह (१२४६-६५ ई०) के नामसे प्रसिद्ध "तवारीखे-नासिरी" में लिखा है, कि जू-छिके मरनेपर छिङ्ग-गिस्ने बा-तूको जू-छिका स्थानापन्न बनाते हुये उसे किपचकों, कंगलियों, ऐमकों, इलवारों, अलानों, असियों, रूसियों, चेरकाओंकी भूमि प्रदान की, और वह सभी भूमि भी, जहांपर मंगोल घोड़सवारोंकी टापें पड़ीं। यह हम देखेंगे, कि आगे खजार-दर्बन्द—जिसे मंगोल थिमुर-कखलखा (लौहद्वार) कहते हैं—भी बा-तूके हाथमें था। इस प्रकार काकेशसमें उसके और उसके चचेरे भाई ईरानके खान खु-ला-गूकी सीमा मिलती थी। जुजजानीके अनुसार बा-तू मुसलमानोंका मित्र था। उसने छावनियों और डेरोंमें मस्जिदें बनवा इमाम और मुअज्जिन नियुक्त किये थे। उसकी मुसलमानी प्रजामें सर्वत्र शांति और समृद्धि देखी जाती थी। इसका अर्थ यही है, कि बा-तू धर्मके बारेमें अपने दादाकी नीतिका अनुगमन करता था। लेकिन ख्वारेज्म, किपचक और काकेशसमें ही उसकी मुसलमान प्रजा रहती थी। बशगिर ईसाई थे। बड़ी वान रूसी तथा दूसरे लोगोंकी थी। ऐसी हालतमें बा-तू यदि स्वयं ईसाई हो, तो कोई विचित्र वान नहीं थी। बहुसंख्यक जनताको अधिक अनुकूल बनानेके लिये यह अच्छा ढंग था। अभी उम्र गमय तक मंगोल-राजवंशने बौद्ध-धर्मको जातीय धर्म नहीं बनाया था। एक तरह संसारके बड़े-बड़े धर्मोंकी वह परीक्षा कर रहा था। खुबिलेइ (कुबिले) कआनने बौद्ध-धर्म स्वीकार कर यद्यपि वह कदम बढ़ाया, जिससे बौद्ध-धर्म मंगोलोंका राष्ट्रीय धर्म बन गया, किन्तु खुबिलेइके निर्णयको उन्हीं जगहोंमें मंगोलोंने माना, जहां बौद्ध-धर्मकी प्रधानता थी, अथवा जहां कोई गैर-कबीली देशी धर्म प्रचलित नहीं था। बा-तूके उत्तराधिकारी तथा अनुज बरकाने अपने आपको खुल्लमखुल्ला मुसलमान घोषित किया, जिसका उसके अपने मंगोलोंपर बुरा प्रभाव पड़ा, जो ही पीछे पूर्वी और पश्चिमी मंगोल-साम्राज्यमें मतभेदका एक कारण भी हो पड़ा। सुवर्ण-ओर्दू ऐसी स्थितिमें था, कि यदि उसने ईसाई धर्म को स्वीकार किया होता, तो शायद आगे चलकर रूसियोंको उनके विरुद्ध धर्मयुद्धका ख्याल न आता। चगताइ और खुलाकू-वंशकी साधारण प्रजा सारी मुसलमान थी, जिसके कारण राजनीतिक लाभके ह्यत्से उन्हें इस्लामको स्वीकार करना पड़ा। चगताइ खान तर्मछेरिङ्ग—जो कि मुहम्मद तुगलकका समकालीन था—का नाम बौद्ध था, लेकिन पीछे वह कट्टर मुसलमान हो गया। इसके कारण भारतके तुगलक सुलतान तथा चगताइ खानमें बड़ी घनिष्ठता स्थापित हो गई। ईरानी खान गज्जन (१२९५-१३०४) ने पहले अपनी राजधानीमें एक सुन्दर बौद्ध विहार बनवाया, लेकिन अंतमें राजनीतिक-दाव-पेचके लिये उसे इस्लाम स्वीकार करना पड़ा। धर्म किस तरह राजनीतिक चालके लिये इस्तेमाल होता है, इसका यह स्पष्ट उदाहरण है। ईसाइयतको न ले सुवर्ण-ओर्दूके खानोंने इस्लामको क्यों स्वीकार किया, इसमें एक कारण था—मुसलमान तुर्क-लड़ाकूओंसे अपने शासनको मजबूत करनेका ख्याल। वोलागो उस समय इतिलके नामसे पुकारा जाता था। वोलाग जातिके इस उपत्यकामें रहनेके कारण

पीछे इसी नदीका वोल्गा नाम पड़ा। वोल्गाके बायें तटपर अस्त्राखानसे उत्तर बा-तूने अपनी राजधानी बनवाई, जिसका नाम सराय, बा-तू-सराय (या बरका-सराय भी) पड़ गया। गू-युक कआनके मरने के समय (१२५१ ई०) मंगोलोंने बा-तूको अपना कआन बनाना चाहा, लेकिन तबतक उसके घोड़ोंकी टापें जर्मनीकी सीमातक पहुंच चुकी थीं, इसलिये पश्चिम-विजेताने पूर्व जाना पसंद नहीं किया और उसके समर्थनपर छिड-गिस्-पुत्र तू-लुइके पुत्र मुङ्ग-खे (मङ्गू) को कआन बनाया गया।

दिग्विजय—१२२४ ई० में बापकी जगह बैठनेके बाद बा-तू ख्वारेज्म और उसके पश्चिमकी भूमि का शासक बना। मंगोलों की प्रथम पश्चिमी विजय स्थायी नहीं थी, इसलिये बा-तूको फिर लड़कर अपनी स्थितिको मजबूत करना पड़ा। ख्वारेज्म और किपचकके बहुत से भागोंने बा-तूके शासनको जल्दी स्वीकार कर लिया, किन्तु सुवर्ण-ओर्दूके आगेके विस्तारके लिये उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसके लिये शायद बा-तू राजी न होता, यदि १२३५ ई० की अपनी दूसरी कूरिल्ताइ (महासंसद) में उगोताइने प्रोत्साहन न दिया होता। इसी कूरिल्ताइमें दक्षिणी चीन तथा और भी दक्षिणके देशोंके विजयका निश्चय हुआ था, और बा-तूको वोल्गारों, असों और रूसियोंपर अधिकार करनेका काम सौंपा गया था। उसकी मददके लिये उगोताइने अपने पुत्रों गू-युक और कदगन, तु-लुइके पुत्र मुङ्ग-खे (मङ्गू) और मोक्, एवं जू-छिके पुत्रों ओर्दा, और तङ्ग-गुतको सहायतार्थ दिया। इनके अतिरिक्त कुछ और खान-जादों (राजकुमारों) के साथ प्रसिद्ध सेनापति सु-बो-ताइ बहादुर भी साथ था।

बा-तूकी सेना केलरोंको विजय करके बाश्किरोंपर पड़ी। बाश्किरोंके बारेमें १२३६ ई० में साधु जुलियनने लिखा था—“पूर्वी मगयार (हंगेरियन) या बाश्किर काफिर हैं। उन्हें न सच्चे ईश्वर-का ज्ञान है और न वह दूसरे देवताओंको पूजते हैं। वह जंगली जानवरोंकी तरह रहते हैं, खेती नहीं करते, घोड़ों और भेड़ोंका मांस खाते, दूध, दूधकी शराब (कूमिस) और खून पीते हैं। उनके पास घोड़े और हथियार प्रचुर परिमाणमें हैं और वह बड़े लड़ाकू हैं। उनमें एक कथा मशहूर है, कि मगयार हमारे देशसे गये, किन्तु कहां गये, यह नहीं जानते।” लेकिन जहांतक बाश्किर सरदारों और सामन्तोंका संबंध था, वह अधिकतर ईसाई थे, यह पूर्वी इतिहासकारों के लेखोंसे भी मालूम होता है।

(क) **बाश्किर-विजय**—महाकूरिल्ताइके निर्णयके बाद जो महाअभियान शुरू हुआ, उसके अनुसार १२३८ ई० में यायिक (ऊराल) नदीके तटपर बा-तूकी साढ़े चार लाख सेना एकत्रित हुई। इसमें कंकली (कंगली), नैमन, कराखिताई आदि कबीलोंके सैनिक अधिक थे। सेनाको तीन भागों में बांटा गया—(१) मुङ्ग-खे और बे-चुकके अधीन एक सेना सकसिन (निम्न वोल्गा उपत्यका) के सरदार पचिमान (राजधानी सुमरकंद) के विरुद्ध भेजी गई, (२) दूसरी सेना सुबोताइके अधीन वोल्गारोंके विरुद्ध। (३) स्वयं बा-तूने दुश्मनकी संख्या और शक्तिका पता लगानेके लिये अपने भाई सेबानको दस हजार सैनिकोंके साथ आगे भेजा। सेबानने हफ्तेके भीतर लौटकर दुश्मनकी जबर्दस्त शक्ति का पता दिया। दोनों ओरकी सेनायें एक नदीके किनारे आमने-सामने खड़ी हुईं। इतिहासकार जुवैनी (१२२६-८३ ई०) के अनुसार बाश्किर सेनाको देख बा-तू अपने शिविरमें चला गया और किसीसे एक शब्द भी न कह बस भगवान्से प्रार्थना करते खूब रोता रहा। उसने सभी मुसलमानोंको भी एकत्रित करके दुआ मांगनेके लिये कहा। दूसरे दिन युद्ध करनेका निश्चय हुआ। मंगोल सेना रात-को ही नदी पार करनेमें सफल हुई और उसके प्रहारसे केलरोंके पैर उखड़ गये। बा-तूकी जबर्दस्त विजय हुई, दुश्मन भारी संख्यामें काम आये, उनकी बहुत-सी संपत्ति हाथ आई। उसी जाड़ेमें बा-तूके सेनापति सुबोताइने खबान उपत्यकापर अधिकार किया।

(ख) **बोल्गार-विजय**—१२३८ ई० में सुबोताइ (मुङ्ग-ताइ) ने वोल्गा-उपत्यकाके तटपर अवस्थित बोल्गारोंकी राजधानीपर आक्रमण किया। बोल्गारोंने ब्लादिमिरके महारावल द्वितीय जार्ज व्सेवोल्द-पुत्रसे सहायता मांगी। उसका भाई नवोघ्रादका शासक तथा अभी-अभी कियेफके सिंहासनपर बैठनेवाला था, जिसके बाद नवोघ्रादका शासक प्रसिद्ध रूसी वीर तथा कियेफ-रावलका पुत्र अलेक्सी नेव्स्की हुआ। इस प्रकार कियेफ, नवोघ्राद और ब्लादिमिर तीनों राज्य एक ही परिवारके हाथमें थे। रूसियों और बोल्गारोंकी सम्भलित सेनाने मंगोलोंका जबर्दस्त मुकाबिला किया।

(ग) सकसिन-विजय—मुङ्ग-गूने सकसिनोको हराया । पचिमानने अपने अनुयायियोंके साथ जंगलमें शरण ली । लेकिन मंगोल भगोड़ोंको फिरसे मुकाबला करने लायक क्यों छोड़ने लगे ? मुङ्ग-खेने जगह-जगह अपनी सैनिक चौकियां स्थापित कीं और अंतमें पीछा करने-करने वोल्गा नदीके टापूमें उसे जा दबाया । पचिमानके अनुयायियोंमें बहुतसे मारे गये । वंदिगोंमें स्त्री-बच्चे तथा स्वयं पचिमान हाथ आया और गुस्ताखीके अपराधमें मुङ्ग-खेके हुकमसे उगके मामने ही पचिमानके दो टुकड़े कर दिये गये ।

(घ) मास्को-विजय—उसी ग्रीष्म (१२३७ या १२३८ ई०) में खानजादों (राजकुमारों) ने रूसियोंके नगर अरपान (र्याज़न) पर आक्रमण किया । तीन दिनमें ही नगरने अधीनता स्वीकार कर ली । उस समय सिम्बर्स्क, पेन्जा, तम्बोफ नामसे पीछे प्रसिद्ध स्थानोंमें मोर्दवीन लोग बगने थे, जिनका अपने पड़ोसी रूसियोंसे अच्छा संबंध नहीं था । उन्होंने मंगोलोंके लिये गुप्तचरका काम किया । उनसे पता पाकर मुङ्ग-खे और बा-तूकी सम्मिलित सेनाने सीमांती नगर र्याज़नके ऊपर आक्रमण किया था । र्याज़नके रावल जार्जने मंगोलोंसे लड़नेमें सफलता न पा अपने पुत्र पयोदरको भेंटके साथ बा-तूके पास भेजा । बा-तूने भेंट स्वीकार की, लेकिन साथ ही पयोदरसे उमकी व्रतन और वंदिगोंकी भेंटनेके लिये कहा और यह भी, कि वह अपनी सुन्दरी भार्या एउफ्रेमिया को दिखलावे । पयोदरने कहा—ईसाई राजकुमार अपनी स्त्रियोंको काफ़िरोको नहीं दिखाया करते । इसपर बा-तूके हुकमसे वह भार्या मार दिया गया, जिसकी खबर पा अपना सतीत्व बचाने के लिये उसकी स्त्रीने अपने पुत्रके साथ लगे गिरकर जान दे दी । अब भी वर्तमान र्याज़नसे दस लीगपर पुराने (स्तारया) र्याज़न का ध्वंश मोतूद है ।

(१) र्याज़न-विजयके बाद बा-तूकी सेना ओकाके किनारे-किनारे क़ोस्ना पहुँची और उतार अधिकार कर मास्को (मकस) जा उसे लूटा-जलाया । फिर वह सुजदकी राजधानी ब्यादिमिरके ऊपर पड़ी । नवगोरद जाते १४ मार्च १२३८ ई० को वोलोखोन्स्की (न्येर) और तोंगयकार भी कब्जा किया, लेकिन मंगोल वोल्गाके उद्गम सेलिंगोरसे आगे नहीं बढ़े । मंगोलोंके सामने "प्राप्त लुप्त हो गये, रूसियोंके मुँड हंसियेके सामने घासकी तरह गिरते गये ।"

(२) दूसरी सेना इसी समय बा-तूके भाई बेरेकके नेतृत्वमें वोल्गा और दोनके बीचके किनारोंके ऊपर पड़ी । किपचक-सरदार कोतियक देश छोड़ अपने वंशुओं (मग्गारों) के पास हंगरीकी ओर भगा ।

(३) तीसरी सेना सेवान, बूजक और बूरीके नेतृत्वमें मारी लोगोंके ऊपर पड़ी, जो कि उग गमय दक्षिण-पश्चिमी रूसमें रहते थे ।

(४) चौथी सेना काकेशसकी पहाड़ियोंकी ओर चेरकासियोंके पीछे पड़ी । १२३८ ई० की शरदमें चेरकास-राजा तुकान मारा गया और १२३९ ई० में मंगोलोंने काकेशसके दरवांशपर आक्रमण किया ।

मास्कोकी तरफ बढ़ते समय रूसी राजूल रोमनने प्रतिरोध करते मंगोलोंके हाथ अपने प्राण भोये । तीन दिनोंके संघर्षके बाद मंगोलोंने मास्को (मकस) को ले लिया और वहाँके राजुठ (कन्यात्र) ब्यादिमिर (उलयतमुर) को मार डाला । फिर वह लोगोंको कत्ल करके नगरोंको बिल्कुल लूटने-जलाने चीजोंका नष्ट करते आगे बढ़े, जिसमें पीछेसे उनपर प्रहार करनेवाला कोई न रह जाय । उग गमय सारा रूस छोटे-छोटे राजुलोंमें बंटा हुआ था । वह भला कैसे मंगोलोंके टिड्डी-दलका मुकामिया कर सकते थे ? रूसी जंगलोंमें भागते, लेकिन वहाँसे भी पकड़कर मारे जाते ।

बा-तूके दो महीनेके मुहासिरेके बाद भी कोजेल्स्क सर नहीं हुआ, कदन तथा बूरीकी सेनाओंके आनेपर तीन दिनोंके संघर्षके बाद ही उसपर अधिकार हो पाया । मुस्लिम इतिहासकारोंके अनुसार चेरकासोंके ऊपर ६३५ हिजरी (१२३६-३८ ई०) के जाड़ोंमें मुङ्ग-खे और कदनने आक्रमण किया, और वहाँका राजा तुकर मारा गया ।

(ङ) कियेफ-विजय—१२३९ ई० के वसंतमें बा-तूके नेतृत्वमें प्रधान सेना दनियेपर-उपत्यकाके निवासियोंके ऊपर पड़ी । राजुलोंकी आपसी शत्रुताके कारण दक्षिण-पश्चिमी रूसियोंने भी एक हीकर

मुकाबिला नहीं कर पाया। मंगोल रूसी राजुलोंको भगाते कियेफ पहुंचे। ६३७ हिजरी (१२४० ई०) की शरदमें कथान * ओगोताइ का बुलावा आनेसे गो-युक और मुड-खे कियेचक-भूमिके रास्ते मंगोलिया लौट गये, लेकिन बा-तूकी विजय-यात्राका सबसे बड़ा कदम अब उठनेवाला था।

बा-तू अपने भाइयों कदन, वूरी और बू-चेकके साथ रूसियों और कालीटोपियों (स्याहकुलाह) की ओर बढ़ा। इसी समय दिसंबरमें नौ दिनोंके मुहासिरेके बाद उसने महानगर मनकेरकानको ले लिया। मनकेरकान रूसका सबसे पुराना और वैभवशाली नगर कियेफका ही नाम था, मंगोलोंने नगरकी होली जला दी, जिसमें शताब्दियोंसे जमा होती कलाकी वस्तुयें तथा भव्य इमारतें नष्ट हो गईं। तबसे १५वीं शताब्दी तक कियेफ उजाड़ रहा।

१२४१ ई० (६३८ हि०) में ओगोताइ मरा, वसंतमें बाकी खानजादे भी बाश्किरोंकी भूमि होते मंगोलिया लौट गये। इसी साल बा-तूने बाश्किर-राजाको नष्ट किया।

(च) युरोप-विजय—१२३८ ई० से १२४० ई० के वसंततककी बा-तूकी विजय-यात्रा अभूतपूर्व है। इसी समय उसने वोल्गाके कबीलोंको परास्त किया, रूसी नगरोंको जीता, काला सागरके मैदानोंको अपने हाथमें किया, कियेफको ध्वस्त किया, और फिर अपने सैनिक दलोंको दक्षिणी पोलैंड (रथे-निया) की ओर भेजा। उस समय रूसकी तरह पोलैंड भी बहुत-से छोटेछोटे राज्योंमें बंटा हुआ था। मार्च १२४१ ई० में जब जाड़ोंकी बर्फ पिघली, तो मंगोलोंके सैनिक शिविर कारपेथीय पर्वतमालाके ऊपर लेम्बरमें थे।

जनवरी १२४१ ई० में मंगोल गोलैनियामें लूट-मार मचाते पोलैंडकी राजधानी क्राकोके पास पहुंचे। १८ मार्चको पोलोंको पराजित कर २४ मार्चको मंगोल-सेनापति वैदरने क्राकोको जलाया। मंगोल फिर सिलेसिया और रतियरमें ओडर नदीको पार कर दब्रेस्जव नगरके सामने पहुंचे। ९ अप्रैलको मंगोलोंने पोलों और त्युतानिक सरदारों (राजुल हेनरी आदि) की सेनाओंको लिग्नित्जके पास वालस्टाट (युद्धक्षेत्र) नामक स्थानमें हराया। लिग्नित्ज, ओत्माखन, बोलातीजको लूटते-जलाते मईमें वह मोरावियामें पहुंचे। वहां त्रोनके इलाके तथा दूसरे स्थानोंका उन्होंने संहार किया। फ्रांसके राजा लुईके पास पत्र लिखते हुये इस ध्वंस-लीलाका वर्णन एक ईसाई पादरीने इस प्रकार किया है—
“जर्मनीके सभी राजुल, राजा तथा पुरोहित एवं हंगरीके भी लोगोंने हाथमें सलीब लेकर तातारोंके खिलाफ अभियान किया। हमारे भाइयोंने जो बतलाया है, यदि वह ठीक है, और भगवान्की इच्छासे वह पराजित हो गये, तो तुम्हारे देश (फ्रांस) तक कोई ऐसा नहीं है, जो तातारोंके मुकाबिलेमें खड़ा हो सके।”

बा-तूके दुश्मनको मग्यार-राजा बेलाने शरण दी थी। मंगोलोंके लिये यह भी एक बहाना मिला। चालीस हजार बंदी बा-तूकी सेनाके लिये रास्ता बनाते थे। बा-तूकी एक सेना मोलदाविया, कुमासिया, त्रान्सिल्वानियाको नष्ट करते औरसोवा पहुंची, उसने नगरको मलियामेट करदिया। बेलाकी सेनाको १२ मार्चको रथेनियन डांडेके पास हार खानी पड़ी थी। सरविया होते बोल्गारिया में दाखिल हो २५ दिसंबरको मंगोलोंने वहांके ग्रामों-नगरोंका सर्वसंहार किया। प्लातेन झीलसे होते मंगोल क्रोसियाकी ओर बढ़कर स्पारत्रो समुद्रतट पर पहुंचे और कतारोंको ध्वंस करते अलबानियामें जा दाखिल हुये। वहांसे मईमें कदनकी सेना वोल्गारिया होते लौटकर बा-तूके पास पहुंची। उनकी गति कितनी तेज थी, यह इसीसे मालूम होगा, कि वह तीन दिनमें सत्तर मीलकी यात्रा करके पेस्त (बुदापेस्त) नगर पहुंच गये।

सुवोदाइ और बा-तू तीन सेनाओंके साथ कारपेथीय पर्वतमालाके भीतरसे दुश्मनके दक्षिणी पक्षकी ओर बढ़े थे। गलीसियासे हंगरीमें घुसकर सुवोदाइकी सेना मलदावियाकी ओर लौट पड़ी। रास्तेमें जो भी प्रतिरोधी सैनिक-टुकड़ियां मिलीं, उनका सफाया करते उसकी सेना पेस्तमें प्रधान सेनासे अप्रैलके आरंभमें—लिग्नित्जके युद्धके जरा-सा ही पहले—आ मिली। इस सेनाको यह पता नहीं था, कि उत्तरमें क्या हो रहा है। उसने ओडेरके तटपर अवस्थित मंगोल-सेनाप कैदू और उसके भाइयोंके साथ संबंध

* कथान = कगान = खाकान = खान खान = राजाधिराज (सम्राट्)

स्थापित करनेके लिये एक सेना भेजी। उगोलिनके विशपकी छोटी सेना हारी, और विशप अपने तीन साथियोंके साथ जान बचाकर किसी तरह निकल भागा। मंगोलोंका अभियान प्रलयकी ध्वंस-लीला जैसा था, जिससे सारे युरोपमें उनका आतंक मचा हुआ था। सभी मुकाबिला करनेकी तैयारी कर रहे थे। सुदूर-फ्रांस भी सैनिक सहायतायें भेज रहा था। हुंगरीके राजा बेला चतुर्थने एक लायकी सेना तैयार की थी, जिसमें मग्यार (हुंगेरियन), क्रोट, जर्मन तथा फ्रेंच सैनिक भी शामिल थे। मंगोलोंकी सैनिक चाल बही थी, जो कि उनके पूर्वज हूणोंकी, और उससे वे अक्सर सफल होते रहे; शत्रु-सेनाके सामने मंगोल पीछे हटने लगते। जब शत्रु इसे पराजय समझकर बेखटक खड़ेना शुरू करते, तो मंगोल चारों तरफसे उन्हें घेर लेते। निर्णायक युद्ध-स्थल के एक तरफ साथी नदी थी, दूसरी तरफ द्राक्षालताओंसे ढंका तोकय पर्वत, तीसरी तरफ लोमनिदजके घने जंगलों से ढंके बड़े पहाड़। मूर्खादयके समय बा-तूकी सेना पुलकी ओर आगे बढ़ी और उसने वहांकी रक्षक सेना पर एकएक आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। अब मंगोलोंकी प्रधान सेना पुलके पार दौड़ी। शत्रु-सेनामें भगदड़ मच गई। युद्ध बड़े जोरका हुआ और दोपहरके करीब ही उसकी समाप्ति हो सकी। इसी समय सुधोताई बेलाकी सेनाके पीछे पहुंचा। हुंगेरियन जान लेकर भगे और मंगोल उनका पीछा करने लगे। दो दिनोंके रास्तेतक मड़कों-पर युरोपियनोंकी लाशें पड़ी हुई थीं—चालीस हजार आदमी मारे गये थे। बेलाका भाग्य था, जो कि अपने तेज दौड़नेवाले घोड़ेकी सहायतासे वह बच निकला। वह दुनाइ (दन्यूब) के किनारे-किनारे छिपता भागता रहा और मंगोल उसकी तलाशमें फिरते रहे। अन्तमें बेला कारपेथीय पर्वतमालामें पहुंचा। मंगोलोंने मग्यार राजधानी पेस्तमें आग लगा दी। वह बढ़ते हुये आस्ट्रियामें न्यूस्टाट तक पहुंचे। भगोड़े जर्मनों और बोहेमियों (चेकों) को एक ओर छोड़ते वह दक्षिणकी ओर मुड़ अट्रियातिक समुद्रतटपर पहुंचे और केवल रगूसा को छोड़कर समुद्रतटके सभी नगरोंको उन्होंने लूटा-जलाया। दो महीनेके भीतर मंगोल घोड़ोंने युरोपको एलबा नदीके उद्गमसे अट्रियातिकके समुद्रतटतक रौंद डाला। उन्होंने तीन महासेनाओं, एक दर्जन छोटी सेनाओंको हराया और ओलमुत्ज छोड़कर इस भूभागके सारे नगरोंको पराजित किया। स्टर्नवर्गके यारोस्लावने अपने बारह हजार सैनिकोंके साथ ओलमुत्जकी बड़ी बहादुरीसे रक्षा की थी। युरोपके तत्कालीन राजा हुंगरीका बेला और फ्रांसका संत लुई दोनोंही योग्य थे, लेकिन सुबोदाइ, मड-गू, कै-डू और बा-तू जैसे महान् सेनापतियोंके सामने उनकी एक भी न चली।

जिस वक्त मंगोल दावानलकी तरह युरोपकी ओर बढ़ रहे थे, उसी वक्त कैसर फ्रेडरिक द्वितीय और पोप ग्रेगरी नवम का द्वंद्व चल रहा था। दोनोंने तुरंत अपने संघर्षको बंद कर दिया। धर्मयुद्धका प्रचार होने लगा। कैसर नेपल्स और सिसिलीका स्वामी था। वह अल्प्स पर्वतमालाके पारके सभी देशोंपर अधिकार जमाना चाहता था। पोप इसके लिये तैयार नहीं था। अगस्त १२४० ई० से अप्रैल १२४१ तक—जब कि मंगोल युरोपको रौंद रहे थे—फ्रेडरिकने महंतराज (पोप) के नगर फायनकाको घेर रक्खा था, जिसे अंतमें उसने अपने हाथमें कर लिया। दूसरी ओर पोपने २० मार्च १२३९ ई० को फ्रेडरिकको धर्म-बहिष्कृत कर दिया। साल भर बाद फ्रेडरिकके विरुद्ध पोपने धर्मयुद्धकी घोषणा की और जर्मन राजुलोंके एक समुदायको फ्रेडरिकके खिलाफ लड़नेके लिये तैयार किया। युरोपकी यह कामजोरी बतला रही थी कि बा-तूके संकल्प करनेकी देर थी, फिर इंग्लिश-चैनेल तक कोई भी शक्ति उमगी सेनाको रोक नहीं सकती थी।

मंगोल-हथियार—साधु कारपीनी दूत बनाकर जिस वक्त मंगोलिया भेजा गया, उगमे थोड़ा ही पहले मंगोलोंकी १२३८-४२ ई० वाली विजय-यात्रा हुई थी। कारपीनी दरबारमें इसीलिये भेजा गया था, कि खाकानसे ईसाइयोंकी निर्मम हत्या बंद करनेके लिये प्रार्थना करे। कारपीनीने अपने यात्रा-विवरणमें मंगोलोंकी अजेय शक्तिके बारेमें लिखा है—

“कोई भी अकेला राज्य या देश तारतारों (मंगोलों) का मुकाबिला नहीं कर सकता। तारतारोंकी लड़ाई केवल बलकी नहीं, बल्कि दाव-पेंचकी होती है। युरोपवालोंकी अपेक्षा तारतारोंकी संख्या कम है और शारीरिक डीलडौल और शक्तिमें भी वह छोटे हैं। हमारी सेनाओंको भी तारतारोंके नियमके अनुसार शिक्षित करने, और उन्हींके युद्ध-नियमोंको कड़ाईके साथ पालनेकी जरूरत है।

जहां तक संभव हो युद्धक्षेत्र ऐसा चुनना चाहिये, जहां चारों ओरकी चीजें दिखलाई पड़ती हों। सेनाको एक निकायमें नहीं लाकर खड़ा करना चाहिये, बल्कि उसे कई विभागोंमें विभक्त करके रखना चाहिये। पता लगानेके लिये चारों तरफ चर भेजने चाहिये। हमारे सेनापतियोंको रात-दिन अपनी सेनाओंको सजग, सदा हथियारबंद तथा युद्धके लिये तैयार रखना चाहिये। तारतार शैतानकी तरह सजग रहते हैं।

“अगर ईसाई दुनियाके राजा और शासक मंगोलोंके बढ़ावको रोकना चाहते हैं, तो उन्हें एक संयुक्त परिषद् बनाकर एक उद्देश्यके साथ प्रतिरोध करना चाहिये। ईसाई-राजाओंको चाहिये, कि वह अपने सिपाहियोंको मजबूत धनुषों, लंबी कमानों और तोपों से हथियारबंद करें। यही हथियार हैं, जिनसे तारतार लड़ते हैं। इनके अतिरिक्त सैनिकोंको अच्छे लोहेकी गदाओं अथवा लंबे बेंटवाले गडासोंको रखना चाहिये। वाणके फौलादी फलोंको तारतारोंके ढंगसे खूब लाल रहते नमक-मिले पानीमें डुबाकर तैयार करना चाहिये। इस तरह वह कवचके भीतरतक घुस सकते हैं। हमारे आदमियोंके पास अच्छे शिरस्त्राण तथा कवच होने चाहिये, जिसमें उनकी रक्षा हो सके। घोड़ोंके लिये भी यही बात है। जो इतने हथियारबंद नहीं हैं, उन्हें पीछेकी पांती में रखना चाहिये।”

आस्ट्रियामें न्यूस्टाटपर पहुंचकर मंगोलसेना अपनी जन्ममूमि (मंगोलिया) से ६ हजार मील दूर पहुंची थी, और यहांपर भी अजेय साबित हुई।

साधु सेवलरीने मंगोलोंके हथियारोंके बारे में लिखा था—

“उनके कवच भैंसके चमड़ोंके बने होते हैं, जिनके ऊपर जंजीरें खिंची रहती हैं। वह अभेद्य होते हैं जिसके कारण सैनिकका अंग सुरक्षित रहता है। वह अपने सिरपर लोहे या चमड़ेके शिरस्त्राण पहनते हैं। टेढ़ी तलवार, धनुष-वाण उनके हथियार हैं। उनके वाणोंके फल चार अंगुल चौड़े—हमारे फलोंसे अधिक लंबे और लोहे, हड्डी या सींगके बने होते हैं। उनके दांत इतने छोटे होते हैं, कि वह धनुषकी प्रत्यंचाओंके ऊपर नहीं लग सकते। उनकी ध्वजायें छोटी तथा चमरीके काले या सफेद पूंछोंकी होती हैं, जिनके सिरेपर ऊनका गुच्छा रहता है। उनके घोड़े छोटे, सुडौल और मेहनती तथा सभी तरहकी कठिनाइयों को सहनेके लिये तैयार होते हैं। वह बिना रिकावके सवार हो उन्हें चट्टानों या दीवारोंपर हरिनकी तरह कुदा सकते हैं।”

यह सभी स्वीकार करते हैं, कि तत्कालीन जगत्में सेना-संबंधी इंजिनियरी-निपुणता जितनी मंगोलोंके पास थी, वैसी उस समय यूरोपमें कहीं नहीं थी। उनके पाषाण-क्षेपक (कतापुल्ट) और बारूदकी तोपें गजब ढाती थीं।

जर्मन सीमांत नगर लिग्निट्जसे लेकर बोल्गाके किनारे तक शायद ही कोई नगर हो, जो बा-तूकी ध्वंस-लीलासे बचा हो। नगर मंगोलोंकी आंखोंमें कांटेकी तरह चुभते थे। यही नहीं, कि वहां उनके लिये प्रतिरोधकी संभावना थी, बल्कि स्थिर वासी लोग जिस भूमिको जोतते-बोते थे, वह मंगोल सैनिकोंको अपने घोड़ों और पशुओंके चरनेके लिये आवश्यक थी। इसीलिये वह नगरों और बस्तियोंको उजाड़ उन्हें घासका मैदान बना देना चाहते थे। बा-तूका युद्ध मंगोलों और युरोपियोंका ही नहीं बल्कि घुमन्तू-पशुपालों और स्थिर बस्तीवाले किसानोंका भी युद्ध था। यदि इसी समय ओगोताइ न मर गया होता और मंगोल-सेनापतियोंको लौटनेका बुलावा न आता, तो इसमें कोई शक नहीं, कि युरोपकी चप्पा-चप्पा भूमिको मंगोल-सवारोंने रौंद डाला होता, सारे नगरोंको जला दिया होता। उनकी सफलताका कारण बतलाते हुये एक इतिहासकारने लिखा है—“घुमन्तू जातियां यद्यपि अनियमित सेना हैं, किंतु उन्हें बहुत आसानीसे गतिशील किया जा सकता है। वह सजग हो तैयार खड़ी रहती हैं। जो कुछ उनके पास है, उसे बूढ़ों, स्त्रियों और बच्चोंकी रक्षामें छोड़कर वह हर समय कूच करनेके लिये तैयार रहते हैं। ऐसी जातिके लिये युद्ध कोई विशेष घटना नहीं है। घुमन्तुओंके लिये लंबी यात्रायें थोड़ेसे परिवर्तनके सिवा और कुछ नहीं हैं। उनके घोड़े और रसद सब साथ-साथ होती है।”

मंगोल आखिरतक घुमन्तू रहे। जहां यह उनकी शक्तिका एक बहुत भारी कारण था, वहां यही उनकी कमजोरीका भी मुख्य कारण था। रूसी इतिहासकार करमाजिन (१७६५-१८२६ ई०) के अनुसार—“अगर वे कृषिजीवी बन गये होते, तो शायद रूस अभी भी मंगोलोंके अधीन होता।”

बा-तूने विजय-यात्रासे लौटकर मास्कोके महाराजुल यारोस्लाव ज्येवोल्द-पुत्रको सारे रूसी राजु-लोंका सरदार बना दिया। इसी समयसे मास्कोकी प्रधानता शुरू हुई। दो साल बाद गु-युक कआनके राज्याभिषेकके समय यारोस्लावको मंगोलिया भेजा गया, जहासे वह लौट नहीं सका। इसी महोत्सवमें फ्रांसिस्कन साधु जान प्लानो कारपीनी (११८२-१२४६...ई०) भी शामिल हुआ था, जो पोप इन्नोसैंत-द्वारा मंगोल-सम्राट्को ईसाई बनानेके लिये भी भेजा गया था। वह १६ अप्रैल १२८४ ई० को ल्योन्ससे चला और जर्मनी, बोहीमिया, ब्रेस्लो, क्राको, वोल्दमीर (वोल्हनिया), कियेफ (४ फ़रवरी १२४६ ई०), तारतार-राज्य कानियेफ, ओरेन्जा (दुनियेपर दक्षिणतट), दोन, वोल्गा (बातूसराय), यायिक (उराल-नदी), कोमानियाकी पूर्वी सीमा, कंग-ली, दुशा, यानीकेन्त (सिरतट), तलस (तरस), इमिल, ओगोताइ-शिविर, नेमन (२८ जून) होते राजधानी कराकोरममें पहुंचा। कारपीनीने अपनी यात्राका जो वर्णन किया है, उससे उसके रास्तेके देशोंका अच्छा परिचय मिलता है। बा-तूके दरबारमें उसने पत्नियोंसहित खानको तख्तपर बैठे देखा। खानजादे (राजकुमार) बेंचोंपर बैठे थे, जिनमें पुरुष तख्तकी दाहिनी ओर और स्त्रियां बाईं ओर थीं। उसके वर्णनसे यह भी मालूम होता है, कि मुङ्ग-खेके कआन चुने जानेमें बा-तूका खास हाथ था। उस समय छिङ्ग-गिन्-वंशका वही सबसे बड़ा और सम्मानित राजकुमार था, इसलिये उसकी बातको कोई नहीं काटता था। मुङ्ग-खेने पश्चिमकी दिग्विजय में बा-तूकी बड़ी सहायता भी की थी। मंगोल बा-तूको कितने सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे, यह उसके सायन (भले राजा) के नामसे सिद्ध है।

१२५५ ई० में मुङ्ग-खेके राज्याभिषेकके समय बा-तू स्वयं नहीं जा सका। उसने अपनी जगह अपने पुत्र सरतकको भेजा था। इसी समय (१२५५ ई०) इतिल (बोल्गा) के तटपर बा-तूका देहान्त हो गया।

३. सरतक बा-तू-पुत्र (१२५५ ई०)

बा-तूने अपने ज्येष्ठ पुत्र सरतकको मुङ्ग-खे कआनके सिंहासन-महोत्सवमें भेजा था। वहीं बा-तूके मरनेकी खबर पा मुङ्ग-खे कआनने उसे सुवर्ण-ओर्दूके खानकी यारलिक (शासनपत्र) प्रदान करके भेजा। लेकिन वह अधिक दिनोंतक नहीं जिया। समकालीन मंगोल इतिहास-लेखक रशी-दुईन (१२४७-१३१७ ई०) के इतिहास 'जामेउत्-तवारीख' के अनुसार बा-तूके मुख्य पुत्र चार थे—सरतक, तुकात, अवगान और उलकची। सरतक निस्संतान मरा और उसकी जगहपर उसके भाई उलकचीको गद्दी मिली।

४. उलकची बा-तू-पुत्र (१२५५ ई०)

कआनके यारलिकके अनुसार बा-तूकी जेठी रानी बोरकचिन खातूने उलकचीको गद्दीपर बैठाया, लेकिन यह भी जल्दी ही मर गया। अब बा-तूके मनस्वी भाई बेरेकके लिये रास्ता साफ था।

५. बेरेक (बरका) जू-छि-पुत्र (१२५५-६५ ई०)

बेरेक अपने भाईके समान ही दृढ़ योद्धा और शरसक था। वह भाईके मरनेके साल ही पश्चिममें फैले विशाल मंगोल-राज्यका खान बना। बेरेकने भाईके समयमें (१२३८ ई०) ही किपचकोंकी भूमिमें विजय प्राप्त कर अपनी योग्यताका परिचय दिया था। कुछ इतिहासकारोंके अनुसार बेरेक प्रथम मंगोल राजकुमार था, जिसने इस्लाम-धर्म कबूल किया, यद्यपि उसका यह अर्थ नहीं, कि उसके समय हीसे सुवर्ण-ओर्दूके खानोंमें इस्लामकी परंपरा चल गई। इसके लिये अभी आठवें उत्तराधिकारी उज्बेक (१३१३-४० ई०) के आनेकी प्रतीक्षा थी, जो कि बा-तूकी पांचवीं पीढ़ीमें पैदा हुआ था। 'शजूरतुल्-अतराक' के अनुसार बरका खान मुसलमान था। कुछ इतिहासोंमें लिखा है, कि वह मुसलमान-मांसे पैदा हुआ था। दूसरी परंपरा कहती है—पैदा होनेपर बहुत चाहा, कि बरकाकी मांका दूध उसे दें, लेकिन उसने तबतक दूध नहीं पिया, जबतक कि एक मुसलमान औरतको उसे दूध पिलानेके लिये रख नहीं दिया गया। बड़ा होनेपर वह अपने भाईके हुकुमके अनुसार जब चारों ओर घूमता सैर कर रहा था, उसी समय संयोगसे वह इस्लामके पुण्यतीर्थ बुखारामें पहुंचा, जहां उसे एक मुस्लिम संतसे शिक्षा प्राप्त करनेका सौभाग्य

मिला, कहते हैं, “वह महान् संत (शेख) बुजुरगवार हजरत शेख सैफुद्दीन बाखरजी थे, जोकि महान् हजरत शेख नजमुद्दीन कुबराके उत्तराधिकारी थे.....। महान् शेखके हुकुमसे वह दस्ते-किपचकमें हाजी तुरकानकी ओर गया, जहां ईतल नदीके तटपर खुलाकू खान (तूलिबान-पुत्र) की विशाल सेनाके साथ भारी युद्ध हुआ। दरवेशोंके पुण्य-प्रतापसे खुलाकूको हार खानी पड़ी.....।* ”

दूसरी कहावत—जिसमें सच्चाईका अंश ज्यादा मालूम होता है—जुजजानी द्वारा उद्धृत है, जिसके अनुसार बेरेकके पैदा होनेपर उसके बाप जू-छिने—“इस लड़केको मैं मुसलमान बनाऊंगा” यह निश्चय कर उसके लिये मुसलमान धाय रखी। खोजंदमें उसे इमामों और मौलवियोंसे कुरान पढ़वाया। बा-तूका बेरेकके ऊपर विशेष प्रेम था। भाईके युद्धोंमें उसके तीस हजार मुसलमान सवार घोड़ोंकी पीठपर नमाजकी आसनी (जायनमाज) बांधे हुये चलते थे। वहां शरीयतकी सख्त पाबन्दी होती थी। मुसलमानों में कोई शराब नहीं पीता था। जुजजानी यद्यपि मूलतः ईरानका रहनेवाला था, लेकिन वह गुलामोंके शासनके अंतमें नासिरुद्दीन मोहम्मदशाहके समय (१२४०-६५ ई०) दिल्ली आकर रहने लगा था। उसने अपने इतिहासमें बेरेकके संबंधमें तत्कालीन कथाका उल्लेख करते हुये लिखा है—“६५७ हि० (१२५८ ई०) में समरकंदसे नूरुद्दीन सूफीके महन्त जलालुद्दीन सूफीके पुत्र अशरफउद्दीन दिल्लीमें व्यापारके लिये आये। वह अपने साथ इस्लामके बादशाह नासिरुद्दीनके लिये बेरेककी भेंट भी लाये थे। वह बेरेकके पक्के मुसलमान बादशाह होनेके बारेमें बातें करते थे, जिनमेंसे दोको जुजजानीने अपने ग्रंथ “तवकाते-नासिरी” में उद्धृत किया है—(१) समरकंदमें किसी ईसाईका बेटा मुसलमान हो गया। बापने हाकिमोंके दरबारमें फरियाद की, कि मेरे बेटेको बहकाकर मुसलमान बनाया गया है। स्थानीय हाकिमने भी उसका पक्ष लिया। जब इसका पता बेरेकको लगा, तो उसने मुल्लोंके पक्षमें निर्णय दिया। यह याद ही है, कि मंगोल-शासक धर्मके बारेमें बिल्कुल तटस्थ रहते थे, जिसका बहुत कुछ पालन उनके अधीन मुसलमान अफसरोंको भी करना पड़ता था। गद्दीपर बैठनेके तीसरे सालकी यह बात बेरेकके कट्टर मुसलमान होनेका पता देती है। हो सकता है, इसीलिये उसने हिंदुस्तानके इस्लामी बादशाहके साथ संबंध स्थापित करना चाहा। (२) दूसरी बात—बा-तूके बाद सरतक गद्दीपर बैठा। वह अपने मुसलमान चाचा (बेरेक)को उसके अनुरूप सम्मान नहीं प्रदान करता था। इसके बारेमें कहनेपर सरतकने जवाब दिया—“तू मुसलमान है, और मैं ईसाई-धर्मका माननेवाला हूँ। मेरे लिये मुसलमानका मुंह देखना भी ठीक नहीं है।” बेरेकने इस अपमानसे दुःखित हो रोते-रोते रातभर अल्लाहसे प्रार्थना की और अल्लाहने दुआ सुनकर सरतकको मार दिया। जुजजानीके अनुसार बेरेकका राज्य किपचकों, सकसिनों, बोल्गारों शकलाओं, रूसियोंकी भूमि तथा रूमके उत्तर-पूरवतक फैला हुआ था—जेन्द और ख्वारेज्म उसके राज्यमें थे।

बेरेकके गद्दीपर बैठनेके समय नवोग्राद (० गोरद) गणराज्यके महाराजुल अलकसान्द्र नेव्स्की तथा उसके भाई सुज्दलके राजुल आन्द्रेइने बधाई और भेंट भेजी थी। बा-तूकी पश्चिमकी विजय-यात्राको फिरसे जारी करनेका बेरेकको ख्याल आया, लेकिन पीछे खुलाकू (ईरान) खानके साथ झगड़ा हो जानेसे वह वहीं उलझा रहा और पश्चिमी युरोपको मंगोल-खतरेसे मुक्ति मिली। तो भी १२५९ ई० में बेरेकने अपने सेनापतियों बुरुन्दे, नोगाई और तुतुबुगाको दिग्विजयके लिये भेजा था। वह लुज़िन होते बिस्तुला नदी पार कर २ फरवरी १२५९ ई० को सेन्दोमीर पहुंचे। और जगहोंमें लूट-मार और अधीनता स्वीकार करानेमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सेन्दोमीरवालोंने प्रतिरोध किया, जिसपर मंगोलोंने वहांके लोगोंका कत्ले-आम कर दिया। पोलेंदकी तत्कालीन राजधानी काको फिर नष्ट हुई। मंगोल-सेना ओपेलनतक पहुंची, जहांसे लूटके साथ भारी संख्यामें ईसाई दासोंको लिये लौट गई। बेरेककी दो राजधानियां थीं—बा-तूसराय और बुल्गारी, जिनमें बुल्गारी बुल्गारों (बोल्गारों) की पुरानी राजधानी वर्तमान कजानके आसपास बोल्गा और कामा नदियोंके संगमपर अवस्थित थी।

खुलाकूसे संघर्ष—“तारीख-शेखेउबेस” (१३५६-७४ ई०) के अनुसार : “उस समयके रवाजके अनुसार बेरेकके कितने ही अमीर, खानजादे (राजकुमार) और सैनिक गर्मियोंको आजुर-बाइजानमें

* “स्वोर्निक मतेरियलोफ अत्नोश्चेरव्स्या क. इस्तोरी जोल्तोइ श्रोदी” पृष्ठ-२६४-६५।

बिताया करते थे। इलखान (खुलाकू) भी जाड़ोंमें चगातू और गर्मियोंमें अलदकमें रहता था। सराय-बेरेकसे मुहम्मदाबाद (अरनि) होते गुस्तास्क तक वह अरबों (गाड़ियों) पर आते।" आजूर-बाइजान आजकी तरह उस समय भी दो राज्यों में बंटा था—उत्तरी भाग सुवर्ण-ओर्दूके हाथमें था और दक्षिणी भाग इलखान (खुलाकू-वंश) के हाथमें। मंगोल ओर्दू अपने-अपने पशुओंके साथ चरवाहीके लिये सारी भूमिमें बिखरा रहता, उसका जाड़ा और गर्मी बितानेका अर्थ केवल एक जगहपर रहकर मनोविनोद करना नहीं था। झगड़ेके लिये वहाँ कोई भी कारण पैदा होना आसान था। बेरेकके भाई बुआल (मोवाल) के पुत्र तुतार (ततार)ने कुछ गुस्ताखी की, जिसके लिये उसे खुलाकूके पास लाया गया। खुलाकूने उसे उसके चचा—बेरेक (बरका) के पास भेज दिया। बेरेकने फिर उसे खुलाकूके पास कान मलनेके लिये भेजा। उसे यह ख्याल नहीं था, कि भतीजेको खुलाकू मौतका दण्ड देगा, लेकिन खुलाकूसे संबंध कुछ पहले ही खराब हो चुका था। सुवर्ण-ओर्दूके अमीरोंने कुछ छेड़-छाड़ की, और खुलाकूको उन्हें दंड देनेके लिये सेना भेजनी पड़ी थी। अमीर हारे। उनमें से अमीर निकुदेरके अधीन कुछ मंगोल-सेना खुरासानके रास्ते भागी। उसने गजनी और विनिकके पहाड़ोंको लेते मुलतान और लाहौरतक अपना अधिकार जमाया। कुमार ततारके मारे जानेके बाद अब दोनों वंशोंमें शत्रुताकी आग जोरसे भड़क उठी। बेरेक इस्लामका बादशाह था और खुबिले खानका भाई खुलाकू काफिर। बेरेकने उसके ऊपर इल्जाम लगाया—^१ "उस (खुलाकू) ने मुसलमान नगरोंको नष्ट किया, इस्लामी वंशोंको खत्म किया, अकारण ही खिलाफतका जड़-मूलसे उच्छेद किया।" भतीजेका बदला लेनेके लिये बेरेकने ततारके पुत्र नोगाइको तीन तुमान^२ (तीस हजार) सेना देकर बापके खूनका बदला लेनेके लिये भेजा। वह शिरवान पहुंचा। खबर पाकर खुलाकूने सारे ईरानसे सेना जमा कर तीन तुमान सेना शिरामून नोयन, अबताइ नोयन और समगरके नेतृत्वमें भेजी। २० अगस्त १२६२ ई० को स्वयं खुलाकूने भी अलतगासे प्रस्थान किया। अक्टूबर-नवम्बर १२६२ ई० (जुलहिजा ६६० हि०) में दोनों ओरकी भारी लड़ाई हुई। अबताइ [नोयनने शिरवानसे एक फरसख (कोस) पर सुलतानचुका नदीके किनारे नोगाइको बुरी तरहसे हराया। नोगाइ जान लेकर भागा। इलखानकी सेनाने २० नवम्बर १२६२ ई० (६ मुहर्रम ६६० हि०) आगे प्रस्थान किया। दरबन्दके घाटेमें—जहाँ काकेशस पहाड़ तथा कास्पियन समुद्र एक दूसरेके बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं—फिर जमकर जबर्दस्त लड़ाई हुई। बेरेककी सेना फिर हारी। खुलाकूकी सेनाने दरबन्द पार हो किपचक भूमिको लूटा-बरबाद किया। तो भी सुवर्ण-ओर्दूके खानकी शक्ति अभी क्षीण नहीं हुई थी। वह सेना एकत्रित करते अवसर ढूँढ़ता रहा। इलखानकी सेना लौटते हुये तेरक नदीके तटपर पहुंची। जाड़ोंके कारण नदीका पानी जम गया था। १३ जनवरी १२६३ ई० को सबेरेसे शाम-तक इलखानी सेना उसपरसे पार होती रही। यकायक नदीकी जमी बर्फ टूट गई, जिससे बहुत-से लोग पानीमें डूब मरे। खुलाकूकी सेना सुवर्ण-ओर्दू सैनिकोंकी मार खाती पीछे हटी। इसी समय २२ अप्रैल १२६३ को खुलाकू युद्धमें घायल हो गया, जिससे ८ फरवरी १२६४ ई० को वह मराग-जगातमें मर गया। लेकिन अब बापके कामको उसके योग्य बेटे अबका खान (आरिक बूगाखान) ने अपने हाथमें ले लिया।

१९ जुलाई १२६५ ई० में अबकाखानने राजकुमार यशमूतके नेतृत्वमें एक बड़ी सेना शिरवानकी ओर भेजी। खान स्वयं जाड़ोंमें माज़न्दरानमें रहा। उधर उत्तरसे राजकुमार नोगाइ भी सेना ले शिरवानकी ओर चलकर अकसू नदीके तटपर पहुंचा। यशमूत कुरा नदी पार हो गया। १४ नवम्बर १२६५ ई० को दोनों सेनाओंमें लड़ाई हुई, जिसमें तुगाचारका बाप कायर बूगा मारा गया। सेनापति नोगाइ भी सिरमें आहत हुआ। सुवर्ण-ओर्दूकी सेना तितर-बितर हो शिरवानकी ओर लौटी। अब बेरेक स्वयं तीस तुमान^३ (तीन लाख) सेनाके साथ आया और दक्षिणसे अबकाखान भी मुकाबिलेके लिये चला। दोनों सेनायें कुरा नदीके दोनों तटोंपर आमने-सामने पंक्तिबद्ध हुईं। १४ दिनतक यही हालत रही। बेरेक नदी पार होनेका कोई अवसर न देख ऊपर पहाड़में कहीं पार होनेके ख्यालसे नदीके किनारे-किनारे तिफलिसकी ओर चला, लेकिन असफल-मनोरथ हो रास्तेमें ही उदरशूल (कुलंज) की बीमारीसे मर

१. "जामे-उत्-तवारीख" (रशीवुद्दीन) २. १ तुमान = १० हजार।

गया। दोनों प्रतिद्वंद्वी बेरेक और खुलाकू मर गये, लेकिन उनकी दुश्मनी खतम नहीं हुई। बेरेककी लाशको संदूकमें बंदकर बा-तूसरायमें ले जा भाईके पास ही दफन कर दिया गया।

बेरेककी सेना खुलाकूसे उलझनेके पहले इस्ताम्बूल (कन्स्तन्तिनोपोल) तककी भी विजय-यात्रा कर चुकी थी, जबकि वहाँके राजाने क्रिम नगरको सुवर्ण-ओर्दूके खाकानको प्रदान किया था।

बेरेककी मृत्युके बाद फिर बा-तूकी संतानोंमें गद्दी चली गई और तोगोन-पुत्र मङ्गू तेमूर खान बना।

६. मङ्गू तेमूर, मुङ्गू-खे तेमूर (१२६५-८० ई०)

खुबिले खाकानने बेरेकके बाद मुङ्गू-खे तेमूरको खानपदकी यारलिक भेजी। यद्यपि उस समय मङ्गू तेमूर खुबिलेका कृपापात्र था, लेकिन पीछे उसके विरोधी ओगोताइ-वंशी कैदू खानका समर्थक बन गया, जिससे खुबिले उसका विरोधी हो गया। रूसके राजुल मङ्गू तेमूरके आज्ञाकारी सामंत थे। सुवर्ण-ओर्दू की राजधानी सराय (सराय चिक)में युरोपीय राजा और राजकुमार भी भेंट लेकर कोनिस बजानेके लिये आते थे। अब मंगोल-वंश सभ्यता और संस्कृतिका प्रतीक समझा जाता था। रूसके राजुल और महाराजुल मंगोल पोशाक और दरबारी रीति-रवाजोंको अपने लिये आदर्श मानते थे। इस आदर्श का अनुगमन १८वीं सदीके आरंभतक किया जाता रहा, जब कि प्रथम पीतरने इन पुराने तरीकोंको तुच्छ समझ रूसका युरोपीकरण शुरू किया। मङ्गू तेमूरके १५ सालके शासनमें सुवर्ण-ओर्दूकी शक्ति और राज्यविस्तारमें कमी नहीं हुई। हां, खुलाकू-पुत्र अबकाखानके साथ चलते झगड़ेके कारण वह कोई नया काम नहीं कर सका। मङ्गू तेमूर अपने न्याय और बुद्धिमानीके लिये प्रसिद्ध था, जिसके लिये ही उसे लोगोंने केलेकखानका नाम दे रक्खा था।

७. तुदा-मङ्गू तोगनपुत्र (१२८०-८४ ?)

तुदा-मङ्गू तुकूकान (तोगोन) का तृतीय पुत्र तथा मङ्गू तेमूरका भाई था। इसकी रानी तुरे कुतुलुक और दादी बा-तूकी प्रभावशाली रानी बोरकचीन दोनों—अलची तातार कबीलेकी थीं। तुदा-मङ्गू निर्बल शासक था। जिससे लाभ उठाकर मङ्गू तेमूरके पुत्रों—अलगू और तुगरल एवं तोगनके ज्येष्ठ पुत्र तरबू (दरतू) के पुत्रों कुनचोग और तुला बुकाने मिलकर खानको पागल कहकर उसे गद्दीसे उतार पांच सालतक सम्मिलित राज्य किया।

यस्सू-मङ्गू (.....-१२८९ ई०)—“शजरतुल-अतराक” ने यस्सू-मङ्गूको तुदा-मङ्गूका उत्तराधिकारी कहते—“यस्सू मुङ्गू-खान बिन-तोगान बिन-बातू-खान बिन-जोजी-खान बिन-चंगिस-खान”—पांचवां खान लिखा है। सुवर्ण-ओर्दूके ये पांच साल ऐसे गृह-कलहके थे, जिसमें जहां-तहां अनेक खान बने हों, यह संभव है। इस अव्यवस्थाका अंत तोकतोगूके खान बननेके साथ हुआ।

८. तोगताइ, तोकतोगू, मंगूतेमूर-पुत्र (१२८९-१३१३)

सेनापति नोगाइ अपने ओर्दूकी इस दुरवस्थाको चुपचाप देख नहीं सकता था। अंतमें उसकी नजर मङ्गू तेमूरके पुत्र तोकतोगूके ऊपर पड़ी। तोकतोगूकी मां उलजइ खातून केलमिश अकाखातूनकी पोती या नतिनी थी। अराजकताके समय राजकुमारोंकी हत्या आम बात थी, जिसके डरके मारे तोकतोगू भाग गया। बेरेकचरके पुत्र बिलिकचीने उसकी सहायता की। उसने बा-तू और बेरेकके समयके प्रसिद्ध सेनापति नोगाइको बुलवाया। अका (ज्येष्ठ) कहकर तोगताइने बहुत लल्लो-चप्पो करके उसे अपनी ओर कर लिया। नोगाइका ओर्दू उजी (दुनियेपर)की उपत्यकामें रहता था। वहीं सेना और सेनपोंको एकत्रित कर नोगाइने समझाते हुये कहा, कि मुझे सायन (बा-तू) खानने आज्ञा दी थी, कि उलुस (ओर्दू) को छिन्न-भिन्न होनेसे बचाना। नोगाइको अपने विरुद्ध होते देख तरबू और मङ्गू-तेमूर के पुत्र पितामह नोगाइके साथ हो गये। नोगाइने कहा—अपने झगड़ेका फैसला उलुसको छिन्न-भिन्न करके नहीं, बल्कि कूरिल्टाई (महासंसद) के निश्चयके अनुसार करो। तोगताइने इसी बीच सेना जमा कर इतिल (बोल्गा) उपत्यका में पहुंच राजधानीको ले लिया। लेकिन नोगाइ तोगाताइके हाथमें खेलना

नहीं चाहता था। तोगताइने उसे बहुत सी भेंट-पूजा देकर अपनी ओर मिलानेका असफल प्रयत्न किया, तो भी अभी दोनोंका संबंध बहुत बिगड़ा नहीं था। इसी बीच धर्मको लेकर दोनोंमें भयानक अनयान हो गई।

नोगाइके साथ संघर्ष—तोगताइका ससुर सलजीदइ बुरगान प्रसिद्ध कंकुरत कबीलेका पुराना अमीर था। उसकी बीबी केलमिश अकाखातूनकी पुत्री अलजई खातून तोगताइकी प्रभावशाली रानी थी। केलमिश अकाने अपने पुत्र याइलगका ब्याह नोगाइकी पुत्री कबकसे करना चाहा। नोगाइने इसे स्वीकार किया और दोनोंका ब्याह हो गया। ब्याहके थोड़े ही समय बाद कबक खातून मुसलमान बन गई। उसका पति तथा ससुर-परिवार बौद्ध (उइगुर) था, इसलिये कबकके साथ याइलग और उसके माता-पिता घृणा करने लगे। लड़कीने अपने मां-बाप और भाईको इसके बारेमें कहा। नोगाइ बेटीका अपमान नहीं देख सका और उसने तोगताइसे मांग की—“यदि मेरे और अपने बीच पिता-पुत्रका संबंध कायम रखना चाहता है, तो सलजीदइ करजूको मेरे हाथमें दे दे। तोगताइ अपने ससुरके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता था? उसने समझानेकी कोशिश की—“वह मेरा पिता और संरक्षक रहा है। पुराना अमीर है। कैसे उसे शत्रुके हाथमें दे दूँ?” नोगाइकी बीबी चबी बड़ी चतुर स्त्री थी। उसके तीनों पुत्र—जूखे, तेके और तूरी—सरकारी सेनाके कुछ हजार आदमियोंको बहका कर इतिल (बोल्गा) पार भाग गये। तोगताइने नोगाइसे हजारी सेनाको लौटा देनेके लिये कहा, लेकिन उसने तबतक वैया करनेसे इन्कार कर दिया, जबतक कि सलजीदइ या उसका पुत्र याइलग उसके पास नहीं भेज दिया जाता। अब सीधे संघर्ष होना निश्चित हो गया।

तोगताइ नोगाइकी शक्तको जानता था। उसने उससे भिड़नेके लिये अक्टूबर-नवम्बर १२८३ ई० (६९८ हि०) में उजी (दुनियेपर) के तटपर तीस तुमान (तीन लाख) सेना जमा की। उस साल जाड़ोंमें दुनियेपरकी धार नहीं जमी, इसलिये सेनाको पार ले जाना संभव नहीं हो सका। नोगाइ अपनी जगह बैठा रहा। सन् १३०० ई० के बसंतमें तोगताइके ओर्दूने तान नदीके तटपर गर्मी बिताई। सीधी लड़ाई करनेकी जगह खुराट सेनापति कल-बल-छलसे काम लेना चाहता था। ऊपरसे उसने खानको कहला भेजा—“मैं चाहता हूँ, कूरिलुताई बुलाकर फैसला किया जाय। लेकिन, दूसरी ओर धोखा देकर वह तोगताइके ऊपर आक्रमण करना चाहता था। खानको यह पता लगते देर न हुई। उसने जल्दी-जल्दी सेना जमाकर तान-उपत्यकाके बखतियारी (तजीमारी) स्थानपर लड़ाई की। तोगताइको हारकर सरायकी ओर भागना पड़ा। इसी समय अमीर माजी, सुतान (सुबान) और संगूर तीन अमीर नोगाइका साथ छोड़ अपने खानके पास चले गये + तोगताइ फिर तैयारी करने लगा। उसने बहुत कालसे दरबंदके घट्टपाल रहते आये बलग-पुत्र तमातोकतूको बुला भेजा और उसके नेतृत्वमें एक बड़ी सेना नोगाइके विरुद्ध भेजी। नोगाइको लड़नेकी हिम्मत नहीं हुई। वह उजी (दुनियेपर) नदीकी ओर लौट गया। क्रिम नगरमें पहुंचकर उसने बहुतसे लोगोंको दासके रूपमें बँचनेके लिये बंदी बनाया। लोगोंने तोगताइके पास संदेश भेजा—“हम इलखान (तोगताइ खान) के सेवक और अनुचर हैं। यदि स्वामीकी आज्ञा हो, तो हम नोगाइको पकड़कर भेज दें।” नोगाइके पुत्रोंको इसकी भनक लग गई और उन्होंने एक हजार सेना उनके ऊपर भेजी। हजारी सेनापतिने नोगाइके दूसरे पुत्र तेकेको खान बनानेका लोभ देकर धोखा रचा। इसपर तेकेने आक्रमण कर हजारी सेनाको हराया और उसके अमीरका सिर कटवा लिया। नोगाइ दलके भीतरके झगड़ोंकी खबर तोगताइको बराबर मिल रही थी। वह साठ तुमान (६ लाख) सेनाके साथ उजी पार हो तरकू (बरकू?) नदीके तटपर पहुंचा, जहाँपर कि पहले नोगाइका ओर्दू रहा करता था। नोगाइके पास तीस तुमान थे, लेकिन वह स्वयं बीमार था। उसने आदमी-द्वारा तोगताइके पास संदेश भेजा—“तेरे सेवक (मैं) ने नहीं जाना, कि स्वयं स्वामी पधारा है। उसकी सरदारी तथा सेना तेरी (इलखानकी) है। सेवक बूढ़ा निर्बल आदमी है। उसने सारे जीवन तेरे पिताकी सेवा की...।” ऊपरसे इस तरहकी बातें करते भी नोगाइने अपने पुत्र जूकेको एक बड़ी सेना ले तरकू नदी पार हो तोगताइपर आक्रमण करनेके लिये कहा। यह मालूम होनेपर तोगताइने भी प्रहार करनेका हुकुम दिया। युद्धमें नोगाइ और उसके पुत्रोंकी पूरी तौरसे हार हुई। हजार सवारोंके साथ

नोगाइके पुत्र भागकर केलारों और बाश्किरोमें चले गये। घायल नोगाइ सत्तर सवारोंके साथ भागा जा रहा था, जब कि तोगताइके रूसी सैनिकोंने उसे रास्तेमें पकड़ लिया। नोगाइने कह दिया— “मैं नोगाइ हूँ, मुझे तोगताइ खानके पास ले चलो।” रूसी सैनिक उसे ले चले, लेकिन नोगाइ रास्तेमें ही मर गया।

विजयके बाद तोगताइ बा-तूसराय लौटा। नोगाइ-पुत्रोंको कहीं त्राण नहीं दिखाई पड़ा। यह हालत देखकर उसकी मां चबी और तुरीकी मां बाइलकने सलाह दी, कि खानके शरणमें चले चलो। इससे नाराज होकर पुत्रोंने उनको मार डाला।

नोगाइ केवल एक सफल महासेनापति ही नहीं था, बल्कि वह कुटिल नीतिका पक्का खिलाड़ी था। शायद धर्मकी बात बीचमें न आ गई होती, तो बात यहांतक न पहुंचती। १३वीं सदीके अंत होते-होते मंगोल-सरदार और सैनिक बौद्ध धर्मको पूरी तौर से अपना चुके थे और इस्लामके प्रति उनका रुख सहानुभूतिका नहीं था, यद्यपि राजकाजमें अब भी वह तटस्थताका व्यवहार करते थे। वह नहीं चाहते थे, कि राजवंश और सामंतवंशमें अरबोंका धर्म फैले। यद्यपि सुवर्ण-ओर्दू और खुलाकूके वंशमें घोर शत्रुता थी, लेकिन खुलाकूका इस्लामके ऊपर अत्याचार और खलीफा-वंशका उच्छेद करना मंगोलोंमें अभिमानकी बात समझी जाती थी। वह क्यों पसंद करते, कि उनके घरमें ही विभीषण पैदा हों।

नोगाइने जब तोगताइ खानसे झगड़ा मोल लिया, तो उसने अपने पुराने शत्रु तथा बापके घातक खुलाकू-वंशसे भी सहायता लेनेकी कोशिश की। उसने खुलाकूके पुत्र अबका खानके पास अपने पुत्र तुरी तथा पत्नी चबी (चबी) के साथ अपनी एक लड़कीको भी ब्याहके लिये भेज दिया। अबकाने भी तुरीको अपनी कन्या प्रदान की। वह कुछ समयतक ईरानमें रहकर नोगाइके पास लौट आये। झगड़ा और बढ़नेपर नोगाइने ईरानके खान गजन (१२९५-१३०४ ई०) से मदद मांगी, लेकिन गजन इसके लिये तैयार नहीं था। उसने मदद देने हीसे नहीं इन्कार कर दिया, बल्कि तोगताइको संदेह न हो, इसके लिये जाड़ा अरान (दक्षिणी काकेशस) में न बिता बगदादमें बिताया। वह बराबर नोगाइको तोगताइसे मिलकर रहनेके लिये कहता रहा।

तोगताइने तुलाबुगाका पक्ष लेनेके अपराधमें अपने भाई तुगरलको मरवा दिया था। फिर भाईकी विधवाको अपनी रानी बना तुगरलके बेटे उज्वेकको खतरनाक चेरकासोंके देशमें भेज दिया। चौबीस वर्षके संघर्षमय जीवनके बाद उसके हृदयमें पश्चात्ताप होने लगा था। उसने यह बात अपनी रानीको बतला दी और दो बेगोंको राजकुमार उज्वेकको बुलानेके लिये भेजा। अभी उज्वेक नहीं आया था, इसी बीच (९ जुलाई १३१२ ई० *) इतिल (वोल्गा) नदीमें नौका-विहार करते तोगताइ डूबकर मर गया। तोगताइ-पुत्र तुगल जानता था, कि उज्वेक अपनी मांके प्रभावसे गद्दीका मालिक बन जायगा, इसलिये उसने उसके मारनेका षड्यंत्र रचा। उज्वेकको यह बात मालूम हो गई। सरायमें आनेके बाद उसने महलमें घुसकर तुगलको मार डाला।

९. उज्वेक खान तुगरल-पुत्र (१३१३-४० ई०)

उज्वेकका शासन इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है, कि इसके समयसे सुवर्ण-ओर्दू पूरीतरसे मुसलमान बनने लगा।

(१) आपसी संघर्ष—उज्वेकके शासनारंभके समय जो षड्यंत्र हुआ था, उसके बारे में “तारीख-हैदरी” (हैदर राजी १६११-१८ ई०) के अनुसार तोगताइके बाद अमीरों और नोयनोंने बादशाह चुननेके बारेमें एक सभा की, जिसमें वह उज्वेकको गिरफ्तार कर उससे पूछनेवाले थे, कि क्यों तुमने छिड़-गिस्के यस्सकको छोड़कर अरबोंके धर्मको अपनाया। इसी समय एक अमीरने आंखसे इशारा किया, और उज्वेक पेशाब-पाखानेका बहाना करके सभासे निकलकर भाग गया। फिर सेना जमाकर लड़कर उसने बीस राजकुमारों और तोगताइके दो पुत्रोंका कतल कर १३२२ ई० (७२२ हि०) में अपने राज्यको निष्कंटक किया। तबसे जू-छि खानाका उलुस “उज्वेक-उलुस” कहा जाने लगा। आरंभिक सहायताओंके लिये उज्वेकने कुतुलुक तेमूरको खुरासान बख्श दिया।

* “जेल-जादे-उत्-तवारीख”—अबूसईद

खानके अपने परिवार तथा अमीरोंके परिवारोंमें अब धर्मको लेकर झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ चला। नोगाइकी लड़कीका मुसलमान होना एक अलग-थलग घटना नहीं थी। हमें मालूम है, सुवर्ण-ओर्दू और दूसरे मंगोल खानोंकी सेनाओंमें भी मंगोल-सैनिक बालमें नमकके बराबर थे। सारे मध्य-एशिया और उसके उत्तरके घुमंतू तुर्क एक बार अवश्य मंगोलोंके खिलाफ खूब लड़े, किंतु परास्त होनेके बाद वह लुटकती बर्फकी गेंदकी तरह मंगोल ओर्दूका अंग बनते गये। विजयोंमें उनका पहले हीसे बहुत हाथ था, और उनकी लूटको वह अपना उचित हक समझते थे। तब भी मंगोल और अ-मंगोलमें अंतर रक्खा जाता था, यह हम चीनके बारेमें लिखते वक्त बतला चुके हैं। यद्यपि मंगोल खान दूसरोंकी लड़कियां लेनेमें एत-राज नहीं करते थे, उनके हरम देश-देशकी सुन्दरियोंसे भरे थे, लेकिन वहां भी प्रधानता मंगोल रानियोंकी ही थी—बापकी ओरसे छिड़-गिस्का रक्त और मांकी ओरसे शुद्ध मंगोल सामंतका रक्त होना आवश्यक समझा जाता था। शक्तिशाली खानों के समय चाहे बहुसंख्यक तुर्क सैनिक इस भेदभावको बर्दाश्त करते हों, लेकिन अब परिवर्तित अवस्थामें वह बराबरीका दावा करने लगे थे। समरकंद हो या तबरेज, सराय-बातू हो या काशगर, सभी जगह मंगोलोंकी अलग सत्ता बनाये रखनेकी बराबर कोशिश की गई, किंतु आखिर वह बूंद बनकर तुर्कसमुद्रमें मिल गये और उनके शासनके अंत होनेके कुछ ही समय बाद यह जानना भी मुश्किल हो गया, कि कौन मंगोल हैं। और तो और, स्वयं “शरजतुल-अतराक” जैसे इतिहासकारने भी तुर्क और मंगोलका भेद भुलाकर मंगोल-वंश-वृक्षको तुर्क-वंश-वृक्ष लिखा।

अपने बौद्ध पक्षपाती सेनापतियोंको हराकर उज्बेकने यह दिखला दिया, कि अब मंगोलों की नहीं, बल्कि तुर्कोंकी तूती बोलेंगी। १३१५ ई० में सुवर्ण-ओर्दूके विद्रोही सेनापति बाबाने अपने ओर्दूके साथ ईरानमें जा उलजैतू खान (१३०४-१७ ई०) के पास शरण ली। अभी ईरानी इल्खान मुसलमान नहीं हुए थे, इसलिये उलजैतू बाबाकी मददके लिये तैयार था। बाबाने ईरानसे ख्वारेज्मके ऊपर आक्रमण किया और उज्बेकके कृपापात्र कुतुलुक तेमूरको मार भगाया। चगताइ खान इस्सन “जेल-जामे-उत्तवारीख” के अनुसार बाबा ओगुलकी घटना सितंबर १३१५ ई० (जमादी II अंतिम ७१५ हि०) को हुई, जब कि वह अपने तुमान (दस हजार सेना) के साथ उज्बेकसे नाराज होकर खुलाकू-वंशी खान उलजैतू के पास चला गया। फिर वहांसे डेढ़ हजार सवारोंको लेकर उज्बेकके सामंत कुतुलुकके ऊपर प्रहार करने ख्वारेज्म गया। कुतुलुककी हार हुई और उसकी सारी सेना बाबा ओगुलकी ओर हो गई। ख्वारेज्मके शहरों—जमशवर, गरबीन, हज़ारास्प, हज़ारजमीन, कात, केरमारोन, शावकान आदिको लूटकर उसने उजाड़ दिया, लोगोंपर बड़े जुल्म किये। बाबा ओगुलके सैनिकोंने पतियोंके सामने उनकी बीबियोंके साथ व्यभिचार करनेमें भी आनाकानी नहीं की। ७०० के करीब इमाम और अशरफ (कुलीन लोग) जान बचानेके लिये मीनारपर चढ़गये थे। बाबाने लकड़ी जमाकर आग लगानेका हुकुम दिया। सासतसे मरनेकी जगह बापोंने अपने बेटोंको मीनारसे नीचे गिरा दिया। बाबाके हाथमें पचास हजार कैदी और लूटकी अपार संपत्ति आई। जब इसकी खबर चगताइ खान एसेनबुगाको खोजन्दमें मिली, तो उस (इस्सन बुगा या यस्सावुर १३०९-१८ ई०) ने अपने पड़ोसमें बाबाकी सफलता देखना पसंद नहीं-किया। वह बीस हजार सवारोंके साथ एक महीनेके रास्तेको हफ्तेमें पूरा करके ख्वारेज्म पहुंचा। बाबा ओगुलसे जबर्दस्त लड़ाई हुई, जिसमें उसके बहुतसे आदमी मारे गये। बाबाने बंदियोंको छोड़ दिया। लूटकी संपत्तिसे भी उसे हाथ धोना पड़ा और वह कुछ सवारोंके साथ जान बचाकर मेर्वकी ओर भागते चंद शाहजादोंके साथ उलजैतूके पास पहुंचा। चगताइ और बा-तूके वंशोंमें अब दोस्ती हो गई थी।

अपने ख्वारेज्मके उज्बेकका बहुत नाराज होना स्वाभाविक था। उसने इसमें उलजैतूका हाथ समझा। फिर दोनों ओरसे दूतोंका आना-जाना होने लगा। यह खबर जब चगताइ खान इस्सनबुगा ने सुनी, तो उसने उज्बेकको अपनी ओर खींचनेका प्रयत्न करते हुये संदेश भेजा—“तेमूर कथान (चीन) कहता है, कि उज्बेक क्या बादशाह है? मैं उसकी बादशाही दूसरे उलुस (ओर्दू) को दे दूंगा।” इस पर उज्बेक भी कथानसे बिगड़ उठा।

संघर्षकी खबरसे पहले ही सितंबर १३१५ ई० (जमादी अंतिम ७१५ हि०) को चीनसे कथानका महादूत कियात-वंशी अकबुका ईरानकी राजधानी तबरेजमें पहुंचा। अमीर हुसेन गूरगान ईरानी-खानका

प्रसिद्ध अमीर था। वह उस समय उज्बेकके सीमांतके प्रदेश अरानसे तबरेजमें आया हुआ था। उसने महादूतकी जियाफत की और खानके समय प्यालेको बैठे-बैठे अकबुकाके हाथमें देना चाहा। अकबुका इसपर नाराज हो दुत्कारते हुये बोला—“तू सामंत और दुर्गपाल होते मेरे सामने बैठा चाहता है, कि मैं तेरे हाथसे प्याला ले लूं। तू छिड़-गिसी यास्सा और पुराने शिष्टाचारको भूल गया?” अमीर हुसेनने भी उसका सीधा जवाब दिया—“अमीर इसे समय दूत होकर आया है, न कि छिड़-गिसी यास्साका शिक्षक बनकर।” महादूत चुप हो गया।

कअानके दूत ने सुलतानियोंमें जा उलजैतू खानसे कअान का संदेश कहा—“यदि बाबा ओगुल स्वयं ख्वारेज्मपर आक्रमण करने गया, तो उसे मेरे पास भेज दो।” खानने कहा—“मुझे खबर नहीं, मैं ऐसे बुरे कामकी हरगिज इजाजत नहीं दे सकता था।” उलजैतू नहीं चाहता था, कि बौद्ध धर्मके पक्षपाती बाबाका समर्थन कर उज्बेक खानको जहाद घोषित करनेका मौका दे। आखिर वह स्वयं इस्लामके केंद्र (ईरान, इराक, शाम) का शासक था, जहादकी हवा उसके देशमें भी घातक साबित होती। उसने उज्बेकके दूतके सामने बाबाको मरवा डाला और भारी भेंटके साथ स्नेहपूर्ण संदेश देकर महादूतको लौटा दिया।

१३१७ ई० (७१८ हि०) में उलजैतू मरा। उस समय अभी उसका उत्तराधिकारी अबू-सईद छोटी उमरका था। यह खबर जब दस्ते-किपचक गई, तो उज्बेकके मुंहमें पानी भर आया। बेशुमार सेनाके साथ वह दरबंदके रास्ते ईरानकी ओर बढ़ा। खान अबू-सईद (१३१७-३४ ई०) भी अपने अमीरोंके साथ कराबागकी ओर चला। अमीर चोबान एक बड़ी सेना ले गुर्जिस्तान (जाजिया) के रास्ते उज्बेकके मुक्काबिलेके लिये बढ़ा। अमीर ईसन कुतुलुक भी एक बड़ी सेना ले तबरेजसे अरान (शिरवान) की ओर रवाना हुआ। दरबंदसे खबर आई, कि उज्बेक दस्तेखिजिर (खजारोंका मैदान) पार हो आगे बढ़ दरबंद पहुंच गया है। शिरवानको लूटते-पाटते उज्बेक कुरा नदीके तटपर पहुंचा। कुरा नदी जहां चीनके व्यापारके लिये कास्पियन समुद्रतटसे कालासागरके पास तक व्यापार-धाराका काम देती थी, वहां वह खुलाकू और वा-तू-वंशोंके संघर्षका मुख्य स्थान रही। अमीर चोबानने उज्बेकके ऊपर इतने कौशलसे आक्रमण किया, कि उसे हार खानी पड़ी।

अमीर चोबान हुसेनका सितारा अब बहुत ओजपर चढ़ा। अबू-सईदकी नाबालिगीका लाभ उठाकर उसने सारे राज्यको अपने हाथमें ले लिया। उसका मन बहुत बढ़ गया, और वह उज्बेकको और भी कड़ा सबक सिखानेकी तैयारी करने लगा। भारी सेना जमाकर फिर वह शिरवान पहुंचा। सेनाके एक भागको दरबंद पार तेरक नदीकी ओर भेजा और स्वयं अपने पुत्रोंके साथ पहलेके परिचित गुर्जिस्तानके रास्ते आगे बढ़ा। लेकिन अबके उज्बेकके सामने उसकी नहीं चली और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। चीनमें कअान [बोयन्-थू-१३११-२० ई० या गेगेन १३२०-२३ ई०] को खुलाकू-वंश और वा-तू-वंशके खानोंमें इस पारस्परिक खूनी संघर्षसे बहुत चिंता हो रही थी। उसने अपना एलची (जनदूत, महादूत) भेजा, जो पहले उज्बेकके पास गया। फिर उसके एलचीको भी साथ लेते बगदादमें अबू-सईदके पास पहुंचा। अमीर चोबानने उनका बड़ा सत्कार-सम्मान किया और चीनी राजदूतको हमदानके रास्ते बिदा किया और उसके कराबाग पहुंचनेसे पहले ही जाकर आरामका सब तरहसे प्रबंध किया। कअानके एलचीपर इसका बहुत प्रभाव पड़ा और उसने अपने मालिकसे जाकर अमीर चोबान हुसेनकी बड़ी तारीफ की। कअानने खुश होकर अमीर चोबानको चारों उलुसों (वातू, खुलाकू, चगताइ और चीन) का अमीर बनाते हुये उसके नाम चार यारलिक (शासन-पत्र) भेजे। अमीर चोबानका जिस समय इस तरह सम्मान और शक्तिवर्धन हुआ, उसी समय उसके अपने पुत्र हसन और तालिश बापसे नाराज हो ख्वारेज्म भाग गये, जहांसे वह उज्बेक खानके पास पहुंचे। उज्बेकने उनका बड़ा सम्मान किया और अच्छे-अच्छे दर्जे दिये। पीछे हसन चेरकासों द्वारा युद्धमें मारा गया और तालिश अपनी मौत मरा।

अक्टूबर १३३० ई० (७३१ हि० = १५ अक्टूबर १३३०-३ अक्टूबर १३३१ ई०) को अमीर हुसेन (चोबान) के पुत्र अमीर शेख अलीकी पुत्री अनुशिरवान खातूनका ब्याह उज्बेकके पुत्र तथा उत्तराधिकारी दिनीबेकके साथ हुआ।

(२) **यूरोपपर अभियान (१३२३-२४)**—ईरानमें फंसनेसे पहले उज्बेक यूरोपकी खबर लेना चाहता था। ईरानके साथ बराबर अनिर्णीत युद्ध होते रहनेसे बहुत लाभ नहीं था, जब कि यूरोपके समृद्ध नगर लाभके खास साधन थे। १३२३ ई० में उज्बेककी सेनाने लिथुवानियापर आक्रमण किया। कन्स्तन्तिनो-पोलके विजंतीन “सम्राटों” के लिये भी यह बहुत संकट का समय था। मंगोलोंको प्रसन्न रखनेके लिये कन्स्तन्तिनोपोलके सम्राटों और उनके सरदारोंने अपनी सुन्दर कन्यायें भेंट कीं, तो भी वह जान नहीं बचा पाये। १३२४ ई० में मंगोल अद्रियानोपोलपर एक लाख बीस हजार सेनाके साथ चढ़ आये। उन्होंने थ्रेस प्रदेश (यूरोपीय तुर्की और बुल्गारिया) को चालीस दिनोतक लूटा, बहुत-सी संपत्ति और दासोंकी तरह बेचने के लिये भारी संख्यामें बंदी उनके हाथ आये। जब थ्रेसवालों ने चोरोंकी तरह आकर हमला करनेकी निंदा की, तो मंगोल-सेनापति तासबुगा (ताशबेग) ने जवाब दिया—“हम ऐसे शासक के अधीन हैं, जिसकी आज्ञा जब होती है, उसी वक्त हम आगे बढ़ते, पीछे हटते अथवा उभी जगहपर जमे रहते हैं।”

(३) **मास्को राजुल**—रूसी राजुलोंके अब भी अलग-अलग राज्य थे। मंगोलोंने शासनके सुभीतेके लिये मास्कोके महाराजुलको सबका मुखिया बना दिया था, किंतु वह यह नहीं चाहते थे कि, सारा रूस एक राजनीतिक इकाई बन जाये। सुवर्ण-ओर्दूकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी। इस्लामने शक्तिशाली बनानेकी जगह आपसी झगड़े पैदा करके मंगोलोंको निर्बल करना शुरू कर दिया, जिससे रूसी फायदा उठा सकते थे और मास्कोके महाराजुल जार्जने फायदा उठाया भी। उसने अपने चचा त्वेरके महाराजुल मिखाईलके खिलाफ खानका कान भरा और उसे २२ नवम्बर १३१९ ई० को अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा। उज्बेक बौद्धोंका शत्रु था और इस्लामका कट्टर पक्षपाती, लेकिन ईसाई पादरियोंके साथ उसका बर्ताव अच्छा था। मास्कोके ऊपर उसकी विशेष कृपा थी। मास्कोके राजुलने र्याजनके राजुलको अपने अधीन बनाया। चचरे भाई दिमित्र (त्वेर) ने इसीमें अच्छा समझा, कि दो हजार रूबल* वार्षिक पर अपने महाराजुल पदसे इस्तीफा दे दे, लेकिन वह बापके हत्यारेको क्षमा नहीं कर सकता था, इसलिये २१ नवम्बर १३२५ ई० में उसने मास्को-राजुलके पेटमें तलवार घुसेड़कर उसका बदला लिया। इवान खलीता (१३२५-४१ ई०) अब मास्कोका राजुल बना। वह उज्बेकका और भी कृपापात्र था। उसके बाप यूरीकी हत्याको उज्बेकने एक राजभक्तका बलिदान माना। लेकिन इवान केवल राजभक्त नहीं रहना चाहता था, वह घृणास्पद मंगोलोंके जुयेको हटाकर सारे रूसको एकताबद्ध करना चाहता था। इसीके शासनकालसे मास्को सारे रूसकी राजधानी बनने लगा, और इसीके समय तातारों (मंगोलों) को निकाल बाहर करनेके लिये रूसमें संगठन होने लगा। लेकिन साथ ही, इसी वक्त दक्षिणी और उत्तरी रूसमें भेदकी खाई ज्यादा हो चली। इवानने ग्लादिमिरको केवल कुछ समयके लिये ही राजधानी माना, तब भी वह अक्सर मास्कोमें रहता था। थोड़े ही समय बाद उसने राजधानीको बिल्कुल मास्कोमें बदल दिया। यही नहीं उसने रूसी ईसाई संप्रदाय (ग्रीक चर्च) के महासंघराज (मेत्रोपोलितन) को भी अपना केंद्र ग्लादिमिरसे हटाकर मास्को लानेके लिये तैयार किया, और ४ अगस्त १३२६ ई०को मेत्रोपोलितन मास्को चला आया। इवानने मास्कोमें पत्थरका पहला गिर्जा बनवाया। उसने खानके दरबारकी कई यात्रायें कीं। १३३३ ई० में उज्बेकने उसे बहुतसे सम्मान प्रदान किये। अगले साल १३३४ ई० में वह फिर खानके ओर्दूमें था। इवानका प्रतिद्वंद्वी राजुल अलेक्सान्द्र (त्वेर) जगह-जगह धक्के खाता उकता गया। उसने सोचा—“ओह, अगर मैं इसी तरह निर्वासित रहूंगा, तो मेरे बच्चे उत्तराधिकारविहीन रह जायेंगे।” अन्तमें उसने उज्बेकको यह कहकर आत्म-समर्पण किया—“महान् खान, मैं तुम्हारे क्रोधका पात्र हूँ। मैं अपने भाग्यको तुम्हारे हाथोंमें देता हूँ। भगवान् और तुम्हारा हृदय जो चाहता हो, वही मेरे साथ करो। तुम्हें मुझे क्षमा करने या दंड देनेका अधिकार है। क्षमा करनेपर मैं तुम्हारी दयाके लिये भगवान्से प्रार्थना करूंगा और दंड देना है, तो उसके लिये मैं अपने सिरको अर्पण करता हूँ।” उज्बेकने उसे क्षमा कर दिया और त्वेर (आधुनिक कलिनिन) का राज्य देकर सम्मानित किया।

* उस समय रूबल तीन-चार इंच लंबा एक अंगुल चौड़ा चांदीका टुकड़ा होता था।

लेकिन चालाक इवान इतनेसे हार माननेवाला नहीं था। उसने तरह-तरहकी चुगलियां खाईं। अलेक्सांद्रको फिर बुलाया गया और २८ अक्टूबर १३३९ ई० को पुत्र-सहित उसे मार डाला गया। उज्वेकद्वारा कत्ल किये गये रूसी राजुलोंमें ये दोनों छठे और सातवें थे।

एक तरफ इवान खानकी चापलूसी करनेमें सभी दरबारियोंका कान काटता था, दूसरी तरफ वह नहीं चाहता था, कि उसकी जाति मंगोलोंके सामने इस तरह सिज्दा करते नाक रगड़ती रहे। उसने यह अच्छी तरह समझ लिया था, कि जबतक अनेकों राजुलोंमें बंटी रूसी जातिको एक नहीं किया जाता, तबतक मंगोलोंका जुआ हटाना संभव नहीं। अलेक्सांद्रको खतम करवानेसे पहले १३३३ ई० में सुज्दलके राजुलके निस्संतान मरनेपर उसके राज्यको उसने अपने राज्यमें मिला लिया। वह दृढ़ शासक था। उसने अपने राज्यमें व्यवस्था स्थापित की, और सबको आज्ञा पालन करनेके लिये मजबूर किया। रूसियोंने देखा : महाराजुल और दूसरे राजुलोंके राज्यों में कितना अंतर है। उसने पहलेसे मौजूद दुर्ग (क्रेमल, क्रेमलिन) को फिरसे बनवाया, मास्कोको लकड़ीके प्राकारसे घिरवाया। क्रेमलिनके अतिरिक्त उसने कई गिर्जे बनवाये, जिनमें संत मिखाइल राजदेवदूत भी एक है, जिसमें आगे रूसी राजुल दफन किये जाने लगे। शांति और सुव्यवस्थाके कारण मास्कोका व्यापार भी बढ़ चला। उत्तरके देशोंके माल हान्स-संघके व्यापारी लाते और दक्षिणके मालको अजोफ समुद्रके रास्ते गेनोवाके व्यापारी। उसने मोलोगा नदीके मुहानेपर खोलोपगोरोदकमें पहला व्यापारी मेला लगावाया, लोगोंके ठहरनेके लिये सत्रह यात्रिगृह बनवाये। इस मेलेसे साढ़े तीन हजार चांदीका रूबल इवानको मिला। देश और महाराजुल दोनोंकी संपत्ति और समृद्धि बढ़ रही थी। इवानने अपने रुपयेसे नवगोरोद, ब्लादिमिर, कोस्त्रोमा और रोस्तोफमें मिलिकयत खरीदी। खानके लिये अपनी प्रजासे कर उगाहना आसान काम नहीं था। कर उगाहनेवाले अधिकारी ही बीचमें बहुत-सा पैसा खा जाते थे। इवान तुरंत कर बेबाक करनेके लिये तैयार था, फिर खानको और क्या चाहिये ? १८ वीं सदीमें भारतमें प्रचलित नीतिको दुहराते उसने कर उगाहनेका अधिकार इवानको दे दिया। रूसी जनताको भी यह पसंद आया, क्योंकि तातारोंके नामसे रूसियोंमें आतंक छा जाता था। खानके कर उगाहनेवाले जब हथियारबंद मंगोलोंके साथ करके लिये घूमते, तो लोगोंका प्राण निकलने लगता। इवान अब इस कामको बड़ी चतुरतासे करने लगा, जिसके कारण रूसियोंके एकताबद्ध होनेमें बड़ी सहायता मिली। उसने क्रेमलिनसे घोषणा की, कि अबसे हमारे परिवार तथा प्रजाके भीतरके झगड़ोंको हमारे बायर (अमीर) निपटाया करेंगे। अपने प्रतिद्वन्द्वियोंके ऊपर वह जरा भी दया दिखानेके लिये तैयार नहीं था। एक ओर रूसमें वह यह चाल चलते अपनेको मजबूत करनेके लिये साम और दाम दोनों तरीकोंको अख्तियार कर रहा था, दूसरी ओर वह जानता था, कि उज्वेकको भी अपने हाथमें रखनेकी आवश्यकता है। वह बीच-बीचमें दौड़कर खानके दरबारमें पहुंचता और उसे बड़ी-बड़ी भेंटों और चापलूसियोंसे मुग्ध किये रहता। महाराजुल और खानमें कभी वैमनस्य नहीं हुआ, तथा दोनों एक ही साल (१३४० ई०) मरे।

इसमें शक नहीं, उज्वेक अपने ओर्दूको मुसलमान बनानेमें ही बड़ा सहायक नहीं हुआ, बल्कि चाहे अनिच्छासे ही सही सारे रूसपर मास्कोके एकाधिकारको कायम करानेमें भी उसका बड़ा हाथ था। उज्वेककी इस कार्रवाईसे मास्कोके महाराजुलकी ही शक्ति नहीं बढ़ी, बल्कि रूसी चर्चने भी उससे लाभ उठाया। रूसियोंके ऊपर अब चर्चका एकच्छत्र प्रभाव था। चर्चकी संपत्ति विशाल हो गई, उज्वेकके दिये हुये गांवोंने चर्चकी भू-संपत्तिको और बढ़ा दिया। जैसे मास्को-महाराजुलके हाथमें शक्तिका केंद्रीकरण हुआ, उसी तरह चर्चके महासंघराजने पादरियोंपर अपना एकाधिपत्य जमाया, जिसके लिये कि रोमन कैथलिक चर्चने पहले हीसे उदाहरण स्थापित कर दिया था।

महाराजुल और महासंघराजके लिये उज्वेकने छूट कर दी थी। व्यापार और लोगोंके परिश्रमसे समृद्ध रूसकी संपत्ति उसे चाहिये थी, जो बिना तरह-तुदके खानके पास पहुंच रही थी। पर जहांतक रूसी जनसाधारणका संबंध है, उसकी अवस्था पशुओंसे भी बदतर थी। मंगोल सैनिकों और अफसरोंके सामने पहले हीसे जहां उन्हें दांत निकालना और पूंछ हिलाना पड़ता था, वहां अब वह महा-

राजुलके बायरोके भी शिकार थे। रूसी इतिहासकार करमाजिनके अनुसार—“क्रिमिया और कूबानके यहूदी सारी जातिके जीवन-रक्तको जोंकोंकी तरह पी रहे थे।

१३३४ ई० में ईरानपर फिर आक्रमण करनेके लिये उज्बेकने अभियान किया। अर्ध-सईद मुका-बिलाके लिये आनेवाला था, लेकिन इसी बीचमें वह मर गया। उसके उत्तराधिकारी अरपा खानने आगे बढ़कर सामना करना चाहा, लेकिन दोनों ही पक्ष अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं रखते थे, इसलिये उन्होंने बिना लड़े ही लौट जाना पसंद किया।

उज्बेकका शासन-काल किपचक (सुवर्ण-ओर्दू) के इतिहासमें समृद्धिकी चरम सीमाका है। उज्बेकने अपने राज्यमें शांति और व्यवस्थाको इतनी अच्छी तरहसे कायम किया था, कि पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण चारों तरफसे व्यापारियोंका तांता लगा रहता था। उसकी सेना भी बड़ी जबर्दस्त थी। लेकिन उससे भी अधिक वह अपनी कूटनीति और भेदनीतिसे काम लेता था। ईरानके खुलाकू-वंशमें झगड़ा चलते रहनेके कारण युरोपके देश उसकी चोटसे बहुत कुछ बचे रहे। छिड-गिस् खानके समयमें ही मंगोल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारको प्रोत्साहन देते आये थे। काला सागरके तटपर जहां कभी ग्रीक और रोमक व्यापारियोंके बड़े-बड़े दुर्गबद्ध केंद्र थे, अब वहां वेनिस, गेनोआ और दूसरे स्थानोंके युरोपीय व्यापारी उसी कामको कर रहे थे। अगस्त १३३५ ई० में उज्बेकके प्रतिनिधि कुतुलुक बेगने वेनिगके वाणिज्य-दूतके साथ संधि की और अस्पताली गिजोंके पीछे बाजारके लिये वेनिसके व्यापारियोंको जगह दी। वित्रयके ऊपर ३ सैकड़ा कर सरकारको मिलना निश्चित हुआ था।

तीस साल राज्य करनेके बाद १३४२ ई० में उज्बेक मरा। उज्बेकके सिक्कोंपर उसका नाम निम्न रूपमें लिखा मिलता है—“नयाजुद्दीन उज्बक खान”, “महम्मद उज्बक खान”, “उज्बक खान आदिल”।

(४) इस्लामसे सहानुभूति—“शजरतुल् अतराक” के अनुसार उज्बेक खानने मुसलमान होनेसे पहले आठ साल राज्य किया और मुसलमान होनेके बाद तीस सालतक। लेकिन इस बातमें संदेह है, जैसा कि पहलेके वर्णनसे मालूम है। उज्बेक खानको आठ सालतक काफिर रखनेसे इस लेखकका मतलब यही मालूम होता है, कि कुतुबुद्-दुनिया (जगत्-घुब) महात्मा जंगी अताके उत्तराधिकारी महात्मा सैयद अताकी महिमाको बढ़ाया जाय। वह यह भी लिखता है, * कि उज्बेक अपने सारे उलुसके साथ सैयद अताके हाथ मुसलमान हुआ। तबसे किसीके पूछनेपर उसके उलुसके लोग अपने सरदार (बादशाह)के उलुसका नाम लेते हैं, इसीसे उलुसका नाम उज्बेक-उलुस पड़ गया।

१३१४ ई० में ही उज्बेकने बेमुल्कके राजा और कठपुतली खलीफा नासिरके पास मिस्त्रमें भेंटके साथ पत्र भेजा था, जिसमें उसने लिखा था—“मेरे राज्यमें अब सिर्फ मुसलमान हैं। गद्दीपर बैठते ही मैंने उत्तरी कबीलोंको कह दिया, कि या तो इस्लाम स्वीकार करो या लड़ाई लो। जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्हें मैंने लड़कर अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया.....” लेकिन उज्बेकके राज्यमें रूसी भी थे, जो मुसलमान नहीं हुये, इसलिये उज्बेकके अपने राज्यमें सिर्फ मुसलमानोंके होनेकी बातका यही अर्थ है, कि अब मुद्दूर उत्तरके थोड़े-से बाशिदोंके सिवाय उसकी सारी एशियाई प्रजा इस्लामको स्वीकार कर चुकी थी।

उज्बेकने इस्लामिक शासकोंके साथ घनिष्ठता स्थापित करनेकी बड़ी कोशिश की। उसने अपनी एक लड़कीका ब्याह मिस्त्रके शासक मलिक नासिरसे किया था। मुस्लिम इतिहासकारोंका कहना—“वह बड़ा बहादुर और दयालु था”, जो उज्बेकके अपने कार्योंसे गलत साबित होता है। उसका राज्य ६०० फरसख (योजन) लंबा था, यह ख्वारेज्मसे पोलैन्दकी सीमाकी दूरीसे मालूम है।

(५) इन्न-बतूता-मशहूर पर्यटक इन्न-बतूता १३३३ ई० में क्रिमिया होते दक्ते-किपचक (सुवर्ण-ओर्दू भूमि) पहुंचा। वह इस देशके बारेमें लिखता है—“वृक्ष-वनस्पतिहीन मैदान है, जहां न पहाड़ है न

* “हर कसे कि अज ईशां मीपुरसंद कि ई आयन्दा कीस्त। नाम सरदार व पादशाह खुदारा कि उज्बक बूद, मी-गुफ्तंद, बदां सबब अजअजांमा मरदुम् आमद मौसूम ब-उज्बक शुदअंद।”

जंगल। लोग कंडेको ईंधनके तौरपर एस्तेमाल करते हैं। खानकी राजधानी (सराय) एक चलती-फिरती नगरी है, जिसमें सड़कें हैं, मस्जिदें हैं, भोजनगृह हैं, जिनका धूआं उनके चलते-फिरते समय ऊपर उठता रहता है। उज्बेक दुनियाके सात बड़े राजाओंमें है—कन्स्तन्तिनोपोलका तकफीर (सम्राट्), मिस्रका सुलतान, उभय-ईराकका राजा (इलखान), तुकिस्तान-अंतर्वेदका शासक, भारतका महाराजा और चीनका फगफूर (भगपुत्र, देवपुत्र)।” बतूताने खानके बारेमें लिखा है—“प्रत्येक शुकवारको नमाजके बाद खान एक सुनहले चंदवेके नीचे सोने-चांदी और कीमती जवाहिरोंसे जड़े सिंहासनपर बैठता है। उसकी बगलमें उसकी एक-एक तरफ दो-दो चारों बीबियां बैठती हैं। सिंहासनके सामने उसके दो पुत्र खड़े होते हैं—एक दाहिने और एक बायें। खानके सामने उसकी लड़कियां बैठ गईं। जब कोई रानी आई तो खानने खड़ा हो उसका हाथ पकड़कर बैठनेका स्थान बतलाया। वह कभी परदा नहीं करती। इसके बाद बड़े अमीर आये, जो कि सिंहासनके दाहिने और बायें कुर्सियोंपर बैठते हैं। उनके बाद खानके भतीजे तथा दूसरे राजवंशी शाहजादे खड़े हुये। उसके बाद बड़े अमीरोंके पुत्रोंने अपने दर्जेके अनुसार स्थान ग्रहण किया। जब सब बैठ गये, तो दूसरे लोग भीतर आकर खानको सलाम करके अपने दर्जेके अनुसार अपनी जगहोंपर जा बैठे। शामकी नमाजके बाद पटरानी लौट चली। उसके पीछे सुंदर-सुंदर दासियां और परिचारिकायें चल रही थीं। वह गाड़ियोंपर बैठी थीं। आगे-आगे सवार और पीछे-पीछे सुंदर ममलूक (राजदास) रथका अनुगमन कर रहे थे। सुलतान (खान) की बीबियोंका बहुत भारी सम्मान किया जाता है। उनमेंसे प्रत्येकका अलग महल होता था, जिनमें उनके अपने अनुचर और सेवक रहते हैं। ओर्दूमें आकर हर एक भेंट करनेवालेसे आशा की जाती है, कि वह खानकी हर एक रानीके सामने जाकर सम्मान प्रदर्शित करेगा।

बुल्गार नगरी (कजान) सुवर्ण-ओर्दूकी दूसरी राजधानी होनेके कारण अपने पुराने वैभवसे वंचित नहीं हुई। उसकी प्रसिद्धि सुनकर इब्न-बतूता खानके शिविरसे दस दिनके रास्तेको तीन दिनमें पारकर वहां पहुंचा। उसने लिखा है—“यहां रात इतनी छोटी होती थी, कि रात्रिकी नमाज आरम्भ करनेसे पहले बहुत थोड़ा समय मुझे शामकी नमाज पढ़नेके लिये मिला। मध्य-रात्रिके बाद जल्दी ही सुबहकी लाली छा गई।...अंधेरेकी भूमि यहांसे चालीस दिनके रास्तेपर और उत्तरमें है, जहां कुत्तोंवाली बेपहियेकी गाड़ियोंपर यात्रा की जाती है। सारा रास्ता बर्फसे ढंका रहता है, जिसपर आदमी या जानवरका पैर नहीं टिकता। कुत्तेका नाखून बर्फमें चुभकर उसे फिसलनेसे रोकता है। इस अंधकार-भूमिमें व्यापारी छोड़ कोई दूसरा आदमी नहीं जाता। व्यापारी सैकड़ों बेपहियेकी गाड़ियोंमें रसद, पानी, ईंधन आदि लेकर जाते हैं। वहां न वृक्ष हैं न पत्थर न घोड़े। उनका पथ-प्रदर्शक एक अनुभवी कुत्ता होता है, जिसके लिये हजार दीनार देना पड़ता है। नेता-कुत्तेके खड़ा होते ही सारे कुत्ते खड़े हो जाते हैं। नेता-कुत्तेका मालिक भी उसे कभी दंड नहीं देता। खानके समय कुत्तोंको पहले खाना दिया जाता है। वहां व्यापार बदलेन द्वारा होता है। व्यापारी अपने मालको निश्चित स्थानपर रखकर हट जाते हैं। दूसरे दिन जानेपर अपने मालकी जगह उन्हें सेबल, एरमिनके मृग-छाले और सिजाबके समूर मिलते हैं। वह यदि संतुष्ट हुये, तो ले आते हैं, नहीं तो छोड़कर हट आते हैं, फिर और माल बढ़ाकर रक्खा जाता है। न पसंद आनेपर व्यापारीका माल छोड़ देते हैं। व्यापारियोंको भी यह मालूम नहीं है, कि यह देनेवाले कौन हैं—आदमजाद या राक्षस।”

लम्बे दिनोंका वर्णन तेमूरलंगकी विजय-यात्रामें भी आता है। कजान ५६ उत्तरी अक्षांशके पास होनेसे वहां दिन और रातका बहुत अधिक बड़ा होना स्वाभाविक है। यह उस समयके सभ्य जगत्का सीमांत नगर था, जिसके बाद साइबेरियाकी जन-जातियोंका देश शुरू होता था, जिनके वंशज कोमी और खान्ती आदि अब भी वहीं रहते हैं, लेकिन अब वह बतूता और दूसरोंके देवदानव नहीं, बल्कि सभ्य और शिक्षित आदमजाद हैं।

उज्बेकने ग्रीक राजा अन्द्रोनिकसकी लड़की (बेइलुन खातून) से ब्याह किया था। इस ब्याहको रूसके महासंघराज थेओगोनोसने कन्स्तन्तिनोपोल जाकर स्वयं करवाया था। इसी रानीके साथ बतूता उसके बापके घर भी गया था। बतूता बातूसरायसे ख्वारेज़म और अफगानिस्तान होते भारतकी ओर

आया। उसने लिखा है, कि किपचक-तुर्कोंका सबसे बड़ा नगर ख्वारेज्म है, जिसपर उज्बेकका शासन है, जिसका अमीर खानके उपराजके तौरपर वहां रहता था। बतूताने ख्वारेज्मकी बड़ी प्रशंसा की है—“ख्वारेज्मियों जैसे संस्कृत और उदार आदमी मैंने कहीं नहीं पाये और न उनके-जैसे परदेशीके साथ स्नेह रखनेवाले। अगर कोई मस्जिदमें नमाजके समय अनुपस्थित होता, तो मस्जिदके सामने ही इमाम उसे पीटता। इस कामके लिये हर एक मस्जिदमें एक कोड़ा रहता है।” उज्बेकके इस्लामिक धर्मराज्यका यह अच्छा नमूना है—लोगोंसे जबर्दस्ती अल्लाहकी बंदगी करवाई जाती थी। यद्यपि पुराने मुसलमानोंके साथ इस तरहकी कड़ाई थी और—अपनी प्रजाको उज्बेकने जबर्दस्ती मुसलमान बनाया, लेकिन जहांतक ईसाई प्रजाका सम्बन्ध था, वह उनके साथ धर्मान्धता नहीं दिखलाता था।

१०. दिनीबेग, तिनीबेग, उज्बेक-पुत्र (१३४२ ई०)

उज्बेकके बाद उसका पुत्र दिनीबेग गद्दीपर बैठे। उसके दो और भाई जानीबेग तथा खिज़िर-बेग थे। जानीबेगने भाईके खिलाफ विद्रोह किया। लड़ाईमें दिनीबेगकी हार हुई। जानीबेगने उसे पकड़कर मार डाला और खुद गद्दीपर बैठ गया। अपने दूसरे भाई खिज़िरबेगसे भी खतरा देखकर उसे भी उसने मरवा दिया।

११. जानीबेग, उज्बेक-पुत्र (१३४२—५७ ई०)

जानीबेगने सोलह साल राज्य किया। बातू-वंशका यह अन्तिम शक्तिशाली खान था। नियम और व्यवस्थाका वह अपने बापकी तरह ही बहुत पाबन्द था। इसीके समय खुलाकू वंशके पतनसे ईरानमें अशांति और अव्यवस्था मची हुई थी, जिसके कारण बहुत से धनी-मानी तबरेज सराह, अर्दबील, बेलगान, नखचवान आदि शहरोंको छोड़-छोड़कर इधर आ बसे। अभी भी सुवर्ण-ओर्दू केवल एशिया हीतक सीमित नहीं था। १३४३ ई०में खानकी सेनाने पोलैंदपर आक्रमण किया—उसी साल पोलैंद टिड्डियोंका शिकार हो चुका था। लूट-पाट करते हुये किपचकोंने लुबलिन नगरको जा घेरा, लेकिन वह उसे सर नहीं कर सके।

१३४६ ई०में मास्कोका महाराजुल सिमओन (१३४२—५३ ई०) जानीबेगके दरबारमें पहुंचा। उसने भारी भेंट खान और उसके परिवारके सामने पेश की। जानीबेगने भी प्रसन्न होकर महाराजुलको बहुत उपहार और खलअत दी। लिथुवानिया अब भी ईसाई नहीं हुआ था। अब भी वहां कुछ पुराने वेदोंकेसे देवताओंकी पूजा होती थी। वहांका राजा ओलगर्द मास्को-महाराजुलका भारी प्रतिद्वंद्वी था। ओलगर्दपर जर्मनोंने आक्रमण शुरू कर दिया। उसने अपने भाई कोरिअदको खानके पास मदद मांगनेके लिये भेजा। सिमओनने चुगली खाई, जिसपर खानने लिथुवानी कुमारको उसके हाथमें दे दिया। उधर महाराजुलका दूसरा प्रतिद्वंद्वी पोलैंदका राजा कसिमिर था, जिसने १३३९ ई०में गलिसियाको लेते पड़ोसके वोल्हनिया प्रदेशको भी अपने हाथमें कर लिया था। रूसी महाराजुल इसे कैसे पसंद करता? वह सनातनी ईसाई सम्प्रदाय (अर्थोदक्स चर्च) का अनुयायी था और कसिमिर कट्टर रोमन कथलिक। कसिमिर स्लाव ईसाई पादरियोंको अपने धार्मिक रीति-रवाजोंको छुड़ाकर जबर्दस्ती कथलिक बनाता था। इसके कारण लोग उससे बिगड़कर लिथुवानियोंके पक्षपाती हो गये और उन्होंने रूसी महासंघराजको भी प्रेरित किया, कि महाराजुल सिमओनको कहकर लिथुवानी कुमार कोरिअदको मुक्त करा दें। इसके लिये उन्होंने मुक्ति-धन भी दिया। महाराजुलने अपने वंशकी राजकुमारी दुलियानाको लिथुवानियाके काफिर राजा ओलगर्दसे इस शर्तके साथ ब्याह दिया, कि उसकी संतान ईसाई बनाई जाये। ओलगर्दने इस प्रकार शक्ति-संचय करके पोलोंको वोल्हनियासे मार भगाया। १५ फ़रवरी १३४७ ई०में जानीबेगने वेनिसियोंके साथ संधि की और उन्हें तानामें बाजारके लिये एक जगह प्रदान की।

(१) प्लेग महामारी—१३४५ ई०में एशिया और युरोपके देशोंमें भयंकर काले प्लेगकी महामारी आई थी। इसका आरम्भ चीनमें हुआ था, जहां उससे एक करोड़ तीस लाख आदमी मर गये। कास्पियन समुद्रके दोनों तरफके प्रदेश इस प्लेगके मारे उजाड़ हो गये। तुर्किस्तान, ख्वारेज्म, सराय-सबमें हाहा-

कार मच गया। आरमेनिया, अबखाजिया, चिरकासके लोग, क्रिमियामें बसे यहूदी, गेनोवा और वेनिस-वाले भी तबाह हो गये। आगे वह ग्रीस, सिरिया (शाम) और मिस्रमें भी फैली। गेनोवावाले व्यापारियोंके जहाज उसे अपने साथ इताली, फ्रांस, इंगलैंड और जर्मनीमें ले गये। लंदनमें इसके प्रकोपसे एक कब्रिस्तानमें पचास हजार मुर्दे गाड़े गये। पेरिसके आतंकित लोग गुस्सेके मारे यहूदियोंका संहार करनेके लिये तैयार हो गये। वह समझते थे, प्लेग लानेवाले यही यहूदी हैं। १३४९ ई० में वह स्कंदनेवियामें पहुंची, फिर पुस्कोफ और नवोग्रादके रूसी नगरोंमें भी। पुस्कोफके एक-तिहाई आदमी मर गये, शहरका शहर बीमार हो गया था। पैसा खर्च करनेपर भी धनियोंको नर्स नहीं मिलती थीं। भयके मारे बीमार मां-बापको छोड़ बच्चे भाग जाते थे। लोग बहुत अधिक धार्मिकता दिखलाने लगे थे और धनी लोग धार्मिक कार्योंमें बड़ी उदारतासे खर्च करते थे। उस सालके जाड़ोंमें प्लेग तो बंद हुई, लेकिन उसके बाद पेचिश (हैजा) तथा खूनके कैंडी बीमारी शुरू हुई, जिसमें आदमी मुश्किलसे दो-तीन दिन जी पाता। घुमन्तुओंपर प्लेगका प्रभाव और भी भयंकर हुआ था।

१३५१ ई०में भारी अकालसे पीड़ित ब्रातिस्लावापर मंगोलोंने आक्रमण किया। वहाके राजुलने हुंगरीके राजा लुईसे मदद मांगी और उसकी सहायतासे वह मंगोलोंको भगानेमें सफल हुआ—पोल राजा कसिमिरने भी इस समय उसकी सहायता की थी। दनियेपर नदी अभी भी कुछ समयके लिये मंगोलोंके हाथमें थी, लेकिन गेलेसिया पोलोंके हाथमें चली गई थी। लघुरूस (आधुनिक उक्रेन) लियुवानियाके हाथ में तबसे १६वीं सदी तक रहा। इस प्रकार लघु-रूसी छिन्न-भिन्न होकर शक्तिहीन हो रहे थे। पड़ोसी युरोपीय राजाओं तथा मंगोलोंके अत्याचारोंसे पीड़ित पूर्वी स्लावोंकी सहानुभूति अब और अधिक मास्कोकी ओर होती जा रही थी। इसके दो परिणाम हुये—(१) कितने ही लोगों ने दनियेपर और दोनके तटपर जा घुमन्तु राज्यके रूपमें वहां अपने जापोरोशियान और दोन कसाकके दो गणराज्य स्थापित किये, और (२) दूसरे लोगोंने हुंगरीके रोमन कैथलिकोंके अत्याचारसे भागकर पहिले मंगोलोंकी भूमिमें, फिर वहां भी पीड़ित होनेके बाद मोल्दाविया और वलाचियामें जाकर अपनी रियासतें कायम कीं।

मास्कोके महाराजुल सिमोनने अब पहली बार “सर्वरूसमहाराजुल” की उपाधि धारण की। १३५३ ई० में उसके मरनेके बाद उसके भाई इवानको जानीबेगने उसका उत्तराधिकारी बनाया।

१३५५ ई०में ईरानके इलखान-वंशका नाश हो चुका था। इससे फायदा उठाकर सेनापति चोबान तेमूरशाहके पुत्र मलिक अशरफने आजुरबाईजानपर अधिकार कर लिया। मलिक अशरफके अत्याचारोंसे लोग परेशान हो देश छोड़कर भागने लगे। ख्वाजा शेख कही (कुजी) शीराजकी ओर भागा और वहांसे फिर शामको। दूसरे प्रसिद्ध संत ख्वाजा सदरुद्दीन अर्दबेली ने गेलानका रास्ता लिया। काजी मोहीउद्दीन बुरदइ सरायबरका भागा और वहां अपने उपदेशोंके लिये मशहूर हुआ। उसके उपदेशोंमें जानीबेग भी शामिल होता था। उस वक्तकी मलिक अशरफ गरदी (राक्षसी)का बड़ा साफ चित्र शेखशादीने खींचा था, जिसे “तारीख शेख-उवेस” (ज० ओ० पृष्ठ २३०) के लेखकने उद्धृत किया है—“ईरानसे ..चगताइ देशमें जा उसने उस देशको अपने अधीन किया। कुछ समय अपनी जगह रही। फिर कहते हैं, तीन रोजसे अधिक कहीं नहीं बैठी और तरक नदी पार हो दरबन्द आई। वहांसे शिरवान पहुँची। उसने अपना एलची मलिक अशरफके पास भेजकर कहलवाया कि मैं खुलाकूके उलुसको जन्त करनेके लिये आ रही हूँ, तू चोबानका पुत्र है, जिसका नाम चारों उलुसोंमें तथा यारलिकमें था। अब तीन उलुस मेरे हुकूममें हैं। मैं चाहती हूँ, कि जूजी (तूती) के उलुसका अमीर तुझे बनाऊँ, इसलिये खड़ा हो जा और मेरा स्वागत कर।” मलिक अशरफने जवाब दिया—“हे उलुस-बरकाके बादशाह, मेरा सम्बन्ध अबका (हलाकू-पुत्र) के उलुससे नहीं है। यहांका बादशाह गजन है, जिसके अमीरका पद मेरे पास है।”

(२) ईरानपर आक्रमण—मोहीउद्दीनन एक दिन अपने उपदेशके बीचमें तबरेज और मलिक अशरफके अत्याचारोंका ऐसे शब्दोंमें चित्रण किया, कि श्रोता रोने लगे, जानीबेग स्वयं रो पड़ा। मोहीउद्दीनने यह भी कहा, कि बादशाहको हस्तावलम्ब देना चाहिये, जिसमें प्रजाके ऊपर होते इन अत्याचारोंका

अन्त हो। अगर बादशाह ऐसा नहीं करता, तो कयामतके दिन अल्लाह उससे जवाब तलब करेगा। जानी-बेगके मनमें बातके समानेके लिये मोहीउद्दीनके उपदेशसे भी ज्यादा ईरानके समृद्ध राज्यका लोभ था।

जानीबेगने एक महीनेमें सौ तुमान (दस लाख) सेना तैयार कर ली और वह मन् ७५८ हिजरी-में (२५ दिसम्बर १३५६ ई०-१३ दिसम्बर १३५७ ई०) तबरेजकी ओर रवाना हुआ। कुरा नदी पार करनेकी खबर मलिक अशरफके पास पहुंची, तो पहले उसने इसपर विश्वास नहीं किया, फिर अपने सैनिकोंको जमा किया। लेकिन उसके अत्याचारोंके कारण लोग अब्र उरगी आगमें कूदनेके लिये तैयार नहीं थे। वह शम्बेगाजानी पहुंचा। इससे पहले उसने अपनी खातूनों (रानियों), लड़कियों, खजाने, सोना-चांदी और जवाहर तथा दूसरी चीजोंको आर्लजकके किलेमें भेज दिया था, जिन्हें उसने चार सौ ऊंटों और हजार खजानेके ऊंटोंपर लदवाकर मंगवा लिया। शम्बेगाजानीमें बहुतसे लोग जमा हुये थे, जिनसे एक बड़ी सेना तैयार करके उसने कूजानकी ओर भेजा। फिर खबर मिली, कि बादशाह जानीबेग अर्दबील पहुंच गया। लोग कह रहे थे—बादशाहके फौजकी रिकाम लकड़ोंकी हैं, उसके घोड़ोंकी लगामें रस्सियोंकी हैं।

जानीबेगके बारेमें पहुंचती इन खबरोंको सुनकर मलिक अशरफ बहुत डर गया। उसने ख्वाजा लूलू साजलू और ख्वाजा शकर खाजिन (कोषाध्यक्ष) को बुलाकर कहा—“खातूनों (रानियों) और खजानोंको लेकर ख्वाजा रशीदके चश्मेपर पहुंचाओ और वहां मेरा इन्तजार करो। मैं उजान जा रहा हूँ। अगर मनोरथ सफल हुआ, तो तबरेज आना। अगर बात उल्टी हुई, तो खुईकी ओर जाना, मैं वहां आकर मिल जाऊंगा।” उन्हें भेजकर वह खुद उजानकी ओर रवाना हुआ। पहले दिन मेहरानरूद नदीके तटपर मुमताबादमें डेरा डाल उसने दो दिन विश्राम किया। कितने ही अमीर, जो सावाकी ओर चले गये थे, यहां मलिक अशरफके पास आ गये। उसने उन्हें सोना, घोड़ा, हथियार आदि देकर रवाना किया। अखीजूक सेनप भी उनमेंसे था, जो अगले दिन कूच करके सईदाबाद (अबदाबाद) गया। उसने वहां लोगोंसे सैनिकोंके लिये अपने घरोंको खाली कर देनेके लिये कहा। उसके नौकरोंमें दो हजार मर्द थे। वह खाने-पीने-रहनेकी तैयारी कर रहे थे, तभी जबर्दस्त आंधी-पानी आई।

उजानमें अशरफके भेजे हुये सैनिक एकत्रित हो गये थे, इसी समय जानीबेग सराहकी ओरसे आ पहुंचा। विरोधी सेनाको देखकर उसने हुकुम दिया, कि छिड़-गिस्के शिकार खेलकी तरह इन्हें चारों ओरसे घेर लो। अशरफके अमीरोंने जब यह हालत देखी, तो वह अपनी जान लेकर भाग निकले। मलिक अशरफ अब भी सईदाबादके पुस्तेपर खड़ा था। इसी समय शेख जलकी (बालखजी) ने उसके कानमें कुछ कहा। उसने समझ लिया, कि लड़नेमें कोई फायदा नहीं और वह तबरेजकी ओर भाग चला। उस रात वह शम्बेगा/जानीमें ठहरा, फिर सबेरे अपनी खातूनोंके साथ खजानेको लिये रवाना हुआ। लेकिन खजाने-पर उसके रखवाले ही हाथ साफ करने लगे। खातूनों भी इधर-उधर बिखर गईं। मलिक अशरफ यह हालत देखकर खुईकी ओर चला। महम्मद बालखजीका घर इसी इलाकेमें था। उसने एक ओर मलिक अशरफका स्वागत करते हुये अपने घरमें उसे ले जाकर ठहराया और दूसरी ओर जानीबेगके पास इसकी खबर भेज दी। जानीबेगने अमीर बयासको इस कामके लिये भेजा, लेकिन घरको घेरकर ढूंढनेपर अशरफ वहां नहीं मिला। इसपर अमीर बयास और उसके साथी ख्वाजा महमूदने लोगोंकी सभी चीजें जब्त कर लीं। फिर अमीर बयास मलिक अशरफको पकड़नेके लिये तबरेज गया। सड़क-से गुजरते वक्त लोगोंने उसके ऊपर राख फेंककर बड़ी वेइज्जती की, और उसे ख्वाजा शेख कुजीकी मां मोवैयदबेके घर ले गये। अमीर काऊस शिरवानी वहां मौजूद था। मौलाना मोहीउद्दीन बेरदईके हाथको चूमकर अशरफ रौने लगा। काऊसने उसे ढारस दिया। इसके बाद उसे बादशाह जानीबेगके पास ले गये। बादशाहने पूछा—“इस देशको तुने क्यों बरबाद किया?” उसने जवाब दिया—“नौकरोंने बरबाद किया, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी।”

बादशाह जानीबेग उजानसे हस्तरूद (अष्टनद) की ओर रवाना हो क्युकू (कूकू) के नजदीक पहुंच वहांसे लौट पड़ा। उस साल लोगोंने खेती बहुत की थी। जब यह बड़ी सेना उधरसे गुजरी, तो

खेतोंमें एक बाल भी न रह गई। कविके कथनानुसार “जालिम गया और उसका जुल्मका कायदा रह गया। आदिल गया और उसके नेक नामकी याद रह गई।”

जानीबेगने चाहा, कि मलिक अशरफको मृत्यु-दंड न दे अपने साथ अपने देश ले जाये, लेकिन काऊस और काजी मोहीउद्दीनने बतलाया—“अगर वह जिंदा रहेगा, तो इस मुल्कके लोग कभी चैनसे नहीं रह सकेंगे।” जानीबेगको उनकी सलाह माननी पड़ी। मलिक अशरफको घोड़ेसे नीचे उतारते समय उसकी दोनों तरफ तलवारें खड़ी कर दी गईं, जो उसकी बगलों में घुस गईं। उसके शिरको काटकर तबरेज ले जा मस्जिद-मरागियानके दरवाजे पर टांग दिया गया। तबरेज-निवासी खुशी मनाते दान-पुण्य करने लगे। जानीबेग दस हजार सवारोंके साथ वहां दौलतखाना में उतरा। एक रात रहकर सबेरेकी नमाज उसने मस्जिद ख्वाजा अलीशाहमें पढ़ी। उसके साथ आये हुये सैनिक सड़कों और नदियोंके किनारे ठहरे थे। इनमेंसे कोई किसी मुसलमानके घरमें नहीं घुसा।

अशरफकी लोलुपतापर एक पद्य मशहूर है—

“देखो कैसे अशरफ गदहा अपने भाग्यको उघाड़ रहा है।

अपने लिये मृत्यु और जानीबेगके लिये अपना सोना बटोरता ॥”

इस प्रकार १३ सालमें अशरफने जुल्म और अत्याचार करके जो खजाना जमा किया था, उसे जानीबेग ले गया।

ईरानमें इस प्रकार व्यवस्था कायम कर जानीबेग अपने बड़े बेटे बरदीबेगको पचास हजार सेना देकर वहांका शासक नियुक्त कर अली अशरफकी लड़की मुलतानबख्त और उसके पुत्र तेमूर-ताशको साथ ले किपचकभूमि लौटा। महमूद दीवानने बड़ा महोत्सव मनाते बरदीबेगको तब्रेजके तख्तपर बैठाया। अमीर जारुकके पुत्र सराय तेमूरको वजीर बना महमूद भी जानीबेगके पीछे-पीछे रवाना हो गया।

जानीबेग लौटकर बीमार पड़ गया। मरणासन्न देखकर उसके खैरखाहोंने बरदीबेगके पास इसकी खबर भेजी। बरदीबेग जानता था, कि तब्रेजका तख्त किसी समय भी हमारे हाथसे छिन जायेगा, इसलिये तथा सबसे बड़ा पुत्र होनेके ख्यालसे भी वह तब्रेजसे जल्दी-जल्दी दरबन्दकी ओर रवाना हुआ और दस सेवकोंके साथ आधी रातको चुपचाप तुगलुबाईके घरपर पहुंचा। संयोग ऐसा हुआ, कि जानीबेग बीमारी से अच्छा हो गया और उसे खबर मिली, कि बरदीबेग आ गया है। उसने तोगाय तुबलु खातूनसे इसके बारेमें पूछा। खातूनने बेटेकी मुहब्बतसे झूठ बोल दिया। जानीबेगने तुबलुबाईको एकान्तमें बुलाकर चाहा कि उससे भेद लें। तुबलुबाई झूठ बोल बाहर आ बरदीकी सलाहसे उसी समय लोगोंको लेकर भीतर घुसा, और एक फर्शद्वारा जानीबेग खानको २१ जुलाई १३५७ ई० को उसके बिस्तरेपर मरवा डाला।

रूसी उसे “भला” जानीबेग कहते थे, जिससे मालूम होता है, कि रूसियोंके साथ उसका बर्ताव अच्छा रहा। इसका यह भी अर्थ है, कि मास्कोके महाराजुलोंको अपनी शक्ति बढ़ाने और सारी रूसी जातिको एकताबद्ध करनेके मनसूबेमें जानीबेगकी ओरसे कोई बाधा नहीं हुई। जानीबेगके सिक्के १३४० से १३५७ ई० तकके मिलते हैं, जो सराय गुलिस्तां, नई सराय, नयागुलिस्तां, नया श्रोई, ख्वारेज्म, मोक्सी, बरचिन और तब्रेजकी टकसालोंमें ढाले गये थे।

जानीबेगके इस्लामप्रेमको मुस्लिम इतिहासकारोंने स्वीकार किया है। उज्बेकके मरनेके चंदही महीने बाद गद्दी संभालते उसने अपने बापके कामको आगे बढ़ाया और सारे उज्बेक-उलुसको मुसलमान बनाया, तमाम बौद्ध मंदिरों (बुत-खानों) को धराशायी कराया, बहुत-सी मस्जिदों और मदरसों को बनवा मुसलमानोंके फायदेके लिये सभी तरहकी बातें कीं। चारों तरफसे मौलवी और विद्वान् उसके यहां आते थे। दश्ते-किपचकके अमीरोंके पुत्र इस समय बहुत विद्याव्यसनी हो गये थे। अनुनीम अस-कन्दरके अनुसार “उनकी महिमा आज भी मजलिसों और महफिलोंमें गाई जाती है, और उस मुल्कका हर एक रस्म-रवाज इस्लामी देशोंके बाशिन्दों जैसा है।”

१२. बरदीबेग जानी-पुत्र (१३५७-५९ ई०)

बरदीने अपने बापको ही मरवाकर संतोष नहीं किया, बल्कि जिस बिस्तरेपर वह मारा गया था, उसीपर उसने बापके घातक फरशिको बैठा आज्ञा माननेसे इन्कारियोंको मरवाने का इरादा किया। तुगलुबाईने उसकी बातको पसन्द किया और आज्ञा स्वीकार करानेके वहाने वह सारे ही बारह शाह-जादोंको वहाँ जमा करवा मरवाने लगा। बरदीका आठ महीनेका एक सहोदर भाई था। तायदोलू खातूनने उसे गोदमें लिये आकर बहुत मिन्नत की, कि इस मासूम बच्चेको क्षमा कर दे। बेरदीबेगने उसे हाथसे छीन जमीनपर पटक कर वहाँ मार दिया। उसने तीन साल तक दृढ़तापूर्वक शासन किया।

जहांतक रूसी राजुलोंका सम्बन्ध है, महाराजुल इवान (मास्को), राजुल वासिली (त्वेर), उसके भतीजे व्सेवोलोद (खोलम) के पदोंके लिये बरदीबेगने अपनी स्वीकृति दी।

१३५९ ई० में मास्कोका महाराजुल इवान मर गया, इसी साल किलदीबेग (कुलफा) ने बरदीबेगको कत्ल कर दिया।

१३. किलदीबेग, कुलफा (१३५९ ई०....)

किलदीबेगने बरदीबेगके कत्लके साथ उसके शुरू किये वंशोच्छेदके कामको पूरा कर दिया। अब कोक (सुवर्ण)-ओर्दू राजवंशका एक भी नामलेवा नहीं रह गया। सारे ओर्दू में गड़बड़ी मच गई। अमीरोंने अधिकारको अपने हाथमें रखनेके लिये बेरदीबेगके हत्यारेको जानीबेगका पुत्र कहकर गद्दीपर बैठाया। हर अमीर अपनी शक्तको बढ़ानेके लिये पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहा था। इसी षड्यंत्रमें अमीर यर्गाल-बुगा, अमीर अहमद और अमीर नाङ्गू-दाई निर्वासित हुये। इसी समय सरकारके एक बड़े अधिकारी नग्लसवाई (?) ने किलदीबेगको मार एक दूसरे आदमीको गद्दीपर बैठाया, जो कि तीन रोज बाद मारा गया।

१४. नौरोजबेग, १५. चेरकेसबेग (१३७४ ई०)

ये दोनों भी इसी तरह कुछ दिनोंके लिये सिंहासनपर बैठे। फिर कोक (सुवर्ण) ओर्दूके अमीरोंने श्वेतओर्दूके खान चिमताईके पास जा गद्दी संभालनेके लिये बहुत निमंत्रण और आवेदन किया, लेकिन उसने उसे न स्वीकार कर अपने भाई ओर्दाशेखको भेजा।

१६. ओर्दाशेख

श्वेत-ओर्दूका यह राजकुमार बातूके सिंहासनपर बहुत दिनोंतक नहीं टिक सका। किसीने "कैसे ओक-ओर्दूके सिंहासनपर अक-ओर्दूका आदमी बैठेगा" कह एक रात तलवारसे ओर्दाशेखका काम तमाम कर दिया। इसपर अमीरोंने कुछ बेगुनाह आदमियोंके ऊपर अपराध लगाकर मरवाया।

१७. खिजिर ससीबूगा-पुत्र

अब ओर्दाशेखके भाई खिजिर ओगलानको गद्दीपर बैठाया गया, जो भी नौ महीना राज्य करनेके बाद खतम हुआ।

आगे इतिहासकार अनुनीम अस्कन्दरने निम्न खानोंका होना बतलाया है—

१८. कुलफा, ससीबूगा-पुत्र

खिजिरके एक साल भी बादशाही न करके मर जानेके बाद उसके भाई कुलफाको गद्दीपर बैठाकर नौ महीने बाद उसे भी कत्ल कर दिया गया।

१९. तेमूरखोजा, ओर्दाशेख-पुत्र

फिर तेमूरखोजा अमीरोंका खिलौना बना। वह बड़ा ही व्यभिचारी निकला। लोग दो साल तक उसे बर्दाश्त करते रहे। एक रात किसी स्त्री के साथ बलात्कार करनेके लिये घरमें घुसा देख, पतिने अनजाने ही उसे तलवारके घाट उतार दिया।

२०. मुरीद ओर्दाशेख-पुत्र

इसने तीन सालतक राज्य किया, लेकिन अब इन खानोंमें बदचलनी विशेषकर अप्राकृतिक व्यभिचारका मर्ज बहुत फैल गया था। अपने अमीरुल्-उमरा (अमीरोंके अमीर)मोगलबक-पुत्र इलियासके सुंदर लड़केपर मुग्ध हो मुरीदने चाहा, कि बापको मारकर उसका स्थान बेटेको दे दे। यह भेद मुरीद-खानकी खातूनको मालूम हो गया। उसने इर्ष्या या बेवकूफीसे यह खबर इलियासके पास भेज दी। उसने अवसर न दे खानको ही मार डाला।

२१. अजीज तेमूरखोजा-पुत्र

इसकी आदत भी अपने पूर्वगामियों जैसी थी और इसने प्रसिद्ध संत सैयद अताके वंशवाले एक लड़केको भ्रष्ट किया। भेद खुलनेपर पश्चात्ताप करके उस लड़केसे इसने अपनी लड़की ब्याह दी; लेकिन तीन साल बाद फिर वही चाल चलने लगा, जिसके कारण उसे अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा।

२२. हाजी खां एर्जन-पुत्र


श्वेत-ओर्दूके खान एर्जन (१३१६-४४ ई०) के पुत्रको अब बलिका बकरा बनानेके लिये लाया गया। वह कुछ दिनों तक अच्छा रहा, फिर खानदानी बदचलनी का भूत इसके सिरपर भी सवार हुआ। एक बार तोबा की, लेकिन फिर वही रफ्तारे-बेढंगी। अन्तमें वह आधी रातको अपने सोनेके वस्त्रोंमें ही मार डाला गया।

अनुनीम अस्कन्दरके अनुसार हिजरी सन् ७५१* से ७६५ के बारह सालोंमें आठ बादशाह हुये। इसके बाद श्वेत-ओर्दूके खान उरुसखानने श्वेत-ओर्दू और कोक-ओर्दूको इकट्ठा करके शासन करना शुरू किया, जिसका परिणाम तोकतामिशके रूपमें एक बार जू-छिके वंशका चरम उत्कर्ष तथा तेमूर-लंगके प्रहारके कारण उसका सत्यानाश हुआ।

सुवर्ण (कोक)-ओर्दूके रूपमें मंगोल-शक्ति आधे युरोपतक छा गई। रूसके तो सभी शासक उसके अधीन दाससे थे। यद्यपि मंगोलोंने अपने इन अधीन लोगोंपर बहुत अत्याचार किये, लेकिन तन्त्रेज और दूसरी जगहोंके निर्मम हत्याकांडोंके सामने वह कुछ नहीं थे। मंगोलोंके शासनके साथ ही वाणिज्य और शिल्पकी बड़ी वृद्धि हुई थी, जिसके कारण जहां मंगोल शासकोंको बहुत लाभ हुआ, वहां मास्कोको आगे बढ़नेका मौका मिला और धीरे-धीरे पुरानी बुल्गार नगरीका स्थान मास्कोने ले लिया। व्यापार द्वारा प्राप्त प्रचुर धन-राशिके बलपर मास्कोके महाराजुलोंने सुवर्ण-ओर्दूके खानोंको अपने वशमें कर अपनी शक्ति बढ़ाई, रूसका एकीकरण करना शुरू किया और अन्तमें रूसकी शक्तिके उत्कर्ष तथा जू-छिके वंशके आंतरिक कलहके कारण सुवर्ण-ओर्दूका अस्तित्व खतम हो गया। इसी कालमें मास्कोके महाराजुलोंने खानकी ओरसे कर उगाहनेका अधिकार पा अपनी ओरसे इस कामपर अपने अधीनस्थ बायरोंको लगाया—रूसी प्रजा अब बायर, महाराजुल और खान तीनोंके उत्पीड़न तथा शोषणके नीचे दबकर कराहने लगी। उसका स्वतंत्रता-प्रेम और जनतांत्रिकताकी भावना लुप्त हो चली, और अत्याचारके मारे कितने ही रूसी भाग-भागकर दूसरी जगहोंमें जाकर बसने लगे।

* ७५१ हि० (११मार्च १३५०-२७फरवरी १३५१ ई०), ७६५ हि० (१०अक्तूबर-२७ सितंबर १३६३ ई०)

सुवर्ण-ओर्दू-खान-वंशवृक्ष
(१२२४-१३७४ ई०)



श्वेत-ओर्दू

(१२२४-१४२५ ई०)

१. जू-छि (तू-शी) खान

छिड़-गिस्के ज्येष्ठ पुत्र जू-छिके बारेमें हम पहले बतला चुके हैं। उसके मरनेके बाद उसका सिंहासन ज्येष्ठ पुत्र ओरदाको न मिलकर बा-तूको मिला। ओरदाको बापके राज्यका पूर्वी भाग मिला, लेकिन उसने अपने वंशको बा-तूके सिंहासनके अधीन माना। ओरदाका उलुस श्वेत-ओर्दू (अक-ओर्दू) नामसे प्रसिद्ध हुआ, जिसके खान निम्न प्रकार थे :—

	काल
१. जू-छि, छिड़-गिस्-पुत्र	—१२२४ ई०
२. ओरदा जू-छि-पुत्र	१२२४ ”
३. कोनिचि ओरदा-पौत्र, सर्तकई-पुत्र	—१३०१ ”
४. बायन कोनिचि-पुत्र	१३०१ ”
५. ससीबूगा बायन-पुत्र	१३६६ ”
६. एर्जन ससीबूगा-पुत्र	१३६६-४४ ”
७. मुबारक खोजा एर्जन-पुत्र	१३४४ ”
८. चिमतई एर्जन-पुत्र	१३४४-१३६१ ”
९. उरुस चिमतई-पुत्र	१३६१-७० ”
१०. तोकताकिया उरुस-पुत्र	१३७० ”
११. तेमूरबेग उरुस-पुत्र	१३७०-७५ ”
१२. तोकतामिश तुलि-पुत्र	१३७५-६७ ”
१३. नूजी ओगलान	१३६५
१४. तेमूरकुतुलुक, तेमूरबेग-पुत्र	१३६५-१४०० ”
१५. शादीबेग, तेमूरबेग-पुत्र	१४००-८ ”
१६. पूलाद तेमूरबेग-पुत्र	१४०८-१० ”
१७. तेमूर कुतुलुक-पुत्र	—१४११ ”
१८. जलालुद्दीन तोकतामिश-पुत्र	१४११-१२ ”
१९. करीमबरदी तोकतामिश-पुत्र	१४१२-
२०. कपक, किवेक
२१. चिड़-गिज	१४१७ ”
२२. जब्बारबरदी तोकतामिश-पुत्र	”
२३. मुहम्मद	१४२२-३८ ”
२४. बोरक, बुरक, बुराक	१४२५-२८ ”
२५. सैयत अहमद
२६. दरबीस
२७. किवेक	—१४२२
२८. उलुग मोहम्मद	१४३७

२. ओरदा, एसन, एछन जू-छि-पुत्र (१२२४-)

ओरदाके राज्यके भीतर सिगनाक, तरस, उत्तरार जैसे प्रसिद्ध वाणिज्य-नगर थे। इसके ओर्दूके दक्षिण ओर दक्षिण-पूर्वमें चगताई, पूर्वमें ओगोताई तथा पश्चिममें बा-तूका ओर्दू था, जिसका कि यह अंग माना जाता था। उत्तरमें वह साइबेरियाके भीतरतक घुसा हुआ था। ओरदाका ओर्दू (पशुपाल सैनिक परिवार-समूह) गर्मियां बलकाश समुद्रके पासकी चरागाहोंमें बिताता और जाड़ोंमें सिर नदीपर चला आता था। ओरदाका पुत्र कूली खुलाकूके ईरान-विजयमें शामिल होनेके लिये ख्वारेज्मसे दहिस्तान और माजंदरान गया था।

३. कोनिचि, कोची ओरदा-पौत्र, सर्तकई-पुत्र (-१३०१ ई०)

मंगोल इतिहासकर रशीदुद्दीन* (१२४७-१३१७ ई०) के अनुसार यह ओरदा (श्वेत) उलुसका बहुत समयतक शासक रहा। अरगून खान (१२६४-१२९२ ई०) और गजनखान (१२९५-१३०४ ई०) के साथ इसका बहुत अच्छा सम्बन्ध था और उनसे सौगतों और दूतोंका आदाना-प्रदान होता था। कोनिचि असाधारण मोटा था, कोई घोड़ा उसे ढो नहीं सकता था, इसलिये वह गाड़ी पर एक जगहसे दूसरी जगह जाता था। इसके पुत्रोंमें मुख्य चार थे—वायन, बचकरतइ, चगुनबुका, मकुदई। भारकों पोलोनो इसके बारेमें लिखा है :—

“सुदूर उत्तरमें एक खान है, जिसका नाम कोनिचि है। वह तारतार (मंगोल) है और उसके साथ लोग तारतार हैं, जो नियमपूर्वक तारतार धर्मको मानते हैं। यह बड़ा ही पाशविक धर्म है, लेकिन वह उसका उसी तरह पालन करते हैं, जैसे कि छिङ्ग-गिस् और दूसरे मुख्य तारतार। खान किसीके अधीन नहीं है, यद्यपि वह छिङ्ग-गिस् खानके शाही वंशका तथा महान् कआन (कुबिले खान) का नजदीकी संबंधी है। इस खानके पास न नगर है न महल। वह और उसके लोग सदा या तो खुले मैदानोंमें रहते हैं या बड़े पहाड़ों और उपत्यकाओंमें। वह अपने जानवरोंके दूध और मांसपर गुजारा करते हैं। उनके पास अनाज नहीं होता। खानके पास बहुसंख्यक लोग हैं, लेकिन वह किसीके साथ युद्ध नहीं करता। उसकी प्रजा बड़ी शांतिसे रहती है। उनके पास भारी संख्या में पशु—ऊंट, घोड़े, बैल, गाय, भेड़ें आदि हैं।

“उनके देशमें लुम्हें बीस मूट्टीसे अधिक लम्बे तथा बिल्कुल सफेद विशालकाय भालू मिलेंगे। वहां बड़ी-बड़ी काली लोमड़ियां, जंगली गदहे और भारी संख्यामें सेबल होते हैं। यही सेबल वह जन्तु हैं, जिनके चमड़ेकी बहुमूल्य पोशाक बनती है, एक-एकका दाम हजार वेजंत (सिकके) होते हैं। वहांपर वेयर (समूरी जंतु) भी बहुतायतसे होते हैं और फरऊनी चूहे भी। इन्हींके शिकारपर लोग सारी गर्मियां जीते हैं। वस्तुतः वहां सब तरहके जंगली जानवर बहुतायतसे होते हैं, क्योंकि उनका देश बहुत दुर्गम और वन्य है।

“इस खानका देश ऐसा है, जहां घोड़े नहीं जा सकते, क्योंकि वहांपर बहुतायतसे झीलें और चश्मे हैं, साथ ही बहुत बर्फ, कीचड़ और दलदल भी हैं, जिसपर घोड़े नहीं चल सकते। यह कठिन मुल्क तेरह दिनोंके रास्तेतक फँला हुआ है। हर दिनकी यात्राके बाद एक टिकान है, जहांपर कि सब तरहका इंतजाम है। प्रत्येक टिकानपर घर बने हुये हैं, जिनमें चालीस कुत्ते तैयार रहते हैं। यह कुत्ते आकारमें गदहोंसे कम नहीं होते। यही कुत्ते एक टिकानसे दूसरी टिकानतक सवारी-गाड़ियोंको खींचते हैं। इनकी गाड़ियां बिना पहियेकी होती हैं। . . गाड़ीके ऊपर भालूका चमड़ा रखकर सवार बैठ जाता है। हरेक गाड़ीको ६ कुत्ते खींचते हैं। . . कुत्तोंका कोई कोचवान नहीं होता। . . अगली टिकानपर नये कुत्ते और गाड़ी तैयार मिलती हैं। . .

* “जाम-उत्-तवारीख” ज० ओ० पृष्ठ ४२

“तेरह दिनकी यात्राके अन्तपर आसपासके पहाड़ों और उपत्यकाओं के रहनेवाले लोग बड़े शिकारी होते हैं। वह उन बहुमूल्य छोटे-छोटे जन्तुओंको पकड़ते हैं, जिनसे कि उनको भारी लाभ होता है। यह जन्तु हैं—सेबल, एरमिन, बेयर, एरकुलिन, काली लोमड़ी तथा और बहुत-से प्राणी। इन्हींके चमड़ोंका बहुमूल्य समूर बनाया जाता है। शिकारी जाल इस्तेमाल करते हैं. .। उस प्रदेशमें सर्दी इतनी अधिक है, कि लोगोंके सारे निवास धरतीके भीतर होते हैं, वह सदा भूधरे हीमें रहते हैं।”

मार्को पोलोने यहां जिस देशका वर्णन किया है, वह साइबेरिया है, इसमें सन्देह नहीं। उसे यह खबर कुबिलेके दरबारमें गये कोनिचिके दूतमंडलसे मिली होगी।

इतिहासकार अबुल्-फेदाके अनुसार कोनिचि बामियान और गजनी तथा कुछ काबुलके पासवाले प्रदेशोंका भी शासक था। खुलाकूके ईरान-विजयके समय उसकी मददके लिये आये अक-ओर्दूवालोंने यह स्थान अपने हाथमें कर लिये थे, इस प्रकार अक-ओर्दूका यह दक्षिणी भाग उत्तरी भागसे बिल्कुल अलग-थलग था, बीचमें चगताई-वंशकी भूमि थी। ओरदा-पुत्र कुलीने खुलाकूकी मदद करते समय अफगानिस्तानके उत्तर-पश्चिमवाले इस प्रदेशपर अपना शासन स्थापित करके भी उसे श्वेत-ओर्दूके अधीन ही रखा। खुलाकूको पीछे कुलीसे इतना भय लगा, कि उसने उसे जहर दिलवा दिया।

१२९३ ई० में कोनिचि (कुबी) का दूतमंडल इलखान (ईरानी शासक) जयखातूके दरबारमें आया था। कोनिचि हिजरी सन् ७०१ (१३०१-१३०२ ई०) में मरा।

४. बायन कोनिचि-पुत्र (१३०१-९००)

बायनको पिताका राज्य कुछ संघर्षके बाद मिला। शायद इसे उत्तरवाला भाग ही मिला, बामियान-गजनाको उसके भाई कुबलुक (क्यूलुक) ने ले लिया। बायनके हाथमें यह दक्षिणी भाग न जाने पाये, इसके लिये चगताई खान दावा और ओगोताइखान कैंदूने भी कुबलुककी मदद की थी। बायनका दूसरा भाई मड्ड-ताई था। इसकी बीबी नुकुलुन खातून प्रभावशाली कंकुरत कबीलेकी थी। पिताके मरनेपर मंगोल प्रथाके अनुसार तीन सौतेली मायें तरकुजिन, जिकथून् और अलताचू भी इसकी बीबियां बनीं। इन चारोंके अतिरिक्त उसकी तीन और बीबियोंका भी पता लगता है। श्वेत-ओर्दूका दूसरा खानजादा-कुतुकू-पौत्र, तेमूरबूका-पुत्र कुबलुक (कोबलेक, क्यूलुक)से बायनका जबर्दस्त संघर्ष रहा। १३०९ ई० में कुबलुकने दक्षिणी राज्य (बामियान-गजना) छीना था। थोड़े दिनों बाद बायनने फिर उसपर अधिकार कर लिया। कैंदू और दावा कुबलुककी पीठपर थे और बायनका राज्यकेंद्र चगताई राज्यके पार दूर पड़ता था, तो भी ख्वारेज्मसे इलखानके इलाकामें होते श्वेत-ओर्दूकी सेनायें गजनी पहुंच सकती थीं। सुवर्ण-ओर्दूके साथ बायनका बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन तोगताइ खान नोगाइकी लड़ाइयोंमें फंसे होनेसे कोई बड़ी मदद करनेमें असमर्थ था। बायनने इलखान गजनको मदद देनेके लिये लिखा, और उसने मदद भी दी। समकालीन इतिहासकार रशीदुद्दीन लिखता है—“हमारे काल में अठारह बार बायनने कुबलुकसे लड़ाई की।” कुबलुकके साथ हो कैंदू और दावाकी भी सेनायें लड़ती रहीं। कैंदूके मरनेके बाद जब उसका पुत्र चापर ओगोदाइ-उलुसका खान बना, तो तोगताईने उसे कई बार लिखा, कि दावा खानको कुबलुककी मदद करनेसे रोको, लेकिन बापकी तरह वह भी कुबलुककी पीठपर था। उसने जवाब दिया—“गजनसे लड़ते समय कुबलुकने हमारी सहायता की, इसलिये हम उसकी मदद करते हैं।” हिजरी सन् ७०२ में बायनने अपने बापके समयके अमीर केलस तथा तुकतेमूरके नेतृत्वमें एक बड़ी भेंट भेज, गजनको कहलवाया कि हम चापर और दावाके विरुद्ध लड़ने जा रहे हैं, तोगताई खान हमारा सहायक है। उसने दो तुमान (बीस हजार) सेना हमारे पास भेजी। सेना आगे बढ़ी, लेकिन कैंदू और चगताईके उलुसोंने बीच में पड़कर कआनकी सेनासे उसे

मिलने नहीं दिया। कुबलुकने उनकी सहायतासे हमारा कुछ इलाका छीन लिया। ओरदा-उलुसका अधिक भाग हमारे साथ है, आदमियोंकी हमें कमी नहीं है। हां, पैसेकी जरूरत है। इसपर गजनने बायन और उसके खातूनोंके लिये बहुतसे बहुमूल्य उपहार तथा काफी सोना भेजा।

१३०९ ई० में कुबलुक शक्तिशाली था। उसने उसी समय गजना और बामियानको छीन लिया था। उसके बाद उसका पुत्र कसतिमूर वहां का शासक बना। श्वेत-ओर्दूके लोग बायनके भाई मुङ्ग-ताईकी ओर थे।

५. ससीबूगा बायन-पुत्र (१३१९ ई०)

बायनके बाद उसका पुत्र ससीबूगा सिरपारवाले राज्यका स्वामी बना और गजना बामियान अब कोनिचि-पुत्र मुङ्ग-ताईके हाथमें चला गया। ससीबूगाकी मां कुतुलुन (नुकुलुन) खातून थी। काजी अहमद गफफारी (मृत्यु १५७७-७८ ई०) ने अपने ग्रंथ "नस्खजहांनारा" में ससीको नौकाका पुत्र बतलाया है और कहा है, कि वह अपने भाईके बाद गद्दीपर बैठा, लेकिन रशीदुद्दीन जैसे समसामयिक तथा मंगोल-वंशके एक प्रामाणिक इतिहासकारके सामने गफफारीकी बातका मूल्य नहीं है।

६. एर्जन, एविजन, ससीबूगा-पुत्र (१३१९-४४)

एर्जनका पचीस सालका शासन श्वेत-ओर्दूकी शक्ति और समृद्धिकी चरमसीमाका था। अपनी योग्यताके कारण वह उज्बेक खानका बहुत ही कृपापात्र था। राज-काजमें चतुर होते हुये, वह बड़ा विद्याप्रेमी था। उसने उतरार, सावरान, जंद, वारजकंद नगरोंमें बहुतसे मदरसे, खानकाहे (मठ) और मस्जिदें बनवाईं। मार्को पोलो द्वारा वर्णित, कोनिचिकी बर्बर प्रजाके समयसे अब अक-ओर्दू कहासे कहां चला गया था? छिङ्ग-गिङ्के तारतारोंके पुराने धर्म छोड़कर अब वह कट्टर मुसलमान हो चुके थे। इतिहासकार अनुनीम अस्कन्दरके अनुसार "एर्जनने सारे तुर्किस्तान (अक-ओर्दू) को स्वर्गोपम (खुल्दबरी) बना दिया"। श्वेत-ओर्दूको ऐसी समृद्धि फिर स्वप्नमें भी नहीं मिली। उज्बेकके खाननं एर्जनको गद्दीपर बैठाया था। पीछे इसके लड़के खिजिर श्रोगलान और खुलफा उज्बेकके सिंहासनपर बैठे, यह हम पहले बतला चुके हैं।

पचीस साल राज्य करनेके बाद ७४५ हि०^३ में एर्जन मरा और सिगनाक नगरमें इसकी कब्र बनाई गई।

७. मुबारक खोजा एर्जन-पुत्र (१३४४ ई०-)

यह भले बापका नालायक लड़का निकला। अपने लोभ और बदमाशीके कारण ६ महीने मुश्किलसे राज्य कर पाया। इसके बाद दो सालतक अलताईके पहाड़ों और किरगिजों की भूमिमें मारा-मारा फिरता रहा। मरनेके बाद इसे भी सिगनाकमें दफनाया गया।

८. चिमताई एर्जन-पुत्र (१३४४-६२ ई०)

जानीबेगने इस भलेमानुस खान को गद्दीपर बिठाया। सुवर्ण-ओर्दूके सिंहासनके खाली होनेपर वहांके अमीरोंने बहुत चाहा, कि चिमताई बातूके सिंहासनपर बैठे, लेकिन उसने कबूल नहीं किया। इसीके समय बरदीबेग, जानीबेग और किलदीबेगके दुराचार और अन्यायपूर्ण शासन हुये थे। सुवर्ण-ओर्दूके अमीरों (शासकों) के चरम पतनको देखते हुये उसने अपने सिंहासनपर ही संतुष्ट रहना पसन्द किया। बहुत जोर देनेपर उसने अपने भाई ओरदा शेखको वहां भेज दिया।

९. उरुस खान चिमताई-पुत्र (१३६१-७० ई०)

यह बड़ा ही मनस्वी खान था। सुवर्ण-ओर्दूकी नैयाके डगमगानेके समय इसने अपने बापपर बहुत जोर दिया, कि कोक-ओर्दूको भी अक-ओर्दूमें मिला लिया जाय, लेकिन चिमताईने नहीं माना। अब

गद्दीपर बैठनेके बाद इसने संकल्प किया, कि सुवर्ण-ओर्दू और श्वेत-ओर्दूको मिलाकर छिड़-गिस्के पुत्र जु-छि और पौत्र बा-तूके समयके वैभवको पुनः स्थापित किया जाय। इसने गद्दीके महोत्सवके समय ही जल्से में अपने इन विचारोंको प्रकट किया। अमीरोंने उसे पसंद किया। उन्हें बड़े-बड़े इनाम दिये गये। लेकिन उसके अपने वंशके तुका-तेमूर परिवारवाले तुईख्वाजा (तुलीख्वाजा)ने इसका विरोध किया, जिसके लिये उसे अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा—तुईख्वाजा मनकिशलकका शासक था। पिताकी इस हत्याका बदला लेनेकी भावनाने उसके पुत्र तोकतामिशको उत्तेजित किया। लेकिन, अभी वह कम उमरका था, इसलिये क्या कर सकता था? तोकतामिश एक बार ओर्दूसे भाग गया, लेकिन लौटके आनेपर उसकी उमरका ख्याल करके क्षमा कर दिया गया। जब उरुस खान कोक-ओर्दूका भी स्वामी बन गया, तो तोकतामिश फिर भागकर विश्वविजेता तेमूरलंग (१३०७-१४०४ ई०)के पास गया। उस समय तेमूरलंग चंगताई ओर्दूके दक्षिणी राज्यको अपने हाथमें करके उत्तरी राज्य (मुगोलिस्तानपर) पांचवां आक्रमण करना चाहता था। तेमूरने अपने सेनापति तेमूर उज्बेकको खानजादा तोकतामिशका स्वागत करनेके लिये भेजा। समरकन्द पहुंचनेपर तेमूर उज्बेकने खानजादेको तेमूरके सामने पेश किया। तेमूरने तोकतामिशका राजसी स्वागत करते हुये सोना, जवाहरात, हथियार, बहुमूल्य पोशाक, घोड़े, ऊंट, तम्बू-ध्वजा-पताका, नगाड़े तथा दास-दासी प्रदान किये और बिदा करते वक्त उसे “पुत्र” कहकर सम्बोधित किया। तेमूरने उसे साबरान, उतरार, सिगनक, सैरान, सेराय तथा किपचकके दूसरे नगरोंका स्वामी (शासक) बनाते यायिक (उराल) और सिर नदीके बीचके प्रदेशका राज्य प्रदान किया। यह भूभाग उरुस खानके अधीन था, इसलिये यह मान-प्रदान केवल मौखिक ही हो सकता था। उरुस खान चुप नहीं रह सकता था। उसने अपने पुत्र कुतुलुकबूगाको तोकतामिशका मुकाबिला करनेके लिये भेजा। कुतुलुकबूगा लड़ाईमें घायल होकर दूसरे दिन मर गया, तो भी तोकतामिशकी हार हुई और उसे फिर भागकर तेमूर लंग की शरण लेनी पड़ी। लंगड़े तेमूरने फिर उसका पहले ही जैसा सम्मान करके फिर नई सेना दी। उरुस खानके ज्येष्ठ पुत्र तेगूताकियाने फिर तोकतामिशको हराया। तोकतामिश बड़ी मुश्किलसे सिर नदी तैरकर पार हुआ। उसका पीछा करते हुये कजनजी बहादुरने तीरसे उसके हाथको घायल कर दिया था। घासमें पड़े तोकतामिशको अकस्मात् तेमूर लंग द्वारा दिये मंत्री इतिगू बेरलसने देखा। फिर वह उसे लेकर बुखारामें तेमूरके पास पहुंचा। तेमूरने फिर उसे और भी बड़े साजोसामान तथा सेनाके साथ भेजा। इस समय यदकू (मङ्गुत या तिमिर कुतुलुकका पुत्र) तोकतामिशका समर्थक बनकर बुखारा चला आया था। उसने खबर दी, कि उरुस खान बड़ी सेना लेकर लड़नेके लिये आ रहा है। केपेक मङ्गुत और तुलजियानने तेमूरके दरबारमें जाकर उरुस खानके संदेशको कहा—“तोकतामिश मेरे पुत्रको मारकर तुम्हारी शरणमें चला आया है। तुम मेरे शत्रुको मेरे हाथमें अर्पण कर दो, यदि इन्कारी हो तो मैं युद्ध घोषित करता हूँ। हमें अब युद्धक्षेत्र चुनना होगा।”

तेमूर लंगने उत्तर दिया—“तोकतामिशने अपनेको मेरी शरणमें दे दिया है। मैं उसकी रक्षा करूंगा। जाकर उरुस खानसे कह दो, कि उसकी ललकारको ही स्वीकार नहीं करता, बल्कि मैं और मेरे सिपाही सिंहकी तरह—जो कि जंगलमें नहीं बल्कि युद्धक्षेत्रमें बास करते हैं—लड़नेके लिये तैयार हैं।”

तेमूर लंगने अमीर यदकूको समरकन्दका शासक नियुक्त कर १३७६ ई०के अन्तमें प्रस्थान कर उतरारके मैदानमें डेरा डाला। उरुस खान अपनी सेनाके साथ वहांसे चौबीस फरसक दूर सिगनाकमें था। एक जबर्दस्त आंधी-पानी आया, जिसके बाद भयंकर सर्दों हो गईं। इसकी वजह से तीन महीनेतक कोई सैनिक कार्रवाई नहीं हो सकी। फिर तेमूरने कताई बहादुर और मोहम्मद सुलतानशाहको रातमें आक्रमण करनेका हुक्म दिया। जबर्दस्त संघर्ष हुआ। उरुस खान-पुत्र तेमूर मलिक अगोलानने तीन हजार सेनाके साथ मुकाबिला किया। कताई बहादुर और एरेक तेमूर मारे गये, तेमूर मलिक भी आहत हुआ। तेमूर लंगकी विजय हुई। उसने अबू-मोहम्मद सुलतानशाह और अमीर मर्बशेरको भी पता लगानेके लिये भेजा।

लड़ाई आगे नहीं हो सकी। उरुस खान दशतेकिपचक लौट गया और तेमूर लंग केश (शहरसब्ज) की ओर। नौ साल राज्य करनेके बाद १३७० ई० में उरुस खान स्वाभाविक मृत्युसे मर गया।

अनुकूल समय देखकर तेमूर फिर दशतिकपचककी ओर रवाना हुआ। उसके सेनाग्रका सेना-पति तोकतामिश था, जो बड़ी तेजीसे बढ़ते हुये पंद्रह दिनमें सैरामकामिश (हरिनोके नरकट) में पहुँच गया और एकाएक आक्रमण करके उसने शहरको लूट लिया। वहाँसे उसे बहुतसे घोड़े, ऊंट और भेड़ें हाथ लगीं।

१०. तोग़ताकिया, उरुस-पुत्र (१३७०--...)

पिताकी जगहपर यह गद्दीपर बैठा, लेकिन दो ही महीने बाद मर गया। इसके बाद इसके भाई तेमूरबेग (तेमूर मलिक) को गद्दी मिली।

११. तेमूरबेग, तेमूरमलिक उरुस-पुत्र, मोहम्मदखान-पुत्र (१३७०-७५ ई०)

यद्यपि सिंहासनके लिये उसका प्रतिद्वंद्वी तेमूर लंग जैसे विख्यात विजेता की सहायता-प्राप्त तोकतामिश था, लेकिन तेमूरबेगको इसकी परवाह नहीं थी। वह हृदय दर्जेका ऐशपसंद था, रात-दिन शराबमें मस्त रहता। उसके अत्याचारोंसे लोग परेशान थे। तो भी तोकतामिशने इसके ऊपर आक्रमण करके फिर एक बार हार खाई। लेकिन तेमूरबेगके अत्याचारोंसे उसके बड़े-बड़े अमीर भी परेशान थे। उनको विश्वास होने लगा था, कि इसके रहते श्वेत-ओर्दूको अच्छे दिनोंकी आशा नहीं हो सकती। एक प्रसिद्ध अमीर औरंग तेमूरने तेमूर लंगके पास भागकर उसे और उभाड़ा। तेमूरने अबके गयासुद्दीन, तरखन, तोमन तिमूरके बख्शी खोजाके साथ भेजा। जागीर मांगनेपर न देनेसे नाराज होकर एक और अमीर उज्बेक तेमूर भी तेमूर लंगके पास भाग आया, जिसने उससे कहा—“तेमूर मलिक दिन-रात शराबमें मस्त पड़ा रहता है। पहर भर दिनतक सोता रहता है, जो कि भोजनका समय है। किमीकी हिम्मत नहीं, कि उसे जगाये। लोग अब उससे उकता गये हैं, और चाहते हैं, कि तोकतामिश आवे।” उस समय तोकतामिश सिगनकमें था। तेमूरने तोकतामिशको खबर दी। तेमूरबेकने जाड़ों (१३७३ ई०) को करातागमें बिताया। १३७७ ई० में तेमूर लंगने तोकतामिशको हमला करनेके लिये हुक्म दिया। इसी जाड़ेमें तेमूरबेकका एक बड़ा भारी दरबारी कापबहादुर भी उसका साथ छोड़कर तोकतामिशके पास चला आया। तोकतामिशने आक्रमण करके तेमूरबेकको पूरी तौरसे हरा दिया और उरुसखोजा द्वारा विजयका समाचार तेमूरलंगके पास भेजा। तेमूरने भारी खुशी मनाई, उरुसखोजाको खलअत और सुनहला कमरबन्द दिया, लौटनेके समय धन और घोड़े प्रदान किये।

जाड़ोंमें फिर तोकतामिश सिगनकमें रहा तेमूरबेकका पीछा करते पश्चिमी किण्वकके मेमक स्थानकी ओर बढ़ा।

इसपर भी तेमूरबेकको होश नहीं आया। वह ७८५ हिजरी (६ मार्च १३८३-२३ फरवरी १३८४) में निर्णायक लड़ाई लड़नेके लिये करातालकी ओर बढ़ने लगा। तेमूरबेकने गद्दीपर बैठते समय वेवकूफीसे अक-ओर्दूके एक तुमान (सैराय सोलकुल) को अपने चचेरे भाई मोहम्मद ओगलानको दे दिया था। अब उसने मोहम्मदको तोकतामिशके विरुद्ध लड़नेके लिये कहा। मोहम्मद जानता था, कि औरदा-उलुस तोकतामिशके पक्षमें है। उसने तेमूरबेकको मना किया, जिसपर तेमूरबेकने उसे तोकतामिशका पक्षपाती कहकर भारी सभामें मरवा डाला और वहीं उसने सौगंद खाई, कि जो भी मेरी इच्छाके विरुद्ध जायेगा, उसकी यही हालत होगी।

तोकतामिश और तेमूरबेकमें करातालके पास ममाइमें लड़ाई हुई। तेमूरबेकने हारके साथ प्राण भी गंवाये। इसी लड़ाईमें एक स्वामिभक्त अमीर बलिजक पकड़कर विजेता तोकतामिशके पास लाया गया। तोकतामिश बलिजककी ईमानदारीपर पूरा विश्वास रखता था। उसने उससे कहा—“अगर तू मुझे अपना बादशाह मान ले, तो मैं तेरे सम्मान और अधिकारको जरा भी कमी नहीं करूंगा, बल्कि राज्यकी बागडोर तेरे हाथमें सुपुर्द कर दूंगा।” बलिजकने जवाब दिया—“मैंने अपने जीवनका सबसे अच्छा भाग तेमूरबेककी सेवामें बिताया। मैं इसे सहन नहीं कर सकूंगा, कि उसके सिंहासनपर कोई दूसरा बैठे। जो तुझे तेमूरबेककी गद्दीपर बैठा देखना चाहे, उसकी आंखें फूट जायं। अगर तू मेरे ऊपर

कृपा करना चाहता है, तो मेरा सिर काटकर तेमूरके सिरके नीचे रख दे, और उसकी लाशको मेरी लाशपर लिटा दे, जिसमें उसका कोमल शरीर धूलमें न लिपटे ।” तोकतामिशने उसकी इच्छा पूरी की ।

१२. तोकतामिश तूलि-पुत्र (१३७५-९७ ई०)

तोकतामिश बापकी हत्याका बदला ले सुवर्ण-ओर्दू और श्वेत-ओर्दूके सम्मिलित सिंहासनपर बैठा । उसकी मां कुतन कुनचेक प्रसिद्ध कंकुरत कबीलेकी अमीरजादी तथा मनस्विनी स्त्री थी । इतिहासकार अनुनीम असकंदर के अनुसार तोकतामिश बहुत ही मुस्तैद, प्रतापी, सुंदर तथा स्वभावसे भी सुंदर बादशाह था । वह अपने न्याय और सदाचारके लिये प्रसिद्ध था । असकंदरके अनुसार उसमें दोष यही था, कि उसने अपने उपकारक तेमूरलंगसे कृतघ्नता की । तेमूरबेकपर विजयप्राप्त करते ही तोकतामिशने अपने सारे उलुसको सुव्यवस्थित किया ।

तोकतामिशने बेरेकसरायको अपनी राजधानी बनाया । बा-तूने अस्त्राखानके पास वर्तमान सेली-त्रेन्नोय गांवकी जगह अपनी राजधानी—बातू-सराय बनाई थी । उसके भाई बेरक (१२५५-६६ ई०) ने बोल्गाकी शाखा अखतूबे नदीके तटपर आधुनिक स्तालिनग्रादके समीप सराय-बेरेकके नामसे नई नगरी बसाई, लेकिन बातू सरायसे हटाकर बेरेक सरायमें राजधानी ले जाना उज्बेक खानका काम था । तोकतामिशके समय सुवर्ण-ओर्दू राज्य एक बार फिर ख्वारेज्मसे पश्चिममें रूसी राजुलोंके भीतर, तथा क्रिमिया, काकेशसके दरबन्द तथा बाकूतक फैल गया । पश्चिममें राज्यसीमा दनियेस्तर नदी, और पूरबमें तबोल-इरतिश-संगम एवं मध्य सिर-दरिया थी । तोकतामिशने सत्रह साल (१३६२ ई०) तक अच्छी तरह शासन किया, फिर इतिहासकारोंके अनुसार उसे शरारत सूझी और वह तेमूरलंगसे छेड़खानी कर बैठा ।

१३८० ई० में तोकतामिशके क्रिमिया-शासक रमजनने वेनिसगणके प्रतिनिधि अन्द्रेय वेनेरिसके साथ व्यापारिक समझौता किया ।

मास्को-ध्वंस (१३८२ ई०)—तोकतामिश जू-छिंके पुत्र ओरदाके वंशका नहीं था, बल्कि उसका पूर्वज छिंझ-गिस्वंशी राजकुमार तुका-तिमु था । ममाइ (करातालके पास) की विजयके बाद वह पूर्वी और पश्चिमी दोनों किपचकों—सुवर्ण-ओर्दू और श्वेत-ओर्दू—का स्वामी बना । विजयकी खबर सुनते ही रूसी राजुल जल्दी-जल्दी अपनी भेंट और तलवार चढ़ानेके लिये उसके दरबारमें पहुंचे । मास्को-महाराजुल दिमित्रिके दो कवचधार कुतुलुकबुगा और मोकस दूसरे खड्गधारियोंके साथ भिन्न-भिन्न राजुलोंकी राजधानियोंमें खानकी सुनहली मोहरलगी यारलिकके साथ गये । लेकिन तोकतामिश इतनेसे संतुष्ट नहीं होनेवाला था । वह कर लेते हुए खानोंकी प्रभुताको पूर्ववत् स्थापित करना चाहता था, जिसे उठा फेंकनेकी रूसी राजुलोंने इधर कोशिश की थी । उसने खानजादा अकखोजाको सात सौ सिपाहियोंके साथ यह कहला भेजा, कि रूसी राजुल भेंट और तलवार ही नहीं भेजें, बल्कि खुद बेरेक-सरायमें हाजिरी देनेके लिये आयें । अकखोजाने स्वयं निज्नीनवोगोरद (निचला नवीन नगर) में ठहर दूसरे दूतको संदेशके साथ मास्को भेजा । हालहीमें दोनके तटपर महाराजुल दिमित्रिको जो विजय प्राप्त हुई थी, उससे गर्व करते उसने जानमें आनाकानी की । सालभरकी तैयारीके बाद उसे एकाएक खबर मिली कि सेना पार करनेके लिये तारतारोंने बुल्गारोंकी नावें पकड़ ली हैं, रयाजनका राजुल पथप्रदर्शक बन उन्हें ओका नदी पार करानेके लिये रास्ता दिखला रहा है । इस खबरको सुनकर बहुतसे राजुलोंने हिम्मत हार दी । महाराजुलके धर्मपिता निज्नीनवोगोरदके राजुल दिमित्रिने अपने दो पुत्रोंको खानके दरबारमें भेज भी दिया । उस समय खानका शिविर सिरनागमें था, जहां वह तोकतामिशसे मिले ।

मास्को-महाराजुल दिमित्रि राजधानीको बायरोके हाथमें छोड़ सेना-संग्रहके लिये कोस्त्रोमाकी ओर गया । ओका नदीपर अवस्थित सेपूकोफ नगरको लेकर तोकतामिश मास्कोपर चढ़ा । गिर्जोंके घंटे बजाकर नागरिकोंको इकट्ठा कर एक बड़ी सभा की गई, पुराने रूसी रवाजके मुताबिक प्रति-

किया। अपने एक मूरजा (मिर्जा) के द्वारा उसने दिमित्रिके पास सहृदयता दिखलाते हुये संदेश भेजा—
श्वेत भी तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर पहलेकी तरह काम करो। दिमित्रिने अपने पुत्र वासिलीको भेजा। मास्कोके नष्ट हो जानेपर मूल्यवान् भेंट कहांसे भेजी जा सकती थी? तो भी तोकतामिशने वासिलीके साथ अच्छा बरताव किया। उसने महाराजुलकुमारको दरबारमें जांमिनके तौरपर रक्खा और मास्कोके ऊपर नये कर लगाये।

खानोंकी शक्तिको क्षीण हो जानेपर रूसका प्रतिद्वन्द्वी लिथुवानियाका राजा समझा जाता था। श्वेतक लिथुवानी ईसाई धर्मको न स्वीकार कर वैदिक देवताओंके भाईबन्दोंको ही अपना इष्टदेव मान रहे थे। उनकी वीरताके कारण ईसाई समुद्र इन काफिरोंके द्वीपको अपने भीतर बर्दाश्त कर रहा था। एक इतिहासकार लिखता है—“बहुतसे लोग शायद यह नहीं जानते, कि १४ वीं सदीके अंततक मध्य-युरोपके इतना नजदीक विलेनुस नगरीमें काफिरोंका धर्म राजधर्म था।” *लिथुवानी राजा लादिस्लाउस (ह्लादश्रवा) ने पोल-राज्यकी उत्तराधिकारिणी कुमारी हेदविगके साथ ईसाई धर्म स्वीकार करते हुये ब्याह किया। इसी समय राजाके साथ उसके साथियोंने भी बपतिस्मा लिया। युरोपके धर्मपरिवर्तनवाली कहानी लिथुवानियामें भी दुहराई गई और बिलनामें काफिरोंकी जितनी मूर्तियां और पवित्र वृक्षस्थल थे, सबको एक ओरसे ईसाई पादरियोंने नष्ट कर दिया। पुराने पुरोहितोंको उनकी मृगछालाकी पोशाकके बदलेमें सफेद पोशाक बांटी गई। लिथुवानियाके राजाको इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अपने पड़ोसियों को देखते हुये ग्रीक और रोमन संस्कृतिसे लिथुवानियाके सरदार भी प्रभावित हुये बिना नहीं रहे। भीतर ही भीतर संस्कृतिके साथ धर्मका भी प्रभाव उनमेंसे कितनों हीपर पड़ता जा रहा था, जिससे आगे चलकर काफिर और ईसाईका सवाल सिंहासनके लिये खतरेका कारण हो सकता था। उधर लादिस्लाउसने देखा, कि ईसाई धर्म स्वीकार करनेपर मैं पोल राजकुमारीके साथ पाणिग्रहण कर पोलन्दका भी स्वामी बन जाऊंगा, इसलिये हजारों वर्षोंसे चली आई लिथुवानी सभ्यता और धर्मके बहुतसे चिह्नोंको मिटा देनेमें उसने हाथ बंटया। महाराजुल दिमित्रिका तोकतामिशके साथ फिर अच्छा संबंध स्थापित हो गया, इसलिये लिथुवानियन राजाके आक्रमण करनेपर उसे तोकतामिशका एक भारी सहारा मिल गया। १३८६ ई० में दिमित्रिके मरनेपर उसका पुत्र वासिली महाराजुल बना।

पश्चिमकी दिग्विजयके बाद तोकतामिशने अपने राज्यके पूर्वी भागकी व्यवस्थामें हाथ लगाया। उसने विरोधियोंको बड़ी निष्ठुरतासे पीस डाला, जिसमें उसकी अपनी बीबी तावलुइने भी अपने प्राण खोये। तेमूर लंगसे झगड़ पड़ना अकारण नहीं था। जू-द्विके समयसे ही स्वारेज्म उसके उलुसका था, जिसे तेमूरने जबर्दस्ती छीन लिया था। उरुस खानके समय, जो राज्यमें गड़बड़ी मची थी, उससे फायदा उठाकर हुसेन सूफी यङ्क-हदाई-पुत्र (कंकुरत) ने स्वारेज्मके कात और खीवा जिले हड़प लिये। तेमूरने देखा, कि हुसेनकी पीठपर कोई नहीं है, इसलिये ‘स्वारेज्म जगताई-उलुसका है’ कहकर उसे मांगा। तेमूर यद्यपि एक बड़ी सल्तनतका स्वतंत्र शासक था, लेकिन उसने जगताई वंशके खानको समरकंदकी गद्दीसे नहीं उतारा और अपने लिये केवल अमीरकी साधारणसी पदवी स्वीकार की थी। इस प्रकार उसने जगताई खानकी ओरसे स्वारेज्मपर दावा किया। हुसेन सूफीने उसका जवाब दिया—“तलवारसे जीता तलवारसे ही लौटाया जा सकता है।” तेमूर दौड़ पड़ा। कातमें कुछ थोड़ेसे प्रतिरोध के बाद शहरपर तेमूर लंगका अधिकार हो गया। निर्मम हत्या हुई, स्त्री-बच्चों सहित बहुतसे लोग दास बनकर बिकने के लिये बंदी बनाये गये। हरे-भरे स्वारेज्मको तेमूरकी आगमें जलना पड़ा। कातसे हुसेन सूफी भाग गया, और थोड़े दिनों बाद मर गया। तेमूर लंगने दया दिखाते हुये हुसेन सूफीके पुत्र युसुफ सूफीको इस शर्तपर वहांका शासक बनाया, कि वह अपनी चचेरी बहिन तथा सुन्दरताके लिये सर्वत्र प्रसिद्ध सेविनबेईको तेमूर-पुत्र जहांगीरके साथ ब्याह दे। युसुफने पहले तो बात मान ली, लेकिन जल्दी ही उसने शर्तको तोड़कर कातको लूटना और लोगोंको भगाना शुरू कर दिया। दंड देनेके लिये १३७२ ई० में तेमूर फिर

आया। युसुफने आत्मसमर्पण किया। सेविनबेइ (खानजादी) का ब्याह जहांगीरके साथ हुआ और युसुफको क्षमा मिली। दो साल बाद १३७४ ई० में फिर तेमूरको कातकं रास्ते ख्वारेज्मकी और बढ़ना पड़ा, लेकिन अपने किसी अमीरकी ओरसे समरकंदपर खतरा होनेकी खबर सुनकर वह लौट गया। इसी साल उसने तोकतामिशको किपचकोंका खान स्वीकृत किया था।

जिस समय तेमूर-लंग उत्तरारामें उरुस खानसे लड़नेकी प्रतीक्षा कर रहा था, इसी समय युसुफ सूफीने बुखारा जिलेपर आक्रमण करके लूट-मार मचानी शुरू की। तेमूरने उसे हिदायत करनेके लिये दूत भेजा, जिसे युसुफने जेलमें डाल दिया। इसके बाद एक दूसरे दरबारी दूतको तेमूरने रेशमपर ताजी कस्तूरीसे लिखा शासनपत्र देकर भेजा। युसुफने इस दूतकी भी वही गति की। बुखाराके पास उमने कुछ तुर्कमानोंके अंत लूट लिये। १३७८ ई० के बसंतमें राजधानीके सामने पहुंचकर युसुफने कहा—“इतने मुसलमानोंको मरवानेकी जगह यहीं अच्छा है, कि आओ हम दोनों द्वंद्व-युद्ध करके हार-जीत का फैसला कर लें।” तेमूरने इसे स्वीकर किया। मित्रोंके वजित करनेपर भी शाही कवच और शिरस्त्राण पहनकर तेमूरने द्वंद्व-युद्धके लिये नगरद्वारसे बाहर जा युसुफको ललकारा, लेकिन वह लड़नेके लिये सामने नहीं आया। उसी समय तेरमिजसे कुछ ताजे खरबूजे (सरदे) आये, जिनमें से कुछको सोनेकी थालमें रखकर, तेमूरने अपने दुश्मनके पास भेजा, लेकिन युसुफने उन्हें मोरीमें फेंक दिया और लानेवालेको थाल बर्ग दिया। फिर दोनोंमें धमासान लड़ाई शुरू हुई। नगरका मुहासिरा करके युसुफने उस समयके पुराने ढंगके ताप-खानेसे प्राकारको तोड़नेकी कोशिश की। मुहासिरा तीन महीने छः दिन रहा। युसुफ सूफी इसी बीचमें असफल होकर मर गया। तेमूरके हाथ भारी हीरा-मोतीका खजाना आया। उसने सभी शरीफों, हकीमों और विद्वानोंको स्त्रियों-बच्चोंके एक बड़े समूहके साथ ख्वारेज्मसे पकड़कर केश (शहरमब्ज) भेज दिया। इस प्रकार १३७९ ई० में ख्वारेज्मपर तेमूर-लंगका अधिकार हुआ।

पूरब और पश्चिमकी सफलताओंके कारण तोकतामिशको अपनी शक्तिपर विश्वास हो गया था। इधर युसुफ सूफीकी लड़ाइयोंसे वह यह भी समझता था, कि तेमूर-लंग अजेय नहीं है। जू-छिके सिंहासनका मालिक और छिङ्ग-गिसी शाहजादा होकर वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था, कि ख्वारेज्म एक मामूली तुर्क सरदारके हाथमें चला जाय। वह जानता था, कि चगताई खान केवल गुड़िया बनाकर समरकंदके सिंहासनपर रखा गया है। तोकतामिशने ख्वारेज्म मांगा, लेकिन मुंहसे वैसा न कहकर भी तेमूर-लंगका जवाब भी हुसैन सूफी जैसा ही था—“तलवारसे जीता तलवारसे ही लौटाया जा सकता है।” तोकतामिश तेमूरके विरुद्ध सिर-दरिया पार हो सीधे समरकंदकी ओर बढ़ सकता था, अथवा ख्वारेज्मपर आक्रमण कर सकता था, लेकिन उसे तेमूर-लंगका निर्बलस्थान वहां नहीं मालूम हुआ। उसने खुलाकूकी राजधानी तबरेज—जोकि अब तेमूर-लंगके हाथमें थी—को लक्ष्य कर काकेशीय दरबन्दके रास्ते अभियान किया। उसके साथ बेक बुलाद, ऐसाबेक, यागलीबेक, गजनशी आदि बारह ओगलान (राजकुमार) थे, जिनका मुखिया पुलादबेक था। तोकतामिशकी सेनाने सिरवान होते हुये आजुरयाइजानके भीतर घुसकर तबरेजको घेर लिया। लोगोंको जब यह खबर मिली, तो वे अपने कूचों और मुहल्लोंमें दरख्तोंको डाल मोर्चाबंदी कर हथियारबंद हो अपने-अपने मुहल्लोंकी हिफाजत करने लगे। आक्रमणकारियोंने नागरिकोंके प्रतिरोधको बहुत मजबूत देखा। वह शम्बेगाजानीमें उतरे और कमजोर स्थान ढूँढ़नेके लिये आठ दिनतक नगरका चक्कर लगाते रहे। जब कोई वैसा स्थान या अत्रसर नहीं मिला, तो उन्होंने आदमी भेजकर अमीर वलीको सुलह करनेके लिये बुलाया। अंतमें तै हुआ, कि अमीर वली शहरसे दो सौ पचास तुमान सोना दिलवा दे, जो कि तोकतामिशकी सेनाके घोड़ोंकी नालों का दामभर ही था। बृहस्पतिवार १३८५-८६ ई० (७८७ हि०) को शहरके मालिकों और ख्वाजाओंको जमाकर निश्चय किया गया कि हर मालिक एक तुमान नकद दे। ढाई सौ तुमान भेज देनेके बाद लोग निश्चित हो गये। उन्होंने तैयारी ढीली कर दी और बहुतोंने हथियार भी उतार दिये। इसी समय तोकतामिशकी सेना शहरके ऊपर टूट पड़ी और कतल तथा लूटका बाजार गरम हो गया। प्रतिरोधकी शक्तियां तितर-बितर हो गई थीं। तोकतामिशकी सेनाने तेमूर-लंगके तबरेजको आठ दिनतक लूटा और

कतल किया, जिसमें करीब एक लाख आदमी बड़ी निर्दयतासे मारे गये। किपचकोंने किसीपर दया नहीं दिखलाई। उन्होंने लोगोंको नंगा मादरजाद करके सड़कों, कूचों, मुहल्लोंमें बर्फपर बैठा दिया। स्त्रियों, लड़कियों और छोकरोमें जिन्हें सुन्दर देखा, उन्हें लिया, बहुतसे आदमियोंको भी बंदी बनाया, फिर धरोमें आग लगा दी। तोकतामिशने मास्कोमें जो किया था, उसीकी आवृत्ति उसकी सेनाने तबरीजमें की, और यही बात पीछे तेमूर-लंगने दिल्लीमें दुहराई। एक इतिहासकार ने लिखा है:—“काफिरोंने लोगोंपर वह जुल्म किया, कि लिखनेवाला यदि एक सालतक लिखता रहे, तो नहीं पूरा कर सकता। इस शहर और इन मुसलमानोंपर क्या-क्या नहीं बीती ?”

अमीर वली मुलतानियासे जा चुका है, यह सुनकर उनको उसपर विश्वासघाती होनेका संदेह हुआ। तोकतामिशी सेनाने मुलतानिया और दूसरी जगहोंको भी उसी तरह लूटा-पाटा। इसके बादभी तबरीजके लोगोंमें कुछ सुगबुगाहट देख फिर दो दिन दो रात उसे कतल और लूटका शिकार बनाया। फिर कितने ही किपचक नखजवानकी और अरानके प्रदेशमें जा लूट-मार करने लगे, कुछ इसी कामके लिये कराबाग चले गये। जाड़ा खतम होने से पहले ही दो लाख बंदी बना तोकतामिश आये रास्ते लौट गया। तेमूर इस समय ईरानके झगड़ोंमें फंसा था, इसलिये आजुरबाइजानके सर्वसंहारकी बातको सुनकर भी दिल मसोसकर रह गया। तोकतामिश अपने साथ प्रसिद्ध कवि कमालको लेता गया था, जिसने चार सालतक राजधानी बेरेकसारायमें रहकर उसका बहुत सुन्दर वर्णन किया है।

तेमूरके साथ लड़ाइयां

प्रथम युद्ध—ईरानके झगड़ेसे छुट्टी पाकर १३८७-८८ ई० (७८६ हि०) के बसंतमें तेमूर-लंग उसस नदीके तटपर था, जबकि उसने सुना कि तोकतामिश दूसरी बार दरबंदकी ओरसे आकर आक्रमण करना चाहता है। तोकतामिशके अमीरोंने मना किया, कि तेमूर अब भीतरी झगड़ोंसे छुट्टी पाकर मुकाबिलेके लिये तैयार हैं, इसलिये लड़नेके लिये नहीं जाना चाहिये। लेकिन, तोकतामिशने उनकी बात नहीं मानी। खुलाकू-वंशियों और बातू-वंशियोंके पुराने युद्धोंकी तरह फिर उत्तरसे तोकतामिशी सेना कुरा नदीके तटपर पहुंची और दक्षिणसे तेमूर भी वेरदआ होते वहां पहुंचा। उसने नदीपार की खबर जाननेके लिये गुप्तचर भेजे, जिन्होंने लड़ाई करके भारी क्षति उठाई। फिर कुमकके लिये आई तेमूरी सेनाने तोकतामिशकी विजयिनी सेनापर आक्रमण करके उसे बुरी तरह हराकर दरबंदतक उसका पीछा करके बहुतसे बंदी बनाये। तेमूरने क्रुतघ्नताके लिये बहुत फटकारकर तोकतामिशके बंदी अमीरोंको खलअत और धन देकर घर भेज दिया।

इस विजयके बाद तेमूरने सरकश तुर्कमान सरदार करामोहम्मदसे लोहा लिया और फिर फारसपर आक्रमण कर उसे अपने राज्यमें मिला लिया। इसी समय डाकियाने आकर खबर दी, कि तोकतामिश अंतर्वेद (मावरा-उन्नहर) की ओर बढ़ रहा है। तोकतामिशने सिगनकसे प्रस्थान कर सावरानपर आक्रमण किया, लेकिन तेमूरी सेनापतिके जबर्दस्त प्रतिरोधके कारण उसे मुहासिरा उठा लेना पड़ा। इसके बाद तोकतामिश दूसरे इलाकोंको तबाह करने लगा। प्रतिरोध करनेके लिये तेमूर-पुत्र शाहजादा उमरशेख मिर्जाने एक बड़ी सेना ले सिर-दरिया पार हो आगे बढ़ते उतरारसे पांच फरसक पूरब युक्लिक स्थानमें तोकतामिशकी सेनापर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार खानी पड़ी। अंदिजानमें पहुंचकर उसने अपनी बिखरी सेनाको फिरसे एकत्रित किया। इसी समय पता लगा, कि मुगोलिस्तानके शासक अंकातूराने भी विश्वासघात करके चढ़ाई कर दी है और वह सैराम तथा ताश्कंदके नजदीक पहुंच गया है। उमरशेखने अंकातूराने पीछे हटनेके लिये मजबूर किया। तोकतामिशके किपचक समृद्ध सोगद-देशको लूटनेके लिये आगे बढ़ रहे थे, जिनका एक दल बुखाराके सामने पहुंच गया था, जिसने वहांके सुन्दर प्रासाद जेंदगिर-सरायको जला दिया। तेमूर उनकी ओर लपका। नजदीक आनेपर शत्रुकी सेनामेंसे कुछ दशतेकिपचक (कजाकस्तान)की ओर कुछ ख्वारेज्मकी ओर भागे। तेमूरने अपने अफसरों—बेरातखोजा और कुकिलताशको युक्लिककी पराजयके लिये दंड दिया—“कुकिलताशको दाढ़ी-मूँछ मुंडवा चेहरेको काले-लाल रंगसे रंगा, सिरको स्त्रीकी तरह सजा शहरमें नंगे पैर दौड़ाया गया।”

युसुफके मरनेके बाद ख्वारेज्म उसके भाई सुलेमान सूफी तथा बहनोई इलिकमिस ओगलान (किपचक राजकुमार) के हाथमें था। यह दोनों तोकतामिशको अपना प्रभु मानने लगे, इसपर तेमूरने उनके विरुद्ध चढ़ाई की। तेमूरी सेनाके हरावलके संचालक शरणागत श्वेत-ओर्दू राजकुमार तेमूर कुतुलुक ओगलान और कुंजी ओगलान थे। बगदादके और शेरिस नदीके पार होनेके बाद पता लगा, कि दोनों राजकुमार तोकतामिशके पास भाग गये। शाहजादा भीरांशाह (तेमूर-पुत्र)ने पीछा करके उनको पकड़ लिया। तेमूर ख्वारेज्मकी राजधानी उरगंज पहुंचा। उसे नगर और निवासियोंपर इतना गुस्सा आया था कि उसने नगरको गिरवाकर वहां जो बुवा दिया और निवासियों को समरकंद भेज दिया। फिर तीन साल बाद ही नगरके पुनःस्थापनाके लिये हुकुम दे इस कामपर उसने मुसिकी यद्दकि कुचीन-पुत्रको नियुक्त किया। मुसिकीने नगरको फिरसे बनवाकर लोगोंको बसाया, उरगंज, कात और खीवाके चारों ओर नगर-प्राकार बनवाये।

तोकतामिशने देख लिया, कि अब तेमूर-लंगके साथ मामूली छेड़खानीसे काम नहीं चलेगा। उसने १३८८ ई० (७९० हि०) में अपने महाअभियान शुरू करनेके पहले बहुत भारी सेना जमा की। इस सेनामें चिरकासी, बुल्गार, किपचक, क्रिमियावासी, कपफा, अलानिया, अजक, बाकिर और रूसी सभी जातियोंके सैनिक थे। पता लगनेपर तेमूर भी भारी सेना ले समरकंदसे ६ फरसख पर अवस्थित सगरूज स्थानमें मुकाम किया। वहांसे उसने अपने सारे राज्यमें सेना जमा करनेके लिये तवाची भेजे। उस साल जाड़ा बहुत सख्त रहा। चारों ओर जमीन बर्फसे ढंकी हुई थी। पता लगा, कि किपचक हरावल इलिकमिश ओगलानके नेतृत्वमें सिर-दरियापार हो ओतरार (उतरार)के पाम अजक-जैरनुकमें डेरा डाले हुये हैं। तेमूरने तुरंत हमला करना चाहा, लेकिन उसके अमीरोंने घुटने टेककर प्रार्थना की, कि और सेनाके आनेतक प्रतीक्षा की जाय। तेमूरने नहीं माना। बर्फ कहीं-कहीं घोड़ोंके छातीतक थी। उसीमें स्थानीय सेना ले वह रात-दिन कूच करने लगा। रास्तेमें उमरशेख मिर्जा अपनी सेना ले आ मिला। पीछेसे रास्ता काटनेके लिये सेना भेजकर दूसरे दिन तैलम्बार पहाड़ पार करनेपर दुश्मन सामने दिखाई पड़ा। भयंकर युद्ध हुआ। तोकतामिशकी बुरी तरह हार हुई। सिर-दरिया पार करके उसने जो गलती की थी, उसके कारण बहुत-से सैनिक डूब गये और अधिक संख्याको तेमूरने घेरकर मार डाला। तोकतामिशका राज्य-सचिव ऐरदीबरदी बंदी बनाकर तेमूरके पास लाया गया। तेमूरने उसका बहुत सम्मान कर बहुत-से उपहार दे लौटा दिया। तेमूरने स्वयं लौटकर फरवरी ७९१ हि० (३१ दिसंबर १३८८-२१ नवंबर १३८९ ई०) में समरकंदके पास अकारमें डेरा डाला।

वसंत (१३८९) शुरू होते-होते खुरासान, बलख, कुन्दुज, बतलान, बदखशा, खुत्तलान, हिसार, सादुमान आदि नाना देशोंसे सेनायें आ पहुंचीं। खोजन्दके सामने दूसरी भी और कितनी ही जगहोंमें सिर-दरियाके ऊपर नावोंके पुल बनाये गये। १३८९ ई० (७९१ हि०) के प्रारंभमें अभियान शुरू हुआ। आरिस (आर्च) नदीके किनारे दुश्मनके हरावलपर तेमूरी सेनाने एकाएक आक्रमण कर दिया। तोकतामिशकी सेनाने सावरानपर असफल आक्रमण किया और उसे यस्सी (तुर्किस्तान) की ओर हटनेके लिये मजबूर होना पड़ा। यहीं खुली जगहमें तोकतामिशकी सारी सेना पड़ी हुई थी। तेमूरको सामने आता देखकर तोकतामिशकी सेना भाग चली। तेमूरने पीछा किया और कुछको पकड़ लिया। अब तेमूर-लंगने अलकुसुनामें जाकर डेरा डाला। तेमूरके सामने इस वक्त दो शत्रु थे, एक तोकतामिश और दूसरा चगताईकी उत्तरी शाखा मुगोलिस्तान (राजधानी अलमालिक) का खान। दोनोंमें मुगोलिस्तानका खान कम बलिष्ठ मालूम हुआ, इसलिये उसीको पहले खतम करनेके ख्यालसे तोकतामिशके पीछे न बढ़कर तेमूर समरकंद लौट आया।

प्रथम महाअभियान (१३९० ई०)

तेमूरने अच्छी तरह समझ लिया, कि दक्षिणकिपचक (तोकतामिशके राज्य) का अभियान खेल नहीं है, इसलिये उसने बड़ी तैयारी की—तुर्कों और ताजिकोंकी भारी सेना जमा की, सालभरके लिये

रसद इकट्ठा की। हर एक आदमीको हुकुम दिया कि वह एक धनुष, तीस बाण, एक प्रत्यंचा और एक कमरबंद जमा करे। सारी सेना घोड़सवार थी। हर एक घोड़सवारको एक घोड़ा फाजिल अपने साथ रखना था। दस आदमियोंके ऊपर एक तंबू, दो बेलचे, एक फरसा, एक हंसिया, एक आरा, एक कुल्हाड़ा, एक खखानी, सौ सुइयां, सवा चार सेर रस्सी, एक बैलका चमड़ा और एक मजबूत तवा दिया गया। सेनाको सरकारी घोड़ोंके साथ शिरस्त्राण, कवच और नकद पैसा भी दिया गया था। ताश्कंद छोड़नेके बाद तेमूरने हुकुम दिया, कि महीनेमें प्रतिव्यक्ति साढ़े आठ सेर आटा मिलेगा। रोटी, कुल्चा (बिस्कूट) आदि शिविरमें किसीको नहीं मिलेगा। खानेके लिये जल्दी-जल्दी आटेकी लपसी बना लेनी होगी। तेमूरने वृश्चिक राशिमें समरकंद छोड़ जाड़ेको समरकंद जिलेमें ही बिताया। आगेके लिये प्रस्थानसे पहले खोजन्दमें उसने वहांके प्रतापी संत शेख मस्लहतके मकबरेका दर्शन करके उसपर दस हजार दीनार चढ़ाये। ताश्कंदमें तेमूर चालीस दिनतक सख्त बीमार पड़ा रहा। उसकी सेनाके पथप्रदर्शक तेमूर कुतुलुक अगलान, तेमूर मलिकखान, गूनेजी अगलान, इदिकू उज्बेक थे; जिनमेंसे पहले तीन किपचक राजकुमार थे। १६ जनवरी १३६१ ई० को अपनी प्रियतमा भार्या तथा मुगोलिस्तानके हाजीबेक इरखानकी पुत्री चुलपान मलिक आगाके साथ तेमूरने प्रस्थान किया।

कुछ दिनोंतक सेना कारासमनमें ठहरी। यहां तोकतामिशके दूत तेमूरके दरबारमें आये। उन्होंने शाहबाज और नौ घोड़े भेंटकर दंडवत् पड़ धरतीपर ललाट रगड़कर सम्मान प्रकट करते अपने मालिककी प्रार्थना दुहराते हुये कहा—“बुरी सलाहमें पड़कर तोकतामिशने विद्रोह किया, अब वह क्षमा मांगता है।” तेमूरने बाजको अपने हाथपर बैठाकर कहा—“सारी दुनिया जानती है, कि मैंने तोकतामिशकी रक्षा की, कितनी कुर्बानियां करके उसे तख्तपर बैठाया, लेकिन मुझे अनुपस्थित देख उसने तबरीजपर आक्रमण कर दिया। मैं अफसोस प्रकट करनेपर क्षमादानके लिये तैयार था, फिर भी उसने दुष्ट काफिरों को साथ ले मेरे सीमांतपर आक्रमण किया। काफिरोंने दूर-दूरतक लूट-मार की। जब मैं अपनी प्रजाकी सहायताके लिये पहुंचा, तो वह नीचता दिखलाते हुये हट गया। अब वह फिर मुझे झूठे वचनोंद्वारा धोखा दना चाहता है। उसने बहुत बार विश्वासघात कर लिया है, अब वह मुझे फिर धोखा नहीं दे सकता। मैं उसे दंड देनेके मंसूबेसे आया हूं, और उसे बिना पूरा किये नहीं छोड़ूंगा। तो भी अगर वह ईमानदारीसे अपनी सदिच्छा दिखलाना चाहता है, तो अपने प्रथम-मंत्री अलीबेकको मेरे पास भेज दे। मैं राज्यका हित देखते बुद्धिके अनुसार कार्रवाई करूंगा।”

तेमूरने दूतोंके लिये भारी दावत दी। उन्हें कमखाबके कफतान (जामे) भेंट किये, साथ ही खास स्थानमें टिकाकर निगाह रखनेके लिये ताकीद भी कर दी।

२१ फरवरी १३९१ ई० को युद्ध-महापरिषद् बैठी। युद्धके पक्षमें निर्णय करके ज्योतिषियोंसे शुभमुहूर्त ठीक करवाया गया। तोकतामिशके दूत लौटा दिये गये। तेमूरी सेनाने कूच किया। उसकी सेना यस्सी (आधुनिक तुर्किस्तानशहर), कराचुक (तुर्किस्तानसे पांच फरसखपर सिर नदीमें गिरनेवाली नदीके ऊपर), और सावरानके रास्ते आगे बढ़ते उत्तरकी ओर मुड़कर ६ सप्ताह वृक्ष-वनस्पतिहीन मैदानमें चली। बहुतसे घोड़े रास्तेमें चारे बिना मर गये। ६ अप्रैल १३६१ ई० को तेमूरी सेना नीले पानीवाली नदी (सरकू उजेन, सरीसू) के तटपर पहुंची। नदी बड़ी हुई थी, इसलिये थके हुये घोड़ोंको कुछ दिनों विश्राम दिया गया। २६ अप्रैलको प्रसिद्ध मैदान (कुनचुकताग—लघु-पर्वत) पर पहुंची। दो दिन और चलनेपर इस प्रदेशका सबसे बड़ा पहाड़ उलुगताग (महापर्वत) आया—पहिले इन पर्वतोंका नाम ओरताग (उच्च पर्वत) और करताग (गंदा पर्वत) था। आगूज तुर्कोंके खान अपनी गर्मियां यहीं बिताते थे। इन पहाड़ोंसे बहुत-सी नदियां निकलती हैं। तेमूर-लंग उलुगतागके ऊपर चढ़ा और वहांपर उसने २८ अप्रैल १३६१ ई० को शिला-लेख खुदवाकर एक पाषाणस्तंभ स्थापित करवाया।

यह शिलालेख आजकल लेनिनग्रादके एरमिताज-संग्रहालयमें है। अभिलेखमें ऊपर तीन पंक्तियां अरबीमें, फिर आठ पंक्तियां उइगुर-लिपि तथा तुर्की भाषामें हैं। उइगुर लिपिके कायदेके

अनुसार इस लेखकी पंक्तियां ऊपरसे नीचे न हो बायेंसे दाहिने तथा अरबी पंक्तियोंके समानान्तर हैं। तुर्की भाषामें मूल लेख निम्न प्रकार है:—

१. तरिक येती यूज तोकसन उचन्दा कोइ
२. यिल याजनिंग अरा ए तुरान निंग सुल्तान इ
३. तेमूर बेग इकी युज भिग सेरगि विलए इसमी उचुन तोकतामिश कान निंग
४. कनिगा योइरिदी बू येरगे येतिप बेलगू बोलसुन तेप
५. बू ओबा-नी कोपरदी
६. तङ्ग-री निसफत बेरगेई इन्शल्ला
७. तङ्ग-री इस किशीगे रहमत किलगे बिज-नी दुआ बिलाये
८. याद किलगे ।

[“७६३ हि० सन् (१३६१ ई०) के वसंत के मध्यमें तुरान-सुल्तान तेमूरबेग दो लाख सेनाके साथ तोकतामिश-खानसे लड़नेके लिये आया । . . यहाँ पहुंचकर (उसने) इस स्तंभ (चिह्न) को स्थापित किया। यदि भगवान् चाहे, तो वह लोगोंको सौहार्द देवे और हमें आशीर्वादपूर्वक याद कराये ।”]

आगे प्रस्थान करते सेना दूसरे दिन इलान्चुक (सर्प-सदृश) नदीपर पहुंची। आठ दिन और चलनेके बाद अताकरागुई (अनाकरागुई, करातुरगई) नदीपर पहुंचीं। अबतक ताश्कंद छोड़े चार मास हो चुके थे। रसद कम होने लगी थी। एक भेड़का दाम सौ कुबेक (दीनार) हो गया था, अन्न भी उमी तरह महंगा था। तेमूरी सेना जंगली चिड़ियोंके अंडे, सभी तरहके जानवरोंके मांस, यहांतक कि घास भी खानेके लिये मजबूर हुई। उसके लिये तोकतामिशसे भी अधिक निष्ठुर उसके देशकी प्रकृति साबित हुई। रसदमें सिर्फ आटा, बाजरा और घास मिला हुआ सूप (रस) मिलता था। सिपाहियोंका ही खाना अफसर भी खाते थे। इस बयाबानमें शिकारोंकी कमी नहीं थी। छिड़-गिस्के महाशिकारकी प्रणाली लोगोंको भूली नहीं थी। ६ मई १३६१ ई० को उसी शिकारको रचा गया। आदमियोंने दूर तककी भूमि घेर ली। घिरावेमें पड़े हरिन तथा दूसरे जानवर बड़ी संख्यामें मारे गये। वह इतने अधिक फंसे थे, कि उनमेंसे सिर्फ मोटे-मोटे जानवरोंको ही मारा गया। तेमूरकी भारी सेनाके लिये कितने ही दिनोंके वास्ते मांस मिल गया। आगे बढ़ती हुई वह तोबोल नदीके उद्गमके पास पहुंची। वहीं तेमूरने अपनी सेनाकी परेड देखी—भालों, तलवारों, खांडों, गदाओं, चर्मकी ढालोंमें सज्जित बाघका चमड़ा डाले घोड़ोंपर सवार सैनिक अफसर उसके साथ थे। तेमूरने स्वयं अपने सिरपर पद्मराग-जटित एक मुकुट पहिना था। उसके हाथमें गदा थी, जिसके सिरे पर बैलका चेहरा था। तेमूरने अपनी सेनामें इनाम बांटा। सेना “सुरिम” (धावो) का नारा बुलन्द करते बाजेकी आवाज-पर अपने बादशाहके सामनेसे सलामी देती निकली।

फिर ज्योतिषियोंने शुभमुहूर्त देखा और १२ मईको मिर्जा मुहम्मद सुल्तान बहादुर (तेमूर-पौत्र) की अधीनतामें हरावल सेना आगे बढ़ी। दो दिन जानेपर दुश्मनका पता उसके छोड़े डेरोंसे लगा, जिनमें अब भी आग मौजूद थी। अन्तमें वह तोबोल (छोटा वृक्ष)—जो कजाकोंकी तौबुल और रूसियोंकी ताबुला नदी है—के तटपर पहुंचे। पार होनेके बाद पता लगानेवाली टुकड़ीने लौटकर बतलाया, कि सत्तर जगहोंमें आग मिली, किन्तु दुश्मनका कहीं पता नहीं। यह सुनकर तेमूर भी जल्दी-जल्दी तोबोलतट-पर पहुंचा। उसके तुर्कमान सरदार शेख दाऊदके दलने लगातार जल्दी-जल्दी दो दिन-रातके कूचके बाद कुछ झोपड़ोंको देखा। वह प्रतीक्षा करने लगे। जब उनमेंसे एक सवार निकला, तो उसे पकड़कर तेमूरके पास ले आये। पूछनेपर बंदीने कहा—“मैंने एक महीने पहले तोकतामिशके देशको छोड़ा। कुछ दिन हुये दस कवचधारी सैनिक मैंने पासके जंगलमें छिपे देखे।” तेमूरने उनके पीछे सिपाही भेजे, जो कुछको मार बाकीको बंदी बनाकर ले आये। उनसे निश्चित खबर पा फिर सेनाने जल्दी-जल्दी कूच करना शुरू किया। २६ मईको तेमूर यायिक (उराल) नदीके तटपर था। नदीके ऊपरकी ओर पार

कर ६ दिन चलनेके बाद सेमुर नदीके तटपर जाकर सेनाने डेरा डाला । वहां पता लगा, कि तोकतामिशकी सेना हाल हीमें यहांसे हटी है । तेमूरने हुकुम दिया—“चुपचाप आगे बढ़ो और रातको आग मत जलाओ ।”

४ जून १३९१ ई० को तेमूर इक (शकमाराकी शाखा) के तटपर था । तोकतामिश उस समय केर्क अथवा कोरक (सूखा)-गुल नामक झीलके ऊपर डेरा डाले बुल्गार (कजान) और अजक क्रिमिया के ओढ़ूके आनेकी प्रतीक्षा कर रहा था, साथ ही उसने यायिक (उराल) के घाटोंपर छापामार तैनात कर रखे थे । अब भूमि दलदलवाली थी, जिसमें चलना तेमूरके सवारोंके लिये बहुत मुश्किल था । जल्दी ही खबर आई, कि शत्रुकी तीन पल्टनें आगे पड़ी हैं । तेमूरने युद्धव्यूह रचनेका हुकुम दिया और ढाल, तूणीर और पंसे बांटे । एक बंदीसे—जिसे पीछे मार डाला गया—पता लगा, कि तोकतामिश गहरी चाल चलकर अपने शत्रुओंको फंसाना चाहता है । सैनिक अफसर मुबश्शिर बहादुरद्वारा पकड़े चालीस बंदियोंको भी बड़ी निष्ठुरतापूर्वक मारा गया—शायद साथमें बंदी लेकर आगे बढ़ना तेमूर पसंद नहीं करता था । इन बंदियोंने कहा, कि हम केर्कगुलमें तोकतामिशके पास जा रहे थे, लेकिन उसे नहीं पा सके । अंतमें शत्रुकी एक सेनाका पता लगा । ऐकू तिमूर बरलस अपने दलको लेकर आगे पता लगानेके लिये बढ़ा । शत्रुकी बड़ी सेना देखकर सात-आठ आदमियोंके साथ स्वयं पृष्ठरक्षा करता वह पीछे लौटा । देखते ही शत्रु उसकी ओर दौड़े । एक तीरसे बरलसका घोड़ा घायल हो गया और दूसरे तीरसे वह स्वयं भी आहत हुआ, लेकिन वह खबर देनेके लिये बेतहाशा घोड़ेको दौड़ाता रहा । घोड़ा गिर गया, तो उसने दूसरे घोड़ेको लिया । उस घोड़ेको भी शत्रुओंने तीरसे घायल किया और वे घेरकर मुबश्शिरका सिर काटकर साथ ले लौट गये, कुछ साथी भी उनके हाथ लगे । इसी समय एक दूसरी तेमूरी सेना आ गई, जिसके कारण शत्रुओंने पीछा करना छोड़ दिया ।

तेमूरके यहां अमीर-पुत्रोंको तरखनकी उपाधि थी, जिन्हें शाही तंबूमें किसी वक्त भी आनेकी इजाजत थी । छिड़गिस्के समय भी तरखनकी पदवी प्रचलित थी । तेमूरने तरखनों और उनके वंशजोंके नौ कसूर माफ कर रखे थे ।

चलते-चलते तेमूरी सेना ५४° अक्षांशमें पहुंची, जहां गर्मियोंमें असली रात नहीं होती और गोधूलीके बाद ही उषा चली आती है । इसके कारण यह सवाल पैदा हो गया, कि रातके अभावमें चौबीस घंटोंमें पांच बार नमाज पढ़नेकी व्यवस्था कैसे की जाये । इमामने फतवा देकर रातकी नमाजसे लोगोंको छुट्टी दे दी । तोकतामिशकी यही नीति थी, कि पीछे हटते-हटते शत्रुको उसके मुख्य स्थानसे दूर खींचते ऐसी जगह लाओ, जहां रसद-पानी दुर्लभ हो जाय । तेमूरने युद्ध-परिषद् बुलाई और सेनापतियोंसे सलाह करके बीस हजार सेनाके साथ उमरशेख मिर्जाको आगे शत्रुके ऊपर भेजा । इसी समय ५-६ दिन बर्फ पड़ती रही, जिसके कारण सर्दी बहुत बढ़ गई । सोमवार १८ जून (१३९१ ई०) को आसमान साफ हुआ । अब बुल्गारोंके देशमें कन्दुर्च स्थानमें पहुंचकर तेमूरने अपनी सेनाको व्यवस्थित करते हुये कुरानके फातेहा सूरा (अध्याय) की सात आयतों (पंक्तियों) के अनुसार उसे सात डिवीजनोंमें बांटा । थकी होनेपर भी सेनाका उत्साह मंद नहीं था । तेमूरने रिश्वत देकर काम लेना चाहा और तोकतामिशके झंडाबंदारसे ठहरा लिया, कि युद्धके समय वह झंडेको गिरा देगा । जब अमीर अकतागको वामपक्षका सेनापति बन युद्ध छेड़नेको कहा, तो उसने तोकतामिशसे मांग की, कि हमारे संबंधीके हत्यारे अमीरको इसी वक्त मेरे हवाले किया जाय । तोकतामिशने युद्धके बाद देनेका वचन दिया, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं हुआ और अपने सारे अकताग (श्वेत-पर्वत) कबीले तथा कितने ही दूसरे आदमियोंके साथ चला गया । तेमूरके क्षुद्र-एसियापर आक्रमण करते समय यह अकताग कबीला दोबरूजामें रहता था । हालमें वह दन्यूबपार अद्रियानोपोलमें बस गया था ।

युद्ध आरंभ करनेसे पहले तेमूरने घोड़ेसे उतरकर दो रकूअ (भस्कार) नमाज पढ़ी । सेनाने “अल्लाह अकबर” और “सुल्हन” का नारा लगाया । ढोल और लोहेके झांझ बजे । इसी समय अलीके वंशज तथा शरीफोंके मुखिया सैयद बरकाने विजयकी भविष्यद्वाणी करते सिर तंगा करके हाथ उठा हुआ की । शेखुल्-इस्लाम (इस्लामके महागुरु) अहमदजानके वंशज इमाम ख्वाजा जियाउद्दीन युसुफ

और शोख इस्माईल कुरानकी आयत पढ़ रहे थे—“ओ मुसलमानो, अल्लाहके आशीर्वादको याद रखो। वही है, जो कि तुम्हारे ऊपर हथियार चलानेवाले शत्रुओंके हथियारोंको रोक देता है। अल्लाहसे डरो। विश्वासियोंको उसपर विश्वास करना चाहिये।” मुट्ठीभर कंकड़ियां लेकर दुश्मनकी ओर फेंकते हुये इमामने चिल्लाकर कहा—“उनके चेहरे काले हो जायें।” फिर तेमूरकी ओर मुंह करके इमाम बोला—“जहां चाहे जा, अल्लाह तेरी रक्षा करेगा।”

चतुर्थ सेनाके कमांडर अमीर सैफुद्दीनने सबसे पहले आक्रमण किया और शत्रुके वाम-पक्षको तोड़ दिया। तोकतामिशके आदमियोंने चारों ओर फैलकर उसे घेरना चाहा, लेकिन उन्हें रोककर पीछे ढकेल दिया गया। वामपक्ष कुछ नष्ट हो गया और कुछ पीछे हटनेके लिये मजबूर हुआ। इसके बाद दूसरे सेनापति अपनी सेना लेकर आगे बढ़े। भयंकर हत्याकांड होने लगा। तोकतामिशने तेमूरके केंद्र-दक्षिणपक्षके प्रहारको रोकना असम्भव समझकर उसके वाम-पक्षपर प्रचंड प्रहार किया। वामपक्ष टूट गया और मुख्य भागसे उसके कितने ही अंश अलग हो गये। तोकतामिशने वस्तुतः बीचसे चीरकर पीछा जा धरा। बड़ी भयंकर अवस्था थी। तेमूरने आदमियोंको विश्वास पैदा करनेके लिये अपने पोते अबूबकरको हुकुम दिया। उसने गारदके दस हजार सवारोंको ले वहां जा घोड़ेसे उतरकर कहा—“तंबू गाड़ो, आग जलाओ, खाना तैयार करो।” इसका प्रभाव तोकतामिशके ऊपर पड़ा और जब तेमूरकी रिश्वतके कारण उसके झंडाबरदारने झंडेको नीचा कर दिया, तो उसकी रही-सही हिम्मत भी टूट गई। वह पीछे हटकर गुरजी या लिधुवानियाके राजा वितुत (विथोल्द) के पास भागा। युद्ध तीन दिनतक होता रहा, जिसमें एक लाख कियूचक मारे गये। तेमूरको भारी परिमाणमें रसद और दूसरी चीजें मिलीं।

युद्ध-क्षेत्रमें ही डेरा डलवा विजयके लिये अल्लाहको धन्यवाद देते तेमूरने सेनामें इनाम बांटे और हर दस आदमीसे सातको शत्रुका पीछा करनेका हुकुम दिया। वह बोल्गातक गये, जिसमें कतलसे बच गये शत्रुओंसे कितने ही डूब गये और थोड़ेसे ही प्राण बचाकर निकल पाये; जिनके भी बीबी-बच्चे, गुलाम और धन-संपत्ति तेमूरी सेनाके हाथ लगे। तोकतामिशका रनिवास भी पकड़ा गया। नेमूरी-सेनाने अजक (त्रिमिया), सेराय, सेरायचुक, हाजीतरखन (अस्त्राखान) तक लूट-मार और ध्वंसनीला मचाई। सुवर्ण-ओर्दूके लिये यह इतना जंबदस्त प्रहार था, कि उसके बाद वह फिर अपनी पुरानी स्थिति में नहीं पहुंच सका। उसकी जनसंख्या बहुत कम हो गई, बोल्गात उजाड़ हो गया और शताब्दियोंके परिश्रमसे बनी वहांकी समृद्धि खतम हो गई। तेमूरने उरतुपा (स्तावरोपोल) जिलेके कंदुरताके नजदीक अपना शिविर गाड़ा। योद्धाओंने यहां विश्राम किया। उनके साथ घोड़ों, अंटों, ढोरों, भेड़ों और तरुण दास-दासियोंकी भारी संख्या थी। रूप-रंगमें अत्यंत सुन्दर पांच हजार तरुण-तरुणियां तेमूरकी सेवामें गईं। लूटका माल इतना मिला कि सारी सेना संतुष्ट हो गई। उरतुपामें छब्बीस दिन रहकर तेमूरने विजयोत्सव मनाया। यहींपर लघुविजय (फतेहनामा-कुचुक) लिखा गया।

इसके बाद तेमूर समरकंदकी ओर लौटा। अक्तूबरमें वह सावरानमें था, फिर उतरार होत राजधानी समरकंद पहुंचा।

यागलानके लिये उद्गुर अक्षर तथा मंगोल भाषा में २० मई १३६३ ई० की लिखी हुई तोकतामिशकी थारलिक (शासनपत्र) मास्कोमें अब भी मौजूद है, जिससे मालूम होता है, कि १३६१ ई० की भारी पराजयके बाद फिर वह अपनेको संभालने लगा था और तीन-चार वर्षोंमें इतना संभल गया, कि तेमूरको फिर उसकी तरफ ध्यान देना पड़ा।

द्वितीय अभियान (१३९५ ई०)—२८ फरवरी १३९५ ई० को फिर तेमूरने तोकतामिशके विरुद्ध प्रस्थान किया। उसके अन्तःपुरकी कुछ रानियां सुलतानियां (ईरान) भेज दी गईं और कुछ समरकंदमें रखी गईं। शम्शुद्दीन अलमालिगीको दूत भेज तेमूरने तोकतामिशको समझाने-बुझानेकी कोशिश की, लेकिन उसका उत्तर बड़ा उद्धततापूर्ण था। दूत लौटकर काकेशसके सानुओपर कास्पियन-

समुद्रसे पांच फरसख (लीग) दूर अपने स्वामीसे आकर मिला । उस वक्त वाम-पक्ष समुद्र-तटसे पहाड़के ऊपरतक बिखरा पड़ा था । अबकी तेमूरी सेनाने काकेशसके चरणोंमें कास्पियनके पश्चिमी किनारेका रास्ता लिया था । सेनाको दरबंदके दुर्गम घाटीको पार करनेमें दिक्कत नहीं हुई । तोकतामिशकी प्रजा काइतकने छेड़खानी की, जिन्हें तेमूरने भयंकर हत्या करके खतम कर दिया, उनके गांवोंको नष्ट कर दिया । सेना आगे बढ़ती चली । तोकतामिश तरेक नदीके किनारे मुकाबिलेकी प्रतीक्षामें बैठा हुआ था, लेकिन तेमूरी सेनाको देखते ही वहांसे भाग चला । पहिले कुरापर और तरेकपर तेमूर तथा तोकतामिश एकत्रित हुये थे । २२ अप्रैल १३६५ ई० को दोनोंमें युद्ध हुआ । शत्रुके सेनापतियोंके आगे बढ़नेकी खबर पाकर तेमूरने अपनी सत्ताईस सेनाओंके साथ आक्रमण कर शत्रुको पीछे हटा दिया । पीछा करते हुये उसके आदमी अधिक दूरतक चले गये, जिसके कारण तोकतामिशकी सेनाने मुड़कर जब हमला किया, तो उन्हें तितर-बितर होकर पीछे भागना पड़ा । यह खबर सुनकर शत्रुने और भी पीछा किया । तेमूर उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगा । उसका तरकश खाली हो गया । तलवार और भाला भी टूट गये । इसी समय तोकतामिशके सैनिकोंने उसे घेर लिया । इस समय शेख नूहदीन और उसके पचास बहादुरोंने घोड़ेसे उतरकर बाणवर्षा करके तेमूरको आड़ दिया । दूसरे अमीर भी दुश्मनकी तीन गाड़ियोंको पकड़नेमें सफल हुये, जिनकी मददसे उन्होंने मोर्चा-बंदी कर दी । सेना आसपास जमा होने लगी, बाजे बजने लगे । शत्रुने समझ लिया, कि उसका प्रधान शिकार कहां है, किन्तु वह इस मोर्चाबन्दीको नहीं तोड़ सका । इसी समय शत्रुकेदक्षिणपक्षको तेमूरी सेनाने ध्वस्त कर दिया । तो भी तेमूरके वामपक्षकी स्थिति अच्छी नहीं थी । शत्रुने उसे तोड़कर चारों ओरसे घेर लिया था । अपने कमांडरके हुकुमपर सैनिक घोड़ेसे उतर अपनी-अपनी ढालोंके नीचे घुटने समेटकर बैठ गये । चारों ओरसे वर्षाकी बूंदोंकी तरह हथियारोंके प्रहार होने लगे । इसी समय जहानशाह बहादुर अपने घोड़सवारोंको लेकर दौड़ा, और प्रहार करनेवाली शत्रुसेनाके दोनों पक्षोंपर टूट पड़ा । पलड़ा पलट गया । वह और उसके साथी दूसरे सेनापतिने मिलकर शत्रुके वामपक्षको मार भगाया । फिर केंद्रके साथ संघर्ष आरंभ हुआ । कपचक सेनापति यागलिबीने तेमूरी सेनापति उसमान बहादुरको द्वंद्वयुद्धके लिये ललकारा । दोनों मैदानमें उतरे । उनके अनुयायियोंने भी अपने सेनापतियोंका अनुकरण किया । यागलि बी शायद पोलराजा यागेलोन था । संघर्ष भयंकर हुआ, किंतु अंतमें कपचक सेनाको हारना पड़ा । तोकतामिश ओगलानो (राजकुमारों) और नोयनों (अमीरों) के साथ भागा । तेमूरी सेनाने उसका पीछा करके भारी संख्यामें कपचकोंको तलवारके घाट उतारा । जो बंदी हाथमें आये, उन्हें भी पीछे प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा । इस विजयसे प्रसन्न हो तेमूरने सिर नंगा करके घुटने टेक अल्लाहके सामने दुआ पढ़ी । अमीरोंने तेमूरके ऊपर रत्नोंकी बरसा की । तेमूरने लूटके माल और अपने पासके धनमेंसे भी सैनिकोंमें खूब उदारतापूर्वक इनाम बांटा ।

तोकतामिशका पीछा करते हुये वोल्गाके किनारे-किनारे तेमूर उकाकतक गया और वोल्गाके तूरातू घाटपर थोड़ी देर ठहरा । उसने उरुस खानके पुत्र तथा अपने शरणागत कोइरिअक ओगलान को सुनहली खलअत और कीमती कमरबंद प्रदान करके उज्वेक रिसालेके साथ कपचकोंका खान बनाया । तोकतामिश वोल्गारोंके जंगलोंमें भागा । पहले ही अभियानवाले घाटसे वोल्गा-पार हो तेमूर सोने, चांदी, समूर और दूसरे बहुमूल्य मृगछालों, रत्न-मणि, मोतीकी अपार राशि तथा भारी संख्यामें सुन्दर लड़के-लड़कियोंको लिये दूनियेपरकी ओर चला । उसके किनारे मङ्किरमान स्थानमें जाकर बरकियारोक ओगलानके डेरेपर जा पड़ा और उसे बिल्कुल नष्ट कर दिया । बरकियारोक मुश्किलसे जान बचाकर भागा । पीछा करते तेमूरी सेनाने दोनके तटपर उसके रनिवासको जा पकड़, लेकिन बरकियारोक भाग निकला । तेमूरने ओगलानके रनिवासके साथ अच्छा बर्ताव किया, और घोड़े तथा दूसरी भेंटें दे उसे बरकियारोकके पास भेज दिया । मीरांशाह अपनी सेना लेकर दूसरी ओर गया हुआ था । उसने एलातज किलेको सर किया । मास्कोका तरुण महाराजुल वासिली अपने चचा व्लादिमिरको राजधानी सौंप ओका नदीके पीछे कलोम्नाकी ओर भाग गया । वहांसे उसने महासंघराजको लिखा, कि कुमारी (मरियम) देवीकी प्राचीन मूर्तिको मास्को ले जाओ, जिसमें देवीके प्रतापसे नगरकी रक्षा हो ।

भक्तोंकी दो पातियोंके बीचमें मूर्ति लाई गई। लोग चिल्ला रहे थे—“भगवान्की मां, रूसको बचाओ।” मास्कोके एसम्पसन गिर्जेमें कुमारीका बड़ा स्वागत किया गया। तेमूर दोनसे कुछ दूर आगे बढ़कर लौट गया। भगवान्की माने मास्कोको बचा लिया, नहीं तो तेमूरने उसकी वही दशा की होती, जो कि उसने चार वर्ष बाद १३६८-६९ ई० में दिल्लीकी की। तेमूरने कुमारीके प्रतापसे नहीं, बल्कि शरद् और हेमन्तके कठोर जाड़ेके भयसे वहां और रहना पसंद नहीं किया। वह दक्षिणमें चलकर अजक (त्रिमिया) पहुंचा। लोगोंकी सारी प्रार्थना व्यर्थ गई। उसने मुसलमानोंको अलग करके बाकी लोगोंको एक ओरसे कटवा दिया और शहरमें आग लगा दी। फिर कूबान और जार्जियामें सत्यानाश मचाने आगे बढ़ा। काकेशसके युद्धको उसने धर्मयुद्ध (जहाद) घोषित किया था। भारतकी भांति ही उसने इस देशको भी काफिरोंको मिटाकर शूद्र करना चाहा। उनकी बस्तियोंको तेमूरी सेनाने जला दिया, उनके गिर्जे और मूर्तियोंको नष्ट कर दिया। हाजीतरखन (अस्त्राखान) नगरमें विश्वासघातकी खबर पा जाइंगें तेमूर वहां पहुंचा। लोगोंने वोल्गाके पानीकी बर्फ जमाकर शहरके चारों ओर प्राकार बना दरवाजे काट रखे थे, लेकिन तेमूरके सामने बर्फका मोटा दुर्ग नहीं टहर सका। भीतर घुस मनुष्यों, पशुओं और संपत्तिका हटानेका हुकुम दे उसने नगरमें आग लगा दी। वहां से तेमूर क्पचकोंकी राजधानी सराय-वेरेकमें पहुंचा। वहां भी नागरिकोंको भेड़ोंकी तरह जबह करके शहरमें आग लगा दी।

इस प्रकार क्पचक देशको पूरी तौरसे बरबाद करके तेमूर दरबंद और आजुरवाद्जानके रास्ते लौटा। वह अपने साथ बहुतसे क्पचकोंको भी ले आया था, जिनमें वोल्गाकी पामवाके वोल्गातटके निवासी कराकल्पक (काली टोपी) भी थे, जिनकी संतानें आज अराल-समुद्रके पास कराकल्पकियों के स्वायत्त-नागराज्यमें बसी हुई हैं।

इसके बाद तेमूर बहुत नहीं जिया, और १३६९ ई० में मर गया। इसका वर्णन हम यथास्थान करेंगे।

तेमूरके लौट जानेपर तोकतामिश फिर १३६८ ई० में सरायवेरेक पहुंचा, लेकिन तेमूर कुतुलुकने तबतक उसे संभाल लिया था। कुतुलुकने तोकतामिशको मार भगाया। वहांसे अपनी बीबी, दो पुत्रों, खजाने और बहुतसे अनुयायियोंके साथ भागकर वह कियेफ गया। सुवर्ण-ओर्दूका वह अंतिम महान् शासक था। जिस तरह उसके वैभवका सितारा चमका, उसी तरह वह अस्त भी हो गया।

१३. कोइरिअक ओगलान नूजी, ओगलान, उरुस-पुत्र (१३९६ ?)

नूजी भागकर उस समय तेमूर-लंगके दरबारमें रहता था, जबकि तेमूरने क्पचकोंपर द्वितीय अभियान किया। एक इतिहासकारके अनुसार तोकतामिशकी पराजयके बाद तेमूरने उसे जू-झिका उलुस ७७७ हि० (२ जून १३७५-२० मई १३७६ ई०) में दे दिया, लेकिन इस सन्में गलती मालूम होती है, क्योंकि तेमूरका दूसरा अभियान १३९५ ई० में और पहला अभियान १३९० ई० में हुआ था।

१४. तेमूर कुतुलुक, तेमूरबेक-पुत्र (१३९५-१४०० ई०)

तेमूर-लंगके सबसे पहले आक्रमणके समय ७८९ हि०, (१० जून १३७७ ई०-२९ जून १३७८ ई०) यह तेमूर-लंगके साथ था और तोकतामिशकी प्रथम पराजय होनेके बाद ७९३ हि० (९ दिसम्बर १३९० ई०-२८ नवम्बर) में तेमूरने इसे उसके उलुसका खान बनाया। द्वितीय अभियानमें तेमूरके क्पचकसे हटते ही तोकतामिशसे इसका संघर्ष हुआ। तोगाई सरदार इदिकू कुतुलुकके पक्षमें था। वह तोकतामिशको तो मार भगानेमें सफल हुआ, लेकिन उसके पूर्वी भागपर कोइरिअक उरुस-पुत्रका अधिकार बना रहा। १३९७ ई० में लिथुवानी राजा बितुतने तेमूर कुतुलुकके ऊपर आक्रमण किया और कई हजार तारतारोंको उनके स्त्री-बच्चोंके साथ पकड़ ले गया। ये तारतार पीछे बोलना और त्रोकके बीचमें बस गये। ईसाइयोंके बीचमें इस्लामकी कायम रखना उनके लिये मुश्किल था, इसलिये वह दूसरी पड़ोसी जातियोंमें मिश्रित होकर ईसाई बन गये, और केवल तारतार उनका नामभर रह गया। तेमूर कुतुलुकने बड़ी जल्दी फिर अपनी शक्तिको इतनी मजबूत कर ली, कि उसने बितुतने

भांग की, कि अपने राज्यके कियेफ नगरमें भागे तोकतामिशको मेरे पास भेज दो। बितूतके इन्कार करनेपर उसने आक्रमण कर दिया और ५ अगस्त १३९९ ई० को लिथुवानी और कियेफ सेनाओं में भारी लड़ाई हुई। बितूतको अपने बारूदी हथियारोंपर बहुत भरोसा था, जिनका आविष्कार मंगोलोंके बारूदी हथियारोंके सहारे हालमें ही युरोपमें किया गया था। लेकिन उस समयकी तोपें अभी बहुत आरंभिक अवस्थामें थीं, दागनेसे पैदा हुई गर्मीको उनकी धातु बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुतुलुककी सेनाने पीछे जाकर लिथुवानी पंक्तिको तोड़ दिया। लेकिन, तोकतामिश वहांसे निकल चुका था, बितूतको भी जान लेकर भागना पड़ा। लिथुवानी सेना नष्ट हो गई। कियेफकोने भगोड़ोंका पीछा कर कितनों हीको मारा और कितनोंको बंदी बनाया। तारतारोंने लुत्स्कतक लिथुवानी राज्यको लूटा। उन्होंने कियेफ नगरपर भारी जूरमाना लगाया। इसके बाद सात सालतक और तोकतामिश इधर-उधर भटकता फिरा। अन्तमें वह पश्चिमी साइबेरियाके तुमान-जिलेमें शादीबेकके हुयुमसे इदिकूके हाथों मारा गया।

कुतुलुक ८०२ हि० (३ सितंबर १३९९ ई०-१२ अगस्त १४०० ई०) में वोल्गाके किनारे कजान नगरमें मरा।

१५. शादीबेक, तेमूरबेक-पुत्र (१४००-१४०८ ई०)

कियेफकोका पूर्वी भाग अब भी कोइरिअकके हाथमें था। उसके पश्चिमी भागपर शादीबेक शासन करने लगा। बीचमें हुई गड़बड़ीके कारण शोख होकर मास्कोके महाराजुल वासिलीने कई सालोंसे कर नहीं भेजा था। १४०५ ई० में कर उगाहनेके लिये खानका दूत मास्को पहुंचा। तेमूर कुतुलुकने लिथुवानी राजाको पाठ पढ़ाकर अपनी काफी धाक जमा ली थी, इसलिये महाराजुलने दूतकी भी भेंट-पूजा की और कर भी बेबाक कर दिया। ८०८ हि० (२३ दिसंबर १४०५-२१ जनवरी १४०६ ई०) में शादीबेक का अमीर इदिकू ख्वारेज्मको तेमूरियोंसे छीन अमीर अंकाको वहांका राज्यपाल बना लौट गया। शायद इसी साल ईद-रमजानके दिन इराकियोंकी एक बड़ी जमात तेमूरी मिर्जा खलील सुल्तानसे नाराज हो गई और समरकंद छोड़कर ख्वारेज्म चली गई। तुगा तेमूरखानके पौत्र दुकमान बादशाहके पुत्र पीरबाद-शाह तेमूरी सुल्तान अबूसईदके डरसे भागकर माजन्दरान (ईरान) में भाग गया था। वह वहांसे ख्वारेज्ममें आ गया, जब उसने देखा कि वह तेमूरियोंके हाथसे निकल गया है। इपीर बादशाहको इराकियोंने ख्वारेज्मका बादशाह बनाया और मिर्जा खलीलके दिये हुये धनको उसे भेंट दे वह माजन्दरान चले गये। ख्वारेज्मका हाकिम अब भी अंका था।

शादीबेक ८११ हि० (२७ मई १४०८-१५ मई १४०९ ई०) में मर गया।

१६. पूलाद खान, तेमूरबेक-पुत्र (१४०८-१४१० ई०)

भाईकी जगहपर पूलाद गद्दीपर बैठा और अमीर इदिकू सारी सल्तनतका वजीर-आज़म बना। उसने अंकाको लौटा उसकी जगह बगजलेको ख्वारेज्मका राज्यपाल बनाया।

पश्चिमी राजा कहीं खानोंकी शक्तिको कमजोर न समझ लें, इसलिये १४०९ ई०की शरदमें तारतारोंने दक्षिणसे दूनियेपरकी ओर बढ़ते लिथुवानियापर आक्रमण किया। मास्कोके महाराजुलने कर बाकी रक्खा था और ऊपरसे तोकतामिशके पुत्रको भी शरण दी थी। पूलादने इस अपराधके लिये दंड देनेके वास्ते एक बड़ी सेना मास्कोके विरुद्ध भेजी। महाराजुल वासिली केवल तोपों और जाड़ेपर भरोसा कर सकता था, इसलिये रानीको लेकर वह कस्त्रोमा भाग गया। दिसंबर १४१० को तारतार सेना मास्कोके सामने पहुंची। तीस हजार सेना महाराजुलके पीछे पड़ी, और उसने पेरियेस्लाव्ल, जालेस्की, रोस्तोफ, दिमित्रोफ, सेरपूकोफ, निज़नी-नवोग्राद और गोरदेत्स नगरोंको लूटकर जला दिया। एक बार फिर रूसियोंको बा-तू और तोकतामिशके दिन याद आने लगे। रूसी इतिहासकार करमाजिनके अनुसार-“अभागे रूसी प्रतिरोध करनेकी जगह भेड़ोंके झुंडकी तरह भेड़ियोंद्वारा पीछा किये जा रहे थे।” उनमेंसे कुछ कतल किये गये, कुछ तारतार धनुर्धारियोंके बाणोंसे बिधे। तरुण दास बनाने-बैचने के लिये पकड़

लिये गये, सयान कपड़े छीनकर नंगे करके जाड़ेमें मरने के लिये छोड़ दिये गये। आदमियोंको एक दूसरेके साथ जंजीरोंमें बांध दिया गया और एक तारतार चालीससे अधिक आदमियोंको कायूमें रख सकता था। लेकिन, मास्कोका मुहासिरा सफल नहीं रहा। दूसरा चारा न देखकर इदिकू तीन हजार रूबल जुरमाना लेकर लौट गया। लौटते वक्त उसने रयाजन नगरको लूटा। इदिकूने इसी समय महाराजुलको पत्रमें लिखा था:—

“इदिकू, राजुल-पुत्रों और राजकुमारोंसे सलाह लेनेके बाद वासिलीको अभिनंदन भेजता है। यह मालूम करके, कि तुमने तोकतामिशके पुत्रोंको शरण दी है, महान् खानने मुझे आज्ञा दी, कि तुम्हारे विरुद्ध चढ़ाई करूं। तुम हमारे व्यापारियोंके साथ ही दुर्व्यवहार नहीं करते, बल्कि तुमने हमारे दूतोंका भी बड़ा अपमान किया है। अपने बूढ़े आदमियोंसे पूछो, कि क्या पहले कभी ऐसा होता था। उम समय रूम अपनी राजभक्ति के लिये मशहूर था। वह खानका पवित्र सम्मान करता था और नियमपूर्वक कर अदा करता था। हमारे व्यापारियों और दूसरोंके प्रति सम्मान प्रदर्शित करता था। इसकी जगह तुमने क्या किया? जब तेमूर कुतुलुक सिंहासनपर बैठा, तो क्या तुम स्वयं आय या तुमने अपने राजकुमारों या अपने एक बायरको भी भेजा? तेमूरके मरनेके बाद शादीबेकके आठ वर्षोंके शासनकाल में क्या तुमने एक बार भी आज्ञाकारिताका कोई भी काम किया? और अंतमें पूलाद खानके तीन वर्षोंके सिंहासनपर बैठनेके कालमें क्या तुम या जेठे रूसी राजपुत्रोंमेंसे कोई अपने कर्तव्यको पालन करनेके लिये ओर्दूमें गया? तुम्हारे सारे काम अपराधपूर्ण हुये। जब फेदोर कोसका जीता था, तो सारे रूपी उसकी सलाह मानकर अच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन तुम अब उसके पुत्र जानकी बात नहीं मानते, जो कि तुम्हारा कोषाध्यक्ष और मित्र है। तुम बड़ोंकी सलाह माननेसे इन्कार करते हो, जिसका परिणाम देव ही रहे हो, तुम्हारे देशकी बरबादी हो रही है। अगर तुम इससे बचना चाहते हो, तो अपने सत्रमे बुद्धिमान् बायरों—इलिया, पीतर, जान निकितिच आदिकी बात मानो और अपने किसी बड़े अमीरके साथ वह भेंट भेजो, जिसे रूस जानीबेकके पास भेजा करता था। रूसी लोगोंकी गरीबीकी बातें बताकर तुमने जो खानको बहलाना चाहा है, वह सब झूठ है। हम तुम्हारे देशके कोने-कोनेको देख चुके हैं। हम जानते हैं कि हर दो हलके ऊपर तुम्हें एक रूबल कर मिलता है। यह पैसा कहां जाता है? हम तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहते। तुम क्यों एक अभाग भगोड़ेकी तरह काम कर रहे हो? सोचो और अकलकी बात मानो।”

लेकिन महाराजुलके ऊपर इदिकूके उपदेशका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह कियचकांकी भीतरी हालतको अच्छी तरह जानता था।

८१३ हि० (६ मई १४१०—२४ अप्रैल १४११ ई०) में पूलाद खानको तेमूर खानने मार भगाया।

१७. तेमूर खान, तेमूर कुतुलुक-पुत्र (१४१०-१४११ ई०)

इतिहासकार अब्दुर्रजाक समरकंदी (१४२२ ई०) के अनुसार * यह तेमूर कुतुलुक खानका पुत्र था, लेकिन गफफारीने इसे शादीबेकका पुत्र कहा है। शायद यह तेमूर कुतुलुकका ही पुत्र था। पूलाद खानके वक्त राज्यका हर्ता-कर्ता अमीर इदिकू था, इसलिये उसको दबाये बिना तेमूर अपनेका सुरक्षित नहीं समझता था। इदिकू भागकर ख्वारेज्म जा तैयारी करने लगा। तेमूरने अजक बहादुर और गजनके नेतृत्वमें सेना भेजी। ख्वारेज्म-शहर (उरगंज) से दस दिनके रास्तेपर साम नामक स्थानमें लड़ाई हुई। ख्वारेज्मका राज्यपाल बगजले मारा गया और इदिकू हारकर ख्वारेज्म भाग गया—यह शायद ८१४ हि० (२५ अप्रैल १४११—अप्रैल १४११ ई०) के आरंभकी बात है। तेमूरके सेनापति दकिना और गजन भी पीछा करते हुये ख्वारेज्म पहुंचे। उन्होंने ६ महीना इदिकूको मुहासिरमें रखा। इसी समय पता लगा, कि तोकतामिश-पुत्र जलालुद्दीनने तेमूरको हराकर गद्दी छीन ली।

* “मतल-उस्-सादैन-व-मज्म-उल्-बहरैन्”

१८. जलालुद्दीन, जलाबेर्दी, सेलेनी, तोकतामिशका ज्येष्ठ पुत्र (१४१४ ई०)

जलालुद्दीनने गद्दी संभालते ही ख्वारेज्ममें लड़ते किपचक सेनापतिके पास पैगाम भेजा, कि इदिकू हमारा दुश्मन है, उसे पकड़ लाओ। फिर उसने दूसरा संदेश भेजा, कि अगर इदिकू अपने पुत्र सुल्तान महमूद तथा उसकी पत्नी (जो कि जलालकी बहन भी थी) को मेरे पास भेज दे और सिक्का तथा खुतवा मेरे नामसे जारी करे, तो उससे लड़ाई मत करो। अमीर गजन भी जलालुद्दीनका बहनोई था। उसने सुलह करनी चाही। उधर दकिना तेमूर खानका बहनोई था, इसलिये उसने दूसरे संदेशकी ओर ध्यान नहीं दिया। इसी समय तेमूरखानके फिर लौट आनेकी खबर मिली। गजनने दकिनाको शराब पिला मतवाला कर अपने नौकर जान ख्वाजाको भेज तेमूरको मरवा दिया। यह खबर सुनकर जलालुद्दीनने अमीर गजनको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुये संदेश भेजा, कि गजन खां मेरा अमीर है, उसका हुकुम मानो। अमीर दकिनाने तेमूरके लिये लोगोंको बहकाया। लेकिन ख्वारेज्मका मुहासिरा और जोरका हुआ। अमीर खिजिर ओगलान राजकुमार होनेसे दर्जेमें सबसे बड़ा था। उसके बाद दकिना फिर गजनका दर्जा था। किपचक सेनापतियोंने अमीर इदिकूसे सुलह कर लेना ही अच्छा समझा, क्योंकि जलालुद्दीन खानकी वैसी ही आज्ञा थी। अमीर इदिकू सुलह करनेके बाद शहरसे बाहर निकल आया। खूब एक दूसरे की जियाफतें होने लगीं। सेनापति मुहासिरा हटाकर किपचक भूमिकी ओर लौटे जा रहे थे। इसी समय बलूकिया गांवमें उनकी कजुलई बहादुरसे मुलाकत हुई। उसने बिना सर किये ही लौटनेकी बात लेकर ताना मारा—“ख्वारेज्मको दखल किये बिना कैसे लौटे जा रहे हो?” अमीरोंने कहा—“हमने सात महीना मुहासिरा करके युद्ध किया, लेकिन शहर सर नहीं कर सके, तेरे पास तो चार हजारसे बेसी मर्द भी नहीं है। लौटनेकी सलाह हुई। हमने सुलह कर ली। इदिकू अपने पुत्रको खानके पास (जामिन) भेजेगा।”

कजुलईने उत्तर दिया—“मैं अकेला ही इदिकूके लिये काफी हूँ” और वह गर्बके साथ ख्वारेज्मकी ओर चल पड़ा। अमीर इदिकूको भी खबर लग गई। सेना कम होनेसे वह चालसे काम लेना चाहता था। वह दिनमें छिपा रहता और केवल रातको सफर करता। नजदीक आनेपर इदिकूने अपनी सेनाको दो भागोंमें बांटकर एक भागसे कहा, कि तुम थोड़ा लड़ करके पीछे हटो और रास्तेमें पुराने नम्दोंके बंधे बोगचोंको फेंकते आओ। युक्ति काम कर गई। कजुलईकी सेना बोगचोंको बटोरनेके लिये बिखर गई, इसी समय इदिकू टूट पड़ा। कजुलई मारा गया। इदिकूने उसके सिरको झंडे-पताके आदिके साथ ख्वारेज्म भेजा। कजुलईके भगे हुये आदमियोंने जब अपने सेनापतिके झंडेको चलते देखा, तो समझा कि वह विजय-यात्रा करते हुये ख्वारेज्म जा रहा है, तो वह छिपी जगहोंसे आकर वहां पहुंचे और इदिकूके जालमें हजारों आदमी फंस गये।

इतिहासकार गफ्फारी (मृत्यु १५७६ ई०) के अनुसार * “जलालुद्दीन और करीमबर्दी कपक जब्बारबर्दी, मोहम्मदखान और दूसरे राजकुमारों जैसोंने कुछ समयतक हकूमत की।” इस तरह अब किपचककी राजावली जल्दी-जल्दी बदलते खानोंके कारण गड़बड़ीमें पड़ गई। कुछको छोड़कर यह कहना मुश्किल है, कि कौन खान किसके बाद गद्दीपर बैठा।

१९. करीमबर्दी तोकतामिश-पुत्र (१४१४ ई०)

करीमबर्दी कुछ दिनोंतक गद्दीपर रहा। शायद इसे जब्बारबर्दीने मार डाला, जिसका भी शासन थोड़े ही दिनोंतक रहा।

२०. चिङ्ग-गिज ओगलान (१४१४ ई०)

समरकंदीके अनुसार चिङ्ग-गिज ओगलानको जब्बारबर्दीने हराकर स्वयं गद्दी संभाली।

* “नस्ख-जहानारा”।

२१. जब्बारबर्दी तोकतामिश-पुत्र (१४१७ ई०)

इसीके समय ८१५ हि० (१३ अप्रैल १४१२-२ अप्रैल १४१५ ई०) में तेमूर-लंगके पुत्र शाहखान ने ख्वारेज्मके ऊपर सेना भेजी, जिसमें खुरासानके अमीर अली, और अमीर इलियासखोजा दोनों सेनापति थे। अन्तर्वेदसे भी पांच हजारकी सवार सेना ले सेनापति मूसा आया। दोनों सेनायें ख्वारेज्ममें आकर मिल गईं। इस समय इदिकूका पुत्र मुबारकशाह ख्वारेज्मका राज्यपाल था, जिसने सेनाकी खबर पाकर डरके मारे बापके पास भाग जाना पसन्द किया। मुल्लाओं और नगरके बड़े-बड़े लोगोंने नगरको शाहखानकी सेनाके हाथमें समर्पण कर दिया। दूसरे सेनापति लौट गये, अमीर शाह-मुल्क कुछ समयतक देशके सुप्रबन्धके लिये ठहरकर ८१४ हि० (३ अप्रैल १४१३-२२ मार्च १४१४ ई०) को राजधानी हिरात चला गया।

२२. दविस खान

शायद यह उरुसखान-वंशज था। इसने थोड़े ही दिनों राज किया।

२३. चकरा खान (१४१६ ई०)

यह उरुस खानका वंशज था। यह कुछ समयतक तेमूर-पुत्र मीरांशाह और पौत्र अबूबकरके दरबारमें रहा था। अमीर इदिकूने इसे किपचक बुलाया। अबूबकरने ६ हजार सवार साथ कर दिये, जिनके साथ सिल्ट बरगर नामक एक युरोपीय सैनिक भी था। गुरजी, शेरवान, दरबंद, अस्त्राखान होते यह सेना सेतजुलैत सराय (?) पहुंची। वहां कितने ही ईसाई रहते थे, जिनका एक विशप भी था। सिल्ट बरगर ने लिखा है, कि वहांके पादरी लैटिन जानते थे, लेकिन प्रार्थना और गीत तारतार भाषामें करते थे। इदिकूके साथ चकरे और सिल्ट बरगर भी इपबिस (सिबिर) की ओर गये—यहीं साइबेरिया नाम का सबसे पुराना उल्लेख मिलता है। सिल्ट बरगरका कहना था, कि साइबेरियामें तीस दिन लंबा एक पहाड़ है (शायद उसका अभिप्राय उराल पर्वतसे है)। उसके आगे निर्जन भूमि पृथिवीके छोरतक चली गई है। इस पहाड़के निवासी जंगली तथा दूसरोंसे भिन्न हैं। केवल उनके हाथ और चेहरोंपर केश नहीं होते, नहीं तो सारा शरीरकेशोंसे ढंका होता है। वह पहाड़ोंमें जानवरोंका शिकार करते हैं और पत्ता तथा घास जो भी मिलता है, उसीपर गुजारा करते हैं। इलाकेंके शासकने इस जंगली जातिकी एक स्त्री, एक पुरुष एवं गदहेसे-बड़े-नहीं एक जंगली घोड़े तथा दूसरे जानवर इदिकूके पास भेजे थे। मार्कोपोलोकी तरह सिल्ट बरगरने लिखा है, कि वहां कुत्ते हैं, जो गाड़ी खींचते हैं। इन गाड़ियोंमें समूरी छाले भरे रहते हैं। ये कुत्ते गदहोंके बराबर होते हैं और जंगली लोग इन्हें खाते भी हैं। निवासियोंको उगिने (उगरी) कहा जाता है। जब उनमें कोई अविवाहित तरुण मर जाता है, तो उसे बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं, भोज करते हैं, फिर लाशको अर्धीपर रखकर ऊपर सुन्दर चंदवा टांगकर जलूस निकालते हैं। आगे-आगे तरुण-जन सुन्दर पोशाक पहने चलते हैं, पीछे-पीछे मां-बाप और दूसरे संबंधी रोते हुये अनुगमन करते हैं। खाने-पीनेकी चीजोंको कब्र पर ले जा वहीं श्राद्ध-भोज करते हैं। चारों ओर बैठे तरुण खाते-पीते हैं, और संबंधी रोते रहते हैं। उस भूमिके आदमी रोटी नहीं खाते, मटर छोड़कर वहां कोई अनाज नहीं होता।

चकरा नौ मास ही गद्दीपर रहा, फिर उलुक मोहम्मदने आक्रमण करके उसे भगा इदिकूको भी बंदी बना लिया।

२४. किवेक, कपक, तोकतामिश-पुत्र (१४२२ ई०)

उलुक मोहम्मद स्वयं गद्दीपर न बैठकर दूसरोंको राजा बनाता रहा, इसीसे किवेकको भी पश्चिमी किपचककी गद्दीपर बैठनेका मौका मिला। इसी समय अपने पिता कोइरियकके मरनेपर बोरक पूर्वी किपचक-सिंहासनपर बैठा। १४२२ ई० में उसने किवेकको हराया, लेकिन दूसरे साल नई सेना एकत्रित कर किवेक फिर लड़नेके लिये लौटा।

२५. उलुक मोहम्मद खान

यह तूका-तेमूर-परिवारका और उरुसखानियोंका विरोधी था। इसीने बोरकखानको हराया।

२६. सैयद अहमद खान

शायद यह उलुक मोहम्मदके बाद गद्दीपर बैठा। बच्चा ही था, जबकि अमीरोंने इसे खान बनाया, जिस पदपर वह सिर्फ पैंतालीस दिन रहा।

१७-मार्च १४१६ ई० को मुगीसुद्दीन उलुगबेक (शाहख-पुत्र) का डेरा खोजन्द नदी (सिरदरिया) के तटपर शाहखिया नगरके सामने था। इसी समय ख्वारेज्मसे खबर मिली, कि जब्बारबर्दीने चिङ्ग-गिज ओगलानको भगा उज्बेक—उलुसको अपने हाथमें कर लिया है। मिर्जा उलुगबेक सिर-दरिया (सेहून) पर पुल बनवा सफर महीने (३१ मार्च—२८ अप्रैल १४१६ ई०) के अन्तमें समरकंद पहुंच गया। उज्बेक-देश (दशतेकिपचक) से भागकर आये ख्वाजा लाकके पुत्रोंने प्रार्थना की, कि उज्बेक-देश बरबाद हो रहा है, उसे बचायें।

२७. मोहम्मद खान तोकतामिश-पुत्र (१४२२-१४२५ ई०)

शायद ८२२ हि० (२८ जनवरी १४१६—१६ जनवरी १४२० ई०)में (छिङ्ग-गिस् ओगलानका संबंधी) बोरक ओगलानने उज्बेक (किपचक) राज्यसे भागकर मिर्जा उलुगबेक गूरगानके पास आ “हस्तचुम्बन” का सौभाग्य प्राप्त किया। उलुगबेकने उसपर बहुत कृपा दरसाई। कुछ समय वह समरकंदमें उसके पास रहकर फिर अपने देश लौट गया। मिर्जा उलुगबेक भी ताशकंदसे आगे कूच करके बुरलकके पास पहुंचा। वहां उसे उज्बेकोंकी ओरसे भागकर आये बलखू नामक आदमी ने उज्बेक-राज्यकी बरबादीकी खबर दी, जिसका समर्थन वहांसे आये व्यापारियोंने भी किया। इससे मालूम होगा, जू-छिङ्ग-उलुस या दशतेकिपचक अब उज्बेक देश कहा जाने लगा था।

अब्दुर्रजाक समरकंदी शाहखके समय “वकाया-निगार” (घटना-लेखक) था। उसने ८२४ हि० (६ जनवरी—२५ दिसंबर १४२१ ई०) के “वकाया” (घटनाओं) को लिखते हुये बतलाया है—“सुल्तान केशजीने कराबाग (ईरान)से दशतेकिपचकमें जा मुहम्मदखानकी अधीनता स्वीकार की। खानने उसके साथ बड़ा अच्छा बरताव किया और शाहखकी सल्तनतके प्रति अपना सद्भाव प्रकट किया। सुल्तान केशजी वहांसे जीकदा महीने (२८ अक्टूबर—२६ नवम्बर) को लौटा। यद्यपि उत्तरी घुमन्तुओंमें आपसमें खूनी गृह-कलह छिड़ा हुआ था, लेकिन उसके कारण दक्षिणके ग्रामों-नगरोंके निवासी निश्चिन्त नहीं रह सकते थे।” गृह-युद्धोंके कारण भी उत्तरके घुमन्तुओंका टिड्डीदल दक्षिणकी ओर प्रस्थान कर सकता था। समरकंदीने ८८५ हि० (२६ दिसंबर १४२१—१४ दिसंबर १४२२ ई०) के “वकाया”में फिर लिखा है—“दशतेकिपचकसे उज्बेक विलायतके बादशाह मुहम्मदखानके पाससे आलमशेख ओगलान और पूलाद अपने साथ शिकारी बाज, घोड़े आदि उपहार लेकर आये। शाहखने प्रति-उपहार रूपमें उन्हें सोना, घोड़े, कुलाह, कमरबंद आदि खानके लिये तथा एलचियोंके लिये भी उचित इनाम दिये।” इससे मालूम होता है, कि मुहम्मदखान और शाहख दोनों आपसमें अच्छा संबंध बनाये रखनेकी कोशिश कर रहे थे। ८२६ हि० (२ नवम्बर १४२६—२१ अक्टूबर १४२७ ई०) के “वकाया” में लिखा है—शाहख कुछ दिनों ग्रीष्म-निवासके वास्ते वदगिस इलाकेमें गया था, इसी बीचमें शाहखका नौकर ख्वारेज्म-राज्यपाल (अमीर) ने ख्वारेज्मसे आकर निवेदन किया, कि बोरक ओगलानने मुहम्मदखानके ओर्दूको अपने हाथमें कर लिया, उज्बेक उलुसका अधिकांश बोरककी ओर हो गया। लेकिन जान पड़ता है, १४२५ ई० में भी अभी मुहम्मदखानके शासनका बिल्कुल अंत नहीं हुआ था, क्योंकि ८३० हि० (२ नवम्बर १४२६—२१ अक्टूबर १४२७ ई०) के “वकाया”में लिखा है, कि ८२८ हि० (२३ नवम्बर १४२४—१२ नवम्बर १४२५ ई०) में बोरक ओगलानने मुहम्मदखानके ओर्दूपर अधिकार कर लिया। सारा उलुस उसके अधीन हो गया।

खानोंके इस परिवर्तनसे मालूम होगा, कि अब तोकतामिशके पुत्रों और पीत्रोंका आपसमें संघर्ष चल रहा था। एकबार फिर उरुसके पौत्र बोरकने सिंहासनपर अधिकार जमाया।

बोरक खान, बुराक, कुंडजी-पुत्र (१४२५-२८ ई०)—बोरकको यह सफलता दक्षिणमें मिली थी। तोकतामिशके बाद उसकी संतानों और तेमूरकी संतानोंमें आपसमें पैतृक वैमनस्य चलता रहा। दक्षिणने उरुसखानकी संतानोंका पक्ष लिया और मिर्जा उलुगबेककी सहायतासे बोरकको सफलता मिली। लेकिन सफल धूमन्तु सरदार कभी कृतज्ञता माननेके लिये तैयार नहीं होते, यह बात किमीसे छिपी नहीं है। राजगद्दी संभालनेके बाद ही ८२६ हि० में वह मिर्जा उलुगबेककी सीमापर अवस्थित सिगनाक नगरमें आया। इससे पहले ८२३ हि० (१७ जनवरी १४२०—५ जनवरी १४२१ ई०) में वह उलुगबेकके पास शरणार्थीके तौरपर आया था और उलुगने उसे शिक्षा और सहायता देकर विलायत-उज्बेक भेजा था।

तोकतामिशकी तरह बोरक खानने दक्षिणकी ओर मुंह फेरनेसे पहले रूसकी ओर विजय-यात्रा की थी। १४२६ ई० में तारतारोंने र्याजन नगरको लूटा। तीन साल बाद कजानके तारतारोंने गालिच, कोस्त्रोमा आदि नगरोंको बरबाद किया। १४३० ई० में तारतार राजकुमार हैदर लिथुवानिया के भीतर घुस गया और उसने तीन सप्ताह मुहासिरा करनेके बाद मत्सेन्स्कोको सर किया। रूसी अग्र कर रोकनेकी हिम्मत नहीं कर सकते थे। १४३७ ई० में कुचुक (छोटे) मुहम्मदने उलुक मोहम्मद खानको मार भगाया। उलुकने रूसमें जाकर शरण ली, लेकिन कुचुकने उसे वहांसे निकलनेके लिये मजबूर किया। उलुक वुल्गारोंकी भूमिमें चला गया, वहां कजान नगरको उसने फिरसे बसाया और कजानके खान-वंशकी स्थापना की। इससे मालूम होगा कि अभी किपचकोंकी शक्ति बिल्कुल खतम नहीं हुई थी।

बोरक खानने सिगनाकमें आकर मिर्जा उलुगके पास यह कहकर एलची भेजा—“आपकी सहायता और शिक्षासे मुझे सिंहासन मिला, इसके लिये मैं बहुत-बहुत कृतज्ञ हूँ, लेकिन सिगनाक हमारे श्वेत-ओर्दू वंशकी राजधानी है, उसे हमें दे दिया जाय।” इधर वह उलुगखानसे चिकनी-चुपड़ी बातें कर रहा था और उधर उसके आदमी सिगनाक इलाकेपर हाथ सफा करनेमें लगे थे। वहाँके तेमूरी हाकिम अमीर अरसलन श्वाजा तरखनने उलुगबेकके पास खबर भेजी, कि अगलानके नौकर (अफसर) इलाकेको बरबाद कर रहे हैं, अपनेको पूरा हाकिम समझकर सरकारका मजाक उड़ा रहे हैं। उलुगबेकने भारी सेना जमा करके उधर कूच करनेका निश्चय किया, लेकिन उसके बाप शाहरुखने युद्धकी बरबादीकी बतलाते हुये उसे वैसा करने से रोकते हुये भी राजकुमार (मिर्जा) मुहम्मदकी अधीनतामें सेना दे अंतर्वेदकी ओर भेजा। जोकीने १५ फरवरी १४२७ ई० को समरकंदकी ओर प्रस्थान किया और वहाँ जाकर बड़े भाईकी सेनासे मिल गया। संयुक्त-सेनाने आगेकी ओर कूच किया। इतनी भारी सेनाको देखकर बोरक एक बार डर गया, लेकिन वह अपने पूर्वजोंकी भूमि लेने आया था, क्या मुंह लेकर पीछे लौटता? किपचक-सेना एकाएक शत्रुके ऊपर टूट पड़ी। मिर्जा उलुगबेकको अपनी संख्याका अभिमान था, लेकिन किपचकोंने उसके छत्रके छुड़ा दिये। पासा पलटने लगा। सैनिक उलुगबेकके घोड़ेकी बाग पकड़कर उसे मैदानसे बाहर लाये। सारी सेना हारकर समरकंदकी ओर भागी। उज्बेकोंके हाथमें भारी संपत्ति आई। इतनी धबराहट मच गई, कि लोग समरकंद नगरके दरवाजोंको बंद करने लगे। उन्हें बहुत समझा-बुझाकर रोका गया। बोरककी सेनाने तुर्किस्तान और अंतर्वेदके सारे इलाकोंको लूटा और बरबाद किया। यह खबर खुरासानमें शाहरुखके पास पहुंची।

इस घटनाने साबित कर दिया, कि लद्धड़ सामंतशाही चुस्त धूमंतुओंके सामने निर्बल साबित होती है। शाहरुखको अब होश आया, जब खतरा सामने दिखाई पड़ा। लेकिन, उज्बेकोंके तेमूर-वंशका स्थान लेनेमें अभी पौन सदीकी देर थी, जबकि तेमूरी शाहजादा बाबरको मध्य-एशियाई अंतर्वेद छोड़कर भारतीय अंतर्वेदका रास्ता नापना था। शाहरुखको एक बड़ी सेना लेकर समरकंद आया देख

बोरकको वहाँसे हटना पड़ा। शाह्रख इस अभियानसे ६ अक्टूबर १४२७ ई०को खुरासान लौटा। दक्षिणमें इस तरह सफल हो बोरक अपने पूर्वी पड़ोसी चगताईवंशकी उत्तरी शाखाके राज्य मुगोलिस्तान-पर जा पड़ा। ८३२ हि० (११ अक्टूबर १४२८—२६ सितंबर १४२९ ई०) में उलुगबेकने अपने बाप शाह्रखके पास हिरात खबर भेजी, कि बोरक और मुगोलिस्तानके सुल्तान महमूदमें भारी युद्ध हुआ, जिसमें सुल्तान महमूदने बोरकको कतल कर दिया।

२८. मुहम्मद सुल्तान, तेमूरखान-पुत्र, तुगलक-तेमूर-पौत्र (१४२५-३८ ई०)

बोरकके बाद मुहम्मद सुल्तान गद्दीपर बैठा। ख्वारेज्मका तेमूरियोंके हाथमें जाना किपचकोंको बहुत खटकता था, आखिर जू-छिके राज्यका आरंभ ख्वारेज्मको लेकर हुआ था। मुहम्मदने ८३४ हि० (१६ सितंबर १४३०—८ सितंबर १४३१ ई०) के अंतमें अपनी सेना ख्वारेज्मपर भेजकर वहाँ बहुत लूट-पाट मचाई, लेकिन वह उसे ले नहीं सका। मुहम्मद सुल्तानने अपनी राजधानी किममें बनाई थी।

२९. दौलत बर्दी

बोरक जिस वक्त अपने पूरबके पड़ोसियोंसे लड़ने गया था, उसी समय मुहम्मद पश्चिमी किपचकका खान बन बैठा, लेकिन जल्दी ही दौलत बरदी तोकतामिश-पुत्रने उसे हटा दिया। वह तीन दिन ही शासन करने पाया था, कि बोरक खान फिर आ गया।

३०. कादिर बर्दी

शायद यह तोकतामिशका पुत्र था, जिसे इदिकूने मारा। इदिकू भी लड़ाईमें या सिर-दरियामें डूबकर मरा।

३१. शादीबेक

गयासुद्दीन शादीबेकने भी थोड़े ही समय शासन किया। मुहम्मद सुल्तान तेमूर-खान-पुत्रके समयसे ही किपचककी राजनीतिक अवस्था इतनी अस्त-व्यस्त रही, कि राजावलीका ठीकसे पता नहीं लगता।

३२. सैयद खान, सैदक खान

इसने कुछ दिनोंतक शासन किया, फिर जानीबेकका पोता और सैयद खानका पुत्र कासिम खान गद्दीपर बैठा।

३३. कासिम खान, सैदक खान-पुत्र (१५०९-१५२३ ई०)


दशते-किपचकका खान होते ही कासिम खानको सैबक खानसे मुकाबिला करना पड़ा। ६१५ हि० (२१ अप्रैल १५०६—६ अप्रैल १५१० ई०) में सैबक खानने चढ़ाई करके कासिमको हराया। ६३० हि० (१० नवम्बर १५२३—२८ अक्टूबर १५२४ ई०) में कासिम खान मरा।

३४. अकनजर, हकनजर खान, कासिम-पुत्र (१५२३)

बापके बात अकनजरको गद्दी मिली। अब श्वेत-ओर्दूके दो टुकड़े हो गये थे, जिनमें एकका शासक अकनजर था, और दूसरेके जू-छिके-पुत्र शैबानके वंशज।

श्वेत-ओर्दू-खान-वंशवृक्ष

(.....—१२२४—१४१०.....ई०)



रूस (रूरिक-वंश)

(९११-१५९४ ई०)

अवतरणिका

मध्य-एसियाके इतिहासको स्पष्ट करनेके लिये चीन और ईरानके तत्कालीन इतिहासके साथ रूसके इतिहासका भी कुछ परिचय आवश्यक है, क्योंकि शताब्दियोंतक वह एक दूसरेको प्रभावित करते रहे हैं। ईरान जहां अपनी भाषा और संस्कृतिसे मध्य-एसियाके साथ समीपता स्थापित करता है, वहां चीन काफी समयतक उसके ऊपर सीधे राजनीतिक प्रभाव रखता रहा। रूसका प्रभाव यद्यपि आरंभमें अधीन-जातिके सिवा और रूपमें नहीं देखा जाता, किन्तु आगे वह बढ़ते-बढ़ते सबसे अधिक प्रभावशाली हो जाता है। हालकी दो शताब्दियोंमें तो मध्य-एसियामें बहुतसे परिवर्तन लाते रूस आज एक नये संसारका निर्माण कर रहा है। ऐसी स्थितिमें रूसी इतिहासपर सिंहावलोकन किये बिना हम मध्य-एसिया की कितनी ही बातोंको समझ नहीं पायेंगे।

(क) शक-सरमात

शकोंके विशाल देश (शकद्वीप)के बारेमें हम पहले कह आये हैं और यह भी बतला आये हैं, कि शक और सिथ एक ही थे। इन्हींकी कालासागर और कास्पियन समुद्रके उत्तरमें रहनेवाली शाखा सरमात कही जाती थी। आगे यह नाम भूलसा जाता है, और ईसाकी प्रथम शताब्दीमें वेनिद (वेन्द) और अंत दो नये लोग हमारे सामने आते हैं, जो शक-सरमात-वंशके ही हैं।


वेन्द—वेन्दका शब्दार्थ है जलनिवासी या नदीनिवासी। यह विस्तुला नदीसे दनियेपर और दनियेस्तर नदियोंके ऊपरी भागोंमें रहते थे, यही पश्चिमी स्लावों (पोल, चेक, स्लावक) के पूर्वज थे।

अन्त—अन्तका शब्दार्थ है सीमांतवासी। ईसाकी प्रथम शताब्दीमें यह दनियेस्तरसे दोनतककी भूमिमें रहते थे।

पूर्वी और पश्चिमी स्लावोंके अलावा शक-सरमातोंकी एक दक्षिणी शाखा भी थी, जिससे दक्षिणी स्लाव (युगोस्लाव) खोरबात, सर्ब (मकदूनी) और वोल्गारी स्लाव जातियां निकलीं। रूसी विद्वान् अ० अ० शाहमातोफके अनुसार सारी रूसी जातियां—रूसी, उक्रइनी और बेलोरूसी—अंतोंकी संतान हैं, लेकिन अकदमिक म० स० शुसेन्की अंतोंको केवल उक्रइनोंका पूर्वज मानते हैं।

यह स्मरण रखनेकी बात है, कि ई० पू० द्वितीय शताब्दीमें चीनसे पश्चिमी देशोंका जो व्यापार-मार्ग खुला था, वह भारत और ईरानतक ही सीमित नहीं था, बल्कि ई० पू० द्वितीय शताब्दीमें ही दक्षिणी रूस भी इस व्यापारिक क्षेत्रके भीतर था—ख्वारेज्मसे रूसका बहुत घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। उस समय वोल्गा नदीका नाम फिन भाषामें रा था, जिसे तुर्कोंने इतिल बनाया और फिर तटपर वुल्गारोंके रहनेके कारण वोल्गा नाम पड़ा। हूणोंकी बाढ़के आनेसे पहले ईसाकी प्रथम शताब्दीमें उरालके पास तुर्क जातियां रहती थीं—चुवाश, याकूत (साइबेरिया) और आधुनिक तुर्क एक ही जातिके हैं।

रूसियोंका संबंध अंतोसे है। यह अंत ईसाकी चौथी सदीमें दनियेस्तरसे दोनके आगेतक फैले हुये थे। इनके पश्चिमी पड़ोसी गाथ क्रिमियामें तथा दनियेस्तरके पश्चिममें रहते थे। अंतोंका सबसे पुराना उल्लेख हमें केचमें प्राप्त एक अभिलेखमें मिलता है। चौथी सदीमें हूणोंकी बाढ़ आकर अंतोंको उत्तरकी और ढकेलती गाथोंके ऊपर आ पड़ी। ३७६ ई० में हूण-राजा बलम्बरने गाथ-राजा बीनीतरको लड़ाईमें मार उसकी खोपड़ीका प्याला बनाया। हूणोंद्वारा भगाये गये गाथ अपने पड़ोसी अंतोंके ऊपर पड़े। इस संघर्षमें अंत-राजा बोग अपने पुत्रों और सत्तर सामंतोंके साथ मारा गया।



हूणोंने कुछ समयतक दन्यूब और तिसिया नदीके बीचमें अपना राज्य कायम किया। पांचवीं सदीके पूर्वार्धमें इनके राजा अत्तिला (मृत्यु ४५३ ई०) के प्रतापसे सारा पूर्वी युरोप कांपता था।

हूणोंके बाद पांचवीं सदीमें आवारोंकी बाढ़ पूरबसे पश्चिमकी ओर चली। तुर्कोंके प्रहारके मारे उनके पहलेके स्वामी अब जान बचानेके लिये पश्चिमकी ओर भागे। इसीपर तुर्कोंके राजा सिलजीबुलने कहा था—“वह (आवार) चिड़िया नहीं है, जो कि हवामें उड़ जायेंगे। तुर्कोंकी तलवारोंसे भागकर, मछली नहीं है, कि गहरे पानीमें चले जायेंगे।.....जायेंगे पृथ्वीपर ही। जब मैं हेफतालोंसे लड़ाई खतम कर लूंगा, तब आवारों पर पड़ूंगा, तब वह मेरे हाथसे नहीं निकल सकेंगे।” आवारोंने दक्षिणी रूसमें पहुंचकर कान्स्तान्तिनोपोलमें रोमके सम्राट्के पास अपना दूत भेजकर शरण मांगी। ५६२ ई० के आसपास सम्राट् योस्तीनियनने उन्हें बसनेके लिये भूमि दी। काला सागरके पश्चिमी

किनारेपर पुरानी स्किफिया (शक)-भूमिमें पहुंचकर इस्त्रा (दन्यूब) के तटपर जा उन्होंने विश्राम किया ।

आवारोंकी बाढ़ आनेपर फिर हूणोंकी तरह अपने लिये खतरा देखकर अंतोंने सुलह करनेके लिये उनके पास अपने राजा मेज़मिर इदरी-पुत्र तथा केलायस्त आदि सरदारोंको समझौता करनेके लिये भेजा, लेकिन आवारोंने उन्हें मार डाला । रोमने आवारोंको शरण दी थी, क्योंकि उसके लिये इस टिड्डीदलसे बचनेका कोई दूसरा रास्ता नहीं था । आवार रोमन-साम्राज्यके भीतर लूट-मार करना अपना हक समझते थे । पूर्वी-रोमन (विजन्तीन) सम्राट् मावरिक (५८२-६०२ ई०) के समय अंत विजन्तीनकी सैनिक सेवा करते थे । उस समय स्लावोंका यह सबसे शक्तिशाली कबीला था । सम्राट् फोक (६०२-६१० ई०) और हेराकिल (६१०-६४१ ई०) के समय भी अंत शक्तिशाली बने रहे, यद्यपि अब विजन्तीन सम्राटोंके ध्यान को इधरसे हटाकर सासानियों (ईरानियों) और अरबोंके संघर्षोंने अपनी ओर खींच लिया था । ७वीं सदीमें इस प्रकार हम अंतोंको विजन्तीनके घनिष्ठ संबंधमें देखते हैं । निश्चय ही अंतोंका ऊपरी वर्ग (सैनिक और शासकीय प्रधान) ग्रीसकी पिछली संस्कृतिसे बहुत प्रभावित थे । १०वीं-११वीं शताब्दीके कियेफके रूसी लोग अंतोंके खूनके ही नहीं, बल्कि उनकी संस्कृतिके भी उत्तराधिकारी थे । अंत कृषि जानते थे, लेकिन अधिक उत्तरवाले उनके लोग पशुपालनपर ज्यादा ध्यान देते थे । दासता भी उनमें प्रचलित थी । अकदमिक न० स० देझाविनके अनुसार १—“१०वीं सदीके कियेफ रूस (और कियेफ राजुल) उसी भाषाको बोलते थे, जिसे कि छठी सदीके अंत लोग, उसी पेरुनको पूजते और उसी पुराने पंथपर चलते थे, जिसपर छठी सदीके अंत ।”—उनके देवताओंमें स्वारोग, सारोग-पुत्र स्वारोजिक (स्वारोचिष), दाजबोग (सूर्य, यह भी स्वारोग-पुत्र) मुख्य थे । देवियोंमें लादा (ह्लादा), वेस्ना (बसन्ता), देवा और जीवा प्रधाना थीं ।

- १०वीं सदीके अरब लेखक मसऊदीके अनुसार—“उनमें कुछ ईसाई भी हैं, कुछ काफिर, जो सूर्यकी पूजा करते हैं ।” इसके दो शताब्दी बाद प्रायः १२०० ई०में इब्राहिम वेसिफ शाह-पुत्र लिखता है—“इनमें कुछ ईसाई और दूसरे सूर्य या नभकी पूजा करते हैं ।” ९४९ ई०में लिखते हुये कान्स्तन्तिन वगारया नरोद्नी उनके अग्निपूजक होनेकी भी बात करता है । १२वीं शताब्दीमें लिखते हुये किरिलिता तुरेव्स्कीने उन्हें वृक्ष, नदी, पर्वत और जल की पूजा करनेवाला बतलाया है ।

१० वीं शताब्दीके पूर्वार्धमें रूसके पड़ोसी खाजार, महा-बोल्गार और विजन्तीन थे, जिनके साथ वह व्यापार करते थे । अरब लेखक इब्न-हौकल (९७६-९७७ ई०) भी खाजारों और बोल्गारोंके साथ रूसोंके व्यापारकी बात कहता है ।

(ख) रूसोंके पड़ोसी मंगोलायित

बोल्गार—हूणोंके आनेसे पहले ही उरालके पास मंगोलायित जातिके लोग बसते थे, शायद बोल्गार उन्हींमेंसे थे । चौथी सदीमें हूणोंके बोल्गासे पश्चिम पहुंचनेके तुरंत ही बाद बोल्गार, कास्पियन समुद्रके पश्चिमोत्तरीय मैदानोंमें देखे गये, लेकिन वहां वह ज्यादा दिनोंतक नहीं ठहर सके, क्योंकि दूसरे घुमंतू उनकी जानके ग्राहक बन गये । इन्हीं बोल्गारोंमेंसे कुछ भागकर पश्चिममें दन्यूबो-के किनारे पहुंचे, जहां स्थानीय स्लावोंमें वह घुल-मिलकर अपनी रूपरेखा और भाषाको भी खोकर अब बुल्गारिया-निवासियोंके नामपर ही अपना चिह्न छोड़ गये । दूसरा भाग वहांसे बोल्गातटपर गया, जहां उसने बोल्गार-राज्यको स्थापित किया और ‘रा’ और इतिल नामसे मशहूर नदीको बोल्गा नाम दिया । यह बोल्गार निम्न और मध्य-बोल्गाकी उपत्यकाओंमें पहले निरे घुमक्कड़ पशुपाल रहे, फिर एक अरब-लेखकके अनुसार वह जौ-मोहूकी खेती भी करते थे । इनकी राजधानी कामा और बोल्गाके संगमसे कुछ नीचे बड़ी ही समृद्ध व्यापारिक नगरी थी, जहां हर साल रूस, काकेशस, विजन्तीन और मध्य-एशियाके व्यापारी आते थे । बोल्गार अपनेसे उत्तरवाले देशको “अंधकार भूमि”

१ “स्लावियाने व-द्रेव्नोस्ती” पृ० १८ ।

कहते थे। वहांसे वह अपनी चीजोंसे बदलकर समूर लाते थे। मुसलमान व्यापारियोंके संपर्कमें आनेसे इनमें मुस्लिम संस्कृति और धर्म फैला और १० वीं सदीतक वोल्गार शासक और सरदार मुसलमान बनकर अरबोंकी नकल करना अभिमानकी बात समझने लगे। उस समयतक वह अपना सिक्का भी ढालने लगे थे।

१०वीं सदीके आरंभमें इब्न-फजलान एक अरब दूत-मंडलका सदस्य बनकर वोल्गारोंकी भूमिमें गया था। उसने अपनी यात्राका एक बड़ा ही सुन्दर वर्णन छोड़ा है। वोल्गार राजधानीसे नातिदूर दूत-मंडलका स्वागत करते हुये उसे एक विशाल तथा अच्छी तरह सुसज्जित तंबूमें ले जाया गया, जिसमें अर्मनी गलीचे बिछे हुये थे। रूमी कमखाबसे ढँके सिंहासनपर खान बैठा था। उसके दाहिनी ओर सरदार बैठे थे। मांसके टुकड़ों और मधुकी शराबसे मेहमानोंकी जियाफत की गई। इब्न-फजलानने वहां रूसी व्यापारी भी देखे। वह बड़े ही लंबे-तगड़े तथा हर वक्त कटार, छुरी और तलवार लटकाये फिरते थे।

यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि वोल्गार और खाजार राज्योंके स्थापित होनेके बाद वोल्गातट यूरोप और एशियाके व्यापार-मार्गका महत्त्वपूर्ण केंद्र बन गया। वोल्गाका ऊपरी भाग पश्चिमी द्विना नदीके पास पहुंच जाता है, जो कि बाल्तिक समुद्रमें गिरती है। इसी तरह फिनलन्डकी खाड़ीके लिये भी जलपथ थोड़ी ही दूरपर मिल जाता है। इन नदियोंके बीचके स्थल-मार्ग दुर्गम पहाड़ोंके नहीं थे, इसीलिये व्यापारी इस स्थल-मार्गपर अपनी नावोंको ढकेल कर ले जाते थे। ८ वीं-१० वीं शताब्दियोंमें व्यापारके लिये यहां भारी संख्या में अरब व्यापारी आते थे, जो मांस खरीदनेके बदले भी अपने छोटे-छोटे चांदीके सिक्के देते थे। ये अरब सिक्के उस समय पूर्वी यूरोप, बाल्तिक-राज्यों, स्कैंडिनेविया और जर्मनीतकमें प्रचलित थे।

खाजार—६ठी-८वीं सदी में मंगोलियासे अराल और कास्पियन समुद्रतक जो घुमन्तू तुर्क रहते थे, इन्हींमें खाजार भी थे। ६ठी सदीमें वोल्गारोंकी तरह खाजार भी काकेशसके उत्तरमें चरवाही करते थे। ७ वीं सदीमें इन्होंने निम्न वोल्गा-उपत्यकामें अपना राज्य स्थापित किया। अब वह अर्ध-घुमन्तू हो गये—जाड़ोंमें नगरोंमें रहते और गर्मियोंमें अपने ऊंटों, घोड़ों, भेड़ोंको लिये मैदानोंमें चरवाही करते। पशुपालन ही उनकी मुख्य जीविका थी, इसके अतिरिक्त थोड़ी-सी खेती और अंगूरकी बागबानी भी कर लेते थे। इनका शासक एक खाकान होता था, जो राजकाजमें सीधे भाग न लेकर देवतासा माना जाता था। उसके सहायक और सरदार शासनका काम देखते थे। पहले इनकी राजधानी बलांजर (दक्षिणी दागिस्तान) थी, लेकिन ७२२-२३ई०में अरबोंने आक्रमण करके इनकी राजधानीको जब ध्वस्त करदिया, तब इन्होंने वोल्गा और सागरके संगमपर वोल्गाके डेल्टामें इतिलको अपनी राजधानी बनाया। व्यापारकी भी भावी सुविधा होनेके कारण इतिल एक बड़ी नगरी बन गई। खाकानका ईटका महल एक द्वीपमें था, जिसको नावोंके पुलद्वारा किनारेसे मिला दिया गया था। नगर-प्राकारके बाहर लकड़ीके घर तथा घुमन्तुओंके तंबू रहते थे। इन्हींमें ख्वारेज्मी, अरब, ग्रीक, यहूदी, भारतीय आदि व्यापारी आकर रहते थे। इतिलकी बाजारोंमें सारी दुनियाका माल भरा रहता था। ख्वारेज्मके पास होनेके कारण वहांवालोंका यहांके व्यापारमें विशेष हाथ था। उस समय खाजार-खाकान और उसके सरदार मुसलमान नहीं-यहूदी थे। दोनके तटपर खाजारोंका एक और भी बड़ा व्यापारिक नगर सरकेल था। इस नगरके निर्माणमें विजन्तीन (रोम) इंजीनियरोंने सहायता की थी। उत्तर और पूरबके घुमंतुओंसे रक्षा करनेके लिये नगर दृढ़ प्राकारोसे घिरा था। दक्षिणमें वर्तमान मखचकलासे नातिदूर समंदर नामका एक और भी महानगर शहर था, जिसके पास अंगूरोंके बहुतसे बाग थे। ९वीं शताब्दीमें खाजार अपने उत्कर्षकी चरम सीमापर पहुंचे थे। अजोफ-समुद्रके तटतक तथा क्रिमियाका भी कुछ भाग खाजारोंके शासनमें था। दनियेपर और ओकाकी उपत्यकाओंमें रहनेवाली स्लाव जातियां इन्हें कर देती थीं। उत्तरमें इनकी सीमा मध्य-वोल्गामें बोल्गारोंसे मिलती थी। कास्पियन समुद्रका नाम खाजार समुद्र (बहीरा खाजार) इन्हींके कारण पड़ा, जिसे पीछे मुसलमानोंने हजरत खिजिरके नामसे जोड़कर खिजिर-समुद्र बना दिया।

पेचेनेग—खाजारोंके पड़ोसी पेचेनेग भी तुर्की जातिके थे, जो ९वीं शताब्दीके पूर्वार्धमें यायिक (उराल) और इतिल (वोल्गा) नदियोंके बीचमें घुमकड़ी करते थे। ९वीं शताब्दीके उत्तरार्धमें दूसरे घुमंतुओंके साथ संघर्ष होनेके कारण यह पश्चिममें जा दोन और दनियेपरके बीचकी भूमिमें घूमने लगे। इनकी संख्या काफी थी। मंगोलियाके हूणोंके समयसे ही हम देखते हैं, कि घुमंतुओंके ऊपरी वर्गमें संस्कृतिका अभाव होना आवश्यक नहीं है—पेचेनेगके सोने-चांदी के बर्तन, कमरबंद आदि पुरातत्त्वकी सामग्रियां जो खुदाइयोंमें मिली हैं, उनसे यह बात सिद्ध होती है। पेचेनेग अपने पड़ोसी स्लावोंको सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते थे।

(ग) कियेफके राजुल

पुराने अंतोंके वंशज ८वीं-९वीं शताब्दीमें छिन्न-भिन्न हो गये। बेटा होनेपर उसके हाथमें वह तलवार पकड़ते थे, किंतु बिखरी हुई तलवारें शक्तिहीन साबित हो रही थीं। ९वीं शताब्दीके उत्तरार्धमें एक बड़ी निराशाजनक स्थितिमें रूस लोग रह रहे थे, यद्यपि उनकी वीरतामें जरा भी कमी नहीं आई थी। बिखरी हुई तलवारें इकट्ठा करनेवाले व्यक्तिकी प्रतीक्षा हो रही थी। ऐसे व्यक्तिके आनेके लिये रास्ता भी साफ था। रूसके भीतरसे कई वणिक्पथ पूरबमें चीन, दक्षिणमें विजन्तीन और ईरान, पश्चिममें यूरोपकी ओर जाते थे। स्कैंडेनेवियाके व्यापारी बहुमूल्य रेशम, समूरी छाल, अंबर तथा दूसरी चीजोंका व्यापार करने आते थे। बाल्तिक समुद्रसे पश्चिमी द्विना होकर वोल्गा नदीसे मिलनेवाले रास्तेकी बात हम कर चुके हैं। स्कैंडेनेवियावाले फिनलंद खाड़ीसे नेवा नदीको पकड़ उसके उद्गम इल्मन झीलमें पहुंच लोवात नदीद्वारा ऊपरकी ओर चलते। वहांसे उन्हें पश्चिमी द्विना नदी पर पहुंचनेमें थोड़ी दूरतक नावको स्थलमार्गपर बसीटना पड़ता। इल्मनसे दूसरी नदी द्वारा वह थोड़ा स्थलमार्ग पारकर वोल्गा नदीके वणिक्पथपर पहुंच जाते। इसी तरह दनियेपर पहुंचनेका भी जल-स्थल-मार्ग था। इन वणिक्पथोंपर जहां व्यापारियोंके सार्थ चलते थे, वहां कुछ लोग व्यापारके साथ लूट-पाट भी भारी लाभका साधन मान उससे बाज नहीं आते थे। पश्चिमी यूरोपमें स्कैंडेनेवियाके निवासी नासंमेन उस समयके बड़े साहसी यात्री थे, जो व्यापारके साथ लूट-मारको भी अपना पेशा बनाये हुये थे। वह सशस्त्र संगठित दलोंमें हो रूसमें व्यापार करनेके लिये आया करते। उन्होंने ९वीं शताब्दीमें रूसके भीतरसे जानेवाले मार्गोंको अपना क्रीड़ाक्षेत्र बनाया। नासंमेन वरंगीके नामसे अधिक प्रसिद्ध थे। अपने कोनुंग (राजकुमारों) के नेतृत्वमें लूट-मारके लिये उन्होंने अपने सैनिक दल संगठित किये थे। वह स्लावों और दूसरे लोगोंके ऊपर आक्रमण करके उनकी मूल्यवान् चीजोंको जहां लूट लेते, वहां स्त्री-पुरुषोंको पकड़ ले जाकर कन्स्तन्तिनोपोलके बाजारोंमें अथवा वोलाारों और खाजारोंकी राजधानियोंमें बेच देते।

१. रूरिक

इन्हीं वरंगियोंमेंसे कुछने ग्रीक जानेवाले मार्गमें अपनी गड़ियां बना लीं, वह स्थानीय स्लावोंपर शासन करते हुये उनसे कर उगाहने लगे। कितनी ही बार स्लाव बिगड़कर वरंगी कोनुंगोंको मार डालते, फिर कोई स्थानीय स्लाव राजुल राज करने लगता। परंपरा कहती है, कि ९वीं शताब्दीके मध्यमें रूरिक (रोयरिक, रोरिक) नामक एक साहसी वरंगीने नवोगोरदमें अपना अड्डा जमाया। नवोगोरद कालासागर और दनियेपर नदीसे उत्तर जानेवाले रास्तेपर एक बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान था। रूरिकका भाई सिनेउस व्येलोओजेरो (स्वैत सरोवर) पर जम गया। फिनलंदकी खाड़ीसे वोल्गा और उरालवाला वणिक्पथ वहींसे होकर जाता था। तीसरा भाई ब्रुवोर इज्वोरस्क नगरपर डट गया, जो कि बाल्तिकसे आनेवाले रास्तेका केंद्रीय नगर था। इन तीनों भाइयोंके अतिरिक्त दो और वरंगी कोनुंग अस्कोल्द और दिरने कियेफ नगरको अपने हाथमें किया। ग्रीसके पथपर कियेफ बहुत महत्त्वपूर्ण नगर था। इसी तरह बाल्तिकसे पश्चिमी द्विनाके मार्गपर भी वरंगियोंने अपनी गड़ियां बना रखी थीं। वरंगी आकर स्लावोंकी भूमिमें अधिकतर लूट-मार करते, फिर धनको लेकर अपने देश लौट जाते। उनमेंसे कितने ही रूस-राजुलोंके अनुचर अथवा स्वतंत्र सरदार बनकर भी बस गये। वरंगियोंसे

स्लावोंका नाकोंमें दम था, पर वह संख्यामें पीछेके मंगोलोंकी तरह बहुत थोड़े थे। वरंगी सरदार स्लावोंमेंसे भी अपने अनुचर भरती करते थे। रूसमें स्थायी तौरसे बसनेवाले ये वरंगी स्लाव-समुद्रमें बहुत जल्दी ही अपने नामोंको मिटा रूस बन गये, रूसी भाषा बोलने तथा पेचन और स्वारोगकी पूजा करने लगे। रुरिक, उसके भाइयों तथा साथियोंकी भी यही हालत थी।

रुरिक-वंशावली—रुरिकके वंशमें निम्न राजा हुये :—

क. क्रियेफ	काल
१. रुरिक	९०० ई०
२. ओलेग, रुरिक-पुत्र	—९११ "
३. ईगर, रोरिक-पुत्र	९११-४५ "
४. ओलगा, ईगर-पत्नी	९४५-५७ "
५. स्व्यातोस्लाव I ईगर-पुत्र	९५७-७३ "
६. व्लादिमिर I स्व्यातोस्लाव-पुत्र	९७८-१०१५ "
७. स्व्यातोपोल्क I व्लादिमिर-पुत्र	१०१५-१९ "
८. यारोस्लाव I व्लादिमिर-पुत्र	१०१९-५४ "
९. इज्यास्लाव I यारोस्लाव-पुत्र	१०५४-७३ "
स्व्यातोस्लाव II यारोस्लाव-पुत्र	१०७६ "
इज्यास्लाव I (पुनः)	१०७३ "
१०. स्व्यातोपोल्क II इज्यास्लाव-पुत्र	१०७३-१११३ "
११. व्लादिमिर II मनोमाख	१११३-२५ "
ख. रोस्तोफ-मुचवल	
१२. यूरी I दीर्घबाहू, व्लादिमिर मनोमाख-पुत्र	—११५७ "
१३. अंद्रेयी, बगोल्गोवोव्स्की यूरी-पुत्र	११५७-७४ "
१४. व्सेवोलोद I यूरी-पुत्र	११७६-१२१२ "
१५. यूरी II व्सेवोलोद-पुत्र	१२१२-१२३८ "
१६. यारोस्लाव II व्सेवोलोद-पुत्र	१२३८-४६ "
स्व्यातोस्लाव III व्सेवोलोद-पुत्र	१२४७-४८ "
अंद्रेयी II यारोस्लाव-पुत्र	१२४९-५२ "
१७. अलेक्सान्द्र नेव्स्की यारोस्लाव-पुत्र	—१२६३ "
ग. मास्को जार	
१८. दानियल	१२६३-१३०३ "
१९. यूरी III दानियल-पुत्र	१३०३-२५ "
२०. इवान I खलिता, दानियल-पुत्र	१३२५-४१ "
२१. सेमेओन, इवान-पुत्र	१३४१-५३ "
२२. इवान II इवान-पुत्र	१३५३-५९ "
२३. दिमित्रि इवान II-पुत्र	१३५९-८९ "
२४. वासिली I अंध, दिमित्रि-पुत्र	१३८९-१४२५ "
२५. वासिली II अंधवासिली-पुत्र	१४२५-६२ "
२६. इवान III वासिली II-पुत्र	१४६२-१५०५ "
२७. वासिली III इवान III-पुत्र	१५०५-३३ "
२८. एलेना, वासिली III-पत्नी	१५३३-३८ "
२९. जार इवान, वासिली III-पुत्र	१५३८-८४ "
३०. फ्योदोर, इवान IV-पुत्र	१५८४-९८ "

२. ओलेग रूरिक-पुत्र (९११ ?)

१० वीं शताब्दीके आरंभमें रूरिक-पुत्र ओलेग दनियेपर-उपत्यकाके कुछ भागोंका स्वामी था। पुराने इतिहासकार लिखते हैं, कि ओलेग पहले नवोगोरदके स्लावोंपर शासन करता था, किन्तु पीछे वह दनियेपर-उपत्यकामें चला गया और स्मोलेन्स्क क्रिविचीको जीतकर नीचेकी ओर बढ़ते अपने दोनों देशभाइयों अस्कोल्द और दिरको मारकर उसने कियेफपर अधिकार कर लिया ; जहांसे पड़ोसके ब्रेव्ल्यान लोगोंको अपने अधीन करते हुये खाजारोंके अधीनस्थ सेवेरियान और रादिमिची स्लावोंको अपने अधीन किया। इस प्रकार ओलेग नवोगोरद और कियेफ दोनोंका स्वामी बन जानेके बाद दनियेपर वणिक्पथका भी स्वामी हो गया। धीरे-धीरे और कितने ही छोटे-छोटे राजुलोंको अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर कर वह "रूसका महाराजुल" बनकर दूसरे राजुलोंपर शासन करने लगा। कियेफके महाराजुलके अधीन हो अब दनियेपर-उपत्यका और इल्मन-सरोवरके स्लाव एकताबद्ध हो गये। इस एकताबद्ध राज्यको रूस कहा जाने लगा। यह कहना मुश्किल है, कि रूस किस भाषाका शब्द है। जो भी हो १०वीं शताब्दीके आरंभमें बहुत-से स्लाव कबीलोंको, जो कियेफके शासकके अधीन एकताबद्ध हुये थे, उनको यही नाम दिया गया, और इतिहासमें उन्हें "कियेफ रूस" कहा जाने लगा।

यद्यपि कियेफ राजुलोंकी अधिकांश प्रजा स्लाव थी, लेकिन उनमें कुछ मेरिया, वेसी और चुद जैसी अरूसी कबीले भी थे। अभी ये जातियां आर्थिक तौरसे अधिक विकसित नहीं थीं। पशुपालन, शिकार, कुछ कृषि और मामूली दस्तकारी उनकी जीविका थी। अभी वह एक दूसरेके ऊपर आर्थिक तौरसे इतने निर्भर नहीं थे, कि उनका एक घनिष्ठ संघ बन जाता। ये पूर्वी स्लाव कृषि-समूहों (वेब) में जीवन बिताते अभी भी जनयुगके रीति-रवाजोंको पकड़े हुये थे। उनकी भूमि साझमें हुआ करती थी, लेकिन रूरिकोंके अधीन एकताबद्ध होनेपर व्यापारका सुभीता और भी बढ़ा, जिससे उनके भीतर धनी-गरीब होने लगे। गरीब अपने धनी बंधुओंके कमकर बनने लगे। भूमिपर भी वैयक्तिक अधिकार माना जाने लगा। इस प्रकार उनके भीतर सामंती संबंध कायम हो गया।

आगे कियेफ-राज्यने पूर्वी युरोपमें विशेष महत्त्वका स्थान प्राप्त किया। विजन्तीन (पूर्वी रोम) का प्रभुत्व सारे कालासागर और उसकी तटवर्ती भूमिपर था। अल्प-विकसित जातियां कभी अपने लूट-मारसे उसको चिढ़ाती थीं और कभी विजन्तीनके शासक स्वयं लूट-मार करनेपर उतारू हो जाते। ऐसे ही किसी आक्रमणके बदलेमें ८६० ई० में स्लावोंने बंज (ओक) वृक्षोंको खोखला करके अद्वन्देरेव्की (एकदारुक) नावोंका बड़ा तैयार किया और कान्स्तन्तिनोपोल बंदरगाहके छोर (सुवर्ण-शृंग) पर पहुंचकर राजधानीके लिये खतरा पैदा कर दिया। तूफानने स्लावोंकी एकदारुक नावोंको तितर-बितर कर दिया, नहीं तो इसमें संदेह नहीं, कान्स्तन्तिनोपोल उनकी दयाका भिखारी होता। ९११ ई० में फिर उन्होंने अपनी प्रभुता दिखलाकर अपने अनुकूल संधि करवाई।

९१३-९१४ ई० में स्लावों (रूसों) ने अब कास्पियनके किनारोंपर भी आक्रमण शुरू कर दिया। इसके लिये वह अपनी नावोंको अजोफ सागर होते दोन नदीमें ले जाते और उसी जगहपर अपनी नावोंको कंधोंपर उठाकर वोल्गामें पहुंचाते, जहां दोनों नदियां एक दूसरेके बहुत समीप पहुंच गई हैं और जहां १९५२ ई० के वसंतमें यातायातके लिये बड़ी नहर चालू हो गई। रूसलोग वोल्गासे नीचे कास्पियन समुद्रमें जा काकेशसकी बस्तियोंमें लूट-मार करते। कितनी ही बार खाजार भी उनको अछूता नहीं छोड़ते, और रूसोंको भारी हानि उठानी पड़ती।

ओलेगका शासन काफी लंबा था, संभवतः १०वीं शताब्दीके उत्तरार्धके आरंभतक। अपने चालीस सालके राज्यमें उसने रूसको एक-राज्य बनानेका ऐतिहासिक काम पूरा किया। उसके कामका कितना महत्त्व है, यह इसीसे मालूम होगा, कि कार्ल मार्क्सने "१८वीं सदीमें गुप्त कूटनीति" (अध्याय ५) में उसका उल्लेख करते हुये कहा है:—

"रूसके प्राचीन नक्शे हमारे सामने उससे कहीं अधिक विशाल युरोपीय क्षेत्रको प्रदर्शित करते हैं जिसका कि वह आज गर्व कर सकता है। ९वीं शताब्दीसे ११वीं शताब्दीतक उसका लगातार बढ़ाव इसी-

अग्नि" के नामसे प्रसिद्ध एक तरहका भभकनेवाला तरल पदार्थ ग्रीक अपने शत्रुओंपर फेंकते थे। "ग्रीक अग्नि" के सामने ईगरके सैनिक बेड़ेको बहुत बुरी तरहसे हारना पड़ा। आगसे बचनेके लिये बहुतसे रूस * पानीमें कूदकर डूब मरे। बच्चे-खुचे पोत अपने देशकी ओर लौटे। यद्यपि ग्रीकोंने उस समय रूसोंको हरा दिया, लेकिन इन अर्ध-धुमंतू लड़ाकू जातियोंके लिये एक बारकी हार कोई महत्त्व नहीं रखती। इसलिये ग्रीक सरकारने ६४५ ई०में ईगरके साथ एक नई संधि की, जिसमें व्यापारिक संबंध स्थापित करनेके साथ उभय पक्षके शत्रुओंके विरुद्ध सैनिक मित्रताकी शर्तें भी स्वीकृत की गई थीं।

३३२ हिजरीके आरंभ (४ सितंबर ९४४ ई०)में रूसोंने कास्पियन तट-भूमिको अपना लक्ष्य बनाया था। कास्पियन तटको लूटते हुये वह कुरा नदीके भीतर घुस गये और ऊपरकी ओर बढ़ते उन्होंने बरदआ नगरीको ले लिया। यहांसे वह आसपासके इलाकोंमें लूट-मार करने लगे। लेकिन यहांका जलवायु अनुकूल न होनेसे बीमारीके कारण बहुतसे रूस मर गये, उनकी संख्या कम हो गई। इसी समय अरब फौजोंने उन्हें एक किलेमें घेर लिया। बड़ी मुश्किलसे रातके अंधेरेमें वह नावोंमें पहुंच अपने प्राणों और लूटे धनको बचाकर भागनेमें सफल हुये।

कियेफ रूसके राजुलोंने दूसरोंके धनको लूटना और पुरुष-स्त्रियोंको पकड़कर दास बनाना अपने वैध शासनका एक अंग मान लिया था। वह पिछले सालकी जमा की हुई लूट और बंदियोंको नावोंपर चढ़ाकर दनियेपर नदीसे कालासागरकी ओर भेजते। दनियेपरके जलप्रपात रास्तेमें पड़ते, जिनपर नावें टूटकर चकनाचूर हो जातीं, इसलिये ऐसी जगहोंपर उन्हें बल्लोंके सहारे कंधेपर उठाकर आदमी ले जाते। लूटके मालके लिये यहां पड़ीसी लुटेरे पेचेनेगोंके आक्रमणका भारी डर रहता और कितनी ही बार उनकी अन्यायोपाजित संपत्ति पेचेनेगा (तुर्की) घुमन्तुओंके हाथमें चली जाती। दनियेपरके मुहानेमें पहुंचकर यात्री आरामकी सांस लेते और भगवान्‌क्षे कृतज्ञता प्रकट करते। वहां एक छोटे द्वीपपर अवस्थित बंज (ओक) वृक्ष-देवताको भेंट-पूजा चढ़ाते। फिर कालासागरके पश्चिमी किनारेसे होते वह कान्स्तान्तिमोपोल जारप्राद (राजनगरी) जाते। वहां वह अपने दासों, समूरी छालों और दूसरी चीजोंको बेंचकर बदलेमें कपड़ा, शराब, फल तथा शौकीनीकी दूसरी चीजें खरीद लेते।

अपनी प्रजासे कर उगाहनेमें इन राजुलोंका व्यवहार बहुत कठोर होता था। इसके लिये लड़ाकू द्रेव्ल्यान (दीहाती) अक्सर विद्रोह कर उठते थे:—“अगर भेड़ियोंको भेड़ोंके गल्लोंमें आनेका चस्का लग गया, और वह न मारा गया, तो वह सारी भेड़ोंको निगल जायेगा”—कहते हुये ३१ अगस्त ९४५ ई० को उन्होंने अनुचरोंसहित ईगरको मार डाला।

अभी रूस ईसाई नहीं हुए थे। इसी समय ईगरके शासनकालमें ही ९२२ ई० में मुसलमान पर्यटक इब्न-फज्लानने वोल्गाके किनारेके नगरोंकी यात्रा की थी। उसने रूसोंके बारेमें लिखा है:—“मैंने रूसोंको उस समय देखा, जबकि वह अपने पण्य द्रव्योंको लेकर इतिल (वोल्गा) के किनारे आये थे। मैंने उनके जैसे सर्वांगपूर्ण आदमी कहीं नहीं देखे। वह खजूरके वृक्षकी तरह (सीधे तथा) लालवर्णके होते हैं। वह न कुर्ता पहनते हैं, न कफतान (जामा), बल्कि उनमेंसे पुरुष एक तरहका चोंगा जैसा कपड़ा पहनते हैं, जिसे एक बगलसे डालकर अपनी एक (दाहिनी) बांह खुली रखते हैं। हरएक आदमी अपनी तलवार, छुरे और कटारको नहीं छोड़ता। इनकी तलवारें लम्बी तथा लहरदार होती हैं। पैरसे कंधेतक उनके शरीरपर हरे वृक्षों, मूर्तियों और दूसरी चीजोंके चित्र बने होते हैं। उनकी प्रत्येक स्त्रीके नितम्बके पास पतिकी संपत्तिके अनुसार लोहे, तांबे, चांदी, सोनेकी डिब्बिया लटकती रहती है। हरएक डिब्बियामें एक छल्ला होता है, जिससे बंधी छुरी नितम्बपर लटकती है। वह अपने कंठमें सोने और चांदीकी मालायें पहनती हैं। हरएक पुरुष जब दस हजार दिरहमका सौदा कर लेता है, तो अपनी स्त्रीके लिये एक माला और बीस हजार दिरहमका सौदा करनेपर दो माला खरीद देता है। हर दस हजार दिरहम सौदेकी वृद्धिके साथ मालाकी संख्या भी बढ़ती रहती है, जिससे स्त्रीके पास बहुत-सी मालायें हो जाती हैं। उनके यहां मिट्टीकी बनी हुई हरी गुरियाको सबसे अच्छा अलंकार समझा

* आजके रूसी नामसे भिन्न कियेफके इन पुराने लोगोंको “रूस” कहा जाता था।

जाता है। यह मिट्टी जहाजोंपर होती है, जिसको वह बहुत दाम देकर खरीदते हैं—एक गुरियाका दाम एक दिरहम। ...अल्लाहके सृष्टि करनेके समयसे ही ये गंदे हैं, पाखाना-पेशाबके समय सफाई नहीं करते, बिल्कुल जंगली गदहों जैसे। वह अपने नगरसे आकर इतिल (वोल्गा)के घाटपर उतरते हैं—इतिल बड़ी नदी है। नदी-तटपर बहुतसे लकड़ीके घर बने हैं, जिनमें वह ठहरते हैं। एक-एक घरमें दस-बारह आदमी या कम-बेसी जमा हो जाते हैं। प्रत्येकके पास मोढ़ा होता है, जिसके ऊपर वह बैठता है। हरएकके पास अपनी सुन्दरी दासी होती है, जो उसके सामान को देखती है। कभी-कभी वह एक दूसरेके खिलाफ लड़नेके लिये जमा हो जाते हैं और कभी व्यापारके लिये निकलते हैं।...प्रतिदिन सबेरे दासी बड़ी डोलमें पानी भरकर ला अपने स्वामीके पास रख देती है। स्वामी उसमें अपना मुंह, हाथ, बाल और सिर धोता है। उसीमें पोटो-खखार फेंकता है।.....जब वह अपना काम कर लेता है, तो दासी डोलको उठा ले जाती है और उसीमें अपने स्वामीकी तरह मुंह धोती-धाती है। इसी तरह उसी बाल्टीके पानी को घरमें रहनेवाले सब इस्तेमाल करते हैं।...अपने मुंह-बालको धोते हैं।

“नावसे आनेपर उनमेंसे हरएक अपनी रोटी, मांस, दूध और पानकी चीजें लेकर बड़े जंगलमें चला जाता है, और पृथ्वीपर बने मनुष्य जैसे चेहरेके सामने.....भेंट-पूजा रखकर कहता है—“स्वामी, बग (भगवान्), अपने सामान और दास-दासीके साथ, सबोलके समूरी छालोंके साथ मैं दूरसे आया हूं।” इस प्रकार अपने सभी सौदोंका नाम गिनाकर फिर कहता है “—मैं तेरे पास यह भेंट ले आया हूं।” फिर वह भेंटको देवताके सामने रखते कहता है—“मैं चाहता हूं, कि तू मेरे व्यापारमें सोना-चांदीके पैसोंको देनेमें सहायता करे।” व्यापार अच्छा होनेके बाद फिर वह प्रार्थना करता है—“मेरे स्वामीने मेरी इच्छा पूरी की, मुझे जरूर उसकी भेंट-पूजा करनी चाहिये।” फिर वह कितने ही बेलों और भेड़ोंको ले जाकर बलि चढ़ा कुछ मांस उसी बड़े वृक्षके नीचे छोड़ देता है, बेलों और भेड़ोंके गलेको उसी वृक्षके नीचे काटकर जमीनपर रख आता है। जब रात आती है, तो कुत्ते आ उन्हें खा जाते हैं। तब वह फिर कहता है—“मेरा बग (भगवान्) मेरे ऊपर प्रसन्न है, उसने मेरी सारी बलि खा ली !” उनमेंसे जब कोई बीमार पड़ता है, तो उसके लिये एक और झोपड़ी बनाकर वहां उसे रख देते हैं। बीमारके लिये थोड़ी-सी रोटी और पानी रखनेके सिवा न कोई वहां जाता है और न उससे बातचीत करता या मिलता-जुलता है। अगर वह अच्छा हो जाता है, तो साथमें जाता है, अगर मर जाता है, तो उसे जला देने हैं। यदि वह दास होता है, तो उसे धरतीपर छोड़ देते हैं, जहां उसे कुत्ते और गिद्ध खा जाते हैं।.....

...मुझे बतलाया गया, कि वह मरनेके बाद अपने सरदारोंकी बहुत धूमधामसे अंत्येष्टि-क्रिया करते हैं। ...मैंने उसे देखना चाहा। मुझे उनके एक बड़े आदमीके मरनेकी खबर मिली। मैं उसे देखने गया। उन्होंने अर्थीपर ढांककर मुर्देको दस दिनोंतक रक्खा। इसी बीच मुर्देके कफन सीने और दूसरे काम होते रहे। अंत्येष्टि यही है, कि गरीब आदमीके लिये वह छोटी-सी चिता बना उसपर लाशको रखकर जला देते हैं। धनी आदमी होनेपर उसकी सम्पत्तिको इकट्ठा करके उसके तीन भाग करते हैं, जिसमेंसे एक भाग परिवारको मिलता है, दूसरे भागसे वह कपड़ा-लत्ता खरीदते हैं और तीसरे भागसे श्राद्धके दिनके खान-पानकी चीजें लाते हैं। अपने स्वामीके मरनेके बाद उसकी दासी साथ जलती है। वह उसे रात-दिन शराब पिलाकर मस्त रखते हैं, जिससे कोई-कोई हाथमें प्याला लिये ही मर जाती है। जब कोई सरदार मर जाता है, तो उसका परिवार मृतपुरुषके दास-दासीसे पूछता है—“तुममेंसे कौन स्वामीके साथ मरेगा ?” उनमेंसे कोई कह उठता है—“मैं”। जब एक बार ‘मैं’ कह दिया, तो उसके लिये मरना अनिवार्य हो गया, वह अपनी बातसे मुकर नहीं सकता।...अधिकतर साथ जलनेका काम दासियां करती हैं। जब वह आदमी मरा, जिसके बारेमें मुझे बतलाया गया था, तो उसकी दासियोंसे पूछा गया—“कौन उसके साथ मरेगा ?” उनमेंसे एक दासीने कहा—‘मैं’। उन्होंने उसी समय उसके ऊपर दो दासियां नियुक्त कर दीं, जिसमें वह उसकी रखवाली करें।...मृतकके लिये वह दूसरे काम करने लगे। उन्होंने कफन तैयार किया और जो दूसरी आवश्यक चीजें थीं, उन्हें भी तैयार किया। दासी रोज खूब आनन्दमे खाती-पीती। जब दाहका दिन आया, तो मैं भी नदीपर गया, जहां चिता तैयार थी।...चित्तके ऊपर बहुत-सी लकड़ियां रखी थीं। उसीके ऊपर लाकर अरथीको रख दिया गया। फिर वह मेरी समझमें न आनेवाली

भाषामें कुछ कहते हुये एकके-पीछे एक चलने लगे। लाश अब भी अर्थीमें पड़ी थी। फिर उन्होंने मोटा ला चितापर रख उसे ग्रीक रेशमी कपड़े, तकिये आदिसे ढांक दिया। फिर एक बूढ़ी स्त्री आई, जिसे कि वह लोग मृत्युका देवता (यमदूता) कहते हैं। वह मोढ़े पर बैठ गई। उसीके कहनेके अनुसार सिलाई तथा दूसरे काम होते हैं। वही दासीको मारती है। उन्होंने उसे चितापर बैठा दिया, फिर मरनेवालेके पहने हुए कपड़ेको वहां रक्खा।....उसीके सामने उन्होंने मद्य, फल और वाद्ययंत्र (बलालैका) रक्खा। सफेद चेहरा हो जानेके सिवा मुद्दमें कोई परिवर्तन नहीं दीख पड़ता था। उन्होंने उसके ऊपर रेशमी कुर्ता, जामा, संदली, जरीदार जूता आदि रक्खा, सिरके ऊपर रेशमकी बड़ी टोपी रक्खी।.....फिर चितापर उसके कपड़ोंको बिछाकर तकिया रक्खी। फिर पान (मद्य), फल रख दिया। कुत्तोंने आ चिताको गिरा-पड़ा दिया। फिर मृत पुरुषके सारे हथियारोंको उन्होंने क्रमसे उसके पास सजा दिया। फिर उसके दो घोड़ोंको लाकर उन्होंने वहीं तलवारसे मारकर उनके मांसको चितापर रख दिया। फिर वह दो बैल लाये। उन्हें भी उसी तरह मारकर चितापर फेंक दिया। फिर मुर्गी-मुर्गा लाये, उन्हें भी मारकर वहीं डाल दिया। फिर मरनेके लिये तैयार दासी लाई गई,.....जिससे हरएकने कहा—“अपने स्वामीसे कहना, कि हमने केवल उसके प्रेमसे यह सब किया।” दासीने अपना पैर चितापर रख अपनी भाषामें कुछ कहा। उसे हटा दिया गया। फिर उसने वही किया, जो कि पहली बार किया था। फिर उसे तीसरी बार हटाया गया। उसने फिर वही किया। ...फिर उसे उन्होंने मुर्गी दी जिसे उसने सिर मरोड़कर फेंक दिया। उन्होंने मुर्गीको उठाकर उसी चितामें डाल दिया। मैंने दुभाषियेसे पूछा, कि उस दासीने क्या कहा? उसने जबाब दिया—‘उसने पहली बार कहा—‘हां, मैं अपने बाप और अपनी मांको देखती हूं।’ दूसरी बार उसने कहा—‘हां, मैं देखती हूं अपने मरे हुये बंधुओंको, मानो वह (यहां) बैठे हुये हैं।’ फिर उसने तीसरी बार कहा—‘हां, मैं देखती हूं अपने स्वामीको, जैसे वह बड़े सुन्दर हरे-भरे राइ (स्वर्ग) में बैठे हैं, उनके साथ पुरुष और बच्चे भी हैं। वह मुझे बुला रहे हैं। मुझे उनके पास ले चलो।’ पीछे उसे चितापर ले गये, और चीजें निकालकर उस यमदूता बुद्धियाको दे दीं, जो दासीको मारने जा रही थी। फिर बुद्धियाने पैरोंके कड़ोंको निकालकर, उनमेंसे दोको दासीको दे दिया।...फिर उसे चिताके पासकी झोपड़ी म ले गये, जहां पुरुषोंने उसे प्यालेमें शराब लाकर दिया। उसने उसे पिया। दुभाषियेने मुझसे कहा, ‘वह अपनी सहेलियोंके साथ प्रार्थना कर रही है।’ फिर उसे दूसरा प्याला दिया गया। उसने उसे ले पीते हुये एक लम्बी गीत गाई। लेकिन बुद्धिया प्याला पीनेसे रोककर उसे वहां ले गई, जहां उसका स्वामी लेटा हुआ था। मैं देख रहा था, कैसे वह छटपटा रही थी।....उसने अपने सिरको चौतरे और चिताके बीचमें किया, और बुद्धियाने गलेसे पकड़कर उसे चौतरेपर पहुंचाया।....फिर पुरुषोंने लकड़ियोंको पीटना शुरू किया, जिसमें कि (दासी का) रोना-चिल्लाना सुनाई न दे, और आगे दूसरी दासियां डरकर अपने स्वामीके साथ मरनेसे इन्कार कर दें।....फिर मरनेवाली दासीको लाकर उसके स्वामीकी बगलमें रख दिया—दो ने उसके पैरोंको पकड़ रक्खा था, दोने उसके हाथोंको, यमदूता बुद्धियाने उसे गलेसे पकड़ा था। पुरुषोंने उसे तान रक्खा था। बुद्धियाके सामने बड़ा खांडा रक्खा था, जिसे उसने दासीकी पसलियोंके बीचमें घुसेड़ दिया। दो पुरुषोंने भी उसपर प्रहार किया। अभी भी वह मरी नहीं थी। फिर मृत पुरुषके बहुत नजदीकके संबंधीने आकर एक जलती लकड़ी उठा उससे चितामें आग लगा दी।....फिर दासीको उसके स्वामीके पास ले आकर रख दिया गया। इसके बाद लकड़ीके टुकड़ोंको लिये लोग आये और उन्हें चिताके काठपर फेंक दिया। आग पहले घासमें लगी, फिर चितामें, फिर लाशमें। आग जलने लगी। इसी समय जोरकी हवा चली, जिससे आगकी लपटें धांय-धांय करके बलने लगीं। मेरे पास एक रूस पुरुष खड़ा था। उसने मुझसे कुछ कहा। मैंने दुभाषिये से पूछा—‘उसने क्या कहा।’ दुभाषियेने जबाब दिया—‘वह कहता है, अबके लोग (मुसलमान) मूर्ख हैं। वह जिस आदमीसे प्रेम करते हैं, उसे ले जाकर जमीनमें गाड़ देते हैं, जहां उसे कीड़े-मकोड़े खा जाते हैं। हम (रूस) तो उसको आगमें जला देते हैं और वह तुरन्त राइ (स्वर्ग) में चले जाते हैं।’ फिर उसने मुस्कराते हुये लम्बी हंसी हंसते कहा—‘देखो, इसीसे खुश होकर भगवान्ने हवाको भेजा है।...फिर नदीके तटपर सजाई चिताकी जगहपर श्वेत सफेदा-वृक्षके टुकड़ेपर उस पुरुष और रूसोंके राजाका नाम लिखकर रख दिया गया।’

यह स्मरण रखनेकी बात है, कि भारतमें सतीप्रथा शकोंके साथ ईसवी-सन्के आरंभमें आई। हमारे शक तथा रूसी एक ही वंशके थे, यह हम बतला चुके हैं। इसीलिये दोनोंकी सतीक्रियामें कितनी ही समानता देखकर आश्चर्य करनेकी आवश्यकता नहीं है।

४. ओलगा, ईगर-पत्नी (९४५-५७ ई०)

ईगरका उत्तराधिकारी उसका पुत्र स्व्यातोस्लाव छोटा बच्चा था, इसलिये राज्यका शासन उसकी मां ओलगाने संभाला। ओलगा स्लाव थी, इसलिये रुरिककी तीसरी पीढ़ीमें स्व्यातोस्लाव भाषा और आकृति सबमें स्लाव था।

५. स्व्यातोस्लाव I, ईगर-पुत्र (९५७-७३ ई०)

स्व्यातोस्लावने अपने बाप-दादोंके विजय और वीरतापूर्ण कामोंको और आगे बढ़ाया। उसका सारा जीवन अभियानोंमें बीता। वह कभी अपनी यात्राओंमें रसदकी गाड़ियां नहीं ले जाता, अपने घोड़ोंकी जीनका तकिया बनाकर धरतीके ऊपर सो जाता और आधे पके हुए घोड़ोंके मांसको खाता। स्व्यातोस्लावने कभी धोखा देकर शत्रुपर आक्रमण नहीं किया। जब किसीके विरुद्ध चढ़ाई करता, तो पहलेसे दूतद्वारा संदेश भेज देता—'मैं तुम्हारे विरुद्ध कूच करना चाहता हूँ।'

स्व्यातोस्लावसे पहले ही दनियेपर-उपत्यका और इल्मन सरोवरका प्रदेश कियेफ राज्यमें सम्मिलित था। स्व्यातोस्लावने पहले दनियेपरसे पूरबमें रहनेवाली स्लाव-जातियोंकी ओर ध्यान दिया और ओका-उपत्यकाके व्यातिची लोगोंको जीतनेके बाद दूसरोंके ऊपर आक्रमण किया। १० वीं शताब्दीके साठवें सालके आसपास उसने वोल्गाके किनारेके बुल्गारों और खाजारोंको हराया, फिर उत्तरी काकेशसपर आक्रमण कर वहांके कसोबी (चिरकास) और यासी (ओसेती) जातियोंकी भी वही हालत की। ९६७ ई० में उसने दन्यूबतटवासी बुल्गारोंके ऊपर चढ़ाई की, जो अब नामके ही बुल्गार थे, नहीं तो भाषा, आकृति आदिमें उसी स्लाव जातिके थे, जिसका कि उनका विजेता। इस आक्रमणका यही कारण था, कि बुल्गार अपने पड़ोसी ग्रीक (पूर्वी रोम) सम्राटपर बराबर आक्रमण करते उन्हें जबर्दस्त हारपर हार दे रहे थे। ग्रीक रोकनेमें असमर्थ थे, इसलिये उन्होंने स्व्यातोस्लावको मददके लिये बुलाया। उसने बुल्गारोंको पूरीतौरसे हराकर दन्यूबतटपर अवस्थित बुल्गारियाकी राजधानी पेरेया (स्लावेत्स) में स्थायी तौरसे अपनी छावनी स्थापित करनेकी योजना बनाई। स्व्यातोस्लावने कहा—'यहां यह मेरे देशका केंद्र है। यहां सभी अच्छी चीजें—सोना, कीमती कपड़े, शराब और फल ग्रीकोंकी ओरसे प्रवाहित होते रहते हैं, चिकों तथा मगयारोंके देशोंसे चांदी और घोड़े एवं रूसोंके देशसे समूरी छाल, मधु, मोम और दास-दासियां आती हैं।'

स्व्यातोस्लावके रूपरंगके बारेमें ग्रीक ऐतिहासिकोंने लिखा है—'वह कदमें भंझोला—न बहुत बड़ा न बहुत छोटा था, उसकी भौहें घनी, आंखें नीली, नाक छोटी, दाढ़ी मुड़ी और सिर घुटा था। केवल खोपड़ीके ऊपरी भागमें लंबे बाल थे।....उच्च कुलका परिचायक बालोंका एक गुच्छा (शिखा) उसके सिरमें एक ओर था। उसकी गर्दन मोटी, कंधा चौड़ा, सारा शरीर सुन्दर सुडौल था।....उसके एक कानमें सोनेका मणिजटित कुंडल था।....उसकी पोशाक एक सफेद स्वच्छ कुर्तेके सिवा और कुछ नहीं थी।'

रुरिक-संतानोंके शासनके समय रूसके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें निम्न राजुल थे—नवोगोरद, रस्तोफ-सुज्दल, मुरमो-र्याज़न, स्मोलेन्स्क, कियेफ, चेर्नीगोफ, सेवेर, पेरेयास्लाव्ल, वोल्गिन्स्क, गालित्स, पोलोत्स, तूरोफ-पिन्स्क, जिनके नीचे कितने ही छोटे-छोटे ठाकुर होते थे। कालासागरके पासवाला मैदान उस समय तुर्कोंके हाथमें था, जो पेचेनेग, तुर्की, बेरेन्दे, चेर्निक्लोबुक (कराकल्पक) जैसे भिन्न-भिन्न कबीलोंमें बंटे थे—पेचेनेगोंका देश कियेफकी भूमिसे एक दिनके रास्तेपर पड़ता था।

६. व्लादिमिर, स्व्यातोस्लाव-पुत्र (९७३--१०१५ ई०)

स्व्यालोस्लावको अपने अभियानोंसे फुसंत नहीं थी। अपनी अनुपस्थितिमें राज्यका भार उसने अपने तीन पुत्रोंपर छोड़ रखा था। ज्येष्ठ पुत्र यारोपोल्क पोलेयानोंकी भूमि—जिसमें कियेफ नगर भी था—का शासन करता था। ओलेगके अधीन द्रेव्ल्यानोकी भूमि थी, और नवोगोरद व्लादिमिरको मिला था। बापके मरते ही तीनों भाइयोंमें झगड़ा शुरू हुआ। यारोपोल्क और ओलेग युद्धमें काम आये, और पूर्वी स्लावोंकी भूमि व्लादिमिरके शासनमें एकताबद्ध हो गई। इसके बाद व्लादिमिरने गालिच (हालिज) के प्रदेशको अपने राज्यमें मिलाया और विरोध करनेवाले पोलोंके ऊपर आक्रमण किया। व्लादिमिरने अपने पड़ोसी लिथुवानियोंपर भी आक्रमण किये, लेकिन उसका ध्यान सबसे अधिक पेचेनेगोंकी ओर था, जो कि उसकी दक्षिणी सीमापर आक्रमण करते रहते थे। उसने इन घुमंतुओंसे प्रतिरक्षाके लिये जगह-जगह गढ़ियां बनवाई और वहां अपने लड़ाकू लोगोंको लाकर बसा दिया।

ईसाई-धर्म स्वीकार—अभी तक कियेफ रूस अपने पूर्वजोंके धर्मपर ही आरुढ़ थे। यद्यपि उनका व्यापारिक और सैनिक तौरसे भी ग्रीसके साथ घनिष्ठ संबंध था, जिसके कारण ईसाई पुरोहित भी अपने व्यापारियोंके साथ उनके यहां आया करते थे। ईगरके समय भी कियेफमें ईसाइयोंके कुछ गिर्जे थे। पहले ही निकोलाइ ख्रिसोवेद (९७९-९९१ ई०) ईसाई-प्रचारक बनाकर स्लावोंमें भेजा गया था। इसमें संदेह नहीं कि आभिजात्य वर्गमें कितने ही ईसाई-धर्मको स्वीकार कर चुके थे, तो भी अभी अपने जनयुगके (कबीलाशाही) पूर्वजोंके धर्मको रूस छोड़ना नहीं चाहते थे। जनयुगका धर्म अपने-अपने कबीलों देवताओं और रीति-रवाजोंके साथ घनिष्ठतापूर्वक सम्बद्ध रहता है। जब राज्योंकी सीमा कबीलोंको तोड़कर आगे बढ़ती है, तो राज्य की एकतामें कबीलाशाही धर्म बाधक होता है, फिर किसी सामन्ती धर्म को स्वीकार करनेकी जरूरत पड़ती है, ता कि वह राजा और भिन्न-भिन्न कबीलोंवाली प्रजाके भीतर पहिले के रक्तसंबंधके टूटनेपर अपने (धर्म) द्वारा एक नये संबंधको स्थापित करे। स्लावोंसे बाहरभी राज्यविस्तार होनेके कारण अब व्लादिमिरको एक व्यापक धर्मकी अवश्यकता पड़ी। इसके लिये उसका ध्यान यहूदी धर्मकी ओर भी गया था—हमें मालूम है, कि खजाजर खगान यहूदी धर्मके माननेवाले थे। पुरानी ऐतिहासिक परंपरासे मालूम होता है, कि ९८६ ई० में व्लादिमिरने यहूदी धर्म स्वीकार करना इन्कार कर दिया। रूसोंके सगे भाई बुल्गारियावाले ईसाईधर्मको स्वीकार कर चुके थे। काला समुद्रके उत्तरी और पूर्व-उत्तरी तटपर क्रिम, खोरसुन आदि नगरोंमें धनी ईसाई ग्रीक व्यापारी रहते थे, जिन्होंने वहां अच्छे-अच्छे गिर्जे बना रखे थे। व्लादिमिरने रोम-दरबार की तड़क-भड़क, उसके कला-कौशल और विचार-धारा को भी देखने-सुननेका मौका पाया था। अपने पास-पड़ोसकी गौरांग जातियोंमें इस्लामको न फैला देखकर उसकी ओर उसका आकर्षण नहीं हो सकता था। इन सामान्ती धर्मोंके मुकाबिलेमें स्लावोंका पुराना धर्म ओझा-सयाना-पुरोहितोंका धर्म था, इसमें पुराने जनयुगीन ठाकुरोंकी प्रतिष्ठा अधिक थी, जो नवजात उच्चवर्ग के लोगोंको सम्मान नहीं देना चाहते थे, जो कि उनके लिये प्राचीन कालसे सुरक्षित था। इन्हीं नये अ-कुलीन ठाकुरोंने पले ईसाईधर्मकी ओर हाथ बढ़ाया। कहा जाता है, ईगरकी विधवा ओल्गाने भी ईसाई-धर्म स्वीकार किया था, जो असंदिग्ध नहीं है। ९८७ ई० में विजन्तीन साम्राज्यके भीतर एक बड़ा विद्रोह उठ खड़ा हुआ था। इसी समय उत्तरसे दन्यूबके बुल्गारोंने भी हमला करना चाहा, जिसपर विजन्तीन सरकारने व्लादिमिरको सहायताके लिये बुलाया और ९८८ ई० में व्लादिमिरके साथ संधि की। व्लादिमिरने ग्रीक-सम्राटकी बहिन अन्नासे ब्याह करनेकी इच्छा प्रकट की। सम्राटने इस शर्तपर ब्याह करना स्वीकार किया, कि व्लादिमिर ईसाई-धर्मको स्वीकार करे। उस समय कान्स्तन्तीनोपोलमें दो सम्राट् राज्य कर रहे थे, अन्ना दोनों हीकी बहिन थी। विद्रोह-दमन करनेके उपहारस्वरूप अन्ना मिलनेवाली थी, लेकिन जब काम निकल गया, तो सम्राटोंने अपने वचनको पूरा करनेमें ढिलाई दिखानी शुरू की। इसपर व्लादिमिरने आक्रमण करके क्रिमिया प्रायद्वीपके खेर्सोनेस (खोरसोन) नगरको घेर लिया, और विजन्तीनको अपना वचन पालनेके लिये मजबूर किया। उसी समय व्लादिमिरने ग्रीक-चर्चकी पद्धतिके अनुसार बपतिस्मा ले राजकुमारी अन्नासे ब्याह किया। ९८८ ई० में खोरसोनेस रानी अन्नाके साथ कियेफ लौटने पर उसने कियेफके सारे लोगोंको जबर्दस्ती दनियेपर नदीमें

डुबकी लगवा ग्रीक-पादरियोंद्वारा उन्हें बपतिस्मा दिलवाया। धर्मान्धताके पागलपनमें पुराने स्लाव-देवताओंकी मूर्तियाँ—जो अधिकतर काठकी होती थीं—जला दी गईं। महादेवता पेहनकी एक मूर्ति दनियेपरमें फेंक दी गई। इसी तरह जबर्दस्ती बपतिस्मा दिलवा थोड़े ही दिनोंमें प्रायः सारे नागरिक रूस ईसाई बना दिये गये, लेकिन गांवोंमें पेहन-पूजकोंकी समाप्ति इतनी जल्दी नहीं हो पाई।

७. स्व्यातोपोल्क I, व्लादिमिर-पुत्र (१०१५-१९ ई०)

व्लादिमिरके मरते ही उसके पुत्रोंमें गद्दीके लिये जो भयंकर संघर्ष शुरू हुआ, उसमें स्व्यातोपोल्कने अपने भाइयों—वोरिस, ग्लेब और स्व्यातोस्लाव—को मारकर कियेफकी गद्दी ले ली। इसपर पिताके समयसे ही नवोगोरदका शासक व्लादिमिर-पुत्र यारोस्लावने नवोगोरदवालोंकी मददमें स्व्यातोपोल्कपर आक्रमण किया। स्व्यातोपोल्क हारकर अपने ससुर पोलन्दके राजुलके पाम भाग गया। दामादकी मदद करनेके लिये पोलन्द राजुल बोलेस्लाउस्ने रूसपर आक्रमण किया और पश्चिमी दुगके किनारे यारोस्लावको हरा कियेफमें दाखिल हो अपने दामादको गद्दीपर बिठाया। पोलोंन इतने हींस संतोष न कर देशमें लूट-पाट मचानी शुरू की, जिसका प्रतिरोध रूसोंने भी बहुत जोरसे किया। जब लूट-पाटकर नगरों और गांवोंमें जाड़ा बितानेके लिये पोल इकट्ठा हुये, तो लोगोंने विद्रोह करके उन्हें मार डाला। बची-खुची सेनाके साथ बोलेस्लाउस् पोलन्द भागा। पोलोंकी सहायतासे बंचित स्व्यातोपोल्कको यारोस्लाव और उसके नवभ्रादियोंके हाथ हार खानी पड़ी और भागते समय वह मारा गया।

८. यारोस्लाव I, व्लादिमिर-पुत्र (१०१९-५४ ई०)

यारोस्लाव अब कियेफ और नवोगोरदका महाराजुल बना, लेकिन अभी भी एक प्रतिद्वंद्वी उसका भाई मिस्तस्लाव मौजूद था, जोकि काकेशसके समीप तमन प्रायद्वीपमें तमूतरकानका शासक था। उसने आक्रमण करके यारोस्लावसे सेवेस्क भूमि तथा चेरनीगोफ नगरको छीन लिया। दनियेपर नदी दोनों भाइयोंकी सीमा बनी। १०३६ ई० में भाईके मर जानेपर सेवेस्क प्रदेशको फिर यारोस्लावने कियेफ-राज्यमें मिला लिया। यारोस्लावके समय ईसाई-धर्मने कियेफ-रूसोंपर पूर्ण विजय प्राप्त की, ईसाई-चर्च (धर्मसंघ) का संगठन हुआ, और कान्स्तन्तिनोपोलके महासंघराजने रूसोंके लिये एक संघ-राज नियुक्त किया। कियेफके पास पेचेस्क-मठ इसी समय बना, जिसने शासकवर्गमें शिक्षा फैलानेमें बड़ा काम किया।

कियेफ-राज्य अब युरोपके महत्वपूर्ण राज्योंमेंसे था। ग्रीक-संबंधके कारण उसका सांस्कृतिक तल भी ऊंचा हो गया था। यारोस्लाव-परिवारका संबंध अब पश्चिमी युरोपके राजघरानोंसे होने लगा था। यारोस्लावकी बहिन पोल-राजासे ब्याही थी। उसके दामादोंमें फ्रांस, नार्वे और हंगरी (मगयार) के राजा थे। यद्यपि यारोस्लावने पोलन्दकी सहायतासे सिंहासन पाया था, लेकिन अब वह इतना शक्तिशाली था, कि पोलन्दके भीतरी मामलोंमें दखल देता था। बोलेस्लाउस्के मरनेके बाद पिताके राज्यसे छीने गये गालिच प्रदेशको उसने फिर ले लिया। १०४३ ई० में उसने अपने पुत्र व्लादिमिरके नेतृत्वमें एक असफल अभियान कान्स्तन्तिनोपोलके विरुद्ध भेजा। पश्चिमकी ओर बाल्तिक प्रदेशपर जर्मन आक्रमण करने लगे थे। यारोस्लावने प्रतिरक्षाके लिये यूरियेफ (एस्तोनियामें तरतू) नगरको बसाया, और बाल्तिकके लोगोंको अपने अधीन कर लिया। उसने वोल्गाके किनारे अपने नामसे यारोस्लाव्ल नगर बसाया। दक्षिणमें पेचेनेगोसे उसका संघर्ष बराबर जारी रहा।

यारोस्लावके समयमें ही पहला कानून-ग्रंथ (विधान-संहिता) "यारेस्लाव्स्की-प्राव्दा" के नामसे संपादित हुआ, जिसपर ईसाई विजन्तीन कानूनोंका प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। इसी प्राव्दा (सत्य) द्वारा जनयुगसे चले आते खूनका बदला लेना सारी जातिके लिये आवश्यक होनेकी जगह परिवारके सदस्योंतक ही सीमित करते हुये कहा गया—“अगर कोई आदमी दूसरेको मार डाले, तो भाई का बदला भाई ले, बापका बदला पुत्र, पुत्रका बदला भाई-भतीजा-भांजा भी। अगर कोई बदला

लेनेवाला न रह जाय, तो मरे हुये आदमी के लिये चालीस ग्रिवना (दो सौ ग्रामकी चांदीकी सिल्ली) देना होगा।" यारोस्लावके पुत्रके शासनकालमें बदला लेनेके विधानको ही उठा दिया गया, और इस प्रकार जनयुगकी एक पुरानी प्रथाको सामंतयुगने समाप्त कर दिया।

सुव्यवस्थित रूसी चर्चके स्थापित हो जानेपर अब बाकायदा पुस्तकें भी लिखी जाने लगीं, बाइबल तथा दूसरे धार्मिक ग्रंथोंके साथ-साथ ग्रीक इतिहास-ग्रंथोंका अनुवाद करते, रूसी लिखित साहित्यका आरंभ किया गया। यारोस्लावके समयमें ही रूसका इतिहास लिखनेका प्रथम प्रयत्न किया गया, जिसे कि उसके मरनेके बाद पेचेर्स्क-मठने संपादित किया। इसको "आरंभिक-इतिहास" (नचलनया लेतोपिस्) कहते हैं। इसमें राजुलोंकी जीवनियां, और बहुत-सी कहानियां जमा की गई हैं। मूल पुस्तक अपने १११६ और १११८ के संशोधित संस्करणोंके रूपमें "पुराने वर्षोंका इतिहास" के नामसे अब भी मौजूद है। यारोस्लावके समयमें ही कियेफमें ग्रीक वास्तु-शास्त्रियोंकी देख-रेखमें सोफिया-गिर्जे का निर्माण हुआ। विजन्तीन ढांचेको लेते हुये भी इसमें रूसी वास्तुकलाका सम्मिश्रण किया गया। ११ वीं शताब्दीकी रूसी कलाकी यह सर्वोत्कृष्ट इमारत है। गिर्जेके भीतरकी दीवारोंपर सुन्दर भित्ति-चित्र और फर्श-पर बढ़िया पच्चीकारीका काम है। उस समयके विदेशी यात्री कियेफके वैभवको देखकर उसे "कान्स्तान्तिनोपोलका प्रतिद्वंद्वी" कहते थे। कियेफके नमूनेको लेकर यारोस्लावके पुत्र व्लादिमिरने नवो-गोरदमें भी उसी तरहका सोफिया-गिर्जा बनवाया।

आर्थिक ढांचा—यह कह चुके हैं, कि ९वीं शताब्दीसे पहले रूस कृषिजीवी थे, यद्यपि नगरों और दूनियेपर-उपत्यकासे दूरके जंगलोंमें रहनेवाले अब भी पशुपालनपर अधिक निर्भर करते थे। अभी भी उनका राजनीतिक ढांचा बहुत-कुछ जनयुगीन था, और राजुलोंको अपने लोगोंकी रायका बहुत ख्याल रखना पड़ता था। न पसंद आनेपर लोग साफ जवाब देते थे—“राजुल, हम तो नहीं जाते, तू अपनी लड़ाई जाके लड़।” लेकिन ११ वीं शताब्दीमें पहुंचते-पहुंचते जनयुगीन ढांचेके स्थानपर सामंती ढांचा कायम हो गया था, जिससे जहां सामंतोंकी शक्ति बढ़ी, वहां साधारण जनतामें सांपत्तिक विषमता भी बढ़ी। कुछ लोगोंके पास भूमि और संपत्ति अधिक आ गई, और इस प्रकार बहुत खेतोंवाले धनी जमींदारोंका एक वर्ग पैदा हो गया, जिन्हें **बायर** कहा जाता था। ये राजुलोंके बड़े सहायक थे। इनके अतिरिक्त मठोंके पास भी बहुत धन-धरती हो गई। उनके महंत भी बायरोंकी तरह राजुलोंके समर्थक थे। अबतक धरतीपर जो वैयक्तिक नहीं बल्कि पंचायती अधिकार चला आता था, वह खतम होने लगा। बड़े-बड़े शहरोंके आसपास राजुलों, बायरों और मठोंके गांव बस गये थे। दास अभी तक लूटकर बँचनेके ही काममें आते थे। खेतोंमें काम करनेके लिये गरीब किसान और मजदूर ज्यादा लाभदायक समझे जाते थे, जिन्हें कि कर्ज खिला या दूसरी तरहसे जमींदार अपना बंधुवा बना लेते थे। लेकिन अभी ११वीं शताब्दीमें भी अधिकांश किसान समूहबद्ध होकर रहते राजुलोंको केवल कर दे दिया करते थे। ११ वीं शताब्दीके अन्ततक यह स्वतंत्र किसान-समूह बहुत-कुछ अपने अधिकार खो चुके थे। बहुत दबानेसे जातीय स्वतंत्रताकी भावना जब कभी जाग उठती, तो वह राजुलों और बायरोंके खिलाफ विद्रोह कर उठते, या अन्यत्र भाग जाते। भागा हुआ किसान पकड़नेपर दास बना दिया जाता।

“रूसक्या प्राव्दा”—यारोस्लावके समय निर्मित विधान (प्राव्दा) के आधारपर ही उसके पुत्रों और पौत्रोंके समय “रूसक्या प्राव्दा” (रूसी विधान) के नामसे एक विधान-संहिता बनी, जिसमें उन विधानोंको खासतौरसे स्थान दिया गया, जिनके द्वारा जनसाधारणको जमींदारों (बायरों) और सामंतों की संपत्तिपर हाथ बढ़ानेसे रोका जाता था—खेतकी मेंड तोड़ने और पशुओंके चुराने आदिके अपराधमें जुर्मानोंका विधान किया गया। बायरका अपने दास और अर्धदास रियायापर क्या अधिकार है, इसे भी उसमें बतलाया गया। जनयुगसे खूनके बदलेमें खूनीसे सारे कबीलेको बदला लेनेका जो अधिकार चला आता था, और जिसे यारोस्लाव-प्राव्दाने केवल परिवारके व्यक्तियोंतक ही सीमित कर दिया था, उसकी जगह अब “रूसक्या प्राव्दा” ने “विरा” (अर्थदंड) का विधान करते उसका परिमाण चालीस ग्रिवना निश्चित कर दिया—बायरको मारनेपर यह जुर्माना दूना (अस्सी ग्रिवना) देना पड़ता, लेकिन

दासके मारनेपर विरा न दे केवल दास-स्वामीको पचास भिबना दे देना पर्याप्त समझा जाता था। "रस्कया प्राव्दा"में यह भी कहा गया है—“अगर किसी आदमीपर तलवारसे प्रहार किया गया हो लेकिन वह मरा न हो, तो तीन भिबना जुर्माना, और घावकी चिकित्साके लिये आहत आदमीको एक भिबना पानेका अधिकार होगा। अगर एक दांत तोड़दिया गया हो और मुंहसे खून निकला हो, तो जुर्माना बारह भिबना और दांतके लिये एक भिबना देना होगा।” मधु अब भी आयका एक अच्छा साधन समझी जाती थी और चीनी-गुड़के अभावमें रूसोंके लिये वही एकमात्र मिठाईकी चीज थी। शराब बनानेमें भी उसका बहुत व्यवहार होता था, इसीलिये “रस्कया प्राव्दा” ने विधान किया था—“अगर कोई आदमी ऐसे वृक्षको काटे, जिसमें जंगली मधु-मक्खियां रहती हों, तो तीन भिबना जुर्माना और आधा भिबना वृक्षका (दाम) देना होगा।”

पहले चीजोंके विनिमयका माध्यम जंगलके इलाकोंमें पशु-चर्म और खेतवाले इलाकोंमें पशु था। इसीलिये पुराने समयमें पैसोंको “स्कोत” (पशु) या “कुनी” (चर्म) कहते थे। रूसोंके पास अपना सिक्का नहीं था। अरबों, ग्रीकों या पश्चिमी युरोपवालोंके सिक्के उस समय रूसोंमें भी चला करते थे। ११ वीं शताब्दीके आरंभसे ग्रीक सिक्कोंकी नकल करते कियेफ रूसोंने भी थोड़ेसे अपने-अपने सिक्के टाँके, जिनके ऊपर राजुलका चेहरा बना रहता—सिक्कोंका रवाज अधिकतर नगरोंमें था।

९. इज्यास्लाव, यारोस्लाव-पुत्र (१०५४--७३ ई०)

यारोस्लावके मरनेके थोड़े ही दिनों बाद रूसोंकी एकता भंग होने लगी और यारोस्लावके पुत्र स्वतंत्र रूपसे अपने-अपने प्रदेशोंपर शासन करने लगे। सबसे बड़ा लड़का इज्यास्लाव कियेफ और नवी-गोरदका स्वामी बना। दनियेपरके बणिकपथपर ये दोनों बहुत महत्त्वपूर्ण नगर थे, इसलिये इज्यास्लावका स्थान बहुत महत्त्व रखता था। दूसरे पुत्र स्व्यातोस्लावको चेर्निगोफका इलाका मिला और व्सेवोदको पेरेयास्लाव्ल और रोस्तोफ-सुज्दल। दूसरे इलाके दूसरे राजकुमारोंके हाथोंमें चले गये। पहले तीनों बड़े लड़के आपसमें मेलसे रहते, मिलकर शत्रुओंसे देशकी प्रतिरक्षा करते थे, कभी-कभी इकट्ठा होकर राजकाजकी बातोंमें सलाह भी करते थे। १०६८ ई० में जब कियेफके कारीगरों और किसानोंने विद्रोह किया, तो उन्होंने इकट्ठा होकर अपने बापकी “प्राव्दा” का संशोधन और परिवर्धन किया। यारोस्लावके पुत्रोंके सबसे भयंकर शत्रु थे तुर्कजातीय पोलोवत्सी—अपनी भाषामें इनका नाम दूसरा ही होगा, लेकिन रूसी उन्हें इसी नामसे पुकारते थे। यारोस्लावके शासनके खतम होनेके समय ११ वीं शताब्दीके मध्यमें ही पूरबसे आकर पोलोवत्सियोंने आक्रमण करके कालासागरके उत्तरवाली मैदानी भूमिपर अधिकार कर लिया और वहां रहते पेचेनेगोंको पश्चिममें दन्यूबकी ओर भगा दिया। पोलोवत्सी घुमंतू पशुपाल थे। उनके बहुतसे छोटे-छोटे कबीले थे, जिनके अपने-अपने खान (राजा) हुआ करते थे। पशुओंपर निर्भर होनेके कारण वह एक जगहसे दूसरी जगह घूमा करते और समय-समयपर रूसोंकी भूमिपर चढ़ाई कर उनके पशुओं और पुरुष-स्त्रियोंको पकड़कर लौट जाते। उनका आक्रमण बड़ा ही भयंकर और अचानक होता। ग्रीक लेखक उनके बारेमें कहते हैं—“पोलोवत्सी पलक मारते-मारते प्रकट होकर लुप्त हो जाते हैं। आक्रमण खतम होते ही लूटके मालसे लदे अपने घोड़ोंको कोड़ोंमें मारते वह आंधीकी तरह निकल जाते हैं, मानो वह उड़ती हुई चिड़ियाको पकड़ना चाहते हैं। तुम्हारे आंख उठाकर देखनेसे पहले ही वह निकल चुके रहते हैं।” १०६८ ई० में इज्यास्लाव अपने दोनों भाइयों स्व्यातोस्लाव और व्सेवोदके साथ पोलोवत्सियोंको दबानेके लिये गया, लेकिन युरी तरहसे हारकर उन्हें युद्ध-क्षेत्रसे भागना पड़ा। इज्यास्लाव कियेफ पहुंचा। पोलोवत्सियोंके आक्रमणों और लूटमार से संतस्त किसानोंने इकट्ठे हो इज्यास्लावसे मांग की, कि हमें हथियार दो और साथ चलकर शत्रुओंसे लड़ो। इज्यास्लावको भय लगने लगा, कि कहीं वह हथियार मेरे ही विकर न उठाये जायं। उसके इन्कार करनेपर लोगोंने राजुलके महलको लूट और बरबाद कर, उसकी जगह उसकेद्वारा जेलखानेमें बंद कोलोत्सके राजुल व्सेस्लावको मुक्त कर कियेफका राजुल घोषित किया। इज्यास्लाव भागकर पोल्व पहुंचा, जहांसे पोल राजा वोलेस्लावकी सहायता ले कियेफ लौटा। व्सेस्लाव विश्वासघात करके

चूपचाप रातको पोलोत्स्क भाग गया। इज्यास्लावने लोगोंसे भारी खूनी बदला लिया। पोल सैनिक कियेफ राज्यके नगरोंमें जगह-जगह छावनी डालकर रहने लगे। उन्होंने अपने अत्याचारोंसे इतना तंग किया, कि लोगोंने जानपर खेलकर उनकी हत्या कर डाली।

पोलोवत्सी जैसे जबर्दस्त शत्रु सिरपर थे, तो भी यारोस्लावके बेटोंकी एकता देरतक नहीं रह सकी। विदेशियोंसे मदद लेकर इज्यास्लावने फिरसे सिंहासनपर अधिकारकर जनताके ऊपर जो अत्याचार किये, उनसे लोगोंमें उसके प्रति भारी घृणा पैदा हो गई। इससे फायदा उठाकर १०७३ ई० में स्व्यातोस्लाव और व्सेवोलदने आक्रमण करके इज्यास्लावको कियेफसे भगा दिया। अब स्व्यातोस्लाव कियेफकी गद्दीपर बैठा।

स्व्यातोस्लाव, यारोस्लाव-पुत्र (१०७३--१११३ ई०)

स्व्यातोस्लाव थोड़े ही दिनोंतक भाईको सिंहासनसे वंचित रख सका। इज्यास्लाव भागकर जर्मन-सम्राट् और रोमके पोपके पास मदद मांगने गया, और अंतमें पोलोंकी मददसे उसने फिर अपने सिंहासनको प्राप्त किया, लेकिन वह थोड़े ही समय बाद अपने भतीजोंसे लड़ते हुये मारा गया।

यारोस्लावके पौत्रोंमें भी बराबर संघर्ष जारी रहा—कभी कोई किसीको भगाता और कभी कोई फिरसे अपने राज्यको प्राप्त करता। आपसकी लड़ाई और पोलोवत्सियोंके आक्रमणोंसे देशकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। इसीलिये १०६७ ई० में कुछ प्रभावशाली राजुलोंने ल्यूबेकमें जमा होकर सोचा—“हम क्यों रूस-भूमिको नष्ट कर रहे हैं?” उन्होंने कहा—“हम आपसमें एक दूसरेके साथ विश्वासघात करनेका उपाय सोच रहे हैं। पोलोवत्सी हमारे देशका तहस-नहस करते इस बातसे प्रसन्न हैं, कि हम आपसमें लड़ रहे हैं। आओ, आजसे हम मेलसे रहें।” उन्होंने अंतमें यह निश्चय किया, कि हरएक राजुल अपने पैतृक राज्यको अपने पास रखे। अब कियेफ इज्यास्लावके पुत्र स्व्यातो-पोल्कके हाथमें रहा।

१०. स्व्यातोपोल्क II, इज्यास्लाव-पुत्र

जब एक दूसरेके हित परस्परविरोधी हों, तो इस तरहके भावुकतापूर्ण आदर्शवादी फैसले देर तक कैसे माने जा सकते थे? हमने भिन्न-भिन्न देशोंमें ऐसे अवसरोंपर राजुलों और राजाओंकी परिषदें होतीं, और उन्हें अच्छे निर्णयों पर पहुँचते देखा है। पर आर्थिक स्वार्थोंकी चट्टानोंके ऊपर उनके चकनाचूर होते भी देर नहीं लगती। स्व्यातोपोल्कको कियेफका अधिकार मिला और उसके चचेरे भाई व्लादिमिरको उसके पिता व्सेवोलदका पेरयास्लाव राज्य मिला।

११. व्लादिमिर मनोमाख, व्सेवोलद-पुत्र (१११३-२५ ई०)

व्लादिमिर विजन्तीन-सम्राट् कान्स्तन्तिन मनोमाख का धेवता था। इस सम्बन्धका उसे अभिमान भी था, इसीलिये वह व्लादिमिर मनोमाख (एक-राजा) के नामसे प्रसिद्ध हुआ। परिषदके उठते देर नहीं हुई, कि फिर राजुलोंमें झगड़ा शुरू हो गया। स्व्यातोपोल्कने अपने एक राजुल भाई वासिल्कोको धोखेसे पकड़कर उसके प्रतिद्वंद्वी दाविद ईगर-पुत्रके हाथमें दे दिया, जिसने उसे अन्धा करके जेलमें डाल वासिल्कोके नगरोंपर अधिकार कर लिया। इसपर व्लादिमिर मनोमाखने दूसरे राजुलोंका नेतृत्व करके वासिल्कोके छुड़ानेके लिये आक्रमण कर उसे मुक्त कर दिया। ११०० ई० में राजुलोंकी दूसरी परिषद् हुई, जिसमें उन्होंने दाविदको व्लादिमिरके सिंहासनसे वंचित कर दिया। आपसी संघर्षके समय पोलोवत्सियोंकी खूब बन आई, और वह रूसकी भूमिमें बहुत भीतरतक लूट-मार करने लगे। परिषद्में मनोमाखने मिलकर पोलोवत्सीके खिलाफ अभियान करनेका प्रस्ताव किया, जिसे मानकर सभी रूसी राजुलोंने व्लादिमिर मनोमाखके नेतृत्वमें पोलोवत्सीके ऊपर चढ़ाई की। सामूहिक शक्तिके सामने पोलोवत्सी बुरी तरहसे हारे, और विजेता रूस ढोरों, घोड़ों, ऊंटों, लूटके माल तथा बन्दिधोंके साथ लौटे। ११११ ई०में उन्होंने फिर एक अभियान किया, जिसमें वह पहलेसे भी अधिक सफल रहे।

स्व्यातोस्लाव १११३ ई० में मरा, उसके बाद ही कियेफमें विद्रोह उठ खड़ा हुआ, जो नगरसे दीहातमें फैलने लगा। साधारण जनताके इस विद्रोहका कारण बायरों और सूदखोरोंका अत्याचार था। विद्रोहियोंने शहरमें उनके घरोंको लूटकर नष्ट-भ्रष्ट किया। इसके कारण बायर, महन्त और छोटे-मोटे सामन्त डरने लगे। कियेफके धनियोंने व्लादिमिर मनोमाखके पास संदेश भेजा—“आओ राजुल, कियेफमें। अगर तुम नहीं आओगे, तो यह समझ रखो, कि और भी बहुत दुरी वानें होंगी—साधारण लोग बायरों और मठोंको तंग करेंगे।”

व्लादिमिरने अपने अनुचरोंसहित आकर विद्रोहको दबा दिया, लेकिन केवल बलपूर्वक दबानेसे काम नहीं चल सकता था, इसलिये उसने जनसाधारणके ऊपर होने अत्याचारोंको भी कम किया। कियेफले लेनेके बाद व्लादिमिरने देशको और अधिक खिल-भित्त हानिमें बचाना चाहा, और दूसरे राजुलोंको अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया। जो नहीं मानते, थे, उन्हें उनके नगरोंसे वंचित करनेकी उसमें क्षमता भी थी, इसलिये सभी राजुलोंने उसे अपने ऊपर माना। व्लादिमिरने एक बार फिर अपने पुरखोंके वैभवको स्थापित कर दिया। युरोपके दरबारोंमें भी व्लादिमिरकी बड़ी धाक थी। ग्रीक-साम्राट् कान्स्टन्टिन मनोमाख उसका नाना ही था। उसकी एक पोती एक ग्रीक राजकुमारसे ब्याही थी। व्लादिमिरकी बहिन जर्मन-साम्राट्से ब्याही थी, और व्लादिमिर स्वयं इंगलिश-राजाका दामाद था। उस समय विजन्तीन-राज्यमें जो गृह-कलह चल रहा था, उसमें भी उभने दखल दिया। व्लादिमिरकी सेना दन्यूबके किनारेतक पहुंची, और वहां अपने दावेको प्राचीन रूग-भूमि (इस्माईल) पर स्थापित किया।

व्लादिमिर बड़ा ही निर्भीक और बहादुर पुरुष था। उसने अपने पुरखोंको फटकारने हुए एक बार लिखा था—“अपनी जान बचानेके लिये शत्रुके सामनेसे मैं कभी नहीं भागा और खतरेका सदा निर्भयतापूर्वक सामना करता था। बच्चो, न तुम सेनासे डरो और न पशुसे। तुम्हारा काम पुरुषोचित होना चाहिये।...मैंने रात या दिन, सर्दी या गर्मी कभी अपनेको आराम लेने नहीं दिया।” वह शिकारका बड़ा शौकीन था, जिसमें कई मर्तबे उसने अपनेको खतरेमें डाला। दो मर्तबे जंगली बैलने उसे अपनी सींगपर उठा लिया, एक बार हरिनने सींगमें घायल किया, एक बार एक जंगली सूअरने उसकी बगलसे लटकती तलवारको तोड़ दिया, एक भानूने उसके कपड़ोंको फाड़ डाला और एक भयंकर जानवरने एक बार हमला करके उभे और उसके घोड़ेको गिरा दिया।

व्लादिमिर केवल एक निर्भीक योद्धा ही नहीं बल्कि शिक्षित पुरुष भी था। राजपरिवारमें शिक्षा और संस्कृतिका अधिक प्रसार होनेसे उसे भी शिक्षित होना ही था। उसका पिता व्सेवोलद एक शिक्षित व्यक्ति था, जो पांच विदेशी भाषाओंको जानता था। स्वयं सुशिक्षित व्लादिमिरने विद्याके महत्त्वको दिखलाते हुए एक बार अपने पुरखोंको लिखा था—“जो तुम जानते हो, उसे न भूलो, और जो नहीं जानते, उसे पढ़ो।” वह बड़ा स्वाध्यायप्रेमी था। अपनी सैनिक यात्राओंमें भी वह सदा अपने पास पुस्तकें रखता था। उसने “बच्चोंकी शिक्षा”के नामसे एक दिलचस्प पुस्तक लिखी थी।

व्लादिमिर कियेफ-रूसके शासनकी अन्तिम चकाचौंध करनेवाली ज्योति था। देशमें जो विस्तार प्रारम्भ हो गया था, उसे व्लादिमिर थोड़े ही समयतक रोक सका। उसके मरते ही फिर रूस-भूमि अनेक छोटी-छोटी रियासतोंमें बंट गई, जगह-जगह स्वतंत्र राजुल शासन करने लगे। इनमेंसे कुछ महत्त्वपूर्ण रियासतें थीं—कियेफ, चेरनीगोफ, गालिव, स्मोलैन्स्क, पोलोत्स्क, तुरोफ-पिन्स्क, रोस्तोफ-सुज्दल, र्याजन्, नवोगोर्द और व्लादिमिर-वोल्हुन्स्क। ये सभी राजुल स्व्यातोस्लाव-पुत्र व्लादिमिरके वंशज थे। कियेफ अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखता था, इसलिये वह राजुलोंकी छोना-झपटीका बराबर अखाड़ा बना रहा। सैनिक जीवनसे अनभ्यस्त विलासी राजुल अब कियेफका कोई मान नहीं रखते थे। जहां व्लादिमिर मनोमाख अपने घोड़े, वाज और रसोईका भी काम

अपने नौकरोंपर न छोड़ अपने हाथों करनेके लिये तैयार रहता, वहां इन राजुलोंका जीवन आरामपसंदीका था। इन्हीं बातोंके कारण राजुलोंकी शक्ति भी कम हो गई, और धनी बायर अब राजुलोंको अपनी बात माननेके लिये मजबूर कर सकते थे, इसीलिये हर बातमें वह उनकी सलाह लेते थे। राजुल अगर कोई बात अपने योद्धाओंकी सम्मति बिना करते, तो वह जवाब देते—“राजुल, तूने हमारी रायके बिना यह निश्चय किया, इसलिये हम तेरे साथ नहीं जायेंगे।” इस समय पुराने समयकी प्रभावशालिनी संस्था ‘वेचे’ (पंचायत) का भी महत्त्व बढ़ गया था—वेचे नागरिकोंकी पंचायत थी, जिसपर बायरों और धनी नागरिकोंका भारी प्रभाव था। जब किसी बातका निर्णय करना होता, तो घंटा बजाकर या चिल्लाकर नागरिकोंको वेचे (सभा) के लिये जमा किया जाता। अगर वेचे प्रस्तावको स्वीकार करती, तो लोग चिल्लाकर कहते—“हम सब चलेंगे और हमारे बच्चे भी।” लेकिन कभी-कभी नगरके लोग राजुलकी लड़ाईमें शामिल नहीं होना चाहते, तब कहते—“राजुल, मेल करो, नहीं तो अपनी विपता आप संभालो।” इस प्रकार १२ वीं शताब्दीमें कोई राजुल वेचेकी रायके बिना किसी शत्रुके साथ युद्धसे अपनी प्रतिरक्षा करनेकी हिम्मत नहीं रखता था। राजुलके सिंहासनपर बैठनेके समय वेचे पहिले उससे अपनी शर्तें मनवाती। ऐसे भी अवसर आयें, जब कि नापसन्द होनेपर वेचेने राजुलको निकाल बाहर किया और किसी दूसरे राजकुमारको यह कहकर निमंत्रित किया—“आ राजुल, हम तुझे चाहते हैं।”

उस समय एक तरफ वेचेका अधिकार बढ़नेसे बायरों और धनिक नागरिकोंके हाथोंमें अधिक शक्ति आ गई थी, तो दूसरी तरफ बाहरी शत्रुओंसे अच्छी तरह मुकाबिला करनेके लिये रूसमें कोई मजबूत संगठित शक्ति नहीं रह गई थी। इसी समयकी स्थितिमें एक अज्ञात कवि ने “ईगर-सेना-गाथा” लिखी थी।

ईगर-सेना-गाथा—कालासागरके उत्तर एक मंगोलायित घुमंतू कबीला पोलोवत्सी ९वीं-१०वीं शताब्दी में रहता था। कियेफ-रूसोंके साथ इसका बहुत दिनोंतक संघर्ष रहा। रूसी भाषाका आदिकाव्य “ईगर-सेना-गाथा” इन्हीं संघर्षोंके संबंधमें लिखा गया है। पोलोवत्सी इतने प्रबल थे, कि रूस उनसे अपनी रक्षा करनेमें असमर्थ थे, जिसका एक कारण यह भी था कि, रूस स्वयं बहुतसे छोटे-छोटे टुकड़ोंमें बंटे थे, जिनमें आपसमें बराबर लड़ाई होती रहती थी। पोलोवत्सी जब हमला करने आते, तो काफी प्रतिरोध नहीं कर सकते थे। इन युद्धोंका सबसे ज्यादा सत्यानाशी प्रभाव गांवोंके किसानों-पर पड़ता था। “सभी नगर और गांव निर्जन हो गये थे। हम उन खेतोंपरसे गुजरे, जिनमें कभी घोड़ों और ढोरोंके झुंड तथा भेड़ोंके गल्ले चरा करते थे। लेकिन, वहां सभी चीजें वीरान पड़ी थीं। अनाजके खेतोंमें जंगल जम गया था, जिसमें वन्य पशु रहा करते थे।” पुराने इतिहास-लेखकका कथन पोलोवत्सी-आक्रमणोंके असरको बतलाता है। पोलोवत्सी भारी संख्यामें रूसोंको बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे। “आफतके मारे, भूख-प्याससे काले पड़े वे अभाग्य अपरिचित देशकी ओर वस्त्रहीन नंगे पैर कदम बढ़ा रहे थे। उनके पैर कांटोंसे छिल गये थे। आंखोंमें आंसू भरकर वह एक दूसरेसे कहते थे—“मैं अमुक और अमुक नगरका हूँ।” दूसरा जवाब देता—“मैं अमुक और अमुक दीहातका हूँ।” रूसी भाषाके इस कलापूर्ण अमर लघु-काव्यमें राजकुमार ईगरका पोलोवत्सी घुमंतुओंके साथके संघर्षका वर्णन है। १२ वीं शताब्दीके अंतमें किसी अज्ञात लेखकने इसे लिखा था। सेवेर्स्क राजुलोंने तंग आकर पोलोवत्सीके खिलाफ अभियान किया, जिसका नेता राजुल ईगर स्व्यातोस्लाव-पुत्र था। जब रूस-राजुलोंसे उसने अपने साथ आ मिलनेके लिये कहा, तो सेवेर्स्क राजकुमारोंने इंकार कर दिया। पीछे उन्होंने अपना स्वतंत्र अभियान किया, जिसमें वह बुरी तरहसे हारे, ईगर बंदी हुआ। कविने रूस-भूमिके महान् वीरके तौरपर ईगरका चित्रण किया है—“सैनिक उमंगोंसे भरे उसने अपने सैनिकोंका नेतृत्व करते हुये रूस-भूमिकी रक्षाके लिये पोलोवत्सियोंके ऊपर अभियान किया।” ईगरने अपने सैनिकोंसे कहा—“भाइयो और योद्धाओ ! बंदी बननेसे मर जाना अच्छा है। मैं चाहता हूँ अपने भालेको पोलोवत्सी मैदानके छोरसे तोड़ डालूँ। रूसजन ! मैं चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपने सिरको गिरा

आनाकानी नहीं करता था, शायद इसीलिये उसका नाम “दोलगोरुकी”—दीर्घबाहू पड़ा। जहाँ पीछे मास्को नगर बसा, वहीं बायर कुचकाका गांव था। यूरीने उस गांवको ले मास्को नदीके किनारे वहीं अपने लिये एक महल बनाया, जहाँपर ११४७ ई०में उसने अपने मित्र चेर्नीगोफके राजुलका स्वागत किया था। यह गांव सुज्दल और चेर्नीगोफ दोनों रियासतोंकी सीमापर था। यूरीने पहले मास्कोके चारोंतरफ एक लकड़ीकी दीवार बनवाई, जिसे ११५६ ई० में दुर्गके रूपमें परिणत कर दिया। यूरी अपने समयका सबसे अधिक शक्तिशाली रूसी राजुल था। उसने वोल्गा-तटवाले बुल्गारोंको कई बार लड़ाईमें हराया और पुराने नगर नवोगोरदको अपने राज्यमें मिला लिया। कियेफपर भी अधिकार करके कियेफ-राजुल बनकर वह ११५७ ई० में मरा।

१३. अन्द्रेइ बोगोल्युबोव्स्की, यूरी-पुत्र (११५७-७४ ई०)

यूरीके पुत्र अन्द्रेइके शासनकालमें रोस्तोफ-सुज्दलकी शक्ति और बढ़ी। उसने पड़ोसके कितने ही राजुलोंको अपना सामंत बनाया। ११६९ ई० में उसने अपने सामन्तोंकी सेनाके साथ कियेफ-पर आक्रमण किया और तीन दिनोंतक उस प्राचीन नगरीको लूटा। अगले साल अन्द्रेइने नवोगोरदके ऊपर अपनी सेना भेजी, लेकिन नवोग्रादियोंने उसे बहुत हानि उठाकर खाली हाथ लौटनेके लिये मजबूर किया। नवोगोरद अन्नके लिये सुज्दलपर निर्भर था। अन्द्रेइने वहाँ अन्नका जाना रोक दिया, जिसके कारण नवोगोरद आत्मसमर्पण करनेके लिये मजबूर हुआ। ११६९ ई० की लूट और ध्वंसलीलाके बाद कियेफ शताब्दियोंतक संभल नहीं सका, लेकिन सुज्दल-राज्यका नगर व्लादिमिर अन्द्रेइकी राजधानी बनकर खूब फलने-फूलने लगा। अन्द्रेइने अपनी नई राजधानीका निर्माण पश्चिमी युरोपके कलाकारों और वास्तु-शास्त्रियोंके परामर्शानुसार बड़े भव्यरूपमें किया। इसी समय व्लादिमिरमें प्रसिद्ध उपेन्स्की गिर्जा बनाया गया, जिसके चित्रोंमें पाश्चात्य कलाका प्रभाव दिखाई पड़ता है। व्लादिमिर नगरके पास बोगोल्युबोवो (भगवत्-प्रिय) उसकी दुर्गबद्ध जमींदारी थी, जहाँपर अन्द्रेइ अक्सर रहा करता था, इसीलिये उसको “बोगोल्युबोव्स्की” कहा जाने लगा। वह बायरोंकी शक्तको बढ़ते नहीं देखना चाहता था, इसीलिये उसने कुचका जैसे कितने ही बायरोंको मार भगाया और अपने दरबारियोंमें साधारण जनकों रक्खा। लोग कहते थे—“राजुलकी जमींदारीमें घासके चप्पलमें घूमना बायरकी जमींदारीमें सुन्दर जूता पहनके घूमनेसे अच्छा है।” अन्द्रेइने जनसाधारणसे आये अपने दरबारियों और नगर-निवासियोंकी सहायताके आधारपर रूसी रियासतोंको संगठित करनेकी कोशिश की, लेकिन अभी उनके आर्थिक संबंध इतने दृढ़ नहीं थे, कि यह संगठन मजबूत होता। इसीलिये बायरोंका उच्छेद करना उसके लिये संभव नहीं हुआ। तो भी बायरोंको वह बहुत असंतुष्ट कर चुका था। उन्होंने षड्यंत्र करके ११७४ ई० में बोगोल्युबोवोके प्रासादमें चुपकेसे घुसकर अन्द्रेइको मार डाला। इसके बाद भारी लूट-पाट मची। बायर बहुत नाराज थे। वह केवल अन्द्रेइकी हत्यासे ही संतुष्ट नहीं हुये। उन्होंने उसके भाइयोंको भी वंचित करके उसके भतीजोंको शासन करनेके लिये निमंत्रित किया। लेकिन व्लादिमिरके नागरिकों और अन्द्रेइके छोटे दर्जेके अनुचरोंने बायरोंकी बात माननेसे इन्कार कर दिया। बायरोंने धमकाया—“हम व्लादिमिरको जलाकर खाक कर देंगे या वहाँ अपने पसदन्क (नगरपाल) अनुशासन करने के लिये भेजेंगे।” तो भी वह अपने मनोरथमें सफल नहीं हुये। नागरिकों और साधारण जनताकी सहायतासे अन्द्रेइका भाई व्सेवोलद यूरी-पुत्रने बायरोंको हराकर उन्हें अपनेको राजुल स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया।

१४. व्सेवोलद, यूरी-पुत्र (११७६-१२१२ ई०)

व्लादिमिर (कल्याणमातटी) राजधानी बननेके बाद अब रोस्तोफ-सुज्दल राज्यका नाम व्लादिमिर राज्य हो गया। व्सेवोलदने “व्लादिमिर-महाराजुल”की उपाधि धारण की। उसने नवोग्रादवालोंसे अपने पुत्रों और भतीजोंको शासकके तौरपर स्वीकर करवाया। स्मोलेन्सकके राजुलोंने भी उसकी अधीनता स्वीकार की। र्याजनके न माननेपर राजुलको जेलमें डाल अपने पुत्रको वहाँ

ले जाकर बैठा दिया। जब लोगोंने इसका विरोध करना चाहा, तो उसने र्याजनका बहुत तहस-नहस किया। उसकी इतनी तत्परता देखकर भी "ईगर-सेना-गाथा" के कविने व्सेवोलदके लिये कहा—

“महाराजुल व्सेवोलद अपनी नावोंके पतवारोंसे,
तू वोल्गाके पानीको बिखरा नहीं सकता,
और न अपने सैनिकोंके शिरस्त्राणोंसे दोनको उलीच सकता।”

वोल्गाके बुल्गार अब भी शक्तिशाली थे, जिनसे व्सेवोलदने कई लड़ाइयां लड़ीं। पोलोवत्सीके खिलाफ भी उनकी भूमिमें उसने एक बहुत बड़ा अभियान किया। व्सेवोलदने सुदूर गुरजी (जाजिया) के राजाके साथ संबंध स्थापित किया और वहाँके कारीगरोंको बुलवाकर राजधानीमें दमित्रोफ़ गिर्जि बनवाया। व्सेवोलद पिताकी तरह ही बायरोसे घृणा करता था। अपने बहुतसे पुत्रोंके कारण लोगोंने व्सेवोलदका नाम "बोल्शोये ग्नेज़दा" (भूरिशः कुलाय) रख दिया था। व्सेवोलदके मरनेके बाद उसके हर एक पुत्रको अलग-अलग ठकुराइयां मिलीं, जिनकी संख्या पुत्रोंके समय पांच और पौत्रोंके समय बारह हो गई। इनमें परिवारके ज्येष्ठ व्यक्तिको व्लादिमिर नगरका राज्य तथा "व्लादिमिर-महाराजुल" की उपाधि मिलती।

१५. यूरी व्सेवोलद-पुत्र (१२१२-१२३८ ई०)

व्सेवोलदके मरनेके बाद व्लादिमिरके राजुलोंने ओका और मध्य-वोल्गाके बीचमें रहनेवाले रूसी-भिन्न जातियोंकी भूमिको हड़पना शुरू किया। केवल मोर्दावी कितने ही समयतक और अपनी स्वतंत्रता कायम रख सके। महाराजुल यूरीने १२२१ ई०में ओका और वोल्गा नादियोंके संगमपर निज़नीनवोगोरद (निचला नवोगोरद, वर्तमान गोर्की) नगर और दुर्गकी स्थापना की। यहाँसे रूसी राजुल मोर्दावियोंकी भूमिमें लूट-मार करते थे। मोर्दावियोंने अपने राजा पुरगसके नेतृत्वमें जबर्दस्त प्रतिरोध किया और एक बार उन्होंने निज़नीनवोगोरदपर आक्रमण करके उसकी बाहरी बस्तियोंको जला दिया।

यूरीको प्रभुता दिखलानेका अब मौका नहीं रह गया था, क्योंकि गद्दीपर बैठनेके समय (१२१२ ई०) जो मंगोल तूफान सुदूर चीनमें अपनी प्रलयलीला मचा रहा था, वह अब उसके घरमें पहुँच गया। यूरी अपनी सेनाके साथ वोल्गाके उत्तरमें सित नदीके करीब वोल्गाकी एक शाखाके किनारे एक बड़े मैदानमें पड़ा हुआ था। उसको खबर मिली, कि बुल्गार राजधानीको मंगोल नष्ट-भ्रष्ट कर चुके। मंगोलोंका मुकाबिला करनेके लिये रूसी राजुलोंका एक होना आवश्यक था, जिसके लिये वह तैयार नहीं थे। र्याजन मंगोलोंका पहला शिकार होना था, जिसके बाद यूरीकी बारी थी, लेकिन यूरीने र्याजनको सहायता देनेसे इन्कार कर दिया। मंगोलोंने र्याजनको दखलकर उसको भूमिसान् कर दिया। फिर व्लादिमिरपर आक्रमण करके उसे नष्टकर आसपासकी ठकुराइयोंके लोगोंको अपनी तलवारोंसे घासकी तरह काट डाला। एक महीनेके भीतर उन्होंने १४ नगरोंको दखल किया और जलाया, मास्को भी जिनमेंसे एक था। अब (१२३८ ई०) में बा-तूके मंगोल सित नदीके पासवाले मैदानमें अवस्थित यूरीकी सेनापर पड़े। यूरी लड़ाईमें काम आया। बा-तू नवोगोरदकी भूमिपर भी बढ़ना चाहता था, लेकिन रास्तेके जंगलों और दलदलोंने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद मंगोलोंने कियेफ और सुदूर पश्चिममें गालिच-वोलोहुत्स्कके राज्यको लेते पोलन्द तथा पूर्वी यूरोपके और भी कितने ही राज्योंका घ्वंस किया। रूसियोंके ऊपर अब मंगोलोंका कठोर शासन स्थापित हो गया, लेकिन मंगोल जानते थे, कि सीधे शासन करनेसे किसी रूसी राजुलद्वारा शासन करना बेहतर है, इसलिये उन्होंने यूरीके भाई यारोस्लावको व्लादिमिरका महाराजुल मान लिया।

१६. यारोस्लाव व्सेवोलद-पुत्र (१२३८-४६ ई०)

महाराजुलको नियुक्त करनेपर ही संतोष न कर बा-तूने रूसके मुख्य-मुख्य नगरोंमें अपने नगरपाल

(वसकाकी) नियुक्त किये । मंगोल कर उगाहनेमें कितनी निर्दयता करते थे, इसे एक जनगीत बतलाता है—

यदि किसी आदमीके पास पैसा नहीं,
तो उससे वह उसका बच्चा लेते ।
यदि आदमीके बच्चे न होते,
तो उससे उसकी बीबी लेते,
यदि आदमीके गृहिणी न होती,
तो उससे वह उसके शरीरको ही लेते ।

एक समकालीन लेखक मंगोल अत्याचारके बारेमें लिखता है:—“हमारे पुरखों और भाइयोंके खूनसे भूमि पानीकी तरह भीग गई, हमारे बहुतसे भाई और बच्चे बंदी बनाकर (तारतार) ले गये, हमारे गांवोंमें जंगल लग गये, हमारी कीर्ति धूमिल हो गई, हमारा सौंदर्य नष्ट हो गया, हमारा धन गैरोंकी संपत्ति बना, हमारे श्रमका फल काफिरोंके हाथमें चला गया, हमारा देश विदेशियोंके हाथमें पड़ गया ।” ऐसी स्थितिमें यदि रूसमें विद्या और संस्कृतिका ह्रास हुआ, तो कोई आश्चर्य नहीं । रूसी नगरोंकी होली मचाते समय मंगोलोंने प्राचीन रूसी साहित्य और कलाकी भी होली मचा दी ।

लेकिन सब तरहसे रूसियोंको निरीह और निर्बल बनाते हुये भी मंगोलोंने उनके हाथमें एक बड़ा हथियार दे दिया था, वह था व्लादिमिरके महाराजुलोंको दूसरे रूसी राजुलोंके ऊपर मानना । यह काम उन्होंने किसी परमार्थ बुद्धिसे नहीं किया था, बल्कि इस प्रकार समयपर नियमपूर्वक करकी भारी राशिको प्राप्त करना उनके लिये बहुत आसान हो गया था । मंगोल खान अपने इसी स्वार्थके कारण व्लादिमिरके शासकको “व्लादिमिर और सारे रूसका महाराजुल” स्वीकार करते हुये उसे यारलिक (अधिकार-पत्र) देते थे । कर उगाहनेके लिये जो एकता कायम हुई थी, वह मंगोल-शक्तिके क्षीण होनेके समय एक सबल राजनीतिक शक्तिमें परिणत हो गई ।

नवोगोरद-पूर्वी स्लाव अभी भी जनयुगीन समाजहीमें थे, जबकि कियेफ-रूसकी स्थापना हुई थी । वस्तुतः भिन्न-भिन्न परिस्थितियोंके कारण पूर्वी स्लावोंका सामाजिक विकास अपने पश्चिमी पड़ोसियोंके बराबर नहीं हो पाया था । इसमें अपने शक पूर्वजोंके समयसे ही चली आती उनकी स्वच्छंद लड़ाकू वृत्ति भी काम कर रही थी । वह पशुपाल-जीवनको पूरीतौरसे छोड़नेके लिये तैयार नहीं थे । यद्यपि ईसवी-सन्के आरंभ और बादकी चार शताब्दियोंमें हूणोंके पहुंचनेसे पहिले ही निम्न दनियेपर आदि प्रदेशोंमें स्लावोंने नागरिक-जीवन स्वीकार कर लिया था, और महाराजुल व्लादिमिरके ईसाई-धर्म स्वीकार करने से बहुत पहले ही ग्रीक संस्कृतिसे उनके पूर्वज अंतोंका घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया था, लेकिन अभी अधिकांश रूस जनयुगके मनोभावोंको ही अपनाये हुये था । रूसी भाषाका हमारी संस्कृत और प्राकृत भाषाकी तरह संश्लेषणात्मक रह जाना—शब्द और धातुकी रूपावलियोंका संस्कृत जैसे चलना—भी शायद उसी सामाजिक मंद परिवर्तनके कारण हुआ । हमारे यहां ईसाकी ६ठी-७वीं शताब्दीमें भाषा जहां श्लिष्ट रूपको छोड़, विश्लिष्ट बन चुकी थी, वहां रूसी भाषा आज भी बहुत-कुछ श्लिष्ट है । यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि रूसके सामाजिक संगठनमें जनयुगीन जनतांत्रिकताके भाव बहुत पीछेतक काम करते रहे । कियेफ रूसकी शक्तिके निर्बल होनेपर छोटे-छोटे राजुलोंके साथ वेचेका प्रभाव भी इसी बातको बतलाता है । जहां दूसरे राज्योंमें यह साधारण जनतांत्रिकता अपने राजुलोंको अधिक स्वच्छंदता न देनेका कारण बनी, वहां नवोगोरदके नागरिकोंमें इसने आभिजात्यवर्ग के गणराज्यका रूप लिया और समय-समयपर होनेवाला वहांका राजुल पूरी तौरसे गणसभा-वेचे—के हाथमें था । नवोगोरदकी परिस्थिति ही ऐसी थी, जिसने उसे एक गणतांत्रिक नगरके रूपमें विकसित होने दिया । यह स्लावोंकी एक बहुत पुरानी नगरी वोल्गाके उद्गमके पास इल्मन सरोवरसे पूर्वीय वणिक्पथके ऊपर बसी हुई थी । वहां हाट और मेलेका मैदान था । इसी मैदानमें नगरकी वेचे बैठा करती थी । पासके मुहल्लेमें मुख्यतः व्यापारी, शिल्पकार और मजदूर बसते थे । नगरके पूर्वकी ओर—सोफिइस्कया—में एक दुर्ग था, जिसमें प्रसिद्ध सोफिया गिर्जा खड़ा था । यहीं नवोगोरदका बड़ा पादरी (बिशप) रहता था ।

नवोगोरद नगरसे नवोगोरद-राज्य आरंभ हो जाता था, जो ओनेगा और लदोगा सरोवरों एवं फिनलन्दकी खाड़ीतक फैला हुआ था। नवोगोरदके बायरोँ और व्यापारियोंके जहां-तहां गांव और खेतियां (कर्मास्त) थीं। उन्होंने पूरबमें उरालकी पहाड़ियोंतककी आदिम जातियोंको अपने अधीन कर रक्खा था, जिनसे वह करके रूपमें बहुमूल्य समूरी छालें और चांदी वसूल करने थे। व्यापार, जंगल और शिकारकी उपज नवोगोरदकी समृद्धिके कारण थे। अनाजके लिये उन्हें अपने पड़ोसी सुज्दलपर निर्भर रहना पड़ता था। नवोगोरदका संबंध बाल्तिक समुद्रके वणिक्पथसे था, जिसके जरिये वह यूरोपके साथ व्यापार करते थे। जर्मन और स्वीड् व्यापारी भी इस व्यापारमें उनके सहभागी थे। वर्षमें दो बार जर्मन "अतिथि" व्यापारके लिये नवोगोरद आया करते थे। गर्मियोंके "अतिथि" फिनलन्द खाड़ीसे नेवा नदी होकर नाव द्वारा आते, और जाड़के "अतिथि" बाल्तिक तट (लिवोनिया) से बर्फपर फिसलनेवाली बिना पहिये की गाड़ियों (स्लेज) द्वारा आते। उत्तरी यूरोप और नवोगोरदसे व्यापार करनेवाली जर्मन नगरियों को १४ वीं सदीमें हंसे कहा जाता था। नवोगोरदके व्यापारी रूसकी चीजोंको इन हंसीय नगरियोंके माध्यमद्वारा जहां यूरोपमें पहुंचाते, वहां स्वयं यूरोपीय वस्तुओंको उनसे लेकर वह रूसके नगरोंमें फैलाने। शिकारपर जीवन बितानेवाली सुदूर उत्तरकी नेन्सी नामसे प्रसिद्ध जातियोंसे (जिन्हें नवोगोरदीय लोग समोयित कहते थे) कीमती समूर मिलते थे। समोयित अधिक उत्तरके तुंड्रा-क्षेत्रमें रहते थे। उनसे दक्षिण तायगा भूमिमें कोमी शिकारी रहते, उत्तरी उराल की ढलानों पर युग्रा कह जानेवाले लोग रहते थे—जो कि आजकलकी मान्सी (बोगुल) और खान्ती (ओस्तियाक) जातियां हैं। इनकी भूमि (जिसे बुलगर "अंधकारभूमि" कहते थे), अपने समूरी जानवरोंके लिये प्रसिद्ध थी। नुंद्रावाले लोगोंकी मुख्य जीविका थी बारहसिंगा पालना, जल-पक्षियों और ध्रुवकक्षीय लोमड़ियों का शिकार करना। इन पिछड़ी हुई जातियोंके निरंकुश राजा थे नवोगोरदीय बायर और व्यापारी। उनके अत्याचारोंसे कभी-कभी मजबूर होकर वह विद्रोह भी कर बैठती थीं। ११८७ ई० में युग्रा लोगोंने नवोगोरदके कर उगाहनेवालेको मार डाला, जिसपर कई सालतक नवोगोरदसे उनपर सैनिक अभियान भेजे जाते रहे।

नवोगोरद नगरका सबसे प्रभुताशाली वर्ग था बायरोँका। सबसे अच्छी भूमि और विजित क्षेत्र इनके हाथमें थे, जिनमें वह अपने अर्धदासों और किसानोंकी मददसे अधिया (पोलोविना) पर खेती कराते थे। बायर अपने असामियोंको गांव छोड़कर जाने नहीं देते थे। हस्तशिल्प भी यहांपर बहुत उन्नत था, लेकिन शिल्पकार भी बायरोँ और व्यापारियोंके अधीन थे। गरीब मजूरोंका काम था माल ढोना और नावें खेना। इस प्रकार इस गणराज्यकी संपत्तिके मालिक थे बायर और व्यापारी। काले (चोर्निये) गरीब लोग उनके लिये अपना जीवन और श्रम भेंट करते थे। रूसी नगरोंकी तरह नवोगोरदमें भी एक राजुल रहता था, लेकिन यहांकी बेचेकी शक्ति सबसे अधिक थी। १२ वीं शताब्दी के प्रथम पादमें बायरोँ और व्यापारियोंद्वारा नियंत्रित बेचेने इस बातका रवाज किया, कि वहां के सभी मुख्य-आफिसर नवोगोरदकी बायरोँमेंसे चुने जायें। व्लादिमिर मनोमाखके पौत्र व्सेवोलदके राजुल होनेके समय ११३६ ई० में बेचेने विद्रोह कर दिया, क्योंकि व्सेवोलद कुछ अधिक स्वतंत्रतासे काम लेना चाहता था। विद्रोहियोंने दो महीनेतक व्सेवोलद और उसके परिवारको बंदी रख फिर मुक्त कर दिया। सबसे बेचेकी शक्ति सर्वोपरि हो गई। यद्यपि नवोगोरद अपने यहां सदा एक राजुल रखता था, लेकिन जब कभी भी राजुल कुछ स्वतंत्रता दिखलाने लगता, तो उसे बोरिया-विस्तर बांधके निकल जाना पड़ता। बेचेके सन्निपातके लिये लोगोंको घंटे बजाकर सूचना दी जाती, सभी लोग मैदानमें इकट्ठे होते। कभी-कभी एक ही समय बेचेकी बैठक तोरगोवया और सोफिस्कया दोनों जगहोंपर होती, दोनोंके निर्णय कभी-कभी एक दूसरेसे भिन्न होते, ऐसी अवस्थामें दोनों बेचेका वोलखोफ पुलके आरपार झगड़ा होता। इस प्रकार जारके निरंकुश शासनके स्थापित होनेसे पहले ही नवोगोरदमें एक सबल प्रजातांत्रिक संस्थाका शासन था।

जर्मन व्यापारी बाल्तिकतटके रास्ते व्यापार करनेके लिये नवोगोरद आते थे। १२वीं शताब्दीमें उन्होंने पश्चिमी द्विना नदीके मुहानेपर अपनी एक व्यापारिक बस्ती स्थापित की, जो कि दूसरेकी

भूमिपर अनधिकार-चेष्टा थी। उन्होंने व्यापारके साथ-साथ ईसाई-धर्मके प्रचारका भी आड़ लिया जिसमें उन्हें रोमके पोपकी सहायता प्राप्त थी। लोग पूर्वजोंकी पुरानी संस्कृतिके प्रतीक अपने धर्मको छोड़कर ईसाई बननेके लिये तैयार नहीं थे, इसपर पोपने उनके विरुद्ध धर्मयुद्ध घोषित कर दिया। उत्तरी जर्मन व्यापारियोंने लिवोनिया (बाल्तिकतट) के विजय करनेका इसे अच्छा मौका देख इसके लिये जहाज दिये। बड़ा पादरी नियुक्त होकर जब अपने धर्मयोद्धाओंके साथ लिवोनिया आया, तो वहाँके लोगोंने कहा—“अपनी सेना लौटा दो। हमें तलवारसे नहीं, बल्कि शब्दोंसे समझाओ।” लेकिन वह तो तलवारसे ईसाई-धर्मका प्रचार करने आये थे। उनके पास देशियोंकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हथियार थे। लड़ाईमें उन्होंने लिवोनियावालोंको हराया, लेकिन बड़े पादरीका घोड़ा उसे शत्रुके दलमें ले गया, जहाँ प्रथम बिशपको धर्म-प्रचार करते हुये शहीद बननेका मौका मिला। जर्मनोंने सारे देशको लूट-मारकर बर्बाद कर दिया। नये बिशप अलबर्टने पश्चिमी द्विनाके मुहानेके पास १२०१ ई० में रीगा नगरको बसाया। वहाँ जर्मन उपनिवेशियोंको बसाकर व्यापार और धर्म-प्रचार किया जाने लगा। अगले साल (१२०२ ई० में) खड्गवीरके नामसे पोपने एक नई धर्मसेना संगठित करनेकी आज्ञा प्रदान की। यह वीर अब खुलकर देश-विजय करने लगे। लोग विरोध करते, तो वह ग्रामों और नगरोंको जला देते, सभी पुरुषोंको मार डालते और स्त्रियों और बच्चोंको दास बनाकर बँच देते। लोग भागकर जंगलोंमें चले जाते, जहाँ यह धर्मसैनिक उनको शिकार करते पकड़ते। एक जर्मन सम-सामयिक लेखकके अनुसार—“वह उन्हें पीटते हुये गांवमें ले आते। भगोड़ोंका पीछा करते रास्तोंसे होते उनके घरोंमें घुस उन्हें बाहर घसीटकर मार डालते। जो अपनी छतों या लकड़ीके टालोंपर चढ़कर आत्मरक्षाका प्रयत्न करते, उन्हें पकड़कर काट डालते। गांवसे भागते हुये लोगोंको उनके खेतों में भी पीछा करते। वहाँसे यदि पवित्र देववनोंकी तरफ भागते, तो वह देववृक्ष उनके खूनसे लाल हो जाते।पांचसौसे अधिक आदमी लड़ाईके स्थानमें और बहुतसे खेतोंमें, रास्तोंपर तथा दूसरी जगहोंमें मारे गये।” ईसाके धर्मके प्रचारका कैसा सुंदर तरीका था !

जर्मन धर्मयोद्धा इसलिये भी सफल हो रहे थे, क्योंकि लिवोनिय लोगोंमें एकता नहीं थी। बिशप अलबर्टके मरनेके बाद लिवोनी धर्मयोद्धाओंको कई बार बुरी तरहसे हार खानी पड़ी, जिससे उनका धार्मिक उत्साह कम होने लगा। इसी समय एक दूसरी जर्मन धर्मसेना—त्युतोनिन आकर मौजूद हुई। यह धर्मसेना १२वीं शताब्दीमें फिलस्तीनमें मुसलमानोंके साथ लड़नेके लिये स्थापित की गई थी, जिसे पोपने इस नये धर्मक्षेत्रमें भेज दिया। जब लिथुवानी जातिके प्रसी कबीलोंकी भूमि—तीमेन और बिस्तुला नदियोंके द्वाबे—में इन त्युतोनिन धर्मयोद्धाओंके पैर पड़े, तो वहाँ कार्ल मार्क्सके अनुसार—“१३वीं शताब्दी के अन्तमें यह समृद्ध देश निर्जन भूमिमें बदल गया, गांव और जुते हुये खेतोंकी जगह जंगल और दलदल आ मौजूद हुये। लोगोंसे कितने ही मार डाले गये, कितनोंको बंदी बनाकर ले गये और बाकी लिथुवामें भागनेके लिये मजबूर हुये।”

१२३७ ई० में लिवोनी खड्गवीर और त्युतोनिन धर्मसेना बाल्तिक प्रदेशको जीतनेके लिये एकताबद्ध हो गई।

१७. अलेक्सान्द्र नेव्स्की, यारोस्लाव-पुत्र (१२६३ ई०)

जर्मन धर्मयोद्धाओंके अतिरिक्त स्वीड व्यापारी भी नवोगोरदकी भूमिपर आंख गड़ाये हुये थे। जर्मन धर्मवीर बाल्तिक तटको दखल कर रहे थे, और स्वीड व्यापारी फिनलन्डकी खाड़ीपर हाथ साफ करना चाहते थे, जिसमें कि वह पूर्वी युरोपके व्यापारके एकमात्र स्वामी बन जायें। १२४० ई० में स्वीड राजा कौन्ट बर्गरके नेतृत्वमें नेवाके ऊपर स्वीडोंने आक्रमण किया, लेकिन नेवाके मुहानेपर उनके उतरते ही नवोगोरदके महाराजुल अलेक्सान्द्रने उनपर भीषण प्रहार किया। इस समयतक बा-तू खानका राज्य पूरी तौरसे स्थापित हो चुका था, और महाराजुल अलेक्सान्द्रने बा-तूकी कृपा प्राप्त कर ली थी। राजनीतिक चाल हीमें नहीं, बल्कि सैनिक कौशलमें भी अलेक्सान्द्र असाधारण पुरुष था। एक समकालीन लेखकके अनुसार—“विजय करते हुये वह अजेय था।” अलेक्सान्द्रके नेतृत्वमें नवोगोरदके सैनिकोंने

अद्भुत वीरताका परिचय दिया। स्वीड पूरी तौरसे पराजित हुये और वह अपने जहाजोंपर बैठकर भाग निकले। नेवा-तटपर हुई इसी विजयके उपलक्षमें अलेक्सांद्रका नाम अलेक्सांद्र नेव्स्की पड़ गया। आज भी सोवियत रूसके दूसरे नम्बरके सबसे बड़े नगर लेनिनग्रादके प्रसिद्ध राजपथका नाम नेव्स्की है।

अलेक्सांद्रने और भी लड़ाइयां लड़ीं, लेकिन इसके पहले एक बार उसे वेचेका कोपभाजन हो नवो-गोरदसे निर्वासित होना पड़ा था। पर जब बाल्तिक-तटसे जर्मनोंने आक्रमण किया, तो वेचेने फिर उसे बुला लिया, और कई लड़ाइयोंमें उसने जर्मनोंको बुरी तरहसे हराया, जिनमें ५ अप्रैल १२४२ ई० को लड़ी गई "बर्फकी लड़ाई" निर्णायक साबित हुई। नवोगोरदके लोगोंने पांच सौ जर्मन धर्मवीरोंको मारकर उन्हें सात मीलतक खदेड़ा और पचास बंदी बनाये। इस युद्धमें हारनेके बाद जर्मन वीरोंने फिर रूसी भूमिकी ओर हाथ बढ़ानेकी हिम्मत नहीं की।

नवोगोरदवालोंने ही अपनेसे पश्चिम बाल्तिकके रास्तेपर प्स्कोफ नगर स्थापित किया था, जो १४वीं शताब्दीमें नवोगोरदसे स्वतंत्र हो एक गणराज्यीय नगरमें परिणत हो गया। स्वतंत्र गणनगर होते हुये भी नवोगोरद और प्स्कोफके लोग अपनेको ब्लादिमिर-महाराजुलके अधीन मानते थे। १४वीं शताब्दीके प्रथम पादमें ब्लादिमिर-राज्यके भीतर एक और घरेलू संघर्ष त्वेर तथा मास्कोके राजुलोंके बीच शुरू हो गया। यह दोनों नगर ऐसी जगह स्थित थे, जहांपर मंगोल मुश्किलसे पहुंच पाते थे, इसीलिये दूसरी जगहोंके भी कितने ही शरणार्थी यहां आकर बस गये थे, जिसकी वजहसे दोनों नगरोंका आर्थिक विकास बड़ी तेजीसे हुआ। त्वेर ऊपरी वोल्गा तथा उसकी शाखा त्वेरत्साके संगमके पास बसा हुआ था। नवो-गोरदसे वोल्गा होकर कास्पियनतक जानेवाले वणिक्पथको त्वेरसे होकर गुजरना पड़ता था। इसी व्यापारके कारण त्वेरके नागरिक बड़े समृद्धिशाली हो गये थे।

मास्को नगर वोल्गामें गिरनेवाली ओका नदीकी शाखा मास्क्वाके तटपर अवस्थित था। ऊपरी वोल्गासे ओकाकी ओर सीधा आनेवाला वणिक्पथ मास्कोकी भूमिसे गुजरता था। यहांसे निम्न-वोल्गाकी ओर भी आसानीसे जाया जा सकता था, साथ ही दोनका ऊपरी भाग नजदीक होनेके कारण अजोफ और कालासागर होते पूर्वी युरोपका वणिक्पथ भी यहांसे खुला हुआ था—क्रिमिया और कालासागरके तट-पर इतालीके व्यापारियोंने अपनी बहुतसी व्यापारिक बस्तियां बसा रखी थीं। इन्हीं कारणोंसे मास्को-को विकासका त्वेरसे भी अधिक सुभीता प्राप्त था।

ग. मास्को महाराजुल

१८. दानियल, अलेक्सांद्र नेव्स्की-पुत्र (१२६३-१३०३ ई०)

१३वीं शताब्दीके आरम्भमें मास्कोकी एक छोटीसी रियासत थी, जिसमें मास्को नगर तथा रूजा और इवेनीगोरदके दो और छोटे-छोटे कस्बे सम्मिलित थे। लेकिन अब उसपर अलेक्सांद्रका पुत्र दानियल राज्य कर रहा था, जो अपने पिताकी तरह ही योग्य और महत्त्वाकांक्षी था। १३०१ ई० में उसने मास्क्वा और ओकाके संगमपर अवस्थित कलोम्ना नगरको ले लिया। १३०२ ई० में उसे पासके पेरेयास्लाव्ल राज्यका उत्तराधिकार मिला, जिसके कि अधीन पहिले मास्को था। अब मास्को ज्यादा बढ़ गया था, तो भी अभी वह त्वेर (आधुनिक कलिनिन) का मुकाबिला नहीं कर सकता था, विशेष-कर इसलिये भी कि मंगोल खानने वहांके महाराजुल मिखाइल यारोस्लाव-पुत्रको १४ वीं शताब्दीके आरम्भमें ही "ब्लादिमिर-महाराजुल" स्वीकार कर लिया था। किसी रूसी राजुलको अधिक शक्तिशाली न होने दिया जाये, इसके लिये मंगोल खानोंकी यह नीति थी, कि वह कभी एकका समर्थन करते और कभी दूसरेका। उज्बेक खानने ब्लादिमिरके महाराजुलको अधिक शक्तिशाली देख मास्कोके राजुल यूरी दानियल-पुत्रका पक्ष लेना शुरू किया।

१९. यूरी III दानियल-पुत्र (१३०३-२५ ई०)

यूरीके ऊपर उज्बेक खानकी इतनी कृपा थी, कि उसने अपनी बहिनको यूरीसे ब्याह दिया और त्वेरके महाराजुलसे लड़नेके लिये मंगोल सेना साथ कर दी। उज्बेकखानको मुस्लिम इतिहासकार

पक्का मुसलमान कहते हैं, तो भी राजनीतिमें वह इस तरहके ब्याहको बुरा नहीं समझता था। यह भी याद रखनेकी बात है, कि पश्चिमके मंगोल शासकोंमें सभी मुसलमान नहीं हुये, बल्कि कितने ही ब्याह-शादीके सम्बन्धसे ईसाई होकर रूसियोंके भीतर हजम हो गये। मंगोलोंकी सहायताके बाद भी यूरीकी हार हुई और उसकी रानी—उज्बेककी बहिन—बंदिनी बनी, और उसी अवस्थामें मर भी गई। यूरीने खानके सामने त्वेर-महाराजुल मिखाइलके ऊपर इल्जाम लगाया, कि उसने उसे जहर देकर मरवा दिया। खानने मिखाइलको मृत्युदंड दिया और यूरीको महाराजुलका पद प्रदान किया। इसी समयसे मास्कोका सितारा चमकने लगा। यूरी बहुत दिनोंतक इस पदका उपभोग नहीं कर सका और वह मिखाइलके एक पुत्रद्वारा मारा गया। उज्बेकने यूरीके हत्यारेको मरवा डाला, लेकिन मास्कोको अधिक शक्तिशाली न होने देनेके लिये अबकी महाराजुल-पदको उसने मिखाइलके पुत्र अलेक्सान्द्रको प्रदान किया। पर, रूसके आर्थिक जीवनमें मास्कोकी जैसी स्थिति थी, उसके कारण पासा पलटा नहीं जा सकता था।

२०. इवान I खलीता, दानियल-पुत्र (१३२५-४१ ई०)

मास्कोमें यूरीका स्थान उसके भाई इवान I ने ले लिया, जिसका नाम खलीता (पैसेका थैला) पड़ गया था, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इवान खलीता ही नहीं था, बल्कि वह बड़ा चतुर और कुटिल शासक भी था। मास्कोकी शक्ति बढ़ानेके लिये वह हर तरहके हथियारोंको इस्तेमाल करनेके लिये तैयार था। उस समय रूसी संघराज व्लादिमिर नगरमें रहता था—कियेफके नष्ट हो जानेके बाद संघराजकी गद्दी यहीं चली आई थी। यूरीने कोशिश की थी और इवान खलीताने भी कोशिश करके संघराज पीतरको इस बातके लिये राजी कर लिया, कि वह अपनी गद्दीको व्लादिमिरसे मास्को ले आये। तबसे मास्को रूसके सबसे बड़े धर्माचार्यकी राजधानी बन गया, जिससे मास्कोकी शक्ति बढ़नेमें बड़ी सहायता मिली। अब धार्मिक बहिष्कारकी धमकी देनेसे छोटे-मोटे राजुल भी मास्कोकी अधीनता स्वीकार करनेके लिये तैयार हो जाते। धर्मराजका कोश भी मास्को-राजुलकी सहायता करनेके लिये तैयार था। इवान खलीता मंगोल खान, उसकी खातूनों और अनुचरोंपर सोनेकी वर्षा करनेके लिये तैयार रहता था, फिर वह क्यों न उसके पक्षमें होते? १३२७ ई० में खानने अपने दूत चोलखानको एक बड़ी मंगोल सेनाके साथ त्वेरके विरुद्ध भेजा। मंगोलोंने नगरको लूटना शुरू किया, इसपर लोगोंने विद्रोह कर दिया और चोलखान तथा उसके सैनिक खतम कर दिये गये। इवान खलीताने दौड़कर खानके पास पहुंच त्वेरको दंड देनेके लिये अपनी सेवायें पेश कीं। खानने उसे एक बड़ी मंगोल सेना दी। इवानने त्वेरपर आक्रमण करके उसे नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। त्वेरके महाराजुल अलेक्सान्द्रने भागकर प्सकोफमें शरण ली। संघराजने प्सकोफवालोंको धार्मिक बहिष्कारकी धमकी दी। उनसे सहायता न पा महाराजुल लिथुवानिया भाग गया। पीछे वह त्वेर लौटा और खानने भी उसे क्षमा कर दिया, पर पीछे फिर इवान खलीताकी चालोंमें पड़कर खानने उसे ओर्दूमें बुलवाकर मार डाला। मास्को-राजुलका मनोरथ सिद्ध हुआ और १३२८ ई० में उसे महाराजुलका पद मिल गया। यही नहीं, सारी रूस भूमिसे कर उगाहनेका इजारा भी खानने खलीताको दे दिया। खलीता समयसे पहले ही नगद कर बेबाक करने के लिये तैयार रहता था, फिर खान क्यों नहीं वैसा करता? इवान खलीताने अपने शत्रुओंको दबाने तथा मास्कोकी शक्तिको बढ़ानेमें किपचक (मंगोल) खानका खूब इस्तेमाल किया। उसके मरते समयतक मास्को राज्य काफी विस्तृत हो चुका था, और उसका प्रतिद्वंद्वी त्वेर अपनी समृद्धिके बहुतसे साधनोंको खो चुका था। अब सारी मास्क्वा-उपत्यका (कलोम्नासे मोजाइस्कतक) मास्को-महाराजुलकी थी—मास्को-साम्राज्यकी नींव पड़ गई।

२१. सेमेओन, इवान I-पुत्र (१३४१-५३ ई०)

खलीताके मरनेके बाद महाराजुल पद उसके पुत्र सेमेओनके हाथमें रहा।

२२. इवान II, इवान I-पुत्र (१३५३-५९ ई०)

भाईके बाद इवान I गद्दीपर बैठा, फिर उसका पुत्र दिमित्रि मास्कोका स्वामी बना।

२३. दिमित्रि दोन्स्की, इवान II-पुत्र (१३५९-८९ ई०)

महाराजुलको तरुण देखकर पड़ोसी राजुलोंने मास्को-राज्यपर हाथ फेरना चाहा, लेकिन दिमित्रिके पीठपर अब संघराज अलेक्सी और मास्कोके बायरोंका हाथ था। जिनके प्रयत्नसे खाने दिमित्रिको महाराजुलका पद प्रदान किया। बायरोंने बालक दिमित्रिको घोड़ेपर चढ़ाकर प्रतिद्वंद्वी सुजदल राजुलपर आक्रमण कर दिया और हाथसे निकल गये व्लादिमिर-नगरपर फिर अधिकार कर लिया। दिमित्रिके ३६ वर्षके शासनमें मास्कोकी शक्ति बहुत बढ़ी, जिसमें एक कारण (मंगोल सुवर्ण-ओर्दूकी) शक्तिका कमजोर होना भी था। १३६६ ई० में दिमित्रिने मास्कोको पत्थरकी दीवारोंसे दुर्गबद्ध किया, इसके पहले उसके चारों ओर बंजकी लकड़ीका नगर-प्राकार था। उसने त्वेर, र्याज़न और निज़नीनवोगोरदके राजुलोंपर जबर्दस्त आक्रमण किये, जिसपर उसके शत्रुओंने लिथुवन राजा ओलिगर्दसे मदद ली, और तीन बार मास्कोके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन मास्को अजेय साबित हुआ। पादरी, संघराज अलेक्सी और बायर सब तरहसे मदद देनेके लिये तैयार थे। मास्कोने कोमी जातिके लोगोंको अपने अधीन कर उन्हें ईसाई बनानेका प्रयत्न किया। ईसाई-धर्मके प्रचारके साथ-साथ मास्कोकी शक्ति बढ़ती गई। शक्तिके मदमें मास्कोने मंगोलोंसे भी छेड़-छाड़ शुरू की। अब मंगोलोंका सुवर्ण-ओर्दू छोटे-छोटे खानोंमें बंट चुका था, जिनमें सबसे शक्तिशाली ममाईखान था। मास्कोकी इस छेड़खानीको मंगोल कैसे बदरित करते? ममाईने १३७८ ई० में र्याज़नपर आक्रमण करनेके लिये एक तारतार सेना भेजी, जिसका लक्ष्य था मास्कोकी ओर बढ़ना। लेकिन ममाईकी सेनाको वोझा नदीके किनारे भारी हार खानी पड़ी। ममाईने अब लिथुवानी राजा जागिगेलोसे समझौता किर्या और स्वयं एक बड़ी सेना लेकर लड़नेके लिये आगे बढ़ा। र्याज़नके राजुलने अपने प्रतिद्वंद्वी मास्कोके महाराजुलके विरुद्ध ममाईसे मेल कर लिया। उधर महाराजुल दिमित्रिने भी डेढ़ लाखकी सेना एकत्रित कर ली थी। जातीयताके जोशमें आकर भारी संख्यामें रूसी राजुलके झंडेके नीचे इकट्ठा हो गये थे। यही नहीं, राजा ओलिगर्दके दो लिथुवानी राजकुमार भी बेलोरूसी और लिथुवानी सैनिकोंके साथ ममाईसे युद्ध करनेके लिये आये। दिमित्रिने अपनी सेनासहित ओकापार हो दोनके किनारे पहुंच युद्ध-परिषद् बुलाई। कुछ लोगोंकी राय थी "दोनके पार जाओ राजुल" और दूसरे कह रहे थे "मत जाओ, वहां बहुत शत्रु हैं।" दिमित्रि मना करने-वालोंकी बात न मान दोनपार हो गया। ८ सितम्बर १३८० ई० को कुलिकोवोका भीषण और निर्णायक युद्ध हुआ। कुलिकोवोका युद्धक्षेत्र नेप्र्याद्वा नदी और दोनके संगमपर अवस्थित था। युद्ध भीषण हुआ, कई मीलतककी धरती खूनसे लाल हो गई, जहां जगह-जगह लाशें पड़ी थीं। तारतारोंको पहले कुछ सफलता हुई, लेकिन इसी समय छिपे हुये रूसी सैनिकोंने अपना पीछा करते तारतारों पर पीछकी ओरसे आक्रमण कर दिया। ठीक समयपर हुये इस जबर्दस्त प्रहारसे तारतारोंकी पूरी हार हुई। वह जान बचानेके लिये भाग निकले और रूसी सवारोंने पीछा करके उनके शिविरको भी ले लिया। दोनतटपर हुये इसी युद्धके विजयके उपलक्षमें दिमित्रिको "दोन्स्की" (दोनवाला) कहा जाने लगा।

इस लड़ाईके थोड़े दिनों बाद तोकतामिशसे लड़ते हुये ममाई मारा गया। उसके बाद तोकतामिशने १३८२ ई० में एकाएक मास्कोपर आक्रमण कर दिया। महाराजुल दिमित्रि तैयार नहीं था, इसलिये सेना भरती करनेको वह उत्तर चला गया। बायरोंने भी जान लेकर भागना चाहा, इसपर मास्कोमें विद्रोह हो गया। स्वतंत्रता-प्रेमी नगरवासियोंने क्रेमलिन (दुर्ग) के फाटकपर पहरेदार बैठा दिये, जिसमें महाराजुलानी और संघराजके अतिरिक्त कोई नगरसे बाहर न जाने पाये। तोकतामिशकी सेनाने क्रेमलिनपर आक्रमण किया। नागरिकोंने उसका पूरा प्रतिरोध किया। तीन दिनतक लड़ाई करनेके बाद भी सफलता न देख तोकतामिशने छलसे लोगोंको भुलावा दे नगरके दरवाजेको खुलवाया और उसे लूटकर जला दिया। इसके बाद रूसी लोग फिर किपचकोंको कर देने लगे। यद्यपि कुलिकोवोके युद्धने रूसियोंको मंगोलोंके जूयसे मुक्त नहीं कर दिया, किन्तु उनके मनमें अब यह भाव पैदा हो गया था, कि हम मिलकर मंगोलोंसे अच्छी तरह मुकाबिला कर सकते हैं।


२४. वासिली I, दिमित्र-पुत्र (१३८९-१४२५ ई०)

पिताके कामको पुत्रने और आगे बढ़ाया। वासिलीने निज़नीनवोगोरदको ले लिया।

२५. वासिली अंध II वासिली I-पुत्र (१४२५-६२ ई०)

वासिलीके पुत्र वासिलीको अपने मनोरथमें अधिक सफलता प्राप्त करनेमें सबसे भारी बाधा पारिवारिक संघर्ष था। उसका चचा यूरी स्वयं महाराजुल बनना चाहता था। खानने वासिलीको जब यह पद प्रदान किया, तो दोनोंमें खुला संघर्ष शुरू हो गया, जो बीस सालतक जारी रहा। इस संघर्षमें कितनी ही बार मास्को एक हाथसे दूसरे हाथमें जाता रहा। एक बार वासिली तीर्थयात्राके लिये त्रयत्सा गया हुआ था, उसी समय उसके प्रतिद्वंद्वी राजुल शेम्याकाके सिपाहियोंने उसे पकड़कर मास्कोमें ले जा अंधा कर दिया, जिसके कारण उसका नाम त्योम्नी (अंध) पड़ गया। वासिलीने फिर जल्दी ही अपने राज्यको प्राप्त कर लिया, और उसके बाद उसकी शक्ति फिर बढ़ी।

१४ वीं सदीके अन्तमें रूसमें ईसाई-धर्मके प्रचारके साथ-साथ विद्याका प्रचार भी कमसे कम उच्च वर्गमें काफी था, लेकिन अंध वासिली "निर्ग्रंथ और निरक्षर" था, जिससे सिद्ध है, कि अभी रूसी सामन्तवर्गमें विद्याकी उतनी अवश्यकता नहीं मानी जाती थी।



२६. इवान III, वासिली अंध-पुत्र (१४६२-१५०५ ई०)

पीढ़ियोंसे धीरे-धीरे संचित होती मास्को-राजशक्ति अब बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगी। इवान III ने सारे उत्तर-पूर्वी रूसका एक सुसंगठित राज्य बना लिया। नवोगोरद अभीतक मास्कोसे अपनेको स्वतंत्र

बनाये हुये था, इसपर इवान III ने एक बड़ी सेना लेकर उसके ऊपर आक्रमण किया और हराने-के बाद नगरको स्वतंत्र छोड़ उसके अधीनस्थ प्रदेशोंको अपने राज्यमें मिला लिया। मास्कोने पेर्मको अपने राज्यमें मिलाकर अपनी सीमा उराल प्रदेशतक बढ़ा ली और वहाँकी धातुकी खानोंमें काम करने के लिये चतुर शिल्पी भेजे। नवोगोरदके भीतर फिर आपसी संघर्ष शुरू हुआ, और अन्तमें उसने १४८७ ई० में इवानको अपने "गसूदर" (स्वामी) के तौरपर स्वागत किया। नवोगोरदकी बोलीमें "गसूदर" का अर्थ साधारण सामन्ती भूमिपति भी होता था। इवान उनका साधारण भूमिपति बननेके लिये तैयार नहीं था। उसने पूर्ण प्रभुताकी मांग की। इन्कार करनेपर सेना लेकर चढ़ आया और लम्बी बातचीतके बाद जनवरी १४७८ ई० में नागरिकोंने उसकी सारी शर्तोंको मान लिया। १४८५ ई० में इवानने त्वेरको भी पूर्ण तौरसे अपनी अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया, र्याज़नका राज्य भी मास्कोका करद बन गया। यद्यपि रूसीजन अब मास्कोके अधीन एक हो चुके थे, लेकिन उनके सजातीय बेलोरूसी और उक्रइनी अब भी लिथुवानिया और पोलन्दके हाथमें थे, जिनको एकताबद्ध करनेमें अभी सदियोंके संघर्षकी अवश्यकता थी।

तारतार (मंगोल)-शासनकी समाप्ति (१४८० ई०)—नवोगोरद जैसे शक्तिशाली राज्यको ले लेनेके बाद अब इवान सुवर्ण-ओर्दूकी ओर बढ़नेके लिये स्वतंत्र था। आपसमें लड़ते ओर्दूके अनेक खानोंने पहिले हीसे उसके लिये रास्ता साफ कर दिया था। इवानने क्रिमियाके खान मंगली गिराईसे मेल किया—वहाँ वह प्रतिवर्ष दूतमंडलद्वारा खान, उसकी खातूनों और मुख्य दरबारियोंको भेंट भेजा करता था। सुवर्ण-ओर्दूकी कमजोरीको देखकर इवानने उसे कर देना बन्द कर दिया। सुवर्ण-ओर्दूके खान अहमदने लिथुवानियाके राजाकी सहायतासे मास्कोको कर देनेके लिये मजबूर करना चाहा, लेकिन सफल नहीं हुआ; इसपर तारतार और रूसी सेनायें युद्धके लिये ओकाकी शाखा उग्रा नदीके आरपार खड़ी हुई। दोनोंमेंसे कोई नदी पार करनेकी हिम्मत नहीं करता था। अहमद कर देना स्वीकार कर लेनेपर लौट जानेके लिये तैयार था। जब उग्राकी धारा बर्फ बनकर जम गई, तो चतुर इवानने अपनी सेनाको पीछे हटा एक अधिक अनुकूल स्थान पकड़नेका हुकुम दिया। अब भी खान आक्रमण करनेमें हिचकिचा रहा था। एक ओर सर्दी और धूपसे खानकी सेना परेशान थी और दूसरी ओर इवानके सहकारी मंगली गिराईने हमला करके उसे खतरेमें डाल दिया था। लिथुवानियाका राजा भी अहमदको बीच हीमें छोड़कर चला गया। अहमदको मास्कोकी सीमासे हटनेके सिवा और कोई रास्ता नहीं रहा। बिना युद्धके इस दिनके हटनेके साथ ही दो शताब्दियोंसे चला आता रूसियोंके ऊपर मंगोलोंका शासन हटसा गया, और बा-तूका सर्वशक्तिमान् सुवर्ण-ओर्दू १५०२ ई० में क्रिमियाके तारतारोंद्वारा पराजित होकर निम्न-वोल्गाकी अश्त्राखानकी छोटीसी रियासतके रूपमें बच रहा।

तारतारों (मंगोलों)के जूयसे मुक्त होनेके बाद इवानने अब फिनो, स्वीडों, जर्मनों, लिथुवानियों और तुर्कोंके हाथमें पड़ी प्राचीन रूसी भूमिके उद्धारका संकल्प किया।

तुर्की—तेमूरके युद्धोंमें परास्त होकर भागे क्षुद्र-एशियाके तुर्कोंने युरोपके तटपर पहुँचकर कान्स्तन्तिनोपोलके पूर्वी रोमन राज्यके अवशेषको खतम कर दिया। धीरे-धीरे बढ़ते हुये इन्हीं तुर्कोंने बलकान भूमिको लेते कालासागरसे उत्तरमें भी अपना हाथ फैला दिया। इस प्रकार तेमूरके बाद तुर्कीके रूपमें एक शक्तिशाली राज्य पूर्वी युरोपमें आकर उपस्थित हो गया। इवानने पहले और शत्रुओंसे भिड़नेके लिये तुर्कीके साथ समझौता कर लिया—वह पहला युरोपीय राजा था, जिसने तुर्कीके अस्तित्वको १४९२ ई० में स्वीकार किया। उसने बाल्तिक-तटसे होनेवाले खतरेकी रक्षाके लिये नारवा नदीपर इवानगोरद (इवान-नगरी) का दुर्ग स्थापित किया। यह बाल्तिककी ओर बढ़नेका रूसका पहला कदम था। लिथुवानिया जैसे प्रबल प्रतिद्वंद्वीको पछाड़नेके लिये इवानने लिवोनीय धर्म-सेनासे समझौता किया। पीछे जर्मन धर्मसैनिकोंके विरुद्ध उसने लिथुवानियासे संधि की और चेर्नीगोफ नगरके साथ सेवेस्क प्रदेशको लेते हुये उसने अपनी सीमाको कियेफके नजदीकतक पहुँचा दिया। पूरबमें कजानके खानको

भी इवानने अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया। उसने उरालकी ओर भी कई अभियान भेजे। १५०० ई० में इवानकी सेनाने उराल पर्वतश्रेणी अर्थात् युरोपकी सीमासे पार हो एसियाकी सीमामें पैर रक्खा। वहाँके निवासी नेन्सी अब मास्कोके करद बन गये। राज्यविस्तारके प्रयत्नमें कितनी ही बार उसे बाधाका भी सामना करना पड़ा, लेकिन बाधाओंके होते भी इवान आगे बढ़नेमें सफल रहा। सैनिक-शक्ति तो उसकी प्रबल थी ही, किन्तु उससे भी अधिक उसकी कूटनीति काम कर रही थी। क्रिमिया और साइबेरियाके तारतारोंको सुवर्ण-ओर्दूके अवशेषसे भिड़ाकर उसने अपना काम निकाला।

मास्को नगरी जहाँ एक शक्तिशाली राज्यकी राजधानी हो गई थी, वहाँ वह व्यापारका भी सबसे बड़ा केंद्र थी। जाड़ोंमें बर्फ बनी हुई मास्क्वा नदीके ऊपर व्यापारी अपनी दूकानें रखते थे। एक युरोपीय यात्रीने उस समयका वर्णन करते हुये लिखा है—“सारे जाड़ेभर अनाज, मांस, सूअर, ईधन, भुस और दूसरी आवश्यक चीजें बेंचनेके लिये वहाँ लाई जाती हैं। नवम्बरके अन्तमें मास्कोके पास-पड़ोसके लोग अपनी गायों और सूअरोंको मारकर नगरमें बेंचनेके लिये लाते हैं। यह बड़ा आनन्दका दृश्य होता है, जबकि बर्फके ऊपर चमड़े निकाले हुये जानवरोंको बहुत भारी परिमाणमें अपने पैरोंपर हम खड़ा देखते हैं।”

इवान III ने मास्कोको एक बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय शक्तिमें परिणत कर दिया। उसने शासन, सेना, और कोशको जहाँ केंद्रित कर दिया, वहाँ सैनिक हथियार और कौशलमें भी बहुत वृद्धि की। इवानने पश्चिमी युरोपसे कारीगरोंको बुला तोपें ढलवाकर रूसी तोपखानेको मजबूत किया। उसकेद्वारा स्थापित रूसी तोपखाना सबसे ही दुनियाका सबसे शक्तिशाली तोपखाना बन गया, जिसे सोवियत-कालमें भी रूसने अक्षुण्ण रखा—हिटलरकी सेनाओंको भगानेमें रूसी तोपोंका काफी हाथ रहा। इवानको अब सभी राजा अपनी उच्च विरादरीमें सम्मिलित करनेके लिये प्रस्तुत थे। जर्मन-सम्राट्ने राजाकी उपाधि देनी चाही, लेकिन इवानने “मुझे उसकी आवश्यकता नहीं” कहकर लेनेसे इन्कार कर दिया। पोपने भी उसकी ओर मित्रताका हाथ बढ़ाया। वेनिसके धनी गणराज्य तथा पश्चिमी युरोपके दूसरे व्यापारी कालासागर और क्रिमिया होते मास्को पहुंचने लगे। इवानने पश्चिमी युरोपसे तोप ढालनेके लिये ही कारीगर नहीं मंगवाये, बल्कि वास्तुशास्त्री तथा शिल्पशास्त्रियोंको भी बुलाया।

इवानके प्रभावको बढ़ानेके लिये इसी समय एक और भी अच्छा मौका मिल गया। ईसाई धर्म कैथोलिक और अर्थोदक्स दो सम्प्रदायों (चर्चों) में विभक्त है, जिसमें कैथोलिक पोपका केंद्र रोम नगर है और ग्रीक अर्थोदक्स चर्चका महासंघराज कान्स्तन्तिनोपोलमें रहता था। १४५३ ई० म तुर्क सुल्तानने कान्स्तन्तिनोपोलपर अधिकार करके पूर्वी रोमक (विजन्तीन) साम्राज्यको खतम कर दिया। तुर्कोंका राज्य कालासागर-तट, काकेशस और बलकानमें दन्यूब नदीके किनारे बीना नगरके पासतक फैल गया। वेनिस और पोपकी मध्यस्थतासे इवानने अन्तिम ग्रीक सम्राट्की भतीजी सोफिया पालेओलोगसे ब्याह किया। वेनिस और रोमको आशा थी, कि इस प्रकार वह इवानकी शक्तिसे तुर्कोंको खतम करनेमें सफल होंगे, लेकिन इवान किसीका हथियार बननेके लिये तैयार नहीं था। क्रिमियाके खानोंद्वारा इवानने तुर्कोंके साथ सम्बन्ध स्थापित किया। ईरानसे भी उसने सम्बन्ध स्थापित किया। इस प्रकार मास्कोके व्यापारी कान्स्तन्तिनोपोल और ईरान तककी यात्रा करने लगे। इन्हीं व्यापारियों में त्वेर (कलिनिन) नगरका अफनासी निकितिन भी था, जिसने १४६७-७२ ई० में ईरानके रास्ते समुद्रद्वारा भारतकी यात्रा की थी। अफनासीने अपना यात्राविवरण “खोजेनिये जा-त्रि-मोयर्” (तीन समुद्रों पारकी यात्रा) लिखकर हमारे लिये छोड़ा है।

अफनासीकी भारतयात्रा—त्वेरके रूसी सौदागर निकितिन अफनासीने “तीन समुद्रों पारकी यात्रा” की थी। वह वास्को-द-गामाके भारत पहुंचने (१४९८ ई०) से ३२ वर्ष पहिले हिन्दुस्तानमें आ बहमनी (बीदर) सुल्तान मुहम्मदशाह III (१४६२-८३) के राज्यमें ६ वर्ष (१४६६-७२ ई०) तक रह रूस लौट स्मोलेन्स्कमें मर गया। उसके यात्रा-विवरणके कुछ अंश हैं—

मैं पवित्र स्या (त्राता)के गिजैसे महान् राजुल मिखाइल बोरिसपुत्र और त्वेरके प्रधान पादरी गेनान्दीकी कृपामयी अनुमति प्राप्तकर रवाना हुआ। बोल्गा नदीसे चलकर पवित्र शहीद बोरिस और रलेबके "जिवो नचालनया जोइत्जा" (जीवनप्रदायक त्रिमूर्ति) के पवित्र मठमें पहुंचा। साधु मकरी और उसके भाईने मुझे आशीर्वाद दिया। (फिर) मैं उगलिच गया। उगलिचसे कोस्त्रोमा (त्वैर) के राजुल अलेक्सान्द्रके पास पहुंचा। सारे रूसके शासकने मुझे स्वतंत्र जीवन प्रदान किया। इसी तरह मुझे निजनीनवोगोरदमें उपसंरक्षक मिखाइल किस्लेफ़ और जकात-अफसर इवा साराके पास जानेकी अनुमति मिल गई।

अबसे पहले ही वासिली और पापी (मैं) चल पड़े थे। फिर भी मुझे (निजनी) नवोगोरदमें शाह शिरवानके तातार राजदूत हसनबेगके लिये प्रायः दो सप्ताह रुकना पड़ा। वह महाराजुल इंबाके पास नब्बे वाज लेकर आया था। मैं जहाजपर चढ़ उसके साथ वोल्गाकी राह चला और कुशलपूर्वक कज़ान, उर्दा, अगलान, सराइ और बरेकेजाम लांघ गया।

हम बुजान नदीमें पहुंचे। वहां हमें तीस बदमाश तातार मिले। उन्होंने हमें गलत खबर दी, कि बुजानमें कासिम खां तीन सौ तातारोंके साथ पड़ा सौदागरोंकी राह देख रहा है। शिरवानके राजदूत हसनबेगने उनमेंसे प्रत्येकको तीन-तीन मलमलके थान दिये, जिसमें वे हमें अस्त्राखानके आगेतक पहुंचा दें। मैं अपना जहाज छोड़कर अपने साथियोंके साथ राजदूतके जहाजपर सवार हो गया। हम अस्त्राखान लांघ रहे थे, (आकाश में) चांद चमक रहा था; इसी समय वहांके हाकिमने हमें देख लिया। उसके तातारोंने चिल्लाकर कहा—भागना मत! और उसने हमारे पीछे अपने सिपाही छोड़ दिये। वुगून पहुंचते-पहुंचते उन्होंने हम पापियोंको पकड़ लिया, और हममेंसे एकको गोली मार दी। हमने भी उनके दो आदमी मार डाले। हमारे छोटे जहाजको वहां रोककर उन्होंने लूट लिया और मेरा सारा सामान नौकाके साथ ही उनके कब्जेमें चला गया।

बड़ी नौकासे (भागकर) हम समुद्र-तटतक पहुंचे, लेकिन (हमारी) नाव वोल्गाके मुहानेपर जमीन-पर चढ़ गई। तातार वहां हमें आ पकड़ कर और नावको पानीमें खींच ले गये। उन्होंने (हम) चार रूसियोंको कैद कर लिया और बाकियोंको समुद्रकी ओर भगा दिया। वह हमें बहावके विरुद्ध जाने नहीं दे रहे थे, जिसमें हम उनके खिलाफ खबर न दे दें।

अब हम दो नावोंमें दरबन्द (कास्पियन) समुद्रकी ओर चले। एकमें राजदूत हसनबेग, हम रूसी और कुछ ईरानी—कुल दस आदमी थे और दूसरीमें छ मास्कोके और छ त्वैरके निवासी चल रहे थे। इस सामुद्रिक यात्रामें हम तूफानमें पड़ गये और तटसे टकरा जानेसे छोटी नावके लोगोंको केताकोंने पकड़ लिया।

जब हम दरबन्द पहुंचे, तो मालूम हुआ, कि हम तो राहमें लूट गये, लेकिन वासिली बिल्कुल सही सलामत पहले ही दरबन्द पहुंच गया है। मैंने वासिली पापिन और शिरवान शाहके राजदूत हसनबेगने—जिसके साथ कि हम आये थे—बड़ा अनुनय-विनय किया कि वे तर्कीमें केताकोंद्वारा गिरफ्तार हमारे आदमियोंको छड़ानेका प्रयत्न करें। हसनबेग बीच-बचाव करने के लिये पहाड़पर जाकर पुलादबेगसे मिला। पुलादबेगने शिरवान शाहबेगके पास एक तेज दूत भेजकर कहलाया कि तर्की (किला) से टकराकर एक रूसी नावके टूट जानेपर केताकोंने उसे पकड़ लिया, उसके आदमियोंको गिरफ्तार कर लिया और उनकी चीजें लूट लीं। शिरवान शाहबेगने अपने संबंधी खलीलबेगद्वारा कहलवाया—'खबर मिली है, कि मेरी नाव तर्कीके पास टकराकर टूट गई, तुम्हारे आदमियोंने नावके आदमियोंको पकड़ लिया और उनकी चीजोंको लूट लिया। कृपा करके मेरी खातिर उन पकड़े आदमियोंको मेरे पास भेज दो और उनकी चीजें भी इकट्ठी कर दो, क्योंकि वे लोग मेरे पास भेजे गये थे। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, तो मेरे पास आओ; मेरे भाई, मैं कोई चीज देनेसे तुम्हें इन्कार नहीं करूंगा। अब कृपया मेरे लिये इन आदमियोंको मुक्त कर दो।' खलीलबेगने तुरंत मुक्तकर दरबन्द फिर वहांसे शिरवान शाहके आवास 'कोइतुल' में भेज दिया।

हम कोइतुलमें शिरवान शाहके पास पहुंचे । हमने उससे बड़ी मिन्नत की, कि वह हमपर दया करे और हमारे रूस लौटनेमें मदद करे ; पर हमारी संख्या बहुत थी । उसने हमें कुछ न दिया । बहुत रो-धोकर हममेंसे हर एकने अपनी राह ली । जिनको रूसमें काम था, वह रूस चले गये, कुछ उधर जिधर उनकी आंखें ले गईं गये, कुछ शेमाखमें ही पड़े रहे और कुछ काम करने बाकू चले गये ।

मैं फिर दरबन्दसे बाकू गया, जहां कभी नहीं बूझनेवाली अग्नि (ज्वालामाई) सदा जलती रहती है । बाकूसे मैं समुद्रकी राह चपकुर जा वहां छ महीने रहा । फिर जाकर माजन्दरानके मुल्कमें सारामें एक महीने रहा । उसके बाद मैं आमूल गया और वहां एक महीने रहा । फिर आमूलसे मैं देमाबन्द गया और देमाबन्दसे रै (तेहरान) । यहीं मुहम्मद (पैगम्बर) के पोते और अलीके बेटे शाह हुसैनकी हत्या हुई थी और उसके शापसे सत्तर नगर नष्ट हो गये थे । रैसे मैं गजान आया और वहां एक महीना रहा । गजानसे नाइन और नाइनसे येज्द (उयेज्द), जहां मैं एक महीना ठहरा । येज्दके बाद मैं सिर्दजान आया और फिर तारूम, जहां मवेशियोंको चारे 'अल्वीन' के बदले खानेको खजूर देते हैं ।

तारूमसे मैं लार गया और लारसे बन्दर । यही ओरमुज्द (ओर्मुज) का बन्दर है । फिर भारतीय सागर, जिसे फारसीमें हिन्द-समुंदर कहते हैं । ओरमुज बन्दरसे समुद्र केवल चार मील है ।

हिन्दू मांस नहीं खाते, न तो बांझ मवेशीका, न भेड़का, न मुर्गो-मुर्गियोंका और न मछलीका । वह सूअर भी नहीं खाते, यद्यपि देशमें सूअरोंकी बहुतायत है । दिनमें वह दो बार भोजन करते हैं, और रातमें कुछ नहीं खाते । वह शराब नहीं पीते और न दूसरा ही ऐसा पेय, जो नशा कर दे । वह मुसलमानोंके साथ नहीं खाते-पीते । उनका भोजन अच्छा नहीं होता । वह आपसमें भी एक दूसरेके साथ नहीं खाते-पीते, (यहांतक कि) अपनी पत्नियोंके साथ भी नहीं (खाते) । वह चावल और रोगन (घी) मिली खिचड़ी और अनेक प्रकारकी सब्जियां खाते हैं, जिन्हें वह रोगन (घी) या दूधके साथ पकाते हैं । वह दाहिने हाथसे खाते हैं, बायें हाथसे कुछ नहीं खाते । वह चम्मचका इस्तेमाल नहीं जानते । सफरके समय हर आदमी अपना भोजन (खीर) आप पकाता है । भोजनके समय वह पर्दा कर लेते हैं, जिसमें मुसलमान उनका खाना न देख ले । अगर मुसलमान खाना देख ले, तो हिन्दू उसे नहीं खायेंगे । खाते समय वह अपनेको कपड़ेसे भलीभांति ढांक लेते हैं, जिसमें कोई उन्हें देख न सके ।

रूसियोंकी ही भांति हिन्दू भी पूर्वकी ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं । वह दोनों हाथ ऊपर उठाकर सिरपर रख लेते हैं, फिर जमीनपर पड़ जाते हैं, यही उनका प्रणाम (साष्टांग प्रणाम) करना है । भोजनके पहले उनमेंसे कुछ (लोग) अपने हाथ-पांव धोते हैं और कुल्ला करते हैं । देवालियोंमें कोई दरवाजा नहीं होता, उनका रख पूर्वकी ओर होता है—कुछ मूर्तियोंका मुख उत्तरकी ओर भी होता है । जब हिन्दुओंमें कोई मर जाता है, तो उसके शरीरको जलाकर राखको पानीमें डाल देते हैं । जब किसी औरतके बच्चा होता है, तो पति उसे ले लेता है । लड़केका नामकरण पिता करता है और लड़कीका माता । उनके आचार-व्यवहार अच्छे नहीं हैं और न उनमें कोई शर्म है । मिलते और अलग होते समय वह ईसाई साधुओंकी भांति अपने दोनों हाथ जमीनकी ओर कर लेते हैं, कुछ बोलते नहीं ।

दाबुलसे कालीकट २५ दिनका रास्ता है, कालीकटसे सिंहल (लंका) १५ दिनका । सिंहलसे जाबत (जावा) १ महीनेका, जाबतसे पेगू (बर्मा) २० दिनका, पेगूसे चीन और महाचीन फिर एक महीनेका । यह सारी यात्रा समुद्रकी राह है । चीनसे खिताईकी यात्रा खुश्कीसे छ महीनेकी और समुद्रसे चार दिनोंकी है । भगवान् मेरी रक्षा करे ।

बीदरमें तीन दिनों तक चांद प्रायः पूरा चमकता है । हिन्दुस्तानमें गर्मी बहुत नहीं है । ओर्मुज और बहुरैनमें—जहां मोती निकलती हैं—बड़ी गर्मी पड़ती है, जड़ा, बाकू, अरब, मिस्र और लारमें भी । खुरासानमें गर्मी इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन चगताई (मध्य-एसिया) में बहुत है । शीराज, येज्द और कजानमें गर्मी है, पर वहां जोरकी हवा चलती है । गीलानमें बड़ी गर्मी है, बहुत पसीना निकलता है । बाबुल, खुम्स और दमश्क भी गरम हैं । अरुफ इतना गरम नहीं । शेबास्त और जार्जियामें सभी कुछ बहुतायतसे मिलता है । वैसे तुर्कीमें भी सब चीजोंकी बहुतायत है । रूमानियामें फल बहुत हैं और खानेकी सभी चीजें

सस्ती हैं। पोदोलियामें फल सब जगहोंसे अधिक होते हैं। भगवान् रूसकी रक्षा करे, भगवान् उसे बचाये। इस संसारमें रूसके समान (अच्छा) कोई दूसरा मुल्क नहीं, यद्यपि वहाँके बायर अच्छे नहीं हैं। परन्तु रूसकी भूमि बनाई जा रही है, उससे बड़ी भलाई होगी। मेरे भगवान्, भगवान्, भगवान्, भगवान् (बोग मोइ)।

हे मेरे भगवान्, मेरी आशायें तुझपर लगी हैं। मेरे भगवान्, मेरी रक्षा कर ले। मैं नहीं जानता कि हिन्दुस्तानसे किधरको जाऊँ। ओर्मुजसे खुरासानको राह नहीं, चगताईके लिये रास्ता नहीं और बहरैन और यज्दके लिये भी कोई मार्ग नहीं। सर्वत्र विद्रोह हो रहे हैं, सर्वत्र बादशाह भगाये जा रहे हैं, मिर्जा जहान शाहको उजून (हसन) बेग ने मार डाला है, सुल्तान अब्रू-सईदको जहर दे दिया गया है। उजून (हसन) बेग अब शीराजमें है, पर उस मुल्कने उसको स्वीकार नहीं किया है। यादगार मोहम्मद उसके पास नहीं जाता, वहाँ जानेमें उसे खतरा मालूम होता है। और कोई राह नहीं। (मेरे) मक्का जानेका मतलब है मुसलमान हो जाना। ईसाई होनेकी वजहसे मक्का जानेमें (मेरी) खैरियत नहीं, क्योंकि वहाँ जाते ही मुसलमान बना लिया जाऊँगा। हिन्दुस्तानमें रहनेका मतलब है, अपने पास जो कुछ है, सबको खर्च कर डालना, क्योंकि यहाँका रहन-सहन महंगा है। मैं अकेला हूँ, पर मेरा रोजाना खर्च ढाई अलतीना (अशर्फी) है। यहाँ मन भरकर शराब मैंने कभी नहीं पी।

हम मस्कत पहुंचे। वहाँ मैंने पासख (ईस्टर) त्योहार मनाया। फिर तीन दिनोंमें ओर्मुज पहुंचा। २० दिन ओर्मुज ठहर मैं लार गया और वहाँ तीन दिन रहकर बारह दिनकी यात्राके बाद शीराज पहुंचा, जहाँ सात दिन रहा। शीराजसे पंद्रह दिनकी यात्रा कर अबरकुन पहुंचा और वहाँ दस दिन ठहर, नौ दिनमें येज्द पहुंचा, जहाँ ८ दिन रहा। येज्दसे पांच दिनमें अस्पहान पहुंचा, और वहाँ छ दिन ठहरा। वहाँसे काशान जा पांच दिन रहा। काशानसे कुम गया। कुमसे सबा, सबसे सुल्तानिया और सुल्तानियासे तन्नीज। तन्नीजसे मैं हसनबेगके कबीलेमें पहुंचा, उनके बीच १० दिन ठहरा। वहाँसे कहीं जानेका रास्ता न था, लड़ाई चल रही थी। हसनबेगने तुर्क सुल्तानके विरुद्ध अपनी ४० हजार सेना भेजी थी। सेनाने सिवास और तकातपर कब्जा कर लिया, तकातमें आग लगा दी। उन्होंने अमसपर भी अधिकार कर लिया, अनेक गांव लूट लिये, फिर वह किरमानकी ओर बढ़े। मैंने सेनाका साथ छोड़ आरजित्जान (अर्जेरूम) की राह ली और वहाँसे त्रेपोजान्द जा पहुंचा।


पक्रोफ़के दिन ही मैं त्रेपोजान्द पहुंचा और पांच दिन वहाँ ठहर, एक जहाजपर जा कफाका किराया ठीक कर लिया, तथा कफामें जाकात कर देनेके लिये कुछ सिक्के बदले।

त्रेपोजान्दमें फौजदार और शासकके भाईने मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया। वह मेरा सारा सामान पहाड़के ऊपर अपने महलमें उठा ले गया, और चूँकि मैं हसनबेगके कबीलेकी ओरसे जा रहा था, इसलिये छिपी चिट्ठियोंके लिये मेरी तलाशी ली।

भगवान् की दयासे मैं अब तीसरे समुद्र (कालासागर) में दाखिल हुआ, जिसे ईरानी 'इस्तम्बूलका समुन्द्र' कहते हैं। जहाजसे पांच दिन चलकर हम बोनद पहुंचे। वहाँ हमें तेज (दक्खिनी) हवा मिली, जो हमें त्रेपोजान्दकी ओर ढकेल ले चली। मौसमकी परेशानी के कारण हमें प्लातानमें रुक जाना पड़ा। वहाँसे दो बार हमने चलना चाहा, पर मौसमके कारण रुकना पड़ा। भगवान् ही (सबका) मूल और रक्षक है, उसे छोड़ हम और किसी भगवान्को नहीं जानते। अन्तमें (समुद्र) पारकर हम बालक्लोफ़ पहुंचे, फिर वहाँसे गुरजोफ, जहाँ हम पांच दिन ठहरे।

भगवान्की दयासे हम समुद्र पारकर, फिलिपोफकी शामसे नौ दिन पहिले कफा पहुंच गये। भगवान् ही बनानेवाला है। उसकी मर्जीसे मैंने तीन समुन्द्र पार किये, आगेकी भगवान् जाने। दयालु भगवान्के नामपर, महान् प्रभु और लघु प्रभु, ईसा और पवित्रात्मा शान्ति। भगवान् बड़ा है, प्रभु महान्-प्रभुके बराबर कोई दूसरा भगवान् नहीं। भगवान्की महिमा, उसका आशीष। उस जैसा दूसरा नहीं, वह सर्वज्ञ है, दृश्य-अदृश्य सबका वही राजा है, ज्योति है, रक्षक है और प्रभु है। वह श्रेष्ठ और महान्

है, स्रष्टा और चित्रकार है। वह सारे पापोंका क्षमा करनेवाला है। वही सभी वस्तुओंको बढ़ानेवाला है, हमारी अन्तरात्माओंको जानने और स्वीकार करनेवाला है। वही आकाश और पृथ्वीमें व्याप रहा है, सबकी रक्षा कर रहा है, वही सर्वोच्च, सर्वमहान्, सर्वदर्शी, सर्वश्रोता है। वह न्यायकारी, समीचीन और शालीन है।



कान्स्तन्तिनोपोलके तुर्कोंके हाथमें चले जानके बाद और ग्रीक राजकुमारीसे ब्याह कर लेनेपर इवान अपनेको ग्रीक सम्राटोंका सीधा उत्तराधिकारी मानने लगा। उसने विजन्तीन राजमुद्रा—दो शिर-वाले बाज—को अपनी राजमुद्रा बनाई। दरबारके समय वह रत्नजटित सिंहासनपर एक मुकुट धारण करके बैठता था, जिसे "मनोमाख" मुकुट कहते थे, और जिसके बारेमें परम्परा कहती है, कि उसे ब्लादिमिर मनोमाखने अपने नाना ग्रीकसम्राट् कन्स्तन्तिन मनोमाखसे पाया था।

इवानने अपनी राजधानीको भी अब राजसी ढंगसे सजाना शुरू किया। पहले मास्कोके सारे घर लकड़ीके होते थे, राजप्रासाद भी लकड़ीका था। इवानके समयसे पत्थरके मकानोंकी वृद्धि होने लगी। इतालियन वास्तुशास्त्री रिदाल्फो दि फ्योरावेन्तेको बुलाकर उसने नये वास्तु-साधनोंका प्रयोग कराया। विदेशी शिल्प-शास्त्रियोंने इवानके लिये जो इमारतें बनाई थीं, उनमेंसे कुछ—क्रेमलिनकी दीवारें और मीनार, पत्थरके गिर्जे, पाषाण-प्रासाद तथा सुंदर आनावितया पलाता—अब भी मौजूद हैं। इवान अब अपनेको सचमुच ही अभिमानी ग्रीकसम्राट् मानता था। जरा भी आज्ञा-

उल्लंघनपर वह बायरोँको मृत्यु या निर्वासनका दंड देता था। बायर कहते थे—“जबसे महाराजुलानी सोफिया अपने श्रीकोंके साथ आई, तबसे सभी बातें उलट-पुलट गईं।”

२७. वासिली III, इवान III-पुत्र (१५०५-३३ ई०)

वासिलीके शासन का वही समय है, जब कि भारतमें बाबर और हुमायूँ राज्य कर रहे थे। इस समय रूस बड़ी तेजीसे अपना राज्यविस्तार और शक्ति-संचय कर रहा था। जो रियासतें बापके समय अब भी स्वतंत्र थीं, उन्हें वासिलीने मास्कोमें मिला लिया—स्कोफ १२१० ई० में मास्कोके अधीन हुआ। इसीके शासनमें १५२१ ई० में र्याज़न भी मास्कोका अभिन्न अंग हो गया। १५१४ ई० में तीन बार तोप दागनेके बाद स्मोलेन्स्ककी अकल ठिकाने आ गई और वहांके बिशपने नागरिकोंके साथ महाराजुल के शिविरमें आकर प्रार्थना की—“नगरको मत नष्ट करो, शांतिपूर्वक इसे ले लो।” अब वासिली III रूसभूमिके सारे राजाओंका राजा था। समकालीन विदेशी भी लिखते हैं—“वासिलीकी शक्ति सारी दुनियाके राजाओंसे बढ़कर है, वह सबके जीवन और सम्पत्तिका पूर्णतया स्वामी है।” मास्कोवाले खुले आम कहते थे—“हमारे राजाकी इच्छा भगवान्की इच्छा है।” बायर भी उसके सामने भीगी बिल्ली बन गये थे। वह जिसको कान पकड़कर निकाल देता, वह चूतक करनेकी हिम्मत नहीं रखता था। वासिलीने नीचे तबकेके कितने ही आदमियोंको अपना विश्वासपात्र बनाया था, जिसमेंसे दो-तीन सब बातोंमें उसके सलाहकार थे। उसके समकालीन साधु पिलोतेइने लिखा था—“मास्को दुनियाकी महान् राजधानियों—प्राचीन रोम और द्वितीय रोम कान्स्तन्तिनोपोल—का उत्तराधिकारी है, मास्को तीसरा रोम है, और चौथा कोई नहीं होगा।”

२८. येलेना वासिली III-पत्नी (१५३३-३८ ई०)

वासिलीने मरते वक्त सिंहासनका अधिकारी अपने तीन वर्षके पुत्र इवानको छोड़ा था। उसके बाल्यकालमें शासनकी बागडोर उसकी मां रानी येलेना वासिलियेफ-पुत्री ग्लिन्सकी-वंशजाके हाथमें रही। वासिली III ने बायरोँकी स्वेच्छाचारिताको बहुत दबाकर देशकी शक्तिको छिन्न-भिन्न करनेवाले इस वर्गको अधिकारच्युत कर डाला था। अब बायरोँने फिरसे अपने स्थानको प्राप्त करना चाहा, लेकिन येलेना गुड़िया रानी नहीं थी। उसने बायरोँके हर प्रयत्नको व्यर्थ किया। पर राजा और बायर (सामन्त) एक ही वर्गके हैं, दोनोंके स्वार्थ एक तरहके हैं, शादी-व्याह आदि सम्बन्ध भी उनका आपसमें होता है, इसलिये उन्हें कहांतक अलग रक्खा जा सकता था? रानी अभी मुश्किलसे पांच वर्ष शासन कर पाई थी, कि बायरोँने उसे जहर देकर मार दिया।

२९. इवान IV, वासिली III-पुत्र (१५३८-८४ ई०)

राजमाताको मारकर बायरोँने शक्ति अपने हाथमें ले ली और आठ वर्षका बालक इवान खिलौने-की तरह गद्दीपर बिठा दिया गया। लेकिन बायरोँमें भी निजी स्वार्थान्धता इतनी थी, कि वह आपसमें बराबर लड़ते-झगड़ते रहे। पहले राजुल शुइस्की और वेल्स्कीके बीचमें भयंकर संघर्ष हुआ और शुइस्कीके अनुयायियोंने क्रमलमें घुसकर अपने विरोधी राजुल वेल्स्कीको गिरफ्तार कर लिया। शुइस्कीके हाथमें भी शक्ति देरतक नहीं रही। ग्लिन्स्कीवंशने—जिसकी पुत्री राजमाता येलेना थी—अन्ड्रेइ शुइस्कीको १५४३ ई०में मार डाला। बायर तीन वर्षतक शासन करते रहे। वह केन्द्रीकृत सरकारके विरुद्ध थे और चाहते थे, कि देश फिर छोटे-छोटे राजुलोंमें बंट जाये। शासन क्या था, अपने भाई-भतीजों-भांजों और सहायकोंमें नगरों और इलाकोंको बांटना, जो जनसाधारणकी लूटका एक खुला तरीका था। घरके भीतरकी कमजोरी देखकर सुवर्ण-ओर्दूकी शाखाओं—क्रिमिया और कजानके तारतारों—ने फिर रूसभूमिमें लूट-मार मचानी शुरू की। बायर अपनी स्वार्थपूर्तिमें इतने संलग्न थे, कि वह बच्चे महाराजुलके खाने-कपड़ेतकका भी ध्यान नहीं रखते थे। तरुण इवानने अपनी मांके समयके दरबारको भी देखा था। उस समय राजसिंहासनका कितना सम्मान था? अब उसके मालिक इस बच्चेकी कोई पर्वाह नहीं करता था। केवल विशेष उत्सवोंके समय उसको सिंहासनपर बैठाकर सम्मान-प्रदर्शनका

अभिनय किया जाता था। बालक इवान मेधावी था। छोटी उमरसे ही उसने लिखना-पढ़ना सीख लिया था। उसे किताबोंके पढ़नेका बड़ा शौक था। स्वयं सुशिक्षित संघराज मकरीने इवानके ऊपर बहुत प्रभाव डाला था। लड़कपनसे ही अपनी आंखोंके सामने बायरोको लूटते, खून-खराबी करते देख, स्वयं उपेक्षित हो इवानके स्वभावमें क्रूरता भी सन्निविष्ट हो गई थी।

ऐसे होनहार बालकको बहुत दिनोंतक गुड़िया बनाके नहीं रक्खा जा सकता था, विशेषकर जब कि बायरोमें स्वयं आपसी खूनी संघर्ष चल रहे थे। सत्रह वर्ष की उमर (१५४७ ई०) में इवानने सिंहासनको संभालते हुये पूर्वजोंकी "महाराजुल" उपाधिसे सन्तुष्ट न हो जारकी उपाधि स्वीकार की। इवान IV पहला रूसी जार था—जार-कजार-कैजर-कैसर अर्थात् रोमक सम्राट्का ही विगड़ा रूप है।

बायरोने अपनी सामन्ती जागीरदारियां फिरसे स्थापित कर ली थीं। उसके कारण लोगोंकी बुरी हालत थी। उन्होंने १५४७ ई० में मास्कोमें गिलन्स्की दलके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसी समय भारी आग लग जानेसे नगरका बहुत-सा भाग जल गया था, जिसके कारण लोगोंकी हालत और भी खराब हो गई और वह गिलन्स्कीकी स्वेच्छाचारिताके खिलाफ उठ खड़े हुये। वह जारकी नानी अन्ना गिलन्स्कयाके ऊपर जादूसे नगरमें आग लगानेका दोष लगाते थे। विद्रोहमें गिलन्स्की वंशका एक आदमी मारा गया और बाकी जान लेकर भाग गये। जार स्वयं बोरोव्योवो गांव (वर्तमान लेनिन-पर्वत) में भागकर जा छिपा।

जब विद्रोह दबा दिया गया, तो साधारण जनताकी संतान एक चतुर और ईमानदार अफसर अलेक्सी अदाशोफ शासनका मुखिया बना। अदाशोफने अपने साथ एक प्रभावशाली दरबारी पादरी सेल्वे-स्तर तथा कुछ शक्तिशाली बायरोको मिला इज्म्राय्या रादा (वृत-परिषद्) बनाई, जिसकी रायके दिना तरुण जार कोई निर्णय नहीं कर सकता था।

राज्य-विस्तार—इवान IV के शासनारम्भके समय उत्तर-पूर्वी रूस एकताबद्ध हो चुका था। अब रूसका विस्तार आसपासकी जातियोंको जीतकर ही किया जा सकता था। वासिली III के समयमें क्रिमियाके खानकी मददसे कजानके तारतारोंने अपनेको स्वतंत्र कर लिया था, इसलिये इवानको कजानके खानसे सबसे पहले भुगतना था, जिसके लिये तारतारोंने रूसी भूमिपर लूट-मार मचाकर बहाना भी पैदा कर दिया था। कजान मध्य-वोल्गाके ऊपर एक महत्त्वपूर्ण नगर था, जिसके विरोधी शक्तिके हाथमें रहनेपर वोल्गा-कास्पियनका वणिक्पथ खतरेमें पड़ जाता था और पूर्वमें उराल तथा आगेके विस्तारकी गुंजाइश नहीं रह जाती थी। उधर तुर्कीने कालासागरको अपनी झील बनाकर काके-शसतक अपनी बांह फैला ली थी। अस्त्राखान और कजानके खान भी हमेशा तुर्कीकी ओर आशा लगाये रहते थे। इस प्रकार पूरबसे रूसको खतरा भी था। इवानने पहले कजानको खतम करनेका निश्चय किया। १५५० ई० का महाभियान असफल रहा, इसपर उसने १५५१ ई०के वसंतमें मारियोंकी भूमिमें वोल्गाके पहाड़ी किनारेपर स्वीयाजस्क नगर बनाया, जो कि कजानके सामने पड़ता था। मारी लोग अबतक कजानको कर देते थे, अब वह जारको कर देनेके लिये मजबूर हुये। स्वीयाजस्कका दृढ़ दुर्ग बन जानेके बाद रूसी कजानको घेर सकते थे। कजानके तारतारोंने जबर्दस्त प्रतिरोध किया, लेकिन रूसियोंके पास डेढ़ लाख सेना थी, दूसरे उनके पास शक्तिशाली तोपखाना भी था। नगरके भीतर तीस हजार तारतार सेना थी। कुछ महीनेतक तारतारोंने प्रतिरोध किया, लेकिन जब शक्तिशाली तोपोंने नगरके प्राकारको उड़ा दिया, तो वह कहांतक प्रतिरोध करते? अन्तमें २ अक्तूबर १५५२ ई०को रूसी कजानको दखल करनेमें सफल हुये। कजानके पतनके साथ तातारोंका प्रतिरोध खतम नहीं हुआ। वह कई सालोंतक लड़ते रहे, उनके सहायक तारतार ही नहीं, मारी, उदमुत, चुवाश और मोर्दाव जैसे रूसीभिन्न जातियां भी थीं। कजानके उच्छेदके बाद पहलेके खान और सामन्तोंकी अधिकांश सम्पत्तिको इवानने अपने अफसरों और पादरियोंमें बांट दिया और लोगोंको अर्धदास बना दिया। कितने ही जारभक्त तारतार सामन्त अभी भी अपनी भूमिके मालिक रहे। इस प्रकार वोल्गाकी जनता चक्कीके दो पाटोंके नीचे पिसने लगी। कजानके विजयके बाद बाश्किरोने भी इवान-

की अधीनता स्वीकार की। फिर उनसे भी पूर्व साइबेरियाके खान यादगारने १५५५ ई० में मास्कोको कर देना स्वीकार किया। अगले साल १५५६ ई० में अस्त्राखानकी बारी आई। मास्कोकी सेनाको वहांसे खानको भगानेमें कठिनाई नहीं हुई। अस्त्राखान नगर ले लेनेके बाद सारी वोल्गा नदी रूसके हाथमें थी। कास्पियनके तटपर बसा अस्त्राखान अब मध्य-एसिया और ईरानके साथ होनेवाले व्यापारका केंद्र बन गया। उत्तरी काकेशसके छोटे-छोटे अमीर बराबर आपसमें लड़ते रहते थे, जिससे इवानको मौका मिला, और उसने तेरेक नदीके किनारे एक किला बनवाना चाहा। लेकिन इवान अभी तुर्कीसे झगड़ा नहीं मोल लेना चाहता था, इसलिये तुर्कीके दबाव देनेपर उसने नगर बनानेका ख्याल छोड़ दिया। तो भी रूसी कसाक (स्वतंत्र किसान) नहीं रुके और वह तेरेकके तटपर बराबर बने रहे। तारतार सवार लूट-मारको आमदनीका एक वैध साधन मानते थे, खासकर काफिरोंके विरुद्ध वैसा करना तो पुण्यका काम था; इसलिये घोड़ोंपर चढ़े वह बराबर इस ताकमें रहते थे, कि कैसे रूसकी भूमिमें घुसकर वहां लूट-मार मचाई जाये। इसके लिये मास्कोको मैदानी जगहोंमें जगह-जगह फौजी चौकियां—स्तानित्सा (थाना)—स्थापित करनी पड़ीं। स्तानित्सामें एक ऊंचा मीनार या वृक्ष होता था, जिसपर बैठे एक सैनिक बराबर देखता रहता। जैसे ही दूर धूल उठती दिखाई पड़ती, वह उतरकर घोड़े-पर चढ़े दूसरी स्तानित्सामें खबर देता, वहांसे दूसरा सवार तीरकी तरह निकलता, इस प्रकार बहुत जल्दी ही खबर मास्कोतक पहुंच जाती, और प्रतिरोधका उचित प्रबंध कर दिया जाता।

कास्पियनतटको लेकर अब रूस केवल स्थलशक्ति नहीं रह गया था, किन्तु कास्पियन वस्तुतः एक महा-सरोवर है, जिसका महासमुद्रसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस कमीको दूर करनेके लिये बाल्तिक समुद्र-तटपर अधिकार करना जरूरी था, जिसमें कि रूसका पश्चिमी युरोपके देशोंसे सीधा संबंध हो जाये। जब बाल्तिकतट (लिवोनिया) की ओर इवानने हाथ बढ़ाया, तो लिवोनियाके पड़ोसी लिथुवानिया, स्वीडन और डेन्मार्क चुप रहनेवाले नहीं थे। पर जारकी शक्ति (धन और जनका बल) इतनी बढ़ चुकी थी, कि समुद्रपारसे आकर लिवोनियाको मदद देना मुश्किल था। जर्मन धर्मसेनाने अच्छी तरह डटकर प्रतिरोध किया, लेकिन ब्रूनेवाल्डमें उसे जो हार खानी पड़ी, उसके बाद वह फिर संभल नहीं सकी। जनवरी १५५८ ई० में इवानने लिवोनियाके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। कितने ही महीनोंकी लड़ाईके बाद लिवोनियाका बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह रीगा रूसियोंके हाथमें चला गया। उसके बाद यूरियेफ नगरकी बारी आई और आगे १५६१ ई० तक सारी लिवोनिया इवानके हाथोंमें थी। सामने खतरेको देखकर पड़ोसी राज्य रेवेल (तल्लिन) ने स्वीडन और डेनमार्कको अपना संरक्षक बनाया और अवशिष्ट लिवोनियाने पोलराजा तथा लिथुवानियाके शासककी शरणमें जाना पसन्द किया। इस तरह लिवोनिया कई राज्योंमें बंट गया। अब रूसको पोलन्द, स्वीडन और डेन्मार्कके साथ बीस वर्षतक लड़ना था।

लिवोनियामें बराबर सफलता ही नहीं होती रही, बल्कि कभी-कभी रूसियोंको वहां हानि भी उठानी पड़ी थी। ऐसे समयमें बायर फिर अपना सर उठाना चाहते थे। वह जारके हाथमें सारी शक्ति नहीं रहने देना चाहते थे। इवान इस तरहके घरेलू झगड़े पसन्द नहीं कर सकता था, उसने १५६५ ई० में शासन-प्रबंधको नये तरहसे संगठित करना चाहा। बायरोंपर उसको विश्वास नहीं था। एक दिन यकायक वह अपने विश्वास-पात्र शरीर-रक्षकोंके साथ मास्को छोड़कर वहांसे सौ किलोमितरपर अवस्थित दुर्ग-बद्ध अलेक्सेन्द्रोवा-स्लबोदोवा गांवमें चला गया। वहांसे उसने संघराजको पत्र लिख बायरोंकी विश्वास-घातकी तालिका बनाकर भेजते हुये सिंहासन छोड़ देनेकी घोषणा की। इसपर मास्कोके नागरिकों, पादरियों और कितनेही बायरोंने जारके पास जाकर मास्को लौटचलनेके लिये बड़ी प्रार्थनाकी। इवानने स्वीकार किया, और मास्को लौटकर उसने विश्वासघाती बायरोंको दंड दे राष्ट्रीय सभा (जेम्स्की सबोर) की बैठक बुलाई। उसके साथ ही उसने "ओप्रेचनिना" (पृथक् राज्य)के नामसे अपने विश्वास-पात्रोंका एक और संगठन तैयार किया, जो जारके हुकुमको बजा लानेके लिये बराबर तैयार रहती थी। इवानने अपने सारे राज्यको दो भागोंमें विभक्त किया—जेम्स्चिना (भूमिक) जिसका शासन बायरोंकी दूमा (संसद्) जारके अधीन रहकर करती थी और ओप्रेचनिना, जो सीधे जारके अधीन

थी। ओप्रेचनिनावाली भूमिमें राज्यके सबसे अच्छे तथा केंद्रीय प्रदेश थे, जिनका सैनिक और आर्थिक महत्त्व सबसे ज्यादा था। स्वयं मास्को नगरको भी इसी तरह दो हिस्सोंमें बांट दिया गया था। जेम्सुचिना भागमें बायर और ओप्रेचनिना भागमें वेवोद (राजपुरुष) दोनों साथ-साथ काम करते थे। ओप्रेचनिनाकी राजधानी अलेक्सेन्द्रोवा-स्लोबोदोवा थी, जहांपर जार अपनेको अधिक सुरक्षित समझता था। ओप्रेचनिनाका काम था सामन्तों (बायरों) की शक्तको कमजोर करना और छोटे-छोटे भूमिपति-सरदारोंका एक वर्ग तैयार करना।

जार इवान निरंकुशताको राजाका आवश्यक अधिकार समझता था। उसका कहना था—राजशक्ति भगवान्की ओरसे मिली है। जारकी आज्ञाका उल्लंघन करना महापाप है। जारकी सभी प्रजा उसकी सेवक है, उसको अपनी प्रजाको क्षमा करने या मारनेका अधिकार है। जारकी शक्तको सीमित करना अपराध है, क्योंकि इसके कारण देशकी प्रतिरक्षा खतरेमें पड़ जाती है।

इवान अपनी शक्तको इस तरह दृढ़ करते हुये रूसकी आर्थिक और सैनिक शक्तको मजबूत करता जा रहा था। इसी समय १५७१ ई० में क्रिमियाके खान दौलत गिराईने एकाएक आक्रमण कर दिया और प्रतिरोधका मौका दिये बिना क्रेमलिन छोड़ सारे मास्कोको जलाकर भारी संख्यामें बंदियोंको दास बनाकर बेचनेके लिये पकड़ ले गया। दूसरे साल १५७२ ई० में जब फिर उसने अपनी लूटमारको दुहराना चाहा, तो ओका नदीपर ही जेम्स्की वेवोदोंने रोककर मास्कोको बचा लिया। जेम्स्की वेवोद बायर थे। उनकी इस सेवाको देखकर जारको अब ओप्रेचनिना की आवश्यकता नहीं मालूम हुई और उसी साल उसने उसे तोड़ दिया। इवानने रूसमें एक धर्म, एक नाप-तोल और एक भूमि-नाप स्थापित कर रूसकी एकताको और आगे बढ़ाया।

१५७६ ई० में पोलन्दके राजा सिगिस्मंड अगस्तसके मरनेके बाद स्तिफन बथोरी राजा निर्वाचित हुआ। उसने जर्मन और हुंगेरियन सैनिकोंकी भरती तथा तोपखानेके विकासद्वारा अपनी शक्तको बढ़ाकर १५७६ ई०में रूसके जीतनेके लिये अभियान किया। १५८१ ई०में एक लाख सेनाके साथ उसने प्सकोफको घेर लिया, लेकिन सारी शक्ति लगाकर भी वह उसे ले नहीं सका। इवानको केवल पोलन्दसे ही लड़ना नहीं था, बल्कि स्वीडनने भी इसी समय लिवोनियाके लिये उसपर आक्रमण कर दिया। स्वीडिश सेनाको आसानीसे सफलता मिली। यद्यपि इवान अपने राज्यकी प्रतिरक्षामें सभी जगह असफल रहा, लेकिन प्सकोफके प्रतिरोधने उसे अवसर दे दिया, कि अच्छी शतोंके साथ अपने शत्रुओंसे समझौता कर ले। इवानने लिवोनियाको छोड़ दिया और बथोरीने रूसी नगरोंपरसे अपना अधिकार हटा लिया। इसी तरह स्वीडनके सामने भी उसे समझौता करना पड़ा। इस प्रकार उसका पच्चीस साल (१५५८-८३ ई०) का संघर्ष अधिकतर बेकार गया, जब कि १५८४ ई० में इवान मरा।

इवान सुशिक्षित, दूरदर्शी और कुशल शासक था। वह अच्छा लिख लेता था। लेकिन, कभी-कभी उसपर सनक सवार हो जाती, तो वह क्रूरकर्मा सिद्ध होता, जिसके ही कारण लोगोंने उसका नाम ओज्नी (क्रूर) रख दिया था। एक बार क्रोधांध हो उसने अपने बेटे राजकुमार इवानपर डंडा चला दिया, जिससे वह मर गया। इवानका शासन रूसके इतिहासके लिये बड़ा महत्त्व रखता है, और देशके शक्तिशाली और एकताबद्ध करनेमें उसकी सेवाओंको आज भी बड़े आदरसे याद किया जाता है।

घेरमकद्वारा साइबेरिया-विजय—इवानके शासनका एक महत्त्वपूर्ण काम है, रूसका साइबेरियाकी ओर विस्तार। हम कह आये हैं, कि वासिली III और उसके पिताके समय ही रूसका विस्तार उरालकी जनजातियोंकी ओर हो चुका था। साइबेरियाकी बहुमूल्य समूरी छालें सोना-जवाहरके दाम बिकती अपना विशेष आकर्षण रखती थीं। इसलिये बहुतसे साहसी रूसी शिकारी और व्यापारी उरालकी ओर जा बसे थे, इन्हींमें नवोगोरदसे आया एक व्यापारिक परिवार स्ट्रोगनोफ भी था। वस्तुतः स्ट्रोगनोफका पूर्वज पहले सुवर्ण-ओर्दूका एक तारतार मिर्जा (राजपुरुष) था। ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने पर उसका नाम स्पीरिदोन पड़ा। चौकठेमें मंडी गोलियों (अबकस) द्वारा गिनती करनेका

रवाज चीनमें पहिलेहीसे था, रूसमें इसका रवाज स्पीरिदोनने ही चलाया। मुसलमानसे ईसाई होनेके कारण मंगोलोंने उसे पीट-पीटकर मार डाला, इसी कारण उसके परिवारका नाम स्त्रोगोन (पीटन) पड़ा। स्पीरिदोनके पुत्र तथा कोस्मेसके पुत्र लूकसने जार वासिली अंधको कजानके खानसे छुड़ानेमें जैसे सहायता की थी, इसलिये उसे नमककी खानोंकी इजारादारी मिल गई; जिससे वह बहुत धनी हो गया। वासिलीने ग्रेगोरी और याकूब दो स्त्रोगोनोफ-भाइयोंको कामा नदीके पासवाले प्रदेशमें चुसोवयाके तटपर अपनी रक्षाके लिये दुर्ग बनानेका अधिकार दे दिया था, जिसमें कि वह साइबेरियनों और नोगाई तारतारोंसे अपनी रक्षा कर सके। स्त्रोगोनोफ अपने पास सैनिक और तोपे रख जारकी ओरसे इलाकेका शासन-प्रबंध भी करते थे। उन्हें गांवोंके बसाने, नमककी खानोंको चलाने तथा कर देकर मछली और नमकको बीस वर्षतक बेचनेका ठेका मिला था। स्त्रोगोनोफने १५५८ ई०में चुसोवया नदीपर कंकोरका कसबा बसाया, १५६४ ई०में केरगेदानका किला और कुछ ही साल बाद सेल्बा नदीके किनारे कितनी ही और बस्तियां बसाईं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कम्पनीकी तरह अनेक व्यापारियोंकी कम्पनीकी जगह यहां एक परिवारको व्यापार, राज्यशासन और देश-विजयका अधिकार दे दिया गया था। ईस्ट इंडिया कम्पनीकी तरह कितने ही साहसी तरुण और गुंडे स्त्रोगोनोफके राज्यकी ओर भी आकृष्ट हुये थे। १५७२ ई० में स्त्रोगोनोफोंने एक विद्रोहमें चेरमिसों, ओस्तियाकों और बासिकरोंको जीतकर वहां जारका राज्य घोषित किया। स्त्रोगोनोफोंकी इस तरह साइबेरियामें प्रगतिको वहां का राजा कुचुम खान (१५५५-६५ ई०) अपने लिये खतरेकी बात समझता था, जो जारकी अधीनता स्वीकार करनेवाले यादगार खानको हटाकर अब स्वयं खान बना था। उसने जुलाई १५७३ ई० में बहुतसी रूसी बस्तियोंको नष्ट करनेके लिये अपने भाई अलताकुलके पुत्र महमेतकुलको भेजा। महमेतकुल जारकी प्रजा बने ओस्तियाकोंको मार उनके बीबी-बच्चोंको पकड़ ले गया। उसने एक रूसी वर याक चेबाकोफको भी मार डाला। नोगाई मिर्जा दीन अहमदकी पुत्रीसे अपने बेटे अलीका ब्याह करनेके कारण कुचुमको बहुत अभिमान हो गया था। स्त्रोगोनोफोंने जार इवानसे आक्रमणकारियोंको दंड देनेकी स्वीकृति पानेके साथ निम्न बातोंकी भी आज्ञा मांगी—तोबोल नदीके तटपर बस्तियां बसा नगर और दुर्ग बनाना, तोपखानेका उपयोग तथा सैनिकोंकी भरती करना; एक सीमित समयतकके लिये लोहा, रांगा, सीसा, गंधककी खानोंमें काम जारी करना। जारने प्रार्थनाको स्वीकृत करते हुये ३० मई १५७४ ई० को आज्ञा दी, कि वह हमारी प्रजा ओस्तियाकों और वोगलोंकी रक्षा करें, और ईतिश-उपत्यकाके तारतार खानोंको अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर करें। राजाज्ञामें स्त्रोगोनोफोंके लिये यह भी रियायत दी गई थी, कि वह बुखारावालों और कजाकोंके साथ बिना शुल्क दिये व्यापार कर सकते हैं। जारने अधिकार तो मुंहमांगेसे भी अधिक दे दिया, लेकिन उसे काममें लानेकी दोनों भाई-स्त्रोगोनोफोंमें शक्ति नहीं थी। ६ सालके भीतर ही दोनों भाई मर गये और उनकी अपार सम्पत्तिका मालिक छोटा भाई सिमाओन स्त्रोगोनोफ-परिवारका मुखिया हुआ, जिसके सहायक याकूब-पुत्र माखिम और ग्रेगोरी-पुत्र निकितसू थे।

काकेशसके उत्तरमें दोन नदीके तटपर बसे स्वतंत्र लड़ाकू किसान—कसाक—ईरान और बुखाराके तरफसे आनेवाले व्यापारियोंके कारवांको लूटना अपना अधिकार समझते थे। उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी, कि एक बार उन्होंने ईरानी शाहके पास भेंट लेकर जाते जारके दूतमंडलको भी लूट लिया। उनके मारे निम्न-बोल्गा-उपत्यकामें आतंक छाया हुआ था। १५७७ ई० में इवानने उनके विरुद्ध सेना भेजकर उन्हें तितर-बितर कर दिया। इस समयके भागनेवाले कसाकोंकी एक टुकड़ी अपने आतमन (सर्दार) येरमक तिमोवियेफके नेतृत्वमें कामा नदीकी ओर गई। येरमक (येरमोलाई, हेरमोलोस) को माखिम स्त्रोगोनोफने अपने नये बसाये नगर ओरेलमें इस ख्यालसे नौकर रख लिया, कि उसके दलका उपयोग साइबेरियाके खानके विरुद्ध करेंगे। स्वामीकी आज्ञा पा येरमक अपने आदमियोंके साथ ८ अक्टूबर १५७८ ई० में प्रस्थानकर चुसोवया नदीके किनारे-किनारे चल ८ अक्टूबर १५७८ ई० को सिलवा तक पहुंचा। वहां उसने एक दुर्ग बनाया, जिसका नाम पीछे येरमकोवो-गोरोदिची पड़ा। जाड़ोंमें

येरमक वहीं ठहरा। उसने अपने तीन सौ कसाकोंको वोगुलोंके देशमें भेजा, जो कि साइबेरियन खानकी सीमातकका पता लगा लूटके मालसे लदे लौट आये। येरमकके साथ तीन ईसाई पुरोहित और एक साधु भी थे, इसलिये उसे साधारण डाकू नहीं कहा जा सकता। येरमककी इन सफलताओंको देखकर स्व्रोगोनोफने उसे तीन तोपें, प्रत्येक सैनिकके लिये डेढ़ सेर बारूद, डेढ़ सेर सीसा, तीन पुड (सवामन) आटा, दो पुड बकला, एक पुड बिस्कुट, एक पुड नमक, ढाई पुड मक्खन दिया—आदमी पीछे नमक लगाया हुआ एक सूअर, हर सौ आदमीपर एक पवित्र मूर्तिके साथ एक झंडा भी दिया। रात-दिन तैयारी करनेके बाद कुछ रसदको वहीं छोड़ येरमकका दल चल पड़ा। येरमक अपने साथियोंके मनोविनोदके लिये बाजे ले जाना नहीं भूला। कसाक सेनाका मुख्य-सेनापति येरमक था और दूसरे सेनापति थे इवान कोल्जोफ, इवान प्रोसा तथा वोगदान ब्रियास्गा। इनके अतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे और भी अफसर थे। कसाक सैनिकोंका संगठन शक्ति और दशकके रूपमें था। उस समय रूससे ओब नदीकी ओरके रास्ते क्रमशः निम्न प्रकार विभक्त होते थे :—

- (१) विम नदी—बुचेगदा—विशचेरा नदी (कामकी शाखा)—लोसवा नदी—तावदा नदी—तोबोल नदी—ओब ।
- (२) विम नदी—बुचेगदा—इशमा नदी—पेचोरा नदी—शोकुर नदी—सिगवा (लपिना)—ओब नदी ।
- (३) बुचेगदा—इशमा नदी—आलेस नदी—इलिश नदी—सोसवा नदी—ओब नदी ।
- (४) बुचेगदा—इशमा नदी—बुचेगदा—इशमा नदी—उसा नदी—सोव नदी—ओब—नदी ।

इन रास्तोंमें सबसे अधिक प्रचलित था—सिगवा और सोसवा होकर जानेवाला रास्ता ।

इतिहासकार मूलरके अनुसार येरमककी सेनामें पांच हजार आदमी थे, जब कि साइबेरियन पंवाड़ा उनकी संख्या आठ सौ चालीस बतलाता है। इस सैनिक टुकड़ीने रूसके लिये उस विजयका आरम्भ किया, जिसने कुछ ही समयमें सारे साइबेरियाको जारके चरणोंमें डाल दिया ।

५ जुलाई १५७६ ई० (भारतमें अकबरके शासनकाल)में येरमक-सेनाने प्रस्थान किया। कुछ जिरियानी लोग उनका पथप्रदर्शन कर रहे थे। चुसोवया नदीकी ऊपरी धार उथली और धीमी थी। येरमक-दल अपनी छोटी नावें लेकर इसी धारसे उत्तरकी ओर बढ़ा। सेराब्रोंकाके तटपर वह जाड़ोंके लिये रुक गये। यहांके निवासी वोगलोंने रूसियोंके साथ अच्छा बर्ताव किया, लेकिन कसाकोंने उन्हें निष्ठुरतापूर्वक लूटकर इसका बदला दिया। उनके इस अत्याचारके कारण आगेके सारे कबीलोंमें आतंक और घृणा पैदा हो गई। १५८० ई०के वसंतके आनेपर येरमक-दल फिर आगे चला। उरालकी नाटी पहाड़ियोंको पारकर वह वरंदाके पनढरपर पहुंचा, जो कि ध्रुवीय महासागर तथा कास्पियनमें जानेवाले जलका विभाजक है। जहांपर वह जाड़ोंके लिये ठहरे, वहांसे दस वस्त (कोश) चलनेपर लड़ाई शुरू हो गई, साथ ही बीमारीने भी शत्रुका काम किया; जिसके फलस्वरूप अब केवल सोलह सौ छत्तीस कसाक बच रहे। लेकिन येरमक और उसके साथी हिम्मत हारकर पीछे लौटनेवाले नहीं थे। वह १२ मई १५८० ई० को खाना हो जल्दी ही तगिल नदीके तटपर पहुंच गये। पहिलेकी नावोंको वह पीछे छोड़ आये थे, इसलिये कुछ सप्ताह ठहरकर यहां उन्होंने नई नावें बनाई, जिनपर चढ़कर वह तुरा नदीके तटपर पहुंचे। यहां एक तारतार सरदार पेपंच (पंस) रहता था, जो पड़ोसी वोगलोंका भी शासक था। उसने तीर-धनुष चलाया, लेकिन बारूदी हथियारोंके सामने तीर-धनुष क्या करते? उसके आदमी भाग गये और येरमक-दलने उनके डेरोंको दखल करके लूट लिया। कसाक लूटते-पाटते तुराके किनारे-किनारे आगे बढ़े। चिङ्गी (त्यू-मेन) नगरको उन्होंने बड़ी आसानीसे ले लिया। इस उपजाऊ इलाकेमें उन्होंने शरद्-निवास करके चारों ओर लूट और छालेके रूपमें कर वसूल किया। येरमकने एक टुकड़ीको कुचुमखानके सीमांत तुरा-तोबोलके संगमपर बसे तुरखन किलातक भेजा। वहां एक तरखन (राजकुमार) रहता था। उस समय कुचुमखानका तहसीलदार कुतुगाई भी तरखनके पास आया हुआ था। कसाक आक्रमण कर कुतुगाईको अपने साथ पकड़ ले गये। येरमकने बहुत खातिर करके उससे बहुतसी बातोंका पता लगाया, और उसे इनाम तथा खान, उसकी खातूनों और कुमारोंके

लिये भेंट देकर बिदा किया। येरमककी चालको कुचुमने समझ लिया और रूसी पोशाकमें लौटे कुतु-गाईकी बातोंपर विश्वास न कर सेना जमा करनी शुरू की।

मई १५८१ ई० में येरमक-दलने तुरासे आगे प्रस्थान किया। थोड़ा ही आगे जानेपर ६ तार-तार-राजकुमारोंके अधीन आई सेनाके साथ भारी युद्ध हुआ। विजय कसाकोंके साथ रही। उन्होंने बड़ी निष्ठुरतापूर्वक शत्रुओंको कतल किया। लूटका जो माल हाथ आया, उसे बाकी बचे हजार कसाक साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्होंने बचे मालको जमीनमें गाड़ दिया और फिर नावपर तोबोल नदीसे आगे बढ़े। नदीके ऊँचे किनारोंपर भूर्ज वृक्षोंके जंगल थे, जिसमें छिपकर तारतार लड़ते, लेकिन बन्दूकोंके सामने उन्हें भागना पड़ता। आगे बढ़नेपर तोबोलनदी जहाँ पतली हो गई वहाँ तारतारोंने जंजीर बांधकर नावोंको रोकनेकी कोशिश की। येरमक वहाँ १६ जुलाईको पहुँचा। तारतार यसाउल अलीशेरकी एक भी न चली और येरमक उन्हें मारता-पीटता आगे निकल गया। अन्तमें वह तोबोल और तावदा नदीके संगमपर पहुँचे, जहाँसे कि रूसका व्यापार-मार्ग जाता था। प्रस्थान करते वक्त येरमक-दलने यहीतक आनेका निश्चय किया था। लेकिन येरमक उतनेसे संतुष्ट होनेवाला नहीं था। आठ दिन वहाँ ठहरकर उसने कुचुमके राज्यके बारेमें और जाननेके वास्ते फिर आगेके लिये प्रस्थान किया। कुचुमने तारतारों, ओस्तियाकों और वोगुलोंकी एक सेना जमा कर उसे महमेतकुलके अधीन प्रतिरोध करनेके लिये भेजा, राजधानी सिविरकी रक्षाके लिये नई खाई बनवाई और पास-पड़ोसके तारतार अमीरोंको भी अपने नगरोंको दुर्गबद्ध करनेके लिये कहा। चुवास-पर्वतके पास इतिश नदीपर कुचुमने मोर्चाबंदी कराई। येरमक जब तावदासे आगे बढ़ते मिर्जावाखान-गांव (बाखान्स्की-युर्त) में पहुँचा, तो महमेतकुल वहाँ लड़नेके लिये तैयार था। यद्यपि महमेतकुलके पास दसगुने (दस हजार) सवार थे, लेकिन पांच दिनके युद्धके बाद उसे बुरी तरहसे हारना पड़ा। येरमकके सारे अभियानका यही सबसे बड़ा युद्ध था। बारूदी हथियारोंके सामने तीर-धनुषकी क्या पेश जाती? तारतारोंने कुछ नीचे तुरबाके संगमपर फिर असफल प्रतिरोधकी कोशिश की। इसके आगे तोबोल और इतिशके संगमसे १६ वर्स्त पहले एक सरोवरपर फिर कुचुमके दर्बारी कराचिनके नेतृत्वमें तारतार जमा थे। उनकी संख्या देखकर कसाक कुछ भयभीत हो लौटनेकी सोचने लगे, लेकिन एक वोगोल बूढ़ेने तारतारोंकी कमजोरीको बतलाकर उनकी हिम्मत बढ़ाई। इस प्रकार येरमक-दल लड़ते-लड़ते आगे बढ़ता गया। १२ अगस्त १५८१ ई० तक अब उनके पास लूटमें बहुत भारी परिमाणमें सोना, चाँदी, मोती, जवाहिर, पशु, अनाज और मधु आ गया था। इसी समय ग्रीक ईसाई सम्प्रदायके अनुसार चौदह दिनका व्रत आया। येरमकने चौदह दिनकी जगह चालीस दिन व्रत रखनेका हुकम दिया।

२६ सितम्बरको फिर कसाकोंने प्रस्थान किया। अब वह इतिश नदीमें जा रहे थे। उन्होंने तारतार-कुमार अतिककी बस्ती (साउस्त्रोफनी) को आसानीसे ले लिया। सामान नावोंपर लदा था। संख्या भी कम हो गई थी। वह सोचने लगे लौटें या आगे बढ़ें। अन्तमें उन्होंने आगे बढ़नेका ही निश्चय किया। अब वह खानके राज्यके गर्भमें पहुँच रहे थे। कुचुम अपने लोगोंके साथ चुवासके दुर्गबद्ध प्रदेशमें प्रतिरोधके लिये तैयार था। कुचुमका आक्रमण इतना जबर्दस्त था, कि येरमक और कोल्जोफ भी “भगवान् बचाये” चिल्लाते आगे बढ़े। तारतार अपने (शायद अंधे) सरदार को घेरे हुये खड़े थे, इमाम और मुल्लाह “या मुहम्मद” पुकार रहे थे। कसाक मोर्चेके तीन खुले स्थानोंकी ओर दौड़े। महमेतकुल लड़ाईमें घायल हुआ था, जिसे इतिशपर नावद्वारा पहुँचाया गया, बाकी सेना हताश हो भागने लगी— भागनेवालोंमें सबसे पहले ओस्तियाक सरदार थे, उनके बाद तारतार। कुचुम कुछ खजानेके साथ इतिशकी शाखा इसिम नदीकी ओर भागा। इस युद्धमें एक सौ सत्तर रूसी मारे गये, जिनके लिये बहुत पीछेतक तबोल्स्क नगरके गिर्जामें विशेष प्रार्थना की जाती थी। कुचुमने कजान या बुखारासे लोहेकी दो तोपें मंगवाई थीं, जिन्हें भागते वक्त उसने इतिशमें फेंक दिया था। कसाकोंने निकालकर उन्हें विजयकी सौगात बनाया। चुवाश, विजिक, सुसगन, अबालक नगरोंके तारतार-अमीर कुचुमके साथ भाग गये। कुचुम भागते समय थोड़ी देरतक तोबोल नदीके तटपर अविस्थित यालूतुरामें ठहरा था।

७ नम्बर १५८१ ई०को येरमक सदलबल राजधानी सिविरमें दाखिल हुआ। वहांकी छोटी कोठरियोंमें मुस्किलसे खान और उसके अनुचर रह सकते थे। राजधानीकी एक ओर इतिश नदी और दूसरी ओर सिविरका नामकी एक छोटी नदिका बह रही थी, बाकी दो तरफ धुस्तकी मोरचेबंदी थी। मकान सारे लकड़ीके थे, इसलिये पीछे उनका कोई अवशेष नहीं रह गया। खानकी राजधानीमें समूरी छाल तथा दूसरी बहुमूल्य वस्तुयें भारी परिमाणमें मिलीं, लेकिन आहारकी कोई चीज नहीं प्राप्त हुई।

विजयके तीन दिन बाद देमियान्का नदीसे होते एक ओस्तियाक सरदार येरमकके पास सम्मान प्रदर्शन करनेके लिये आया। वह अपने साथ समूर, मछली तथा दूसरी खाद्य वस्तुयें ले आया था। येरमक ने थोड़ासा कर लेकर खातिर-सम्मान प्रदर्शन करके उसे लौटा दिया। धीरे-धीरे भय छूट गया और इतिश तथा तोबोल-उपत्यकाओंके और बहुतसे कबीले भेंट ले-लेकर पहुंचने लगे। लेकिन, अभी सिविरखानने हथियार रख नहीं दिया था। अन्तके अभावमें मछली रूसियोंका प्रधान खाद्य थी। बीस रूसी मछली मारने गये थे। महमतकुलने एकाएक आक्रमण करके उन्हें मार डाला। येरमकने पीछा करके महमतकुल और उसके आदमियोंको इतिश नदीके तटपर अवस्थित शम्सिन्स्की गांवमें पकड़कर घोर बदला लिया। कुछ ही आदमी अपने सरदारके साथ वहांसे बच निकले। इस विजयके बाद अमीर इशबरदीने येस्केल्विनियान (तावदा) झीलसे आकर अधीनता ही नहीं स्वीकार की, बल्कि और छोटे-छोटे राजाओंसे अधीनता स्वीकार करानेमें रूसियोंकी सहायता की। सुकलेन (शायद वोगल) सरदारने भी छालोंके रूपमें कर प्रदान किया।

सिविर-विजयकी खबर देनेके लिये येरमकने अपने साथी इवान कोल्जोफको मास्को भेजा, जिसके साथ कुचुमके अधीनता स्वीकार करनेका पत्र भी था। कोल्जोफ जाड़ेके मध्यमें बर्फवाला जूता पहने, समूरके कोटसे शरीर ढांके लम्बी-पतली बेपहियेकी गाड़ीको कुत्तों और बारहंसिगोंसे खिंचवाते इशबरदीकी पथप्रदर्शक बना तावदासे पहाड़ोंके रास्ते होते चेरदिन पहुंचा।

इससे कुछ पहले चेरदिनको एक वोगल सरदारने लूटा था। वहांके कमांडर वासिली पेलेपेलि-जिनने जारके पास शिकायत भेजी थी, कि स्त्रोगोनोफोंने दोनवाले विद्रोही कसाकोंको शरण दी है, जिन्होंने वोगलोंको लूटा, उसीसे नाराज होकर उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया। इसपर जार इवानने नाराज हो २८ नवम्बर १५८२ ई० को स्त्रोगोनोफोंके पास सख्त पत्र लिखकर येरमक तथा उसके साथियोंको बुरा-भला कहा था। लेकिन इसके थोड़े ही समय बाद जब कोल्जोफने अपने साथियोंके साथ मास्को पहुंचकर सिविर-विजयकी खुशखबरी दी, तो जारने अपनी बातको वापस ले लिया और दो मूल्यवान् कवच, एक चांदीका प्याला, अपने पहननेका एक समूरी चोगा, तथा कितने ही और कपड़े येरमकके लिये और दूसरे इनाम उसके साथियोंके लिये भेजकर कोल्जोफको लौटाया।

महमतकुल अभी भी हाथ नहीं आया था। १५८२ ई० के शुरूमें पता लगते ही येरमकने साठ सैनिकोंको उसपर अचानक हमला करनेके लिये भेजा। इतिशके किनारेसे नातिदूर तुलार झीलके पास, जहां पीछे कुलारेप्स्कया स्लोवोदा गांव बसा, एक जगह डेरा डाले पड़े महमतकुलपर कसाक टूट पड़े। अपने बहुतसे आदमियोंको मरवाकर महमतकुल बंदी बना। कुचुमके विरुद्ध महमतकुल अच्छा जामिन मिला, यह समझकर येरमक बहुत खुश हुआ, और उसने उसे बड़ी खातिरके साथ सिविर नगरमें अच्छी तरह रखा। कुचुम भागकर इशिम नदीकी ओर चला गया। वहीं सिविरके पुराने खान बेग-फुलातके पुत्र सैदियतने बुखारसे लौटते समय कसाकोंसे मेल करके अपने पिताके शत्रुपर आक्रमण कर दिया। तबतक सबसे शक्तिशाली अमीर मिर्जा कराचा भी कुचुमका साथ छोड़ चूलिम्स्कोये सरोवर-पर चला गया था। सैदियतके आक्रमणने कुचुमकी हालत और बुरी कर दी।

१५८२ ई० के बसंतमें येरमकने पचास सैनिकोंके साथ बोमदान ब्रियास्गाको इतिशके तारतारों तथा ओस्त्रियाकोंसे कर उगाहनेके लिये भेजा। तारतारोंने प्रतिरोध किया। उनकी गद्दी अरिन्द-

सियंकाके तटपर थी। कसाकोंने आक्रमण करके उसे तोड़ दिया। यह तारतार अभी भी मुसलमान नहीं थे। वह अपनी खून लगी तलवारको चूमते थे। सैनिकोंने वहांसे बहुतसे छाले और रसद येरमकके पास भेजी। फिर आगे बढ़ते हुये कितने ही और कबीलोंको अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया। तुरतेस नदीके तारतार तथा पड़ोसी उबाती तारतारोंने भी अधीनता स्वीकार की। इतिशके किनारेके उग्रोंने भी कर देना स्वीकार किया। कसाक-टुकड़ी इतिशके साथ-साथ ओब नदीतक जा फिर सिविर-नगरमें लौट आई। रास्तेमें उन्हें कितनी ही बार लड़ना पड़ा, लेकिन उनका एक भी आदमी नुकसान नहीं हुआ।

१५८२ ई० की गर्मियोंको येरमकने सिविरमें बिताया। फिर महमतकुलके साथ बहुतसी भेंट और शुल्ककी वस्तुयें देकर उसने मास्को दूतमंडल भेजा। १५९३ ई० में त्रियाजगाने जो रास्ता पकड़ा था, उसी रास्ते वह इतिशके नीचे ओबकी ओर चले। आगे तावदा नदीके तारतारोंसे भारी लड़ाई हुई, झील लाशोंके मारे गंदी हो गई, इसीलिये उसका नाम पगघुये ओज़ेरो पड़ा।

जारने नवविजित सिविर (साइबेरिया) देशपर शासन करनेके लिये पांच सौ कसाकोंके साथ सेमिआन दिमित्रि-पुत्र वोल्खोव्स्कीको २२ मई १५८३ ई० को मास्कोसे रवाना किया। वह नवम्बरमें सिविर पहुंचा। इसके बाद ही साइबेरियामें अकाल पड़ गया। येरमकका अभियान इतना निष्ठुर और ध्वंसकारी था, कि वहां अन्न मिलना मुश्किल हो गया। कितने ही कसाक भूखके मारे मर गये। उसके बाद चर्मरोगने आफत ढाई। वोल्खोव्स्की स्वयं मौतका शिकार हुआ। मिर्जा कराचाने कजाकोंसे सुरक्षित रखनेके बहाने कोल्जोफ और उसके चालीस साथियोंको बुलाकर मार डाला। तारतारों और ओस्तियाकोंने अब आम विद्रोह कर दिया, जिसके कारण कितने ही कर-उगाहनेवाले कसाक मार डाले गये। कराचाने अन्तमें सिविर नगरको भी घेर लिया। येरमकके ऊपर नगरकी रक्षाका भार छोड़कर अधिकांश कसाकोंने रातके वक्त सोसकानमें पड़े कराचाके डेरेपर छापा मारकर उसे दखल कर लिया। मारे जानेवालों में कराचाके दो पुत्र भी थे, लेकिन कराचा भाग निकलनेमें सफल हुआ। फिर सेना जमा करके तारतारोंने हमला किया। उस वक्त दुश्मनकी गाड़ियोंसे मोरचाबंदी करके रूसियोंने उनका मुकाबिला किया। काफी हानि उठानेके बाद तारतार भाग गये। अब रूसियोंकी धाक चारों ओर जम चुकी थी। पास-पड़ोसके तारतारों और ओस्तियाकोंने समझ लिया, कि प्रतिरोध करनेसे कोई फायदा नहीं हो सकता, इसलिये उन्होंने अधीनता स्वीकार की, सिविरमें अब खाने-पीनेकी चीजें काफी आने लगीं।

साइबेरियाका नाम इसी सिविर नगरके कारण पड़ा, यद्यपि रूसी भाषामें सिविरका अर्थ उत्तर (दिशा) भी है। सिविर नगर साइबेरियाके कीमती समूरोंके व्यापारका बड़ा केंद्र था, इसलिये वहां बुखाराके व्यापारी भी आया करते थे। मुमकिन है, साइबेरियाके समूर और अल्ताईके सोनेके लिये मध्य-एशियासे यहां आनेवाला मार्ग वही पुराना वणिक्पथ हो, जिससे बुखाराके वाणिज्य-सार्थ यहां आया करते थे। बुखाराके कारवांके आनेका समय था। पता लगा, कुचुम उसपर हमला करना चाहता है। येरमकने कारवांकी रक्षार्थ डेढ़ सौ सैनिक भेजे और स्वयं भी वगाई नदीके संगमतक गया। कारवां नहीं आया। येरमक अपने दलको लेकर वेगुइशोव्स्कोये सरोवरपर अवस्थित तारतार-राजकुमार वेगुइशके गढ़पर आक्रमण किया, प्रतिरोध करनेमें प्रायः सारे तारतार मारे गये। इसके बाद येरमकने शमसा और कियॉचिक, साला, कोर्दकपर चढ़ाई की। सालामें थोड़ा-सा प्रतिरोध हुआ। कोर्दकके आदमियोंने भागकर जंगलमें शरण ली। तेबेन्दा (तुबेंदा) के तारतार-राजा येगिगइने अपनी सुंदरी लड़कीका येरमकसे ब्याह करना चाहा, किन्तु येरमकने विवाहसे इन्कार करते हुये उसे अभय वचन दिया। कुचुम इसी लड़कीको अपने लड़केके लिये चाहता था। इशिमके संगमकी लड़ाईमें पांच कसाक मारे गये। बाकी दल इतिशके साथ-साथ आगे चला। अउसकाकुल झीलके ऊपर प्रसिद्ध तारतार किला कुल्लरा था, जो कल्मक मंगोलोंसे सीमाकी रक्षाके लिये बनाया गया था। उसके ऊपर पांच रोज घेरा डाल लौटते वक्तके लिये छोड़े कसाक-दलने इतिशसे पूरब कुलारचोक झीलके ऊपर अवस्थित ताशदकान नगरपर आक्रमण किया, जो

बिना लड़ाईके ही सर हो गया । फिर शिस् और इतिशके संगमपर बसे तारतारोंके अन्तिम गांव शिसतमकपर पहुंचे । कसाक गरीबोंसे कर नहीं थोड़ी-सी भेंट लेते थे, जिसका प्रभाव साधारण जनतापर अच्छा पड़ रहा था । जब वह लौटनेके लिये ताशदकान पहुंचे, तो बुखाराके कारवांके आनेकी खबर मिली । उससे मिले बिना ही कसाक-दल येरमकके नेतृत्वमें सिविरकी तरफ लौटा । वह अपने पहलेके एक डेरे-येरमकोवा पेरेकोफ-के पास एक भींटे (जरेवो गोरोदिची) पर पहुंचे, जिसके बारेमें तारतारोंका कहना था, कि यह उसी कूसिम-तुरा (कुमारी दुर्ग) का अवशेष है, जिसको कि कुमारियोंने अपने लहंगेमें मिट्टी ढो-ढोकर बनाया था । दुश्मनसे अब कसाक निश्चित हो गये थे, इसलिये बिना संतरी रखे ही उन्होंने वहां डेरा डाल दिया । कूचुमके चरने तीन बन्दूकों और कितने ही कारतूसोंको ले जा कसाकोंके बारेमें उसे खबर दे दी । वह अपने आदिमियोंके साथ आकर उनपर टूट पड़ा । येरमक शत्रुओंकी पांतीको चीरता नदीके किनारे उस स्थानपर पहुंचा, जहांपर अपनी नावोंके होनेकी उसे आशा थी । नाव न पाकर वह नदीमें कूद पड़ा । जारने जिस कवचको उसकी रक्षाके लिये भेजा था, वही उसके मरनेका कारण बना—कवचके बोझके मारे १७ या १८ अगस्त १५८५ ई० को येरमक नदीमें डूबकर मर गया । इस प्रकार एक क्रूर किन्तु साहसी पुरुषकी जीवन-यात्रा समाप्त हुई ।

येरमकका शव अबालकसे १२ वर्तपर २५ अगस्तको येपंचिन्स्की नामक तारतार गांवमें मिला । कवचका एक भाग और ओस्तियाकोंकी देवमूर्तिसे बेलोगोर्स्कके लिये एक घंटा बनाया गया और दूसरे भागको मिर्जा कैदोलको दिया गया । येरमकका चोगा राजकुमार सैदियतको मिला, और तलवार तथा कमरबन्द मिर्जा कराचाको । मुल्लोंने पूजाके डरसे येरमककी कबरको छिपा दिया ।

इस लड़ाईसे सिर्फ एक आदमी बच निकला, जिसने सिविरमें जाकर खबर दी । तारतारोंसे भयभीत नेताविहीन एक सौ पचास भूखे कसाक २७ अगस्त १५८४ ई० को सिविर छोड़कर लौटनेके लिये मजबूर हुये । कुचुमने उन्हें नहीं छोड़ा और अपने पुत्र अलीको भेजकर सिविरपर फिरसे अधिकार कर लिया । जल्दी ही पुराने खानवंशके राजकुमार सैदियतने अलीको मार भगाया । साइबेरियाका अभियान निष्फल नहीं हुआ, और न रूसियोंका पैर तोबोल नदीके तटपर सिविर नगरतक ही आकर रुक गया ।

३०. पयोदर, इवान IV-पुत्र (१५८४-९८ ई०)

इवान IV ने क्रोधध हो अनजाने अपने ज्येष्ठ पुत्र इवानको मार दिया । क्रूर इवानके मरनेके समय उसके दो पुत्र जीवित थे, जिनमेंसे पयोदर उसकी पहिली बीबी अनस्तासिया रोमनोवासे था और दूसरा शिशु दिमित्रि उसकी अन्तिम स्त्री मरिया नागायासे । अनस्तासिया रोमनोफ वंशकी थी, जो कि जल्दी ही रूरिक-वंशका स्थान लेनेवाला रूसका अंतिम राजवंश बनने जा रहा था । पयोदर रूसका जार बना और जारकुमार दिमित्रि अपनी मां और नानावंश (नगाय) के साथ उगलिच नामके छोटेसे नगरमें एक छोटी-सी जागीर देकर निर्वासित कर दिया गया । दिमित्रि बहुत दिनोंतक नहीं जिया, और १५९१ ई०में मर गया । पयोदर चिररोगी, बहुत दुर्बलबुद्धि किंतु साधु स्वभावका आदमी था । वह अपना सारा समय भगवान्की भक्तिमें बिताता । गिर्जेके घंटोंको बजाते उनकी टुन-टुनकी आवाज सुननेमें उसे बड़ा आनंद आता था । लोग खुलेआम उसे मूर्ख कहते थे । राज्यका शासन जारके संबंधियों और उसके कृपापात्र बायरोंके हाथमें चला गया, जिनमें बायर बोरिस पयोदर-पुत्र गदुनोफ जल्दी ही सबसे अधिक प्रभावशाली बन गया । गदुनोफ-परिवार पुराने रूसी राजुल-वंशोंमेंसे नहीं था, इसलिये वह उच्चकुलीन होनेका दावा नहीं कर सकता था । लेकिन इवान IV के अन्तिम दिनोंमें बोरिसका प्रभाव बहुत बढ़ गया था, जिसमें उसकी बहिन इरिताका जार पयोदरसे ब्याह होना भी एक कारण था । वैसे बोरिस गदुनोफ बड़ा ही योग्य और गुणीपुरुष था, यद्यपि उसने ईसाई-धर्मके अनुसार पुस्तकोंकी शिक्षा अच्छी तरह नहीं पाई थी । कुलीन बायर पुराने रीति-रवाजोंका पालन करना आवश्यक समझते थे, किंतु बोरिस उनकी पवार्ह नहीं करता था । वह विदेशियोंसे मिलने-जुलनेमें जरा भी आनाकानी नहीं करता था ।


अपने बहनोईकी ओरसे शासनका भार संभालते ही उसका पहला काम था, अपने काममें बाधा देनेवाले बायरोको दरबारसे निकाल बाहर करना। वह स्वयं विदेशी राजदूतोंसे मुलाकात करता और अपने घरमें राजदरबार जैसा ठाट रखता था। गडुनोफ ग्रीक चर्चके महत्त्वको समझता था। इस चर्चका सबसे बड़ा महत्त्व या महासंघराज कान्स्तन्तिनोपोलमें रहता था, जो कि १४५३ ई० में सुल्तान मुहम्मद उसमानअली लुर्कके हाथमें चला गया था। यह कैसे पसंद किया जा सकता था, कि ईसाई-धर्मके एक बड़े सम्प्रदायका महागुरु ईसाई-विरोधी सुल्तानके मातहत रहे। १६ वीं सदीके अन्तमें महासंघराज जब-तब मास्को आने लगा था, जहां उसे बहुत भेंट-पूजा मिलती थी। इसी तरहकी एक यात्रामें महासंघराज जेरेमिया जब मास्को आया, तो गडुनोफने उससे रूसी चर्चके लिये एक पृथक् संघराज होनेकी स्वीकृति ले ली। १५८९ ई० में इस प्रकार बना प्रथम रूसी संघराज योब गडुनोफका अनुगामी था।

जार फ्योदरके शासनके अन्तिम वर्षोंमें सारा शासनयंत्र बोरिस गडुनोफके हाथमें चला गया। गडुनोफकी सफलताओंने भी उसके प्रभावको बढ़ानेमें सहायता की। लिवोनियाके युद्धमें रूसके हार खानेपर बाल्तिक तटको स्वीडनने दखल कर लिया था, जिसके कारण पश्चिमी युरोपसे रूसका सीधा संबंध नहीं रह गया था। गडुनोफने इसके लिये १५९० ई० में स्वीडनसे लड़ाई शुरू की, और १५९५ ई० की संधिके अनुसार स्वीडनको मजबूर होकर फिनलन्द खाड़ी और लदोगा-सरोवरके तटके भूभाग (इवान-गोरद, याम, कोपोर्ये, करेला) को दे देना पड़ा। उस समय राज्यके सामने किसानोंकी एक बड़ी समस्या थी—रूसी किसान भूमिपतियोंके शोषण और अत्याचारके कारण अपने गांवोंको छोड़ दक्षिण-पूर्व और उत्तरकी सीमांत-भूमिमें बसते जा रहे थे, जिसके कारण खेतोंका जोतना मुश्किल हो गया था। उन्हें मजबूर करके रखनेके लिये स्वीडनसे युद्ध होते समय (१५९२-९३ ई०) ही किसानोंकी गणना की गई थी। उस वक्त जो किसान जिस जमींदारके अधीन दर्ज किये गये थे, उन्हें १५९७ ई० की राजघोषणाके अनुसार वहीं रहनेके लिये मजबूर किया गया।

१५९८ ई० में जार फ्योदरके मरनेके साथ प्राचीन रूरिक-राजवंश समाप्त हो गया। जेम्स्की सबोर (राष्ट्रीय परिषद्) ने १५९८ ई० में बैठक करके बोरिस गडुनोफको नया जार चुना।

रूरिक-वंशने रूसके लिये बड़ा ही ऐतिहासिक काम किया। इसीके शासनकालमें जनयुगके अवशेषों को खतम करके रूसमें एक शक्तिशाली सामन्ती व्यवस्था कायम की गई, फिर रूसके भिन्न-भिन्न टुकड़ोंमें बंटी रियासतोंको इकट्ठा करके बृहत्तर रूस देशके निर्माण करनेका प्रयत्न किया गया। इसमें मंगोलोंने आकर दो शताब्दियोंतक कुछ बाधा जरूर डाली, लेकिन अन्तमें फिर एकीकरणका काम बहुत जोरसे शुरू हुआ और रूसकी सीमाएं उत्तरमें फिनलन्दकी खाड़ी, पश्चिममें बाल्तिक-समुद्र, दक्षिणमें कास्पियन सागर और पूरबमें सिविर नगरतक फैल गईं। दक्षिणी सीमा कालासागरतक पहुंच जाती, लेकिन कान्स्तन्तिनोपोलके तुर्कोंने (१४७५ ई० में) क्रिमियाके खानको अपने अधीन करके उधरका रास्ता रोक दिया। यद्यपि आगेकी पौन शताब्दी रूसके लिये बहुत अच्छी साबित नहीं हुई, लेकिन साथ ही एक बार जहांतक वह अपने पैरोंको रख चुका था और जहां जनताका स्वार्थ सहायता देनेके लिये मौजूद था, वहांसे उसे पीछे हटाया नहीं जा सकता था। रूसको और आगे ले चलनेका काम अब प्रथम पीतरको करना था, जो कि औरंगजेबका तरुण समकालीन था। अकबरकी मृत्युसे सात वर्ष पहले फ्योदरका देहान्त हुआ। देशके एकीकरण और दृढ़ताके लिये जैसे अकबरने भारतमें काम किया था, वही काम रूरिक-वंशके १६ वीं शताब्दीके जारोंने किया। अकबरके कामको औरंगजेबने बेकार कर दिया, लेकिन रूसके सौभाग्यसे उसे जार पीतर जैसा दूरदर्शी शासक और चतुर सेनानायक मि ला, जिसने रूसके पिछड़ेपनको हटानेका काम बड़ी सफलतापूर्वक किया।

रुरिक-वंशवृक्ष
(.....६११-१५६८ ई०)



भाग २

दक्षिणापथ (१२२४-१७४७ ई०)



चगताई-वंश

(१२२२-१३७० ई०)

छिड़गिस्के मरने के बाद उसका राज्य चार उलुसोंमें विभक्त हुआ—(१) जू-छिड़-उलुस या सुवर्ण-ओर्दू (किपचक-राज्य), जिसके बारेमें अभी हम कह चुके हैं, (२) ओगोताई-उलुस, चगताईके उत्तर-पूर्वमें था, जिसके खान एमिल और कुबानमें रहते थे, (३) तूलुइ-उलुस, जो कि ओगोताई उलुसके उत्तरमें था और (४) चगताई (जगताई, जगदाई)-उलुस जिसके हाथमें अन्तर्वेद, सप्तनद और पूर्वी तुर्किस्तान था। इन चारों उलुसोंके अतिरिक्त कुबिलेइ खानके अनुज खुलाकूने ईरान, इराक, शाम और आजूरवाइजानमें अपना एक अलग राजवंश कायम किया था। छिड़-गिस्ने ही अपना राज्य चार भागोंमें विभक्त करके चारों पुत्रोंको दे दिया था, लेकिन साथ ही चारों उलुसोंके खानोंको एक कथान (महाखान) के अधीन रहनेकी व्यवस्था भी कर दी थी। यह व्यवस्था बहुत-कुछ १३वीं शताब्दीके अन्त (कुबिलेके मृत्युके समय १२६४ ई०) तक चलती रही, जिसमें सबसे अधिक बाधा ओगोताई और चगताई-उलुसोंकी ओरसे दी गई।

१. जगताई, छिड़-गिस्-द्वितीय पुत्र (१२२७-४२ ई०)

छिड़गिस्ने अपने द्वितीय पुत्र चगताई (जगताई, छगताई) को जो भूभाग दिया था, उसमें अन्तर्वेद (आमू और सिर-दरियाके बीचका भाग), काश्गर, बदख्शां, बलख—अर्थात् उइगुर डांडे, अल्ताई और हिन्दूकुश पर्वतमालाओंके बीचके देश शामिल थे। चगताई-भूमिमें आजकल चीनी-तुर्किस्तान, सोवियत कजाकस्तान-किर्गिजस्तान-उज्बेकिस्तान-ताजिकिस्तान-तुर्कमानिस्तान और अफगानिस्तान शामिल हैं। चगताईवंशने ७७१ हि० (१३७० ई०) तक १४६ वर्ष राज्य किया, फिर उसका स्थान तेमूर और उसके वंशजोंने लिया। लेकिन, तेमूरकी संतानोंने अबू-सईद (१४५१-६६ ई०) तक चगताई-वंशके किसी व्यक्तिको गुडिया खान बनाकर कायम रखा। जिस तरह अब्बासी खलीफोंकी राजशक्ति खतम हो जानेपर भी बगदादमें उन्हें कठपुतली खलीफा बनाकर कायम रखा जाता रहा, उसी तरह छिड़-गिस्के वंशकी पवित्रतुका खयाल करके चगताई खानोंको समरकन्दकी गद्दीपर रखा जाता रहा। चगताई-उलुस १२२७ ई० से १३१८ ई० तक रहा। उसके बाद राज्यशक्तिको हथियानेके लिये मंगोल और अ-मंगोल, स्वदेशी और विदेशी दलोंका झगड़ा उठ खड़ा हुआ, जिसमें अन्तर्वेदमें स्वदेशी तुर्कोंका पलड़ा भारी हो गया और इस प्रकार अन्तर्वेद (मावरा-उन्न-ह) और मुगोलिस्तानके दो राज्य पैदा हो गये। चगताई खानकी राजधानी अल्मालिक इलि-उपत्यकामें वर्तमान कुलजा नगरके पास थी।

छिड़-गिस्के अन्तःपुरमें पांच सौ खातूनें (रानियां) और बेटियां थीं। हरेक बड़े विजयमें हाथ लगी सुंदर राजकन्याओंमेंसे एकको हरएक सेनापति अपने कथानके पास भेजना आवश्यक समझता था। बापकी तरह उसके लड़कोंके भी बड़े-बड़े रनिवास थे, तो भी प्रमुख रानियां (खातूनें) मंगोल-वंशकी ही होती थीं।


चगताई खान अपने पिताके यस्सा (नीतिशास्त्र) का पंडित तथा उसपर अक्षरशः चलनेवाला माना जाता था। यस्साके अनुसार घरेलू जानवरोंको जबह (हलाल) करना या दिनमें बहते पानीमें नहाना वर्जित था। जगताईने यस्साके विरुद्ध आचरण करनेपर एक मुसलमानको मृत्युदंड दे दिया था। उसका शासन दृढ़ किंतु न्यायानुमोदित था। उसके राज्यमें डाकका बहुत अच्छा प्रबन्ध था। यद्यपि वह जबर्दस्त

पियकड़ था, किंतु राजकाजके देखनेमें गफलत नहीं करता था। लोग उसके कठोर नियमोंको भी मानते, क्योंकि वह भरसक अन्याय नहीं होने देता था। उसके यहां सभी धर्मों और जातियोंके लोग समान थे। समान दृष्टिसे देखे जानेका यह अर्थ नहीं था, कि मंगोलोंके समान ही दूसरे लोगोंको भी माना जाता था। उसकी प्रजामें अधिकांश मुसलमान थे, इसलिये उसने मुसलमानोंको बड़े-बड़े दर्जे दिये थे; तो भी बड़े पदोंपर मंगोलोंके बाद तुर्कोंको अधिक देखा जाता था। इसका कारण भी था—केवल दक्षिणके थोड़ेसे अंशको छोड़कर उसकी प्रजा अधिकांश तुर्क थी। तुर्कों और उनके सरदारोंने तुर्क जातिके इतिहासमें प्रवेश करनेके समय (६ठी सदीके मध्य) से ही सैनिक जीवनको नहीं छोड़ा और वह अब भी जब-तब घुमन्तू जीवनका भी अभिनय करते थे, क्योंकि मध्य-एशियामें घुमन्तू जीवनको सैनिक जीवनका पर्याय समझा जाता था। चगताई और जू-छिके उलुस तुर्कोंके ऊपर शासन करते थे। अंतमें इन उलुसोंके मंगोल भी इन्हीं तुर्कोंमें विलीन हो गये। लेकिन, चगताई खानके लिये अभी वह समय दूर था। चगताईने यलंजपुत्र मसूदबेगको अन्तर्वेदका शासक नियुक्त किया था, जो कि तुर्क मुसलमान था। मसूद पहले चीनमें भी शासक रह चुका था। उस वक्त राज्यमें व्यक्ति-कर आमदनीका एक बड़ा स्रोत था, जो सम्पत्तिके अनुसार प्रतिव्यक्ति एकसे सात तंका (१.१० जूयेनी) होता था। सभी धर्मोंके पुरोहित करसे मुक्त थे।

अपने गुरु तातातुगाकी शिक्षासे चगताईने फायदा उठाया था। गुरुने शिक्षा दी थी—शासकको न्यायपरायण और उत्साही होना चाहिये। समरकन्द तथा बुखाराकी जगह अलमालिकको राजधानी बनाना चगताईके बाद उसके वंशजोंको भी पसंद आया, क्योंकि वहां उनके बहुसंख्यक घोड़ों और पशुओंके चरानेके लिये विशाल चरागाहें थीं। अभी राजशक्ति मंगोल तलवारोंके ऊपर निर्भर थी, जो ऐसे खानको कभी नहीं पसन्द करते, जो पूर्वजोंके जीवनको छोड़कर नगरके विलासी जीवनमें फंस गया हो। मंगोलोंका शासन आर्थिक शोषणका था ही, इसलिये सारी निष्पक्षता दिखलानेपर भी मुल्ला मंगोल काफिरोंके विरुद्ध लोगोंको भड़का दिया करते थे, जिसके कारण विद्रोह हो जाना आसान था।

बुखारा-विद्रोह (१२३२ ई०)—१२३२ ई० में बुखारामें मंगोलोंके विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, उसका नेता एक छलनी बनावेवाला महमूद था। वह बुखारासे तीन लीग (योजन) दूर ताराबमें पहले-पहल १२३२-३३ ई० (६३० हि०) में प्रकट हुआ। उसने दावा किया—अल्लाने मुझे दिव्य शक्ति देकर भेजा है। पहले शायद भूत भगानेका काम करके उसने अपने प्रति लोगोंके मनमें विश्वास पैदा किया। मुसलमान हो जानेपर भी पुराने भूत-प्रेत लोगोंके मनसे गये थोड़े ही थे—मुसलमान भी जिन, शैतान आदिपर विश्वास करते थे। महमूदकी दिव्यशक्तिको पहले उसकी बहिनने स्वीकारा, फिर उसके दूसरे कितने ही अनुयायी बने। सब जगह हल्ला हो गया है, कि संत महमूदके पास जो जाता, उसकी बीमारियां छूट जाती हैं। फिर अंधे-लूले-लंगड़े बड़ी भारी संख्यामें उसके पास पहुंचने लगे। जब २०वीं शताब्दीके मध्यमें उड़ीसाके नैपालबाबाके पास लोग रेलों-मोटारों-विमानोंसे दौड़ने लगे, तो आजसे सवा सात सौ वर्ष पहलेके अंतर्वेदके लोगोंका ऐसा करना कौनसी आश्चर्यकी बात थी? महमूदका यश ताराबसे चलकर राजधानीमें पहुंचा। मुल्ला शम्शुद्दीन महमूदने पहले हीसे भविष्यद्वाणी लिख छोड़ी थी, कि मुसलमानोंका मुक्तिदाता ताराबमें पैदा होगा। धर्मांध महमूदने जल्दी ही देखा, कि उसके अनुयायियोंकी संख्या बहुत अधिक हो गई है और वह मंगोलोंके विरुद्ध उठ खड़े होने के लिये उसकी आज्ञा भर चाहते हैं। इस परिस्थितिको देखकर बुखाराके राज्यपाल और दूसरे अधिकारी घबड़ा उठे। उन्होंने उस समय खोजंदमें अवस्थित मसूदबेगके पास सलाहके लिये खबर भेजी और इधर नये पैगम्बरको दुआ देनेके लिये बुखारा बुलवाया। मौका पाते ही उस पागलको मरवा डालनेका निश्चय किया गया था, किंतु महमूद उतना पागल नहीं था। उसे षड्यंत्रका पता लग गया। उसने साथ चलते रक्षी मंगोलोंकी ओर मुंह करके एकाएक उनके विश्वासघातके लिये भर्त्सना करते कहा—मैं तुम सबको इसी समय अंधा कर देता हूं। मंगोल रक्षियोंके दिलमें इसका भारी भय छा गया। उन्होंने इसे उसकी दिव्यशक्तिका प्रमाण समझा। बुखारामें महमूदका स्वागत

राजसी ढंगसे हुआ। उसे सल्जूकी सुल्तान संजरके बनवाये महलमें ठहराया गया। दर्शन करनेवालों की भारी भीड़ लगने लगी। लोग यह सोचकर अपनी जीभ निका ले खड़े होते, कि महमूदके थूककी एक बूंद हमारे मुंहमें चली जाये और हम सारे रोगों और आफतोंसे मुक्त हो जायें। बुखाराके मुल्लों और अमीरोंने इस अद्भुत संतको अपनी दूकानदारी और अधिकारके लिये खतरनाक समझा। उन्होंने मंगोलोंको उसे मार डालने की सलाह दी। सब होते भी महमूदको उनके फंदेसे निकलकर पड़ोसके पहाड़में भाग जानेमें कोई अड़चन नहीं हुई। लोग पैगम्बरके पीछे-पीछे चले। किसानोंने हल्ला उड़ाया, कि पैगम्बर हवासे उड़कर उस पहाड़में चला गया। लोगोंकी भक्ति और भी बढ़ गई। महमूदने जब देखा, कि शासक उसका प्राण लेनेके लिये तैयार हैं, तो उसने हथियार उठानेके लिये हुकुम देते हुए कहा "अब समय आ गया है, कि काफिरोंको कतल कर दिया जाय।" थोड़े ही समय बाद महमूद पैगम्बर और सुल्तानके रूपमें एक भारी अंधविश्वासी भीड़को लिये बुखारामें दाखिल हुआ। उसने मुल्ला शम्शुद्दीन महमूदको बुखाराका सदरे-जहान नियुक्त किया, और लोगोंको हुकुम दिया, कि धनियों तथा



अमीरोंको लूटो। अपने भवतोंको उसने विश्वास दिलाया—“मेरे पास एक गुप्त सेना है, जो हवामें मेरे हुकुमकी प्रतीक्षा कर रही है। देखो उन हरितवस्त्रधारियोंको और उन दूसरे श्वेतवस्त्रधारियोंको; जैसे ही मैं संकेत करूंगा, वह हमारी मददके लिये उतर आयेंगे।” भीड़मेंसे एक आदमीने कहा, “हां, मैं देख रहा हूँ।” फिर सभीने वही बात दुहराई। महमूदने अगले जुमा (शुक्रवार) को अपने नामका खुतबा पढ़वाया। उसने धनियोंकी सम्पत्ति जब्त कर ली। बुखाराकी सुंदरियां बहुत भारी संख्यामें उसके घरमें चली आईं। बुखाराके धनी-मानी करमीनाकी ओर भाग गये, और वहांसे मंगोल सैनिकोंको लेकर फिर बुखारा आये। महमूद अपने एक शागिर्दके साथ निहत्था ही उनसे मिलने चला गया। अंधविश्वासियोंकी भारी भीड़ भी पीछे-पीछे थी। इसी समय अकस्मात् धूल लिये आंधी उठी, जिसमें आदमी एक-दूसरेको देख नहीं सकते थे। चमत्कारोंपर विश्वास करने-वाले मंगोल डरके मारे भागने लगे। बुखारियोंने पीछा करके उनमेंसे बहुतोंको मारा, लेकिन इसी समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कि उनका पैगम्बर मारा जा चुका है। महमूदका स्थान उसके भाई ने लिया, लेकिन वह एक ही सप्ताह शासन कर सका। इसी समय मंगोल सेनापति इल्दर नोयन और जेङ्गिन कुरजी काफी सेना लेकर आ पहुंचे। पहले ही आक्रमणमें महमूदके अनुयायी भाग खड़े हुए। मसूदबेगने मंगोलोंको नगर लूटनेसे तबतक रोके रखा, जबतक कि खानके पाससे आज्ञा न आ जाय। चगताईने लूटनेकी आज्ञा नहीं दी।

मंगोलों और उनके सरदारोंके बारेमें कितने ही लोग ख्याल करते हैं, कि वह बर्बर थे, लेकिन एक युरोपीय लेखक बम्बेरीका कहना है—“मंगोलोंका संबंध ऐसी जातियोंसे हुआ था, जो सभ्यताके उच्च तलपर थीं। अपनी जन्मभूमि (मंगोलिया) की तरहकी खुली जगहोंके लिये उनके दिलोंमें भारी प्रेम था। नगरों और बस्तियोंको वह भ्रष्टाचार और नामर्दीका स्रोत मानकर बड़ी घृणाकी दृष्टिसे देखते थे।” उनके लिये आदर्श जीवन था पशुपालोंका—अर्थात् अपने पशुओंको लिये सफेद नम्बेके तम्बुओं में खुली जगहोंमें रहना। बस्ती और नगरके वासियोंको वह तबतक छेड़ना नहीं चाहते थे, जबतक कि वह आज्ञाकारी रहें। बल्कि, ऐसे लोगोंके लिये वह युद्धध्वस्त नगरोंको फिरसे बसानेमें सहायता और प्रोत्साहन देते थे। इराक के जैसे कितने ही शहर उनकी लड़ाइयोंके कारण उजड़ गये थे, लेकिन मंगोलों ने वहांके लोगोंको घुमन्तु जीवनकी ओर लौटानेका प्रयत्न नहीं किया। काश्गर प्रदेशकी अवस्थामें कुछ भेद था। मंगोलोंने जल्दी ही इस प्रदेशको अपने हाथमें कर लिया था। तरिम-उपत्यका उस समय उइगुरोंकी थी, जो बौद्धधर्मी रह संस्कृतिमें अधिक विकसित हो चुके थे। वह अब घुमन्तु नहीं बल्कि बस्तीमें रहना पसन्द करते थे, और उन्होंने चीनी तुर्किस्तानके नागरिक जीवनको स्वीकार कर लिया था। उइगुरों (कराखानियों)के उत्तराधिकारी कराखिताई भी जल्दी ही नागरिक जीवनके प्रभावमें आ गये थे। लेकिन, जिस तरह पश्चिमी तुर्किस्तानमें नगरोंके जीवनको फिरसे स्थापित करनेमें चगताइयों ने सहायता की, वही बात पूर्वी तुर्किस्तानमें नहीं हुई। वहां उजड़े हुए नगर फिर नहीं बस सके, न टूटी नहरें फिरसे जारी की जा सकीं, जिसके कारण हरे-भरे गांव और सुंदर नगर बालुकासमुद्रमें डूब गये।

मंगोलोंके शासनकालमें दूसरी विद्याओंका प्रचार और विकास रुक गया, हाँ, इस्लामिक धर्म-शास्त्र और उससे भी ज्यादा सूफी-संतोंका प्रभाव अवश्य बढ़ा। इस समयसे सूफीसंतों (खोजों, शेखों) का प्रभाव इस भूमिमें इतना जबर्दस्त स्थापित हो गया, जितना किसी दूसरे इस्लामी देशमें देखा नहीं जा सकता। इसी समयसे इन संतोंके परिवारोंने स्थायी तौरसे देशका धार्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व अपने हाथोंमें ले लिया। संतों और सूफियोंकी ओर लोगोंका इतना झुकाव शायद इसीलिये हुआ कि मंगोलोंने विजयी इस्लामको धूलमें मिला दिया था। संसारमें किसी ओरसे आशा न रह जानेपर अब लोगोंका ध्यान सूफियोंके चमत्कारपूर्ण रहस्यवादी उपदेशों और विचित्र जीवनोंकी ओर खिंच गया।

चगताईके शासनके आरम्भ होते ही मंगोलोंद्वारा ध्वस्त नगरों और गांवोंको फिरसे आबाद करनेके लिये सबसे जरूरी बात थी, भयभीत किसानों और कारीगरोंको समझा-बुझाकर काममें लगाना। हम देख चुके हैं, नगरोंके भीषण नर-संहारके समय भी मंगोलोंने कारीगरोंको प्राण-दान देकर

उनके दिलमें विश्वास कायम करनेकी कोशिश की थी। चगताई-शासकोंके सहानुभूतिपूर्ण भावने भी लोगोंके दिलमें विश्वास पैदा किया। मसूदबेग चगताई खानका परम विश्वासपात्र अधिकारी था, तो भी उसके अंधीनस्थ नगरोंमें कितने ही मंगोल शासक भी नियुक्त थे, जैसे समरकन्दका शासक जोङ्ग-सान ताउ-फू और बुखाराका बुका-बोशा, जिनमें पहला शायद चीनी था। चगताईका वजीर हेजिर तुर्क था। मसूदने लोगोंकी सहानुभूति प्राप्त करनेके लिये मदरसे भी कायम किये। १२३४ ई० में बुखाराके मसूदबेग और शेरकुली मदरसोंमें हजार विद्यार्थी पढ़ते थे।

गमियोंमें चगताई खानका निवास क्यूाश (सूर्य) अलमालिकके पास कोक (नील) पर्वत में रहता था। जाड़ोंमें वह मेराउरिक (? मेराउजिक)—इलामें रहता, जो इलिके तटपर था। क्यूाशके पास चगताईने कुतुलुग (पवित्र) गांव बसाया था। चीनी पर्यटक चान-चुनके अनुसार चगताई का ओर्दू इलि नदीके दक्षिणी किनारेपर—शायद उसी जगह जहां कि उसके उत्तराधिकारीका ओर्दू—उलुस-इफ या उलुस-इकमें था। चगताईका इल-अलरगू (सबसे बड़ा नगर) अलमालिक था। चगताईकी उइगुर प्रजामें अब भी कुछ बौद्ध थे, और कुछ ईसाई। इन दोनों हीके साथ मुसलमानोंकी सख्त दुश्मनी थी। अभी सप्तनदके मुस्लिम जिलोंमें भी काफी गैर-मुस्लिम रहते थे—उदाहरणार्थ, चू-उप-त्यकाके नेस्तोरी। १२५३ ई० में जब हबेरिक इधरसे गुजरा, तो कयालिकसे उत्तर तीन फ्रांसीसी मील (ल्यू, १३॥ वर्स) पर उसने एक गांव देखा, जिसके मारे निवासी ईसाई थे और वहांपर उनका गिर्जा भी था। इस्सिकुल सरोवरके तटपर भी इसी नामके एक नगरमें १४वीं सदीमें अरमनी साधुओंके मठ थे। मार्को पोलोके अनुसार चगताई स्वयं ईसाई था। जो भी हो, मुसलमानोंको जानवरोंके हलाल करने और बहते पानीमें नहानेके लिये मृत्युदंड देना, उन्हें भड़कानेके लिये काफी था। इसी भावको प्रकट करते चगताईकी मृत्युपर किसी मुसलमानने पद्य लिखा था—

“जिसकी डरसे कोई पानीमें नहीं उतरता था,
वह डूब गया गहरे समुद्रमें।”

आज्ञाका विरोध करनेके लिये चगताईके हुकुमसे ६२६ हि० (३० XI १२२८-२१ X १२२९ ई०) में मुल्ला अबू-याकूब-यूसुफ सैकाकी मारा गया, जिसकी कब्र १६वीं सदीमें भी तेकस नदीके तटपर मौजूद थी। लेकिन, यह सब झूठे हुए भी चगताई मुसलमानोंका द्वेषी नहीं था, यह इससे भी सिद्ध है, कि उसके बहुतसे राजविभागोंके प्रमुख मुसलमान थे। सबसे शक्तिशाली और धनी व्यापारी कुतुबुद्दीन खवास-आमिद था। खवारैज्मशाह मुहम्मदकी एक कन्या कुतुबुद्दीनसे ब्याही थी और दूसरी चगताईके हरममें थी।

चगताईने अपने जीवनमें ही ओगोताई कआनकी सम्मतिसे अपने पोते करा हुलाकूको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। वह दिसम्बर १२४१ ई० में मरा।

चगताई-वंशमें निम्न खान हुये—

१. चगताई, छिद्दगिस-पुत्र	१२२७-४२ ई०
२. करा हुलाकू, मोतुगान-पुत्र	१२४२-४६ ”
३. येस्सू मङ्गू, चगताई-पुत्र	१२४६-५१ ”
करा हुलाकू (पुनः)	१२५१ ”
४. औरगाना खातून, कराहुलाकू-पत्नी	१२५१-५६ ”
५. अलगू, अरिकबुगा, बेदार-पुत्र	१२५६-६५ ”
६. सुबारकशाह करा हुलाकू-पुत्र	१२६६ ”
७. बोराक इसुनदावा-पुत्र	१२६६-७१ ”
८. निकपाई सरवान-पुत्र	१२७१-७४ ”
९. तोका तेमूर कदमी-पुत्र	१२७४-८२ ”
१०. दुवा, दावा, बोरा-पुत्र	१२८२-१३०७ ”

११. कुंजेक, कोन्चोग, दुवा-पुत्र	१३०७-८ ई०
१२. तलिकू, खिजिर, कदमी-पुत्र	१३०८-९ "
१३. केबेक, दुवा-पुत्र	— १३०९ "
१४. एसेन्बुका, ईसनबुका, दुवा-पुत्र	१३०९-१८ "
केबेक (पुनः)	१३१८-२६ "
१५. इलिकदई, इलिचिगिदई, दुवा-पुत्र	१३२६ "
१६. दुवा तेमूर, दुरा तेमूर, दुवा-पुत्र	१३२६ "
१७. तरमा शोरिन्, संजर, दुवा-पुत्र	१३२६-३४ "
१८. वजन, बोजन, दुवा-तेमूर-पुत्र	१३३४ "
१९. जेङ्किस खलील, एबुगेन-पुत्र, दुवा-पौत्र	१३३४-३८ "
२०. येस्सुन तेमूर, एबुगेन-पुत्र	१३३८-४० "
२१. अली सुल्तान, ओगोताई-वंशज	१३४०-४२ "
२२. मुहम्मद पुलाद, कोन्चोग-पुत्र	
२३. काजान, गाजान, यसाउर-पुत्र	१३४६ "
२४. दानिशमन्द, ओगोताई-वंशज	१३४६-४८ "
२५. बायनकुली, सूरगू ओगलान-पुत्र	१३४८-५८ "
२६. तेमूरशाह	१३५८- "
२७. इलियास खोजा, तुगलक-तेमूर-पुत्र	— १३६३ "
२८. काबिलशाह	१३६३-६९ "

२. करा हुलाकू, मोतुगान-पुत्र (१२४२--४६ ई०)

छिङ्गिस् जिस वक्त हिन्दूकुश-पर्वतमालाके अजेय दुर्ग बामियान पर आक्रमण कर रहा था, उसी समय उसका अत्यन्त प्रिय पौत्र मोतुगान मारा गया। शायद बापके मारे जानेपर छिङ्गिस्का भारी शोक करना करा हुलाकूके लिये चगताईके प्रेम और उत्तराधिकार पानेका कारण हुआ। गद्दीपर बैठते समय करा हुलाकू छोटा था, इसलिये राजकाजका भार अभिभाविकके रूपमें उसकी दादी एबुसकिनने अपने हाथमें लिया। अभिभाविकाने पहिला काम यह किया, कि हकीम मजीदुद्दीन और अपने पतिके कृपापात्र वजीर हेजिरको हकीमसे मिलकर चगताई खानको मरवानेके इल्जाममें मरवा डाला। उसने अपने बहनोई हबश अहमदको अपना वजीर बनाया। अभी अबस्था ठीक नहीं हुई थी, कि इसी समय ओगोताई कआन मर गया और क्यूकने जबर्दस्ती कआनपदको ले लिया। उसने अपने सभी विरोधियोंको उनके पदसे निकाल दिया, जिनमें एबुसकेन भी थी। क्यूकने ६४५ हि० (८ V १२४७—२८III १२४८) में इस्सुनको चगताई-उलुसका खान नियुक्त किया, जिसके कारण केवल अलमालिकमें ही नहीं, सारे चगताई-उलुसमें गड़बड़ी फैल गई। मसूदबेगको भी भागकर बातूके पास शरण लेनी पड़ी। कआनका निर्वाचन १२४६ ई० तक नहीं हो सका था। कूरिल्टाई (महासंसद) की बैठकमें ओगोताईके पुत्र क्यूक (ग्यूक) को कआन चुना गया। क्यूक ईसाई-धर्मका पक्षपाती तथा चगताईकी तरह ही इस्लाम-विरोधी था। अब साम्राज्यमें ईसाईयोंका मान बहुत बढ़ गया था। ग्यूक कआनने करा हुलाकूको हटाकर जगताई-पुत्र येस्सू-मुङ्खे (येस्सू-मङ्गू) को खान बनाया।

३. येस्सू मङ्गू, येस्सू-मुङ्खे (१२४६-५१ ई०)

येस्सू-मुङ्खे सदा शराबमें मस्त रहता था, राजकाजका काम उसकी रानी तुगाशी देखती थी। सौभाग्यसे उसे खवास हबश जैसा योग्य खवास-अमिदा (वजीर) मिला था। खवास हबशने जगताई खानके हर एक पुत्रके साथ अपने एक-एक पुत्रको लगा रक्खा था। येस्सू-मुङ्खेके दरबारमें विद्वान् बहा-उद्दीन मेर्गलानी रहता था। उसका पिता फरगानाका शेखुल्-इस्लाम और मां कराखानी वंशजा थी। ग्यूकके समय बातू भारी सेनाके साथ पश्चिममें दिग्विजयके लिये भेजा गया था। इसी समय हुलाकू-

को दक्षिणमें दिग्विजयके लिये भेजा गया। अभी यह दिग्विजय-सेना कयालिक नगरसे सात दिन पर अबस्थित (सप्तनदके दक्षिणके अलाताऊ पर्वतके पास) अलाकामकमें थी, कि ग्युक कअनके मरनेकी खबर मिली। अब तुलुइका ज्येष्ठ पुत्र तथा कुबिलेईका बड़ा भाई मुङ्खे (मङ्गू) कअनकी गद्दीपर बैठा। ओगोताईके पौत्रोंने इसका विरोध किया। वह समझते थे, कि ग्युकके बाद अब उनके उलुसका कअन होना चाहिये। इस विरोधमें येसू-मङ्गू भी ओगोताईके पौत्रोंके साथ था। १२५१ ई० में राजधानी कराकोरममें कूरिल्लाई बुलाई गई, जिसमें मुङ्खेके गद्दीपर बैठनेका बड़ा विरोध हुआ। मंगोलोंमें भीषण संघर्ष शुरू हो गया। सतहत्तर बड़े-बड़े सरदार मारे गये, और बहुतसे खानजादे दूर-दूर निर्वासित कर दिये गये, जहां कितनेही मर गये। चगताई-गद्दीसे वंचित करा हुलाकूने मुङ्खेका पक्ष लिया। कअन अब भला येसू-मङ्गूका क्यों पक्ष लेने लगा? करा हुलाकूने अपने भाई बुरीके साथ एक बड़ी सेना ले चढ़ाई की। येसू-मङ्गू, तुगाशी खातून और बुरी आसानीसे पकड़ लिये गये। तुगाशी करा-हुलाकूको दे दी गई। येसू-मङ्गू और बुरी भागकर बातूके ओर्दूमें चले गये, जहांपर बुरीको मृत्युदंड दिया गया, और उसके बारह भाइयोंके साथ येसू-मङ्गूको भी उसकी जन्मभूमिमें भेज दिया गया। येसूको फिर खानका स्थान मिलनेवाला था, किन्तु वह रास्ते हीमें मर गया। तुगाशी खातूनपर मुकदमा चलाकर उसे घोड़ेके नीचे रौंदवाकर मरवाया गया।

करा हुलाकू (पुनः १२४६ ई०)

करा हुलाकूके राज्य संभालनेपर हबश आमिद फिर वजीर हो गया। उसने बहाउद्दीनको जेलमें डाल दिया। बहाउद्दीन ने कवितामें बहुत स्तुति की, लेकिन सब बेफायदा। रानी एरगोताने नमदेमें लपेट ठोकें लगवाती उसकी हड्डी तुड़वाई। करा हुलाकू अधिक दिन नहीं जी सका। उसके बाद उसकी रानी ओरगाना(एरगोना)ने गद्दी संभाली।

४. एरगोना, ओरगाना, करा हुलाकूपत्नी

एरगोना मंजुलता, मौदर्य, और प्रतापमें अपने समयकी तीन अद्वितीय मंगोल-राजकुमारी बहिनोंमेंसे थी, जिनके बारेमें कहा जाता था, कि दुनिया का कोई चित्रकार उनके रूपको अपनी तूलिकासे चित्रित नहीं कर सका—तीनों बहनें चगताई, बा-तू और खुलाकू-वंशी खानोंकी रानियां थीं।

मुङ्खे कअनद्वारा पश्चिमके दिग्विजयार्थ भेजी गई सेनाओंमेंसे कराकुरम और विशवालिगसे आनेवालियोंको चगताई-भूमिमें मिलना था। वहांसे कयालिक और ओतरारके बीच पहुंचनेपर ओरदा (जूछि-पुत्र)के पुत्र खंकिरिन (खूकिरान) को इस भारी सेनाका संचालक बनना था। लेकिन अब बातू और मुङ्खे कअनमें मतभेद हो गया था। मुङ्खेने इसी बातको साधु रबरिकसे कहा था—“जैसे सूर्य अपनी किरणोंको सर्वत्र फैलाता है, उसी तरह मेरी और बातूकी राज्यशक्ति भी देश-देशमें फैली हुई है।” यह कहना इसी बातको सिद्ध करता है, कि अब कअनका बातूपर कोई दबाव नहीं था। कअन और बातूकी सीमा तलस (तरस) से थोड़ा पूरबमें मिलती थी।

प्रधान-वजीर हबश हमीद (अमीद) और उसका पुत्र नासिरुद्दीन राजकाजमें ओरगानाकी सहायता करते थे। रानीकी योग्यतासे कोई इन्कार नहीं करता। इतिहासकार वस्साफके अनुसार ओरगाना स्वयं बौद्ध थी। १२८४ ई० में ओरगाना अल्मालिकमें ही थी, इसी समय कअनका अनुज तथा रानीका बहनोई खुलाकू पश्चिमी एसियाके दिग्विजयके लिये आते हुए उससे मिला। वहांसे खुलाकू की सेना सप्तनद और सिर-उपत्यका होते १२५५ ई० के वसंतमें समरकन्द पहुंची। इससे दो साल पहले (१२५३ ई० में) साधु रबरिक सप्तनदसे गुजरा था। उसने अपने यात्रा-विवरणमें इस प्रदेशका अच्छा वर्णन किया है। लड़ाईके ध्वंसके रूपमें उसने इलितटपर मिट्टीकी दीवारोंवाले अनेक खंडहर देखे थे। उससे कुछ दूरपर एक प्रसिद्ध नगर इलानबालिक था, जहांसे १२५५ ई० में अर्मेनी राजा गयतोन गुजरा था। उसने लिखा है—पहाड़से निकलकर बहुतसी नदियां बलकाश झीलमें गिरती हैं। यहींपर कयालिक नामका बड़ा नगर था। जहां बहुतसे व्यापारी रहते थे। यहांकी मैदानी भूमिमें पहले बहुतसी बस्तियां थीं, जिन्हें तारतारोंने ध्वस्त कर दिया। सप्तनदके उत्तरी भागमें अब

झगड़ा डलवा दिया। बेरेकने किसी ज्योतिषीसे सुना था, कि कैदू बहुत भारी आदमी होगा, इसलिये वह उसकी सहायताके लिये तैयार होगया। जू-छि उलुसकी मददसे कैदू काफी शक्तिशाली हो गया, और उसने अलगूकी एक बड़ी सेनाको हराकर नष्ट कर दिया। अलगूने दूसरी जबरदस्त सेना भेजी, जिसने ओतरारके पास बेरेक खानको हराया—यह १२६५ ई० के अन्त या १२६६ ई० के आरम्भ की बात है। इन आरम्भिक लड़ाइयोंके बाद अलगूको सफलता मिलने लगी और वह अपने सभी इलाकोंको अपने हाथ में करनेमें सफल हुआ।

६. मुबारकशाह, करा हुलाकू-पुत्र (१२६६ ई०)

इतिहासकार जमाल करशीके अनुसार ओरगाना-पुत्र मुबारकको १२६६ ई० में आहनगर उपत्यकामें खान बनाया गया। चगताई खानोंमें वह पहला मुसलमान था, यद्यपि अभी खानोंका इस्लाम अधिकतर दिखावेके लिये था। सारी प्रजाके मुसलमान होनेके कारण ऐसा करनेमें लाभ था। मुबारकको बहुत कोमलप्रकृति और न्यायप्रिय कहा जाता है। कुबिलेने उसको चगताई खान स्वीकार कर भी उसके सौतेले भाई बोराकको उसका उपराज बनाया, जिसमें कहीं मुबारककी शक्ति ज्यादा न बढ़ जाये। इस समय अब चगताई-राज्यके भीतर मुल्की, गैरमुल्की, मंगोल-अ-मंगोलका सवाल छिड़ गया था, जिसके उठानेमें बोराकका भी हाथ था। निम्न सिर-उपत्यका भी अब कैदूके हाथमें चली गई थी। कैदूके चालीस पुत्र अलग-अलग सेनाओंके सेनापति थे। लूटप्रेमी, घुमन्तू मंगोल और तुर्क बड़ी संख्या में कैदूके झंडे के नीचे चले गये थे। कैदू अन्तर्वेद ही नहीं, कुबिलेके राज्यको भी लेना चाहता था। कुबिलेने उसके विरुद्ध अपने पक्षको मजबूत करनेके ख्यालसे बोराकको मुबारकका उपखान बनाकर अल्मालिक भेजा था, लेकिन बोराकने शुरूसे ही कैदूके साथ सहानुभूति दिखलानी शुरू की। दोनोंने बुखारा और समरकन्दके हथियार बनानेवाले (वस्साफ) के अनुसार ६६१ हि० (१५ X १२६२-६ X १२६३ ई०) में सोलह हजार कारीगरोंको भेड़ोंकी तरह आपसमें बांट लिया। इनमेंसे पांच हजार बात्तूको, तीन हजार हुलाकू को और बाकी कआनको मिले। उज्जंद और पूर्वी तुर्किस्तानमें भी बोराकको सफलता मिली। इन सफलताओंके बाद अब मुबारकको गद्दीपर बनाये रखनेकी जरूरत नहीं थी, इसलिये सितम्बर १२६६ ई० में उसे बन्दीखानेमें डाल दिया गया, और सौतेले भाई बोराकने सीधे गद्दी संभाल ली।

७. बोराक, करा हुलाकू-पुत्र (१२६६-७१ ई०)

कैदू कुबिलेके विरुद्ध सफल नहीं हो रहा था, जूछि-उलुस भी प्रबल था, इसलिये वह चगताई-राज्य से ही कुछ छीन सकता था, इसीलिये बोराक और कैदूमें पूर्वी सिर-उपत्यका और सप्तनदके लिये झगड़ा हो गया। १२६८ ई० में जूछि-उलुसके खान मङ्गू-तेमूरकी सहायतासे कैदूने सिर-उपत्यकाको अपने हाथमें कर लिया। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद कैदू और मङ्गू तेमूरमें लड़ाई हो गई। इस अवसरसे फायदा उठाते हुए बोराक भी कैदूके ऊपर चढ़ दौड़ा,। दोनोंमें सेहून (सिर-दरिया) के तटपर लड़ाई हुई। कैदू और कियचक-सेनाकी हार हुई। बहुतसे लोग मारे गये या बन्दी बने, भारी सम्पत्ति लूटमें मिली। यह खबर सुनकर मङ्गू-तेमूरने अपने चचा बेरेकेचरको पांच तुमान (पचास हजार) सेना देकर भेजा। उसने बोराकको बुरी तरह हराया। वह समरकन्दकी ओर भी बढ़ना चाहता था, लेकिन कैदूने उसे मना कर दिया।

इस युद्धमें हारकर बोराक अन्तर्वेदकी ओर भागा। उसकी सेना बिना लूटका माल पाये ही लौट रही थी, इसलिये उसे संतुष्ट करना आवश्यक था। बोराकने इसके लिये बुखारा और समरकन्दके लोगोंको केवल शरीर ले नगरसे बाहर निकल जानेका हुकुम दिया, जिसमें कि सेना नगरको लूटकर अपना मनोरथ पूरा कर सके। लोगोंके बहुत रो-धोकर बिनती करने, भारी कर देने तथा हथियार बनाने वाले सिकलीगरोंके रात-दिन हथियार बनानेके लिये वचन देने पर बोराकने अपने इरादोंको छोड़ दिया। बड़े जोरसे तैयारी होने लगी और बोराक जल्दी ही फिर लड़नेके लिये तैयार हो गया।

कैदू केवल योग्य सैनिक ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी था। वह अरिकबुगा की गलतीको दुहरा नहीं सकता था। वह जानता था कि मेरा सबसे जबरदस्त शत्रु कुबिले खान है,

इसलिये उसने शान्तिसे काम लेना चाहा और मेल करानेके लिये बोराकके लंगोटियायार किपचक ओगलानको उसके पास भेजा। बोराकने अपने मित्रका खूब स्वागत किया। दोनोंने एक दूसरेको प्याला दिया; सलाह हुई, कि जूछि, चगताई और कैदूके उलुसोंके बीच मित्रता स्थापित करनेके लिये एक कूरिलताई (महापरिषद्) बुलाई जाय।

६६७ हि० (१० IX १२६८-१ VIII १२६९ ई०) के वसंत (मार्च-अप्रैल १२६९ ई० में) तलस और केंजककी मैदानी भूमिमें कूरिलताई एकत्रित हुई। कैदू और बोराक दोनों अपने-अपने रक्त तथा सुवर्णसे मिश्रित मदिराको एक साथ शान्तिचषकमें पीकर एक-दूसरेके अंदा (परम मित्र) बने। कूरिलताईमें कैदूने कहा था—“हमारे महान् पितामह (छिङ्ग-गिस्)ने दुनियासे युद्ध किया....तलवार और बाणके बलपर विशाल राज्य स्थापित किया।.....जब हम अपने पुरुखाकी ओर देखते हैं, तो हम सब भाई भाई हैं। लेकिन हममें कुछ भी मेल नहीं।” इसके जवाबमें बोराकने कहा—“बात ठीक है। मैं भी उसी बृक्षका फल हूँ। मेरे पास भी थोड़ा-बहुत यूर्त (ओर्दू) है।.....चगताई और ओगोताई (कैदूका पितामह) छिङ्ग-गिस् खानके ही पुत्र थे। ओगोताई कअनसे कैदू, चगताईसे मैं, जेठे भाई जूछिसे बेरकेचर और मङ्गू-तेमूर और कनिष्ट भाई तु-लुईसे हुलाकू और कुबिले हैं।

“हमारे समयमें पश्चिमांतका स्वामी मङ्गू-तेमूर खताई-माचीनका राजा कुबिले खान है, जिसके राज्यकी लम्बाई-चौड़ाईको भगवान् ही जानता है। पश्चिमांतमें आमूसे सिरिया और मिस्रतक पिता-द्वाराअर्जित राज्यका खान अबका है। दोनोंके बीचमें हमारा राज्य, तुकिस्तान और किपचक है। मुझे अपना कसूर नहीं मालूम होता।’ इसपर कैदू और बोराक दोनोंने कहा—“सत्य तुम्हारी ओर है। अब यही निर्णय है, कि आजके बाद हम एक दूसरेके विरोधी नहीं बनेंगे.....।”

इस प्रकार गरमागरम भाषण करते और भावुकता दिखलाते हुए मंगोल-राजवंशियोंने आपसमें मेल किया। उनके लाखों घोड़ों और पशुओंके लिये चरागाहोंकी अवश्यकता थी, जो गर्मीकी अलग और जाड़ेकी अलग होती थीं। गर्मीके दिनोंमें ओर्दू ऊंची ठंडी जगहोंमें जाकर अपने तम्बू लगाता और जाड़ेके दिनोंमें ऐसी जगहपर, जहां हवा और सर्दी कम होती तथा कुछ घास-चारा भी मिल सकता था। कूरिलताईने याइलक (गरम चरागाह) और किशलक (सर्द चरागाह) निश्चित कर दिये गये। कैदूके ओर्दूको सप्तनदमें स्थान दिया गया। मुस्लिम इतिहासकार कैदूकी न्यायप्रियताके बड़े प्रशंसक हैं—कैदूने सफल युद्ध करके अपने राज्यमें व्यवस्था कायम की थी।

कूरिलताईके फैसलेका प्रभाव ज्यादा दिन नहीं रहा। जब आर्थिक स्वार्थ एक-दूसरेके विरोधी हों, तो स्थायी मेल कैसे हो सकता है? बोराकको इस बंटवारेके कारण अन्तर्वेदका एक-तिहाई हिस्सा—खोजंदसे समरकन्दके पासतककी भूमि—कैदूको देना पड़ा। बोराक इस क्षतिको पूर्ण करनेके लिये आमूके दक्षिण (हुलाकूके राज्य) खुरासानपर चढ़ा। लूट-पाटके मारे किसान भागने लगे। गांवोंके उजड़ जाने पर भारी अकालका सामना करना पड़ता, इसलिये दोनों खानोंने वजीर मसऊदबेगको भेजकर किसानोंको सान्त्वना देनेका प्रयत्न किया। वक्षुतट इसवक्त बड़ी बुरी अवस्थामें था। बोराक अबका खान (ईरान) पर चढ़ दौड़नेके लिये उतावला हो रहा था। मसऊदने ऐसा न करनेकी सलाह दी, तो गुस्सेमें आकर बोराकने उसे सात कोड़े लगवाये, जिसके लिये पीछे उसे खेद हुआ। तो भी उसने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। रुपये-पैसे का हिसाब करनेके बहाने मसऊदबेग अबका (इलखान) के पास गया, लेकिन उसका असली उद्देश्य था इलखानकी सैनिक स्थितिका पता लगाना। इलखानको पता लग गया। बड़ी मुश्किलसे मसऊदबेग जान बचाकर भाग सका। इस तरह असफल होनेपर चगताई खानने ईरानमें रहते चगताई-राजकुमार निकूदरको फोड़नेके लिये एक गुप्तचर भेजा। अंतमें अपने पुत्र बेग-तेमूरको एक तुमान सेना के साथ राजरक्षाके लिये भेजा। कैदूने भी कितने ही राजकुमारोंको सेना देकर बोराककी सहायताके लिये भेजा, जिनमें मौतूगन-पौत्र बुरी-पुत्र अहमद, चगताई-पौत्र सरबान-पुत्र निकबेई ओगुल, और ओगोताई-पौत्र कैदू-पुत्र बालिगू (यालगू) थे। सभी लोग वक्षु (आमू दरिया) पार होनेके लिये तेरमिजकी ओर रवाना हुए। दूसरी सेना गू-युक कअन-पौत्र, हूकुरखान-पुत्र चुबाद, तथा कैदू-पुत्र किपचकके साथ खीवामें वक्षु नदी पार होनेके लिये भेजी गई। एक और भी सेना मङ्गकिशलकसे होते कोकाजू

कुचुकके नेतृत्वमें रवाना हुई। अपने पुत्र बेक तेमूरको दस हजार सेना दे बोराक अन्तर्वेदमें छोड़ नावोंके पुलसे वक्षु पार हुआ। उसका कैम्प मेर्बमें पड़ा, जहाँसे उसने अपने सैनिकोंको कुबिले कश्गारके भतीजे खुलाकू-पुत्र अबकाके सारे देशको लूटकर बरबाद करनेका हुकुम दिया। उस समय खुरासान का राज्यपाल अबका-पुत्र अरगून था। बोराककी सेना खुरासानमें दाखिल हुई और उसने बदरशा, कीसिम, शापूरगान, तालिकान, मेर्ब-शाथान, तथा नेशापोर (२८ अप्रैल १२६९ ई०) तकके प्रदेशको लूटा और उजाड़ा। थोड़ेसे प्रतिरोधके बाद सारे खुरासानपर बोराकका अधिकार हो गया। उसका मुकाबिला करनेके लिये अबका आजुखाइजानसे चला। हेरातके पास दोनों सेनाओंमें लड़ाई हुई, जिसमें बोराकको हार खानी पड़ी। अबकाने पराजित सेनाका पीछा किया। शायद सारी चगताई सेना नष्ट हो जाती, लेकिन सेनापति जलेरताईने बड़े कौशलसे उसे नष्ट नहीं होने दिया। अबकाने अन्तर्वेदके बहुत से इलाकोंको लूटा। उस वक्त मंगोलोंके सामने मुसलमान चापलूसी करने/कहाँतक गिर गये थे, इसका उदाहरण यह घटना है—अबकाने खाते समय एक बार अपने वजीर शम्शुद्दीनकी ओर चाकूके नाकपर सूअरका मांस रखकर बढ़ाया। वजीरने जमीन चूमकर इस अत्यन्त हराम भोजनको खा लिया। इसपर खानने अपना प्याला उठाकर उसकी तरफ किया। उसके न लेनेपर अबकाने कहा—“इसने प्याला लेने से इन्कार करके मुझे नाराज नहीं किया, लेकिन यदि इसने मांसको लेनेसे इन्कार किया होता, तो मैं उसी चाकूसे इसकी आंखें निकाल लेता।”

जिस समय बोराकने खुरासानपर सफल आक्रमण किया, यदि उसी समय उसके मित्रोंमें फूट न हो गई होती, तो शायद अबकाको इतनी आसानीसे सफलता न मिलती। बोराकका अंदा (परम मित्र) किपचक ओगलान चगताई सेनापति जलेरताईके किसी बर्तावसे असंतुष्ट हो साथ छोड़कर चला गया। बोराकने उसे दंड देनेका वचन दिया भी, किंतु किपचक ओगलान नहीं रुका। गु-युक कप्रानके पुत्र जबात ने भी इसी समय साथ छोड़ दिया। अबकाने एक और चाल चली। उसने बोराकके तीन दूतोंको पकड़ सासत देकर उनसे यह स्वीकार करवाया, कि हम अपने खानकी ओरसे गुप्तचरका काम करने आये हैं। वह मृत्युकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे, कि इसी समय धूलिधूसरित धावनने आकर खबर दी—“मेरे स्वामी ! दरबन्द (कास्पियन) की ओरसे शत्रुओं (किपचकों) ने भारी संख्यामें आकर देशपर धावा बोल दिया है, पश्चिमी प्रदेश तलवार और आगसे ध्वस्त किये जा रहे हैं।” अबका यह खबर सुनकर आजुखाइजानकी ओर चला गया और बोराकके दूतोंको भागनेका मौका मिल गया। बोराक विजयसे कुछ निश्चितसा हो गया; किंतु, फिर अचानक लौटकर अबकाने हेरातके पास बोराकको जबरईस्त हार दी। बोराक इस लड़ाईमें घायल हुआ। अपनेको खतरमें डालकर सेनापति मेरगुल और जलेरताईने बोराकको निकालकर वक्षुपार न कराया होता, तो बोराककी जान न बचती।

इस भीषण पराजय और मित्रोंके विश्वासघातके बाद बोराक ६६९ हि० के वसंत (मार्च-अप्रैल १२७१ ई०) में मर गया।

८. निगपई, सरवान-पुत्र (१२७१-७४ ई०)

नये खानके शासनकालमें भी चगताई और ओगोताई उलुसोंका झगड़ा जारी रहा। कैदूने निगपईको खान बनाया, इसपर बोराक और अलगूके पुत्रोंने विद्रोहकर दिया। इस संघर्षमें जरफशा-उपत्यका के सारे नगर नष्ट हो गये। निगपई पीछे कैदूके विरुद्ध हो गया और उसके साथ लड़ते हुए १२७४ ई० में मारा गया।

९. तोका तेमूर, कदमी-पुत्र (१२७४-८२ ई०)

निकपई और तोका तेमूरका नाम कितनी ही वंशावलियोंमें नहीं मिलता, जिसका कारण यही हो सकता है, कि उनका शासन गृह-युद्धोंके समयका था, जिसमें एकसे अधिक राजकुमार तख्तके दावेदार थे।

१०. दुवा, तुवा, दावा, बोराक-पुत्र (१२८२-१३०७ ई०)

चगताइयोंमें दुवा बहुत शक्तिशाली खान, और कैदूका पक्का साथी था। उसके लिये इसने कैदूसे खानोंसे बहुतसी लड़ाइयां लड़ीं। प्रसिद्ध इतिहासकार शम्शुद्दीन जुवैनी इसका वजीर था। अबका

की सेना लूट-पाट करते ६७१ हि० (२६ VII १२७२-१६ VI १२७३ ई०) में बुखारा पहुंच महान् नगरको लूट वहाँके नागरिकोंमेंसे पचास हजारको बन्दी बना जब लूट रही थी, तो सेनापति चापरने आक्रमण करके उनमेंसे कितने ही बन्दीयोंको छोड़ा लिया। तीन साल बाद फिर अबकाने आकर देशको बरबाद किया, जिसका सुधार दुवाके शासनकालमें मसऊदबेगके योग्य प्रबन्धके कारण हो पाया। श्वेत-ओर्दूके बायन खानसे भी दुवाका विशेष झगड़ा था, क्योंकि वह कैदू और दुवाके विरोधियोंका पक्षपाती था। १३वीं सदीके प्रथम वर्षमें इन दोनों दलोंने अठारह लड़ाइयाँ लड़ीं। बायनके पीठपर तेमूर कअान था, सुवर्ण-ओर्दू और इलखान (ईरान) भी बायनके दलमें सम्मिलित थे—दुवाके विरुद्ध उत्तर-पश्चिममें तोकताई (सुवर्ण-ओर्दू) और बायन (श्वेत-ओर्दू) की सेनायें थीं, दक्षिण-पश्चिममें गाजनखान (ईरान) और दक्षिण-पूर्वमें बदख्शाका शासक भी चीन-सम्राट् (कुबिले) के पक्षपाती थे। इतने जबर्दस्त शत्रुओंसे घिरे रहने भी देशकी समृद्धि और राज्यकी शक्तिको बनाये रखना दुवा की योग्यताका परिचायक था।

कैदूके चालीस पुत्र थे, यह हम कह आये हैं। उसने छिङ्गिस खानकी तरह अपने राज्यको अपने ४० लड़कोंमें बांट दिया था—बड़ेको चीन सीमान्तपर, बेंकेचेरको जूछि सीमांतपर, सरवानको अफगानिस्तानमें सर्वेज्येष्ठ पुत्र चापरको सबसे अधिक संघर्षके स्थान सप्तनदमें रखवा था। कैदूकी-पुत्री खुतुलुन चागा भी बड़ी ही वीर तरुणी थी। अपने पिताके अभियानोंमें भाग लेनेके कारण उसने ब्याह नहीं करना चाहा। कैदू उसे बेटी नहीं, बेटेकी तरह प्यार करता था। उसने उसे स्वर्धंबर चुननेके लिये कहा। जब कोई वर नहीं मिला, तो गाजन खान (ईरान) को देना चाहा, लेकिन खुतुलुन चागाने यह पसन्द नहीं किया और अपने पिताके बड़े दरबारी एक चीनीको अपना हाथ दिया। कैदू करशीके अनुसार १३०१ ई० में (दूसरोंके अनुसार १३०३ ई० के वसंतमें) लड़ाईमें मरा। उसका मृत शरीर चू और इलि नदियोंके बीचके ऊंचे पहाड़ सिबालिकमें दफनया गया।

कैदूके मरनेके बाद अब दुवा सबसे प्रभावशाली खान था। उसने १३०३ ई० के वसंतमें चापर को कैदूका उत्तराधिकारी बनाया, जिससे कैदू-पुत्रोंमें झगड़ा उठ खड़ा हुआ। बाहर भी शत्रुओंका भय था ही। तोकताई (सुवर्ण-ओर्दू खान) ने बायनके शत्रु कुइलुकको समर्पण करनेकी मांग की। इन्कार करनेपर उसने दो तुमान सेना दे बायनकी पीठ ठोंकी। फरवरी १३०३ ई० के आरम्भमें बायनका दूत दुवा और चापरके साथ मिलकर लड़ाई करनेकी बात तै करने बगवादा गया।

दुवा एक कुशल सैनिक ही नहीं था, बल्कि कैदूकी तरह एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी था। यद्यपि शक्ति छिन्न-भिन्न करनेवाले विरोधी तत्त्वोंसे उसे लड़ना पड़ रहा था, लेकिन वह समझ रहा था, कि यदि लड़ाई इसी तरह चलती रही, तो कुछ ही समयमें अन्तर्वेद, सप्तनद, किपचक और ईरान-इराक से छिङ्गिस-वंशका नाम मिट जायेगा। इसीलिये वह सोच रहा था, कि कअानकी अधीनतामें सभी उलुसोंका एक संघ बनना चाहिये। उसने इसके लिये एक योजना बनाई—(१) सभी आपसमें शांतिसे रहते कअान (चीनके मंगोल सम्राट्) को अपना प्रभु मानें, (२) सभी देशोंमें व्यापारकी स्वतन्त्रता हो। उसने इस योजनाको सबसे पहले कअान तोग्तोगूके पास भेजा, जिसने उसे बहुत पसन्द किया। इसके बाद अगस्त १३०४ ई० में चापर और दुवाके दूत योजनाको लेकर ईरान गये। वहाँ तथा पीछे जूछिके दरबारमें भी इस योजनाका स्वागत नहीं हुआ, शायद उन्होंने इसे दुवाकी एक चाल समझा।

चगताई राजकुमार अपने युतोंको लेकर चरागाहोंमें घूमा ही करते थे, जहाँ किसी छोटीसी बातको भी लेकर झगड़ा हो पड़ना स्वाभाविक था। १३०५ ई०में अन्तर्वेदमें चापरका कुछ चगताई राजकुमारोंके साथ झगड़ा हो गया। उसके लिये तहणोंके लड़कपानपर अफसोस प्रकट करते लोग समझौता करानेके लिये ताशकन्दमें जमा हुये। ओगोताईके राजकुमार जोचोकबालिकमें चापरके भाई शाहके युतंपर टूट पड़े। उस समय दुवाका सेनापति दक्षिण-सप्तनदके अरपा-उपत्यकामें हेमंत-वास कर रहा था। शाह अपने सात हजार आदमियोंके साथ भागकर अपने भाई बेंकेचेरके पास पहुंचा। विरोधी राजकुमारोंने तलस-द्रोणीके पासवाले नगरोंको लूटा। चापरको यह खबर कअानकी सेनासे लड़ते इतिहास अलताईके पास मिली। वहाँसे हार खाकर वह तीन सवारोंके साथ भागकर दुवाके पास गया।

रशीदुद्दीनके अनुसार दुवा १३०६ ई० में मरा और वस्साफके अनुसार १३०७ ई० में ।

११. कुंजेक, कुंचोक, दुवा-पुत्र (१३०७-८ ई०)

दुवाके मरनेपर बरकुलसे बुलाकर कुंजेकको अलमालिकके पास सेवकुन स्थानमें गद्दीपर बिठाया गया । यह युलदुजमें मरा । इसके समयमें भी गृह-युद्ध जारी रहा, और बुरीबाशीके पास तथा सिर-उपत्यकाके पूर्वी भागोंमें कई लड़ाइयां हुई । अपने प्रतिद्वंद्वी ओगोताई राजकुमार कुरसेबेसे लड़कर भागते समय कुंजेक मारा गया ।

१२. तलिकू, तलिक, खिजिर, कदमी-पुत्र (१३०८-१० ई०)

बुरीको १२५१ ई० में कतल किया गया था, यह हम बतला चुके हैं । उसीका पुत्र तलिकू अब गद्दीपर बैठा । इस समय जल्दी-जल्दी खानोंका बदलना यही बतला रहा था, कि अब सत्ता दरबारियोंके हाथमें थी और खान उनके खेलके मुहरे थे । मुस्लिम दरबारियों और प्रजाको प्रसन्न करनेके लिये तलिकूने खिजिरके नामसे अपनेको मुसलमान घोषित किया, जिससे मंगोल राजकुमार नाराज हो गये—अबतक मंगोलोंने बौद्ध धर्मको जातीय धर्मके तौरपर स्वीकार कर लिया था, इसलिये वह नहीं पसन्द कर सकते थे, कि उनका खान मुसलमान बन जाये । इसी भावनासे प्रेरित हो तीन सौ सवारोंके साथ दुवा-पुत्र केबैकने रातको भोजके समय खेमेमें घुसकर खानको मार डाला । वस्साफके अनुसार तलिकू ७०८ हि० (२१ VI १३०८-१२ V १३०९ ई०) में गद्दीपर बैठा, दूसरे इतिहासकारोंके अनुसार ७०९ हि० (११ VI १३०९-२ V १३१० ई०) में गद्दीपर बैठा, तथा ७१० हि० (३१ V १३१०-२१ IV १३११ ई०) में उसकी मृत्यु हुई ।

१३. केबेक, दुवा-पुत्र (१३१० ई०)

केबेक बहादुर और स्पष्टवादी खान था । चापरने पिताकी शत्रुताको उसके पुत्र केबेकतक कायम रखवा, लेकिन उसे हार खानी पड़ी । अब चगताई-उलुस अस्त-व्यस्त हो चुका था । चापरने त्युकमे, बइ-केचर और उरुस-पुत्रोंके साथ मिलकर केबेकके ऊपर चढ़ाई की, लेकिन उसे इलि नदीके पश्चिममें पराजित होना पड़ा । फिर इलिके रास्ते जाकर उसने त्युकमेको हराकर उसके युर्तको छिन्न-भिन्न कर दिया । त्युकमेने पूरबमें भागकर कअनके पास चीनमें जाना चाहा । भागते समय त्युकमेकी भिड़त केबेककी सेनासे हो गई, जिसमें वह मारा गया । राजकुमारोंके इस घरेलू संघर्षोंके कारण कृषि और व्यापारको भारी क्षति हुई । केबेकने इस संघर्षको बन्द करनेके लिये ७०९ हि० (११ VI १३०९-२ V १३१० ई०) में कूरिलताई बुलाई और उसके इस निर्णयको स्वीकार किया, कि गद्दी उसके भाई एसेनबुगाको दी जाय, और वह कअनके अधीन रहे ।

१४. एसेनबुगा, ईसनबुका, दुवा-पुत्र (१३१०-१८ ई०)

कैदूका विशाल राज्य अब छिन्न-भिन्न हो गया था, और उसका अधिकांश चगताई-उलुसके हाथमें चला आया था । कैदूके पुत्रोंमेंसे शाहके पास कुछ इलाके रह गये थे । एसेनबुगाने राज्यके भीतर और बाहर शान्ति स्थापित करनेका प्रयत्न किया । इसके लिये उसने १३१२ ई० में उज्बेक खान (सुवर्ण-ओर्दू) के साथ मित्रता स्थापित की, जो १३१५ ई० तक रही, जबकि चगताई और जूछि दोनों उलुसोंने अपने शत्रु उलजैतू (ईरान) पर आक्रमण किया । चगताई सेनाने इलखानी सेनाको हराकर हेरात तक उसका पीछा किया । चार महीनेतक यह प्रदेश चगताइयोंके हाथमें रहा और उनकी सेनाने वहां बहुत अत्याचार किये ।

कअन बयन्तुका ओर्दू जाड़ोंमें कोबुक-तटपर और गर्मियोंमें एसुन मोरान (ईतिश-शाखा) पर रहता था । ऐसे ही समय एसुन मोरानके पास उसका चगताई उलुससे झगड़ा हो पड़ा । कअनकी दूसरी सेना उस समय चालीस दिनके रास्ते पर थी । तोकाजीके नेतृत्वमें कअनकी सेनाने एसेनबुगाके हेमंत-वास (इस्सिकुलके समीप) और ग्रीष्मवास (तलसके समीप) को लूटा-पाटा । इस समय (१३१२ ई०) एसेनबुगाकी उज्बेक खानके साथ मित्रता थी । जब कअनकी सेनाके आक्रमणकी बात एसेनबुगाको मिली, तो वह खुरासान छोड़कर उत्तरकी ओर लौटा । लेकिन इलखान उलजैतू खुदाबन्दा

एसेनके अत्याचारोंको कैसे भूल सकता था ? एसेनबुगासे नाराज उसका मुसलमान हुआ भाई यसाउर उस समय ईरानमें रहता था। उलजैतूने उसे सेना देकर ७१६ हि० (२३ iii १३१६-१४ ii १३१७ई०) में वक्षुपार भेजा। एसेनबुगाकी भारी हार हुई और वह अन्तर्वेद छोड़कर भाग गया। उलजैतूकी सेना-ने देशमें लूट-मार मचाई, और उसने बुखारा, समरकन्द और तेरमिजके निवासियोंको बीच जाड़में जबर्दस्ती दूसरे स्थानोंमें भेज दिया, जिसके कारण उनमेंसे हजारों मर गये।

एसेनबुगा १३१८ ई० में मरा। प्रसिद्ध पर्यटक इब्न-बतूताके अनुसार वह शामानी (बौद्ध) धर्मको मानता था, यद्यपि मुसलमानोंके साथ उसका बर्ताव अच्छा था।

केबेक पुनः (१३१८-२६ ई०)

केबेकने इसलिये गद्दी छोड़ी थी, कि चगताई-उलुसके आपसी झगड़े मिट जायें और राजशक्ति मजबूत हो, लेकिन एसेनबुगाके अत्याचारोंने अवस्था और शोचनीय बना दी। केबेक फिर गद्दीपर बैठा, लेकिन वह एकता स्थापित करनेमें सफल नहीं हुआ। चगताई-उलुस अब दो भागोंमें बंट गया। अन्तर्वेदमें मुसलमान (तुर्क) अमीरोंका प्रभाव अधिक था और पूर्वी भागमें मंगोल अमीरोंका। पूर्वी भाग-सप्तनद और पूर्वी तुर्किस्तान-मंगोलिस्तान के नामसे इसी समय अलग होने लगे, जिसका प्रथम खान एसेनबुगा-पुत्र तुगलुक तेमूर हुआ। केबेकद्वारा गद्दीसे वंचित होनेका बदला एसेनबुगाके पुत्रने इस बंटवारे द्वारा लिया। अब भी केबेकके शासनमें अफगानिस्तान, अन्तर्वेद और सप्तनदका बहुतांश भाग था। केबेकने अपनी राजधानी नखशेबमें रक्खी, और वहांसे ढाई फरसख* पर अपने लिये एक करशी (महल) बनवाया, जिसके ही कारण पीछे नकशेबका नाम करशी पड़ गया। इब्न-बतूताके अनुसार केबेकको उसके भाई तरमाशेरिन (धर्म-छे-रिड) ने मार डाला।

१५. इलिकदई, इलचीगिदई, दुवा-पुत्र (१३२६ ई०)

केबेकके बादके खान जल्दी-जल्दी बदलते रहे या वजीरोंके हाथकी गुडिया बने रहे। इसी समय कैथलिक मिशनरियोंने ईसाई-धर्मके प्रचारमें बड़ी सरगामी दिखलाई।

१६. तुवा-तेमूर, दुवा-तेमूर, दुरी तेमूर, दुवा-पुत्र (१३२६ ई०)

खान बननेसे पहले यह एक पूर्वी जिलेका ठाकुर था। वहीं रहते १३१५ ई० में इसके पास चीन-से सहायता आई थी। गद्दीपर यह कुछ ही महीनों रह पाया, क्योंकि इसके भाईका हत्यारा तरमाशेरिन राज्यपर घात लगाये हुए था।

१७. तरमाशेरिन, धर्म-छे-रिड, दुवा-पुत्र (१३२६-३४ ई०)

धर्म-छे-रिड संस्कृत धर्म और तिब्बती छेरिड (दीर्घायु) दो शब्दोंसे मिलकर बना है। इसका नाम ही बतलाता है, कि चगताई-वंशपर बौद्ध-धर्मका कितना प्रभाव था, लेकिन तरमाशेरिनने अपनेको कट्टर मुसलमान सिद्ध करनेकी कोशिश की। राजवंशका डूबता सितारा मुसलमान बनकर अबलम्ब ढूँढ़ रहा था। तरमाशेरिन १३२६ ई० के अन्तमें गद्दीपर बैठा और खान बनते देर नहीं लगी, कि उसने मुसलमान बन अलाउद्दीन नाम धारणकर धार्मिक कर्तव्यपालन करनेके लिये अफगानिस्तान और पंजाब तक जहाद (धर्मयुद्ध) शुरू कर दिया, लेकिन इसी समय अलमालिक और राज्यका पूर्वी भाग हाथसे निकलकर मुगोलिस्तानके खानके हाथमें चला गया। मुगल-राजकुमारोंका प्रभाव अब खतम हो चुका था। दरबारमें तुर्क मुसलमान अमीर सर्वेसर्वा थे। यह मंगोलोंकी संस्कृतिपर इस्लामकी विजय थी। लेकिन वहां केवल इस्लाम और गैर-इस्लाम धर्मका ही झगडा नहीं था, बल्कि युद्धजीवी घुमन्तू और कृषि-व्यापार-जीवी स्थायी निवासियोंका भी द्वंद्व चल रहा था। युद्धजीवी घुमन्तुओंमें मंगोल ही नहीं बल्कि भारी संख्यामें तुर्क भी शामिल थे।

खुरासानपर तरमाशेरिनने ७२५ हि० (१८XII १३२४—८XI १३२५ ई०) में आक्रमण किया था, लेकिन नये गाजीको गजनीमें जबरदस्त हार खाकर वक्षुपार भागना पड़ा। इब्न-

* १ फरसख = ६ वर्स्ते = १२ ली = ३ मीलके करीब।

बतूता दो महीनेतक बुखारामें तरमाशोरिनका मेहमान रहा । वह इसे बड़ा ही पक्का मुसलमान कहता है । अपने समसामयिक दिल्लीके सुल्तान मुहम्मद तुगलकके साथ इसका बहुत अच्छा संबंध था और तुगलककी इस्लाम-भक्तिका वह अनुकरण भी करना चाहता था । इब्न-बतूताने लिखा है—एक बार किसी धार्मिक भूलके लिये मुल्ताने तरमाको लोगोके सामने फटकारा । खानने उसे बुरा न मान आंसू बहाते हुए तोबा किया । इब्न-बतूताके अनुसार उसने अपने सिंहासन और प्राण इस्लामके लिये न्योछावर कर दिये थे ।

इस्लामकी इतनी अंधभक्ति देखकर मंगोल-राजकुमार चुप रहनेके लिये तैयार नहीं थे, आखिर उन्हें भी धर्म-भक्ति करनेके लिये तिब्बतसे बौद्ध-धर्म मिल चुका था । १३३४ ई० में दुवा तेमूरके पुत्र बूजनके नेतृत्वमें विद्रोह हुआ—इब्न-बतूताके अनुसार बूजन मुसलमान था, जो संदिग्ध है । तरमा हारकर भारतकी ओर भागा जा रहा था । बलखके राज्यपाल तथा केवकके पुत्र यङ्गिने उसे पकड़कर बूजनके पास भेज दिया, जिसने उसे समरकन्दके पास कतल करवा दिया ।

१८. बूजन, बोजन्द, दुवा तेमूर-पुत्र (१३३४ ई०)

अपना-अपना मतलब सिद्ध करनेके लिये दरबारमें अब इस्लामी और इस्लामविरोधी दो दल हो गये थे । बूजन इस्लामविरोधी दलका अगुवा था—इन्हें मंगोल और गैर-मंगोल दल कहना ज्यादा उपयुक्त होगा । बूजन ईसाइयों और यहूदियोंका अधिक पक्ष करता था—बौद्धोंका उसके राज्यमें अभाव-सा था । इसके अल्पकालीन शासन में ईसाइयों और यहूदियोंके मन्दिर अधिक बने, प्रचार भी बढ़ा । इससे पहले १३२६ ई० में ही दोमनिकन साधु थामस मन्तजोला अन्तर्वेदमें कैथलिक धर्मका प्रचार करने आया था । मंगोल-शासक मुस्लिम धर्मांधतासे भय खाते चाहते थे, कि उनकी प्रजापर मुल्लोंका एकाधिपत्य न रहे ; इसीलिये वह बौद्ध-धर्मके साथ-साथ ईसाई धर्मको भी प्रोत्साहन देते थे । बूजन अपने प्रतिद्वंद्वी बहुतसे अमीरों और राजकुमारोंको जरा-जरासे संदेहपर बहुत क्रूर दंड देता था । इसके कठोर शासनसे लोग तिलमिलाकर विद्रोह कर बैठे, जिसमें प्रसिद्ध ताजिक नेता हुसेन कर्तने प्रमुख भाग लिया । अरपाखानसे खुरासानको छीननेके लिये बूजन जब बुखारामें था, उसी समय अन्दखोई और शापूरगान (सिबोरगान) के तुर्क कबीलोंने अरलत और एवरदीको लूटा । तुर्कोंने अपने सजातीय तथा अत्यन्त प्रभावशाली अमीर कजगनसे सहायता ली । हेरातके शासक मलिक हुसेन तथा वजीर अलाउलमुल्क खुदाबन्दजादा (तेरमिज)ने भी उनकी सहायता की । लड़ाईमें बूजन पकड़ा गया और उसे उसके शत्रुओंके हाथमें दे दिया गया । इब्न-बतूताके अनुसार यसाउर-पुत्र खलीलने बूजनको मार डाला और १३३४ ई० में ही जैकिश (चेंगिज) ने उसका स्थान लिया ।

१९. जैकिश (जिकशी), खलील, दुवा-पौत्र, एबुगेन-पुत्र (१३३४-३८ ई०)

यह भी इस्लामी पार्टीका नहीं बल्कि मुसैवीके अनुसार बौद्ध था । मंगोलोंने किसी दूसरेको खान बनाया, जिसपर जैकिश ताराजमें मंगोलोंको हराते अलमालिक पहुंचकर गद्दीपर बैठा । फिर आगे बढ़ते उसने बिशबालिग और कराकोरम (मंगोलिया) को ले लिया, जिसपर कन्नान (चीन-सम्राट्) को दबकर सुलह करनी पड़ी । अलमालिकमें वजीर अलाउलमुल्क खुदाबन्दजादाको शासनके लिये छोड़कर वह समरकन्द लौट आया, लेकिन पीछे संदेह हो जानेपर उसने अलाउलमुल्कको मरवा डाला । बिशबालिक और कराकोरमके विजयकी बात कहांतक ठीक है, इसे नहीं कहा जासकता, लेकिन १३३२ ई० में जैकिशने चीन-दरवारमें भेंट भेजी थी । वह अधिकतर अलमालिकमें रहता था । कैथलिक मिशनरी वहां बड़े जोरसे धर्म-प्रचार कर रहे थे । कैथलिक चर्चने फ्रांसिस्कन साधु निकोलाई (मिखाइल) को चीनका आर्चबिशप (लाट-पादरी) बनाकर भेजा था । अलमालिकमें जैकिशके दरबारमें उसका बड़ा सम्मान हुआ । कुछ ही समयमें राजधानीमें पादरियोंका भारी जमाव हो गया—बरगंडीका रिचार्ड, अलक-संदरियाका साधु फ्रांसिस्क, रायमुन्द और इसी तरह कितने ही और धर्म-प्रचारक वहां मौजूद थे । खानका सात वर्षका पुत्र बपतिस्मा लेकर योहन बना । स्पेनिश साधु पसखालिस १३३८ ई० में धर्म-प्रचारार्थ उरगंजसे अलमालिक जा पांच महीने रहा ।

आगे जैकिश और मलिक हुसेनमें लड़ाई हुई। हुसेनने उसे पकड़कर क्षमा कर दिया। उस समय जैकिश हेरातमें था, जबकि १३४७ ई० के बसंतमें बतूता वहांसे भारतके लिये प्रस्थान कर रहा था।

२०. येस्सुन तेमूर, एसुन, एबुगेन-पुत्र (१३३८-४० ई० ?)

थोड़े दिन राज्य करनेके बाद ओगोताई-राजकुमार अली सुल्तानने इसे हटाकर इसका स्थान लिया। इससे थोड़े समय पहले सप्तनदमें ईसाइयोंपर भारी अत्याचार हुए और आठ शताब्दियोंसे चला आया नेस्तोरीय सम्प्रदाय वहांसे सर्वदाके लिये उच्छिन्न हो गया।

२१. अली-सुल्तान, ओगोताई-वंशज (१३४०-४२ ई० ?)

अली-सुल्तान मुस्लिम पार्टीका था, किंतु इसके जुल्मसे ईसाई ही नहीं मुसलमान भी पनाह मांगते थे।

२२. मुहम्मद पुलाद, पोलाद, कुंजेक-पुत्र (१३४२ ई० ?)

अली-सुल्तानको हटाकर कुछ समयतक यह चगताई खान रहा।

२३. काजान, गाजान, यसाउर-पुत्र (७३३-४७ हि०* ?)

यह भी बड़ा अत्याचारी था। इसके डरके मारे दरबारी पहले अपनी वसीयत करके तब खानके पास जाते थे। इसके १३-१४ सालके शासनमें चारों तरफ आतंक फैला रहा। प्रभावशाली वजीर कजगनने इससे पिंड छुड़ानेके लिये विद्रोह कर दिया। पहली लड़ाई ७४४ हि० (२६ मई १३४३-१५ अप्रैल १३४४ ई०) अथवा मीरखोजन्दके अनुसार १३४५ ई० में हुई, जिसमें खान जीता और अमीर कजगन की एक आंख तीर लगनेसे फूट गई। सफल होनेपर भी खान शत्रुओंका पीछा नहीं कर सका। उसने जाड़ा करशीमें बिताया। सब्त जाड़े और हिमवर्षाके कारण घोड़े और बोझा लादनेके बहुतसे पशु मर गये। ७४७ हि० (२४ अप्रैल १३४६-१५ मार्च १३४७ ई०) में फिर लड़ाई हुई, जिसमें खानकी हार हुई और उसका अत्याचारी शासन खतम हुआ।

२४. दानिशमन्द, ओगोताई-वंशज (१३४६-४८ ई०)

अमीर कजगनको एक गुड़िया खानकी जरूरत थी। उसने ओगोताई दानिशमन्द ओगलान (राजकुमार) को लाकर गद्दीपर बिठाया। दो साल बाद उससे मन ऊब गया, फिर उसने बायन कुल्लीको गद्दीपर बिठाया।

२५. बायन कुल्ली, सुरगू ओगलान-पुत्र, चगताई-वंशज (१३४८-५८ ई०)

कजगनके अनुकूल होनेसे यह दस सालतक खान बना रहा। अमीर कजगन एक तो स्वदेशी तुर्क था, दूसरे बड़ा ही चतुर और न्यायप्रिय भी, इसलिये वह बहुत जनप्रिय था। कजगनके मरनेपर उसका लड़का अब्दुल्ला वजीरआजम (महामंत्री) बना, जिसने बायनको कुंदुजमें शिकार करते समय कतल करवा दिया—अब्दुल्ला बायनकी बीबीका यार था। अब अब्दुल्लाने तेमूरशाह ओगलानको गद्दीपर बिठाया।

२६. तेमूरशाह (१३५८—ई०)

छिड़-गिस् वंशकी इतनी धाक और पवित्रता स्थापित हो गई थी, कि खानके सिंहासनको कोई लेनेकी हिम्मत नहीं करता था। स्वयं तेमूरलंगने भी खान बनना नहीं चाहा और विश्वविजयी होनेके बाद भी वह "अमीर तेमूर" या "सुल्तान तेमूर" ही बना रहा। अब्दुल्लाका प्रभाव बापके बराबर नहीं था। तेमूरशाहको जिस तरह गद्दीपर बिठाया गया, उससे दरबारी नाराज हो गये। अमीर बायन सुल्दूज अब्दुल्लाके विरुद्ध चढ़ाई करनेके लिये जब समरकन्दकी ओर जा रहा था, तो रास्ते में केश (शहरसब्ज) का शासक हाजी बिरलस भी उसके साथ हो लिया—यही हाजी सैफुद्दीन बिरलस तेमूर

* २२ IX १३३२-१३ VIII १३३३ ई० से २४ IV १३४६-१५ III १३४७ ई०

लंगका चचा था। अब्दुल्ला हारकर अन्दराब (अफगानिस्तान) की ओर भागा, और उसने अपना बाकी जीवन वहीं बिताया। चगताई-शासनकी बागडोर अब अत्यन्त अयोग्य भारी पियक्कड़ सेलदूज तथा हाजी बिरलसके हाथोंमें थी। सारे राज्यको अमीरोंने अपनी-अपनी रियासतोंमें बांट लिया, जिसमें केश (शहरसब्ज) और आसपासका इलाका बिरलसको मिला। चारों ओर गृहयुद्ध और अराजकताका दौरा दौरा था।

२७. इलियास खोजा, तुगलक-तेमूर-पुत्र (-१३६३ ई०)

तेमूरशाहकी जगह इलियास गद्दीपर बिठाया गया। चगताई-वंशकी पश्चिमी शाखाकी जहां यह अवस्था थी, वहां उत्तर-पूर्वी शाखावाले मुगोलिस्तानके खान अभी इतने शक्तिहीन नहीं हुए थे। अन्तर्वेदकी अवस्थाके बारेमें सुनकर अलमालिकका खान तुगलक तेमूर एक बड़ी सेना लेकर समरकन्दकी ओर चला। आपसमें लड़ते छोटे-छोटे अमीर भला उसका मुकाबिला कैसे कर सकते थे? हाजी सैफुद्दीन बिरलस (तेमूरका चचा) बिना लड़े ही खुरासानकी ओर भाग निकला। उसके भाई तुरगाई बिरलसके तरुण पुत्र तेमूर लंगने चचासे राय लेकर तुगलक तेमूरसे भेंट की। तरुणसे खान इतना प्रभावित हुआ, कि उसने केशके निवासियोंपर अत्याचार नहीं किया। तुगलक तेमूरने अन्तर्वेदको जीत कर अपने पुत्र इलियास खोजाको समरकन्दमें उपराज घोषित कर तेमूर लंग बिरलसको विश्वास-पात्र जान वजीर (अमात्य) नियुक्त किया। तुगलक तेमूर काशगरकी ओर लौट गया। अमीरोंके आपसी झगड़ोंमें पड़ना तेमूरने पसन्द न कर बुखारा तथा खीवा होते कास्पियनतटवर्ती रेगिस्तानोंका रास्ता लिया। इस निर्जन भूमिमें वह कितने ही समयतक मारा-मारा फिरता रहा। अन्तमें वह अपने केश लौटे कुछ साथियोंको लेकर वक्षु नदीके दक्षिण चला गया। ७६५ हि० (१० अक्टूबर १३६३-३० अगस्त १९४६ ई०) में कुंडुजके पास दानियालकी सेनाको हराकर तेमूर उसका पीछा कर रहा था, इसी समय तुगलक तेमूर खानके मरनेकी खबर आई और इलियास खोजा समरकन्द छोड़कर बापकी गद्दी संभालने अलमालिक चला गया। तेमूर लंगने तुरंत अन्तर्वेद लौट सरदारोंकी कूरिलताई बुलाकर काबिलशाहको खान घोषित किया।

२८. काबिलशाह (१३६३-६९ ई०)

काबिलको छिड़-गिसू-वंशका अन्तिम चगताई खान तो नहीं कह सकते, क्योंकि तेमूरके वंशने भी अबू-सईदके समय (१४६७-६४ ई०) तक छिड़-गिसी राजकुमारोंको बराबर समरकन्दकी गद्दीपर गुड़िया खान बनाये रक्खा। ८ अप्रैल १३६७ ई० (१० रमजान ७७१ हि०) तक काबिलशाह बहुत कुछ अपने पूर्वजों जैसा ही खान रहा। उसके बाद तेमूरने बाकायदा अपनेको शासक घोषित किया, यद्यपि उसने खान-परंपराका उच्छेद नहीं किया।

चगताई-अर्थनीति—मंगोल-शासन घुमन्तू सैनिक सामन्तोंका शासन था, जो अपनेसे भिन्न जातियोंके लिये निरंकुश था, किन्तु जहांतक मंगोल सामन्तों और राजकुमारोंका संबंध था, खानके लिये बहुमतकी इच्छाका उल्लंघन करना आसान काम नहीं था, क्योंकि सेना उनकी थी। मंगोल शासक नागरिकों और ग्रामीणोंकी गाढ़ेकी कमाईको उड़ाना अपना हक समझते थे। पहले कितने ही समयतक इनके भीतर सैनिक जीवन कायम रहा, किन्तु आगे विलासिता बढ़नेके कारण उसका ह्रास होने लगा। इसके साथ ही राजपरिवार और सामन्त-परिवारोंकी संख्या बढ़नेके कारण प्रजाका शोषण-उत्पीड़न और भी भयंकर होने लगा। उनके सहकारी तुर्क घुमन्तू थे, जो देशमें शताब्दियों पहलेसे अपना प्रभाव जमाये हुए थे, और छिड़-गिसूकी सेनामें दूध-पानीकी तरह मिल गये थे। वह अब अपने स्वार्थोंको हाथ से जाने देनेके लिये तैयार नहीं थे। मंगोल-राजपरिवार और मंगोल अमीर-परिवारोंकी निर्बलताके समय तुर्कोंने शासनकी बागडोर भी अपने हाथमें संभाल ली। प्रजाका शोषण पूर्ववत् जारी रहा, तो भी अन्तर्वेदकी सम्पत्तिका महास्रोत—अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य और सुंदर दस्तकारी—सूखा नहीं था।


साहित्य—मंगोलोंके सर्वसंहारी प्रहारके बाद साहित्यकी और धाराएं रुकसी गईं, लेकिन धर्मशास्त्र (शरीयत), धार्मिक साहित्य, सूफी साहित्य, मदिरावाद फूलता-फलता रहा। मुल्लों और

सूफियोंकी मंगोल-दरबारमें बड़ी इज्जत थी। जिसके कारण इस्लामिक शरीयतका प्रभाव भी बढ़ चला। कहना चाहिये शरीयत और सूफीमतका इतना प्रभाव मध्य-एशियाकी जनतापर पहिले कभी नहीं पड़ा था। कुछ परिवारोंमें शरीयत और सूफीवादके लिये अपनी पुश्तैनी गद्दी बना ली, और उनका सम्मान पैगम्बरोंकी तरह होने लगा। इन परिवारोंमें सिताजी और खावन्द बहुत प्रसिद्ध थे। जमालुद्दीन सिताजी—मृत्यु ६४० हि० (१ VII १२४२-२२ V १२४३ ई०)—एक सूफी कवि था, जो ६२८ हि० (६ XI १२३०-३० IX १२३१ ई०) में खोजन्दमें आकर बस गया था, और मंगोलोंके आक्रमणके समय ६४० हि० में मरा। बुखाराके खावन्द-परिवारका अमीर शम्शुद्दीन-पुत्र कमालुद्दीन अच्छा कवि था, जिसके कई दीवान (कविता-संग्रह) मौजूद हैं। इसने "मिन्हाजुल्-मुज्जकरीन" के नामसे भक्तमाल जैसा एक जीवनचरितात्मक ग्रन्थ लिखा। इलखान अबकाकी सेना-द्वारा ६७१ हि० (२६ VII १२७२-१६ VII १२७३ ई०) में बुखाराकी लूटके पहले ही दिन कमालुद्दीन मर गया। शाह फखरुद्दीन, मुल्ला ताजुद्दीन इस समयके दूसरे साहित्यकार थे। मुल्ला ताजुद्दीन ७३० हि० (२५ X १३२६-१५ IX १३३० ई०) में मरा। इसने "बोस्ताने-मुज्जकरीन" लिखा। तरमाशोरिनके बाद मंगोल-राजवंश जल्दी-जल्दी मुसलमान होने लगा। मंगोलोंके लिये इस्लामके समुद्रमें डेढ़ ईंटकी अलग मस्जिद बनाकर रहना आसान नहीं था। मंगोल-राजवंश बौद्ध-संतों और लामाओं की अंधभक्ति सीख चुका था, अब वही अन्धभक्ति उनकी सूफियोंके प्रति हो गई। मानके बढ़नेके साथ सूफियोंकी संख्या भी बहुत बढ़ी। मुल्लाओंका गढ़ बुखारा अब सूफियोंका भी गढ़ बन गया, इसीलिये उस समय किसी कविने लिखा था—

"बुखारा मीरवी.....दीवाना।

लायक जंजीर-जिदानखाना।"

(बुखारा जा रहा है पागल, वह तो जेलखानेकी जंजीर जैसा है।)



हुलाकू-वंश

(१२५६-१३४७ ई०)

हुलाकूने ईरान-इराक तथा दूसरे देशोंको विजय करके अपने वंशकी स्थापना की थी। हुलाकू-के बाद इसकी राजधानी तन्जीज हो गई। सभी मंगोल खानोंके ऊपर कअान (खाकान, हागान) माना जाता था। उसके नीचे भिन्न-भिन्न उलुसोंके खानोंको इलखान कहते थे। इल या एल जन (कबीले) का पर्याय है। इसीसे एलची शब्द निकला, जिसका अर्थ है जनदूत या राजदूत। पीछे "इलखान" ईरानी मंगोल-राजवंशके लिये रूढ़ हो गया।

इलखानोंकी नामावली निम्न प्रकार है—

१. हुलाकू, तूलुइ-पुत्र	१२५६-६४ ई०
२. अबका, अरिकबुगा, हुलाकू-पुत्र	१२६४-८२ "
३. अहमद तगूदर, हुलाकू-पुत्र	१२८२-८४ "
४. अरगून, अबका-पुत्र	१२८४-९२ "
५. गौखातू, अबका-पुत्र	१२९२-९५ "
६. बैदू, तरगई-पुत्र	१२९५ "
७. गाजन, अरगून-पुत्र	१२९५-१३०४ "
८. उलजैतू, अरगून-पुत्र	१३०४-१७ "
९. अबूसईद उलजैतू-पुत्र	१३१७-३५ "
१०. अरपगोन, सूसू-पुत्र	१३३५-३६ "
११. मूसा, अली-पुत्र	१३३६-३७ "
१२. मुहम्मद येल, कुतुलुग-पुत्र	१३३७-३८ "
१३. सातीबेग, उलजैतू-पुत्र	१३३८-४० "
१४. शाहजहां तेमूर, अलाफेफ-पुत्र	१३४० "
१५. सुलेमान, युसुफशाह-पुत्र	१३४०-४४ "
१६. नौशेरवा	१३४४ "

१. हुलाकू, खूलागू, तूलुइ-पुत्र (१२५६-६४ ई०)

हुलाकू (जन्म १२१६ ई०) छिङ्ग-गिस्के पुत्र तूलुइका बेटा चीनके प्रसिद्ध कअानों मुङ्खे और कुविलेइका अनुज था। मुङ्खेने १२५२ ई०में जो कूरिलताई बुलाई थी, उसमें ईरान-इराकके विजयका भार हुलाकूके ऊपर दिया गया। हुलाकू कूच करते हुए १२५३ ई०के मार्चमें अलमालिकके पूर्वके पहाड़ों में पहुंचा। फरवरी १२५४ ई०में चगताईकी राजधानी अलमालिकमें उसकी साली रानी ओरगानाने उसका स्वागत किया। सितम्बर १२५५ ई० में अपनी सेनासहित वह समरकन्द पहुंचा और २ जनवरीको उसने वक्षु पार कर लिया। फिर खुरासान होते मध्य-ईरानमें पहुंच हसन बिन-सब्बाहके गढ़ अल-मौतको विजय करके ध्वस्त कर दिया। कवि खैयाम और इस्लामी चाणक्य निजामुल्मुल्कके सहपाठी तथा इस्माईली सम्प्रदायके मुखिया हसन बिन-सब्बाह (सब्बाह-पुत्र) ने शिष्योंको जीते-जी स्वर्गकी सैर करानेका प्रवन्ध करते हुये अलमौत नामका नगर और दुर्ग स्थापित किया था। हसनके चेलोंसे राजाओं और राजमंत्रियोंको भी प्राणोंका डर बना रहता था, इसीलिये कोई उसे छेड़ता नहीं था। हुलाकूने

इस गढ़को तोड़कर उसे हमेशाके लिये नष्ट-भ्रष्ट कर दिया, और उसके बाद इस्माईली फिर अपने लिये वैसा सुदृढ़ दुर्ग नहीं बना सके। इसी इस्माईली सम्प्रदायके गुरु हमारे यहांके आगाखान हैं, या यों कहिये, हुलाकूकी आंश्रीमें उड़े पत्तोंमेंसे एक हैं। मार्च १२५७ ई० को हुलाकूने हम्दानके लिये प्रस्थान किया। छिड़-गिस्की दिग्विजयमें उसके सेनापति हम्दानतक ही आ पाये थे। यहांसे हुलाकूको उस रास्तेपर जाना था, जिसपर मंगोल घोड़ोंकी टाप नहीं पड़ी थी। ईरानके जिस भागको छिड़-गिस्के सेनापतियोंने जीता था, उसपर भी अभीतक मंगोल शासन पकका नहीं हो पाया था। हुलाकू अब इस कामको बड़े दृढ़तासे करता चल रहा था। १८ जनवरी १२५८ ई०को वह खलीफाकी राजधानी बगदादके पूर्वमें था। ४ फरवरीको उसने बुर्जेअली किलेको ध्वस्त किया। खलीफा पूरी तौरसे पराजित हो १० फरवरीको हुलाकूके शिविरमें कोरनिश करने गया। यद्यपि खलीफाकी राजशक्ति तीन शताब्दियों पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस्लामके पोपके तौरपर उसका सम्मान अब भी बहुत अधिक था। देश-देशके स्वतन्त्र सुल्तान उसके पास बड़ी-बड़ी भेंटें भेजकर उसके दिव्य चार अक्षरोंके नामोंको बड़े अभिमानपूर्वक अपने नामके साथ जोड़ते थे। खलीफाका हुलाकूके दरबारमें सालाम बजाने जाना वैसा ही था, जैसा कि हालमें सूर्यदेवीके पुत्र जापानके मिकादोका अमेरिकन जनरल मेकआर्थरके सामने दंडवत् करना। लेकिन हुलाकू सांपको पालनेके लिये तैयार नहीं था। वह समझता था, खलीफा मुसलमानोंको भड़का सकता है, इसीलिये बड़े लड़केके साथ खलीफाको उसने २० फरवरी को मरवा दिया।

बगदादपर अधिकार करके विजित देशकी व्यवस्थाके लिये कुछ समयतक हुलाकू रुका, फिर वह पश्चिमकी विजय-यात्राके लिये निकला, और २५ जनवरी १२६० ई० को जाकर उसने हलब (अलेप्पो) पर अधिकार किया। शाम (सिरिया) की राजधानी (दमिश्क) की ओर बढ़नेपर उसका भुकाबिला मिस्त्रके ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन पीरोजसे पड़ा। हुलाकूके सेनापति कीतू-बुगाने मिस्त्रियोंके पास निम्न शब्दोंमें अन्तिमैतम् भेजा—

“तुमने सुना होगा, कैसे हमने एक विशाल साम्राज्यको जीता, कैसे हमने पृथिवीकी गंदगियोंको हटाकर शुद्ध किया, और अधिकांश लोगोंको कत्ल कर डाला। तुम्हारा काम है, भागना और हमारा काम है पीछा करना—जहां भी तुम जाओ, जिस रास्तेसे भी जाओ, वहां तुम्हारा पीछा करना। तुम कैसे हमसे बच सकते हो? हमारे घोड़े बड़े तेज हैं, हमारे बाण बड़े तीक्ष्ण हैं, हमारी तलवार वज्र जैसी है, हमारे हृदय पहाड़की तरह कठोर हैं, हमारे सैनिक बालूके कणोंकी तरह असंख्य हैं। किले हमें रोक नहीं सकते, न हथियार ही। हमारे विरुद्ध तुम्हारी प्रार्थनाओंको भगवान् नहीं सुनेगा। तुम हीन उपायोंसे अपनेको बचाना चाहते हो और शपथ-पूर्वक की हुई प्रतिज्ञाओंको तोड़ते हो। विद्रोह और अव्यवस्था तुम्हारे भीतर फैली हुई है। अपने अभिमानके लिये तुम्हें अब भयंकर दण्ड मिलनेवाला है। अन्यायी अपने भाग्यसे शिक्षा लेने जा रहे हैं। हमारे साथ युद्धका मंसूबा रखनेवाले अब पछतानेवाले हैं। जो हमारी शरणमें आना चाहते हैं, केवल उन्हींकी रक्षा होगी। अगर तुम हमारी आज्ञा और पेश की हुई शर्तोंको मानोगे, तो हमारे वैभवमें भागीदार बनोगे; यदि प्रतिरोध करोगे, तो नष्ट हो जाओगे। आत्महत्या मत करो। जिसे पहलेसे सजग कर दिया गया है, उसे अपने लिये सावधान रहना चाहिये। तुमसे कहा गया है, कि हम काफिर हैं, पर हम तुमको पापी समझते हैं। जिस भगवान्की आज्ञाएं अमिट हैं, जिसका फैसला पूर्णतया न्यायानुमोदित है; वही तुम्हारे ऊपर हमें विजयी बना रहा है। हमारी आंखोंमें तुम्हारी सबसे जबर्दस्त सेनायों भी आदमियोंकी एक छोटीसी टुकड़ी है। तुम्हारे प्रसिद्ध वीरोंको भी हम तुच्छ समझते हैं। तुम्हारे राजाओंको हम घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं। जवाब देनेमें जल्दी करना। ऐसा न हो, कि युद्ध तुम्हारे ऊपर आग लगा दे और तुम्हारे ऊपर अपनी चिनगारियां फेंकने लगे। हमारा कहा न करोगे, तो जो भयंकर सत्यानाश तुम्हारा होनेवाला है, उससे कहीं बाध नहीं पा सकोगे और तुम अपने देशको रेगिस्तान बना दोगे। हम पहलेसे चेतावनी देकर तुम्हारी भलाई करना चाहते हैं, तुम्हें तुम्हारी नीचतासे डराना चाहते हैं। अब तुम ही एकमात्र (हमारे) शत्रु रह गये हो, जिसके विरुद्ध हमें कूच करना है। तुम्हारे और जो लोग भी दैवी आदेशका अनुगमन करते हैं, मौतसे

डरते हैं; उनके लिये भी सुरक्षाका यही रास्ता है, कि वह कअानकी आज्ञाको मानें। मिस्रको कहो— हुलाकू इस भूमिके बड़ोंको अपमानित करने आ रहा है, वह बच्चोंको वहां भेज देगा, जहां बूढ़े गये हैं।”

इसका जवाब सुल्तान फीरोजने इस प्रकार दिया—

“ओ तरण, तुमने अभी-अभी अपना जीवन आरम्भ किया है, इसीलिये तुम जीवनकी ओर इतना कम ध्यान देते हो। तुमने अभी दस दिनोंकी ही समृद्धि और सौभाग्यका उपभोग किया है। ऐसा होनेपर भी तुम सारी दुनियासे अपनेको बड़ा समझते हो और अपनी आज्ञाको भवितव्यताकी आज्ञा मानकर उसे अनिवार्य समझते हो। तुम क्यों मुझसे ऐसी मांग कर रहे हो, जिसे कि तुम पा नहीं सकते? क्या तुम अपनी चालाकी, अपनी सैनिक शक्ति और अपनी हिम्मतसे एक भी तारेको बन्दी बना सकते हो? तुम शायद नहीं जानते, कि पूरबसे पश्चिमतक अल्लाके बन्दे, धर्मात्मा पुरुष, राजा-रंक, बच्चे-बूढ़े, सभी इस (मेरे) दरबारके दास हैं, वह मेरी सेना है। जब मैं अलग-अलग प्रतिरोधियों को इकट्ठा हो जानेकी आज्ञा दूंगा, तो पहले ईरानके मामलेको ठीक करूंगा, फिर तूरान (तुर्किस्तान) पर चढ़ूंगा और वहां हरएक आदमीको उसके पदपर स्थापित करूंगा। इसमें संदेह नहीं, कि मेरे इस कामके परिणाम-स्वरूप पृथिवीपर अशांति और गड़बड़ी फैलेगी, लेकिन यह सब मैं बदला लेनेके लोभसे नहीं करता और नहीं लोगोंकी वाहवाही लूटना चाहता हूँ। मैं इसके लिये उत्सुक नहीं, कि सेनाके बजते बाजोके साथ आदमी मारे जाय।.....मैं दुआ या शापको भी नहीं पसन्द करता। मेरे, कअान और हुलाकू-सबके पास एक-सा ही दिल है, एक-सी ही भाषा है। अगर मेरी तरह तुम भी मित्रताका बीज बोना चाहते हो, तो मेरे सेवकोंकी खाइयों और मोर्चाबन्दियोंसे तुम्हारा क्या काम है? भलाईके रास्तेको पकड़ो और खुरासान लौट जाओ। यदि तुम लड़ना ही चाहते हो, तो मेरे पास हजारों सेनायें हैं, जो कि बदला लेनेके समय आनेपर समुद्रको सुखा देंगी।”

३ सितम्बर १२६० ई० को मंगोल और ममलूक सेनाओंमें भीषण लड़ाई हुई। यद्यपि ममलूक सुल्तान-खलीफाने अपने लिखे अनुसार ईरान और तूरान (मध्य-एशिया) की ओर पैर नहीं बढ़ाया, लेकिन हुलाकूकी सेनाको उसने पूरी तौरसे हराकर अफ्रीकामें बढ़नेका रास्ता बन्द कर दिया। हुलाकू की विजयिनी सेनाको ही मिस्रियोंने नहीं रोका, बल्कि तेमूरलंगकी विजययात्रा भी यहीं आकर खत्म हो गई। नील-उपत्यका एक छोटोसा देश है। वह कैसे विश्वविजेताओंकी सेनाओंको रोक सका, इसका कारण उतनी उसकी अपनी शक्ति नहीं थी, जितनी कि बड़ीसे बड़ी सैनिक शक्तिका भारी बिखरावके कारण अन्तमें क्षीण हो जाना—तरिम, चू, मुरगाव, जरफशां (सोद) और खुद हमारे यहां की प्राचीन सरस्वती (-घग्घर) भारी जलप्रवाहको लेकर चलती हैं, लेकिन अन्तमें उनके पानीको सोखते हुए रेगिस्तान उन्हें अपनेमें लीन कर लेता है।

मिस्रकी ओर आगे न बढ़ सकनेपर हुलाकू लौट पड़ा। तब्रेजको लेकर १२ सितम्बर (१२६० ई०)को उसने आगेकी विजययात्रा शुरू की, और दियारबेकर, जंजीरा, रोहा (एदेस्सा), अरान और निसिंधीके नगरोंपर अधिकार किया। रोहाके पास हुलाकूने मंगोल सैनिक शक्तिका एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिये रोम और अर्मनीके राजा भी उपस्थित थे। दमिश्कपर अधिकार करनेके बाद हुलाकूने दुनियाका सबसे पहला कागजी नोट (चाउ) जारी किया, दूसरे इतिहासकारोंका मत है, कि यह पहलेपहल १२ अप्रैल १२६४ ई० को तब्रेजमें जारी किया गया।

विजयोंके बाद हुलाकूने मरगाको अपनी राजधानी बनाया, जिसे उसका लड़का तब्रेजमें ले गया।

हुलाकू और उसके चचेरे भाई बरका खान (१२५५-६५ ई०) का पहले मेल था, उसके बाद दोनोंमें झगड़ा होनेका कारण बरकाने हुलाकूके इस्लाम और खिलाफतके ध्वंस करनेकी बात बतलाई, लेकिन वस्तुतः झगड़ा काकेशसपर अधिकारका था।


काकेशसकी ओर बढ़ते हुए अब जूछि-उलुसकी सीमा नजदीक आ गई तो अनिश्चित विजित देशोंके लिये दोनोंमें झगड़ा शुरू हो गया। यह बतला आये हैं, कैसे ११ नवम्बर १२६२ ई० को जूछि-उलुसके खान बरेकसे मुकाबिला करनेके लिये हुलाकूकी सेना दरबन्द पहुंची, लेकिन वहीं बरकाके सेनापति नोगाईने उसे हराकर पीछे हटा दिया। बरका और मिस्र-सुल्तान फीरोज दोनों हुलाकूके शत्रु

थे। "शत्रुका शत्रु मित्र"की नीतिके अनुसार सुवर्ण-ओर्दू और मिस्रमें मेल-जोल करनेका प्रयत्न होने लगा। १२६३ ई० के शरदमें बरकाका दूतमंडल मिस्रके सुल्तानके पास पहुंचा।

मिस्र और दरबन्दकी हारोंके बाद हुलाकूने समझ लिया, कि हमारे राज्यका जितना विस्तार हो सकता है, उतना हो चुका। इसीलिये अब वह शासन-प्रबन्धमें लग गया। १२६४ ई० में उसने कई शासन-सुधार किये। १६ रबी II ६६३ हि० (८ फरवरी १२६४ ई०)को हुलाकू जगात (मेरगास) में मर गया।

हुलाकूकी पटरानी ओइरोत (मंगोल)-राजकुमारी कूबेक (ओलेज) खातून थी।

हुलाकूके अलमौतके किलेके ध्वस्त करते समय इस्माईली पोप अलाउद्दीन मुहम्मदने मुहक्किक नासिरुद्दीन तूसी (१२०१-७४ ई०)को अपने बन्दीखानेमें डाल रखा था। तूसी बहुमुखी प्रतिभाका धनी था। हुलाकूने उसकी कदर की। तूसी हुलाकू और उसके बेटे अबका खानके शासनकालमें बहुत सम्मानित रहा। उसने "जिजे इलखानी" नामसे एक पंचांग बनाया।



२. अबका, अरिकबुगा, हुलाकू-पुत्र (१२६४-८२ ई०)

अबका बापकी तरह ही एक कुशल सैनिक और शासक था। बापके समय बेरका खानसे जो झगड़ा हुआ था, वह इसके समयमें भी जारी रहा। बेरकाके उत्तराधिकारी बातू-पुत्र मङ्गू-तेमूर (१२६५-८० ई०) के साथ भी इसकी लड़ाइयाँ होती रहीं। नोगाई-द्वारा पिताकी हारका बदला लेनेके लिये अबकाने राजकुमार यशमुतके अधीन एक बड़ी सेना ले १६ जुलाई १२६५ ई०को प्रस्थान किया। कुरा-तटपर पहुंचकर दोनों ओरकी सेनायें दाव-पेंच दूढ़ने लगीं, और लड़ाई नहीं हो पाई।

२६ नवम्बर १२७० ई०को कुविलेका भेजा यारलिक (शासन-पत्र) जगातमें मिला। अबका बराबर अपने चचा कुविलेका पक्षपाती रहा, जब कि चगताई और ओगोताई-वंशके खान उसके प्रति-द्वंद्वी थे। जगताई-खान बोरक अबकासे खुरासान को छीनकर बहुत दिनोंतक अपने अधिकारमें नहीं रख सका। अबकाने खुरासानका बदला ६७२ हि० (२६ VII १२७२-१६ VI १२७३ ई०)में अन्तर्वेद तथा बुखाराको लूटकर लिया।

फारसीका महान् कवि (मुशरिफुद्दीन) सादी (११८४-१२६२ ई०) हुलाकू और अबकाके समयमें ही हुआ था, जिसने अपने दो महान् ग्रन्थों "बोसता" और "गुलिस्ता" को १२५७-५८ ई० में लिखा था। लेकिन, सादी-जैसा स्वतन्त्रचेता पुरुष मंगोलोंका दरबारी नहीं हो सकता था। सर्वश्रेष्ठ सूफ़ी कवि मौलाना जलालुद्दीन रूमी (१२०७-७३ ई०) भी हुलाकू और अबकाके समयमें ही हुआ था। रूमी वस्तुतः रूममें नहीं बल्कि १२०७ई० में बलखमें पैदा हुआ था, जहांसे वह अपने बापके साथ नेशापोर (खुरासान) गया और अन्तमें मवका और दूसरी जगहोंकी यात्रा करते बापके साथ क्षुद्र-एसियाके कोन्या (इकोनियम्) नगरमें रहने लगा। इसकी प्रसिद्ध कृति "मस्तवी" (कथाकाव्य) में सत्ताईस हजार शेर हैं, जिसका स्थान दुनियाके महान् काव्योंमें है। सादी और रूमी हुलाकू-अबकाके कालकी उपज हैं, इसलिये उनकी कविताओंपर उस समयकी स्थितिका प्रभाव पड़ना जरूरी है। सादीने वैरागियों और दरवेशोंकी जिदगी पसन्द की, और मौलाना रूमीने वेदान्ती रहस्यवाद स्वीकार किया, इसका कारण मंगोलोंकी ध्वंसलीलासे पैदा हुआ निराशावाद था।

३. अहमद तगूदर, निकोदर, हुलाकू-पुत्र (१२८२-८४ ई०)

अबकाके मरनेपर उसके भाईने गद्दी संभाली। उसने अपनी अयोग्यताको ढंकनेके लिये इस्लाम स्वीकार किया, जिसपर मंगोल बिगड़ गये और अबकाके पुत्र अरगूनने उसे मार डाला।

४. अरगून, अरगोन, अबका-पुत्र (१२८४-९२ ई०)

हुलाकूके समयसे ही राज्यका वजीर-आजम ख्वाजा शम्शुद्दीन चला आता था। उसके प्रभावको न सहकर अरगूनने ६८३ हि० (२० III १२८४-८ II १२८५ ई०) में उसे मरवा दिया। अरगूनको परेशान करनेके लिये बाप-दादोंके समयसे ही किपचकोंके साथ झगड़ा चला आ रहा था। २१ सितम्बर १२८६ ई० को अरगूनका शिविर मेरागमें पड़ा था। छिटपुट झड़प होती ही रहती थी। इसी बीच २६ मार्च १२९० ई० को दूतोंने आकर खबर दी, कि किपचक-सेना आगे बढ़ती दरबन्द 'आ पहुंची है। किपचक और इलखानके झगड़ोंमें दरबन्दका ज्यादा महत्व था। किपचकोंके आनेकी खबर पाकर अरगूनने तुकाल, शिकतुर नोयन और कुंजुकबलके नेतृत्वमें एक बड़ी सेना २७ मार्चको रवाना की। इस सेनामें तुगाचार और दूसरे मंगोल अमीर भी थे। २१ अप्रैल (१२९० ई०) को सेनाका हरावल करासू नदीपर पहुंचा। मेगलान बुका आदिके नेतृत्वमें उत्तरसे दो तुमान (बीस हजार) किपचक-सेना आ रही थी। इलखानियोंने नदी पारकर उसपर आक्रमण किया। दुश्मनके तीन सौ सवार मारे गये और कितने ही बन्दी बने। ३ मई १२९० ई० को अरगून विलियासुवरमें पहुंचा। अन्तमें राजकुमार बड़ने विद्रोह करके इसे मार डाला।

१ दरबन्द (द्वारबन्ध) दो थे, जिनमें एक मध्य-एसियामें तेमिजके उत्तरके पहाड़ोंका लौहद्वार था, और दूसरा बाकूसे उत्तर काकेशस पर्वत तथा कास्पियन समुद्रके मिलनस्थानपर।

सादी शाराजी इसीके समय (६६१ हि०) मरा। सादीने हिन्दुस्तान, काश्गर और पश्चिममें मिस्रतककी यात्रा की थी। हुलाकूके शीराजके राज्यपाल अलाउद्दीन और उसके भाई दोनों वजीरआजम शम्शुद्दीन सादीके बड़े भक्त थे, जिनके कारण सादीका परिचय अबकासे हुआ था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अरगूनसे भी उसका परिचय था। सादीका बादशाहोंसे ज्यादा मेल-जोल न था, तो भी उसने लिखा है—

बादशाह सायये-खुदा बाशाद् ।

साया बा-जात आइना बाशाद् ।

(राजा भगवान्की छाया है। छाया है यदि वह भगवान्से परिचित हो।)

अल्लामा कुतुबुद्दीन (मृत्यु १३११ ई०) तत्रेजी अपने समयका बड़ा विद्वान् था। अरगूनका कृपापात्र कवि **औहदी** (मृत्यु १३३७ ई०) इसी समय हुआ था। यही समय था, जब कि भारतमें अमीर खुसरो-जैसा फारसीका महान् कवि पैदा हुआ। खुसरोका बाप छिङ्गिसी हमलेके मारे बहुतसे दूसरे तुर्कोंकी तरह मध्य-एशियासे भागकर भारत चला आया था। अमीर खुसरो जब मुल्तानके हाकिम मुल्तान मुहम्मदके दरबारमें था, उसी समय ६८३ हि० (२० III १२८४-८ II १२८५ ई०) अरगून खानके एक सेनापति तेमूर खानने बीस हजार सवार लेकर पंजाबपर हमला किया, और लाहौर, दीपालपुरको लूटते-मारते वह मुल्तानकी ओर बढ़ा। मुकाविलेके लिये गया सुल्तान मुहम्मद मंगोलों के सामने हारा और मारा गया। अमीर खुसरो और उनके साथी दूसरे कवि हसन देहलवी भी अपने स्वामीके साथ इस संघर्षमें शरीक थे। मंगोल दोनोंको बन्दी बनाकर बलख ले गये। अमीर खुसरो दो सालतक बलखमें रहा, जिसके बाद उसे छट्टी मिली और वह लौटकर दिल्ली चला आया। इस घटनाका बड़ा ही कर्णपूर्ण वर्णन अमीर खुसरोने अपनी कवितामें किया है, जिसको हम पहिले उद्धृत कर चुके हैं।

५. गैखातू, अबका-पुत्र (१२९२-९५ ई०)

अरगूनके बाद बेटेको वंचित कर भाईको गद्दी मिलना यही बतलाता है, कि अभी सैनिक जनतन्त्रताका मंगोलोंमें बिलकुल उच्छेद नहीं हुआ था। गैखातूका समकालीन कियचक खान तोकताई बड़ा ही शक्तिशाली था, लेकिन पीढियोंसे लड़ते-लड़ते तंग आकर अब वह चाहता था, कि काकेशसके लिये चलती रहनेवाली लड़ाई बन्द की जाय। उसने कोनिचि ओगलान (राजपुत्र) को शांतिदूत बनाकर १३ जुलाई १२९३ ई० को भेजा। २८ मार्च १२९४ ई० (२८ रबी II ६९३ हि०) को तोकताईका भेजा दूसरा दूतमंडल भी आया, जिसके मुखिया राजकुमार कलिनतई और उलाद थे। दलननोरमें उनसे बातचीत कर २ अप्रैल १२९४ ई०को गैखातूने बड़े सम्मानके साथ उन्हें विदा किया। कियचकोंकी ओरसे अग्र इलखानको कुछ निश्चितता-सी थी।

६. बैदू, तरगई-पुत्र (१२९५ ई०)

बैदू अधिक दिनोंतक शासन नहीं कर पाया और जल्दी ही उसे हटाकर गाजनने सिंहासन देखल कर लिया।

७. गाजन, अरगून-पुत्र (१२९५-१३०४ ई०)

गाजन इस्लामका धर्मराज कहा जाता था। इसमें शक नहीं कि उसके समयसे ईरानके मंगोल-राजवंशपर इस्लामका प्रभाव बहुत जोरसे पड़ने लगा। कियचक खानसे फिर झगड़ा शुरू हो गया। ३ मई १३०१ ई०को तोकताई खानका दूत आया, लेकिन सुलह नहीं हो सकी। इसपर गाजन एक बड़ी सेना ले शिरवान और गुजिस्तान होते दरबन्द पहुंचा। तोकताईको उसकी सेनाके सामने हारकर भागना पड़ा। इलखानके प्रतिद्वंद्वी मिस्रके सुल्तान-खलीफाके साथ कियचक खानका संबंध अच्छा था, यह बतला चुके हैं। मिस्रका सुल्तान केवल राजा ही नहीं बल्कि खलीफा (धर्मगुरु) भी था। कियचक खान ने उसे अपनी लड़की दी थी। गाजनने अरानसे काजी नासिरुद्दीन तत्रेजी और काजी कमालुद्दीन मोसली को दूत बनाकर तोकताईके पास भेजा। मिस्री दूतमंडल हिल्लामें आकर गाजनसे बातचीत कर रहा था। इसी समय २१ जनवरी १३०२ ई०को तोकताईके भी दूत तीन सौ सवारोंके साथ आ पहुंचे।

गाजन कपचक-दूतमंडलसे बहुत अच्छी तरह मिला। तोकताई अपने प्रभावशाली वृद्ध सेनापति नोगाईके झगड़ेसे निबट चुका था, और अब अरान और आजुर्बाईजानको लेना चाहता था। उसका कहना था—पितामह खिडगिसूने यह प्रदेश बातू खानको दे दिया था। लेकिन, गाजन तलवारसे जीते इलाकेको बातसे कैसे लौटा सकता था? उसने धमकी दी—यदि हमारी बात नहीं मानोगे, तो तुम्हारे विरुद्ध करा-कोरमसे क्रिमियातककी सारी शक्ति तथा दस तुमान (एक लाख) सेना डेरोंमें तैयार खड़ी है। गाजनने यह भी कहा—हुलाकूके समयसे ही यह भूमि हमारी है। भूमि लौटानेकी बात तलवारकी भाषामें ही हो सकती है।

३० जनवरी १३०३ ई०को नववर्षका पर्व आया। राज्यके वजीर, अमीर, गुरजी (जाजिया) अर्मनी, रोमके राजा एवं खुरासान-मिस्र-सिरिया आदिके लोग भी भेंट लेकर आये। तीन दिन तीन रात बड़े धूमधामसे महोत्सव मनाया गया। दान-इनाममें इस्लामके सुल्तानने बड़ी उदारता दिखलाई। इतिहासकार वस्साफ गाजनको इस्लामका सुल्तान कहता है, लेकिन इस्लामका सुल्तान बननेसे पहले गाजनने ईरानमें एक बड़ा बौद्ध विहार बनवाया था। पर, जब उसने देखा, चीन और मंगोलिया यहांसे बहुत दूर हैं, इसलिये वहां सर्वत्र प्रचलित बौद्ध-धर्म इस्लामी ईरान-इराकमें कोई सहायता नहीं दे सकता, तो वह मुसलमान हो गया।

गाजनके समय रशीदुद्दीन फजलुल्ला (१२४७—१३२८ ई०) गणित, दर्शन और चिकित्सा-शास्त्रका उच्च कोटिका विद्वान् था। अबकाका वह विश्वासपात्र दरबारी था। गाजनने उसे अपना वजीर बनाया। अबूसईदने थोड़े दिनोंके लिये उसे हटा दिया था, पीछे उल्जैतूके विरेचनमें जहर देकर मारनेका अपराध लगा, उल्जैतूके पुत्र इब्राहिमने उसे मरवा दिया। रशीदुद्दीन अपने समयका बहुत बड़ा इतिहासकार भी है। उसकी पुस्तक “जामे-उल्-तवारीख” एक विशाल और बहुमूल्य इतिहासग्रंथ है।

८. उल्जैतू, मुहम्मद खुदाबन्दा, अरगून-पुत्र (१३०४—१७ ई०)

इलखानोंने बगदादके खलीफाको खतम किया, लेकिन मिस्रके खलीफाका वह कुछ बिगाड़ नहीं सके। बगदादका खलीफा सुन्नियोंका धर्मगुरु था, और मिस्रका खलीफा शियोंका। उल्जैतूने इस्लाम-प्रेम दिखलानेके लिये अपना नाम मुहम्मद खुदाबन्दा रखा। ईरान अमी शियोंका नहीं हुआ था, लेकिन उल्जैतूने अपनेकी शिया दिखलानेके लिये शियोंके बारह इमामोंके नामवाले सिक्के चलाये। उल्जैतूका अपने प्रतिद्वंद्वी कपचकखानों तोकताई और उज्वेक (१३३३—४० ई०)से मुकाबिला था। ३१६ ई०में कपचक-राजकुमार बाबा अगोलान भागकर उल्जैतूकी शरणमें आया। उसने उसे सहारा दिया। बाबा तुरंत ही अपनी सेना लेकर ख्वारेज्मपर चढ़ गया, जो उज्वेकखानके राज्यमें था। इसके लिये उज्वेकने दूत भेजा और किस तरह बाबा अगोलान ख्वारेज्मसे मारकर भगाया गया, यह हम पहले कह आये हैं।

मंगोलोंके शासनकालमें जिस तरह शरीयतके विद्वानों और सूफी कवियोंकी कृतियां अधिक प्रचलित हुई थीं, उसी तरह फारसी गद्य-कथासाहित्यके विकासका भी यही समय था। तुगराई (मृत्यु १३२४ ई०) मशहदी इस समयका बहुत बड़ा कथाकार था, जिसके “मिरातुल्-मफतूह”, “कुंजुल्-मअानी”, “चरमये फैज” आदि कितने ही कथाग्रन्थोंका बहुत मान हुआ।

९. अबूसईद, उल्जैतू-पुत्र (१३१७—३५ ई०)

अबूसईद कम उमरमें ही गद्दीपर बैठा था, इसीलिये शासनका सारा प्रबन्ध उसके सेनापति अमीर चोबानके हाथमें था। चोबानने उज्वेक खानकी सेनाको खदेड़कर दरबन्दके पार तैरेक नदीतकके प्रदेशको लूटा था, इसलिये उसका प्रभाव बहुत अधिक हो गया था। उसके नौ पुत्रोंमें सबसे बड़ा अमीर हसन खुरासान और माजंदरानका राज्यपाल था, और हसनका बड़ा पुत्र तालिश अस्पहान पारस-केरमानका। हसन और तालिशका बापसे झगड़ा हो गया, जिससे चोबानने उनपर आक्रमण कर दिया। हसन और तालिश दहिस्तानके रास्ते ख्वारेज्म भागे। वहांके राज्यपाल अमीर कुतुलुक तेमूरने उनका स्वागत करते उज्वेकखानके पास भेज दिया। उज्वेकने उनकी बड़ी खातिर की। चेरकासियोंके खिलाफ उज्वेक खानकी ओरसे लड़ते हुए हसन घायल हो गया। उज्वेकने बड़ी चिकित्सा कराई, लेकिन वह न बचा। उसका लड़का बहुत दिनोंतक जीता रहा।

७३५ हि० (१ सितम्बर १३३४—२३ जुलाई १३३५ ई०)में उज्बेकखानकी सेनाने फिर दशतेखाजार—कास्पियनके उत्तर-पश्चिमतटके मैदानी प्रदेश—के रास्ते अरान और आजुर्बाइजानपर आक्रमण करनेके लिये प्रस्थान किया। अबूसईद भी खबर सुनकर मुकाबिलेके लिये चला, किन्तु कराबागमें ३१ अक्टूबर १३३५ ई० (१० रबी I ७३६ हि०) को इस “दीनदार नेककिर्दार बादशाहके प्राण-पंछीने शरीरके पिजड़ेसे उड़कर उत्तम स्वर्गको घर बनाया।” उज्बेकखानने अपनी सेनासहित आगे बढ़ कुरा नदी तकके सारे इल्खानी प्रदेशको बरबाद कर दिया। तारीफ यह कि मुसलमान इतिहासकारोंके लिये अबूसईदकी तरह उज्बेक खान भी धर्मराज था। दरबारी कवि औहदीने अपने संरक्षक अबूसईदकी तारीफमें अपनी मस्नवी “जामेजम”में लिखा है—

दो जहाँ रासिलये-ईद जदन्द ।
सिवक बर-नाम बूसईद जदन्द ॥
दर्-चमन गुफ्त बुलबुल ओ कुमरी ।
मदहि-गुल गुली उलुल्-अमरे ॥


(दोनों लोकोंकी खुशीका पारितोषिक किया, अबूसईदके नामपर सिक्का चलाया। उपवनमें बुलबुल और कुमरीने इस फूलकी तारीफ की।)

अबूसईदके मरनेपर भारी शोक मनाया गया। मस्जिदोंके मीनारोंको शोक-प्रकाशक कपड़ोंसे ढांक दिया गया था।

अबूसईदके बाद हुलाकू-वंशका पतन बहुत जल्दी-जल्दी होने लगा और ग्यारह वर्षोंके भीतर ६ खान गद्दीपर बैठे।

अबूसईदके समय “तारीखे गुजीदा” नामक इतिहासके बहुत सुंदर ग्रंथका लेखक हम्दुल्ला मुस्तौफी (मृत्यु १३४६ ई०) हुआ था। मुस्तौफीने अपने ग्रंथको प्रसिद्ध इतिहासकार रशीदुद्दीनके बेटे गयासुद्दीनको समर्पित किया था। इस ग्रंथके उद्धरण फज्जुल्ला-पुत्र अब्दुल्ला शीराजी (मृत्यु १३२८ ई०) ने अपने ग्रंथ “तारीखे वस्साफ” में दिये हैं। दिल्लीके फारसी कवि अमीर खुसरो (१२५३—१३२५ ई०) का यह समकालीन था।

२. (२. हुलाकू-वंशवृक्ष)
(१२५६—१३४५ ई०)



अबूसईदके बाद अब छिड़गिसी राजकुमार पूरी तौरसे मुसलमान थे। मंगोल अब संस्कृतिहीन नहीं थे, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता, न्यायप्रियता आदि गुणोंके कारण उनकी संस्कृति उच्च स्तरकी थी; किन्तु इस्लामके समुद्रमें उनका कोई बस नहीं चला। दरबारियोंने जब शक्ति हथिया ली, तो गुड़िया खानको कभी अपने शक्तिशाली वजीरोंको प्रसन्न करनेके लिये और कभी प्रजाके प्रभावशाली वर्गको अपनी ओर करनेके लिये इस्लाम लाना जरूरी था। अन्तमें मंगोल-वंशकी समाप्ति होकर इसकी जगह पांच छोटे-छोटे राजवंश कायम हुये, जिनका अन्त तेमूरलंगने अपने दिग्विजयमें किया। यह पांचों खानदान थे—(१) जलायर, (२) मुजफ्फरी, (३) सर्वदारी, (४) बनीकत्त और (५) चोबानी। जलायर सुल्तान ओवेसके बाद सुल्तान अहमद हुआ, जिसे १३८० ई०में तेमूरने खतम किया।

हजारा—मंगोलोंके शासनकालमें जो मंगोल इधर आकर रह गये थे, उनमेंसे कुछ तो साधारण तुर्क जन-समूहमें विलीन हो गये, किन्तु कुछ घुमन्तू हिन्दूकुश (हिन्दूकोह) की उपत्यकाओंमें जाकर कृषक और पशु-पालका जीवन बिताने लगे। इनके पच्चीस कबीले थे, जो आजकल हजाराके नामसे अफगानी-ताजिकों और वक्षु-उपत्यकाके दक्षिणवाले तुर्कोंके बीचमें रहते हैं। इनकी भाषा तुर्की नहीं, एक तरहकी फारसी है, लेकिन वावरके समयतक यह मंगोल-भाषा बोलते थे। अबुलफजल (अकबरके प्रधान-मंत्री)ने इन्हें मङ्गू खानका वंशज कहा है, और यह भी उल्लेख किया है, कि इनकी स्त्रियां पुरुषों जैसी ही लड़नेमें बहादुर होती हैं। अफगानिस्तान और सोवियत मध्य-एशियाके सुन्नी मुसलमानोंके महासमुद्रके बीचमें अपनेको शिया बनाये रखना हजारोंकी विशेषता है। विद्वानोंने इनकी भाषामें कितने ही मंगोल शब्द भी ढूँढ निकाले हैं।

साहित्य—इलखानियोंके समयमें फारसी गद्य-पद्य-साहित्यकी रचनायें बढ़ीं, यद्यपि इस साहित्यमें निराशावादकी ही प्रधानता है। इस कालकी कविता तीन श्रेणियोंमें बांटी जा सकती है—सूफी रहस्यवाद, गजल (प्रेम-पद्य), कसीदा (स्तुतिप्रशंसा) और उपदेश।

इनमें सूफी कवि थे—फरीदुद्दीन अत्तार (१११६-१२२६ ई०)—जिसे प्रथम मंगोल आक्रमणमें एक मंगोल सैनिकने मार डाला, सादी, औहदी, इराकी और मगरदी।

गजलके कवि थे—मौलाना रूमी, सादी और हाफिज।

कसीदाके कवि—कमाल इस्माईल और सुलेमान सावजी।

उपदेशात्मक रचना करनेवालोंमें निष्ण थे—सादी और इब्न-यमीन।

तेमूर-वंश

(१३७०-१५०० ई०)

१. तेमूरलंग (१३७०-१४०५ ई०)

तेमूरके पिता तुरगई बरलसको अमीर कजगनने केश (शहरसब्ज) और नश्शोब (करशी)के इलाके दिये थे। अपने स्वरचित जीवनचरित्र "तुजुकाते-तेमूर" में तेमूरने लिखा है—“बारह वर्षकी उमरमें ही मुझे अपनी असाधारण बुद्धि और दिमागी शक्तिका पता लगने लगा, और मैंने अपनेको अध्ययन और आत्मसंयमका अभ्यासी बनाया। ...अठारह सालकी उमरमें मैं खेलों और बहादुरीके विनोद-कार्योमें अपनी चतुराईके लिये कम अभिमान नहीं रखता था। मैं अपना समय कुरान पढ़ने, शतरंज खेलने तथा बहादुरोंके अनुरूप दूसरे खेलोंमें बिताता था।” १३५६ ई० में तेमूरके पिताने उसे अमीर कजगनके पास इतना बनाकर भेजा। कजगन उससे इतना प्रसन्न हुआ, कि उसने अपने लड़के सेलाखानकी बेटी ओलजे तुरकान खातूनसे उसका ब्याह कर दिया और “मिगबाशी” (सहस्रपति) का पद दे हुसेन कर्त (खुरासान)के विरुद्ध अभियानमें जाते समय तेमूरको अपने साथ ले गया। अभियान सफल रहा, किंतु इसी समय कजगनकी हत्या कर दी गई और थोड़े ही समय बाद तेमूरका पिता भी मर गया। अमीर कजगनके पौत्र अमीर हुसेनके साथ तेमूरकी मित्रता हो गई। अभी वह अमीर कजगनकी हत्याका बदला लेनेकी सोच रहे थे, कि मुगोलिस्तानका खान तुगलक (ध्वजाधारी) अन्तर्वेदपर चढ़ दौड़ा।

हम कह आये हैं, कैसे अन्तर्वेदके चगताई-राज्यकी डांवाडोल स्थितिको देखकर जाते (सीमांती) मुगोलिस्तानके खान तुगलक (ध्वजाधारी) तेमूर ने ७६१ हि० (२३ XI १३५६—१३ X १३६० ई०) में काशगरके रास्ते आकर आक्रमण किया। खोजन्द नदी पार कर लेनेपर अमीर वायजीद जलाघर उससे आ मिला। दोनों शहरसब्ज (केश) की ओर बढ़े। तेमूरलंगके चचा हाजी बिरलसने पहले मुकाबिला करनेका ख्याल किया, लेकिन फिर उसे ध्यर्थ समझकर खुरासानकी ओर भागना ही अच्छा समझा। चचाकी सलाहसे तेमूरलंग किस तरह लौटकर समरकन्दमें प्रधान बना, इसके बारेमें हमने अन्यत्र बतलाया है। तेमूर और उसके वंशज अपनेको छिङ्गिस्-वंशी सिद्ध करनेकी बहुत कोशिश करते हैं। भारतमें तो उसके वंशजोंने अपने खानदानका नाम ही मुगल रख दिया। लेकिन, वस्तुतः वह छिङ्गिस्-वंशज नहीं थे। कुछ इतिहासकारोंने उन्हें चगताई-सेनापति कराचार नोयनके वंशका बतलाकर मंगोल सिद्ध करनेकी कोशिश की है, लेकिन वस्तुतः बिरलस तुर्क थे। हां, वह उन तुर्कोंमेंसे थे, जो कि मंगोलोंके मध्य-एशियाकी ओर बढ़नेके समय उनकी सेनामें बहुत भारी संख्यामें शामिल हो गये। वह मंगोलोंके विश्वासपात्र सरदारोंमेंसे थे, लेकिन जब मंगोल-शक्ति निर्बल हो गई, तो वह उनके तुर्क-प्रतिद्वंद्वी बन गये। अमीर कजगनके बाद इनका जोर अन्तर्वेद और तुर्किस्तान (मध्य-सिर-उपत्यका)में बढ़ा। मंगोल-राज्यकी बंदर-बांटके समय तेमूरका पिता हाजी तुगाई बिरलस तुर्कोंकी कोरकान (गूरगान) शाखाका मुखिया और केश (शहरसब्ज) इलाकेका स्वामी बन गया, जिसके मरनेपर उसका उत्तराधिकारी उसका भाई हाजी बिरलस हुआ—

१. “तुजुकाते-तेमूर” (तेमूरके नियम) तुर्कीमें लुप्त तथा फारसी अनुवादमें ही प्राप्य है।

२. जन्म ७३० हि० (२५ X १३२६—१५ IX १३३० ई०), गद्दी ७४८ हि० (१३ IV १३४७—३ III १३४८ ई०), मुसलमान ७८४ हि० और मृत्यु ७६४ हि० (२१ X १३६२—११ IX १३६३ ई०)

हाजी विरलसको किन्हीं-किन्हीं इतिहासकारोंने तेमूरलंगका भाई भी लिखा है । तेमूरलंगके बापका स्थान हाजी विरलसने लिया, इसमें कोई मतभेद नहीं है । यहीं केश नगरमें ५ शाबान ७३६ हि० (१६ मार्च १३३६ ई०)को तेमूर पैदा हुआ । बचपनसे ही उसमें नेतृत्वके लक्षण दिखलाई पड़ने लगे । लड़कोंकी पंचायत और शिकारमें निपुणता दिखलाकर साबित कर रहा था, कि वह एक कुशल शासक और सैनिक होगा । तुगलक तेमूरने तेमूरलंगके आनेपर उससे प्रभावित हो उसे केशका हाकिम बना दिया । जब खान काश्गर लौट गया, तो अमीरोंमें झगड़ा बढ़ चला । अगले साल ७६२ हि० (११ XI १३६०--२ X १३६१ ई०)में खान फिर अन्तर्वेद आया और अमीरोंको भगाकर उसने समरकन्दपर फिर अधिकार कर वहांका शासन अपने पुत्र इलियास खोजा अगोलानके हाथमें दिया और तेमूरलंगको उसका मुख्य-पारिषद् (अतालीक) नियुक्त किया । लेकिन तेमूरकी दूसरे अमीरोंसे नहीं पटी और वह अमीर कजगनके पौत्र तथा अपने साले अमीर हुसेनकी खोजमें भाग निकला ।

समरकन्दसे भागनेके बाद तेमूर कराकुमके उसी रेगिस्तानकी ओर गया, जो कि उत्तराभिमुख वक्षुसे कास्पियन समुद्रतक फैला हुआ है । यहां उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी । निर्जन मरुभूमिमें खानेका भी ठिकाना नहीं था । तेमूर अपने तुजुकातमें लिखता है—मैं और मेरी पति-परायणा पत्नी ओल्जाई अमीर हुसेनसे मरुभूमिमें मिले और फिर महीने भर रात-दिन रेगिस्तानमें भटकते रहे । कितनी ही बार हमें अन्न और जल भी मुयस्सर नहीं हुआ । अन्तमें एक तुर्कमानने हमें पकड़कर बन्दी बना लिया और ओल्जाईको एक ऐसी पशुशालामें ले जाकर बन्द कर दिया, जो पिस्मुओं और खटमलोंसे भरी थी । तेमूर किसी तरह साले और बीबीके साथ वहांसे भागकर केश पहुंचा । थोड़े ही दिनोंमें उसके पुराने साथी उसके पास जमा हो गये, जिनके साथ वक्षु पार हो वह दक्षिणके इलाके (पुराने वाहलीक)में चक्कर काटता रहा । अन्तमें लूट-पाट करनेके लिये सीस्तानके ऊपर आक्रमण किया और बलूचियोंसे एक किला छीन लिया । लेकिन जल्दी ही लोगोंने उसके ऊपर आक्रमण किया, जिसमें उसके पैरमें चोट लग गई और वह जिन्दगीभरके लिये लंग (लंगड़ा)हो गया । मंगोलों और तुर्कोंमें तेमूर नाम बहुत अधिक पाये जाते हैं, जिनसे अलग करनेके लिये वह इतिहासमें तेमूर-लंग (तेमूर लंगड़ा) के नामसे प्रसिद्ध हुआ । तेमूरके साले हुसेनने इसी समय बलखपर अधिकार कर लिया । तेमूर भी वहीं चला गया । धीरे-धीरे तेमूरके पंद्रह सौ अनुयायी हो गये । ७६५ हि० (१० अक्टूबर १३६३--३० अगस्त १३६४ ई०) में इलियास खोजाकी सेनाके साथ उसकी प्रथम भिड़ंत वक्षुके बायें तटपर कुंदुजके नजदीक हुई । यद्यपि इलियासकी सेना पांचगुनी थी, लेकिन तेमूरने उसपर पूर्णतया विजय प्राप्त करके सेनाको नदी पार भगा दिया । इसी समय पिताके मरनेकी खबर सुनकर इलियास बापकी गद्दी संभालने अलमालिककी ओर दौड़ा, और तेमूर बहुत आसानीसे जेतों (मंगोलिस्तानियों)को अन्तर्वेदसे निकालनेमें सफल हुआ । अब तेमूर अपनी जन्मभूमिका स्वामी था, लेकिन प्रतिद्वंद्वियों और बाधाओंकी कमी नहीं थी; इसलिये उसने प्रभावशाली सरदारोंकी एक कूरिलताई बुलाई, जिसमें रिश्त सिंहासनपर काबिलशाहके बैठानेका निर्णय हुआ । तेमूर-वंशने अबूसईदके समय (१४५१-५२ ई०)तक मंगोल खानोंको समरकन्दकी गद्दीपर बनाये रक्खा, जो यही बतलाता है, कि अन्तर्वेदके लोगोंमें छिद्दगिसी राजवंशके साथ एक विशेष तरहका लगाव स्थापित हो गया था । खानकी जगह संभालनेपर तेमूरको भारी विरोधका सामना करना पड़ता ।

जाड़ा बीतते ही इलियास खोजा एक बड़ी सेना लेकर फिर अन्तर्वेदकी ओर आया । तेमूरका शिविर उस समय चिनास और ताशकन्दके बीचमें था । हुसेनने सिर-दरियाको पार कर लिया । लड़ाईमें दो हजार आदमियोंको मरवाकर हुसेन अपनी राजधानी सालीसराय (नदीके परले तट-पर) चला गया और तेमूर करशीकी ओर भागा । जेतोंने फिर समरकन्दको ले लिया । इसी समय तेमूरकी मददके लिये जेतोंके घोड़ोंमें महामारी फैल गई, जिससे बहुत सारे घोड़े मर गये और उन्हें अपना सामान पीठपर ढोनेके लिये मजबूर होना पड़ा । वह अन्तर्वेद छोड़कर चले गये । तेमूरके लिये यह बहुत अच्छा अवसर मिला था, किन्तु इसी समय हुसेनसे उसका बिगाड़ हो गया, जिसके

कारण उससे पूरा फायदा नहीं उठा सका। हुसेनने पहले धोखेसे तेमूरको खत्म करवाना चाहा, जब उसमें सफलता नहीं मिली, तो उसके खिलाफ अमीर मूसाको सेना देकर भेजा। मूसा बलखसे वधु पार हो उत्तरकी ओर बढ़ा, लेकिन तेमूरने उसे हरा दिया। फिर हुसेन स्वयं सालीसरायसे एक भारी सेना लेकर चला। तेमूर करशी होते बुखारा लौटा फिर अन्तर्वेद छोड़ ख्वारेज्मकी ओर भाग गया। हुसेन अब सारे अन्तर्वेदका स्वामी था। तेमूरने जाड़े भर तैयारी की। वसंत शुरू होते ही एक छोटी किन्तु बहुत ही सुचिक्षित और बहादुर सेनाके साथ आक्रमण कर उसने ताशकन्द ले लिया, फिर समरकन्द और करशीसे अपने प्रतिद्वंद्वीकी सेनाको चीरते वृहजलायर अमीर कैखुसरोसे जा मिला। कैखुसरोने अपनी लड़कीका तेमूरके पुत्र जहांगीरसे ब्याह कर भारी सेनासे उसकी मदद की। तेमूरने पीछे मुड़कर हुसेनको वधुपार मार भगा दिया। जेतोंके सामन्त अमीर जलायरसे तेमूरका मेल हुसेनके लिये बहुत भयंकर था और अन्तमें उसने वहनोईसे संधि कर ली। हुसेनको तेमूरने उसके विद्रोही सामन्त बख्शांके हाकिमको दबानेमें सहायता भी दी। लेकिन, जब तेमूरके ऊपर जेतोंने प्रहार किया, तो हुसेनने विश्वासघात किया, और अन्तमें हारकर तेमूरके हाथमें बन्दी हुआ। तेमूर उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अमीरोंने बहुत जोर दिया और अन्तमें ७७१ हि० (५ VIII १३६६—२६ VI १३७० ई०)में उसे अपने वहनोईको मरवाना पड़ा।

अब तेमूरका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं रह गया था। इसी समय १३६६ ई०में बलखमें उसने एक बड़ी कूरिल्टाई बुलाई, जिसमें चगताई-राज्यके सभी अमीर, तेमूरके गाढ़े दिनों और तरुणार्थके साथी तथा उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी भी शामिल हुए। सबने तेमूरको अपना शासक स्वीकार किया और मंगोलों तथा उनके पूर्वजोंके समयसे चली आई प्रथाके अनुसार ८ अप्रैल १३६६ ई० (१० रमजान ७७१ हि०) को तेमूरलंगको एक सफेद नम्बेपर बिठाकर उसे चारों ओरसे पकड़कर उठाया, और धर्मगुरु सैयद बरकाद्वारा अल्लाहकी दुआ पढ़े जानेके बाद अमीर घोषित किया। वधुके दक्षिणवाले प्रदेशपर अपना दुढ़ शासन स्थापित कर तेमूरने समरकन्दको अपनी राजधानी बनाया।

७८२ हि० (७ IV १३८०—२६ II १३८१ ई०) में तेमूरने अपने पुत्र मीरांशाहको खुरासानपर अधिकार करने के लिये पहले भेज फिर स्वयं भी वहां पहुंचा। इस समय ईरान कई राजवंशों में बंटा हुआ था। उत्तरमें सर्वेदार-वंश था, जिसके—(१) अब्दुर्रजाक (एक वर्ष दो मास), (२) मसऊद (७ वर्ष), (३) शंशुद्दीन, (४) लोगान तेमूर, (५) कस्साब हैदर, (६) यहिया करती, (७) हसन दमगानी, (८) अली मोवैयद अब्दुर्रजाक—आठ शासकोंने उत्तरी ईरानपर पैंतीस साल शासन किया। अन्तिम शासक अब्दुर्रजाकने तेमूरकी अधीनता स्वीकार कर ली। खुरासानमें हिरातको राजधानी बना कर्तवंश शासन कर रहा था। तेमूर इसी वंशके खिलाफ चढ़ा। राजधानीके पास भारी लड़ाई हुई। कर्तोंके नगर काबूशान, तूस, नेशापोर, सब्जवार ध्वस्त होकर ईंटों और मिट्टीके ढेर रह गये। खुरासानके बाद तेमूरने सीस्तान, बलोचिस्तान और अफगानिस्तानपर आक्रमण किया। इस प्रकार १३८६ ई० (७८८ हि०)में वह ईरानपर आक्रमण करनेके लिये स्वतंत्र था। अस्पहानका सारा इलाका और पारस मुज्जफरी-वंशके हाथमें था। इराक और आजुरबाइ-जानके इलाके अब भी इलखानी अमीर चोबानके वंशके हाथमें थे। बगदादने बिना प्रहारके ही अधीनता स्वीकार कर ली, इस प्रकार खिलाफतकी राजधानी तेमूरके हाथमें आ गई।

ईरानपर विजय प्राप्त करनेके बाद तेमूर समरकन्द लौटा। समरकन्दका भाग्य जाग उठा। तेमूरने अपने दरबारको बड़े ही श्वदबके साथ सजाया। समरकन्दमें एकसे एक सुंदर महल, मस्जिदें और मदारसे बनवाये, जिनके बनानेके लिये रोम, ईरान और भारततकके वास्तु-शास्त्री और शिल्पी बुलाये गये। लाखोंकी संख्यामें देश-विदेशोंके दास-दासियोंमेंसे काफी समरकन्दमें लाये गये, जिनके कारण समरकन्दके शिल्प और उद्योगको आगे बढ़नेमें बड़ी सहायता मिली।

तोकतामिशपर आक्रमण—इसी वक्त पहलेके आश्रय-प्राप्त किपचक खान तोकतामिशसे तेमूरका झगड़ा हो गया और उसे अपने उत्तरी शत्रुकी शक्तको तोड़नेकी अवश्यकता पड़ी। तोकतामिश सिरदरियाके रास्ते सफल न होनेपर १३८५ ई०में काकेशसके रास्ते तब्रेजपर जा पड़ा, और इलखानियोंके

समयसे चले आते इस समृद्ध नगरको लूटकर धर्बाद कर दिया। इसका बदला लेनेके लिये १३८७ ई० में तेमूरने काकेशसके रास्ते दरबन्द पहुँच तोकतामिशको बुरी तरह हराया। १३८८ ई० (७६० हि०) में तोकतामिशने सिरदरियाकी ओरसे भारी आक्रमण किया। तेमूरको उसके लिये ७६२ हि० (२० XII १३८९--१० XI १३९० ई०) में प्रथम महाभियान करना पड़ा। वह सिरदरियाके पार हो उत्तरमें बढ़ते-बढ़ते ६ अप्रैलको वोल्गारोंकी भूमिमें अवस्थित कूचुकताग (लघु-पर्वत) में पहुँचा। फिर उलुगताग (महापर्वत) पर चढ़कर उसने आसपासकी भूमिका अवलोकन किया। यहींपर उसने २८ अप्रैल १३९१ ई०को एक शिलालेख लिखकर स्थापित किया।

आगे तोकतामिशको तेमूरने कैसे हराया, इसका वर्णन हम पहिले कर चुके हैं *।

उस करारी हारके बाद भी तेमूरके हटते ही तोकतामिश फिर सबल हो उठा, जिसके लिये तेमूरको २५ फरवरी १३९३ ई० में दूसरा महाभियान काकेशसके रास्ते कास्पियनसे पश्चिम-पश्चिम करना पड़ा। १३ अप्रैलको वह तेराक नदीपर पहुँच गया। तोकतामिशको हारकर पीछे भागना पड़ा। तेमूर उसका पीछा करके आगे वोल्गाके किनारे-किनारे सराय पहुँचा। नगरवासियोंको धर छोड़ बाहर निकल जानेका हुकुम दे उसे खूब लुटवाया। फिर मास्कोकी ओर जाना चाहता था, जिसके लिये भगवान्की मां (मरियम) का बड़ा जुलूस निकाला गया, बड़ी पूजा-प्रार्थना की गई, और भगवान्की माने मास्कोको बचा लिया। तेमूरने क्रिमियाके बड़े नगर अजाकको भी लूटा। सोना, चांदी और रतन लदवाये तथा सुंदर दास-दासियोंके समूहको लिये वह दरबन्दके रास्ते लौटा। तेमूरकी विजय-यात्राओंमें छिड़गिस्की विजय-यात्राने प्रेरणा दी थी, लेकिन जहाँ छिड़गिस् हर एक विजयपर अपना दृढ़ शासन स्थापित करता था, वहाँ तेमूरके बहुतसे अभियान केवल लूटमारके लिये होते थे।

७६९ हि० (५ X १३९६-२६ VIII १३९७ ई०) में पांच सालकी अनुपस्थितिके बाद तेमूर राजधानी समरकन्द लौटा। वक्षु-तटपर अपनी खातूनों, पुत्रियों-पौत्रियों तथा राजकुमारोंके साथ पहुँचनेपर लोगोंने उसका अपार स्वागत किया। खुशीमें उसने सोना और जवाहर लुटाये। तेमूर साठ वर्षका हो चुका था। इसी समय उसने तौकेल खानमसे शादी करके उसे "दिलकुशा" प्रासाद प्रदान किया। अभी भी उसकी लूटसे तृप्ति नहीं हुई थी, और अब उसकी नजर सिंधु और गंगाकी ओर थी।

भारतपर आक्रमण—८०० हि० (२४ IX १३९७—१५ VIII १३९८ ई०) को उसने भारतके लिये प्रस्थान किया। उसका पौत्र पीर मुहम्मद पहले ही आकर मुल्तानका मुहासिरा किये हुये था। तेमूर बलख और हिन्दूकोहके रास्ते काबुल पहुँचा। ८०१ हि०के पहले दिन (१३ सितम्बर १३९८ शुक) उसने सिंध नदीको पार किया। रास्तेमें नगरोंको लूटता और लोगोंकी लाशोंसे सड़कोंको पाटता जब सतलजके किनारे पहुँचा, तो पीर मुहम्मद भी उससे आ मिला। फिर भारतकी राजधानी दिल्लीकी बारी आई। बंदियोंके मारे जल्दी चलनेमें रुकावट हो रही थी, इसलिये उनसे छट्टी पानेके लिये उसने एक लाख बंदियोंको कतल करवा डाला। यह इतना अमानुषिक कार्य था, जिसे करनेकी हिम्मत कुछ जल्लाद नहीं कर सकते थे, इसलिये सारी सेनाको हुकुम हुआ, कि हर एक आदमी इस काममें सहायता करे। इतिहासकार नासिरुद्दीन इसका बड़ा कर्णपूर्ण वर्णन करता है। उसके लिये अपने पंद्रह हिन्दी दासोंका मारना बहुत मुश्किल हो गया था। जो जरा भी ढिलाई करता, उसे पीटा जाता। अपने ध्यापार और राजसी वैभवके लिये प्रसिद्ध दिल्लीने अपना खजाना तेमूरके लिये खोल दिया, लेकिन तेमूरने दया नहीं दिखलाई। वही हालत मथुराकी हुई—वहाँके मंदिर ध्वस्त कर दिये गये और मूर्तियां तोड़ दी गईं। रास्तेमें हर एक आदमीको मारते और लूटनेसे बची हर एक चीजको नष्ट करते तेमूर हरिद्वारकी ओर पहाड़के भीतरतक घुस गया। उसके इतिहासकारोंने गढ़वालके पर्वतवासियोंके भीषण प्रतिरोधका वर्णन किया है, लेकिन तब भी वहाँकी राजधानी तेमूरके हाथसे बच न सकी। कुछ लोगोंका मत है, कि तेमूर देहरादून-


* विशेषके लिये देखो पृष्ठ ५६-६२

की तरफ गया था, लेकिन उस समयके अलकनन्दा और भागीरथीके प्रदेशोंका केन्द्र दूनकी उपत्यका नहीं, बल्कि श्रीनगरके आसपास कहींपर था। वहाँसे उसे लूटमें बहुतसा धन मिला था।

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं, कि तेमूरकी भारतपर चढ़ाई केवल लूट-पाटके लिये हुई थी। भारतसे अपार सम्पत्ति और लाखों दास-दासी लेकर तेमूर उसी साल (१३६८ ई०) समरकन्द लौट गया।

सिरिया-विजय करते समय वहाँके शासक मिस्के ममलूकोंको हुलाकूकी तरह तेमूर भी नहीं दबा पाया। दुबारा हम्ला करके वह उनके हाथसे दमिश्कको ही छीन सका।

सिरिया-विजयके बाद ८०५ हि० (१४०३ ई०)के वसंतमें क्षुद्र-एशियाकी विजयके लिये तेमूर सिवारा और कराशहर होते यनकुह (अंगोरा)के मैदानमें पहुँच सुल्तान वायजीदसे भिड़ा। उसमानअली तुर्कसेना तेमूरके सामने पूरी तौरसे पराजित हुई। सुल्तान वायजीद अपने रनिवासके साथ तेमूरका बंदी बना। अब सारे क्षुद्र-एशिया (भूमध्य-सागरसे काला-सागरके तटतक)का स्वामी तेमूर था। यहाँसे लौटकर जब तेमूर समरकन्द गया था, उसी समय स्पेनके राजा तृतीय हेनरीका दूत दोन ह्य गोनजा-



लेज दे क्लावियो समरकन्दमें उसके दरबारमें पहुंचा। क्लावियोने अपनी यात्राका बहुत सुन्दर वर्णन किया है। तेमूरका दरबार उस समय एक बड़े ही विशाल और कीमती तम्बूके भीतर लगा हुआ था। उसकी रानियां बिना किसी परदेके तेमूरके पास तख्तपर बैठी थीं। यही नहीं, तेमूरकी खातूनों (रानियों)ने अपनी मद्य-गोष्ठीमें क्लावियोको अलग निमंत्रित करके सम्मानित किया था। इससे स्पष्ट है, कि तेमूरके समयतक अभी मध्य-एसियाके तुर्क राजपरिवारमें परदा-प्रथा जारी नहीं हुई थी, लेकिन उसके वंशजोंने भारतमें पहुंचकर जल्दी ही उसे अपना लिया।

जनवरी १४०५ ई० (८०७ हि०—१० VII १४०४—३१ V १४०५ ई०)में फिर तेमूर अपनेको विजय-यात्रासे रोक नहीं सका। पश्चिममें उसके घोड़ोंकी टाप रूसकी भूमितक पहुंच चुकी थी; लेकिन जबतक पूरबमें चीन-विजय न कर ले, तबतक वह छिङ्गिस्के समकक्ष कैसे हो सकता था? इसीलिये जाड़ेमें ही उसने अभियान कर दिया। लेकिन, फरवरीमें सिरतटपर ओत-रारमें पहुंचकर बीमार हो १७ फरवरीको वहीं मर गया। चरित्रलेखक अहमद अरबशाह-पुत्रने जाड़ेके मुंहसे तेमूरके बारेमें कहलवाया है—

“ओ क्रूर अत्याचारी, अपनी गतिको रोक! कबतक तू दुःखी दुनियाको अपनी तलवार और आगसे नष्ट करता रहेगा? अगर तू शैतान है, तो यह भी समझ ले, कि मैं भी एक शैतान हूं। हम दोनों बूढ़े हैं, हम दोनोंके सामने एक ही लक्ष्य है, और वह है दासोंको अपने जूए के नीचे लाना। अगर तू मानव-जातिका उच्छेद करना जारी रखेगा और दुनियाको निर्जन और ठंडी बनाएगा, तो समझ ले मेरी सांस उससे भी कहीं अधिक ठंडी और ध्वंसकारी है। तू अभिमान करता है अपनी उस असंख्य सेनापर, जो कि तेरा हुकुम बजा लानेके लिये दौड़ पड़ती है और जिसके द्वारा तू सभी चीजोंको नष्ट-भ्रष्ट कर सकता है; तो मेरे इन जाड़ेके दिनोंको भी याद कर, जो कि सर्वशक्तिमानके स्वासोंकी मददसे हर चीजके नष्ट करनेकी क्षमता रखते हैं।...मैं किसी बातमें तुझसे कम नहीं। जरा देर ठहर! बदला लेनेके लिये मैं अभी पहुंच रही हूं और तेरी सारी आग और क्रोध मेरी बर्फीली आंधी द्वारा लाई ठंडी मौतसे तुझे नहीं बचा सकते।”

तेमूर अपने बारेमें “मेनु तिङ्गरी-कुली तेमूर” (मैं भगवान्का दास तेमूर) लिखता था; लेकिन जिस भगवान्का दास तेमूर था, वह अवश्य ही निष्ठुर रहा होगा। छिङ्गिस् और उसके उत्तराधिकारियोंने भी तलवार और आगसे दुनियाको जीता था, लेकिन अनावश्यक हत्याके वह इतने पक्षपाती नहीं थे, जितना कि खूनका प्यासा तेमूर। ईरानी शियोंको दासके तौरपर बेंचना, एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि मुसलमानको दास नहीं बनाया जा सकता। इस समस्याको मुल्ला शमशुद्दीनके इस फतवाने हल कर दिया—शिया मुसलमान नहीं हैं, बल्कि काफिरोंसे भी बदतर हैं।

यदि तेमूर चाहता, तो अपनेको खान (बादशाह) क्या खलीफा घोषित कर सकता था। तेमूरकी सेना उसके कौशल और सार्वत्रिक विजयोंके कारण उसपर इतना विश्वास रखती थी, और उसके हुकुमकी इतनी पाबन्द थी, कि अपार सम्पत्तिके लूटनेमें लगी होनेपर भी तेमूरके ना करनेपर अपने हाथोंको तुरंत रोक देती थी। ऐसी अंधभक्त सेनाके बलपर पैगम्बर बनना उसके लिये बिल्कुल आसान था। कवियोंके प्रति तेमूरकी विशेष सहानुभूति नहीं थी, लेकिन वह दरबारमें कवियों, गायकों, सूफियोंका सत्कार करता था। नकशबन्दी दरवेशोंके सम्प्रदायका संस्थापक ख्वाजा वहीउद्दीन [मृत्यु ७९१ हि० (३१ XII १३८८—२१ XI १३८९ ई०)], ख्वाजा अहरार, ईशान मखदूम कासानी और सूफी अल्लामदारपर उसकी बड़ी आस्था थी। कवियों और सूफियोंने उसके खूंखार सैनिकोंके मनको नरम करनेमें शायद ही कुछ काम किया हो।

वोल्फके अनुसार तेमूर “लम्बे-चौड़े कदका आदमी था। उसका सिर असाधारण तौरसे बड़ा तथा ललाट चौड़ा था। रंग उसका बहुत ही सुन्दर लाली लिये हुये गोरा था। उसके लम्बे बाल जन्मसे ही (ईरानी) पुराण-प्रसिद्ध जालकी तरह सफेद (ब्लौंड) थे। अपने कानों में वह दो बहुमूल्य हीरे पहना करता था। उसके चेहरेपर हमेशा गंभीरता और एक तरह की उदासी छाई रहती थी। उसे

हास-परिहास और चुहल बिल्कुल पसन्द नहीं थी, खास करके झूठका तो वह बहुत भारी शत्रु था। झूठकी जगह वह अपनी रायके विरुद्ध सचको ज्यादा पसन्द करता था। तेमूर जिस बात या लक्ष्यको पकड़ लेता या आज्ञा दे देता, उसे फिर उलटता नहीं था। अतीतके लिये उसे कभी अफसोस नहीं हुआ और न अनागतकी आशामें उसने कभी आनन्द मनाया। उसे कवि और विदूषक पसन्द नहीं थे। उसे प्रिय थे चिकित्सक, ज्योतिषी, धर्मशास्त्री। वह अक्सर अपने सामने शास्त्रार्थ कराया करता। सबसे ज्यादा भक्ति उसकी दरवेशों (साधु-संतों)के ऊपर थी, जिनके आशीर्वादसे वह अपनी विजयोंकी सफलता समझता था। लिखना-पढ़ना वह जानता था और जीवन-घटनाओंपर उसने अपनी लेखनी चलाई भी है। उसकी स्मृति बहुत तेज थी। वह अरबी नहीं जानता था, लेकिन तुर्की, मंगोल और फारसी भाषायें अच्छी तरह जानता था। वह कट्टर मुसलमान नहीं था, क्योंकि वह छिङ्गिस्के यासा (तुरा) को कुरानके ऊपर मानता था। उसने अपने कानून (तुजुक)को यासासे लेकर बनाया। बाबर और अकबरने भी अपने पुरखा तेमूरका ही अनुकरण किया। प्रसिद्ध ही है, कि भारतीय मुगल राजकुमारोंका खतना नहीं होता था। तेमूर यात्रियों और दरवेशोंसे दूसरे मुल्कोंके बारेमें जहां ज्ञान प्राप्त करनेकी कोशिश करता था, वहां इस कामके लिये उसने खुद भी अपने आदमी दूसरे देशोंमें भेज रखे थे।

तेमूरके उत्तराधिकारी—और बातोंमें छिङ्गिस्का अनुकरण करते भी तेमूरने अपने राज्यको नहीं बांटा। उसने अपने जीवनमें ही अपने पौत्र (जहांगीर-पुत्र) पीर मुहम्मदको अपना उत्तराधिकारी चुना था। तेमूरकी मृत्युके समय वह कंधारमें था। उसके आनेसे पहले ही दूसरे पुत्र खलील सुल्तानने सेनाके बलपर अपनेको अमीर घोषित कर दिया। तेमूर-पुत्र शाहख हिरात (खुरासान)का शासक था, सिंहासनके लिये उसका भी दावा था। उसे खुरासान, सीस्तान और माजन्दरानका राज्य मिल गया, तो भी वह चुप न हुआ। खलील सुल्तानकी राजगद्दीकी घोषणा सुनकर शाहख भी अपने एक सेनापतिको हिरातमें छोड़ वक्षुकी ओर चला। खलील और पीर मुहम्मदने समझौता कर लिया, कि खलीलके बाद पीर मुहम्मद उत्तराधिकारी होगा। दोनोंकी संयुक्त शक्तिके सामने शाहख उस वक्त कुछ नहीं कर सका, लेकिन दो साल बाद उसने अन्तर्वेदको खलीलसे छीन लिया, और ८१७ हि० (२३ III १४१४—११ II १४१५ ई०) तक अस्पृहान और शीराजतक बढ़कर तेमूरके प्रायः सारे राज्यका शासक बन गया। समरकन्द, बुखारा, हिरात, मेर्व, सब्जवार, शूस्तर, अस्त्राबाद और शीराज-जैसे नगर उसके हाथमें थे।

साहित्य और कला—यद्यपि तेमूरने ललित कलाओंके लिये सहृदय हृदय नहीं पाया था, लेकिन दुनियाके दूसरे बादशाहोंके दरबारी ठाटको बहुत पसन्द करता था, इसीलिये अनिच्छापूर्वक भी उसके द्वारा कलाको प्रेरणा मिली। वास्तुकलाके लिये विशेष तौरसे, क्योंकि उसे महलों, मस्जिदों और अच्छी-अच्छी इमारतोंके बनानेका बड़ा शौक था। समरकन्दमें अब भी उसकी बनवाई कुछ इमारतें मौजूद हैं। उसके समय इस दिशामें जो कार्य आरम्भ हुआ, उसकी पूर्णता उसके लड़के शाहख और पोते उलुगबेगके समय हुई। तेमूरने १३७१ ई०में तुरकान आकाका रोजा समरकन्दमें बनवाया था, जो शाहजिदाके नामसे अब भी एक सुन्दर इमारत है। बीबी खानमकी मस्जिद (समरकन्द में) १३९९-१४१४ई०में तैयार हुई थी, जो आज यद्यपि बहुत टूटी-फूटी अवस्थामें पहुंच गई है, किन्तु है एक सुन्दर इमारत। तेमूरकी अपनी समाधि "गोरे-अमीर" जिसे उसके लड़के शाहखने बनवाया, अब भी समरकन्दकी भव्य इमारत है।

तेमूरके कालकी एक बहुत बड़ी देन है अरबी लिपिकी नस्तालीक शैली। अरबके आरम्भिक खलीफोंके समय अरबी भाषा कूफी लिपिमें लिखी जाती थी जिसका स्थान जल्दी ही टेही-मेढी नस्ख लिपिने लिया। आज भी कुरान और अरबीकी पुस्तकें इसी लिपिमें छपी मिलती हैं। लेकिन तेमूरके दरबारी मीरअली तब्रेजी [जन्म ७८१-हि० (१९ IV १३७९—९ III १३८० ई०)—मृत्यु-८०७ हि० (१० VII १४०४—३१ V १४०५ ई०)] ने नस्ख लिपिके टेहे-मेढे कूबड़ोंको तोड़कर सीधा कर दिया, और उससे एक बहुत ही सुन्दर लिपि "नस्तालीक" निकल आई। अरबी-भिन्न

फारसी आदि भाषाओंके लिए नस्तालीक लिपि बहुत पसन्द की गई। भारतमें भी उर्दू इसी लिपिमें लिखी जाती है। छापके जमानेमें टाइपकी सुविधाके कारण "नस्ख" फिर आगे बढ़ गई—ईरानमें उसीमें पुस्तकें और अखबार छपते हैं। लोगोंको बहुत अफसोस है, कि टाइपोंके बनानेमें सुविधा न होनेके कारण मुद्रण-कलाने नस्तालीकको उपेक्षित कर दिया। लेकिन हमारे यहां उर्दूके लिये टाइपोंसे अधिक लिथोका प्रचार है, जिसके कारण उर्दूमें अब भी तेमूरके समयकी देन 'नस्तालीक'का बहुत प्रचार है। नस्तालीकके प्रचारमें सबसे अधिक हाथ हिरातके सुलेखकोंका है, जिन्होंने लेखन-कलाका मान इतना ऊंचा कर दिया, जहांपर उसके बाद फिर वह नहीं पहुंच सका।

राजाबलि—तेमूर-वंशमें निम्न सुल्तान हुए —

१. तेमूर-लंग	१३७०-१४०५ ई०
२. खलील सुल्तान, तेमूर-पुत्र	१४०५-६ ,,
३. शाहखुख, तेमूर-पुत्र	१४०६-४७ ,,
४. उलुगबेग, शाहखुख-पुत्र	१४४७-४९ ,,
५. अब्दुल्लतीफ, उलुग-पुत्र	१४४९-५१ ,,
६. अब्दुल्ला, शाहखुख-पुत्र	१४५१-५२ ,,
७. अबूसईद, मीरांशाह-पुत्र	१४५२-६९ ,,
८. अहमद, अबूसईद-पुत्र	१४६९-९३ ,,
९. सुल्तान मुहम्मद, अब्दुल्ला-पुत्र	१४९३-९४ ,,
१०. बैसुंकर, मुहम्मद-पुत्र	१४९४-९७ ,,
११. सुल्तानअली, मुहम्मद-पुत्र	१४९७-१५०० ,,
१२. बाबर, उमरशेख-पुत्र	१५००-१ ,,

२. खलील सुल्तान, तेमूर-पुत्र (१४०५-६ ई०)

खलील सुल्तानमें बहुतसे गुण थे, लेकिन वह सीमासे अधिक साखर्च था, जिसके कारण खजाना खाली होते देर नहीं लगी। उसमें दूसरी कमजोरी यह थी, कि वह भी नूरजहां-प्रेमी जहांगीरकी तरह शादमुल्कका गुलाम था। इन कारणोंसे जल्दी ही उसके बड़े-बड़े समर्थक उदासीन या अलग हो गये। १४०६ ई०में खुदादाद और शेख नूरुद्दीनने स्वामीसे विद्रोह करके समरकन्दपर आक्रमण कर दिया। उस समय तो किसी तरह उसे बचाकर अगले साल नूरुद्दीनके साथ सुलह कर ली; लेकिन, फिर खुदादादने दूसरे अमीरोंको मिलाकर समरकन्दपर आक्रमण कर दिया। बातचीतके बहाने विद्रोहियोंने सुल्तानको बहकाकर उसे कैद कर लिया और नगरपर उनका अधिकार हो गया। यह खबर सुनकर शाहखुखने अपने सेनापति शादमुल्कको खुदादादको दंड देनेके लिये भेजा। खुदादाद समरकन्द छोड़कर भाग गया। शादमुल्क खुले दरवाजों समरकन्दके भीतर घुसा। उसने रानी शादमुल्कके साथ बड़ा ही घृणाजनक दुर्व्यवहार किया, जो शाहखुखके लिये अच्छा नहीं था। शाहखुख अपने तरुण पुत्र उलुगबेगको राज्यपाल बना समरकन्दमें रख हिरात लौट गया। खलील उस समयतक भागकर मुगोलिस्तानमें चला गया था, किंतु शादमुल्कका वियोग वह नहीं सह सका और हिरातमें जाकर उसने अपने भाईको आत्मसमर्पण कर दिया। शाहखुखने उसे सम्मानपूर्वक हिरातका राज्यपाल बना दिया, लेकिन वह उसी साल मर गया।

३. शाहखुख, तेमूर-पुत्र (१४०६-४७ ई०)

तेमूर खानदानका यह सबसे बड़ा और प्रतापी बादशाह था। बहुत दिनोंसे हिरातमें रह जानेके कारण उस नगरके साथ इसका इतना प्रेम हो गया था, कि तेमूरकी गद्दी संभालनेपर भी उसने अपनी राजधानी समरकन्दमें नहीं बदली। तेमूरी-वंश और मध्य-एशियाकी कला और साहित्यका

चरम उत्कर्ष शाह्रखके समय हुआ। उसने अपने बड़े पुत्र उलुगबेगको समरकन्द (अन्तर्वेद) का शासक बना दिया था, जिसने वहाँ अपनी सुसूचि और विद्याप्रेमका परिचय दिया।

अब्दुरजाक समरकन्दी शाह्रखका बहुत कृपापात्र इतिहासकार था। इसने “वकाया” लिखना शुरू किया, जिसकी परिपाटी भारतमें भी मुगलवंशने जारी की। तत्कालीन इतिहासके लिये सभी महत्त्वपूर्ण घटनाओंके ये दरबारी अभिलेख बहुत ही उपयोगी हैं। समरकन्दीके ग्रंथ “मतलउसादेन” में प्रतिवर्षकी घटनाओंका उल्लेख है। ८१२ हि० (१६ मई १४०९-६ अप्रैल १४१० ई०) की “वकाया” लिखते समय वह कहता है—“उज्बेकमुल्क (किपचक)के स्वामी पुलाद खानका अमीर अदिकू बहादुर और अमीर ईसाके नोकर (अफसर) दूत बनकर आये। उन्होंने शिकारी जानवर और दूसरी चीजें भेंट कीं। मिर्जा (राजकुमार) मुहम्मद जौकीके लिये लड़कीकी खास्तगारी करते हुये शाह्रखने खानके लिये बहुतसी भेंटें और दूतोंके लिये बहुतसे इनाम दिये।” अगले साल भी राजधानी हिरातमें “वलायत-उज्बेक” और “दशते-किपचक”से अमीर अदिकू दरबन्दके रास्ते और अमीर शेख इब्राहीम शरवानके रास्ते दूतमंडल लेकर आये।

८१५ हि० (१३ अप्रैल १४१२ ई०—४ मार्च १४१३ ई०)में समरकन्दी लिखता है—ख्वारेज्मको लेकर शाह्रखका किपचकोंके साथ संघर्ष हो गया। ८२२ हि० (२८ जनवरी—१९ दिसम्बर १४१९ ई०) में किपचक खान बुराकने उलुगबेगके ऊपर आक्रमण किया। तेमूरने जैसे तोकतामिशको संरक्षण देकर आगे बढ़ाया और अन्तमें वह भस्मासुर बनने लगा, वही बात बुराक खानने अपने भूतपूर्व सहायक और संरक्षक उलुगबेगके साथ की। ८३० हि० (२ नवम्बर १४२६-२३ सितम्बर १४२७ ई०)में बुराक ओगलानने अन्तर्वेदपर भीषण आक्रमण किया। समरकन्दमें लोग इतने डर गये, कि उन्होंने नगरका दरवाजा बन्द करनेका विचार शुरू किया। उलुगबेगके हारकर भागनेकी खबर सुनकर शाह्रख स्वयं एक बड़ी सेना लेकर समरकन्दकी ओर आया और बुराकको अन्तर्वेद छोड़कर भागना पड़ा।

शाह्रखने थोड़े ही समयमें तेमूरद्वारा विजित प्रायः सारे साम्राज्यको अपने हाथमें कर लिया। उसके बाद जब-तब ख्वारेज्म या सिर-दरियाकी ओर किपचकों (उज्बेकों)के आक्रमणका मुकाबिला करना पड़ता था, नहीं तो वह अपने समयको साहित्य, संगीत और कलाके विकासमें लगाता था। संगीतका वह प्रेमी ही नहीं था, बल्कि उसने इसके लिये स्वयं बहुतसे गीत बनाये थे। ८२०-२३ हि० (१४१७-२० ई०) में शाह्रखके दरबारमें चीनसे एक दूतमंडल आया, जिसके उत्तरमें ८२३ हि० (१७ I-७ XII १४२० ई०)में शाह्रखने अपना दूतमंडल चीन भेजा। शाह्रखका बड़ा लड़का उलुगबेग ज्योतिष और गणितका विद्वान् तथा भारी संरक्षक था। इसी तरह उसका छोटा लड़का बैसुंकर पुस्तकों और ललित कलाका बड़ा प्रेमी था। बैसुंकरने इस दूतमंडलके साथ नक्काश (चित्रकार) ख्वाजा गियासुद्दीनको कर दिया था, जिसमें कि वह चीनी जीवनके हर पहलूको चित्रित करके लाये, तथा चीनी चित्रकलाको नजदीकसे देखे।

८३९ हि० (२७ जुलाई १४३५-१६ जून १४३६ ई०)में ख्वारेज्मकी ओरसे दूतने खबर दी कि किपचक शासक अबुल्खैर ओगलानने अचानक दशत (किपचक-मैदान)की ओरसे ख्वारेज्मपर आक्रमण कर दिया है और वहाँका राज्यपाल सुल्तान इब्राहीम शादमुल्क-पुत्र भाग गया है। शहरको सर करके किपचकोंने उसे लूटा बरबाद किया, फिर अपने देश लौट गये। ८४४ हि० (२ जून १४४०-२३ अप्रैल १४४१ ई०)में अस्त्राबादकी ओरसे खबर आई, कि दशतकी ओरसे आकर उज्बेक-सेना मुल्कमें लूट-पाट मचा रही है। वहाँका शासक अमीर हाजी यूसुफ जलाल कुतलुग कुछ नहीं कर सका। “वकायानिगार” (घटना-लेखक) समरकन्दीने लिखा है—“कहीं-कहीं उज्बेक-सैनिक कजाक होकर (उज्बेक कजाकशुदा) माजन्दरान प्रदेशमें भी घुस आये और वहाँसे लौट गये।” १४४० ई०में अभी “कजाक” शब्द एक विशेष जातिका वाचक नहीं हुआ था, बल्कि उज्बेकोंके लुटेरेपनेको दिखलाने के लिये ही यहाँ कजाक शब्दका प्रयोग हुआ; लेकिन पीछे उज्बेक (किपचक)

तुर्कोंके एक भागको कजाक कहा जाने लगा, जिनके ही नामपर आज सोवियत संघका दूसरे नंबरके सबसे बड़े गणराज्यका नाम कजाकस्तान है और आज कजाक शब्द लुटेरेका पर्यायवाची नहीं समझा जाता ।

अन्तर्वेदपर क्पिपचकों (उज्बेकों)का आक्रमण १४१२ ई०से ही होने लगा था । उसके बादके अठ्ठाईस वर्षोंमें उनके साथ बहुतसे संघर्ष हुये । पहले वह मध्य-सिर-उपत्यका और ख्वारेज्मतक लूट-पाट मचाते थे, पीछे अब माजन्दरानतक हाथ बढ़ाने लगे । यद्यपि अभी अन्तर्वेदके उज्बेकोंके हाथोंमें जानेंमें साठ वर्षकी देरी थी, किंतु उनका आतंक अभीसे छ्वा गया था और १४४० ई०में शाह्रुखने हुकुम दिया था—“हर साल दसहजारी अमीरोंमेंसे कुछ वलायत-माजन्दरानमें जा सजग रहते वास करें ।” इसके बाद मिर्जा बैसुंकर, फिर मिर्जा अलाउद्दीन दोनों राजकुमारोंने भी वहां जाकर डेरा डाला । इसी साल अमीर हाजी युसुफ जलील, उसका भाई अमीर शेख हाजी और दूसरे दसहजारी अमीर अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे, किंतु यकायक उज्बेक सेना उनके ऊपर टूट पड़ी और अमीर हाजी युसुफ मारा गया ।

८४५ हि० (२२ मई १४४१ ई०—१२ अप्रैल १४४२)में शाह्रुखने इतिहासकार अब्दुर्रजोक के नेतृत्वमें एक दूतमंडल भारत भेजा । तेमूरियोंके कितने उदार विचार थे, यह इसीसे मालूम होगा, कि शाह्रुखने अपने दूतमंडलको दिल्ली या बहमनी रियासतके पास न भेजकर उस समयके दक्षिणके सबसे शक्तिशाली हिंदूराज्य विजयनगरमें भेजा, जिसमें एक सुभीता यह भी था—ईरान शाह्रुखके राज्यमें था, जिसका समुद्रके रास्ते भारतके साथ व्यापारिक संबंध विजयनगरके समुद्र-तटद्वारा स्थापित था । यह दूतमंडल हिरातसे चलकर केरमानके रास्ते ओरमुज्द बंदरगाहपर पहुंचा, जहांसे जहाजमें बैठकर भारत आया । अब्दुर्रजोकने विजयनगरका बहुत ही सुंदर वर्णन “मतलऽसादेन”में किया है ।

राज्यपाल होनेके समय भी शाह्रुखने हिरातको बहुत ही समृद्ध और अलंकृत किया था, लेकिन जब उसने उसे तेमूरी राज्यकी राजधानी बना दिया, तो हिरात सारे इस्लामिक जगत्का एक बड़ा सांस्कृतिक केन्द्र बन गया । विद्वानों और कला-विशारदोंका वहां बड़ा सम्मान था । बाबरने अपने ग्रंथमें लिखा है, कि हिरात-जैसा शहर दुनियामें नहीं है । हिरातमें चित्रकलाकी एक खास कलम—सूक्ष्मचित्र—का आरम्भ किया गया, जो कि शायद पहिले समरकन्दसे वहां आई । हिरात नगरके पश्चिमोत्तरमें शाह्रुखने १४१८-३७ ई०में अपनी रानी गौहरशादका रीजा मस्जिदके साथ बनवाया । यह वहांकी सबसे सुंदर इमारत है । शाह्रुखने भी एक समय खुरासान गया था, जिसका ही प्रधान नगर हिरात है । हो सकता है ताजमहल बनानमें उसे यहांके गौहरशादके रीजेसे प्रेरणा मिली हो । इस रीजेका निर्माण कवामुद्दीन शीराजी नामक एक कुशल वास्तुशास्त्रीने किया था । यही गौहरशाद उलुगबेग और बैसुंकरकी मां थी, जिससे शाह्रुख बहुत प्रेम करता था । बैसुंकरने हिरातमें एक किताबखाना बनवाया था, जिसकी इमारत अत्यन्त सुंदर ही नहीं थी, बल्कि वहांपर पुरानी पुस्तकोंका बहुत अच्छा संग्रह था, और कितने ही सुलेखक पुस्तकोंको लिखते रहते थे । हुसेन बैसुंकरने १४३० ई०में “शाहनामा”की एक बहुत ही सुंदर प्रति लिखवाई, जो कि आजकल तेहरानके संग्रहालय में है ।

४. उलुगबेग, शाह्रुख-पुत्र (१४४७-४९ ई०)

उलुगबेगने अपने पिताके उपराजके तौरपर एकतालीस वर्ष (१४०६-४७)तक समरकन्दमें रहते अन्तर्वेदका शासन किया । ज्योतिष और गणितके विकासमें उसने खासतौरसे सहायता की । तारों और ग्रहोंके ठीक-ठीक वेधके लिए उसने एक बहुत बड़ी वेधशाला समरकन्दके पास कोहक नदीके ऊपर बनवाई, जिसका आरम्भ ८३२ हि० (११ अक्टूबर १४२८— १ सितम्बर १४२९ ई०) में हुआ था । इसके दरबारमें तथा वेधशालाके विद्वान् काजी जादरूम गयासुद्दीन, जमशीद मोहीउद्दीन काशानी, इसराईली (यहूदी) सलाहुद्दीन थे । यहींपर प्रसिद्ध सारणी ८१४ हि० (५ जुलाई १४३७—

२६ मई १४३८ ई०) में तैयार हुई। उलुगबेगकी वेधशालाके ध्वंसावशेष नगरके पूर्वी उपान्तमें चोपान-अता पहाड़ीपर अब भी मौजूद हैं। उसकी ज्योतिष सारणी—“जीजे-उलुगबेग”—सदियों-तक यूरोपमें भी मान्य रही। पूर्वके देशोंमें बनी सभी ग्रह-सारणियोंमें यह सबसे अधिक पूर्ण और शुद्ध थी। इसमें—(१) समय और युग, (२) समय-माप, (३) ग्रह-कक्षा, (४) नक्षत्र-ताराके स्थान दिये गये हैं। इसका बहुत ही सुंदर पहला संस्करण प्रोफेसर ग्रीफसने १६४२-४८ ई०में आक्सफोर्ड में छपवाया था। डाक्टर टामस हाइडने १६६५ ई०में इसका लातिनी अनुवाद प्रकाशित कराया। उलुगबेगकी नक्षत्र (तारा)-सूची इतनी पूर्ण है कि आज भी खुली आंखोंसे दिखलाई देनेवाले उतने ही (डेढ़ हजार) तारोंकी सूची बन पाई है समरकन्दको उलुगबेगने मध्य-एसियाकी उज्जयिनी बना दिया था।

उलुगबेगके बनवाये महल, मस्जिद, मदरसे वास्तु-कलाके अत्यन्त सुंदर नमूने हैं। अगर उसके पिताने हिरातको भव्य बनाया, तो उलुगबेगने समरकन्दको भी उससे पीछे नहीं रहने दिया। उसके महलोंको सजानेके लिये चीनके सुंदर चित्रकारों और कलाकारोंने आकर वर्षों काम किया था। चीनी बरतनोंका उसके पास बहुत ही सुंदर संग्रह था।

८५० हि० (२९ III १४४६—१७ II १४४७ ई०) में पिताके मरनेपर तेमूरी सिंहासन-का अब उलुगबेग उत्तराधिकारी था, इसलिये उसे समरकन्द छोड़कर हिरात जाना पड़ा। उलुगबेग सैनिक योग्यता नहीं रखता था, न कूटनीतिका पंडित ही था, इसीलिये वह दो सालसे अधिक शासन नहीं कर सका। जल्दी ही उसके प्रतिद्वंद्वी अलाउद्दौलाने समरकन्दका किला उससे छीन उलुगबेगके पुत्र अब्दुल्लतीफको बंदी बनाया। उलुगबेगने आक्रमण करके सुलहकी सबसे पहली शर्त यह रखी, कि अब्दुल्लतीफको भेज दिया जाय। दूसरी शर्त अलाउद्दौलाने पूरी नहीं की, जिससे फिर लड़ाई शुरू हुई। अलाउद्दौला हारकर मशहद (खुरासान)की ओर भागा। इसी समय तुर्क-मानोंने हिरातको और उज्बेकोंने समरकन्दको लूटा। उलुगबेगने वर्षों लगाकर “चीनीखाना” को चीनी कलाकारों द्वारा अलंकृत करवाया था और सुंदर चीनी बरतनोंका अद्भुत संग्रह करवाया था। उन सबको पल मारते-मारते उज्बेकोंने नष्ट कर दिया। जल्दी ही पुत्रवत्सल पिताके विरुद्ध अब्दुल्लतीफने विद्रोह कर दिया और आक्रमण करके उसे बन्दी बना दिया। उसने इतनी ही नृशंसता नहीं दिखलाई, बल्कि चुपकेसे एक ईरानी गुलाम भेजकर बापको मरवा दिया।

उलुगबेग बहुत ही कोमल स्वभावका आदमी था, कला और विज्ञानके पीछे तो वह पागल था। उसकी कोमलहृदयताने तोकतामिशकी कहानियोंको जानते हुये भी बोरक ओगलानका संरक्षक बनवाया। उसके विद्या-प्रेमकी प्रतीकके रूपमें बुखारामें उसके हुकुमसे बने एक मदरसेमें बहुत सुंदर अक्षरोंमें अब भी एक छोटासा अभिलेख मौजूद है। “तलबल्-इल्म फरीजत अला-कुल्ले मुव स्लेमुन्व मुस्लेमात” (विद्या पढ़ना हरएक मुसलमान स्त्री-पुरुषका कर्तव्य है)।

साहित्य—खोजा इस्मत बुखारी उलुगबेगका राजकवि था। उसके अतिरिक्त खियाली, बुरन्दक, रुस्तम खूरियानी आदि भी दरबारके पारसी कवि थे—अभी तुर्कीको साहित्यकी भाषा नहीं स्वीकार किया गया था, तो भी उलुगबेगके पिता शाहरुखने तुर्की गीत बनाये थे। उमरशेख-पुत्र सुल्तान इस्कन्दर और खलील मिर्जा दोनों राजकुमार फारसीके कवि थे। शाहरुखके लड़के बैसुंकरका पुत्र बाबर मिर्जा सुंदर प्रतिभाशाली कवि था जो तरुणाईमें ही मर गया। यह भारतके मुगल-सम्राट् बाबरसे भिन्न था। तुर्कीके कवि सिद्दी अहमद मिर्जाने “लताफतनामा”के नामसे एक मसनवी (कथाकाव्य) लिखी थी। इसी वंशमें आगे पैदा होनेवाला जहीरुद्दीन बाबर तलवारका ही धनी नहीं, बल्कि सरस्वतीका वर-पुत्र भी था।

५. अब्दुल्लतीफ, उलुग-पुत्र (१४४९-५१ ई०)

पिताके हत्यारे नृशंस अब्दुल्लतीफको निश्चित हो राज्य भोगनेका मौका न मिला। पिता तथा अपने प्यारे सम्बन्धियोंकी निर्मम हत्या सामन्तोंके लिये कोई असाधारण बात नहीं समझी

जाती, इसीलिये संस्कृतमें कहावत मशहूर है—“जनकभक्षा राजपुत्रा।” (पिताके भक्षक होते हैं राज-पुत्र)। अब्दुल्लतीफका एक बड़ा प्रतिद्वंद्वी तेमूर-पौत्र मीरांशाहपुत्र अबूसईद (सम्राट् बाबरका दादा) था। उसे अब्दुल्लतीफने हरा दिया। किंतु अब्दुल्लतीफके महापापको अधिक दिनोंतक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। उलुगबेगके एक स्वामिभक्त सेवकने इस आततायीको ८४५ हि० (१४ फरवरी १४५०-५ जनवरी १४५१ ई०)में मार डाला।

६. अब्दुल्ला, शाहरख-पुत्र (१४५१-५२ ई०)

साल-साल दो-दो सालके लिये गद्दीपर बैठनेवाले तेमूरी शासकोंने अब बतला दिया, कि वंशकी नैया डावांडोल हो रही है। अब्दुल्लाने उन्हीं उज्बेकोंकी सहायतासे समरकन्दको प्राप्त किया, जो कि तेमूरी-वंशका स्थान लेनेवाले थे। “वकायानिगार” समरकन्दीने ८५५ हि० (३ फरवरी १४५१-२५ दिसम्बर १४५३ ई०)में लिखते हुए बतलाया है—“इसी बीच राजसेवकोंने खबर दी, कि उज्बेक बादशाह अबुलखैर खान (१४२८-६८ ई०)—जो बहुत दिनोंसे अपने दरबारका दोस्त और शुभेच्छु है—आज्ञा पानेपर सेवामें आना चाहता है। सुल्तानकी स्वीकृति पाकर अबुलखैर जल्दी-जल्दी अब्दुल्लाके ओर्दूमें आया। सुल्तानने उसका बड़ा स्वागत किया। (पीछे) अबुलखैरने समरकन्द-विजयकी तदबीर अबूसईदको बतलाई। फिर दोनों यस्सी नगरके सीमांतसे ताशकन्द और खोजन्दके इलाकेमें आये। जब अब्दुल्लाको पता लगा, कि अबूसईद उज्बेक खानकी सेनाके साथ आ रहा है, तो वह एक बड़ी सेना ले कोहक नदी पार हो आगे बढ़ा। दोनों सेनाएं आमने-सामने खड़ी हुईं और दोनोंमें २२ जून १४५१ ई० शनिवार (२२ जमादी II ८५० हि०)को भयंकर लड़ाई हुई जिसमें अब्दुल्ला मारा गया और भारतीय मुगल-वंश-संस्थापक बाबरका पितामह, अबूसईद विजयी हुआ।

७. अबूसईद, मीरांशाह-पुत्र (१४५२-६९ ई०)

अबुलखैरको उसकी सहायताके लिये अबूसईदने बहुतसी भेंट दे कृतज्ञता प्रगट की, और अब्दुल्लतीफकी हत्यामें हाथ रखनेवालोंको भी दंड दिया। शाहरखके मरनेके बादसे ही जो गृह-कलह चल रहा था, उसे दबानेमें अबूसईद सफल हुआ। तेमूरी वंशका यह अन्तिम शक्तिशाली सुल्तान था। जैसा कि पहले बतला चुके हैं, अभी भी छिड़-गिस्वंशी खान समरकन्दकी गद्दीपर बैठा करते थे। अन्तर्वेद, पूर्वी ईरान और अफगानिस्तान अबूसईदके राज्यमें थे। वह चतुर सैनिक और कुशल शासक था। इसका समकालीन तुर्किका सुल्तान मुहम्मद II था, जिसने १४५३ ई०में कान्स्तन्तिनोपल लेकर बलकान (युरोप)में इस्लामी राज्यकी स्थापना की।

रबी I ८६४ हि० (२६ दिसम्बर—२५ जनवरी १४४९—६० ई०)के आरंभमें इसके दरबार में कलमकों (मंगोलों) और क्पिचकोंके दूत आये, जिनका अबूसईदने बहुत सम्मान किया। लेकिन उत्तरके घुमन्तुओंकी मित्रता बादलके छांसे बढ़कर नहीं होती। ८६९ हि०के जमादी II (फरवरी १४६५ ई०)के मध्यमें खबर मिली, कि क्पिचक खान अबुलखैरके भाई सैयद यक्का सुल्तानको अमीरों (उच्च अफसरों)ने ख्वारेज्ममें पकड़कर हिरात भेज दिया, जहां वह बन्दीखानेमें पड़ा है। अबूसईदने उसे अपने पास बुलाया, और “उस सदाचारी सुभक्त तक्षण”को बहुत सम्मानपूर्वक घोड़ा, सोना, कुलाह और इनाम प्रदान कर वलायत उज्बेकमें भेज दिया। लेकिन उज्बेक घुमन्तु इन उपकारोंको देरतक कैसे याद रख सकते थे, जब कि दक्षिणके समृद्ध नगरोंको लूटकर ही वह मौजका जीवन बिताते अपने सैनिकोंमें अनुशासन कायम रख सकते थे। ८७२ हि० (२ अगस्त १४६७—२२ जून ६८ ई०)की घटनाके बारेमें समरकन्दीने लिखा है—मरदुमें-उज्बेक (उज्बेक लोगों)के प्रहारसे अन्तर्वेदको हरसाल जहमत और बर्बादी उठानी पड़ती रही, लेकिन इस साल वहांसे ऐसी खबर नहीं आई। इसी समय ख्वारेज्मसे दूतने आकर कहा, कि क्पिचकोंकी भूमिसे देरसे कजाक हुये मिर्जा सुल्तान हुसेनने ख्वारेज्मपर आक्रमण किया। तेमूरी अमीर उसके सामने नहीं टिक सके, और मिर्जाने ख्वारेज्मको पामाल किया। यह खबर सुनकर अबूसईदने अपने सभी उच्च सेनापतियोंको ख्वारेज्म जानेका

आदेश दिया, लेकिन उधर आजुर्बीजानमें भी उजुन हसनबेगने खतरा पैदा कर दिया था, इसलिये उसी साल अबूसईद सेना लेकर उधर गया और लड़ाईमें बन्दी हुआ। उजुन हसन (१४६७-७८ ई०) ने अबूसईदको शाहखकी बेगम गौहरशादके पुत्र यादगार मिर्जाके हाथमें दे दिया, जिसने अपनी मांकी हत्याका बदला लेते अबूसईदको मार डाला। अबूसईदके ग्यारह पुत्रोंमें एक उमरशेख मिर्जा था। इसीका पुत्र बाबर था। जिसने भारतमें मुगल-साम्राज्यकी स्थापना की।

अबूसईदको भी सुन्दर इमारतोंके बनानेका बड़ा शौक था। आज भी उसकी लड़की सुल्तान खाविन्द बिकीके रोजेकी सुन्दर इमारत समरकन्दमें “इशरतखाना”के नामसे मौजूद है।

८. अहमद, अबूसईद-पुत्र (१४६९-९३ ई०)

अहमद एक मामूली बुद्धिका आदमी था, ऊपरसे वह कभी शराबमें मतवाला रहता और कभी भक्ति और खुदाके इश्कमें गर्क। इसके समयमें दरबारी अमीर अक्सर विद्रोह करते रहे। खुरासान बिल्कुल स्वतन्त्र हो गया, जिसपर तेमूर-वंशी सुल्तान हुसेन (१४६९—१५०६ ई०) हिरातसे शासन करता रहा। अहमदने अपने भाई उमरशेखको फरगाना देकर उसे दूसरोंके हाथों में जानेसे बचा लिया। उमरशेखके फरगानामें शासन करते समय ही उसका पुत्र बाबर पैदा हुआ। अहमदके सत्ताईस सालके शासनमें समरकन्दको फिर तरक्की करनेका मौका मिला।

कवि नवाई—हिरातने स्वतन्त्र होकर अपने गौरवको फिर लौटा लिया। हुसेन मिर्जा (१४६९-१५०६ ई०)के शासनकालमें हिरातने साहित्य और कलामें चरम उन्नति की, जिसका बहुत कुछ श्रेय तुर्की साहित्यके कालिदास अली शेर नवाईको है। नवाई १४४१ ई०में हिरातमें पैदा हुआ था। उसके बचपन और जीवनका भी अधिकतर भाग हिरातमें बीता। वह शिक्षा प्राप्त करनेके लिये समरकन्द भेजा गया। वहांका सबसे बड़ा धनी दरवेश मुहम्मद तरखन उसका संरक्षक था। सुल्तान अहमद मिर्जाके समय नवाई बुखारा और समरकन्दका सबसे बड़ा जमींदार था। हिरातमें रहते बचपनमें हुसेन मिर्जा नवाईका सहाठी था। जब हुसेन मिर्जा हिरातकी गद्दीपर बैठा, तो उसने समरकन्द से सुल्तान अहमद मिर्जाको नवाईको भेजनेके लिये लिखा। समरकन्दमें रहते वक्त नवाईको जिन लोगोंके सम्पर्कमें अधिक आना पड़ा था, उनमें सूफी संत खोजा उबैदुल्ला अहरार मुख्य था। संत-महन्त होनेके साथ खोजा अहरारकी जमींदारीका ठिकाना नहीं था। कहावत है—कोई आदमी अपने गदहेपर चढ़ा अन्तर्वेदमें उत्तरसे दक्षिणकी यात्रा कर रहा था। सैकड़ों मील चलता गया, लेकिन जब भी किसी लहलहाते खेतके बारेमें पूछता, तो लोग कहते—“यह खोजा अहरारका है।” इसपर मुसाफिरने अपने गदहेको भी खेतकी तरफ हांकेते हुए कह दिया—“जा तू भी खोजा अहरारका हो जा।” खोजा अहरारकी महिमा सबसे अधिक इसलिये फैली कि वह अपनी अपार सम्पत्तिका उपयोग परोपकारमें करता था। नवाई भी बहुत भारी जमींदार था, अहरारकी प्रेरणासे उसने भी अपनी सम्पत्तिको वैसे ही कामोंमें खर्च करनेका निश्चय किया।

सुल्तान हुसेन सूक्ष्मचित्र, सुलेखनकला, वास्तुकला और संगीतका बड़ा प्रेमी था। अली शेर नवाई तो विद्वानों और कलाकारोंका अपने सुल्तानसे भी बड़ा संरक्षक था। हिरातमें एसियाके ही भिन्न-भिन्न देशों के व्यापारी नहीं आते थे, बल्कि १४९४ ई० में एक फ्रांसीसी कारवां भी आया था। भारत, चीन आदि के व्यापारी तो सदा ही आते रहते, इसलिये यहांपर विद्वानों और कलाकारोंके लिये विचार-विनिमयका अच्छा अवसर मिलता था।

१४६९ ई०में समरकन्दसे लौटनेके बाद १४८७ ई०तक नवाई सुल्तान हुसेनके दरबारका एक बहुत ही शक्तिशाली अमात्य था। दरबार छोड़नेके बाद उसने अपने बड़े-बड़े निर्माण-कार्य आरम्भ करके पूरे किये। उसकी बनवाई सबसे बड़ी इमारत “इखलास” (स्नेह) बीस सालमें तैयार हुई, जो हिरात नगरके बाहर यंजील नहरके किनारे अवस्थित थी। कितने ही हजार आदमी इसके बनानेके लिये रोज काम करते थे। कितनी ही बार नवाई स्वयं मजदूरोंकी तरह काम करता। “इखलास”के भीतर सुन्दर मदारसा, खानकाह तथा मस्जिद बनी हुई थी। खानकाहसे पश्चिम

“खानकाह-शफाइया” (सार्वजनिक अस्पताल) था, जहाँपर अपने समयके प्रसिद्ध चिकित्सक हकीम गयासुद्दीन मुहम्मद चिकित्सा करते थे। यहाँकी बहुतसी इमारतोंमें “मदरसा निजामिया” भी था, जिसमें अच्छे-अच्छे अध्यापक नियुक्त थे। नवाईने और जगहोंपर भी खानकाहें और मदरसे बनवाये, जिनमें “मदरसा-खुसरविया” मेर्दके अब्दुल्लाखान-किलेमें अवस्थित था। खुरासान और ईरानके दूसरे स्थानोंमें मुसाफिरोके आरामके लिये नवाईने पचास रबातें (धर्मशालाएं) बनवाई थीं। उसके आश्रित इतिहासकार खोन्दमीरके अनुसार नवाईने हम्माम (स्नानागार) और चौदह मस्जिदें इस्तिखर सेरख्स और अस्त्राबादमें बनवाई थीं।

नवाईको जहां अपने परोपकारी कामोंके लिये खोजा अहरारसे प्रेरणा मिली थी, वहां उसकी काव्यप्रतिभाको निजामी (११६१—१२०३ ई०) और जामी (१४१४—१२ ई०)की कविताओंसे भारी प्रेरणा मिली थी। जामी नवाईका समकालीन था, और हिरातके पास हीमें रहता था। फारसी भाषाका वह अन्तिम महाकवि था। यद्यपि नवाईने “फानी” (नाशमान)के नामसे फारसीमें भी कविताएं की हैं, लेकिन वह अमर है अपनी तुर्की कविताओंके कारण। आजकल मध्य-एशियाकी सबसे प्रगतिप्राप्त उज्बेक जातिका वह परम श्रद्धाभाजन कवि है। उज्बेक राजधानी ताशकन्द में नवाई नाट्यशालाके नामसे एक बड़ी ही विशाल और सुन्दर रंगशाला स्थापित की गई है। नवाईकी जीवनीको लेकर उज्बेक-लेखक ऐबकने एक उपन्यास “नवाई” लिखा है, जिसपर उसे स्तालिन पुरस्कार प्राप्त हुआ। नवाईने सत्तरसे अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उसका “खमसा” (पंचक) सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जिन विषयोंको लेकर नवाईने अपने पांच काव्य लिखे, उन्हीपर पहले निजामीने और उसके बाद खुसरो देहलवी (१२५३—१३२५ ई०)ने भी सुन्दर काव्य लिखे हैं—

निजामी (११६१—१२०३)	खुसरो (१२५३—१३२५)	नवाई (१४४१—१५०१)
१. मख्जनुल् - असरार	मल्लुल्-अनवार	खैरतुल्-अबरार
२. खुसरो-व-शीरीं	शीरीं-खुसरो	फरहाद शीरीं
३. सिकंदरनामा	आईने-सिकन्दरी	सद्दे-सिकन्दरी
४. लैला-व-मजनू	मजनू-लैला	लैला-मजनू
५. हफ्त-पैकर	हशत-बहिश्त	हफ्त-किश्वर

नवाईसे पहले तुर्की भाषाने साहित्यमें ऊंचा स्थान नहीं प्राप्त किया था। यद्यपि नवाईने अपनी कृतियोंको हिरातमें बैठकर लिखा था, लेकिन हिरातमें तुर्कोंकी काफी संख्या रहते भी, वह खुरासानी ईरानी भाषाका प्रदेश था। पूर्वी तुर्की भाषा (चगुताई तुर्की)में भी स्थानोंके अनुसार भेद हो गया था, और सबसे शिष्ट अन्दिजान (फरगाना)की तुर्की समझी जाती थी। बाबर स्वयं वहीं पैदा हुआ था। उसने बाबरनामामें नवाईकी भाषाके बारेमें लिखा है*—

“अन्दिजान ऐले नयंग लफ्जे कलम बेरल, रास्ते तोर हानी हो जू केम नीर अली शेर नवाई नयंग मुसन्नफाते बावजूद, हरेदा नशा-नुमा तापैव तोर बोतेल बेल दो।”

(अन्दिजानके लोगोंकी भाषा मीर अली शेर नवाईके ग्रन्थोंकी भाषासे मिलती है, जिसे कि उसने हिरातमें लिखा था।)

अन्दिजान काश्गरसे दूर नहीं है। तुर्की साहित्यकी सबसे पहिली पुस्तक “कुतदगु-बिलिक” काश्गरमें नवाईसे तीन शताब्दी पहिले लिखी गई थी। “कुतदगु-बिलिक”की भाषा प्राचीन उइगुर भाषासे बहुत घनिष्ठ संबंध रखती है। हम कह आये हैं, कि उइगुर और तुर्क पहले एक ही जातिका नाम था। प्राचीन उइगुर भाषाके नमूने कितने ही बौद्ध सूत्रोंके अनुवादके रूपमें अब भी प्राप्त हैं। छिङ्गिस् और उसके बेटों-पोतोंके राज्यमें किपचक, ईरान और अन्तर्वेदके सभी जगहके दरबारों और आफिसोंमें उइगुर लेखक हुआ करते थे, जिनमें अधिकांश भिक्षु थे, जिसके कारण

* “बाबरनामा” पृष्ठ २ ख (लन्दन १९०६ ई०)

लेखकको बकसी (भिक्षुका उइगुर अपभ्रंश कहा जाने लगा। इसी प्राचीन उइगुर भाषा और लिपि-का प्रचार सारे चगताई राज्यमें हुआ और पीछे इसे चगताई भाषा कहा जाने लगा। जब अन्तर्वेदमें उज्बेकोंका शासन स्थापित हुआ, तो वहांके सभी तुर्क उज्बेक कहे जाने लगे, तबसे इस भाषाका नाम उज्बेकी पड़ गया। आजकल वह इसी नामसे प्रचलित तथा उज्बेकिस्तान गणराज्यकी राज्यभाषा है। मंगोल चगताई तुर्कोंमें विलीन हो गये, इसीलिये पीछे कहा जाने लगा—“तुर्क कौम लारी जूजी दूरदार युग व जगताई” (जू-छि चगताई तुर्क कौमके थे)।

नवाईका काम सुन्दर इमारतों और उपकारी संस्थाओंके निर्माण तथा काव्योंतक ही सीमित नहीं था, वह विद्वानों और कलाकारोंके लिये कल्पवृक्ष था। एसियाका एक अद्वितीय चित्रकार कमालुद्दीन बेहजाद (मृत्यु १५२१ ई०) नवाईके ही संरक्षणमें आगे बढ़ा, जिसे कि “नजाकते कलम बेनजीर” (तूल्काकी कोमलतामें अनुपम), “सूरतेहालका मुसन्विर” (यथारूप चित्रण-कर्ता) और “द्वितीय मानी” कहा जाता है। मानी ईरानका पैगम्बर (२१६-२७६ ई०) चित्रकला-में भी अद्वितीय समझा जाता था। मानीकी चित्रकलाके नमूने अब प्राप्त नहीं हैं। ईसाकी तीसरी सदीके बाद चित्रकलाके एकसे एक दुश्मन दुनियामें आये, जिनके हाथसे मानीके चित्रोंका बच निकलना संभव नहीं था। लेकिन बेहजादके बनाये हुये चित्र अब भी दुनियाके संग्रहालयोंमें मिलते हैं।

सुल्तान अली मशहदी, मीर अली मजनुं, मुहम्मद शिकाबी जैसे सब समयके लिये अनुपम सुलेखक नवाईके दरबारमें थे। सुल्तान अलीने नवाईके “खम्से”की एक प्रति १४९२-९ ई०में लिखी थी, जो कि आजकल लेनिनग्रादके राजकीय लोक-पुस्तकालय (प्राच्य ५६०)में मौजूद है, जिसमें लेखक ने लिखा है—“खम्सा मीर अली शेर नवाई ब-खते किब्लउल्कुत्ताब मौलाना सुल्तान अली मशहदी” (मीरअली शेर नवाईका पंचक, लेखकशिरोमणि मौलाना सुल्तान अली मशहदीके अक्षरोंमें) सुल्तान अलीको बुढ़ापेमें भी अपनी लेखनीपर कितना अभिमान था, यह उसकी प्रतिलिपि की हुई एक पुस्तक के अन्तमें मौजूद निम्न पद्यसे मालूम होगा—

मरा उम्र शस्त व-से: शुद बेशकम् ।

हनोजम् जवानस्त मुदकी कलम् ॥

तवानम् हनोज अज खफी-वो-जली ।

नविश्चन् कि अल्-अब्द सुल्तान् अली ! ॥

(मेरी उम्र कम-बेशी तिरसठ हो गई, किन्तु अभी भी मेरी काली कलम जवान है। अब भी मैं सूक्ष्म और स्थूल हस्ताक्षर सुल्तान अलीके साथ लिख सकता हूँ।)

नवाईका देहान्त २ जनवरी १५०१ ई०को हुआ।

९. सुल्तान मुहम्मद, अब्दुल्ला-पुत्र (१४९३-९४ ई०)

भाईके मरनेके बाद पांच तरुण भतीजोंको मारकर मुहम्मद समरकन्दकी गद्दीपर बैठा। यह बड़ा क्रूर, पियक्कड़ और व्यभिचारी था, जिसके कारण उसके अमीर विरुद्ध हो गये और थोड़े ही समय बाद इसकी शायद अकाल-मृत्यु हो गई।

१०. बैसुंकर, मुहम्मद-पुत्र (१४९४-९७ ई०)

बापके मरनेपर मसऊद, सुल्तान अली और बैसुंकरमें तख्तके लिये झगड़ा हुआ, और अन्तमें अठारह सालकी उम्रमें बैसुंकर सुल्तान बना। अहमदके समयसे ही उत्तरके उज्बेक और देशके भीतर अमीर बहुत शक्तिशाली होने लगे। बैसुंकरकी तरुणाईसे उनको और भी आगे बढ़नेका मौका मिला, जिसमें आपत्ति करनेपर अमीरोंने करदीसे उसके भाई सुल्तान अलीको बुलाया। बैसुंकर भाग गया, किन्तु पीछे फिर अमीरोंने उसे ही बुलाकर गद्दीपर रहने दिया। सुल्तान अली बुखाराकी ओर भागा और फिर युद्धकी तैयारी करनेके बाद बुखारासे समरकन्द आया। दूसरा भाई मसऊद भी उसकी

सहायतार्थ दक्षिणसे आया। उमरशेख-पुत्र बाबर मिर्जा इस समय खोकन्द (फरगाना)का स्वतन्त्र शासक था। उसकी भी नजर समरकन्दपर थी। चारों ओरसे निराश होकर बैसुंकर अपने भाई मस-ऊदकी शरणमें [९०३ हि० (३० VIII १४९७—२१ VII १४९८ ई०)] भागा, जिसके पास ही रहते ९०५ हि० (८ VIII १४९९—२८ VI १५०० ई०)में वह गुमनाम मरा।

११. सुल्तान अली, मुहम्मद-पुत्र (१४९७—१५०० ई०)

तेमूरी राज्यको बाबर और सुल्तान अलीने आपसमें बाट लिया। दोनों ही कम उमरके थे, इसलिये शासनकी बागडोर अमीरोंके हाथमें थी। सुल्तान अली तीन साल ही राज्य कर पाया, कि एक सौ चालीस वर्ष पुराने तेमूरी वंशके दीपकको उज्बेकोंके खान शैबानीने बुझा दिया। बाबरने वंशकी नैयाको डूबनेसे बचानेकी कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।

१२. जहीरुद्दीन बाबर, उमरशेख-पुत्र (१५००—१ ई०)


हम कह चुके हैं कि अहमदके समरकन्दकी गद्दी संभालनेके समय उसका भाई उमरशेख फरगानाका शासक रहा। बाबर वहींपर १४८१ ई०में पैदा हुआ और बापके बाद फरगानाका शासक बना। शैबानीके समरकन्दपर पैर जमानेसे पहले बाबरने भी समरकन्दकी ओर हाथ फैलाया था, लेकिन उज्बेक सेनाने उसे हरा दिया। समरकन्द लेकर मुहम्मद शैबानी निश्चित नहीं रह सका। एक बार बाबरने समरकन्द, मियानकुल और करशीसे उसे भगा दिया, लेकिन बुखारासे उज्बेकतक भी चिपटे रहे। अगले साल ९०७ हि० (१७ VII १५०१—७ VI १५०२ ई०)में शैबानीने बड़े जोरका आक्रमण किया, और बाबरके पैर उखड़ गये। समरकन्दसे भगाये जानेपर वक्षुपार हो बाबरने कुंदुज ले लिया। ईरानी शाह इस्माईलकी मदद लेकर और किस तरह बाबरने बारह सालतक तेमूरकी भूमि लेनेका प्रयत्न किया, इसे हम आगे बतलायेंगे। कुंदुजसे ही बीस हजार सेना जमा करके बाबरने ९०९ हि० (२६ VI १५०३—१६ V १५०४ ई०)में काबुलको दखल कर लिया और वहांसे भारतपर आक्रमण करके १५२६ई०में लोदियोंसे दिल्लीका तख्त छीनकर मुगल-वंशका संस्थापक बन गया। जो बाबर मुट्टीभर उज्बेक घुमन्तुओंके सामने सारे प्रयत्न करनेके बाद भी टिक नहीं सका, वही बाबर हिंदुस्तानको जीतनेमें सफल हुआ; यह यही बतलाता है कि उस समयकी परिस्थितिमें सैनिक तौरसे घुमन्तु जितने मजबूत थे, उतने स्थिर बस्तीवाले नहीं। साथ ही हिंदुस्तानकी लड़ाईने कभी लोकयुद्धका रूप नहीं लिया, लड़नेवाले मुट्टीभर सामन्त और उनके अनुचर थे, अधिकांश जनता शासकोंके अत्याचार और स्वेच्छा-चारसे तंग होकर इतनी निराश थी कि वह यही कहती थी—“कोउ नूप होय हमहिं का हानी।”

साहित्य और संस्कृति—अब भी तेमूरवंशी छिड़गिस्के “घासा” (विधान) और तेमूरके “तुजुक” (व्यवस्था)को मानते थे, और मुसलमान होते हुये भी धर्मांध नहीं थे। तेमूरवंशके रूपमें मध्य-एशियामें तुर्कजाति गौरवके शिखरपर पहुंची। इस समय बड़े-बड़े विद्वान् और कलाकार पैदा हुए। तेमूर स्वयं कलम चलाना जानता था। उसका पुत्र शाहरेख सुन्दर गीतोंका लेखक था। उलुगबेग गणित और ज्योतिषका विद्वान् तथा संरक्षक था। उसका छोटा भाई बैसुंकर पुस्तकों और चित्रकलाका प्रेमी था। बाबर कवि-लेखक, शासक-योद्धा था। इस कालमें बुखारा, समरकन्द और मेरवमें बड़े-बड़े धर्मशास्त्री (फकीह, दार्शनिक और कवि हुये, जिनमें फारसीका कवि जामी (१४१४—१४९२ ई०) और तुर्की साहित्यका सर्वश्रेष्ठ कवि नवाई (१४४१—१५०१ ई०) भी थे। तुर्की भाषाका मान सबसे अधिक इसी समय हुआ। अरब खलीफोंके समय अरबी भाषा सरकारी भाषा थी। ताहिरियोंने अरबीकी जगह फारसीको दी, तबसे फारसी ही राजकाज और साहित्यकी भाषा समझी जाने लगी। तेमूरियोंने यद्यपि फारसीको स्थानच्युत नहीं किया, लेकिन तुर्कीका सम्मान जरूर बढ़ाया; जिसमें नवाई और बाबरका हाथ बहुत अधिक था। बाबरकी देखादेखी जहांगीरने भी तुर्कीमें “तुजुक जहांगीरी” लिखी, लेकिन शायद वह आखिरी मुगल था, जो कि भारतमें अच्छी तुर्की बोल-लिख सकता था। तुर्की वैसे सभी मध्य-एशियाके तुर्कोंकी भाषा थी,

लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, अन्दिजान और काश्गरमें बोली जानेवाली तुर्कीको ही साहित्यकी भाषा माना गया। तुर्की भाषाके संबंधमें यह कहा जा सकता है कि जितना ही पूरब जायें, उतना ही वह अधिक शिष्ट रूपमें मिलती है। यहाँ तुर्की भाषासे हमारा मतलब पूर्वी तुर्कीसे है, जिसे पहले चगताई और आजकल उज्बेकी कहा जाता है। यारकन्द काश्गरकी भाषाका भी इसी भाषासे संबंध है। पश्चिमी तुर्कीमें तुर्कमानी, आजुरबाईजानी और उसमान अली (तुर्की राज्यकी) भाषाएं सम्मिलित हैं, जो आपसमें भेद रखते द्रुये भी एक दूसरेसे बहुत समानता रखती हैं।

तेमूरी-वंशवृक्ष—

(१३७०-१५०० ई०)



शैबानी-वंश

अबुल्खैर—तोकतामिशके सुवर्ण-ओर्दूके गौरवको पुनः जागृत करनेका प्रयत्न विफल होनेपर तूरान-अधित्यका (किरगिज-स्तेपी)का स्वामी बुराक खान हुआ, जिसने तेमूरियोंको बहुत तंग किया। उसके बाद अबुल्खैर [जन्म १४१३ ई० (८१६ हि०)] का प्रताप बढ़ा। इसका पौत्र तथा अन्तर्वेद-विजेता शैबानीके नामसे मशहूर है। वह जू-छिके पुत्र शैबानके वंशका था।

शैबानी-वंश यद्यपि छिङ्गिस्-पुत्र जू-छिके पांचवें लड़के शैबानके नामसे प्रख्यात हुआ, लेकिन वह मुहम्मद शैबानीके अन्तर्वेद जीतनेसे पहले किपचक या उज्बेक नामसे प्रसिद्ध था। उज्बेक खान (१३१३-४० ई०) सुवर्ण-ओर्दूका एक शक्तिशाली शासक तथा इस्लामका धार्मिक धर्मराजा था, इसीलिये जू-छिका उलुस, विशेषकर बा-तू-वंशकी प्रजा पीछे उज्बेकके नामसे प्रसिद्ध हुई है, यह हम बतला चुके हैं। जू-छि-उलुस आरम्भ हीमें बा-तू और ओर्दूके उलुसोंमें विभक्त हो गया था, जिसमें बा-तूका उलुस सुवर्ण-ओर्दू और ओर्दूका श्वेत-ओर्दूके नामसे पुकारा जाता था। उज्बेक सुवर्ण-ओर्दूका खान था, इसलिये सुवर्ण-ओर्दूवालोंका ही नाम उज्बेक पड़ना चाहिए, लेकिन पीछे इसका उतना ध्यान नहीं रखा जाता रहा, और सारे जू-छि-उलुस या किपचक-जातिको उज्बेक कहा जाने लगा। हम यह भी देख चुके हैं, कि इन्हीं उज्बेकों या किपचकोंको लूट-मार करनेके कारण अन्तर्वेदी कजाक कहने लगे, जिससे आगे किपचकोंकी एक शाखा कजाक नामसे प्रसिद्ध हुई। जू-छिकी सातवीं पीढ़ीमें अबुल्खैर किपचकोंका जबर्दस्त खान हुआ, जिसने अन्तर्वेदीकी राजनीतिमें दखल दिया। बाबरके दादा अबूसईदको तख्तपर बैठानेमें उसका मुख्य हाथ था। उज्बेक-राज्यका संस्थापक वस्तुतः यही अबुल्खैर था। अभी बीस सालका भी नहीं हुआ था, कि उसने तेमूर-पुत्र शाहरुखके कुछ इलाकोंको छीन लिया। उज्बेक गद्दीका मालिक बननेसे पहले उसे सुवर्ण-ओर्दूके मुखिया मुस्तफा खानको हराना पड़ा, जिसमें मिली भारी लूटकी सम्पत्तिको अपने अमीरों और सैनिकोंमें बांटकर वह सर्वप्रिय हो गया। निम्न-सिर-दरियाके तटपर अवस्थित सिगनक किपचकोंके हाथसे निकल गया था। अबुल्खैरने उसके ऊपर आक्रमण किया और शाहरुखके स्थानीय राज्यपालको आत्मसमर्पण करना पड़ा। फिर अबुल्खैर आगे बढ़कर अककुरगान, अरक, सूजक और उजकन्द ले सूजकपर बख्तियार सुल्तान, सिगनकपर मनाहदान ओगलान और उजकन्दपर बखसमबी मंगुतको शासक नियुक्त किया। उसने जाड़ा सिर-उपत्यकामें बिताते १४४८ ई०के बसंतमें इलाककी ओर बढ़नेकी तैयारी की। इसी समय पता लगा, कि शाहरुख मर गया, और उलुगबेग गद्दी संभालने खुरासानकी ओर गया है। समरकन्दको अरक्षित-सा देख अबुल्खैरने उधर कूच कर दिया। समरकन्दके राज्यपाल जलालुद्दीन वायजीदने बहुत-सी भेंट देकर अबुल्खैरके पास कहलवाया—“उलुगबेग सदा खानके साथ अच्छा संबंध रखता था, इसलिये यही अच्छा है, कि खान हमारी भेंट स्वीकार करके लौट जाय।” अबुल्खैर बिना समरकन्दको लूटे ऐसा करके अपने अमीरों और सैनिकों को सन्तुष्ट नहीं रख सकता था। समरकन्दपर अधिकार कर विशेष तौरसे “चीनी-खाना”की चित्रशालाकी दीवारोंपर सुन्दर-सुन्दर पच्चीकारी किये चित्रोंको उज्बेकोंने अपनी गदासे मारकर तोड़ दिया। सोनेके कामको उन्होंने सोनेके लोभसे कुरेदकर निकाल लिया। इस प्रकार “कई वर्षोंके परिश्रमके बाद बने हुये कलाके कामोंको कुछ घंटोंमें उन्होंने नष्ट कर दिया।”

शाहरुखके उत्तराधिकारियोंमें उसका पौत्र अब्दुल्ला मिर्जाने आपसी झगड़ोंमें हारकर तुर्किस्तानकी ओर भाग यस्सी (तुर्किस्तान शहर)के किलेपर अधिकार कर लिया। अबुल्खैर

कर जबर्दस्त संघर्ष हुआ। बूदगकी कजाकोंके खानों—गिराई और जानीबेगसे भी बहुत प्रति-
द्विधा थी, जो कि सिर-उपत्यकामें रहते थे। कजाकोंकी मददके लिये मुगोलिस्तानका खान यूनस
आया। युद्धमें बूदगने हारकर अपना शिर कटवाया। इसी बूदग (बदाग)का पुत्र था अबुल-
फतह मुहम्मद शैबानी, जिसने अन्तर्वेदमें शैबानी-वंशका शासन स्थापित किया। जिस समय
उज्बेक दक्षिणमें मध्य-एसियाकी ओर बढ़ रहे थे, उसी समय रूस, तारतारों (मंगोलों)के ज्यूको
फेंककर मजबूत हो रहा था। मुहम्मदने पहले-पहल १५०० ई० (१०६ हि०)में अन्तर्वेदको जीता,
किन्तु इसी समय उन्नीस वर्षकी आयुमें बाबरने आकर उसे बुखारा छोड़ सब जगहोंसे खदेड़ दिया।
अगले साल १५०१ ई० (१०७ हि०)में बाबरको मुहम्मद शैबानीने सारे अन्तर्वेदसे भगा दिया
और १५०५ ई० (१११ हि०)तक फरगाना भी बाबरके हाथसे जाता रहा, यही नहीं, ख्वारेज्म,
हिसार (ताजिकिस्तान) और मेर्वको भी शैबानीने ले लिया।

राजावलि—शैबानी-वंशके खानोंकी नामावली निम्न प्रकार है —

१. मुहम्मद शैबानी, बूदग (बदाग)-पुत्र	१५००-१२ ई०
२. कूचुनजी, अबुलखैर-पुत्र	१५१२-३० ”
३. अबूसईद, कूचुनजी-पुत्र	१५३०-३२ ”
४. अबैदुल्ला, महमूद-पुत्र	१५३२-४० ”
५. अब्दुल्ला I, कूचुनजी-पुत्र	१५४० ”
६. अब्दुल्लतीफ, कूचुनजी-पुत्र	१५४०-५१ ”
७. नौरोज अहमद, सयुनजी-पुत्र	१५५१-५६ ”
८. पीर मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र	१५५६-६१ ”
९. इस्कन्दर, जानीबेग-पुत्र	१५६१-८३ ”
१०. अब्दुल्ला II, इस्कन्दर-पुत्र	१५८३-९६ ”
११. अब्दुल मोमिन, अब्दुल्ला II-पुत्र	१५९६-९७ ”
१२. पीर मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र	१५९७-९९ ”

१. मुहम्मद शैबानी, बदाग-पुत्र (१५००-१२ ई०)

मुहम्मदका जन्म १४५१ ई०में हुआ था। बापके मारे जानेपर उसके नाना उइगुर शेख हैदरने
उसका पालन-पोषण किया था। उस समय किपचक-भूमिकी शक्ति निर्बल थी। उसके शासक थे—सैदिक,
ऐबक (शैबानी ओर्दूके खान हाजी मुहम्मदका पुत्र), अरबशाहकी संतानें, श्वेत-ओर्दूके खान बोराकके
पुत्र जानीबेग और गिराईबेग उसके बाद मंगित या नोगाई खान या यमगुरची, अब्बास और मूसा। नाना-
के मरनेपर मुहम्मद और उसके भाई महमूदको अमीर कराचिनबेगने अपने संरक्षणमें ले लिया। हैदर-
को ऐबकने हरा दिया, इसपर अमीर कराचिन अस्त्राखानी कासिमखानके दरबारमें भाग गया, जहां उसके
साथ मुहम्मद और महमूद दोनों भाई भी गये। कासिमखानने अपने अमीरलउमरा तेमूरबेग नोगाईके
संरक्षणमें दोनों भाइयोंको दे दिया। जिस समय सुवर्ण-ओर्दूके ऐबक खानने अस्त्राखानको भी आ घेरा
उस समय मुहम्मद और महमूद तरुण थे। दोनोंने कराचिनके साथ लड़ते हुये शत्रुओंकी पांती तोड़कर
निकल भागनेमें सफलता पाई। फिर मुहम्मद अपने पुराने देश निम्न-सिर-उपत्यकामें लौटा। लोग खान-
पुत्रोंके झंडेके नीचे आकर खड़े होने लगे। मुहम्मद कजाकोंके खान जानीबेग-पुत्र इराचीके साथ सावरान
के पास लड़ा, किन्तु असफल हो उसे बुखाराकी ओर भागना पड़ा। तेमूरी अहमद मिर्जाके राज्यपाल
अमीर अब्दुल अली तरखनने उसे बुखारामें बड़े सम्मानके साथ रक्खा। फिर अहमद मिर्जाने अपने
पास बुलाकर उसका बहुत अच्छी तरहसे आतिथ्य किया। दोनों भाई दो सालतक बुखारामें रहे।
इस बीचमें वह अन्तर्वेदसे अच्छी तरह परिचित हो गये। इसके बाद अब्दुल अलीको साथ लिये
दोनों खानजादे अपनी जन्मभूमिकी ओर बढ़े। अरतक किलेके पास जानेपर खोजा बेगचिकने—
जो कि अपने कबीलेका मुखिया तथा किपचकोंके सबसे पुराने अमीरोंमेंसे था—किलेकी कुंजी लाकर

मुहम्मदके हाथमें दे दी। इस आरम्भिक सफलताके बाद मुहम्मद सिगनक शहरकी ओर बढ़ा। वहाँ उसे मंगित (नोगाई) सरदार मूसाका दूत मिला, जिसने उसे दशतेकिपचकका खान बननेके लिये अपने स्वामीकी ओरसे निमंत्रण दिया। मुहम्मद उसके पास गया और मूसाके प्रतिद्वंद्वी कजाक खान बेरेंदकको हरानेमें मुहम्मदने सहायता की, पर अब मूसा बहानेबाजी करते कहने लगा, कि मंगित लोग राजी नहीं हैं। निराश होकर मुहम्मद शैबानीने दशतेकिपचकसे लौट सूजकपर अधिकार कर जानीबेग-पुत्र मुहम्मद सुल्तान (कजाक)से कई लड़ाइयां लड़ीं, लेकिन अंतमें हारकर उसे मंगिशलक (कास्पियनतट) होते ख्वारेज्मकी ओर भागना पड़ा। खुराशानके शासक सुल्तान हुसेन मिर्जाके राज्यपाल अमीर नासिरुद्दीन अब्दुल खालिक फीरोजशाहने उसे बहुत-सी मूल्यवान् भेंटें प्रदान कीं। ख्वारेज्मसे करकुल होते मुहम्मद बुखारा पहुंचा और फिर अली तरखनके साथ समरकन्द। अन्तर्वेदके बादशाह अहमद मिर्जाकी मुगोलिस्तानके खान महमूद खानसे ताशकन्द-शाहखियाके लिये लड़ाई हो रही थी, जिसमें अहमद मिर्जाके साथ १४८८ ई०में मुहम्मद शैबानी भी शामिल हुआ। सिर-दरियाकी शाखा चिर (चिरचिक)के तटपर दोनों सेनाओंकी भिड़ंत हुई। शैबानीने अपने उपकारसे विश्वासघात करते शत्रुके साथ चुपके-चुपके सलाह कर ली थी, कि यदि मुझे अपना सिंहासन मिल जाय, तो मैं अपने सपक्षियोंमें गड़बड़ी पैदा करके उनका साथ छोड़ दूंगा। अगले दिन मुगोलिस्तानी सेना चिर (चिरचिक) नदी पार हुई—पैदल सेना आगे-आगे थी, और रिसाला पीछे-पीछे। शैबानीने अपनी योजना पूरी की। सुल्तान अहमद मिर्जा हारा और उसके बहुतसे आदमी भागते हुये नदीमें डूबकर मर गये। मुगोलिस्तानी खानने पारितोषिकके रूपमें मुहम्मद शैबानीको तुर्किस्तान शहर दे दिया। लेकिन तुर्किस्तान शहर श्वेत-ओर्दुके खानोंका था, इसलिये कजाक खान जानीबेग और गिराईका मुगोलिस्तानके खान महमूदके साथ झगड़ा होना जरूरी था। महमूदने शैबानीकी सहायता की, अबुल्खैरके पुराने सैनिक भी मुहम्मद शैबानीके झंडेके नीचे आ जुटे थे। मुहम्मदके उज्बेकोंने जानीबेग और गिराईके कजाकोंसे लोहा लिया। आसपासके कई किलोंको हाथमें करके शैबानी सिगनकपर चढ़ा, जहां कजाक खान बेरेंदकसे भिड़ंत हुई। इसी समय पता लगा कि फीरोजशाह ख्वारेज्मसे खुरासान गया हुआ है। फिर क्या, मुहम्मद शैबानी ख्वारेज्मपर चढ़ दौड़ा। कई दिनोंके आक्रमणके बाद भी वह सफल नहीं हुआ। इसी समय फीरोजशाह लौट आया। शैबानीने ख्वारेज्म छोड़कर बूलदुमके किले-पर आक्रमण किया, जिसका ध्वंसावशेष खीवासे ८८ वर्स (२४३ फरसख) पर अब भी मौजूद है। इसके बाद बेजिर (बेसिर) शहरको जा लिया, किन्तु खुरासानी सेनाने आकर उसे वहाँसे भगा दिया। फिर मुहम्मद शैबानी कितने ही नगरोंको लूटते-पाटते इलाक और अस्त्राबादतक गया। इसी समय मुगोलिस्तानके खान महमूदका निमंत्रण मिला और वह ओतरार (उतरार) चला गया।

सावरानके लोगोंका वहाँके दारोगा (राज्यपाल) कुल मुहम्मद तरखनके साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने उसे निकाल बाहर कर नगरकी कुंजी मुहम्मदके भाई महमूद शैबानीको दे दी, और सारे तुर्किस्तान (मध्यसिर-उपत्यका)के लोगोंने दोनों शैबानी भाइयोंको अपना शासक मान लिया। इसी समय कजाकोंने आक्रमण करके महमूदको पकड़कर कजाकसरदार कासिम—जो कि महमूदका मौसैरा भाई था—के हाथमें दे दिया। कासिमने कुछ दिन रखकर सैनिक पहरेमें उसे सूजकके लिये रवाना किया, किन्तु रास्तेसे महमूद भाग निकला, और उसने उगुजमान पहाड़पर जाकर भाईसे भेंट की। फिर दोनों भाई ओतरार गये। थोड़े ही समय बाद कजाक खान बेरेंदकने ओतरारपर आक्रमण किया, लेकिन कुछ दिनों बाद सुलह हो गई।

मुहम्मद इधरसे छुट्टी पा यस्सी (तुर्किस्तान) जा वहाँके दारोगा मुहम्मद मजीद तरखन * को कैद कर ओतरार लाया, लेकिन मुगोलिस्तानके खान महमूदने आकर उसे छोड़कर समरकन्द भेज दिया। अभीतक महमूद खान (मुगोलिस्तानी) मुहम्मद शैबानीपर बहुत विश्वास रखता था; लेकिन अब उसे मालूम हो गया, कि वह बड़ा ही अविश्वसनीय और खतरनाक आदमी है; इसीलिये वह

* तरखन= राजकुमार (तुर्की)

उज्बेकोंका साथ छोड़ कजाकोंकी ओर हो गया। कजाकोंने यस्सीको लेना सम्भव नहीं समझा, इसलिये ओतरारपर आक्रमण करके महमूद सुल्तानको घेरना चाहा, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हुये। फिर दोनों दलोंमें सुलह हुई और कजाक खान बेरेंदकने अपनी दो बहिनोंमेंसे एकको मुहम्मद शैबानी और दूसरीको उसके पुत्र मुहम्मद तेमूरको दिया। मुहम्मद शैबानी जैसे भी हो तैसे अपना मतलब सिद्ध करनेवाला आदमी था, उसे वचन, शपथ या उपकारका कोई ख्याल नहीं था। अपने राज्यविस्तारमें उसने किसी भी तरीकेको इस्तेमाल करना उठा नहीं रक्खा। ईमानदारी तो उसे छू नहीं गई थी। महमूद खानने उसकी बहुत सहायता की थी, लेकिन उसके मनमें भी उसने संदेह पैदा कर दिया। तो भी मुगोलिस्तानी खान समरकन्द और बुखाराके जीतनेकी अपनी योजनामें शैबानीका उपयोग करना चाहता था। लेकिन उससे शैबानीकी शक्तके बढ़नेमें ही सहायता मिली।

१४९७ ई०में बाबरने समरकन्दको लेनेके लिये आक्रमण किया, उस समय महमूद शैबानी बाबरके प्रतिद्वंद्वी सुल्तान बैसुंकर मिर्जाके बुलानेपर ओतरारसे गया। सुल्तान महमूद शैबानीको जीजकमें पहुंचकर हार खानी पड़ी, तब उसका भाई मुहम्मद शैबानी मदद करने आया। अबकी बार एक हजार जेतों (मुगोलिस्तानी खानकी सेना)ने धोखा दिया, और मुहम्मदको भी मुंहकी खानी पड़ी। शैबानीके लिये ईमान-धर्मकी पाबन्दी जरूरी नहीं थी, लेकिन सूफियों और शेखोंकी करामातपर उसका बहुत विश्वास था। एक बार उसने शेख मंसूरको भोजन कराया। जब वह दस्तरखानके कपड़े को बीचसे उठा रहा था, तो शेखने कहा—“तुझे मालूम नहीं, कि इस कपड़ेको बीचसे खींचकर नहीं, बल्कि चारों कोनोंसे मोड़कर उठाया जाता है। इसी तरह देशको उसकी राजधानीपर दखल करके नहीं, बल्कि उसके सीमान्तोंपर अधिकार करके जीता जाता है।” इस गुरुमन्त्रके बाद मुहम्मद शैबानी अपने अनुयायियोंको लेकर अंतर्वेदके समृद्ध और सुखी इलाकोंके ऊपर चढ़ दौड़ा जिसका कि कोना-कोना वह अपने भगोड़े जीवनमें देख चुका था। लूटका माल मिल रहा था; इसलिये घूमन्तू सैनिकोंकी क्या कमी हो सकती थी? शैबानीकी सेनामें दशतेकिपचकके सभी इलाकोंके उज्बेक शामिल थे, पीछे खीवासे भी कितने ही मंगित आ मिले। तुर्किस्तान और ओतरारके शासक उसके दो चचा कूचुनजी और सुईउनिच थे, जो अपने संबंधी हमजा सुल्तान और महबूब सुल्तानके साथ एक बड़ी सेना लेकर भतीजोंके दलमें शामिल हो गये। उत्तरमें घुमन्तुओंकी इतनी जबर्दस्त शक्ति तैयार हो रही थी, और उधर दक्षिणमें तेमूरी सुल्तान आपसमें दंगल लड़ रहे थे। गृह-युद्धके भड़कानेमें बाबरका मुख्य हाथ था। बापसे मिले फरगानापर संतुष्ट न रहकर उसने १४९७ ई०में समरकन्दको आकर ले लिया; लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उसे छोड़ना पड़ा और वहांका शासन महमूद मिर्जा-पुत्र सुल्तान अलीके हाथमें चला गया। एक उज्बेक रखेली जूरे-बेगी आगा सुल्तान अलीकी मां थी, शायद इस कारण भी दूसरे शाहजादे उसे गद्दीपर देखना नहीं चाहते थे। लेकिन अब तेमूरी सुल्तान दरबारियोंके हाथके कठपुतली भर रह गये थे, इसलिये असली शक्ति सुल्तान अलीके हाथमें नहीं थी, बल्कि चार सौ सालोंसे शेखुल्-इस्लाम होते आये वंशके मुखिया खोजा अहिया सर्वेसर्वा था।

मुहम्मद शैबानीको तेमूरियोंकी भीतरी कमजोरियां अच्छी तरह मालूम थीं। अन्तर्वेदके और स्थानोंकी लूट-मारसे शक्तिशाली बन वह १५०० ई० (१०६ हि०)में समरकन्दपर पहुंचा। दस दिनतक उसने नगरको घेरे रक्खा। शेखके पुत्रने दरवाजेसे निकलकर शैबानी सेनाको हरा पीछे ढकेल दिया, लेकिन शैबानीने मौका पा चहार-राह दरवाजेसे नगरमें घुसनेमें सफलता पाई और बिना प्रतिरोधके ही वह बागेनौके ग्रीष्मप्रासादमें पहुंच गया। अब उसे नगरके भीतर रह गये शत्रुओंसे लड़ना था। युद्ध मध्याह्नमें शुरू हो आधी राततक जारी रहा। मुहम्मद शैबानीने बीरता दिखलानेमें खतरेकी बिलकुल परवाह नहीं की। दूसरे दिन खबर मिली, कि अब्दुल अली तरखनका पुत्र और कितने ही और तरखन (राजकुमार) बुखारासे सहायताके लिये आते दबूसियाका मुहासिरा किये हुये हैं। यह खबर सुन उज्बेकोंने समरकन्दके मुहासिरेके लिये थोड़ीसी सेना छोड़ पहले तरखनोंकी ओर मुंह मोड़ और उन्हें हराकर वे बुखाराके ऊपर जा धमके, जिसके सर करनेमें बहुत कठिनाई नहीं

हुई। शैबानीने वहाँ कुछ सेना और अपने अन्तःपुरको रखकर कराकुलपर आक्रमण किया। इसी समय बुखारावालोंने उज्बेक-सेनाको मार डाला। खबर मिलते ही शैबानीने तुरन्त लौटकर बुखारा शहर-पर अधिकार करके वहाँके नागरिकोंसे बहुत सख्त बदला लिया। फिर वह समरकन्दपर आया, जिसके विजयमें अली मिर्जाकी अपनी माँ—जोकि उज्बेक जातिकी थी—ने विश्वासघात किया। बाबर उसके बारेमें लिखता है—“अपनी जड़ता और मूर्खताके कारण उसने शैबानी खानके पास गुप्त रीतिसे संदेश भेजकर प्रस्ताव किया, कि यदि तुम मेरे साथ ब्याह करो, तो मेरा लड़का इस शर्तपर समरकन्दको समर्पण कर सकता है, कि जब तुम अपने पैतृक राज्यको प्राप्त कर लोगे, तो इस नगरको मेरे बेटे सुल्तान अली को दे दोगे।” इसी कारण चहार-राह दरवाजा अरक्षित मिला। जब शैबानी बागे-मैदानमें पहुँचा, तो सुल्तान अली मिर्जा बिना किसीसे कुछ कहे कुछ अनुचरोंके साथ चहार-राह दरवाजेसे निकलकर शैबानीसे मिला। शैबानीने उसकी कोई इज्जत न कर उसे निचले आसन पर बैठाया। सुल्तान अलीके जानेकी खबर सुनकर खोजा अहिया भी पहुँचा, लेकिन शैबानीने चार सौ वर्षोंके शेखुल्-इस्लाम-वंशका कुछ भी ख्याल न कर उठकर उसका स्वागत भी नहीं किया, और खूब कड़े-कड़े शब्दोंमें उसे फटकारा—“अभागी दुर्बल स्त्रीने पति पानेके लालचसे अपने खानदान और लड़केकी इज्जतको धूलमें मिला दिया, लेकिन उसके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं हुआ, क्योंकि शैबानी उसको अपनी रखेलियोंके बराबर भी नहीं समझता था।” १५०० ई० (१०६६ हि०)में समरकन्दको सर करनेके बादसे शैबानीका सन्-जलूस (अभिषेक-संवत्) चला। तीन-चार दिन बाद सुल्तान अलीको उसने मरवा डाला, फिर खुरासानकी ओर यात्रा करते समय तुरन्त ही उसने विश्वासघाती खोजा अहिया और उसके दो पुत्रोंको कत्ल करवा दिया।

शैबानी और उसके अमीरोंको समरकन्द जैसा समृद्ध-सुन्दर नगर मिला, “लेकिन उसके सैनिकों-का नागरिक जीवनसे प्रेम नहीं था। नगरमें कुछ दिनों रहनेके बाद शैबानीने अपने सात-आठ हजार सैनिकोंके साथ खोजा-दीदारके पास जा डेरा लगाया।” दो हजार सैनिक शहरके आसपासमें छावनी डाले पड़े रहे और नगरके भीतर सिर्फ छः सौ सैनिक रह गये थे। १९ सालके बाबरको जब यह पता लगा, तो उसने दो सौ चालीस आदमियोंको लेकर बड़े साहसका काम करना चाहा। नगरके सैनिकोंको सजग देखकर उसे कितनी ही बार अपने इरादेको रोकना पड़ा। लेकिन एक रात खोजा अब्दुल मकरम सत्तर या अस्सी आदमियोंको लिये मोगाकपुल होते प्रेमियोंकी गुफाके सामनेसे नगर-प्राकार फांदनेमें सफल हुआ और पीछेसे जा फीरोजा दरवाजाके रक्षक सिपाहियोंके ऊपर टूट पड़ा। इस आक्रमणमें दरवाजेके गारदका कमांडर फाजिल तरखन मारा गया। मुकरमके आदमियोंने कुल्हाड़ेसे ताला तोड़ दरवाजा खोल दिया। अब बाबर भी शहरके भीतर दाखिल हुआ। इस समयके बारेमें बाबर लिखता है—“नागरिक गहरी नींदमें थे, लेकिन दूकानदारोंने जब अपनी दूकानोंसे झांककर देखा और उन्हें असली बातका पता लग गया, तो उन्होंने शुक्रिया अदा करनेके लिये भगवान्से प्रार्थना की। नगरके बाकी लोग भी जल्दी जाग उठे और अपने लोगोंकी सहायता पा हमने पागल कुत्तेकी तरह उज्बेकोंको हर एक कूचे और सड़कमें पत्थरों और लकड़ियोंसे पीट-पीटकर मारा।” चार-पाँच सौ उज्बेक सैनिक मारे गये। उज्बेकोंकी ओरसे नियुक्त नगर-कोतवाल जानेवफा जान बचाकर शैबानीके पास भागा। बाबर मदरसा-उलुगबेगकी ओरसे होते मेहराबोंवाली शाला (उलुगताक)में जाकर बैठा। नागरिकोंने नये तेमूरी बादशाहको बधाई दी। दूसरे दिन मालूम हुआ, कि आहनीदरवाजा (लौहद्वार) अब भी शत्रुओंके हाथमें है। बाबर पन्द्रह-बीस आदमियोंके साथ उधर दौड़ा, लेकिन उसके पहुँचनेसे पहले ही नगरके गुंडोंने उन्हें बाहर निकाल दिया था। जब मुहम्मद शैबानीको यह खबर मिली, तो डेढ़ सौ सवारोंके साथ आकर उसने दरवाजा आहनीपर आक्रमण करना चाहा, लेकिन उसे व्यर्थ समझकर वह लौट गया। समरकन्दपर अधिकार हो जानेके बाद आसपासके बहुतसे इलाकोंसे उज्बेक मार भगाये गये। सोगद और मियानकुलपर बाबरका अधिकार था, और खोजार तथा करशीपर बाकी तरखन (बुखारा-राज्यपाल)का। मेवंसे लौटकर शैबानी-सेवाने सिर्फ बुखाराको अपने हाथमें लौटा पाया।

उस साल तो यही मालूम हो रहा था, कि बाबर फिर तेमूरकी कीर्तिको जगाके रहेगा, लेकिन शैबानी भी चुप रहनेवाला आदमी नहीं था। उसने तैयारी करके १५०१ ई०के बसन्तमें कराकुल और दबूसिया ले लिया। अप्रैल या मई १५०१ ई०में शैबानीसे लड़नेके लिये बारबने सरेपुलके पास जाकर मोर्चाबन्दी की। उसके शिविरसे शैबानीका शिविर चार मीलपर था। चार-पांच दिनोंतक दोनों दलोंमें मामूली झड़प होती रही। यद्यपि अभी मददके लिये आनेवाली सेनाकी प्रतीक्षा करनेकी जरूरत थी, लेकिन ज्योतिषियोंका बतलाया मुहूर्त बीता जा रहा था, इसलिये सहायता आनेसे पहले ही बाबरने युद्ध छेड़ दिया। उज्बेकोंकी युद्धविद्यामें एक ज्यादा प्रचलित चाल थी “तुलुगमेह” अर्थात् शत्रुके पार्श्वोंको प्रहार करके मोड़ देना, दूसरी चाल थी सरपट दौड़ते वाण-वर्षा करना, इसके लिये सेनानायक और सिपाही दोनों पीछा किये जानेपर सरपट लौट पड़ते। शैबानीकी सेना बाबरसे कहीं अधिक थी। इसी समय मुगोलिस्तानकी सेनाने बाबरके साथ धोखा दे दिया। बाबरकी पूरी हार हुई। वह अपने दस-पन्द्रह अनुयायियोंके साथ कोहक नदीकी धारमें कूद पड़ा। सवार और घोड़े दोनों बस्तरदार थे, जिसके कारण उनके शरीरपर भारी बोझा था, तो भी किसी तरह भागकर वह रातसे पहले ही समरकन्द पहुंचे। बाबरने इस समयके अपने उतावलेपनके ऊपर एक शेर लिखा—

“जो उतावला होकर जल्दीमें अपनी तलवारपर हाथ रखेगा,
वह उस हाथको अफसोस करते हुये अपने दांतोंसे काटेगा।”

उलुग-मदरसेमें चादर-सफेदके नीचे ठहरकर बाबर शहरके बचानेकी तैयारी करने लगा। नगरके बहुतसे निकम्मे और फजूलके “गाजी” हर मुहल्ले और कूचेसे बड़ी संख्यामें आकर मदरसेके फाटक-पर “पैगम्बरकी जय” करते उतावलापन दिखला रहे थे। तजर्बेकार लोग रोकनेकी कोशिश करते, तो उन्हें वह गाली सुनाते। बात न मानकर वह गये और उज्बेकोंसे खूब पिटे। बाबरने पीछे हटते समय रक्षा करनेके लिये सेना भेजी, लेकिन तबतक गाजियोंकी भीड़ पिटकर तितर-बितर हो चुकी थी। अब सिपाहियोंको नगरके मुहासिरेकी लड़ाई लड़नी थी। बीच-बीचमें सैनिक बाहर निकल छापा मारकर कितने ही शिर काट लाते। मुहासिरेके कारण नगरमें बाहरसे खूराक आनी बन्द हो गई, जिसके कारण भीषण भुखमरी और अकाल पड़ा। गरीब लोग कुत्तों और गदहोंका मांस खाने लगे। घोड़ोंको वृक्षोंका पत्ता खिलाया जाता। ऐसी स्थितिमें कितने दिनोंतक अपनेको रोके रखता, समरकन्दको आत्मसमर्पण करना पड़ा। बाबरकी बड़ी बहिन खानजादा विदेशी लुटेरे शैबानीके हाथमें पड़ी। अपनी मां और कुछ दूसरी औरतोंको साथ लिये बाबर आधी रातको नदीको पारकर समरकन्दसे भाग निकलनेमें सफल हुआ। जीजकमें पहुंचनेपर उसे एक नई दुनिया जान पड़ी, जब समरकन्दकी भुखमरीके बाद उसे बढ़िया मोटा मांस, बारीक आटेकी अच्छी तरह पकी हुई रोटी, मीठे तरबूजे और स्वादिष्ट अंगूर भारी परिमाणमें मिले—चरम अकालसे वह चरम सुकालमें पहुंच गया था। अब सोगद (अन्तर्वेद)का स्वामी शैबानी था। उसने मुगोलिस्तानी खान महमूदको अंगूठा दिखला दिया, जिसने जाकर ताशकन्द-शाहखियाको हाथमें किया। जाइंमें सिर नदीके जम जानेपर उसे आसानीसे पार हो शैबानीने ताशकन्द शाहखियाको लूटा। १५०२ ई०में मुगोलिस्तानी राज्यपाल सुल्तान अहमद तम्बोलने अपने मालिकसे विद्रोह करके शैबानीको सहायताके लिये बुलाया। शैबानीने पहुंचकर महमूद खानको बुरी तरहसे हराया, और उसके साथ आया बाबर मिर्जा जान बचाकर फरगानाके दक्षिणवाले पहाड़ोंमें भाग गया। मुगोलिस्तानी खानको दौलत सुल्तान खानम (अपनी बहिन), तथा अम्बा सुल्तान खानम, कुरुज खानम आदि कई राजकुमारियोंको जून १५०३ ई०में भेंट देनी पड़ी। शैबानी फरगानाके मुख्य नगरोंमें उज्बेक छावनियां रखकर लौट आया।

१५०५ ई०तक सारा फरगाना, ख्वारेज्म और हिसार (ताजिकिस्तान) आदिके इलाकोंपर भी शैबानीका अधिकार हो गया। अब वह अपनी सारी सेना ले तेमूरके द्वितीय पुत्र उमरशेखके वंशज हुसेन बेकरासे खुरासान छीननेके लिये दक्षिणकी ओर बढ़ा। पहले साल वह बलख नगरतक अपना अधिकार करके समरकन्द लौट गया। हुसेनने अपने पड़ोसी ईरानी शाह इस्माईल और बाबरसे भी

मदद मांगी। बाबर ९०९ हि० (१५०३-४ ई०) में काबुलका राजा बन चुका था। वह भी हुसेनकी मददके लिये खुरासान आया, लेकिन तबतक हुसेन मर चुका था, और उसके दोनों बेटों में राज्यके बंटवारे को लेकर भयंकर फूट पैदा हो गई थी। शैबानी जैसे भयंकर शत्रुको शिरपर देखकर भी ऐसा करना बाबरको बहुत बुरा लगा—“दस फकीर एक चट्टानपर बैठ सकते हैं, किंतु दो राजाओंके लिये सारा भूमंडल छोटा है।” बाबर निराश होकर लौट गया। ९१२ हि० (१५०७ ई०)के बसन्तमें शैबानी फिर सेना ले वक्षु पार हुआ, और रास्तेके इलाकोंको जीतते जूनमें मुरगाब नदी भी पार हो गया। खुरासानकी राजधानी हिरात नगरी तुरन्त उसके हाथमें आ गई। वहांका किला कुछ देर-तक प्रतिरोध करता रहा, लेकिन दो-तीन सप्ताह बाद किलेने भी आत्मसमर्पण किया। शैबानीने हिरातके साथ इतनी मेहरबानी की, कि एक लाख तंका कर लेकर कला और विज्ञानके इस महान् केन्द्रको अपने लुटेरे उज्बेकोंके हाथों बरबाद होने नहीं दिया। शैबानीने अपनी सेनाके साथ शहरके बाहर डेरा डाला। हुसेन बेकराके बेटे मुजफ्फर हुसेन मिर्जाकी बीबीके सौंदर्यको सुनकर अट्ठावन वर्षका शैबानी उसपर मुग्ध हो गया। उसने उसे अपने हरममें दाखिल किया। हिरातके राजभवनसे उसे भारी परिमाणमें सोने-चांदीके बर्तन, बहुमूल्य लाल, हीरे, मोतियां तथा दूसरे रत्न प्राप्त हुये।

उसकी सेनाने बाकी तेमूरी राजकुमारोंको हराते सारे खुरासानको अपने हाथमें कर लिया। बाबर शैबानीसे हारा और जला-भुना हुआ था, इसलिये उसे अपने शत्रुमें केवल दोष ही दोष दिखलाई पड़ते थे। शैबानी कवि था, और उसकी कवितायें बुरी नहीं होती थीं, लेकिन “बाबरनामा”में बाबर लिखता है—“विल्कुल अज्ञ होते भी उसने ढिठाई दिखलाते हुये काजी अख्तियार और मुहम्मद मीर युसुफ (खुरासाने प्रसिद्ध मुल्ला) जैसे विद्वानोंके सामने कुरानकी व्याख्या करते व्याख्यान दिया। उसने कलम उठाकर सुलेखक मुल्ला सुल्तान अली और चित्रकार बेहजादके लेखों और चित्रोंका संशोधन किया।वह अपने उबा देनेवाले शेरोंको मेम्बरसे पढ़कर सुनाता था, और उन्हें उसने लिखवाकर चारसूमें टंगवा दिया था।” आधुनिक कालके तुर्की साहित्यके एक विद्वान् वाम्बेरीने शैबानीकी कविताके बारेमें लिखा है—“शब्द और अर्थ दोनोंकी दृष्टिसे शैबानीकी कविता पूर्वी तुर्की साहित्यकी सर्वश्रेष्ठ कृतियोंमें है, और उससे पता लगता है, कि शैबानीको तुर्की, फारसी और अरबीका ज्ञान बहुत अच्छा था।”

शैबानीने बाबरका पीछा भी करना चाहा, लेकिन कंधार नगरके मुहासिरेमें असफल रहनेके कारण वह काबुलकी ओर नहीं बढ़ा। १५०८ ई०में उसने मुगोलिस्तानके खान महमूदको ताश-कन्दमें जाकर हराया। खानने फरगानाके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन अपने पांच पुत्रोंके साथ प्राण खोनेके सिवा उसे कुछ हाथ नहीं लगा।

पूर्वी और दक्षिणी प्रतिद्वंद्वियोंसे निपटनेके बाद भी अभी उत्तरमें कजाक खान कासिमके दो लाख सैनिक मौजूद थे। जाड़ोंमें दोनोंके ओर्दू घास-चारेके सुभीतेवाले स्थानमें डेरा डाला करते थे। शैबानीका ओर्दू उस समय कुरुकमें था। १५०९-१० ई०के जाड़ोंमें एक दिन कासिम खान अपनी सेनाके साथ आ पहुंचा। उज्बेकोंने अपने लूटके मालको छोड़ दौड़कर शैबानीको खबर दी। शैबानीने तुरन्त पीछे हटनेके लिये नगारा बजवाया और जाड़ोंके अन्ततक उज्बेक बड़ी अस्तव्यस्त अवस्थामें समरकन्द पहुंचे।

यह कह चुके हैं कि मंगोल कबीलोंके अवशेष हजारके नामसे अफगानिस्तानके पश्चिमी पहाड़ोंमें रहते थे। शैबानी १५१० ई०में उनपर आक्रमण करनेके लिये हिंदूकोहके भीतर घुस गया। लेकिन लौटते वक्त हेलमन्दकी उपत्यका में उसे आदमियों और पशुओंकी बड़ी क्षति उठानी पड़ी। खुरासानमें पहुंचनेपर उसके पास दो सेनाएं आ गईं और उसने क्षतिग्रस्त सेनाको तुर्किस्तान जानेकी छुट्टी दे दी।

शैबानीका प्रतिद्वंद्वी ईरानी शाह इस्माईल सबसे अधिक शक्तिशाली था। उसने आजुरबाइजानी तुर्क-वंश (श्वेत-मेश)का उच्छेद करके सारे ईरानपर अधिकार करते हुये सफावी-वंश (१४९९-१५२४ ई०)की स्थापना की थी। वह कैसे देख सकता था, कि पूर्वी ईरान-खुरासानपर उज्बेकोंका

अधिकार हो। ९१६ हि० (१० IV १५१०-१ III १५११ ई०)में उसने खुरासानपर आक्रमण किया। उस समय उज्बेकोंकी सेना हिरातमें एकत्रित हुई थी। शैबानीकी सेना इस्माईलकी अपेक्षा कम थी। वह हिरातमें छावनी छोड़ मेर्वकी ओर लौटा। मशहदकी तीर्थयात्रा समाप्त कर शाह इस्माईलने उज्बेकोंका पीछा किया। तूकेराबादके पास दोनों सेनाओंमें जबर्दस्त लड़ाई हुई, शैबानी हारा और शाहकी सेना उसे मेर्वकी दीवारोंतक खदेड़ ले गई। शैबानी मेर्वमें दुर्गबद्ध हो गया और शहरके आस-पास शाह इस्माईलने घिरावा डाल दिया। इस तरहकी कायरता दिखलानेके लिये शाहने शैबानीको फटकारते हुये चिट्ठी लिखी। यद्यपि शैबानी इस तरहकी व्यर्थकी वीरता दिखलानेका नहीं, बल्कि कल-बल-छलका पक्षपाती था, लेकिन उस वक्त अपने बीस हजार घुड़सवारोंको लिये इस्माईलकी चालीस हजार सेनाके साथ लड़नेके वास्ते मैदानमें चला आया। लोगोंने उसे प्रतीक्षा करनेकी सलाह दी, लेकिन उसने नहीं माना और सामने और पीछे दोनों तरफसे आक्रमण कर दिया। इसमें शक नहीं, उज्बेकोंने युद्धमें बड़ी बहादुरी दिखलाई, लेकिन संख्यामें दूने सफावी भी लड़नेमें निर्बल नहीं थे। उज्बेक-सेना छिन्न-भिन्न हो गई, शैबानी पांच सौ सवारोंके साथ भागकर पशुओंके एक हातेमें जा छिपा। दूसरी तरफ द्वार न होनेसे नदी-तटकी ओर प्राकारसे उज्बेक सैनिक एक दूसरेके ऊपर कूदे, खानको कूदनेमें चोट आई। दुश्मनोंने उसके शरीरको आदमियोंके ढेरमेंसे निकालकर मार डाला, और शैबानीका सिर काटकर शाहको भेंट किया। उसने आज्ञा दी, कि शैबानीके शरीरको टुकड़े-टुकड़े करके राज्यके भिन्न-भिन्न भागोंमें प्रदर्शित किया जाय। इस्माईलने उसके चमड़ेमें भूसा भरकर तुर्क-सुल्तान बायजीदके पास भेज दिया। बायजीद सुन्नियोंका सबसे बड़ा नेता था, और इस्माईल शियोंका, इसलिये उसने तुर्क-सुल्तानके पास सुन्नी भाई तथा महान् उज्बेक-नेताकी इस दुर्गतिको दिखलाना चाहा। शैबानीकी खोपड़ीमें सेना मढ़वाकर इस्माईलने शराबके प्यालेके तौरपर प्रदर्शन कराया।

इसमें शक नहीं, शैबानी उत्तरी घुमन्तुओंका अन्तिम सबसे बड़ा विजेता था, जिसने मध्य-एशियामें एक बड़े राज्यकी स्थापना की। लेकिन इसी समय ईरानमें सफावी जैसा शक्तिशाली वंश स्थापित हो गया, जिसने ईरानको शिया घोषित करके पूर्वी और पश्चिमी सुन्नी देशोंके बीचमें पच्चरका काम किया। वधु (आमू-दरिया)तक इस्माईलने बढ़कर फिर उसे एक बार ईरान और तुरानके बीचकी सीमा बनाई।

२. कूचुनजी (१५१२-३० ई०)

शैबानी घुमन्तु राजवंश था, इसलिये हजारों वर्षसे स्थापित अपनी पुरानी व्यवस्थाके अनुसार उसके हरएक राजकुमारको छोटे-छोटे प्रदेशका राजा बनाया जाता था। वह अपने ऊपर एकको खान मानते थे। खानके मरनेपर वंशके सभी कुमार मिलकर उसका उत्तराधिकारी खान तथा आवश्यकता होनेपर कलगा (युवराज) चुनते थे, इसमें योग्यतासे अधिक रिश्ते और उमरमें सर्वज्येष्ठका ख्याल काम करता था।

मेर्वमें शैबानीकी जो दशा हुई, उसकी खबर सुनकर बाबर काबुलसे अपने पूर्वजोंके देशकी ओर चला; लेकिन नेताके मर जानेसे शैबानी-सेना नष्ट नहीं हो गई थी। जानीबेग सुल्तान उस समय उपराज था, जिसके झंडेके नीचे फिर बड़ी सेना इकट्ठी हो गई। इसी सेनाने मुगोलिस्तानका कले-आम किया था, जिसमें "तारीख रशीदी"का लेखक इतिहासकार हैदर बाल-बाल बचा था। बाबर अपनी सेना ले आमू पारकर खुत्तलके प्रधान शहर दश्तेकुलाकमें पहुंचा। यहां वधुके पास फिर दोनों सेनाओंमें झड़प हुई, लेकिन शक्ति आजमा लेनेपर दोनोंने लड़नेकी हिम्मत नहीं दिखलाई। बाबर वधु पार हो कुंदुज लौट गया और शैबानी-सेनापति हमजा सुल्तान हिसारको। मेर्वसे शाह इस्माईलने शैबानीकी बीबी खानजादा बेगमको भेज दिया था, जो अपने भाई बाबरसे जा मिली। बाबरने इसके लिये इस्माईलको बहुत धन्यवाद देते हुये अन्तर्वेद जीतनेके लिये उससे सैनिक सहायता मांगी।

शाह इस्माईलकी भेजी सेनाको भी साथ ले बाबर फिर पहाड़ी रास्तेसे आमू दरिया पारकर उत्तरकी

और बढ़ा। आमूकी एक शाखा सुरखाबपर पुलसंगीनको हमजा सुल्तान दखल किये हुये था। बाबरको मालूम हो गया, कि दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, तो भी साहस करके पुलकी आशा छोड़ नदी पार करनेकी कोशिश की। लेकिन, जल्दी ही उसे एक दुर्गम रास्तेसे आबदराकी ओर लौटना पड़ा। उज्बेक उसका पीछा कर रहे थे। आधी रातको खबर लगी, कि उज्बेक नजदीक आ गये हैं। बाबरने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और हमजा सुल्तान तथा मेहदी सुल्तान बाबरके बन्दी बने। बाबर चगताइयोंकी पूर्वी शाखावाले मुगोलिस्तानके खानका नाती था, इसलिये चगताई-वंशज होनका दावा करता था। उसने इस सफलताके बाद और भी आगे बढ़कर दरबन्दे-आहनी (लौहद्वार) तक उज्बेकोंका पीछा किया। यार मुहम्मद नज्म-शानी (द्वितीय तारा)ने करशीको लूटा और लोगोंको कत्ल किया। अब पामीरमें हिसार और खुत्तलान, खोजर तथा आमूके दक्षिण कुंदुजके प्रदेश बाबरके हाथमें आ गये। दर्रा-खैबरसे दरबन्दतकके प्रदेशको कुछ समयके लिये अपने हाथमें करके बाबरको प्रसन्नता होनी ही चाहिये थी, लेकिन वह जबतक समरकन्दमें पहुंचकर तेमूरके तख्तपर नहीं बैठता, तबतक अपनी सफलतासे सन्तुष्ट नहीं हो सकता था। उसके इस मनोरथको पूरा करनेके लिये शाह इस्माईलने भारी सेना भेजी। उज्बेक सेनापति उबैदुल्लाने करशीमें मोर्चाबन्दी कर रखी थी, बाकी उज्बेक समरकन्द भाग गये थे। बाबरने साठ हजार संयुक्त सेनाके साथ आक्रमण करके उबैदुल्लाको हराकर बाकी उज्बेकोंको भी किजिलकुमके रेगिस्तानमें भगा दिया। दूसरे उज्बेक सुल्तानोंको जब पता लगा, तो सामने होकर लड़नेकी जगह उन्होंने तुर्किस्तान (सिर-उपत्यका)की ओर भागना ही अच्छा समझा। बाबर अब सारे अन्तर्वेदका स्वामी था।

८ अक्टूबर १५११ ई०को समरकन्दमें बाबर तेमूरके सिंहासनपर बैठा। इस वक्त उसे कितनी प्रसन्नता हुई होगी, इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं। उसे क्या पता था, कि यह आठ महीनोंकी चांदनी है। हां, उसके बाद उसे एक और भी विशाल और वैभवशाली साम्राज्यको भारत में स्थापित करनेका मौका मिलेगा। इस समय “बाबरका राज्य” तारतारी रेगिस्तानोंसे गजनी और काबुलतक था, जिसमें कुंदुज, हिसार, समरकन्द, बुखारा, ताशकन्द, सेरम, खाकन्द (फरगाना) आदि नगर सम्मिलित थे। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं, कि खुरासान अब शाह इस्माईलका था।


लेकिन शाहकी मदद बाबरके लिये बहुत महंगी पड़ी। उसने शाहके नामका खुतबा पढ़वाया। एक शिया बादशाहके नामका खुतबा पढ़े जाते देख सुन्नी अन्तर्वेद कैसे सन्तुष्ट हो सकता था? बाबरने स्वयं ईरानी पोशाक धारण की, और अपनी सेनाको भी वैसा ही करनेका हुक्म दिया। खासकर ईरानी टोपी धारण करनी अनिवार्य कर दी, जिसमें शियोंके बारह इमामोंके चिह्न बने हुये थे, और पोशाकमें एक लम्बी लाल पट्टीको लगानेके लिये कहा, जो कि बीचसे होकर पीठके पीछे लटकती थी, जिसके कारण ईरानियोंको किजिल-वास (रक्त-केश) कहा जाने लगा। बाबर जरूर समझता होगा, कि शिया-धर्म, शियोंकी वेश-भूषा तथा शिया इस्माईलको अपना प्रभु स्वीकारकर वह सुन्नियोंका कोप-भाजन बनेगा, लेकिन उसके लिये और कोई रास्ता नहीं था। प्रजाके असन्तोषकी खबर उज्बेकोंको लगी, और १५१२ ई०के वसन्तमें एक उज्बेक-सेना ताशकन्दकी ओर बढ़ी, दूसरी रेगिस्तानके रास्ते उबैदुल्लाके नेतृत्वमें यतीकुदुप (सप्तकूप) होती बुखाराकी ओर। ताशकन्दमें मुकाबिला करनेके लिये बाबरने सेना भेज दी, और स्वयं उबैदुल्लाकी ओर चला। कुलमलिकमें दोनोंमें जबर्दस्त संघर्ष हुआ, लेकिन यह चमत्कारसे कम नहीं था, जो कि १८ अप्रैल १५१२ ई०में बाबरकी चालीस हजार सेनाको तीन हजार उज्बेकोंने हरा दिया—अर्थात् एक उज्बेक दस बाबरी सैनिकोंसे भी अधिक युद्धक्षमता रखता था। पीछे भारतपर विजय प्राप्त करनेके समय हर एक बाबरी सैनिक शायद हिंदुस्तानी सैनिकोंसे दसगुणसे अधिककी क्षमता रखता था। इसमें कारण नागरिक विलासितापूर्ण जीवन तथा पारस्परिक फूट हो सकती थी।

कुलमलिकमें हारनेके बाद बाबरके लिये समरकन्दमें भी शरण नहीं थी। अब वह शाह इस्माईलके पास जानेके लिये दरबन्दकी ओर चला। दरबन्दमें भी मोर्चाबन्दी हो चुकी थी। शाह इस्माईलने

यार मुहम्मदके नेतृत्वम साठ हजार तुर्कमान भेजे, जिन्होंने उज्बेक सेनापति हमजाको हराकर लौहद्वार (दरबन्द) पार हो खोजार (गुजार), करशीको लूटा। करशीमें पन्द्रह हजार नागरिकोंको बिना यह ब्याल किये कत्ल कर डाला गया, कि वह उज्बेक है या स्थानीय नागरिक, बूढ़े-बच्चे हैं, या स्त्री। इसी कत्ले-आममें कवि बीनाई भी मारा गया। शिया अपनी धर्मान्धताका परिचय दे रहे थे। बाबर समझ गया, कि अब उसे अन्तर्वेद क्षमा नहीं कर सकता ; इसलिये अपनेको उसने अलग कर लिया। इसके बारेमें हैदरने लिखा है—“इस्लाम (सुन्नी-धर्म)का प्रभाव कुफ्र और अविश्वासके ऊपर विजय पाने लगा, सच्चे धर्मकी विजय घोषित हुई। आक्रमणकारी बुरी तरहसे हारे, और उनमेंसे अधिकांश युद्धक्षेत्रमें मारे गये। गिज्दुवानके वाणोंने करशीके खूनका बदला लिया। मीर नजीम तथा दूसरे सभी तुर्कमानोंके मुख्य सेनानायक नगरमें भेज दिये गये।”

मीर नजीमके दबदबके बारेमें वही इतिहासकार लिखता है—उसके रसोईखानेमें प्रतिदिन सौ भेंड़ें, असंख्य मुर्गे-मुर्गियां, हंस, बतकें और चालीस क्वार्ट (५६० सेर ?) दालचीनी, केसर और दूसरे मसाले इस्तेमाल होते थे। उसके खानेकी तश्तरियां या तो बिलकुल सोनेकी थीं या बहुत मूल्यवान् चीनी मिट्टीकी। अब बाबरने सदाके लिये अन्तर्वेदसे बिदाई ली, और वह काबुल लौट गया।

जिस वक्त दक्षिणमें बाबर-इस्माईल और उज्बेकोंका इस तरह संघर्ष हो रहा था, उसी समय मुगोलिस्तानके खानने पूरबसे अन्दिजानके रास्ते प्रधान उज्बेक-मुल्तान सुयुन्जिक खानके ऊपर आक्रमण किया और जरफशां-उपत्यकामें समरकन्दसे चालीस मील पूर्व बिशकन्द (पंजकन्द) में उसे पूरी तौरसे हरा दिया। यह वह समय था, जब कि बाबर ईरानी सेना लेकर समरकन्दकी ओर बढ़ रहा था।



बुखारासे उत्तर गिज्दुवानमें शाह इस्माईलके सैनिकोंका जानीबेग-मुल्तानने किस तरह मुकाबिल किया, इसे “तारीख रशीदी”में मिर्जा हैदरके शब्दोंमें सुनिये—

“उज्बेक सुल्तान उसी रातको किलेके भीतर प्रविष्ट हुये, जिस रात तुर्कमान (इस्माईलके सैनिक) और बाबर घुसे थे। तुर्कमान और बाबर महलके सामने छावनी डालकर मोर्चाबन्दीके यंत्रोंको ठीक-ठाक करनेमें लगे हुये थे। सूर्योदयके समय उन्होंने उपनगरमें अपनी सेनाओंको शत्रुकी ओर मुंह करके खड़ा किया। दूसरे पक्षने भी लड़ाईकी तैयारी की। उज्बेकोंके उपनगरमें होनेसे युद्धक्षेत्र बहुत संकरा था। उज्बेक-पैदल-सेनाने चारों ओरसे वाणोंकी वर्षा करनी शुरू की, और जल्दी ही इस्लामकी ताकतने कुफ्र और नास्तिकताके हाथको तोड़ दिया, सच्चे धर्मकी विजय घोषित हुई। इस्लामके विजयी वीरोंने धर्मविद्वेषियोंके झंडेको गिरा दिया। तुर्कमान पूरी तौरसे हारे, उनमेंसे अधिकांश लड़ाईके मैदानमें मारे गये। करशीमें तलवारसे जो घाव हुये थे, उनको बदलेके वाणोंकी सिलाईने सी दिया। विजेताओंने मीर नजीम और सभी तुर्कमानोंको नरकमें भेज दिया, बादशाह (बाबर) निराश और दुःखी हो हिसारकी ओर लौटा।”

बाबरका यह अन्तिम प्रयत्न था। उसने काबुल लौटकर अब अपनी शक्तिको हिन्दुस्तान जीतने में लगाया।

गिजदुवानके युद्ध ११८ हि० (१९ III १५१२-७ II १५१३ ई०)के बाद शैबानी सुल्तानोंने अपने तुरा और यास्ताक (कानून)के अनुसार मुहम्मद शैबानीके चचा कूचुनजीकी अपना खान बनाया और स्यून्जिक कलगा (युवराज)के पहले ही मर जानेके कारण जानीबेग कलगा बनाया गया। लेकिन वह भी पहले ही मर गया। जानीबेगने शैबानी सुल्तानों (राजकुमारों)में इलाके बांट दिये, जिसमें कूचुनजीको समरकन्द, स्यून्जिकको ताशकन्द, उबैदुल्लाको कराकुल-करशी-बुखारा और जानीबेगको समरकन्द-मियानकुल-कर्मीना मिला।

ताशकन्दपर आक्रमण करनेवाली सेनाका संचालक स्यून्जिक था। उसने नगरपर अधिकार कर लिया। १५१२ ई०में सुल्तान सईद खान मंगोलिस्तानीने पांच हजार सेना ले फरगानासे होकर स्यून्जिकके ऊपर आक्रमण किया। विशकन्दमें हार खाकर सुल्तान सईद अन्दिजान पहुंचा। गिजदुवानमें भारी विजय प्राप्त करनेके बाद स्यून्जिकने सईदकी ओर मुंह किया, लेकिन सईदने अन्दिजान, अक्सी और मरगिनानमें मजबूत सैनिक छावनियां रख दक्षिणके पहाड़ोंका रास्ता लिया। सईदने कजाकोंके शक्तिशाली खान कासिमको सहायताके लिये बुलाया, जो कि शैबानियोंका भी शत्रु था। दशतेकिपचकके गर्भमें रहनेवाले इस खानके पास बड़ी भारी सेना थी। वह सईद खानकी मददके लिये दक्षिणकी ओर चला। सैरामके राज्यपालने बिना लड़े ही किलेकी कुंजी कासिमके हाथमें दे दी। फिर कजाकसेना रास्तेके नगरों और गांवोंको लूटती-पाटती ताशकन्दकी ओर चली। १५१३-१४ ई०में स्यून्जिक कजाक खानके प्रतिरोधमें ही लगा रहा। १५१५ ई०में कासिमने किसी दूसरी दिशामें लूट-पाट करनेके लिये अभियान किया, तब कजाकोंसे छुट्टी पा उज्बेक फरगानाकी ओर मुड़े। सुल्तान सईद खान बिना मुकाबिला किये ही काशगरकी ओर भाग गया, जहां उसने कई साल शासन किया। फरगानापर फिर उज्बेकोंका अधिकार हो गया।

गिजदुवानकी विजयमें शाह इस्माईलकी सेनाकी जो गति हुई थी, उससे उज्बेकोंकी हिम्मत बढ़ गई और उन्होंने एक बार बलखतक घुसकर खुरासानमें लूट-पाट की; लेकिन जब शाह इस्माईलकी सेनाके प्रहारका भय लगा, तो वह पीछे हट आये। शाह इस्माईल १५२३ ई०में मर गया, और उसका बालकपुत्र तहमास्प (१५२४-७६ ई०) तख्तपर बैठा। इस समय फिर उज्बेकोंको मौका मिला और १५२५ ई०में उबैदुल्ला एक बड़ी सेना ले मेर्व जीतते खुरासानकी ओर बढ़ा। अप्रतिरक्षित मशहद नगरने आत्मसमर्पण किया। उबैदुल्ला तूसको भी लेते अस्त्राबाद पहुंचा, और अपने पुत्र अब्दुल अजीजको वहांका शासक बना बलखकी ओर लौटा। आजुरबाईजानसे सेना आई, लेकिन उसे उज्बेकोंने वोस्ताममें हरा दिया, और अस्त्राबाद अब्दुल अजीजके ही हाथोंमें रहा।

उबैदुल्लाने जाड़ोंको गोरियान (गोरी सुल्तानोंकी मूलभूमि)में बिताया। ९३४ हि० (२७ सितम्बर १५२७-१७ अगस्त १५२८ ई०)में उसने सात मासतक हिरातका मुहासिरा किया। शाह तहमास्प एक बड़ी सेना ले उसके मुकाबिलेके लिये आया, जिसे देख उबैदुल्ला हट गया।

फिर उसने ईरानी शाहसे मुकाबिला करनेके लिये भारी तैयारी शुरू की, और डेढ़ लाख सेना लेकर दक्षिणकी ओर चला—छिड़-गिस्के बाद इतनी बड़ी सेना वधु पार नहीं हुई थी। यद्यपि ईरानी सेनामें पचास हजार ही आदमी थे, लेकिन वह बड़े तजर्बेकार और अनशासन-संपन्न थे। उन्होंने (टर्कीके) उस्मानी तुर्कोंके साथ अनेक सफल लड़ाइयां लड़ी थीं। युरोपने मंगोलोंसे सीखकर बारूदके हथियारोंमें बहुत तरक्की कर ली थी। उस्मानी तुर्कोंने उनसे तोप और पलीतेकी बन्दूकोंका इस्तेमाल सीखा था। उस्मानी तुर्कोंके प्रतिद्वन्द्वी सफावी इन नये शक्तिशाली हथियारोंके बिना कैसे सफलता पा सकते थे ? आविष्कारोंके इतिहाससे मालूम है, कि युद्ध-सम्बन्धी आविष्कार सबसे जल्दी प्रचलित हो जाते हैं। तहमास्पकी सेनामें दो हजार तोपची और छह हजार बन्दूकची थे। उज्बेकोंकी सेना यद्यपि तीनगुनी थी, लेकिन उनके हथियार वही पुराने—तीर-धनुष और तलवार-भाले थे। शाह तहमास्प मशहद और हिरातके रास्ते जामके समीप पहुंचा—मुख्य सेना मशहदमें डेरा डाले पड़ी थी। बीस हजार ईरानी सवारोंको दुश्मनकी छावनीका पता लगानेके लिये भेजे गये हिदायत दी गई, कि कोई आदमी अपनेको खाइयोंसे बाहर न दिखलाये। इधर मंत्रशास्त्रियोंको लगा दिया गया था, कि वह जादू करके शत्रुको ऐसा बना दें, कि उनमेंसे एक भी बच निकलने न पाये। अभी तैयारी पूरी नहीं हुई थी, कि शाह तहमास्पने युद्ध करनेकी ठान ली। २५ सितंबर १५२६ ई० को जाममें दोनों सेनायें एक दूसरेसे भिड़ीं। यह ६ मुहर्रम करबलामें इमाम हुसेनकी शहादतका दिन था, इसलिये शिया शाहने इसी पवित्र दिन युद्ध छेड़ना अच्छा समझा। बीचमें तोपोंको रखे बीस हजार चुनी हुई सेना खड़ी थी, जिनके साथ शाह भी था। उज्बेक पार्श्वोंपर आक्रमण कर दोनों छोरोंको पीछे ढकेल पीछेसे भी डेरोंको लूटने लगे। लेकिन पार्श्वोंके इस प्रकार ढकेल दिये जानेपर भी केंद्र मजबूत रहा। ठीक समय-पर तोपोंको बांधनेवाली जंजीरें गिरा दी गईं और वह आग और गोले उगलने लगीं। तिगुना जनबल रखते हुये भी उज्बेक घास-मूलीकी तरह कटने लगे। युद्धक्षेत्रमें उनके पचास हजार आदमी काम आये, लेकिन उन्होंने बीस हजार अपने शत्रुओंका भी संहार किया। उज्बेकोंकी भारी हार हुई।

तहमास्पके विजयसे बाबर प्रसन्न नहीं संकित हो उठा। उसे डर लगा, कहीं वह खुरासानसे हमारे राज्यकी ओर भी न बढ़ आये। बाबरने अपने बेटे हुमायूँको पचास हजार सेना देकर आगे बढ़नेका हुक्म दिया—हुमायूँ उस वक्त पिताकी ओरसे बदख्शांका राज्यपाल था। बेटेको इस तरह रवाना करके बाबर स्वयं मुगोलिस्तानी राजकुमार सुल्तान वेसके साथ समरकन्दकी ओर चला। वेसके भाई शाह कुल्लीने हिसारको ले लिया। तुरसुन मुहम्मद सुल्तानने तेमिज और कबादियानपर हाथ साफ किया। जिस समय हुमायूँ इस प्रकार, कूचुनजी खानको तहस-नहस करनेमें व्यस्त था उसी समय बाबर आगरामें कूचुनजीके दूत अमीन मिर्जाकी बड़ी आवभगत कर रहा था। भोजके बाद सिरकमाश मलमलका जामा, और बहुमूल्य बटन, सोना तथा दूसरी चीजें भेंटमें पा ३१ जनवरी १५२६ ई०को उज्बेक-दूत बाबरसे बिदा हुआ। दूत अमीन मिर्जाको एक खांडा, एक कमरबन्द, एक हाथीका अंकुश तथा कई हजार तंका इनाम मिला था। इसी तरह दूतकी बीबी मेहरबान खानम और उसके पुत्र पूलादको भी बाबरने भेंट-इनाम देनेमें बड़ी उदारता दिखलाई। दूतको क्या पता था, कि जिस समय पिता उसकी इतनी खातिर कर रहा है, उसी समय उसका बेटा (हुमायूँ) उज्बेकोंके राज्यमें आग और तलवारका जौहर दिखला रहा है।

लेकिन इस भीषण संग्रामके खतम करनेका समय यकायक आ गया, जब कि १५३० ई०में कूचुनजी मर गया और उसी सालके दिसम्बरमें बाबरकी प्रार्थना स्वीकृत हुई—हुमायूँ बीमारीसे बच गया, लेकिन उसके बदलेमें अल्लाने बाबरको बुला लिया।

३. अबूसईद खान (१५३०-३२ ई०)

कूचुनजी (अबुल्खैर-पुत्र)के राज्यकालमें ही उसके उत्तराधिकारी (कलगा) चुने गये स्युन्जिक तथा जानीबेग खोजा (मुहम्मद-पुत्र) मर गये, इसपर कूचुनजीके पुत्र अबूसईदको खान चुना गया। पिताकी भांति इसने भी अपनी राजधानी समरकन्दमें रक्खी। लेकिन, उज्बेक सैनिक-

शक्तिका संचालक अब उबैदुल्ला था, जो बुखारामें रहता था। ईरानियोंसे एक बार बुरी तरहसे हार खानेके बाद भी उबैदुल्ला फिर खुरासानकी ओर बढ़ना चाहता था, मगर अबूसईद और दूसरे सुल्तान (राजकुमार) इससे सहमत नहीं थे। बारूदके हथियारोंने इन घुमन्तुओंकी हिम्मत तोड़ दी थी। ईरानका मछलीवाला झंडा एक बार फिर सारे खुरासानपर फहराने लगा। तहमास्पने अपने भाई बहराम मिर्जाको अपना उपराज बनाकर खुरासानका शासक बनाया। उबैदुल्ला सेनाका प्रधान-सेनापति था, इसलिये उसने राय न होनेपर भी १५३१ ई०में मशहदकी ओर अभियान किया, लेकिन वहांसे हार खाकर भागनेके सिवाय कुछ हाथ नहीं लगा। घुमन्तु टिड्डी-दलकी तरह हारसे भय खाकर सदाके लिये पीछे नहीं भाग सकते। १५३२ ई०में उज्बेक-सेनाने हिरात, मशहद, अस्त्राबाद और सब्जवारतकके सारे प्रदेशको डेढ़ सालतक लूटा-बरबाद किया। घिरावेमें पड़े हिरात शहरके लोगोंने अन्नाभावमें कुत्ते-बिल्लियोंको खाकर खतम कर दिया। शहर आत्म-समर्पण करनेकी सोच रहा था, इसी समय तहमास्पको पश्चिममें उस्मानी तुर्कोंसे छुट्टी मिल गई और वह खुरासानकी ओर बढ़ा, जिसपर उबैदुल्ला लौट गया। १५३६ हि० (३ VIII १५३२-२४ VI १५३३ ई०) में अबूसईद मर गया।

४. उबैदुल्ला, महमूद-पुत्र (१५३२-४० ई०)

विजेता मुहम्मद शैबानीका भतीजा उबैदुल्ला खान बनकर और भी निरंकुश हो गया। १५३५ ई० में उसने फिर खुरासानमें लूट-मार करनेके लिये सेना भेजी, और अगले साल खुद खुरासानकी ओर बढ़ा। चार मासतक हिरातपर उसका अधिकार रहा, जिसमें उसने शियोंपर बहुत अत्याचार किये। शाह तहमास्पका पूरबमें ही जबर्दस्त शत्रु नहीं था, पश्चिममें उस्मान अली तुर्कोंसे उसका संघर्ष चलता रहता था, जिसमें राजनीतिके साथ-साथ शिया-सुन्नीका झगड़ा भी शामिल हो जानेसे युद्धका रूप बहुत भीषण होता था। जब वह अपनी अधिकांश सेना ले पूरबकी ओर बढ़ता, तो पश्चिमका शत्रु प्रहार करने लगता, और जब वह पश्चिमकी तरफ मुंह करता, तो पूरबकी ओरसे प्रहार होने लगता। जब शाह तहमास्प खुरासानमें उबैदुल्लाके खिलाफ सेना लेकर आया, तो उबैदुल्ला देश लौट गया। तोपों और बंदूकोंके डरके मारे अब उज्बेक जमकर लड़नेकी हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन खुरासानमें लूट-मार करनेके लिये वह दो-तीन बार और जाते रहे।

इसी बीच खीवा (ख्वारेज्म) में उज्बेकोंका एक और स्वतंत्र राज्य कायम हो गया, जिसके कारण वहां गड़बड़ी फैल गई। उससे फायदा उठा उबैदुल्ला अपने अमीरोंके साथ उरगंजके ऊपर चढ़ा। ख्वारेज्मके राजकुमार मङ्गिशलककी ओर भाग गये। उरगंज पहुंचकर उबैदुल्लाने उन्हें पकड़नेके लिये सेना भेजी और अवानेक खान अपने सारे लोगोंके साथ वेजिरसे उत्तर बेगातकिरी स्थानमें पकड़ा गया। उबैदुल्लाने अवानेकको उमरगाजीके हाथमें दे दिया, जिसने उसे मारकर अपने बापकी हत्याका बदला लिया। उबैदुल्लाने ख्वारेज्मको अपने पुत्र अब्दुल अजीजके हाथमें दे दिया। वहांके निवासी सरतों (फारसी भाषाभाषियों) और तुर्कोंको उबैदुल्लाने नहीं छोड़ा। उज्बेकोंको चार भागोंमें बांटकर उसने बुखारा (उबैदुल्ला), समरकन्द, ताशकन्द और हिसारके सुल्तानोंको दे दिया। लेकिन अवानेक खानका पुत्र दीन मुहम्मद अब भी अपनी रियासत देखनका स्वामी था। उसके पास उरगंजसे भी कितने ही भगोड़े आ गये थे। दीन मुहम्मदने खीवापर धावा कर दारोगा (राज्यपाल) और उसके आदमियों को हराकर मार दिया। हजारास्पका दारोगा भी जान लेकर भागा। अब्दुल अजीजकी भी हिम्मत उरगंजमें रहनेकी नहीं हुई, और वह भी वहांसे खिसका। खबर सुनकर उबैदुल्ला चार हजार सेना लेकर पहुंचा, जिसके मुकाबिलेके लिये दीन मुहम्मद भी अपने तीन हजार सैनिकोंके साथ तैयार था। अमीरोंने मना किया, लेकिन दीन मुहम्मदने नहीं माना। थोड़ेसे उतरकर उसने अपने कुत्तोंपर मिट्टी फेंकते हुये कहा—“मेरे अल्लाह, मैं अपना आत्मा-प्राण तेरे हाथोंमें देता हूँ और अपना शरीर धरतीको।” फिर उसने पीछे मुंह फेरकर कहा—“मैं अपनेको मरा हुआ समझता हूँ। तुममेंसे जिसको अपना प्राण मुझसे ज्यादा प्यारा हो, वह मेरे साथ आगे न बढ़े; जिसको नहीं वह आये।”

यह कहकर दीन मुहम्मद फिर घोड़े पर चढ़ा। उसके सैनिक भी उत्साहसे भरे उसके पीछे-पीछे चले। पहली भिड़ंतमें ही उन्होंने दुश्मनोंको भारी क्षति पहुंचाई। दोनों उज्बेक जातिके ही लोग थे, इसलिये समझौतेकी बात चलने लगी। इसी बीच ६४६ हि० (१६ V १५३९-IV १५४० ई०)में अबैदुल्ला मर गया। इतिहासकार हैदरके अनुसार पिछले सौ सालोंमें अबैदुल्ला जैसा बादशाह नहीं हुआ था। वह बड़ा ही सदाचारी, नम्र, धार्मिक, संयमी, न्यायपरायण, उदार और वीर पुरुष था। उसने अपने हाथसे कई कुरानकी प्रतियां लिखीं। तुर्की-अरबी-फारसीका वह कवि तथा संगीतज्ञ था। उसके समयमें राजधानी बुखारा हुसेन मिर्जाके हिरातकी याद दिलाती थी।

५. अब्दुल्ला I, कूचुनजी-पुत्र (१५४० ई०)

यह थोड़े ही समय बाद मर गया, और फिर उसका भाई गद्दी पर बैठा।

६. अब्दुल्लतीफ, कूचुनजी-पुत्र (१५४०-५१ ई०)

१५२६ ई० में बलख जीतनेके बाद उसे जानीबेगके पुत्र पीर मुहम्मदके बेटेको दे दिया गया था। अब्दुल्लतीफके समय १५४७ ई०में अपने भाई हुमायूंसे विद्रोह करके बाबर-पुत्र कामरान काबुलसे बलखकी ओर भागा। पीर मुहम्मदने उसका स्वागत किया और उसे सेना देकर लौटाया। कामरानने गोरी और बकलानपर अधिकार कर लिया। इस समय पीर मुहम्मद उसके साथ था और यहींसे सेना देकर लौट गया। प्रतिद्वन्द्वी भाईकी इस तरह सहायता करनेके लिये बादशाह हुमायूं बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने बलखके विरुद्ध अभियान किया। हुमायूं इस वक्त अन्दराब, तालिकान होते नारीडांडेको पार हो निलबरकी सुन्दर उपत्यकामें होते बकलान पहुंचा और सेनाको ऐबकके ऊपर आक्रमण करनेका हुक्म दिया—बलख-राज्यमें ऐबक एक बहुत ही उर्वर और समृद्ध इलाका है। ऐबक ले लेनेके बाद खोलम होते हुमायूंकी सेना आगे बढ़ी, लेकिन प्राकृतिक और मानवी प्रतिरोध इतने कड़े हुये, कि उसे लौटना पड़ा। हुमायूंके लौट जानेपर कामरानने बदख्शापर असफल आक्रमण किया। अब्दुल्लतीफके शासनकालमें की यही एक महत्वपूर्ण घटना है। ६५६ हि० (२६ दिसंबर १५५१-१८ नवम्बर १५५२ ई०)में अब्दुल्लतीफ मर गया।

७. नौरोज मुहम्मद, सूयुनजी-पुत्र (१५५१-५६ ई०)

उज्बेक और उस्मानअली तुर्क-राज्योंके बीचमें सुन्नियोंकी घृणाके पात्र सफावी शियोंका राज्य था, जिनसे दोनों लड़ते रहते थे। इसके कारण दोनों सुन्नी तुर्क-शासकोंके बीचमें अब बहुत घनिष्ठता स्थापित हो चुकी थी, जिसे ब्याह-शादीद्वारा भी दृढ़ करनेकी कोशिश की जाती थी। नौरोजके शासन कालमें दोनों राज्योंमें दूतोंका बहुत दानादान होता रहा।

८. पीर मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र (१५५६-६१ ई०)

पीरमुहम्मदके शासनके बारेमें यही कहा जा सकता है, कि अभी शैबानियोंकी शक्तिका ह्रास होना शरू नहीं हुआ था।

९. इस्कन्दर, जानीबेग-पुत्र (१५६१-८३ ई०)

इस्कन्दरके शासनकालमें राज्यका सर्वेसर्वा उसका पुत्र अब्दुल्ला था। अब्दुल्लाने १५५६ ई० में बुखाराको शाखाको खतम कर दिया। फिर ६६८ हि० (२२ IX १५६०-१३ VII १५६१ ई०)में उसने अपने पिताको "खाकानेजहां" (दुनियाका राजा) घोषित किया। ६८६ हि० (१० III १५७८-२६ I १५७९ ई०)में उसने समरकन्दकी शाखाको भी खतम कर दिया, जिससे पहिले १५८१

ई०में बाबाजान सुल्तानपर उसने विजय प्राप्त कर ली थी। अब्दुल्ला असाधारण आदमी था, इसमें सन्देह नहीं। जीजकसे समरकन्दकी ओर आनेवाले रास्तेमें जीलानउति डांडेपर एक चट्टानके ऊपर उसने एक अभिलेख खुदवाया है—“रेगिस्तानको पार करनेवालों और जलथलके यात्रियोंको मालूम होना चाहिये, कि ६७६ हि० (२६ मई १५७१-१५ अप्रैल १५७२ ई०)में खलाफतके सहायक, महाखाकान सर्वशक्तिमान् महाखान इस्कन्दरखान-पुत्र अब्दुल्लाके तीस हजार सैनिकों, और बोरका खानके पुत्रों दरवेशखान-बाबाखान आदिकी सेनाओंके बीचमें युद्ध हुआ। उसकी सेनामें सुल्तानके पचास सम्बन्धी और तुर्किस्तान-ताशकन्द-फरगाना-दशतेकिपचकके चालीस हजार योद्धा थे। तारोंके सौभाग्यसूचक समायोगसे शाहकी सेनाको विजय प्राप्त हुई। उपर्युक्त सुल्तानोंमें बहुत-से मारे गये, और बहुतसे बन्दी हुये। इस एक महीनेके भीतर इतना खून बहा, कि जीजक नदीके पानीके ऊपर खून तैरता रहा।”

यह स्मरण रखनेकी बात है, कि चट्टानोंपर अभिलेख खुदवानेवाले मध्य-एशियामें बहुत कम ही खान और सुल्तान हुये।

६८७ हि० (२८ II १५७६-१६ I १५८० ई०)में बाबाखानने ताशकन्द ले अपने भाई दरवेशको मार डाला। अब्दुल्लाको यह खबर खोकन्दके इलाकेमें मिली। उसने पहुंचकर ताशकन्दके पास बाबाको हराकर भगा दिया। अब्दुल्लाको सूचना मिली, कि वह कजाकोंके बीच जाकर छिपा है। इसपर उसने उसे पकड़नेके लिये तलस और सैरामतक सेना भेजी। १५७६-८० ई०में कजाकोंने यस्सी और सरवान ले लिया, फिर सरवान-सुल्तानके नेतृत्वमें बुखारातक और बादमें समरकन्दतकके इलाकेको लूटा। इसी बीच बाबाका कजाकोंके साथ झगड़ा हो गया और वह उनके कई सरदारोंको मार, उनके खान सिगाईको हराकर भारी लूटके मालके साथ ताशकन्द लौटा।

बाबाने फिर अब्दुल्लाकी नींद हराम कर दी और १५८१ ई०में वह उसके विरुद्ध उजकंदतक पहुंचा। जब उसका डंरा कराताउमें पड़ा हुआ था, उसी समय सिगाई खान उसके पास आया, जिसे उसने खोजन्द शहर प्रदान किया। कजाकोंसे और घनिष्ठ मित्रता करनेके लिये बुखारामें एक बहुत बड़ा जल्सा मनाया गया, जिसमें अब्दुल्लाके पुत्र अब्दुल-मोमिन और सिगाईके पुत्र तवक्कलने खेलमें अपनी सिद्धहस्तता दिखलाई। १५८३ ई०में अब्दुल्लाने फरगाना और अन्दिजानको जीता, जिसमें कजाक तवक्कल खान उसका सहायक रहा। बाबा सुल्तानके पतनके बाद तुर्किस्तान और ताशकन्दने अब्दुल्लाकी अधीनता स्वीकार की। इसी साल पिताके मरनेपर अब्दुल्ला शैबानी-तख्तपर बैठा।

१०. अब्दुला II, इस्कन्दर-पुत्र (१५८३-१६ ई०)

अब्दुल्ला अकबरका समकालीन था। बापके समयमें भी सारा राजकाज तथा दिविजय अब्दुल्ला ही करता रहा। अब्दुल्लाकी सबसे बड़ी इच्छा थी, मुहम्मद शैबानीके साम्राज्यकी सीमाओं-तक अपने राज्यको पहुंचाना, जिसमें वह बहुत कुछ सफल भी हुआ। शैबानियोंका वह सबसे बड़ा खान था। इस्कन्दरके मरनेके वक्त वह खोजन्दमें था। वहीं शैबानी-सुल्तानोंने उसे अपना खाकान चुना, और मक्काके जमजमके पानीमें भिगोकर पवित्र किये गये सफेद नम्देके ऊपर बैठाकर उसे अपने कंधोंपर उठाया। इस प्रकार छिड़-गिस् और उसके पहलेसे चली आई नम्दारोहण (सिंहासनारोहण) की रसम अदा की गई। अमीर वहांसे जमीन गये, जहांसे गद्दी पानेकी खबर दी गई। अपने पिताके समयमें ही अब्दुल्लाने कजाक-मरुभूमिसे काबुलकी सीमातकके बहुतसे प्रतिद्वंद्वियों और शत्रुओंको परास्त किया, और छोटी-छोटी रियासतोंमें बंटे उज्बेक-राज्यको एकताबद्ध किया था। उसके राज्यकी सीमा उत्तरमें सिर नदीसे आगेकी मरुभूमितक तथा पूरबमें काश्गर और खोतनतक थी।

दक्षिणमें अकबर और सफावी शाहके साम्राज्य उसके आगे बढ़नेमें बाधक थे, लेकिन बलख और बदखशांको उसने दिल्लीसे छीन लिया था ।

शाह तहमास्पके मरनेपर अब्दुल्लाकी शक्ति और भी अधिक बढ़ी । स्वारेज्म आपसी फूटसे अस्त-व्यस्त था, जिसका अन्त करनेवाला शाह अब्बास (१५८७-१६२९ ई०) ईरानके अत्यन्त शक्तिशाली शाहोंमेंसे था । १५८५ ई०में शाह अब्बासको उस्मानी तुर्कोंकी लड़ाईमें फंसा देखकर उज्बेकोंने हिरातपर आक्रमण कर दिया और नौ महीनेके मुहासिरेके बाद उसपर अधिकार कर लिया । इस लड़ाईमें राज्यपाल अलीकुल्ली खान शामलू और कितने ही दूसरे ईरानी सेनापति काम आये । सुन्नी-उज्बेक शियोंको काफिरोंसे भी बदतर मानते थे, इसलिये उन्होंने हिरातियोंके साथ बहुत कठोर बर्ताव किया । सदियोंसे शिया-सुन्नी मुल्ला कलमकी लड़ाई लड़ रहे थे, और उनके सुल्तान अपनी तलवारों द्वारा एकको मिटाकर इस भेदको मिटाना चाहते थे । तरुण शाह अब्बास जब कजवीनसे अपनी सेना लेकर खुरासानकी ओर बढ़ा, तो अब्दुल्ला चुपकेसे मेर्व होते बुखारा लौट गया । मशहद पहुंचनेपर अब्बासको पता लगा, कि तुर्कोंने गुरजी (जाजिया)पर आक्रमण कर दिया है । अब्बास जल्दी-जल्दी उधर लौटा, लेकिन लड़ाईमें उसकी हार हुई । इसकी खबर पाते ही अब्दुल्ला मशहदपर चढ़ दौड़ा । उसके हरावलका नेतृत्व अब्दुल-मोमिनके हाथमें था, जिसने मशहदपर भारी अत्याचार किये । अब्दुल-मोमिन बड़ा ही बर्बर, क्रूर, महत्वाकांक्षी आदमी था । वह एक बड़ी सेना लिये दीन मुहम्मदके साथ जल्दी-जल्दी आगे बढ़ा । हिरातका राज्यपाल तथा अब्दुल्लाका विश्वासपात्र सेवक कुलबाबा कोकलताश भी उसके साथ था । इस सेनाने पहले नेशापोरपर आक्रमण किया । कुछ थोड़ेसे आदमी पकड़कर छोड़ दिये गये । नेशापोरको लूटकर वह शियोंके पवित्र नगर मशहदपर चढ़े-लूट-मारके भयसे बहुतसे गांवके लोग भी मशहदको सुरक्षित समझ वहां चले आये थे । इतने आदमियोंके लिये अन्न कहाँसे मिलता ? अकाल पड़ गया । पहले ही प्रहारमें नगरपर उज्बेकोंका अधिकार हो गया, और वहाँके राज्यपाल उम्मत खान उस्ताजलूका सारा प्रयत्न व्यर्थ गया । अब्दुल-मोमिनके सैनिकोंने शहरके भीतर जाकर देखा, कि "बहुसंख्यक स्त्री-पुरुष, संत और विद्वान्, सभी इमाम रजाके रौजेके बाहरी आंगनमें इस आशासे जमा हो गये हैं, कि स्थानकी पवित्रताके कारण शायद उन्हें प्राणदान मिल जाय । लेकिन, उज्बेक शिया-पवित्रस्थानको कब माननेवाले थे ? उन्होंने बिना किसी विचारके जो भी चीज सामने आई, उसे काटा और नष्ट कर दिया ।" पैगंबरके नातीकी संतान इमामरजाके वंशजोंको भी उन्होंने नहीं छोड़ा—वह बेचारे अपने पूर्वज शहीदकी कब्रसे लिपटे हुये थे । कहा जाता है, अब्दुल-मोमिन स्वयं उस समय मीर अलीशेखके महलसे तमाशा देख रहा था, जब कि उसके आदमी अपनी तलवारोंको इन निरपराध स्त्री-पुरुषोंके खूनसे रंग रहे थे । न जाने कितने अच्छे-अच्छे विद्वान् और धर्मशास्त्री भी इस हत्याकांडमें मारे गये । हजारों आदमियोंके करुण क्रंदनसे भी उज्बेकोंका दिल नहीं पसीजा । सिर्फ सड़कों और आंगनोंको ही नहीं, बल्कि पवित्रतम स्थानों और मस्जिदोंको भी उन्होंने खूनसे रंग दिया । मशहदके हत्याकांडमें अलीके वंशजोंकी कब्रोंको भी अब्दुल मोमिन ने नहीं छोड़ा, और उन्हें तोड़-फोड़कर नष्ट कर दिया । तीन शताब्दियोंसे तीर्थयात्री और दूसरे धार्मिक लोगोंने जो मूल्यवान् भेंटें—अतिविशाल सोने और रूपेके दीपस्तम्भ, बहुमूल्य धातुओं और रत्नोंसे जटित कवच, दुर्लभ रत्न, तथा दूसरी कितनी ही अनमोल चीजें—इमामरजाकी समाधिपर चढ़ाई थी, उन सबको विजेताओंने लूट लिया । यही नहीं, उन्होंने वहाँके विशाल पुस्तकालयको भी ध्वस्त कर दिया, जिसमें पुराने सुल्तानोंके दान दिये कितने ही प्रसिद्ध कुरानके अत्यन्त सुन्दर कलापूर्ण हस्तलेख थे । "शियोंकी पुस्तकें" कहकर उन सबको घसीटकर सड़कोंपर ले गये और फाड़कर उन्हें पूरी तौरसे नष्ट कर दिया । सुन्नी विजेताओंने मुर्दोंके ऊपर भी रहम नहीं किया । इमाम रजाके पास सोये शाह तहमास्पकी लाशको जलाकर उन्होंने हवामें उड़ा दिया ।

शाह अब्बास उस समय बीमार था, इसलिये तेहरानसे नहीं आ सका । जैसे ही स्वस्थ हुआ, वह तैयारी करने लगा । लेकिन अधिकांश खुरासान—हिरात, मशहद, सेरख्स, मेर्व, खाप, जाम, फूसड, गोरियान—अब्दुल्लाके हाथमें करीब-करीब उसकी मृत्युके समयतक रहा ।

१५८६ ई० में ही अब्दुल्लाको खुरासानकी ओर गया जानकर उत्तरसे कजाकोंने लुटेरोंके घरको लूटनेका निश्चय किया और तवक्कल खान तथा उसके भाई इशिमके नेतृत्वमें वह अन्तर्वेदपर चढ़ आये। लूटकर जब वह रेगिस्तानकी ओर लौट रहे थे, तब अब्दुल्लाके भाई अब्दुल्लासे उनका मुकाबिला हुआ।

जिदगीभर संघर्ष करते हुये भी अब्दुल्लाका जीवन असफल रहा, ऊपरसे अन्तमें पुत्र अब्दुल मोमिनके बर्तावोंने उसे और दुःखी बना दिया। उत्तरके कजाक उसे दम नहीं लेने दे रहे थे। १५९६ ई०में उनके खान तवक्कलने फिर चढ़ाई की, और ताशकन्दको लूटा, फिर ताशकन्द एवं समरकन्दके बीचमें अब्दुल्लाको बुरी तरह हराया। उधर शाह अब्बास ख्वारेज्मके उज्बेकोंसे दोस्ती कर उनकी मददसे मेर्व, मशहद और हिरातको छीननेके लिये तैयार था। इस प्रकार अब्दुल्लाने अन्तमें अपनी आंखोंके सामने ही अपने कियेपर पानी फिरते देखा और ६ फरवरी १५९७ ई०को अर्थात् अकबरसे आठ वर्ष पहले बेटेके हाथों प्राण खोया।

११. अब्दुल मोमिन, अब्दुल्ला II-पुत्र (१५९६-९७ ई०)

अब्दुल्लाके मरते ही देशमें अराजकता फैल गई। पिताको मारकर तख्त लेनेकी इच्छा रखनेवाले पुत्रने गद्दी संभालते ही पहले पिताके विश्वासपात्र सेवकोंको मरवाना शुरू किया, जिसके कारण दरबारी उसके खूनके प्यासे हो गये। उसे चारों ओर षड्यंत्र ही षड्यंत्र दिखाई देता था। जुलाई १५९७ ई०में गर्मीसे बचनेके लिये वह रातमें यात्रा कर रहा था। मशालची और कितने ही सवार उसके साथ थे। उरातिप्पा और जमीनके बीचमें एक संकरा दर्रा आया, जिसमें मशालचीके साथ सिर्फ दो सवार एक साथ गुजर सकते थे। इसी समय इस आततायीके ऊपर वाणोंकी वर्षा होने लगी। मोमिन घायल होकर गिर पड़ा, और हत्यारोंने तुरन्त उसका शिर काट लिया। दूसरे दिन पीछेसे आनेवालोंने पोशाकसे उसके धड़को पहचाना। इस प्रकार छ महीना शासन करनेके बाद इस राक्षसने सचमुच ही नरकका रास्ता पकड़ा।

१२. पीर मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र (१५९७-९९ ई०)

अब्दुल मोमिनके मरनेपर तख्तके बहुतसे दावेदार उठ खड़े हुये, लेकिन शैबानी-वंशके अन्तिम खान बननेका सौभाग्य पीर मुहम्मदको हुआ। जुलाई १५९८ ई०में शाह अब्बासने हिरातके पास कूलेसालारमें उज्बेकोंको करारी हार दी, और उनसे सब्जबार, मशहद और हिरात छीन लिया। देशकी इस अवस्थाकी खबर कजाकोंको भी मिले बिना नहीं रही, और तवक्कल अपने सत्तर-अस्सी हजार सवारोंके साथ तुर्किस्तान-शहर, अबसी, अंदिजान, ताशकन्द, समरकन्दको लूटने-अधिकार करते बुखारा पहुंचा। पीर मुहम्मद पंद्रह हजार सैनिकोंके साथ नगरमें घिर गया। बारहवें दिन फाटकसे बाहर निकल उसने कजाकोंको बुरी तरह हराया। लुटेरोंके विरुद्ध लोग एक हो गये थे। मियानकुलके उजुनसकालमें दुश्मनोंसे फिर मुकाबला हुआ। बाकी मुहम्मद भी युद्धके आरम्भके समय भाग ले रहा था, लेकिन इसी समय खुरासानमें अब्बासद्वारा उज्बेक-सेनाके घोर पराजयकी खबर पहुंची। कजाकोंसे महीनेभर केवल जब-तब झड़प करते रहनेके बाद युद्ध हुआ, जिसमें दोनोंकी बहुत क्षति हुई। तवक्कल घायल न हो जाता, तो शायद उज्बेकोंका उसी समय खातमा हो जाता। तवक्कल ताशकन्द लौटकर मर गया, और एक नक्शबन्दी शेख (साधु)ने बीचमें पड़कर कजाकों और उज्बेकोंमें सुलह करवा दी। बाकी मुहम्मदको समरकन्द मिला, लेकिन वह तो पीर मुहम्मदसे तख्त छीनना चाहता था। पीर मुहम्मद समरकन्दमें लड़ते वक्त मारा गया, और बाकी मुहम्मदकी इच्छा पूर्ण हुई। बाकी मुहम्मद अब्दुल्ला II की बहिन जोहरा खानम तथा जानीबेग सुल्तानका बेटा था। पीर मुहम्मदके साथ शैबानी-वंशका अन्त हुआ।


इतिहास-लेखक बेम्बरीके अनुसार शैबानियोंके कालमें पूर्वी और पश्चिमी इस्लाम पूरी तीरसे अलग हो गया, और उसने वह रूप लिया, जो उसका आज भी मौजूद है। ईरान, चीन (सिङ्-क्यांग) और हिन्दुस्तान पूर्वी इस्लामके अन्तर्गत हुये और पश्चिमके देश पश्चिमी इस्लाममें। चीन और मध्य-एशियाके मुसलमानोंमें साधु-संतों, जादूगरों और ज्योतिषियोंका बहुत ज्यादा मान था। यदा-तासी (जादूके पत्थर)से वह वायु-जल-नियंत्रण, रोगमुक्ति और युद्धमें विजय प्राप्त करना चाहते, इस्लामसे भी अधिक उसके संतों और सूफियोंपर विश्वास रखते थे। मंगोलोंके शासनकालमें मुट्ठीभर मुल्लों और सूफियोंके खानदानोंने धर्मकी इजारादारी अपने हाथमें ले ली थी, जिनके सामने अत्यन्त शक्तिशाली और स्वेच्छाचारी सुल्तान भी शिर झुकानेके लिये तैयार थे। यह लोग राजा और प्रजा दोनोंके भक्तिभाजन थे—साधारण जनता समझती थी, कि उनके पास दिव्य शक्ति है। उनके प्रति सुल्तान और खान केवल भारी सम्मान ही नहीं दिखलाते थे, बल्कि अपनेको उनका तुच्छ सेवक साबित करनेकी कोशिश करते थे। मखदूम आजम मौलाना खोजकी काशानी—प्रसिद्ध खोजा अहरारका शिष्य—अपने त्याग और वैराग्यपूर्ण जीवनके लिये बहुत माननीय समझा जाता था, और अपनी दिव्य शक्तिके कारण लोगोंमें सम्मान ही नहीं भयकी दृष्टिसे भी देखा जाता था। वह २१ मुहर्रम ६४६ हि० (७ मई १५४२ ई०) में मरा। उसकी समाधि देहबिदमें है, जहांपर हालतक लोग भारी संख्यामें तीर्थयात्राके लिये जाते थे।

साहित्य-संस्कृति—शैबानी-कालमें तुर्की भाषा और साहित्यका सर्वत्र प्रचार हुआ। कितने ही कवि अब केवल तुर्की (उज्बेकी) में ही कविता करते थे; यद्यपि अन्तर्वेदके गांव-गांवमें भी ताजिकोंके रहनेसे पुरानी भाषा फारसीका इतना प्रचार था, कि प्रायः सभी तुर्क स्त्री-पुरुष द्विभाषी थे। इन कवियोंमें सबसे प्रसिद्ध उज्बेक-राजकुमार मुहम्मद सालेह था, जिसके पिताको तेमूरियोंने ख्वारेज्मके राज्यसे वंचित कर दिया था वह तरुणाईमें ही शैबानियोंके दरबारमें चला आया। अपने महाकाव्य “शैबानीनामा”द्वारा किसी-किसीके मतमें वह नवाईसे भी बड़ा कवि है। इस समयके दूसरे बड़े कवि थे—अमीर अली कियातिब, प्रथम शैबानी-राजकवि मुल्ला नीरक, मुल्ला मुशफिकी (मृत्यु १५८५ ई०), काजी पायन्दा, जमीनी, वजीर। पायन्दाने कुलबावा कोकलताशकी प्रशंसामें एक काव्य लिखा, जिसमें विदीवाले अक्षरों (बे, ते, जीम, चे, खे, जाल, जे, शीन, ज्वाद, जोब, गैन, फे, काफ और नून) का प्रयोग नहीं किया। शीरी खोजा अब्दुल्लाकालीन, और खैर हाफिज [मृत्यु ६८१ हि० (१५७३-७४ ई०)] इस कालके मशहूर संगीतकार और गायक थे—खैर हाफिज अब्दुल्लाके दरबारमें था।

शैबानीकालमें खान, खानजादों तथा अमीरोंने मस्जिदों, मदरसों और रौजोंको बनानेमें होड़-सी लगा रखी थी। वजीर कोकलताशने १५२७ ई० (६३४ हि०)में समरकन्दमें अपने नामकी विशाल मस्जिद बनवाई, जिसके संगमरमरके मेम्बर (वेदी) को कूचुनजी खानने प्रदान किया। अब्दुल्ला खानका बनवाया मदरसा बोल्शेविक क्रांतिके पहलेतक मौजूद था। इसके विशाल फाटकपर कुरानकी आयतें लिखी हुई हैं, जिसके एक-एक अक्षर दो फिट लम्बे हैं। अब्दुल अजीज खानने अरबोंके वक्तकी बनवाई मोगक मस्जिद (पारसी मंदिर)की मरम्मत करवाई और बुखारासे थोड़ी दूरपर अवस्थित खोजा बहाउद्दीनके सुन्दर मकबरेको बनवाया। अबसईदने समरकन्दमें एक बड़ा मदरसा बनवाया। करोड़पति मीर अरबने बुखारामें एक मदरसा स्थापित किया, जिसके वारेमें हालके लेखकोंने लिखा है—“यह सारे मध्य-एशियाका सबसे अधिक धर्मस्व-संपत्ति रखनेवाला मदरसा है।”

इस समयके सुल्तानोंमें सभी जगह कवि होनेकी बड़ी लालसा थी, और उनमेंसे कुछको कविकर्ममें सफलता भी मिली। इस्माईल, तहमास्प, अब्बास फारसीके कवि थे। मुहम्मद शैबानी, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला II भी कवि थे। बाबर, हुमायूँ और अकबरने भी कविता की, जिसमें बाबर तो तुर्की भाषा का आज भी एक श्रेष्ठ कवि माना जाता है।

शैबानी-वंशवृक्ष—
(१५००-६६ ई०)



अस्त्राखानी (१५९९-१७४७ ई०)

१. दीन मुहम्मद (१५९८ ई०)

सुवर्ण-ओर्दूकी राजधानी सरायबरका जब ध्वस्त हो गई, और जू-छिका उलुस कई टुकड़ोंमें बंट गया। उस वक्त उनके एक खानकी राजधानी वोल्गा और कास्पियनके संगमपर अस्त्राखान थी। सुवर्ण-ओर्दूके प्रसिद्ध खान कूचुक मुहम्मदका पुत्र अहमद उसका उत्तराधिकारी बना। कूचुकका दूसरा पुत्र चुवाक सुल्तान था, जिसका पुत्र मंगिशलक और पौत्र यार मुहम्मद थे। जब रूसियोंने अस्त्राखानको भी छीन लिया, तो यार मुहम्मद खानने भागकर बुखारामें इस्कन्दर खानके पास शरण ली। अस्त्राखानी और शैबानी दोनों ही जू-छिके वंशज थे। इस्कन्दरने यार मुहम्मदका बहुत सम्मान किया और उसके लड़के जानीबेग सुल्तानके साथ अपनी लड़की जोहरा खानमका ब्याह कर दिया। जानीबेग १७५ हि० (८ जुलाई १५६७-२८ मई १५६८ ई०) की विजय-यात्राओंमें अपने साले अब्दुल्लाके साथ रहा। अब्दुल्लाके समय उसके भांजे दीन मुहम्मदने खुरासानके कई शहरोंपर शासन किया, अन्तमें वह निसा और अक्वीवर्दका राज्यपाल बना। अब्दुल मोमिनने उसके पिता जानीबेगको जेलमें डाल दिया था, इसपर विद्रोह करके दीन मुहम्मदने हिरात लेनेका असफल प्रयत्न किया। अब्दुल मोमिनके मरनेके बाद ईरानी फिर खुरासानको जीतनेका प्रयत्न करने लगे। इसने भी हाथ-पैर फैलानेकी कोशिश की। अब्दुल मोमिनके बाद शहर-शहरमें खान (राजा) बनते जा रहे थे। दीन मुहम्मदने भी मक्का-मदीनासे लौटे अपने दादा सुल्तान यार मुहम्मदके नामसे खुतबा और सिक्का चलाना चाहा। मेर्बमें कासिम सुल्तानने अपना राज्य कायम किया, लेकिन जल्दी ही वह मार डाला गया। मेर्बको भी दीन मुहम्मदके छोटे भाई वली मुहम्मदने बड़े भाईके नामसे दखल कर लिया। जुलाई १५९८ ई०में नूर मुहम्मदको हराकर शाह अब्बासने हिरात ले लिया। दीन मुहम्मद हारकर भागा जा रहा था, लेकिन शाही कपड़ोंके कारण पहचाना गया और काराई घुमन्तुओंने उसे मार डाला। बाकी मुहम्मदने तक्कलसे लड़कर पराजित होते समय खबर दी और उसे समरकन्दका राज्य मिला।

शायद हिरातमें कुलेसालारके निर्णायक युद्धके समय ही यार मुहम्मद और जानीबेग मारे गये, यद्यपि इससे पहले ही हिरातमें यार मुहम्मदने अपनेको खान घोषित कर दिया था। दीन मुहम्मदके मरनेपर उसके स्वामिभक्त नौकर खाकी यसाउलने खानम् और उसके दोनों बच्चों इमामकुल्ली और नादिर (नासिर)को अपने घोड़ेकी पीठपर दोनों ओर रखकर सरपट भागते हुये उनकी जान बचाई। नादिर मुहम्मदके पैरमें गोली लग गई, जिससे वह जन्मभरके लिये लंगड़ा हो गया। बाकी मुहम्मद और वली मुहम्मद अन्तर्वेदमें थे। बाकी मुहम्मदने राज्य संभाला। इतना कहनेसे यह मालूम होगा, कि यद्यपि बाकी मुहम्मदके गद्दी संभालनेके बाद एक नये अस्त्राखानी राजवंशकी स्थापना हुई, किन्तु वस्तुतः दोनों ही राजवंश उज्बेक जातिके ही थे। सुवर्ण-ओर्दूके प्रतापी मुसलमान खान उज्बेकके नामसे क्पिचकोंकी यह संज्ञा हुई, यह हम कह आये हैं। शैबानी और अस्त्राखानी ही नहीं, बल्कि दोनोंके उत्तराधिकारी तथा अन्तिम राजवंश मंगीत भी उज्बेक ही था। बोल्शेविक क्रांतिने मंगीत-वंशका उच्छेद करके वहां सोवियत गणराज्य कायम कर देशको उज्बेकिस्तान नाम दिया।

राजावलि—इस वंशमें निम्न खान हुये:—

१. दीन मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र	१५६८	ई०
२. बाकी मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र, इस्कन्दर-नाती	१५६९-१६०५	"
३. वली मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र	१६०५-८	"
४. सैयद इमामकुल्ली, दीन मुहम्मद-पुत्र	१६०८-४२	"
५. नादिर मुहम्मद, दीन मुहम्मद-पुत्र	१६४२-४७	"
६. अब्दुल अजीज, नादिर मुहम्मद-पुत्र	१६४७-८०	"
७. सुभानकुल्ली, नादिर मुहम्मद-पुत्र	१६८०-१७०२	"
८. मुकीम, सुभानकुल्ली-पुत्र	१७०२-७	"
९. अब्दुल्ला I, सुभानकुल्ली-पुत्र	१७०७-१७	"
१०. अबुल्-फैज मुहम्मद, सुभानकुल्ली-पुत्र	१७१७-४७	"
११. अब्दुल मोमिन, अबुल्-फैज-पुत्र	१७४७	"
१२. अब्दुल्ला II, अबुल्-फैज-पुत्र	१७५१	"
१३. अबुलगाजी, इब्राहीम-पुत्र इमामकुल्ली-वंशज		

२. बाकी मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र (१५९९-१६०५ ई०)

हम बतला चुके हैं, कि कैसे दीन मुहम्मदने पहले ही खुरासानमें अपनेको स्वतन्त्र खान घोषित किया। अब्दुल मोमिनके मारे जानेके बाद उसने अस्तवैदकी ओर पैर बढ़ाया और वहांका शासक बन गया। वस्तुतः बाकीने ही अस्त्राखानी वंशकी नींव रखी। इसने हिसारके पहाड़ी इलाके (ताजिकिस्तान)को सर किया और इसके भाई वली मुहम्मदने बलखको ले लिया, जिसे कि पीर मुहम्मदके भाई इब्राहीमने ईरानसे आकर हथिया लिया था। इब्राहीमके शिया होनेसे लोग नाराज थे, साथ ही वह पियनकड़ और बहुत क्रूर भी था। उसे हटा अब्दुल्लाको बैठाया गया, जिसे वली मुहम्मदने हिसारसे आकर भगा दिया। काराई तुर्कमानोंने उसके भाई दीन मुहम्मदको मारा था, उसका बदला लेनेके लिये बाकी मुहम्मदने १६०२ ई०में कुंडुजपर हमला किया। उज्बेकोंने अपने पुराने शत्रुओं (तुर्कमानों)से बड़ा ही निष्ठुर बदला लिया। बहुत-से तुर्कमान भागकर कुंडुजके किलेमें बन्द हो गये। किला बहुत मजबूत था। उज्बेकोंने बारूद लगाकर दीवारके एक बड़े भागको उड़ा दिया, जिसके साथ सैकड़ों तुर्कमान भी चिथड़े-चिथड़े होकर उड़ गये। फिर आक्रमण करके किलेको ले उज्बेकोंने किसीको जीवित बन्दी नहीं बनाया। तुर्कमानोंके काराई कबीलेको इस लड़ाईमें बिल्कुल नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया, जिसके बाद वह फिर अपनेको संभाल नहीं सके—काराई तुर्कमान शाह अब्बासके सहायक थे। उज्बेकोंने शापूरगान और अन्दखूईको ले बिलुक-अकचीतक देशको लूट-मारकर उजाड़ दिया। ईरानी इनके मुकाबिलेके लिये आये, लेकिन बलखके पास बाबर अब्दुलके मकबरेके नजदीक उनमें महामारी फैल गई। ऊपरसे उज्बेकोंने दोनों ओरसे हमला कर दिया। शाह अब्बास बड़ी मुश्किलसे कुछ हजार आदमियोंके साथ जान बचाकर भाग सका।

१६०५ ई०में बाकी बीमार पड़ा और असाध्य रोगसे मुक्ति पानेके लिये एक प्रसिद्ध संत शेख आलिम अलीजानकी शरणमें गया। शेखने उसे वक्षु (आमू-दरिया) की ताजी हवा सेवन करनेकी सलाह दी। बाकी मुहम्मदको खटोलेमें लिटा नावपर ले गये। वह कई दिनोंतक नदीकी हवा खाता घूमता रहा। अन्तमें रजब १०१४ हि० (१२ नवम्बर-१२ दिसम्बर १६०५ ई०) में अर्थात् अकबरकी मृत्यु-महीने रजब १०१४ हि० में मरा।

३. वली मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र (१६०५-८ ई०)

यह बड़ा ही शराबी और व्यभिचारी था, ऊपरसे लोग इसके वजीर शाहबेग कोकलताशके जुल्मोंसे भी परेशान थे, इसलिये इसके भतीजे सैयद इमामकुल्लीके नेतृत्वमें विद्रोह हो गया। वली ईरानकी ओर

भाग। शाह अब्बाससे अस्सी हजार सेनाकी मदद ले वह फिर वधुकी ओर चला। मखदूम आजमके वंशज खोजा मुहम्मद अमीनसे इमामकुल्लीको सहायता प्राप्त हुई। खोजा (संत)ने अपने सूफियोंके चोगेके ऊपर धनुष-बाण लटकाकर पहला तीर छोड़ा, फिर दुआ पढ़कर मुट्ठीभर मिट्टी शत्रुओंकी ओर फेंक दी—जिसका अर्थ था, शत्रु अंधे हो जायं। तुमुल युद्ध हुआ। मामियान सरोवरके किनारे इस युद्धमें वली मुहम्मदने तख्त गंवा अपनेको भतीजेके हाथमें बंदी पाया। शायद भतीजा चचाको छोड़ भी देता, लेकिन शेरका हुक्म था, इसलिये कत्ल किये बिना कैसे रह सकता था? वली मुहम्मदके पुत्र रस्तम और रहीम ईरान भाग गये।

४. सैयद इमामकुल्ली बहादुर, दीन मुहम्मद-पुत्र (१६०८-४२ ई०)

यह जहांगीर और शाहजहांका समकालीन था, और भारतीय मुगल-साम्राज्यसे इसकी सीमा मिली हुई थी। जिस वक्त अब्दुल मोमिनने मशहदमें कलेगाम किया था, उसी समय इमामरजाके वंशजोंके मुखिया अबूतालिबने दीन मुहम्मदके घोड़ेकी लगाम पकड़कर अपने परिवारके लोगोंके प्राणोंकी भिक्षा मांगी। दीन मुहम्मद उनके बचानेके लिये उसी मुहल्लेमें ठहरा और उसने अबूतालिबकी बेटी जोहरा बानूसे ब्याह किया। इसी जोहरा बानूसे इमालकुल्ली और नजर (नादिर मुहम्मद, नासिर) मुहम्मद पैदा हुये। यद्यपि बापकी ओरसे यह उज्वेक या छिड़-गिस्के वंशज होनेका अभिमान कर सकते थे, लेकिन पैगंबर मुहम्मदकी बेटीकी संतान होनेके कारण आगे अब अस्त्राखानी खानोंने अपने नामके साथ सैयद लगाना शुरू कर दिया। इमामकुल्लीका दीर्घकालीन शासन अस्तवैदकी उन्नति और समृद्धिका समय था। उसके शासनकी यह एक और भी विशेषता थी, कि इसने बिना किसी युद्ध और विजयकी लूट-पाटके अपने राज्यको खुशहाल बनाया। अपने भाई नादिर (नजर) को इसने बलखका राज्यपाल बनाकर मुगल-साम्राज्य की सीमापर रख दिया। इमामकुल्ली दृढ़ शासक होते हुये भी बड़ा ही धार्मिक, शिक्षित, सत्संग-प्रेमी और स्पष्ट वक्ता था। राजधानी बुखारा इस समय धन-जन, कला-सौंदर्यसे भरी फल-फूल रही थी। इमामकुल्लीका पड़ोसी शाह अब्बास शक्तिशाली होते हुये भी एक बार भारी मुंहकी खा चुका था। हां, उत्तरके कजाक और कल्मक अब भी खतरनाक थे, जिसके लिये इमामकुल्लीको १६१२ ई०में कजाकों और कल्मकोंको हरानेके लिये सिर-दरियाके उत्तरमें अशगरा और कराताग-तक जाना पड़ा। उसने अपने इकलौते पुत्र इस्कन्दरको ताशकन्दका राज्यपाल बनाया। कुछ ही समय बाद वहां विद्रोह हो गया, जिसमें पुत्र मारा गया। विद्रोहको दवानेके लिये इमामकुल्लीने अपने भाई नादिरको भी बलबसे बुला लिया, और सारी सेना लेकर ताशकन्दको घेर लिया। ताशकन्दियोंने प्रतिरोध करनेका निश्चय किया। इकलौते बेटेकी मृत्युसे पागल इमामकुल्लीने शपथ कर ली थी, कि मैं तबतक हत्याकांडको बन्द नहीं करूंगा, जबतक कि ताशकन्दियोंका खून मेरी रिकाबतक न पहुंच जाये। नगर सर होनेपर लूट-मार शरू हुई। कुछ घंटोंके कत्लके बाद लोगोंने खानको बहुत समझाया, लेकिन वह तो प्रतिज्ञा कर चुका था। तब मानवरक्तसे भरे एक हौजमें घोड़ेपर चढ़कर वह खड़ा हुआ। खून रिकाबतक पहुंच गया, खानकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, और निर्मम हत्या बन्द हुई। लेकिन यह विजय स्थायी नहीं थी। कुछ ही सालों बाद कजाकोंने ताशकन्दको फिर अपने हाथमें कर लिया। इमामकुल्लीने भी संघर्षको बेकार समझकर कजाकखान तुरसुनसे सुलह करके १६२१ ई०में ताशकन्दको उसके हाथमें दे दिया।

इमामकुल्लीके ऊपर इकलौते पुत्रकी मृत्यु और ताशकन्दमें वहीं खूनकी नदीका, जान पड़ता है, बड़ा भारी प्रभाव पड़ा था। वह कितनी ही बार शाही लिबासको छोड़ फकीरोंका चोगा पहिन बुखारामें धूमता था। उस समय उसका वजीर नजर दीवानबेगी और उसका भक्त अब्दुल वसी भी साथ रहता था। इस प्रकार वह अपनी आंखों प्रजाकी दशा देखना चाहता था। कवि "तुराबी" और मुल्ला "नखली" उसके बड़े कृपापात्र थे। खान खुद भी कवि था। एक तरफ मुल्ला किसी सुन्दरीपर मुग्ध हो गया। त्योहारके लिये प्रेमिकाके पास सुन्दर पोशाक भजकर उसने अपने प्रेमका परिचय देना चाहा, लेकिन मुल्लाके पास इतना धन नहीं था। सोचा "माले-काफिरां हस्त बर-मोमिन

हलाल" (काफिरोंका माल मुसलमानोंके लिये हलाल है)। उस समय क्या बोल्शेविक क्रांतिके होनेतक हिन्दू जौहरियों और महाजनोंकी कितनी ही दूकानें बुखारामें थीं। मुल्लाने हिन्दू जौहरीकी दूकान तोड़नेका निश्चय किया और अपने दो नौकरोंके साथ वहाँ पहुँचकर आसानीसे दरवाजेको खोल लिया। फिर रत्नोंकी एक पिटारीके साथ निकलकर सड़कपर आया। इसी बीच आहट पा हिन्दू जौहरी जाग उठा और हल्ला मचाते हुये जाकर उसने मुल्लाकी गरदन पकड़ी। उधर मशाल हाथमें लिये पहरेदार भी पहुँच गया। मुल्लाने तुरन्त मारकर मशालको गिरा दिया, और अंधेरेमें बोल उठा—“ओह, नजर दीवानबेगी, तुमने बड़ा मूर्खतापूर्ण मजाक किया।” जवाब मिला—“आला हजरत (परमभट्टारक), मैं नहीं, यह अब्दुल वसी कुरजी था।” पहरेवालेको जब मालूम हुआ, कि खानका दल भेस बदले आ पहुँचा है, तो वह डरकर भाग निकला। हिन्दू जौहरीने खानसे प्रार्थना करते पहरेवालेके कर्तव्य न पालन करनेकी शिकायत की। पूछ-ताछ करनेपर मुल्लाके प्रेम और साहसकी सारी बातका पता लग गया। खानने जौहरीके मालको लौटवा दिया, लेकिन मुल्लाकी दिक्कतोंको देखकर उसे दंड न दे इतना पारितोषिक दिया, जिसमें वह अपनी प्रेमिकाको भेंट भेज सके।

१६२० ई०में रूसी जार मिखाइल फ्योदर-पुत्र (मृत्यु १६४५ ई०)ने इमामकुल्लीके पास यह सिखलाकर अपना दूतमंडल भेजा, कि किसीको भेंट-बखशीश न देना, खानके तख्तके पास बुलानेपर ही जाना, यदि दूसरा दूत हो, तो उसके आसनके नीचा होनेपर ही अपने आसनपर बैठना। जारका दूत बुखारा पहुँचा। महलके एक अफसरने जारके पत्रको लेना चाहा, लेकिन रूसी दूतने उसे देनेसे इनकार किया। जारकी ओरसे अभिनन्दन भेंट करते हुये जब जारका नाम लिया गया, तो खान उठकर खड़ा नहीं हुआ। इसपर दूतने कहा—“सभी राजाओंका कायदा है, जारका नाम लेनेपर खड़े हो जानेका।” इमामकुल्लीने इस ढिठाईका जवाब नरमीसे दिया—“बहुत दिनके बाद रूसी राजदूत आया है, इसलिये मैं वैसा करना भूल गया, मेरी मंशा अनादर करनेकी नहीं थी।”

इमामकुल्लीने जहाँ जारके साथ दौत्य-सम्बन्ध स्थापित किया था, वहाँ उसने अपने सिंहासना-रोहणकी सूचना देनेके लिये जहांगीरके पास भी अपना दूत भेजा था। रसीले जहांगीरने इमाम-कुल्लीकी बेगमका भी कुशल-मंगल पूछा, जो कि मुस्लिम शिष्टाचारके विरुद्ध था। लेकिन जहांगीर मुस्लिम शिष्टाचारका उतना प्रेमी नहीं था, उसका वंश मुस्लिम शरीयतसे ज्यादा छिड़-गिसी यास्साको मानता था। उसने मुस्लिम सुल्तानों और इस्लामिक रवाजोंको धत्ता बताते हुये अपने सिक्कोंपर मूर्तियां अंकित कराई थीं। जहांगीरको बुखाराके दूतने इतना ही जवाब दिया, कि मेरा मालिक सांसारिक इश्कसे मुक्त है, वह इस दुनियाकी चीजोंसे प्रेम नहीं करता। इसपर जहांगीरने तुरन्त जवाब दिया—“तुम्हारे खानने कब इस दुनियाको देखा, जो कि उसे इतना वैराग्य हो गया ?” इमामकुल्लीका दूत वैद्य था। परिहास करनेके बाद भी जहांगीरने उसे बहुत-सा सोना, जवाहर तथा जरीके काम किये हुये एक तम्बूको देकर बिदा किया। बहुत जोर देनेपर शिकारके समय खान दूतसे मिलनेके लिये राजी हुआ। दूतने सुनहले तम्बूमें सारी भेंटोंको सजा दिया। इमामने शिकारसे लौटते वक्त एक नजर डाली, फिर रहीम परवानेजीकी और मुंह करके बोला—“ले जा, इस सबको हमने तुझे दे दिया।” दूसरे दिन भारतीय दूतने दरबारमें एक तलवार पेश करते हुये खानसे कहा—“अकबर शाहको दो बढिया तलवारें मिली थीं, जिनमेंसे एकको सम्राट्ने अपने लिये रख लिया है, और दूसरेको उसने अपने भाईके पास मित्रताके चिह्नके तौरपर भेजा है।” खानने हाथमें लेकर तलवार-को मियानसे निकालना चाहा, किन्तु वह नहीं निकली, इसपर उसने कहा—“तुम्हारी तलवारोंका निकालना बहुत मुश्किल है।”

दूतने जवाब दिया—“केवल यही ऐसी है, क्योंकि यह शांतिकी तलवार है, अगर यह युद्धका हथियार होती, तो अपने मियानसे तुरन्त निकल पड़ती।”

“नखली” और “तुराबी” दोनों दरबारी कवियोंमें प्रतिद्वन्द्विता रहा करती थी। खानने उनके बारेमें हिन्दी दूतकी राय पूछी, जिसने तुरन्त जवाब दिया—“ओ खान, तुराब (मिट्टी)से ही

नखल (खजूर) उगती है।" इस तरह उसने दोनों कवियोंको प्रसन्न रखनेकी कोशिश की। जहांगीर-का दूत १०३६ हि० (२२ सितम्बर १६२६ ई०—१३ अगस्त १६२७ ई०)में बुखारासे लौटा। इसके बाद ही जहांगीर मर गया और शाहजहां गद्दीपर बैठा। मुगल बाबरके समयसे ही अपने पूर्वजोंकी भूमिकी ओर चाहभरी दृष्टिसे देखा करते थे। इसी इच्छाको पूरी करनेके लिये शाहजहां एक बड़ी सेना ले काबुलसे आगे बढ़ा। खबर पाकर इमामकुल्ली भी अपने भाई नादिर, दस भतीजोंके साथ एक बड़ी सेना ले बलख पहुंचा। सभी पैदल थे, सिर्फ इमामकुल्ली घोड़ेपर सवार था। लोग भेंट करनेके लिये आये। इमामके लिये रास्तेमें पावड़े बिछा दिये गये। बड़ा स्वागत हुआ। फौजी तैयारी करते इमामकुल्लीने दादखा हाजी मंमूरको दूत बनाकर शाहजहांके पास काबुल भेजा। शाहजहांने कहा—“मैं तो सिर्फ सूबोंको देखनेके लिये आया हूं।” नादिरकी शियोंसे मित्रता थी, जिससे ईरानके साथ उसका अच्छा सम्बन्ध रहा, तो भी मेवके लिये एक बार उसने असफल कोशिश की। १६२१ ई०में भी नादिरने पायन्दा मिर्जाको दूत बनाकर उसके द्वारा पचास तुर्किस्तानी घोड़े मुगल-दरबारमें भेजे थे। अड़तीस सालके शासनके बाद इमामकुल्लीने अपने भाई नादिरको बलखसे बुलाकर राज्य सौंप दिया। इस समय वह बीमारीके कारण अन्धा हो गया था। जुमाकी नमाजके बाद उसने अपने सामने भाईके नामका खुतबा पढ़वाया और फिर अन्तिम जीवन बितानेके लिये मदीनेका रास्ता लिया। सारे लोग यह दृश्य देखकर रो रहे थे।

५. सैयद नादिर मुहम्मद, नाजिर, नासिर, दीन मुहम्मद-पुत्र(१६४२-४७ ई०)

नादिरके खजानेमें अपार धन था, जो आठ हजार ऊंटोंका भार (चालीस हजार मन) आंका जाता था। उसकी घोड़सालमें आठ हजार घोड़े थे। उसके पास कीमती छालें पैदा करनेवाली अस्सी हजार करानकुल भेंड़ें थीं, कीमती गुलाबी साटनसे भरी चार सौ सन्दूकें थीं। इतनी सम्पत्ति उसे मिली थी। वह उसे बांटकर नाम कमाना चाहता था, लेकिन भाईने प्रजारंजनद्वारा जितनी कीर्ति अर्जित की थी, वह उसे मिलनी संभव नहीं हुई।

नादिर-पुत्र अब्दुल अजीजने पिताके रुष्ट होनेपर उसे मनानेके लिये क्षमापत्र लिखा। दूसरा भाई सुभानकुल्ली समझाने गया। विद्रोह दबानेके लिये भेजा गया पुत्र कुतुलुक सुल्तान विद्रोह करके कुंदुजके किलेमें दुर्गबद्ध हो गया। पिताकी आज्ञा पा किला सर करके सुभानने उसे मरवा डाला। इसपर नादिरने कहा, कि मैंने मारनेके लिये नहीं कहा था। सुभान महत्त्वाकांक्षी था। वह चाहता था कि मुझे “कलाखान” (महासेनापति)की पदवी प्राप्त हो। न मिलनेपर बापसे बागी हो उसने बापके खिलाफ दिल्लीके बादशाह शाहजहांसे मदद मांगी। शाहजहांने अपने दोनों पुत्रों मुरादबख्श और औरंगजेबको एक बड़ी सेना देकर भेजा। खुसरू सुल्तानने बलखमें प्रतिरोध करना चाहा, लेकिन उसे बन्दी बनाकर भारत भेज दिया गया। किसीने इसी बीच नादिरको बतलाया, कि हिन्दी सेना तुम्हारी मददके लिये नहीं, बल्कि बलखपर अधिकार करने आई है। इसपर नादिर रातको ही अपने खजानेको जमा करके शाहपुरगान और अन्दखुदकी ओर से भागकर शाह अब्बास II के पास चला गया। उसकी मां इमामरजाकी संतान थी, इसलिये अब्बासने उसका बड़ा सम्मान किया। उधर चगताई (शाहजहांकी) सेना आगे बढ़ती गई, और उसने वक्षुके दक्षिणके नगरोंमें अपने शासक नियुक्त किये। सारे उज्बेक भागकर वक्षुपार चले गये। दो सालतक आमू दरिया (वक्षु) और हिन्दूकोहके बीचके प्रदेशपर शाहजहांका शासन रहा। भारत जैसे गरम मुल्कके सैनिक यहांकी सर्दिके मारे परेशान थे। मुगल इतिहासकारने लिखा है—“जो घरसे बाहर निकलते, वह ठंडा होकर मर जाते, और जो भीतर रहते, वह अपनेको गरम करनेके लिये आगके सामने झुलसते रहते।” भारतीय सेनाने, इसमें शक नहीं, हिन्दूकोह पार करके इस इलाकेको बहुत बरबाद कर दिया, जिसके कारण बलखमें अकाल पड़ गया। १०६० हि० (४ जनवरी १६५० ई०—२५ नवम्बर १६५० ई०)के जाड़ोंमें एक खरबार (गदहेका बोझ) अनाजका दाम हजार फ्लोरिन (रुपये) था। जाड़ा बहुत ही सख्त था। अन्तमें जब हिन्दी सेनाको लौटनेके लिये मजबूर होना पड़ा,

तो एक और हिन्दूकोह (हिन्दूकुश) के ऊंचे दरोंकी सर्दीने भारी संख्यामें बलि लेनी शुरु की और दूसरी ओर उज्बेक सैनिकोंने उन्हें गिद्धकी तरह नोचना शुरु किया। हजारोंकी संख्यामें लोग रास्तेमें मर गये। अगले साल "तारीख मुकीमखानी" का लेखक जब दूत बनकर इसी रास्ते भारतकी ओर आ रहा था, तो उसने सब जगह भारतीयोंके कंकालोंके ढेर देखे।

सेना लौटानेसे पहले शाहजहांने नादिरको अपना राज्य संभाल लेनेके लिये कहा। नादिर लौटा, लेकिन उसके बेटोंमें झगड़ा हो गया, जिसपर नाराज हो नादिरने राज्यको वांटकर* मदीनेका रास्ता लिया। वह रास्ते ही में मर गया, पर उसकी लाश मदीनेमें उसके भाईके पास दफनाई गई।

नादिर खानके प्रिय पुत्र कासिम सुल्तानके बारेमें इतिहासकारोंका कहना है, कि अस्वाखानियोंमें कोई इतना बहादुर, बुद्धिमान, उदार और साहसी नहीं हुआ। वह अच्छा कवि और सुन्दर गद्य-लेखक था। एक हजार शेरोंका उसका दीवान (कविता-संग्रह) मौजूद है, जिसमें उसने सायब इस्पहानीका अनुसरण करते बहुतसी रचनायें की हैं। "तुराबी" और "नखली" दोनों इस समयके कवि थे, इसे हम बतला आये हैं।

बुखारामें अब युरोपके नये हथियारोंका प्रचार हो चला था, लेकिन उलुगवेगके बाद विज्ञानकी ओर बढ़नेका कोई प्रयत्न नहीं हुआ। अब तो वहां धर्म और मुस्लिमोंने अपना एकच्छत्र राज्य कायम कर दिया था। शैबानियोंके शासनके अन्तिम कालमें युरोपीय व्यापारी अन्थनी जेंकिन्स १५५८-५९ ई० में बुखारा पहुंचा था, इससे पहले पोलो भ्रातृ-युगल तीन साल (१२६४-६७ ई०) बुखारामें रहे थे, जब कि चगताई खानोंका राज्य था और बुखाराकी कोई प्रधानता नहीं थी। बुखारा पहले भी समय-समयपर अन्तर्वेदकी राजधानी रहा, किन्तु अस्वाखानियोंके शासनके आरम्भ होनेके साथ-साथ वह अब स्थायी राजधानी बन गया।

६. सैयद अब्दुल अजीज, नादिर-पुत्र (१६४७-८० ई०)

गद्दी संभालनेके बाद अब्दुल अजीजने अपने भाई बलख-शासक सुभानकुल्लीको रास्तेका कांटा समझ हटाना चाहा। इस कामके लिये उसने अपने दूसरे भाई (कवि) कासिम मुहम्मदको भेजा। लेकिन कासिमको हारकर हिसारकी ओर भागना पड़ा, और सुभानकुल्लीको युवराज कबूल करके समझौता करना पड़ा। ख्वारेज्म बहुत समयसे अस्वाखानियोंके अधीन रहता चला आया था, लेकिन १६६३ ई०में अबुलगाजीने स्वतन्त्र होनेका निश्चय कर लिया। वह निम्न-वक्षु-उपत्यकासे बुखारियोंको भगाते हुये अन्तर्वेदके भीतर घुस आया। करमीनामें अब्दुल अजीजने उसे हराया। अबुलगाजीने घायलकी हालतमें नदी तैरकर अपनी जान बचाई। लेकिन उन्को एक हारसे हार माननेवाले थोड़े ही होते हैं? अबुलगाजीने दूसरी बार तैयारी की, और अन्के लूटने-पाटते वह बुखाराके दरवाजेतक पहुंच गया। उसका उत्तराधिकारी और पुत्र अनुशा खान और भी साहसी निकला। उसने १०७६ हि० (१४ VII १६६५-४ VI १६६६ ई०)में एक बड़ी सेना लेकर चढ़ाई की। उस वक्त अब्दुल अजीज करमीना गया हुआ था। उसकी अनुपस्थितिमें अनुशाने बुखारापर अधिकार कर लिया। अब्दुल अजीज भी कम साहसी नहीं था। वह केवल चालीस अनुयायियोंके साथ बुखाराके अर्क (किले)में घुस गया और लोगोंको युद्ध करनेके लिये तैयार किया। ख्वारेज्म वालोंके सभी विरुद्ध हो गये और सामूहिक शक्तिके बलपर अब्दुल अजीजने अनुशाको बुरी तौरसे हराया। अब्दुल अजीज शरीरमें महाकाय था, लेकिन जूता उसके पैरोंमें चार सालके बच्चे जैसा लगता था। युद्धमें वह बड़ा ही साहसी और काममें तत्पर रहता था। अपने पूर्वजोंसे उसने भी शोर्खों और सूफियोंकी आदत सीख ली थी, और कितनी ही बार दूसरे सांसारिक कामोंको छोड़कर एकांतमें ध्यान और भजन करने लगता। उसने भी अन्तमें अपने भाई सुभानकुल्लीको तख्त देकर मदीनेका रास्ता लिया।

* वांटमें सुभानकुल्लीको बलख और खोजा सालूको ऊपरी-वक्षु-प्रदेश मिला।

प्रसिद्ध सुलेखक मुल्ला हाजी इसके यहां सात सालतक रहा, और उसने खानके लिये "हाफिज" का दीवान उतारा ।

७. सैयद सुभानकुल्ली, नादिर-पुत्र (१६८०-१७०२ ई०)

गद्दीपर बैठनेके बाद इसने अपने पुत्र इस्कन्दरको "कलाखान" बनाया, लेकिन दो वर्ष बाद उसके भाई मंसूरने जहर देकर उसे मरवा दिया । पिताने फिर तीसरे पुत्र अब्दुल्लाको बनाया, उसे भी दूसरे बेटेने कत्ल करवा दिया । बेटोंके इस विद्रोहसे वह बहुत परेशान था । उसके मंत्री मुकीम खानने व्यापारियों और कारीगरोंपर भारी टैक्स लगाकर चीन और युरोपके कारीगरोंद्वारा बनाई सुन्दर कलाकी चीजों और गोटेवाले मखमल लिये । चार महीने बाद वह भी षड्यंत्रका शिकार हुआ । फिर चौथे पुत्र मंसूरको राज्यपाल बनाया ।

इसी समय खीवासे भी झगड़ा उठ खड़ा हुआ । खीवाके अमीरने १०९५ हि० (२० XII १६८३-९ XI १६८४ ई०)में बुखारापर चढ़ाई की । सुभानकुल्लीके सेनापति मुहम्मद बीने उसे मार भगाया, लेकिन दूसरे साल फिर उसने आक्रमण किया । इसके बाद ११०० हि० (२६ X १६८८-९ IX १६८९ ई०)में खीवाका खान बुखाराके दरवाजेतक पहुंच आया था । अब भी मुहम्मद बीने उसे बुरी तरहसे हराकर पीछे भगाया । कुछ समयके लिये खीवाने सुभानकुल्लीकी अधीनता भी स्वीकार की ।

ख्वारेज्मका खान अनुशा बड़ा शक्तिशाली शासक था । उसे भगानेमें मदद देनेके लिये सुभानकुल्लीने अपने बेटे सादिकको बुलाया, लेकिन उस वक्त उसके शासित इलाके (बलख)में भी भीतरी-बाहरी झगड़े थे, इसलिये वह वहां लौट गया । इस बेतुक्मीके लिये सुभानने अपने बेटेको वंद देना चाहा, इसपर उसने बगावतका झंडा खड़ा कर दिया । उसने इससे पहले अपने दो भाइयों अब्दुल गनी और अब्दुल कयूमको मारकर औरंगजेबके पास मैत्री करनेका प्रस्ताव किया । यह खबर सुनकर १६८५ ई०में सुभानकुल्ली अपने पुत्रके विरुद्ध खानाबाद पहुंचा, जहांसे उसने बहुत स्नेहपूर्ण पत्र भेजकर उसे क्षमा कर देनेका वचन दिया, किन्तु जब पुत्र आया, तो उसके पैरोंमें बेड़ी डलवा कालकोठरीमें बंद कर दिया, जहां वह तीन महीने बाद (१६८६ ई०में) मर गया ।

इस समय तुखारिस्तानके दो कबीलों भेमना-अन्दखुदवाले मिंग, और बलखके पासके क्पचकोंमें बड़ी लड़ाई थी । सुभानकुल्लीने मशहदकी तीर्थयात्रा करनेकी सोची । इसी वक्त खीवाके खान अनुशाके बुखाराकी ओर लूटपाट करनेकी खबर आई । सुभानकुल्ली आया और उसके सेनापति मुहम्मद बीने खीवाकी सेनाको बुरी तरह हराया । अनुशा अपने ही लोगोंद्वारा मारा गया, और उसका पुत्र एरेंग सुल्तान ख्वारेज्मकी गद्दीपर बैठा ।

औरंगजेबको दिये वचनके अनुसार सुभानकुल्लीने महमूद जान वीके नेतृत्वमें खुरासानपर एक सेना भेजी, जो देशको लूटकर बहुतसे स्त्री-बच्चोंको बंदी बना लौट आई । इसी बीचमें एरेंगकी सेनाने फिर बुखारापर धावा किया । दस दिनतक बुखारावालोंने मुकाबिला किया, लेकिन जबतक बदशा-बलखका राज्यपाल महमूद बी अतालीक नहीं पहुंचा, तबतक ख्वारेज्मियोंको दबाया नहीं जा सका । अतालीकके आनेपर ख्वारेज्मियोंकी हार हुई और खीवाके आदमियोंने षड्यंत्र करके एरेंग खानको मार डाला । सुभानका शासन खीवावालोंने स्वीकार किया । १६८७ ई०में वहां उसके नामका खतवा और सिक्का चला और सुभानने शाहनियाज इशिक आकाको वहांका राज्यपाल नियुक्त किया । सुभानका तुर्कीके सुल्तान अहमद II (१६९१-९५ ई०)के साथ भी दौत्य-संबंध था, जिसके पास प्रशंसा करते हुये उसने अपने पत्रमें लिखा था—“फ्रेंक काफिरों और अभागे अर्धामियों (क्विलवासों) को भूतलसे नष्ट कर देने-जैसे अल्लाहके महान् काममें आप लगे हैं ।” मुस्लिम जगत्में इस समय बुखाराका नाम बड़े गौरवसे लिया जाता था । औरंगजेबने सुभानकुल्लीके पास दूतके साथ एक हाथी और कितनी ही और मूल्यवान् भेंटें भेजीं । तुर्कीका सुल्तान अहमद II उसे प्रशंसापूर्ण पत्र लिखते समय “भाई”के नामसे संबोधित करना नहीं भूलता था ।

सुभानकुल्लीको पढ़ने-लिखनेका भी शौक था। उसने ग्रीक-चिकित्सकों—गेलन और हिप्पोक्रेत— तथा बूअली सेनाकी पुस्तकोंके आधारपर तुर्की भाषामें वैद्यकपर एक पुस्तक लिखी, जिसमें रोगमुक्तिके एक बड़े साधन गंडा-ताबीजको लिखना वह नहीं भूला।

अस्सी सालकी उमर हो जानेपर उसने अपने पुत्र मुकीमको बलखसे बुलाकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और १११४ हि० (२८ V १७०२-१८ IV १७०३ ई०) में मर गया।

८. मुकीम, सुभानकुल्ली-पुत्र (१७०२-७ ई०)

मुकीम खानको गद्दी संभालते ही अपने बड़े भाई अबैदुल्लाके विरोधका सामना करना पड़ा। मंगीत कबीलेका शक्तिशाली सरदार रहीम बी बड़े भाईका समर्थक था, इसलिये पांच सालतकके बड़े संघर्षके बाद मुकीमको अपने हाथमें शक्ति लेनेमें सफलता मिली।

९. अबैदुल्ला I, सुभानकुल्ली-पुत्र (१७०७-१७ ई०)

अब अस्त्राखानी वंशमें भी गुड़िया सुल्तान होने लगे। अबैदुल्ला, मंगीत-सरदार रहीम बीके हाथका कठपुतली था।

१११५ हि० (१७ V १७०३-४ IV १७०४ ई०)में कंकुरत कबीलेवालोंने अबैदुल्लाके शहर खानाबादपर आक्रमण किया। अतालीक महमूद बी उनसे लड़ने गया, जिसमें उसका भाई अबदुल्ला मारा गया। महमूद बीने इस खतरनाक कबीलेको पूरी तौरसे दंड देनेके लिये आज्ञा मांगी, क्योंकि उन्होंने वधुकी भूमिमें लूट-मार मचा रखी थी। मुकीम खानकी आज्ञा पा महमूद बी जल्दी-जल्दी कूच करते हुये तीन दिनमें कबादियान किलेपर पहुंचा, जिसे कि कंकुरतोंके सहायक दुश्मन कबीलेने दखल कर रक्खा था। महमूद बीके सामने उन्होंने आत्मसमर्पण किया। कबादियानमें एक सेना रख महमूद बी कंकुरतोंके विरुद्ध चला, जो अपने डेरे और चीज-वस्तुओंको छोड़कर भाग गये। महमूदने बहुतोंको मारा, लेकिन दुश्मनोंके पामीरके पहाड़ोंमें भागकर छिप जानेपर पीछा करना आसान नहीं था। अतालीक महमूद बीने धन ले लड़कों-बच्चोंको छोड़ दिया। फिर उसने तंगि-दीवान और बंदे-हरमकी ओर उनका पीछा किया और ककाई किलेमें डेरा डाल चारों ओर सेना भेजकर कंकुरत कबीलेको नष्टप्राय कर दिया। जब वह बलख लौटा, तो मुकीमने उसे और उसके साथियोंको बहुत मूल्यवान् खिलअत तथा दूसरी भेंटें प्रदान कीं।

१०. अबुल्फैज, सुभानकुल्ली-पुत्र (१७१७-४७ ई०)

अबैदुल्ला खान अतालीक रहीम बीसे-झगड़ पड़ा, जिसके लिये उसे अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा। रहीमने उसकी जगह अबुल्फैजको खान बनाया। उज्बेकोंने इसके समय भी खुरासानपर आक्रमण करना जारी रक्खा। ऐसे ही एक आक्रमणमें उन्होंने नादिर (पीछे दिल्ली लूटनेवाले महान् विजेता नादिरशाह)को पकड़ लिया था। १७१८ ई०में उज्बेकोंने अब्दाली-अफगानोंके सरदार आज्ञादुल्लासे मेल करके खुरासानको लूटा। सेफे-कुल्ली खानके अधीन तीस हजार ईरानी सेना आई, जिसने खुरासानमें बारह हजार उज्बेक-सेनाको हराया, लेकिन उसे खुद उज्बेकोंके मित्र अफगानोंसे हारना पड़ा।

१७३६ ई०में ईरानी सेनापति नादिरशाहने गुरजी (जार्जिया)में उसमानी तुर्कोंको बुरी तरहसे हराकर उत्तर-पूर्वकी ओर नजर फेरी, और उसके पुत्र रजाकुल्ली खानने अबुल्फैजकी सेनापर आक्रमण किया, लेकिन इसी समय इलबर्स खीदासे अपने उज्बेक भाइयोंकी सहायताके लिये आ गया, जिससे उनकी जान बच गई।

१२३६-३८ ई०में नादिरने कंधारका मुहासिरा करते समय अपने पुत्र रजाकुल्लीको बादगियों और मरचों (मरवेचकों)के रास्ते अफगानोंके दोस्त अलीमरदांखां (अन्दखुद)के खिलाफ

भेजा । पड़ोसी घुमन्तुआने अलीमरदांका साथ छोड़ दिया और रजाकुल्लीने उसे बन्दी बनाकर बापके पास भेज दिया । रजाकुल्लीने शापूरगान और अबसी ले बलखको भी जीत लिया, फिर वक्षुपार हो अबुल्फैजकी शक्तिको नष्ट करना चाहा, लेकिन इसी समय ख्वारेज्मके खान इलबर्सने आकर फिर अपने भाई उज्जेकोंको बचा लिया । हार खानेके बाद नादिरने रजाकुल्लीको इस बहानेसे बुला लिया—“उच्च तुर्कमान कुलों तथा छिड़-गिस् खानकी संतानोंके पैतृक-देशोंपर हाथ नहीं मारना चाहिये ।”—यह अंगूर खट्टे-जैसी बात थी ।

नादिर दिल्ली लूटनेके लिये चला गया और लौटते समय पेशावरमें उसे अबुल्फैजका पत्र मिला, जिसमें लिखा था—“मैं पुराने वंशकी अन्तिम संतान हूँ । मैं तुम्हारे जैसे शक्तिशाली बादशाहका विरोध करने की काफी शक्ति नहीं रखता, इसीलिये मैं अलग रहकर तुम्हारी भलाईके लिये दुआ करता रहता हूँ । तो भी, यदि तुम मुलाकात करके मुझे सम्मानित करना चाहते हो, तो मैं एक अतिथिके तौरपर तुम्हारा उचित सत्कार करूँगा ।” अबुल्फैजने अपने दोस्त खीवाके खानको भी वैसा ही करनेको कहा । लेकिन नादिरशाहने इस चापलूसीभरी बातको बड़ी घृणाकी दृष्टिसे देखा । दिल्लीसे तीन सौ हाथियों, मोती-हीरा-जटित तम्बू, बहुत-सी सम्पत्ति और शाहजहांके प्रसिद्ध सिंहासन तख्त-ताऊसके साथ लौटकर नादिर कुछ दिनों हिरातके पूर्वके पहाड़ों (कोहिस्तान) में ठहरा । यहींसे उसने रूसी साम्राज्ञी एलिजाबेथ (१७४१-६१ ई०) तथा अबुल्फैजके पास कुछ भेंटें भेजीं ।

नादिरने अब इलबर्सके सत्यानाश करनेका निश्चय किया । वह बुखाराके सीमान्तपर वक्षुतटके करकी स्थानमें पहुंचा, जहांपर अस्त्राखानियोंका सर्वेसर्वा रहीम बी भेंट लिये उपस्थित था । वहांसे नादिर चारजूय गया । तीन दिनमें वक्षुपर नाबोंका पुल बनवाकर बहुतसी सेनाको खजानेकी रक्षाके लिये छोड़ वह बुखारासे एक मंजिल पहले कराकुलमें पहुंचा । अबुल्फैजने सुन्दर अरब घोड़ोंकी भेंट लिये अपने अमीरों और मुल्लाओंके साथ स्वागत किया । नादिरशाहने खानको बैठनेके लिये स्थान देते उसे “शाह” के नामसे सम्बोधित किया । अबुल्फैजने अपनी बेटीको नादिरशाहसे ब्याहा और नादिरने अपनी वहिनको अबुल्फैजके भतीजेके लिये दिया । रहीम बीको नादिरशाहने खानकी उपाधि देकर छ सौ तुर्कसेनाका नायक बनाया । इस तरह बुखाराको अपने अधीन कर वह खीवाकी ओर बढ़ा । इलबर्सने अधीनता स्वीकार करानेके लिये आये नादिरके दूतको मरवा दिया था । नादिर अब उसके ऊपर चढ़ा । इलबर्स खानकाहके किलेमें घिर गया । तीन दिनकी गोलाबारीके बाद इलबर्सने अपनेको नादिरके रहमपर छोड़ दिया, और खूनखार नादिरने उन्नीस प्रधान अफसरोंके साथ उसे कत्ल करवा दिया । चारजूय लौटकर नादिरने अपनी नव-विवाहिता बीबीको उसके पिताके पास भेज दिया । मेर्वके रास्ते जब वह खुरासानमें पहुंचा, तो वहीं २३ जून १७४७ ई०को उसके एक अनुचरने उसे मार डाला ।

नादिरशाहकी मृत्युकी खबर पाकर अब रहीम बीने अबुल्फैजको गद्दीपर बैठाये रखनेकी जरूरत नहीं समझी, और उसे पैमनारमें मीर अरबके मदरसेमें कैद कर दिया । ईरानी इसपर क्षुब्ध हुये, तो रहीमने कहा—“मैं तो मामूली उज्वक हूँ । नादिरशाहने तो न जाने कितने बड़े-बड़े खानदानों राजाओंको लूटा-मारा ।” ईरानी सेना जब रहीम खानको घेरनेका मंसूबा बांधने लगी, तो रहीमने गिलजई अफगानोंका कान भरा—नादिरने तुम्हारे देश कन्धारको अब्दालियोंके हाथमें दे उन्हें भूमि, स्त्री और वेतन देनेका वचन दिया है । उन्होंने उसकी बात मान ली । रहीम बीने उसी रात अबुल्फैजको मार डाला । दूसरे दिन ईरानियोंने रहीम बीसे सुलह कर ली । अपने तोपखानों, तम्बूओं और रसदके सामानको छोड़ जानेके लिये रहीम बीने उन्हें अच्छी भेंट देकर देश लौट जानेकी छुट्टी दे दी । इस प्रकार कुछ ही महीनोंमें रहीम बीने ईरानियोंके प्रभुत्वको बुखारासे खतम कर दिया ।

११. सैयद अब्दुल् मोमिन मुहम्मद, अबुल्फैज-पुत्र (१७४७ ई०)

अबुल्फैजको मारकर अभी रहीम बी सीधे गद्दीपर बैठनेके बारेमें निश्चय नहीं कर पाया था। उसने अपने दामाद तथा निहत खानके पुत्र अब्दुल् मोमिनको गद्दीपर बैठा दिया। एक दिन मीठे खरबूजे कपड़ेसे ढांककर खानके पास आये थे। बीबीने पूछा—“क्या है ?” उसने जवाब दिया—“तुम्हारे बापका शिर है, जिसने मेरे बापको मारकर देशपर अधिकार कर लिया है।” बीबीने यह बात बापसे कह दी और रहीमने अब्दुल् मोमिनको कुयेंमें ढकेलकर मरवा दिया।

१२. सैयद अब्दुल्ला II, अबुल्फैज-पुत्र (१७४७ ई०)

अफगान—अफगानोंका उत्कर्ष इसी समय होने लगा। महमूद बीके समय सुलेमान पर्वत-श्रेणीमें उनका एक छोटा-सा कबीला था, जिसने अपनी शक्ति बढ़ाते-बढ़ाते एक समय वक्षुसे सिन्ध-तटतककी भूमि ले ली। जातिकी तौरपर सिन्ध-तटतक अब भी पख्तून (अफगान) रहते हैं, लेकिन पश्चिममें काबुलके पासकी कोहदामन-उपत्यकासे ही ताजिकों, फिर हजारों और अन्तमें उज्बेकोंके इलाके आ जाते हैं। तो भी वक्षु (आमू)के तटतक अब भी अफगानिस्तानकी राज्यसीमा है। १८वीं सदीके आरम्भमें अर्थात् औरंगजेब और उसके कुछ उत्तराधिकारियोंके समयतक उज्बेकोंसे बचनेके लिये अफगान भारत और ईरानके बादशाहोंकी प्रजा बनकर उन्हें कर देते थे। लेकिन जब सफावी-वंश (१४६६-१७२२ ई०)का सितारा डूब गया, तो गिलजई कबीलेके सरदार महमूदके नेतृत्वमें अफगानोंने अस्पृहानतकपर आक्रमण करनेका प्रयत्न किया, जहाँसे नादिरने उन्हें मार भगाया। इस अन्तिम एसियाई महान् विजेताके पतन, भारतीय “मुगल”-साम्राज्यके क्षीण होने एवं उत्तरमें बुखाराके उज्बेकोंमें फैली गड़बड़ीसे फायदा उठाकर अफगानोंने वक्षु और सिंधके बीचके नादिरके जीते हुये देशको हड़प लिया। अहमदशाह दुर्रानी (अफगान-सरदार)ने नादिर-वंशज तथा तेमूरके पौत्र शाह्रूख मिजसिंसे मेल करके ११६६ हि० (८ XI १७५२-२६ IX १७५३ ई०) में वक्षुसे दक्षिणवाले इलाकेको बुखारासे छीन लिया, जिसमें मैमना, अन्दखूई, आकचा, शापूरगान, शेरपुल, खुल्म, बलख, बदख्शा और बामियान अवस्थित हैं। विजेता अफगान सेनापति बेगीखान पीछे सदर-आजम अहमदका उत्तराधिकारी बना। १२०३ हि० (२ X १७८८-२३ VIII १७८६ ई०) में तेमूरशाहको बहावलपुरके अभियानमें फंसा देख उज्बेकोंने वक्षु पार हो अपने बहुतेसे इलाकोंको फिर ले लिया। १२०८ हि० (६ VIII १७९३-३० VI १७९४ ई०) में तेमूरशाह मर गया, जिसकी जगहपर उसका पुत्र शाहजमां काबुलकी गद्दीपर बैठा। इसीके समय बुखाराके मंगीत अमीर मासूमने हमला किया, और बलख घिरा रहा। शाहजमां उस समय भारत और खुरासानके अभियानोंमें व्यस्त था, किन्तु जब उससे उसने छुट्टी पा ली, तो मासूमने लड़नेकी जगह उससे सुलह करना ही अच्छा समझा। शाहजमांके प्रतिद्वन्द्वी भाई शाह महमूदको अमीर मासूमने १२१४ हि० (५ VI १७९६-२६ IV १८०० ई०)में बुखारामें शरण दी।


बेगीखानको वक्षुके दक्षिणवाले प्रदेशके जीतनेके उपलक्षमें सदर-आजमकी उपाधि मिली। अमीर मासूम और बेगीखान मंगीती अमीर शाह मुरादकी भी उपाधि थी, जो कि रहीम बीका भतीजा था।

अस्त्राखानी कालकी इमारतोंमें मदरसा-शेरदिल भी है, जो १६१० ई०में बना था।

१३. सैयद अबुल्गाजी, इब्राहीम-पुत्र (१७४७ ई०)

रहीम बीके हाथका यह अन्तिम अस्त्राखानी कठपुतली खान था, जिसके बाद रहीमने स्वयं गद्दी संभाल ली।

असंखाखानी-वंशवृक्ष—
(१५१५-१७४७ ई०)



खीवा-खान

(१५१५-१७१४ ई०)

ख्वारेज्म अब अपनी राजधानी खीवाके नामसे प्रसिद्ध होने लगा था। ख्वारेज्मकी भूमि पश्चिममें कास्पियन और दक्षिणमें खुरासानसे अलग करनेवाले रेगिस्तान कराकुम और पूर्वमें बुखारासे अलग करनेवाले रेगिस्तान किजिलकुमसे घिरी हुई बालुका-समुद्रमें द्वीपकी तरह है—उत्तरमें अराल समुद्रके दोनों तरफ भी मरुभूमि है। इस अपार बालुका-राशिके भीतर रहते भी ख्वारेज्म हमेशासे बड़ा ही उर्वर और समृद्ध देश, तथा युरोपके साथके व्यापारका केंद्र रहा। रेगिस्तानोंके कारण ही दक्षिण और पूर्वके राज्योंकी अपेक्षा इसका सम्बन्ध बोलगा-उपत्यकासे अधिक रहा। सदियोंतक जू-छि उलुसने इसपर शासन किया। बहुत पीछे सफावियोंने मौका पाकर खीवाको अपने हाथमें कर लिया। लेकिन, जब उज्बेकोंने मुहम्मद शैबानीके नेतृत्वमें अन्तर्वेदको जीता, तबसे उज्बेकोंकी ही प्रधानता खीवापर भी हो गई। १५१० ई०में शैबानीको हराकर शाह इस्माईलने ख्वारेज्मको बांटकर वहां अपने तीन राज्यपाल नियुक्त किये—(१) खीवा-हजारास्प, (२) उरगंज, (३) वेसिर (वेजिर)। ख्वारेज्ममें सुन्नी धर्मकी प्रधानता थी, और सफावियोंने शिया-धर्मको राजधर्म घोषित किया था। इससे फायदा उठा उमर गाजीने शियोंके विरुद्ध ख्वारेज्मियोंको उभाड़ना शुरू किया और दो साल बाद ही हुशामुद्दीन कतल नामक एक धार्मिक नेताने वेसिरके लोगोंको समझाकर उज्बेक खान बरकाके पुत्र इलबर्सको लाकर गद्दीपर बैठा दिया।

बरका खान जू-छि-पुत्र शैबानके प्रपौत्र पूलाद खानके पुत्र अरबशाहकी संतानोंमें से था। अबुलखैरके दादा इब्राहीम ओगलानका भाई यही अरबशाह सुवर्ण-ओर्दूके छिन्न-भिन्न टुकड़ोंमेंसे एकका खान था—अरबशाह और इब्राहीम दोनोंने बापकी सम्पत्तिको आपसमें बांट लिया, इस प्रकार अरबशाह भी एक छोटासा खान (राजा) बन गया। इब्राहीमके पोते अबुलखैरने अपनी शक्ति कितनी बढ़ाई, इसका वर्णन हम तेमूरी-वंशके वर्णनमें कर आये हैं। अरबशाहके बेटे हाजी तुली (तुगलक हाजी) का एक ही पुत्र तेमूरशाह था, जो कि कल्मकोंके युद्धमें मारा गया। उइगुरोंके सरदारने तेमूर-शेखकी खानमसे बिदाई देते समय पूछा, तो खानमने कहा—“मुझे तीन महीनेका गर्भ है।” इसपर उइगुर धुमन्तू थम गये। यह खबर पाकर कुछ दूर चले गये नेमन कबीलेवाले भी ठहरकर बच्चेके पैदा होनेकी प्रतीक्षा करने लगे। छिड़-गिस्के पवित्र खूनकी इतनी महिमा थी, कि अपने भावी खानकी आशामें उन्होंने अपने लाखों पशु-प्राणियोंके साथ वहां ठहर जाना आवश्यक समझा। छ महीने बाद खानमको बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम यादगार रक्खा गया। उइगुरोंने दूसरे कबीलोंके पास सूयुनजी (भेंट) भेजनेके लिये न्योता भेजा। नेमन काला घोड़ा भेजकर यादगारके ओर्दूमें लौट आये। उनके आनेपर माने गोदमें ले बापके तम्बूमें खानके आसनपर बच्चेको बिठा दिया। उइगुरोंने अधिक सम्मान दिखलानेके लिये अपने स्थानको खानके दरबारमें नेमनोंको दे दिया। इसी तरह और भी कितने ही कबीले खबर पाकर अपने खानके पास लौट आये, लेकिन उइगुर और नेमन यही दोनों उज्बेक कबीले खानके कराची (बिपत-संपतके साथी) रहे।

बड़ा हो यादगारने अपने उलुसका अच्छा नेतृत्व किया। उसके चार पुत्र हुये—बरका (बेरका), अबलेक, अमीनेक और अलक। १५वीं सदीका समय था, लेकिन अभी भी मंगोल भाषा बिल्कुल विस्मृत नहीं हुई थी, यह खानजादोंके नामसे पता लगता है। अमीन अरबी नहीं मंगोल-भाषाका शब्द है, जिसे अरबीमें जान, फारसीमें होश, और उज्बेकी तुर्कीमें तिन कहते हैं। “शैबानीनामा”में चारों पुत्रोंको बरका, अबलेक, अबका और इलवानेक कहा गया है। बरका शरीरमें बहुत ही शक्ति-

शाली था। उसके समयमें अबुलखैर दस्ते-किपचकका सबसे शक्तिशाली खान था। उसने १४५५ ई०में बरकाके नेतृत्वमें एक सेना बुखाराके खान अब्दुल्लतीफके पुत्रकी मददके लिये भेजी। उज्बेक अपने सहयोगी बुखारियोंसे झगड़ पड़े, और सोगद इलाकेके लूटके मालको ऊंटोंपर लादे लौट गये। कुछ समय बाद दो नोगाई खानों मूसाबेग और कुजाश मिर्जाके बीचमें लड़ाई हो गई। कुजाशके जीतनेपर मूसाने बरकासे सहायता मांगी—नोगाई-वंश ज्यादा सम्माननीय समझा जाता था। बरकाने इस शर्तपर सहायता देने स्वीकार की, कि मेरा पिता यादगार खान बनाया जाये और मूसा उसका प्रधान बेक (अमीर) बने। मूसाने स्वीकार किया। सफलताके बाद यादगारको सफेद नन्देके ऊपर उठाकर बाकायदा खान घोषित किया गया। यादगार खान अभियानपर चला। उसके हरावलका नायक मूसाबेग था। जाड़ेके दिन थे। जमीन बर्फसे ढँकी थी। घास-चारेका ठिकाना नहीं था। घोड़े दुबले होते गये और रसद खतम हो गई। लौट चलनेकी बात कहनेपर बरकाने इन्कार कर दिया। एक पहाड़ीपर चढ़कर देखा, तो (उस्तउर्त) के परे एक उपत्यकामें कुजाश मिर्जाके तम्बू दिखाई पड़े। बरकाने तुरन्त आक्रमण कर दिया। कुजाश पकड़कर मारा गया, और उसके डेरे लूट लिये गये। बरका सुल्तानने कुजाशकी लड़की मलाई खानजादाके साथ ब्याह किया। इस घटनाके कुछ ही समय बाद यादगार मर गया। अबुलखैरकी मृत्यु भी इससे थोड़ा ही पहले हुई थी। अबुलखैरकी मृत्युके बाद उसके उज्बेक जहाँ-तहाँ बिखर गये। उज्बेक कहावत है—“अगर तुम दुश्मनको अपने बापके घरकी ओर दौड़ते देखो, तो तुम्हें उसके साथ होकर लूटमें भागीदार बनना चाहिये।” बरका भला अबुलखैरके धन और शक्तिकी लूटमें क्यों पीछे रहता ?


कुछ सालों बाद अबुलखैरका पौत्र प्रसिद्ध विजेता मुहम्मद शैबानीका डेरा निम्न सिर-उपत्यकामें बरका-सुल्तानके पास पड़ा था। उसने अपने आदमियोंको हुक्म दिया—“रातको घोड़ोंपर चढ़कर जाओ, और सूर्योदयके वक्त बरकाके तम्बूपर टूट पड़ो, दूसरी किसी चीजका ध्यान न करके सिर्फ उसको पकड़ लाओ।” बरका अपने तम्बूमें था। उसने घोड़ोंके टापकी आवाज सुनी, और उसी समय कंधेपर एक समूरी चोगा डालकर नंगे पैर सरकंडेके जंगलोंमें घुस गया। बर्फ पड़ी हुई थी। एक सरकंडेने उसके पैरको घायल कर दिया, लेकिन वह उसकी परवा न कर सिर-दरियाके किनारे उगनेवाले उन्हीं सरकंडोंके घने जंगलमें छिपा रहा। शैबानीके आदमी इधर-उधर पूछ-ताछ करने लगे, जिसपर उड़गुर कबीलेके एक ईनक (सरदार) मुंगाने कह दिया, कि मैं ही बरका हूँ। उसे पकड़कर मुहम्मद शैबानीके पास ले गये। शैबानी बरकाको अच्छी तरह पहचानता था। उसने मुंगानेसे पूछा, कि तुमने झूठ क्यों कहा। इसपर मुंगाने जवाब दिया—“मैंने उसका बहुत नमक खाया है। मैं उसकी विपत्ति-संपत्तिमें साथी रहा हूँ। मैंने सोचा, यदि मैं उसका पीछा करनेवालोंमेंसे कुछको इस तरह फंसा रखूँ, तो उसे भागनेका अच्छा मौका मिलेगा। बाकी, अब जो तुम्हारी मर्जी हो, मेरे साथ करो।” शैबानीने प्रसन्न हो उसे इनाम देकर छोड़ दिया। उधर शैबानीके कुछ आदमी खूनसे पता पा बरकाको पकड़ लाये। शैबानीने उसे मार डाला, और उसके शिविरको लूट लिया। बरकाकी विधवा खातून अबुलखैरके द्वितीय पुत्र खोजा मुहम्मद सुल्तानकी बीवी बनी। उसे पहले ही गर्भ था, जिससे जानीबेग (अब्दुल्ला खानका दादा) पैदा हुआ। बरकाके पहले हीके दो पुत्र इलबर्स और बलबर्स थे, जिनमें बलबर्स दोनों पैरोंसे लुंज था। इन्हीं दोनों भाइयोंमेंसे एक इलबर्सको हुशामुद्दीनने वेसिरकी गद्दीपर बैठाया।

राजावलि—बरका-वंशी खीवा-खान निम्न प्रकार हुये—

१. इलबर्स, बरका-पुत्र
२. सुल्तान हाजी, बलबर्स-पुत्र
३. हसनकुल्ली, अबलेक-पुत्र
४. सोफियान, अमीनेक-पुत्र
५. बुजुगा, अमीनेक-पुत्र
६. अवानेक, अमीनेक-पुत्र

१५१५ ई०

७. काल, अमीनेक-पुत्र	१५३९-४६ ई०
८. अकताई, अमीनेक-पुत्र	१५४६ "
९. दोस्त, बुजुगा-पुत्र	१५५६ "
१०. हाजी मुहम्मद, अकताई-पुत्र	१५५६-१६०२ "
११. अरब मुहम्मद, हाजी मुहम्मद-पुत्र	१६०२-२१ "
१२. इसफन्दियार, अरब-पुत्र	१६२२-४२ "
१३. अबुल्गाजी, अरब-पुत्र	१६४३-६३ "
१४. अनुशा, अबुल्गाजी-पुत्र	१६६३-८६ "
१५. एरेंग, अनुशा-पुत्र	१६८६-८७ "
१६. शाहनियाज	१६८७-१७०२ "
१७. अरब मुहम्मद, अनुशा-पुत्र	१७०२ "
१८. हाजी मुहम्मद, अनुशा-पुत्र	१७१४ "
१९. यादगार, अनुशा-पुत्र	



१. इलबर्स, बरका-पुत्र (१५१५ ई०)

इलबर्सको बुलाकर इधर छिपा रक्खा गया और उधर षड्यंत्रियोंने घृणास्पद शिया ईरानियोंके ऊपर आक्रमण करके उन्हें मार डाला, केवल एक ईरानी भागकर जान बचा पाया। दूसरे दिन ईरानी राज्यपालके महलमें लाकर इलबर्सको खान घोषित किया गया। उज्बेक और सरत (फारसीभाषी) दोनों ही सुन्नी होनेसे शियोंके साथ घृणा करते थे। उन्होंने इस समय बड़ा उत्सव मनाया। इसके बाद यंगी शहर और तेरसेकने भी इलबर्सकी सेनाके सामने शिर झुकाया। इलबर्सने अपने भाई बलबर्सको “बिलिकिच”की उपाधि दे यंगीशहरका शासक बनाया। उरगंजमें अभी ईरानी राज्यपाल सुल्तानकुल्ली अरब शासन कर रहा था, लेकिन तीन ही महीने बाद इलबर्सने सुल्तानकुल्लीको भी महलमें पकड़कर सभी नौकरोंके साथ मार डाला। हजारास्प और खीवाकी छावनियोंने वहाँके सरतोंसे राय पूछी, तो उन्होंने रहनेके लिये जोर दिया। दशतिकपचकसे अब इलबर्सने अपने भाई-बंधोंको बुलाया और बूढ़े उइगुरकी बात नहीं मानी—“उज्बेकोंमें बादशाहकी महिमा अपने अधीनोंके प्रेमपर निर्भर करती है।” यादगारके सभी पुत्र मर चुके थे, किन्तु अबलेक खानका एक पुत्र और अमीनेक खानके छ पुत्र अपने परिवारों और ओर्दूके साथ आकर उरगंजमें बस गये। इलबर्स स्वयं वेजिरमें रहता था। उसके भाई-बंधोंने खीवा और हजारास्पको इतना लूटा और बरबाद किया, कि इन शहरोंको और कातको भी ईरानी छोड़ गये। १५२३ ई०में शाह इस्माईल मर चुका था। खुरासान पर्वतश्रेणीके उत्तरवाले महीने और देरूनतक उसके सभी राज्यपाल अपने स्थानोंको छोड़कर भाग गये। उज्बेकोंके लिये खुरासानियों और तुर्कमानोंके ऊपर लूटके अभियान करनेकी छूट मिल गई। इन अभियानोंमें लुंज बलबर्स रथपर चढ़कर अगुवा बनता था। किजिल-बासोंपर विजय प्राप्त करनेके उपलक्षमें इलबर्सके सात पुत्र गाजी (धर्मयोद्धा) कहलाये।

२. सुल्तान हाजी, बलबर्स-पुत्र

इलबर्सके मरनेपर दोनों भाइयोंके पुत्रोंमें सबसे बड़ा सुल्तान हाजी गद्दीपर बैठा, किन्तु राज्यकी सारी शक्ति उसके चचेरे भाई सुल्तान गाजीके हाथमें रही। सुल्तान गाजी बहुत ही धनी और स्वेच्छाचारी था। एक साल राज्य करनेके बाद सुल्तान हाजी मर गया, और उसके बाद यादगार-वंशकी ज्येष्ठतम संतान होनेसे हसनकुल्लीको खान बनाया गया।

३. हसनकुल्ली, अबलेक-पुत्र

उरगंजको इसने अपनी राजधानी बनाया। इलबर्स और अवानेकके पुत्रोंने इसके ऊपर आक्रमण किया, और मुहासिरेके कारण उरगंजमें भूखमरी शुरू हो गई। चार महीने बाद उसने आत्म-समर्पण किया। हसनकुल्लीपर अगकनाईके वधका दोष लगाया गया था, जिसके लिये उसके ज्येष्ठ पुत्र बलाल सुल्तानको मारकर बदला लिया गया। हसनकी विधवा और दूसरे पुत्र समरकंद भेज दिये गये।

४. सोफियान, अमीनेक-पुत्र

अमीनेक (अवानेक)का पुत्र सोफियान उरगंजमें खान बना। खानजादोंमें रियासतोंका फिरसे वितरण किया गया, जिसमें बरका सुल्तानके पौत्रोंको वेजिर, यंगीशहर, तेरसेक, देरून, खुरासान और मंगिशलकके तुर्कमान मिले। अवानेक खानके चार पुत्रोंको खीवा, हजारास्प, कात, बलदुमाज, नीकीची सूबूई (नदी-तटका इलाका), बगाबाद, निसा, अबीबर्द, चिहारदेः, मेहीनेः, जेजेः तागबुई (पहाड़ी इलाका), और साथ ही आमू, बलखान और देहिस्तानके तुर्कमान भी मिले। उस समय अबुल्गाजीके अनुसार वक्षु नदी बलखानमें कास्पियन समुद्रमें गिरती थी, और आजकल जहां विकराल रेगिस्तान खड़ा है, वहां बहुतसे समृद्ध ग्राम और नगर बसे हुये थे। पांच शताब्दियों बाद, अब फिर कास्पियन समुद्रकी और वक्षुकी एक धारा मनुष्योंके हाथोंद्वारा मोड़ी जा रही है, जिसके कारण फिर इस मृत भूमिमें जीवन संचार होनेवाला है। बलखानके नजदीक रहनेवाले इरसारी तुर्कमानोंने कुछ

समयतक सोफियानको कर दिया, इसके बाद खानकी ओरसे कर उगाहनेके लिये जब आदमी भेजे गये, तो उन्हें इन घुमन्तुओंने मार डाला। इसपर सोफियान एक बड़ी सेना ले इरसारियों तथा पड़ोसी खुरासानके सलूरियोंके डेरोंपर आक्रमण करके लूट-मार करते बहुतसे स्त्री-वच्चों और सम्पत्तिको अपने साथ ले गया। उस समय कितने ही तुर्कमानोंने चू-तटकी निर्जल-अधित्यका (प्लेटो) में शरण ली थी। उन्हें चारों ओरसे घेर लिया गया, जिसके कारण बहुतसे प्यासके मारे मर गये। अवानेक-पुत्र अग्रताईको उन्होंने वचन दिया, कि हम तुम्हारी संतानके सदा भक्त रहेंगे। अग्रताईने बीचमें पड़कर प्रत्येक मारे गये कर-उगाहकके लिये हजार भेड़े अर्थात् कुल चालीस हजार भेड़े दंड देनेपर समझौता करा दिया। इरसारियोंने सोलह हजार, खुरासानी सलूरियोंने सोलह सौ, और तेके-सारिक-यामूत—इन तीन कबीलोंने आठ हजार भेड़े दीं। कुछ समय बाद तुर्कमानोंकी जनगणना करके उनके ऊपर निम्न प्रकार कर लगानेका निश्चय हुआ—

इतशकी सलूर (भीतरी सलूर)	१६०००,	तथा उसके ऊपर	१६००	खानकी रसोईके लिये।
हसन कबीला	१६०००	और	१६००	" " "
अरबाजी (भीतरी सलूर)	४०००	और	४००	" " "
गोकलान	१२०००	और	१२००	" " "
अदकली (खिजिर)	}	इन तीनों वधु-तटवासी कृषक कबीलोंको अपनी उपज		
अली		और भेड़ोंमेंसे कुछ कर और अदकली (सैनिक) भी देने		
तीब्रेची		पड़े।		

सोफियानके मरनेपर खीवा उसके पुत्रोंको खोरिश्के रूपमें मिला।

५. बुजुगा, अमीनेक-पुत्र

भाईका स्थान जिस वक्त बुजुगाने लिया, उस वक्त बुखाराके उवैदुल्ला खान और ईरानी शाह तहमास्पके बीचमें संघर्ष हो रहा था। ख्वारेज्मी भी इससे फायदा उठानेके लिये पील-कुपरस्कीतक जा खोजन्द और अस्पेराई (अस्त्रावादके समीप)पर टूट पड़े। शाह तहमास्पके ऊपर पश्चिमसे उसमान-अनी तुर्क भी प्रहार कर रहे थे। दुश्मनोंमें फूट डालनेके लिये शाह तहमास्पने छिड़-गिस् खानके खूनसे संघर्ष जोड़नेके लिये बुजुगा खानसे पुत्री मांगी। खानने अपनी पुत्री न होनेसे अपनी भतीजी तथा सोफियान खानकी पुत्री आइशाको देना चाहा। विवाहपत्र लिखवानेके लिये लड़कीका भाई आगिस सुल्तान गया। शाहने उसका कजधीनमें स्वागत-सत्कार किया और खोजन्द-शहर (ईरान)को उसे जागीरमें दिया। उसने सोनेके नौ डले, चांदीके नौ डले, अच्छी जातिके सुसज्जित नौ घोड़े, रेशमके ऊपर सोनेके काम किये नौ तम्बू तथा समुचित कालीन और तकिये, एक हजार थान रेशम, आदि बुजुगा खानके लिये भी भेंट भेजे। इसके फलस्वरूप कुछ समयके लिये ख्वारेज्मी उज्बेकोंने ईरानी सीमापर लूट-मार बन्द कर दी। काफी दिनोंतक राज्य करनेके बाद बुजुगा मर गया और उसकी जगह उसका भाई अवानेक खान बना।

६. अवानेक, अमीनेक-पुत्र

बुजुगाके तीनों पुत्रों दोस्त मुहम्मद, ईस मुहम्मद और वुहममसे पहले दोनोंको कातकी जागीर मिली। अवानेककी दो बीबियां मंगीत कबीलेकी थीं, और एक दासी थी। दासीसे उसका पुत्र दीन मुहम्मद हुआ, जो लड़कपनसे ही युद्धके खेल खेला करता था। उस समय अस्त्रावादके पासका इलाका उरगंजके उज्बेकोंके हाथमें था। दीन मुहम्मद बीस सालका हो गया। उसने इस इलाकेको अपने लिये मांगा। न देनेपर उसने चालीस सहायकोंके साथ जाकर एक तुर्कमान बेक (सरदार)के ऊंटों और भेड़ोंको लूट लिया। तुर्कमान बेकने अपने स्वामी मुहम्मद गाजी सुल्तान इलबर्स-पुत्रको इसकी खबर दी। मुहम्मद गाजीकी बहिनकी शादी हाल हीमें अवानेक खानसे हुई थी। उसने छापा मारकर दीन मुहम्मदको पकड़, लूटे मालको छीन, कुछ दिनों बंदी रख उसे हाथ-पैर बांधके घोंड़ेपर सवार करके बापके

पास भेज दिया। लेकिन दीनू (दीन मुहम्मद) ऐसा-वैसा आदमी नहीं था। उसके लिये उसके साथी अपना खून-पसीना एक करनेके लिये तैयार थे। उन्होंने रास्ते हीमें दीनूको छुड़ा लिया। दीनूने बाप और सौतेली मां तमगाज चुराको झूठी चिट्ठी लिखी, कि तमगाजकी वहिन बहुत बीमार है। वहिन और वहनौईकी चिट्ठी पाकर मुहम्मद गाजी आया, तो पता लगा, चिट्ठी जाली थी। वहिनने भाईको बहुत सावधान कर दिया। इसी समय दीनूके आदमियोंके पैरकी आहट सुनकर मुहम्मद गाजी अस्तबलमें रक्खी सूखी लीदके ढेरमें जा छिगा, किन्तु आदमियोंने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन काट दी। यह खबर वेजिरमें गई। निहत सुल्तानके भाई सुल्तान गाजीसे मिलने अली सुल्तान गया था। उसने भाईके वधका गुस्सा अली सुल्तानको मारकर निकाला—“खूनका बदला खून” घुमन्तू कबीलोंका एक सर्वोपरि विधान है। इलबर्सका ओर्दू वेजिरमें रहता था और अवानेकका ओर्दू उरगंजमें। खानने अपने कबीलेवालोंको मना किया, लेकिन वह अली सुल्तानके खूनका बदला लेनेके लिये अवीर थे। दोनोंका किर-मंगिशालकके छोरपर अवस्थित कुमकंदमें युद्ध हुआ, जिसमें अवानेककी जीत हुई। इलबर्सके खानदानको मारकर सामानको लूट लिया गया। सुल्तानकी बेवा उजुग तूत्रे अपने लड़कों और लड़कियोंके साथ बुखारा जानेके लिये छोड़ दी गई, जहांपर बलबर्स सुल्तानका भी परिवार पहलेसे ही रहता था। अब सारा ख्वारेज्म अवानेक खानके लड़कोंका था। खानने अपने लिये उरगंज रख बाकी अपने बेटे-पोतोंमें बांट दिया। दीन मुहम्मदको सुल्तान गाजीवाला देरून इलाका मिला।

सुल्तान गाजीके दो पुत्र उमर गाजी और शेर गाजी बुखारामें रहने लगे थे। उमरने बापके खूनका बदला लेनेके लिये उबैदुल्ला खानसे सैनिक सहायता ले अवानेकपर आक्रमण किया, और उसे मारकर पितृ-ऋण चुकानेमें सफल हुआ।

इस झगड़ेके बाद भी देरूनका इलाका दीन मुहम्मदके हाथमें रहा, जहां अवानेकके दो बेटे भी ख्वारेज्मसे भागकर आ गये थे। दीन मुहम्मदने खिजिर कबीलेकी शाखा अदकालीके बेक (सरदार) को सैनिक सहायता देनेके बदले तरखून (राजकुमार)की पदवी और सेनामें वामपक्षमें स्थान पानेका सम्मान प्रदान किया, तथा अदकालियोंको उज्ज्रकोंमें गिने जानेका प्रलोभन दे अपनी ओर कर लिया। इस प्रकार एक हजार अदकाली सैनिक मिले। तीन हजार और सैनिकोंको जमाकर दीन मुहम्मदने खीवापर चढ़ाई कर दी, और बुखारासे आई उबैदुल्लाकी सेना को हराकर १५३६ ई०के आसपास परिवारकी रूठी लक्ष्मीको मना लिया।

७. काल, अमीनेक-पुत्र (१५३९-४६ ई०)

लेकिन ख्वारेज्मका खान अब भी अवानेकका भाई काल खान हुआ, जिसने सात वर्षतक शासन किया। उसके समयमें ख्वारेज्म कितना धनधान्यपूर्ण था, वह इस कहावतसे सिद्ध है—“काले खानने गद्दी पकड़ी, एक पैसेमें रोटी तगड़ी।”

८. अकताई खान, अमीनेक-पुत्र (१५४६ ई०)

नये खानने वेजिरको अपनी राजधानी बनाया। काल खानके पुत्रोंको कात नगरकी, उसी तरह सोफियान खानके पुत्रों यूनस और पहलवान-कुल्लीको भी जागीर मिली थी। लेकिन, बुजुगा खान, अवानेक खान और अकताई खानके बेटोंने मिलकर अपने इन संबंधियोंको भगा दिया और वह बुखारामें शरण लेनेके लिये मजबूर हुये। छिने हुये इलाकेकी बांटमें अवानेक खानके पुत्र अली सुल्तानको देरून दिया गया, उसके भाई महमूदको उरगंज, हाजिमको बगाबाद, दीन मुहम्मदको निसा और अबीवर्द, और बुजुगाके दोनों पुत्रों ईल और दोस्तको खीवा-हजारास्प मिले। सोफियानके पुत्र यूनसने नोगाइयोंके प्रसिद्ध सुल्तान इस्माईलकी लड़कीसे व्याह किया। वह अपने चालीस अनुचरोंके साथ बुखारा जा रहा था। तूतूक उस समय निर्जन था और लोग उरगंजके पास डेरा डाले हुये थे। इसी समय यूनसको अपने पूर्वजोंकी सम्पत्तिको लौटानेका ख्याल आया, और रातमें अपने साथियोंके साथ महलमें घुसकर उसने राज्यपाल सरी मुहम्मद सुल्तानको पकड़ पहरमें अकताई खानके पास वेजिरमें

भेज दिया। सैनिक और नागरिक महमूदसे परेशान थे, इसलिये उन्होंने यूनसका स्वागत करते हुये उसे खान घोषित कर दिया। अकताई सेना लेकर आया, लेकिन उसे हारकर भागना पड़ा। यूनस और अकताईकी पुत्रीके बेटे कासिम सुल्तानने पीछा करके नानाको पकड़कर उरगंज लेजा चुपकेसे अकताईको इस तरह मार डाला, कि उसके शरीरपर कोई धावका चिह्न नहीं दिखाई पड़ता था—मालूम पड़ता था, जैसे वह स्वाभाविक मृत्युसे मरा हो। निहतकी लाशको उसके परिवारके पास वेजिरमें भेज दिया गया। मृत खानके पुत्रोंने बदला लेनेके लिये उरगंजपर चढ़ाई की, और यूनसको बुखारा भाग जाना पड़ा, लेकिन किसी अनुचरने छिपे हुये कासिम सुल्तानको पकड़ा दिया। उरगंज शत्रुओंके हाथमें गया, और कासिम कत्ल कर दिया गया। सोफियान खान और काल खानके वंशका उच्छेद हो गया और अत्रानेक खानके लड़के खुरासान भाग गये। फिर बंटवारा हुआ, अकताई खानके परिवारको वेजिर और उरगंज मिले, और बुजुगा खानके पुत्रों ईस, दोस्त और बुरुमको खीवा, हजारास्प और कातके इलाके।

९. दोस्त खान, बुजुगा-पुत्र (१५५६ ई०)

दोस्त बड़े ही नरम स्वभावका आदमी था। भाई ईसने उरगंज मांगा, और अपने लिये सिर्फ खीवाको रखनेके लिये कहा। दोस्तके देनेपर भी हाजिमने इन्कार कर दिया। इसपर ईसने हाजिमको वहांसे हटानेके लिये हमला कर दिया। सात दिनतक मुहासिरा करनेपर भी सफलता नहीं मिली। इसपर खिसियाकर उसने उद्गुर और नेमन कबीलेके आदमियोंको छोड़ बाकी सभी बंदियोंको बड़ी निष्ठुरतासे मार डाला, और फिर खीवा जाकर इन कबीलोंके उज्बेकोंको वहांसे भगाकर उनका स्थान दुश्मन कबीलेको दे दिया। कुछ समय बाद १५५६ ई०में वह फिर उरगंजपर चढ़ा, और सात दिनके असफल मुहासिरेके बाद धोखेसे सरतोंके मुहल्लोंमें घुस गया। अकताईका पुत्र नेमन उद्गुर कबीलेवालोंके साथ वेजिरकी ओर हट गया। कुछ समय बाद हाजिम मुहम्मदने अपने भाइयों तथा अत्रानेक-पुत्र अली सुल्तान एवं दीन मुहम्मद-पुत्र अबुलसुल्तानकी सहायतासे उरगंजपर आक्रमण किया। चार महीनेके मुहासिरेके बाद किला तोड़नेके लिये आक्रमण करते समय ईस सुल्तान मारा गया। कुछ सैनिकोंने खीवामें जा दोस्त मुहम्मदको भी मार डाला। इसके दो लड़के वहांसे भागकर बुखारा जा वहीं मरे। खीवा-राजवंशमें राजपरिवारोंका कत्लेआम और उच्छेद आम बात थी। अब बुजुगा खानका वंश समाप्त हो गया। यह घटना ९६५ हि० (२४ X १५५७-१४ IX १५५८ ई०) की है।

१०. हाजी मुहम्मद, हाजिम, अकताई-पुत्र (१५५६-१६०२ ई०)

हाजिम अकबरका समकालीन था। खान घोषित होते समय इसकी उमर उन्तालीस सालकी थी। इसने वेजिरको अपनी राजधानी बनाया, और अली सुल्तानको उरगंज, हजारास्प तथा कात मिले। हाजिमके भाई महमूदको आधा खीवा, उलुग-तूबे-ताश-कूनिशके तुर्कमान, दूसरे भाई तेमूरको आधा खीवा मिला। दीन मुहम्मदके पोते नूर मुहम्मदके इलाके मेर्बपर हमला किया करते थे। दीन मुहम्मदको निसा और अबीबर्द मिला था, यह हम बतला आये हैं, जहांसे वह बराबर ईरानके शियोपर जहाद किया करता था। शाह तहमास्पने सेना भेजकर अबीबर्दको छीन लिया। दीन मुहम्मद इसपर सीधे कजवीन चला गया। वह साहसका पुतला था। शत्रुके हाथ मारे जानेका उसे कोई डर नहीं था। फिर शाहकी जाली चिट्ठी लाकर उसने अबीबर्दको खाली करवा लिया। फिर एक-एक करके किजिल-बास (शिया) बादशाहके अनुयायियोंको मारा। तहमास्प उसे बंड देनेके लिये आया, तो दीन मुहम्मदने चालीस-पचास आदमियोंके साथ सीधे शाहके पास जा उसके दामन को चूमा। शाहने अपना एक हाथ उसकी गर्दनपर और दूसरा हाथ छातीपर रखकर देखा, उसकी सांस बिल्कुल स्वाभाविक-सी चल रही है। इसपर उसने आश्चर्य करते हुये कहा—“जरूर यह (हृदय) पत्थरका है।”

फिर दीनूके सम्मानमें शाहने एक बड़ी दावत की और क्षमा करके अबीबर्द भी उसे प्रदान कर दिया ।

बुखाराके खान अबैदुल्लाने मेर्वमें योलुम बीको अपना राज्यपाल नियुक्त किया था । लोगोंने विद्रोह कर दिया, इसपरतीस हजार सेना लेकर अबैदुल्ला आया । योलुमने दीन मुहम्मदसे मदद मांगी । दीन मुहम्मद अपने सवारोंके साथ उस जगह पहुंचा, जहांपर मुरगाब नदी बालुका-राशिमें अन्तर्धान हो जाती । उसने अपने सवारोंको दोनों बगलोंमें वृक्षकी डालियां बांधकर धीरे-धीरे चलनेके लिये कहा । धूलसे आसमान छा गया । बुखारी सेना उसे देखकर डर गई । एक ओरसे दीन मुहम्मदकी भारी सेना और दूसरी तरफ योलुमकी फौज, दोनोंके बीचमें पड़कर मरनेकी जगह बुखारियोंने घर लौट जाना ही अधिक पसन्द किया । दीन मुहम्मदने इस प्रकार मेर्वपर अधिकार करके अपनेको वहांका खान घोषित किया, और वहीं रहते चालीस वर्षकी उमरमें ६६० हि० (१८४१ ई०) में मरा । उसने अपने द्वितीय पुत्र अबुल मुहम्मदको अपना कलखान (युवराज) बनाया था, जो उसके बाद मेर्वकी गद्दीपर बैठा ।

एक समय अबुल मुहम्मदके पुत्र जलालने खुरासानपर आक्रमण किया । प्रतिरोधके लिये ईरानियोंने मशहदमें सेना जमा की । दोनों ओरकी सेनाओंमें लड़ाई हुई, जिसमें अपने दस हजार उज्बेकोंके साथ जलाल मारा गया । अबुल मुहम्मदको अपने इकलौते पुत्रके मारे जानेका भारी सदमा हुआ, जिसका इलाज हकीमोंने दूसरा पुत्र प्राप्त करना बतलाया । मेर्वकी एक लोली (डोम या रोमनी) स्त्री बीबीजेह तम्बुरिन बजा और चित्र खींचकर जीविका कमाती थी । उसने ब्याह नहीं किया था, किन्तु उसके पास चार सालका लड़का था । उसी लड़केको लाकर घोषित कर दिया गया कि, यह अबुल मुहम्मदका लड़का है । अबुल मुहम्मदने उसका नाम नूर मुहम्मद रखा । यही नूर मुहम्मद अशुलके मरनेके बाद मेर्वके गद्दीपर बैठा । कितने ही सालों बाद हाजिमके पुत्रोंने यह कहते हुये उसपर आक्रमण किया—“हम लोली (वेद्या) के लड़केको नहीं मान सकते ।” इसपर नूर मुहम्मदने बुखारावालोंके पास संदेश भेजा—“मैं तुम्हारी ओरसे राज्यपाल होनेके लिये तैयार हूँ ।” अबुल्लाने खानने आकर मेर्वको तो ले लिया, लेकिन साथ ही नूर मुहम्मदको अंगूठा दिखला दिया । नूर अब उरगंजमें हाजिमकी शरणमें गया । अबानेक-पुत्र अली सुल्तानको उरगंज-हजारारस्थ-कातके अतिरिक्त निसा, अबीबर्द और तागबुई भी मिले थे । वहांसे वह बसंत और गर्मियोंमें बराबर खुरासानपर आक्रमण करके पीलकुपरुकी, तरशीज, तरबेत, जाम और खारकारमें लूट-मार मचाया करता था । अली सुल्तानसे नूर मुहम्मदसे जुरजान, जार्जरूम, कराइलू और अस्त्रा-बादको जीत लिया । अब उसके पास चालीस हजार सेना थी । वह अपने प्रत्येक उज्बेकको प्रतिवर्ष सोलह भेड़ें देता था, जिसके लिये तुर्कमानोंसे कुछ कर लेता, कुछ ईरानकी लूटमेंसे, और एक पंचमांश भाग अपने पाससे भी देता था । एक बार उसने ईरानियोंकी पंद्रह हजार सेनाको हराकर पांच हजार घोड़े पकड़े थे । ईरानको इन्ही चढ़ाईयोंमें ९७६ हि० (२६ VI १५६८—१७ V १५६९ ई०) में अली सुल्तानके मारे जानेके बाद उसका पुत्र संजर निसामें उसका उत्तराधिकारी हुआ, किन्तु पच्चीस वर्षकी आयुमें ही निस्संतान मर गया । अली सुल्तानके मरनेपर हाजिम खानने वेजिरको अपने भाई मुहम्मद सुल्तानको दे दिया और स्वयं जाकर उरगंजमें रहने लगा । तुर्कीके सुल्तान—जो सुन्नियोंका खलीफा भी था—का दूत मिलकर शियोंपर हमला करनेकी प्रेरणा देनेके लिये हिन्दुस्तान गया था । अब वह उसी बातके लिये बुखारा आया । बुखारासे वह उरगंज और मंगिशलकके रास्ते जब लौट रहा था, उसी समय हाजिमके पुत्र मुहम्मद इब्राहीमने उरगंजमें उसे लूट लिया और मुश्किलसे यात्रा भरके लिये थोड़ासा पैसा छोड़ दिया । बुखाराका खान अबुल्लाने इसपर नाराज हो गया । उधर कास्पियनके पश्चिमी तटका इलाका शिरवान तुर्कीके सुल्तानके हाथमें था । अन्तर्वेदके व्यापारियोंको उरगंजसे आगे मंगिशलक पहुंच जहाजसे कास्पियन पार कर शिरवानके रास्ते यात्रा करनी पड़ती थी, क्योंकि कास्पियनका दक्षिणी तट शियोंके हाथमें था, जहां सुन्नी व्यापारियोंके जान-मालकी खैरियत नहीं थी । उक्त घटनासे एक साल पहले हाजी किरतास एक बड़े कारवां और मक्काके तीर्थयात्रियोंके साथ उरगंज पहुंचा । उसे भी पुलाद सुल्तानके पुत्र बाबा सुल्तानने लूटकर

हाजिम मुहम्मद १०११ हि० (२१ VI १६०२-१२ V १६०३ ई०) में मरा।

जेन्किन्सनकी यात्रा—हाजिम मुहम्मदके शासनकालमें अंग्रेज व्यापारी जेन्किन्सन खीवासे गुजरा था। उसके यात्रा-विवरणसे उस समयकी बहुतसी बातोंपर प्रकाश पड़ता है। जेन्किन्सनने १३ अप्रैल १५५८ ई०को अपने मालके साथ मास्को छोड़ा और १४ जुलाईको वह अस्त्राखान पहुंचा। अपने मालके ढोनेके लिये वहां उसने बनी-बनाई नाव खरीदी, और कास्पियन समुद्रके उत्तरी तटसे होते यायिक (उराल) और यम्बा नदियोंके मुहानोंको बाईं ओर छोड़ते वह २७ अगस्तको मंगिशलकमें उतरा। उसके साथ और भी कितने ही ईरानी तथा तारतार व्यापारी अपनी नावोंमें चल रहे थे। मंगिशलकके राज्यपालने ऊंटोंका इन्तिजाम कर दिया। यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि उसे काफी भेंट-पूजा देनी पड़ी। जेन्किन्सन अब अपना माल ले स्थल-मार्गसे वेजिर पहुंचा। वह लिखता है—“लोग बड़े नोचनेवाले हैं। मुझे प्रत्येक ऊंटके लिये तीन रूसी चमड़े और चार लकड़ीके बर्तन देने पड़े, राज्यपालको अलग नौ चमड़े और चौदह दूसरी चीजें भेंट देनी पड़ीं। जिस कारवांमें जेन्किन्सन चल रहा था, उसमें हजार ऊंट थे। पांच दिनकी यात्राके बाद वह मंगिशलकके उस इलाकेपर पहुंचा, जिसपर तेमूर सुल्तानका अधिकार था। सुल्तानने बड़ा अच्छा बर्ताव किया और जेन्किन्सनको मांस और घोड़ीका दूध दिया। उसने उससे पंद्रह रूबलकी चीजें लीं, लेकिन उसके बदलेमें एक घोड़ा इनाम दे अपने तम्बूमें अंग्रेज व्यापारीको जियाफत भी की। वहांसे रेगिस्तानके भीतर बीस दिनका रास्ता चलना पड़ा। खानेके लिये एक घोड़ा और एक ऊंट मारना पड़ा। पानी कभी दो दिनपर मिलता था, सो भी खारा-सा। अब कारवां कास्पियनकी एक खाड़ीपर पहुंचा, जहांके तुर्कमान सरदारने धमकाकर पैसा वसूल किया। जेन्किन्सन लिखता है कि, इस समय (१५५८ ई०) वक्षु (आमू-दरिया) यहींपर कास्पियन-समुद्रमें गिरती है।

६ अक्टूबरको रवाना होकर तीन दिनकी यात्राके बाद वह शहर वेजिर (सेलोजर)में पहुंचा। अजीम (हाजिम) खान अपने तीन भाइयोंके साथ यहीं रहता था। जेन्किन्सनने ६ अक्टूबर (१५५८ ई०)को खानसे भेंट की, और भेंटके अतिरिक्त रूसके जारका पत्र भी उसे दिया। खानने घोड़ेके मांस और दूधसे दावत कर, रास्तेके लिये सुरक्षा-पत्र भी दिया। वेजिरका दुर्ग एक ऊंचे पहाड़पर था। खानका घर बहुत ऊबड़-खाबड़ और दुर्बल मिट्टीका था। लोग बहुत गरीब थे। दक्षिण का इलाका अधिक उर्वर था। उसने लिखा है—“यहां एक बड़िया फल दौनी (तरबूजा) होता है, जो बहुत बड़ा और उसमें पानी भरा होता है। लोग खानेके बाद पेयकी जगह इसे खाते हैं। एक और भी फल है, जिसे खरबूजा कहते हैं, और वह खीरेके जैसा बड़ा पीले रंगका तथा मीठा होता है। एक और भी अनाज जेगुर (बाजरा) होता है, जिसके डंठल बेंतकी तरह ऊंचे होते हैं और उसके सिरेपर चावलकी तरह दौनोंके गुच्छे लगते हैं, मानो छोहारोंके लच्छे हैं। सिचाईके लिये वक्षुसे इतना पानी ले लिया गया है, कि नदी अब कास्पियनतक नहीं पहुंचती।”

वेजिरसे दो दिन चलनेके बाद जेन्किन्सन उरगंज पहुंचा। यहां भी कर देना पड़ा। जेन्किन्सनने हाजिमके भाई अली सुल्तानसे भेंट की, जिसने गृहयुद्ध करते सात वर्षोंमें चार शहर लिये और खोये। युद्धके कारण यहां बहुत कम व्यापारी आते थे, इसलिये मालकी बिक्री अच्छी नहीं थी। जेन्किन्सन केवल चार केरसियोंको बेंच सका। यहांसे कास्पियनतकका प्रदेश तुर्कमानोंका देश कहा जाता था, और शासक थे हाजिम खान और उसके भाई। “जो भिन्न-भिन्न माताओं और कुछ दासियोंके पुत्र होनेसे एक-दूसरेसे ईर्ष्या करते, एक-दूसरेको खतम करनेकी कोशिश करते हैं।” आपसके युद्धमें उनमेंसे हारकर कोई बच निकलता, तो आमतौरसे साथ ही उसके अनुचर भी रेगिस्तानमें चले जाते, और रास्तेके पानी लेनेके पड़ावोंपर छापा मारते। इसी प्रकार वह कारवांको लूटते रहते, जबतक कि फिर वह घरेलू संघर्षके लिये अपनेको काफी मजबूत न कर लें।

उरगंज छोड़कर वक्षुके किनारे-किनारे सी मील चलनेपर जेन्किन्सन एक स्थानपर पहुंचा, जिसको वह आरदोक कहता है—यहां तेज प्रवाहवाली धारा थी, जो कि वक्षुको छोड़नेके बाद हजार मीलपर उत्तरमें जा भूमिमें विलीन हो जाती है, फिर प्रकट होकर खिताई समुद्रमें जाकर

मिलती है। आगे जेन्किन्सनको कात नगर मिला। वहाँके लोग हाजिमके भाई सरामेत सुल्तानकी प्रजा थे। जेन्किन्सनने सुल्तानको अपने प्रत्येक ऊंट मालके लिये एक रूसी लाल चमड़ा और दूसरे कर दिये। सुल्तानने उसके साथ प्रतिरक्षी भेज दिये। "प्रतिरक्षी भी खाऊमल थे। तीन दिन जानेके बाद उन्होंने और आगे जानेके लिये भारी रकम मांगी और न देनेपर वह लौट गये। फिर कारवांके खोजे (स्वामी) वहीं मुकाम करनेपर जोर देकर भेड़की पसलीकी हड्डीसे शुभाशुभ सगुन विचारने लगे। वह इस हड्डीको जलाकर उसकी राखकी स्याही बनाकर कुछ अक्षर लिख रहे थे।.....इसी समय एक निर्वासित राजकुमारने अपने कुछ अनुयायियोंके साथ जबर्दस्त आक्रमण किया, लेकिन व्यापारियोंने भी उसका मुकाबिला किया।" जेन्किन्सनके पास कुछ बन्दूकें थीं, जिन्होंने इस समय बड़ा काम दिया। लोगोंने अपने पशुओं और सन्दूकोंका मोर्चा बना लिया, और उसके पीछेसे गोलियां दागी जाने लगीं। रातके वक्तमें डाकू सुल्तानने संदेश भेजा, कि हम मुसलमानोंको छोड़ देंगे, यदि तुम अपने क्रिस्तान साथियोंको हमारे हाथमें दे दो। लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ अन्तमें कुछ भेंट और एक ऊंट देकर जान छोड़ानी पड़ी। यात्री फिर वहाँसे बुखारा गये। जब व्यापार करके जेन्किन्सन उरगंज लौटा, तो रूसके जारके पास जानेवाले हाजिम खानके चार दूत भी उसके साथ हो लिये। १५९५ ई०में जार प्योदरके पास खीवासे नये राजदूत भेजे गये थे।

११. अरब मुहम्मद, हाजिम-पुत्र (१६०२-२१ ई०)

अरब मुहम्मद जहांगीरका समकालीन था। इसने अपने पुत्र अस्फन्दयारको हजारास्पकी जगह कातका इलाका दिया। कुछ समय बाद १६०२ ई०में यायिक-तटनिवासी हजार रूसी कसाकोंने आकर उरगंजको लूटा और हजारसे अधिक नागरिकोंको मार डाला। वह लूटे मालको हजार गाड़ियोंपर ले चले। अरब मुहम्मदने उनके रास्तेको काट दिया, जिससे कसाक रेगिस्तानमें भटक गये, जहां पानीके अभावके कारण उन्होंने पशुओंका खून पी प्यास बुझाई। पांच दिनतक उन्हें खून भी नहीं मिला और ऊपरसे उज्वेक चारों ओरसे आक्रमण कर रहे थे। एक बार उज्वेक पीछेसे उनकी गाड़ियोंके मोर्चेके भीतर घुस गये और उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर डालनेमें सफल हुये। सिर्फ एक सौ कसाक किसी तरह बचकर अरालके किनारे पहुंचे। उन्होंने तूकके किलेके पास अपना किला बनाया और कुछ समयतक वह मछली खाकर जीते रहे। अन्तमें अरब मुहम्मदने उनके किलेको दखल कर लिया।

पूर्वसे कल्मक-मंगोल अरालकी ओर पैर फैलाते हुये अब यहां भी आकर आक्रमण करने लगे। वह खोजाकुल और शेख जलील पर्वतके बीचमें पहुंचकर तूकतक उज्वेक डेरोंको लूटकर बूरीचीके रास्ते लौट गये। अरब मुहम्मदने पीछा करके माल और बंदियोंको छोड़ा लिया, लेकिन कल्मक हाथ नहीं आये। कुछ समय बाद नेमन कबीलेवालोंने इलबर्स खानकी संतान खुसरो सुल्तानको अपना खान बननेके लिये बुलाया, जिसने षड्यंत्र किया, लेकिन परदा खुल जानेपर खुसरो और षड्यंत्री नेता मारे गये। दो साल बाद फिर षड्यंत्र हुआ। इसके दस साल बाद (१६१५ई०) कल्मकोंने आकर बड़ी लूट-मार मचाई। सोलह साल राज्य करनेके बाद १६१८ ई०में हबश इलबर्सके दो सोलह और चौदह सालके पुत्र अरब मुहम्मदसे विद्रोह कर खीवासे उरगंजपर चढ़ आये। छोकरे भला इतनी हिम्मत कैसे करते, असलमें यह काम उनके अनचरोंका था, जिनकी संख्या लूटकी लालचसे बहुत बढ़ गई थी।

खीवाके खानोंमें इस तरहका विद्रोह और वंशोच्छेद असाधारण घटना नहीं समझी जाती थी, यह हम देख चुके हैं।

१०१३ हि० (३० V १६०४-२० IV १६०५ ई०)में (इतिहासकार अबुलगाजीके जन्मके एक साल पहले) अरब मुहम्मदने एक नहर खुदवाई, जो तूक, उरगंज होती अराल समुद्रमें गिरती थी। तुला (अक्टूबर-नवम्बर) मासके आते ही इस नहर को बन्द कर दिया जाता, और फसलके कट जानेपर फिर खोल दिया जाता था। कुछ सालों बाद यह एक तीरकी मारसे अधिक चौड़ी कर दी गई।

इस नहरके कारण खेतीको इतना फायदा हुआ, कि गेहूं बहुत सस्ता हो गया। सारे इलाकेमें गेहूँकी फसल खड़ी दिखलाई पड़ती थी। दोनों खान-पुत्रोंने अन्न-भंडारोंको खोलकर अनाजको गरीबोंमें बांटना शुरू किया। अन्तमें उन्हें वेजिर शहर और उस इलाकेमें रहनेवाले तुर्कमानोंको देकर समझौता किया गया। दोनों चार हजार अनुयायियोंके साथ बापसे मिलकर वेजिरमें जा पांच साल तक शांतिपूर्वक रहे। छठे साल (१६२० ई०) जब खान उरगंजमें था, उसी समय इलबर्सने आक्रमण करके खीवा ले अपने पांच सौ आदमियोंको भेजकर बापको भी बन्दी बना लिया। खजाना लूटकर उसने “कुत्तों और चिड़ियोंमें बिखेर दिया, और बेगोंको निकाल बाहर किया।” इसके बाद वह वेजिर लौट गया। अब अस्फन्दयार और अबुलगाजी (प्रसिद्ध इतिहासकार) बापके सहायक बन गये, और दोनोंने मिलकर इलबर्स सुल्तानके ऊपर आक्रमण किया। इलबर्स किर (उस्त-उर्त)की ओर भागा, और उसका माल-असबाब लूट लिया गया। अबुलगाजीने बापको बहुत समझाया, कि विद्रोहियोंको इसी वक्त नष्ट कर देना चाहिये, लेकिन बापका सहालकार अतालीक हुसेन हाजी भीतरसे विद्रोहियोंके पक्षमें था। उसने वैसा नहीं होने दिया। अस्फन्दयार भी बहुत आगे बढ़ना नहीं चाहता था। हबश और इलबर्स दोनों अबुलगाजीके भारी शत्रु थे। इस अपूर्ण अभियानके बाद अरब मुहम्मद खान खीवा लौटा, अस्फन्दयार हजारास्प गया और अबुलगाजीको कात मिला। पांच महीने-बाद अब खानको अक्ल आई, और उसने अपने पुत्रोंको खुले तौरसे आक्रमण करके दंड देना चाहा। अली सुल्तानकी खुदवाई नहर तस्ली-यामिशके तटपर लड़ाई हुई। खान हारकर बंदी बना। हबशने बापको अंधा कर तीन बीबियों और दो छोटे पुत्रोंके साथ उसे छोड़ दिया। अब हबश अस्फन्दयारके पीछे पड़ा। अबुलगाजी डरके मारे कात होने बुखारा भाग गया। अस्फन्दयार अपने दूसरे दो भाइयों शरीफ और ख्वारेज्मशाहके साथ हजारास्पमें किलाबन्द हो गया—यह १०३० हि० (२६ X १६२०—१७ X १६२१ ई०)की बात है। चालीस दिनके मुहासिरेके बाद दोनों पक्षोंमें समझौता हुआ—अस्फन्दयार मक्का चला जाये, शरीफ मुहम्मदको कात मिले और ख्वारेज्मशाह तथा अफगान दोनों छोटे भाई बाप-माँके साथ खीवामें रहें। अगले साल (१६२२ ई०) इलबर्सने बाप, अपने भाई ख्वारेज्मशाह और अस्फन्दयारके दो पुत्रोंको मरवा डाला और दूसरे भाई अफगानको मरवानेके लिये हबशके पास भेज दिया—लेकिन हबशने उसे रूस भेज दिया, जहाँ वह १६४८ ई०में मरा। हाजिम सुल्तानकी लड़की अलतून खानिम-अफगानकी विधवा—ने कासिमोफमें अपनी बनवाई तकियामें पतिके शवको दफनाया।

१२. इस्फन्दयार, (अस्फ०) अरब-पुत्र (१६२२-४२ ई०)

यह शाहजहांका समकालीन था। ख्वारेज्ममें तुर्क और सरत दो जातियां बसती थीं। सरत पुराने बाशिन्दे ईरानी जातिके थे, और तुर्क जातिमें तुर्कमान पुराने कंगलियों या गूजोंकी संतान थे, जिनका सलजूकों और उसमानअली तुर्कोंसे निकटका सम्बन्ध था। उज्बेक वहां मुहम्मद शैबानीके साथ आये थे। सरतोंका शासन उठे युग बीत गये थे, लेकिन तुर्कमानोंके पूर्वज सलजूक बहुत दिनोंसे इस भूमिके शासक थे, इसलिये वह अब भी अपनेको स्वामी समझते थे। इसीलिये उनसे तथा नये स्वामी उज्बेकोंसे बराबर संघर्ष होता रहता था। यदि खान तुर्कमानोंका पक्ष करता, तो उज्बेक नाराज होते, उज्बेकोंका करता, तो तुर्कमान शत्रु बन जाते। अरब मुहम्मदने यही गलती की थी, कि उसने दोनोंको संभालकर नहीं रक्खा। बापकी पराजयके बाद अस्फन्दयार शाह अब्बासके पास ईरान भाग गया और उससे सहायता लेकर देरून और बलखान पर्वतको लेनेमें सफल हुआ। यहीं तेके, सारिक और यामूत तुर्कमान कबीलोंके तीन सौ जवान उससे आ मिले। उसने रातके वक्त वक्षु-तटपर तूक किलेके सामने पड़े हबशके डरेंपर छापा मारा। लेकिन हबश प्राण बचाकर इलबर्सके पास जानेमें सफल हुआ। इलाकोंका फिरसे बंटवारा हुआ, जिसमें हबशको उरगंज और वेजिर (वजीर) और इलबर्सको खीवा-हजारास्प मिला। शरीफ और अबुलगाजीके अनुचरोंने भी मदद दी थी, किन्तु हारकर अस्फन्दयारको मंगिशलक भागना पड़ा। अपने सहायक तीन हजार

तुर्कमानोंको लेकर फिर वह उरगंज पहुंचा, जहां बीस दिनतक लड़ाई होती रही। इलबर्स अन्तमें पकड़कर मार डाला गया। हबश पहले कराकल्पकोंमें भागा, फिर यम्बाके नोगाइयोंमें पहुंचा, जिन्होंने उसे पकड़कर अस्फन्दयारके पास भेज दिया और उसने भाईके खूनसे हाथ रंग लिया। अस्फन्दयार उज्बेकोंके विरुद्ध तथा सरतों और तुर्कमानोंका पक्षपाती था। सरतोंसे लड़ाईमें मदद नहीं मिल सकती थी, किन्तु बड़े-बड़े धनी व्यापारी इन्हींमें थे, जिनसे धनकी बड़ी मदद मिलती थी।

१३. अबुलगाजी, अरब-पुत्र (१६४३-६३ ई०)

प्रसिद्ध इतिहास-लेखक अबुलगाजी १०१४ हि० (१९ व १६०६-९ IV १६०५ ई०)में पैदा हुआ था। उसके बाप अरब मुहम्मद खानने उसी साल उरालके काफिर कसाक-रूसियोंको हराया था, इसीलिये बच्चेका नाम अबुल-गाजी (काफिरोंसे लड़नेवाला) रक्खा गया। इलबर्सके साथ बापकी लड़ाईमें वह दक्षिणपक्षका कमांडर था, जिसमें एकके बाद एक उसके तीन घोड़े मारे गये। बापकी हार होनेपर वह एक अनुचरके साथ भाग निकला। शत्रु उसका पीछा कर रहे थे। आकर एक बाण मुंहमें लगा, जिससे जबड़ेकी हड्डी टूट गई। लेकिन वक्षु-तटके घने फरास (झाऊ)के जंगलोंमें वह छिपनेमें सफल हुआ। फिर अपने कवच और हथियारोंको फेंककर घोड़ेपर नदीमें कूद पड़ा। प्यासा घोड़ा पानी पीनेके लिये जरा रुकना चाहता था, लेकिन पीछा करनेवाले शत्रु दाण छोड़ रहे थे। कोड़ा नहीं था, कि घोड़ेको मारकर आगे बढ़ाये। घावके कारण मुंहमें खून भरा हुआ था, अपने भारी कवचके कारण घोड़ा पानीमें डूबने लगा और नाक-कान ही थोड़े-थोड़े बाहर निकले हुये थे। इसी समय अबुलगाजीको बूढ़े सैनिककी बात याद आई—“चारजामेसे उतर एक पैरको रिकाबमें और दूसरेको घोड़ेकी पूंछपर डाल चारजामेके पिछले छोरको एक हाथसे पकड़े—दूसरे हाथसे लगातक इशारा करते चले, तो पानीसे भी बोज हलका करनेमें सहारा मिलता है।” उसने ऐसा ही किया और वह सहीसलामत नदी पार हो गया। वह कात पहुंचा। वहांसे कितने ही आदमी, नये घोड़े और रसद ले वह समरकन्द पहुंचा, जहां इमामकुल्ली खानने उसका अच्छा स्वागत किया। इसके दो साल बाद भाई अस्फन्दयार खान घोषित हुआ। अबुलगाजी और शरीफ फिर देश लौट आये। अबुलगाजीको उरगंज और शरीफको वजीरके इलाके मिले। अस्फन्दयारने अपने पास खीवा, हजारास्प और कातको रक्खा। लेकिन देरतक शांति कहां रह सकती थी? जल्दी ही भाइयोंमें फिर झगड़ा उठा। अस्फन्दयार सरतों और तुर्कमानोंका पक्षपाती था, और उसके दोनों भाई उज्बेकोंके। फसल कट जानेके बाद १६२४ ई०में अबुलगाजी अस्फन्दयारसे मिलने खीवा गया। तीन दिन रहनेके बाद घोड़े कस लिये थे, इसी समय खानने हुक्म दिया, कि सभी नेमनों और उइगुरोंको कत्ल कर दिया जाय। बातकी बातमें सौ उज्बेक मार डाले गये। इतना ही नहीं हजारास्प और खस्तमीनारेसीमें डेरा डाले सभी खानभक्त उज्बेक बूढ़े-बच्चोंतक मार डाले गये, किसी नैमन और उइगुरको जीता नहीं छोड़ा गया। शरीफको इन दोनों कबीलोंको कत्ल करनेके लिये उरगंज भेजा गया, और अबुलगाजीको मार डालनेकी गरजसे खीवामें रोक लिया गया। इसी समय उज्बेकोंने धमकी दी, कि यदि अबुलगाजीको नहीं छोड़ा गया, तो हम राज्य छोड़कर चले जायेंगे। छोड़ दिये जानेपर अबुलगाजीने उरगंज पहुंचकर उसे जनशून्य-सा पाया। वक्षु नदी पहले पाससे बहती थी, अब उसने अपनी पुरानी धार छोड़कर नई धारा पकड़ ली थी। अबुलगाजी तूकके किलेमें ठहरा, जहां शरीफ भी उससे आ मिला। दोनों भाइयोंके आसपास भारी संख्यामें उज्बेक जमा हो गये। उन्होंने तुर्कमानोंपर आक्रमण करनेका विचार किया, लेकिन इसका पता तुर्कमानबेक मुहम्मद हुसेनको लग गया, और वह अपने अनुयायियोंके साथ अस्फन्दयारके पास चला गया। अब दोनों भाई उज्बेकोंको लिये खीवापर चढ़े। खाईकानाक नहरके ऊपर बने ताशकुपुरुक (पाषाणपुल)पर कितने ही भूखसे अधमरे तुर्कमान मिले, जिन्हें उन्होंने मार डाला। लेकिन इसी समय कल्मक-मंगोल उनके ऊपर आ पड़े और वह कितने ही उज्बेकोंको पकड़ ले गये। कल्मकोंका आतंक इतना छाया हुआ था, कि अबुलगाजीके कितनेही सहायक साथ छोड़ गये। खीवाके तुर्कमानोंको हिम्मत और मदद मिल गई। उन्होंने चश्मीके पास

छ दिनतक युद्ध किया, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ, इसपर घर लौट जानेकी सलाह हुई। इसी समय अस्फन्दयारने तुर्कमानोंको बढ़ावा दिया। यद्यपि तुर्कमानोंकी संख्या उज्बेकोंसे दसगुनी थी, लेकिन तो भी युद्धका परिणाम अनिश्चित ही रहा। अस्फन्दयारने गर्मियां खीवामें बिताई, अबुलगाजी और शरीफ उरगंजमें रहे। १६२८-२९ ई०में एक पुच्छलतारा निकल रहा था, जिसे भारी असगुन माना जाता था। उज्बेकोंमेंसे कुछ अन्तर्वेदकी ओर भाग गये और कुछ तुर्किस्तानमें, इस प्रकार उनके निम्न तीन बड़े-बड़े भाग हुये—(१) बुखाराकी ओर जानेवाले, (२) मंगीतों (नोगाइयों)में जानेवाले, (३) कजाकोंमें जानेवाले। अबुलगाजी उज्बेकोंके उस गिरोहके साथ था, जो कजाकोंकी भूमिमें गया और शरीफ बुखारावालोंके साथ। तीन साल बाद (१६३१-३२ ई०) उनमेंसे दो हजार परिवार फिर ख्वारेज्म लौट आये, जिनमें आठ सौ बुखारावाले परिवार भी आकर मिल गये। अब यह लोग अरालमें सिरके गिरनेवाले इलाकेमें पशुचारण करने लगे। अस्फन्दयारने उन्हें चैनसे नहीं रहने दिया और आक्रमण करके उनका नाम-निशान मिटा दिया।

अबुलगाजी कजाकखान इशिमके पास जाकर रहने लगा। वहां उसका परिचय राजकुमार तुरसुनसे हुआ, जिसके साथ वह दो साल ताशकन्दमें जाकर रहा। इशिमने तुरसुनको उसी समय मार डाला, लेकिन अबुलगाजीको इमामकुल्लीके पास बुखारा जाने दिया। यहां उसे अस्फन्दयारके अत्याचारोंसे ऊब गये ख्वारेज्मी तुर्कमानोंका निमंत्रण मिला और वह खीवा पहुंचा। अस्फन्दयार हजारास्प लौट गया था। इसी बीच शरीफ भी अबुलगाजीसे आ मिला और दोनोंने मिलकर अस्फन्दयारपर आक्रमण करके उसे हरा दिया। लेकिन इतनेसे संघर्ष खतम नहीं हुआ। फिर कितनी ही लड़ाइयां और लूटपाट होती रहीं। एक बार अबुलगाजीको खुरासानमें बेगलरबेगने पकड़कर हमदानमें शाह अब्बास I के पौत्र शाह शफीके पास भेज दिया, जिसने उसे अस्पृहानमें नजरबन्द कर दिया—अबुलगाजीको दस हजार तंका पेंशन और रहनेके लिये मकान मिला था। १६३०-४० ई०तक अबुलगाजी इस तरह ईरानमें बंदी रहा। उसने धीरे-धीरे आठ घोड़े खरीदकर भिन्न-भिन्न जगहोंमें छिपा रखे। यहीं उसके कुछ विश्वासपात्र नौकर भी आ मिले। अबुलगाजी स्वयं एक नौकरका साईंस बना। घोड़े तैयार कर लिये गये थे। नगाड़खानेमें जिस वक्त मध्य-रात्रिका नगाड़ा बज रहा था, उसी वक्त वह सड़कसे होकर निकल पड़ा। द्वारपर पहुंचकर उसने चिल्लाकर कहा—“खोलो दरवाजा”। दरवाजा खुल गया और अबुलगाजी अपने साथियोंके साथ चलता बना। बोस्तामके पास जब वह एक कब्रिस्तानसे गुजर रहा था, तो वहां कोई मुर्दा दफन किया जा रहा था। अबुलगाजीने वहीं एक गरीब सैयदसे बातचीत करके रसद तथा तीन घोड़ोंके बदलनेका प्रबन्ध किया। गलतीसे उसने मजका रास्ता पूछ लिया, जिससे लोगोंको संदेह हो गया, कि यह भगोड़े उज्बेक कैदी हैं। प्रत्युत्पन्नमति अबुलगाजीने झट बहाना कर दिया, कि हम शाहके चिरकासी मुहम्मद कुल्लीबेग हैं—और एक प्रसिद्ध मुल्ला—से मिलने जा रहे हैं। इस तरह चिरकासी मुहम्मद कुल्लीबेग बनकर अबुलगाजीकी जान बची। आगे जाकर जब वह रेगिस्तानके छोरपर पहुंचे, तो मंगिशलकके कितने ही भगोड़े तुर्कमान आ मिले। उनसे मालूम हुआ, कि वोल्गाकी ओरके कल्मकोंने आक्रमण किया था, वह बहुतसे पशुओंको लूट ले गये। अबुलगाजीने अपना परिचय दिया। तुर्कमानोंने उसे अपने पास जाड़ा बितानेके लिये निमंत्रित किया। जाड़ोंके बाद वसंतमें अबुलगाजीको तेक्के (तुर्कमान) कबीले—जो कास्पियनके पूर्वी तटके पासके बलखान पहाड़में रहते थे—के पास जानेको कहा। वहां जाकर अबुलगाजीने दो साल बिताये। फिर वह मंगिशलक पहुंचा, जो कि अब कल्मकोंके अधीन था। कल्मक सरदारको जब बात मालूम हुई, तो उसने अबुलगाजीको बुलाकर सालभर नजरबन्द रक्खा। अन्तमें १६४२ ई०में वह उरगंज लौटनेमें सफल हुआ। इसके छ महीने बाद अस्फन्दयार मर गया, शरीफ मुहम्मद दो साल पहले ही मर चुका था, इसलिये ख्वारेज्मकी गद्दी अब अबुलगाजी बहादुरके लिये हाजिर थी।

जहां खूनखराबी और लूट-मारको खेल समझा जाता हो, और हर एक बातका फैसला केवल तलवारसे किया जाता हो, वहां जीवन कैसे व्यवस्थित रह सकता है? आश्चर्य तो यह है, कि इतनी

मारकाट रहनेपर भी रूसके साथ होनेवाला व्यापार अब भी बन्द नहीं था। व्यापार सचमुच ही बड़ी-बड़ी लड़ाइयोंके भीतरसे भी अपना रास्ता निकाल लेता है। दोनों लड़नेवाले सरदार भेंट-पूजा लेकर व्यापारीका रास्ता छोड़ देते हैं। स्वारेज्ममें बड़ी अशान्ति थी, जब कि अस्फन्दयारकी मौतके सालभर बाद अबुलगाजी अरालके उसी इलाकेमें खान घोषित हुआ, जहांपर वधु अराल-समुद्रमें गिरती है। इस इलाकेमें प्रायः सारे ही उज्बेक बसते थे। स्वारेज्मके बाकी भागोंमें अस्फन्दयारके दो पुत्रों युशन और अशरफके अनुयायी तुर्कमान रहते थे। ख़ुतबा उस समय बुखाराके खान नादिर मुहम्मदके नामसे पढ़ा जाता था, जिसके पास अराफ जामिनके तौरपर रहता था। अबुलगाजीने दो बार चढ़ाई करके खीवाके उपनगरको लूटा। नादिर मुहम्मदने खीवा और हजारास्पमें अपने राज्यपाल नियुक्त किये थे और अस्फन्दयारकी विधवाको उसके एक पुत्र और कन्याके साथ करशीमें रहनेके लिये भेज दिया था। बुखारी राज्यपाल वस्तुतः सैनिक कमांडर था, नागरिक शासन अस्फन्दयारद्वारा नियुक्त तुर्कमान अमलोंके हाथमें था। इसी समय बुखारासे खानका पौत्र तथा खुसरो सुल्तानका पुत्र कासिम सुल्तान निगरानीके लिये स्वारेज्म आया, किन्तु वह तुर्कमान अमलोंसे छेड़खानी नहीं करता था। कासिमके आनेकी खबर सुनकर अबुलगाजीने और सेना जमाकर खीवापर चढ़ाई की। बुखारी सेना बहुत अधिक थी, जिससे लड़नेके लिये अबुलगाजीकी सेना कई टुकड़ियोंमें बंट गई। खीवाके हजार सैनिकोंमें आठ सौ कवच-शिरस्त्राणसे इस तरह ढंकेहुये थे, कि उनकी सिर्फ आंखें दिखलाई पड़ती थीं। अबुलगाजीके आदमियोंमेंसे केवल पांच कवचधारी थे। लेकिन अबुलगाजीने बहुत अच्छी तरहसे व्यूह-रचना की। लड़ाईका फैसला होनेसे पहले ही याकूब तुपितको भेजकर कासिमको बुखारा बुला लिया गया। थोड़े समय बाद नादिर स्वयं बुखाराका खान नहीं रहा और उसके बेटों (अमीरों) ने उसके बेटे अब्दुल अजीजको तख्तपर बैठाया। खीवामें नियुक्त बुखारी सेना भी अब भाग गई और १६४४ ई०में अराल-तटसे आकर अबुलगाजीने खीवापर अधिकार कर लिया। अबुलगाजीने सार्वजनिक क्षमादानकी घोषणा करतेहुये भगोड़े तुर्कमानोंको लौटनेके लिये कहा। भगोड़े तुर्कमानोंके सरदार गुलाम बहादुर, दीन मुहम्मद, उनउनबेगी और उरुसबेगीने हजारास्पके पासके रेगिस्तानमें डेरा डालकर अपने अक-शकालों (जेठों)को भेज आत्म-समर्पण किया। खानके वचन देकर बुलानेपर वह आये थे, लेकिन जियाफतमें खाना शुरू करनेके समय ही अबुलगाजीके हुकमसे उनका कत्लेआम शुरू हुआ। तुर्कमान भारी संख्यामें मारे गये, माल-असबाब लूट लिया गया और उनके बीबी-बच्चे दास बना दिये गये। इस हत्याकांडके बाद अबुलगाजी खीवा लौटा, और थोड़े समय बाद उसने तेयेनमें तुर्कमानोंके एक दूसरे समूहपर आक्रमण करके उन्हें लूटा-मारा। यहीं खीवा और बलखके भगोड़ोंने बाप्-बुरनियामें पनाह लेनेके लिये एक पत्थरका किला बनाया था। उन्होंने अपने परिवारको कराकस्ती भेज दिया। उनपर भी आक्रमण करके अबुलगाजीने एक-एक आदमीको मार डाला, और लगे हाथों कराकस्तीमें पड़े उनके डेरोंको भी लूट लिया। लेकिन मंगोल कोशोत (कलमक) स्वारेज्मके लिये अब एक भारी समस्या हो उठे थे। १६४८ ई०में अबुलगाजीने उन्हें हराया, तो भी व्यापार करनेके लिये आये तोरगुत (मंगोल) सरदार बायनको सुरक्षित घर जाने दिया। १६५१ ई०में अबुलगाजी उनके सरदारके साथ बैराज तुर्कमानोंको नष्ट कर औरतों-बच्चोंको पकड़ ले गया। अगले साल तूजके अमीरों और सारिक तुर्कमानोंकी बारी आई, इसी साल तोरगुत (बोल्गा) कलमकोंने हजारास्पके पास लूट-मार की, जिन्हें अबुलगाजीने भगाकर बहुत दूरतक पीछा किया।

इस प्रकार कुछ सालोंकी सरगरमीके बाद अबुलगाजीने सभी तुर्कमानोंको दबाकर कितने ही समय तक शांतिपूर्वक राज्य किया। १०४६ हि० (५ VI १६३६-२६ VI १६३७ ई०)में उसके भाई शरीफके दामाद सुभानकुल्लीने अपने भाई अब्दुल अजीज खान (बुखारा)के खिलाफ मदद मांगी। बत्तीस स्वारेज्मी कुमारोंके खूनका बदला लेनेका यह अच्छा मौका था। अबुलगाजीने मदद दी और उसके सेनापति बेककुली इनेकने कराकुलके इलाकेको लूट-मारकर उजाड़ दिया और वह बुखाराके पासके गांव सुइउन्निचबालातक जाकर कुकेर्दलिक लौट आया। फिर उसी साल बुखारी सेनाको

हराकर कराकुलको जला चारजूयके इलाकेको भी उसने बरबाद किया। कुछ महीने बाद (१६५४-५५ ई०) वह याइजी इलाकेको नेरेजेमतक लूटते कराकुल होते भारी संख्यामें युद्धबंदियोंको लिये खीवा लौटा। यह सब देखते हुये भी अब्दुल अजीज खानको सामने आनेकी हिम्मत नहीं हुई। १०६५ हि० (११ XI १६५४-२ X १६५५ ई०) में ही ख्वारेज्मियोंने करमीनापर अधिकार करके लूटा। इन लड़ाइयोंमें अबुलगाजी स्वयं शामिल होता था। एक बार खतरेसे बचानेके उपलक्षमें अबुलगाजीने अपने पुत्र अनुशा (अनुशाह) को एक झंडा, एक सेना तथा हजारस्पकी कमांड प्रदान की। अबुलगाजीने १६५८ ई०में बरदंजा इलाकेको लूटा, जिसमें कि बुखारा शहर है। १६६१ ई०में उसने फिर बुखारा इलाकेको लूटा। इस तरह अपने सहधर्मियोंको अनेक बार लूटने-मारनेके बाद उसका ख्याल काफिरोंको लूटकर पुण्य कमानेका हुआ। इसके लिये उसकी नजर ईरानी किजिल-वासों और वोल्गाके पासवाले कल्मकोंपर पड़ी। उसने दूतद्वारा अब्दुल अजीज खानके पास सुलहका प्रस्ताव भेजा, और शासनका काम अनुशाको सौंप दिया। लेकिन उसे पुण्य-अर्जनका अवसर नहीं मिला और घोर युद्ध तथा अशांतिके बीस सालके शासनके बाद वह १०७४ हि० (५ VIII १६६३-२५ VI १६६४ ई०) में मर गया। एक तरफ वह खूनका प्यासा निपट स्वापद था, तो दूसरी तरफ उसकी लेखनीने एक बड़े ही सुन्दर इतिहास-ग्रंथको हमारे लिये छोड़ा। अपने समकालीन औरंगजेबके कितने ही अवगुण उसमें भी थे।

१४. अनुशा मुहम्मद बहादुर, अबुलगाजी-पुत्र (१६६३-८६ ई०)

बापने बुखाराके साथ मैत्री कर ली थी, लेकिन बेटा उसे माननेके लिये तैयार नहीं था। उसने बुखाराके नजदीक जूयेवारके खोजोंको जाकर लूटा। उस समय अब्दुल-अजीज खान करमीनामें था। खबर सुनते ही वह दौड़ा। आधी रातको जब वहां पहुंचा, उस समय नगर ख्वारेज्मियोंके हाथमें था। केवल चालीस दासोंको लिये उसने रक्षि-सैनिकोंके ऊपर पड़ अपने लिये रास्ता बनाया, और लड़ते-लड़ते वह आर्क (किले)में जा पहुंचा। उसने ख्वारेज्मियोंके कत्ले-आमका हुक्म दे दिया। उज्बेकों, ताजिकों या विदेशी व्यापारियोंमें जिसके हाथमें भी हथियार था, सभी शत्रुओंके ऊपर टूट पड़े—नगर के बाहर जानेवाले सारे रास्ते बाड़ें खड़ी करके बन्द कर दिये गये थे। ख्वारेज्मियोंका भीषण संहार हुआ, लेकिन अनुशा एक छोटी-सी टुकड़ीके साथ भागकर ख्वारेज्म पहुंचनेमें सफल हुआ। इस मारके कारण थोड़ी देरके लिये अनुशाकी हिम्मत टूट गई।

यद्यपि अब्दुल अजीज खानने ख्वारेज्मियोंके आक्रमणका सफल प्रतिरोध किया, लेकिन तब भी १६८० ई०में अब्दुल अजीजको सुभानकुल्लीके लिये गद्दी खाली करनी पड़ी। सुभानका आरम्भिक शासन बेटोंके विद्रोहके कारण कमजोर था, इसलिये अनुशाको फिर हिम्मत हुई, और उसने १६८३ ई०में आक्रमण करके नगरों और गांवोंको बुखारा शहरके आसपासतक ध्वस्त कर दिया और बहुत से माल और युद्धबंदियोंके साथ लौट गया। सुभानने हाल हीमें विद्रोह करनेवाले अपने पुत्र सादिकको सहायताके लिये बुलाया, लेकिन रास्तेमें उसने सुना, कि अनुशाने खुरासानपर आक्रमण करके वहां अपने नामका सिक्का और खुतबा चलाया है। हिसार (ताजिकिस्तान) और खोजन्दके अमीर भी अब खुली तौरसे सुभानकुल्लीसे विद्रोही बन गये और उसके कितने ही दरबारी भी अनुशाके पक्षमें हो गये। यह स्थिति देखकर सादिकने बुखारा जानेकी जगह लौटकर बलखकी रक्षा करना अधिक पसन्द किया। इसपर खानने बदस्थांके राज्यपाल महमद बी अतालिकको बुलाया, जिसने गिजुवानमें अनुशाकी सेनाको पूरी तौरसे हरा दिया, यह हम पहले बतला चुके हैं। अगले साल (१६८५ ई०) खानको बलखके झगड़ेमें फंसा देखकर बुखाराके द्वारपर अनुशा फिर आया, किन्तु मुहम्मदजान अतालीकने बलखसे आकर फिर उसे हरा दिया। इसके कुछ समयबाद जब सुभानकुल्ली मशहदमें तीर्थ-यात्राके लिये गया था, तो अनुशाने फिर अन्तर्वेदपर आक्रमण किया, लेकिन लोगोंने एक होकर भयंकर हत्याके साथ ख्वारेज्मियोंको हटनेके लिये मजबूर किया—

इस संघर्षमें बहुतसे ख्वारेज्मी नेता भी मारे गये। अनुशा फिर चढ़ाई करनेकी सोच रहा था, लेकिन अमीरोंने मना करते हुए कहा, कि कल्मक बड़ी सेना लेकर हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं, उनसे लड़नेके लिये एरेंक (औरंग) को सेनाका संचालक बनाकर भेजो। सेना हाथमें आते ही एरेंकने बापको पकड़ लिया और लाल लोहेसे दागकर उसे अंधा बना तख्तसे उतार दिया।

१५. मुहम्मद एरेंक, औरंग, अनुशा-पुत्र (१६८६-८७ ई०)

ख्वारेज्मके दरबारमें भी कितने ही अमीर सुभानकुल्लीके पक्षमें थे। एरेंकने सुभानकुल्लीके पक्षवाले अमीरोंको देश-निकाला दे दिया, फिर बुखारी सेनाको खुरासानमें गई जानकर बुखारापर चढ़ाई की। सुभानकुल्लीने दस दिनतक नगरकी रक्षा की, फिर महमूद बी अतालीक आ गया, जिसने बुखाराके नगर-प्राकारके नीचे ख्वारेज्मियोंको हरा उनमेंसे बहुतोंको बन्दी बना लिया। इस बीच सुभानपक्षी अमीरोंने उरगंजमें षड्यंत्र कर रक्खा और लौटते ही एरेंकको जहर देकर मार डाला।

१६. शाहनियाज खान (१६८७-१७०२ ई०)

ख्वारेज्मके खानोंका वंश गोत्र-बधके लिये हृदसे अधिक बदनाम हो गया था, जिसके कारण वहांके अमीर उन्हें पसन्द नहीं करते थे, इसलिये एरेंकके मरनेके बाद विद्रोहियोंने सुभानकुल्लीके पास कोई शासक प्रदान करनेके लिये अपना शिष्टमंडल भेजा। सुभानकुल्लीने शाहनियाज इशिक आकाको राज्यपाल बनाकर भेज सिक्का तथा खुतबा अपने नामसे जारी कराया। सुभानका शासन कई सालोंतक रहा। उसने १७०० ई०में रूसी जार पीतर I के पास दूत भेजकर प्रार्थना की, कि हमारे देशको अपने संरक्षणमें ले लो। उसी साल ३० जुलाईको पत्रद्वारा पीतरने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। १७०२ ई०में सुभानकी मृत्युके बाद, जान पड़ता है, शाहनियाजका शासन भी खतम हो गया।

१७. अरब मुहम्मद II, अनुशा-पुत्र (१७०२ ई०)

१७०२ ई०में पीतर I ने एक मित्रतापूर्ण संदेश भेजकर अरब मुहम्मद और उसके लोगोंको अपनी प्रजाके तौरपर स्वीकार किया, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि औरंगजेबके शासनके अन्तिम समयमें रूसी जारकी बांह ख्वारेज्मतक पहुंच चुकी थी।


१८. हाजी मुहम्मद बहादुर, अनुशा-पुत्र (१७१४ ई०)

इसके बारेमें इतना ही मालूम है, कि १७१४ ई०में इसका दूत पीतरबुर्गमें पीतर I के दरबारमें पहुंचा था।

१९. यादगार, अनुशा-पुत्र (१७१४ ई०)

यह १७१४ ई० में मरा था। जान पड़ता है, यह अधिक समयतक राज्य नहीं कर पाया। इसके साथ बरेका खानकी संतानोंका शासन ख्वारेज्ममें खतम हो गया, और उनका स्थान बाहरसे नये-नये आते खानोंने लिया।

खीवाखान-वंशवृक्ष
(१५१५-१७१४ ई०)



भाग ३

उत्तरापथ

रूसका प्रसार

(१५९८-१८०१ ई०)

१. बीचके जार

१. बोरिस गदुनोफ (१५९८-१६०५ ई०)

१६वीं सदीके अन्ततक रोरिक-वंशके नेतृत्वमें रूसका किस तरहसे एकीकरण और प्रसार हुआ, इसके बारेमें हम कह आये हैं। रूरिकवंशी अन्तिम जार फ्योदोर इवान-पुत्रके मरनेके साथ १५९८ ई०में रूरिक-वंशके खतम होनेपर बोरिस गदुनोफ जार बना। विवाह-संबंध तथा फ्योदोर-के समय शासनकी बागडोर हाथमें रखनेके कारण गदुनोफको कठिनाई नहीं हुई और १५९८ ई० में "जेम्स्की सबोर" (राष्ट्रीय परिषद्)में एकत्रित सामन्तों और व्यापारियोंके बहुमतने बोरिस गदुनोफको मास्कोका जार निर्वाचित किया। बोरिसने इवानIVकी नीतिपर चलते हुये देशमें न्यवस्था कायम रखनेकी सफल कोशिश की। पुराने राजुलों और सामन्तोंके परिवार हमेशा देशको विकेंद्रित करनेकी कोशिश करते थे, इसलिये इवानIIIकी तरह गदुनोफको भी उन्हें कड़ाईसे दबाना पड़ा। निकिता रोमन-पुत्र और उसके परिवारवाले—जो पीछे रोमनोफके नामसे प्रसिद्ध हुये—गदुनोफके लिये सबसे अधिक चिंताके कारण थे। रोमनोफोंका संबंध जार फ्योदोरसे था, और नागरिकोंमें उनके मुखिया फ्योदोर निकित-पुत्रके बहुतसे अनुयायी थे। गदुनोफने गुप्त सूचनाओंके बलपर उनपर षड्यंत्र करनेका आरोप लगाया, और सभी भाइयोंको उत्तरकी ओर निर्वासित कर दिया। फ्योदोर रोमनोफ इसी समय पापा फिलारेतके नामसे साधु बन गया। अपने भूमिपति शत्रुओंको गदुनोफने दबा दिया, लेकिन इसी समय किसान विद्रोहके रूपमें दूसरा भारी खतरा उठ खड़ा हुआ।

१६०१ ई०में रूसमें अकाल पड़ गया—पहले बहुत वर्षा हुई, फिर शरदके आरंभ हीमें पाला पड़ा, जिसके कारण सारी फसल बरबाद हो गई और वसंतमें खेतोंमें कोई अनाज नहीं पैदा हुआ। वसंतकी बोआईके लिये किसानोंके पास बीजतक नहीं रह गया। लोग भूखके मारे घास और भोजपत्रकी छाल खा रहे थे। कोई-कोई गांव तो सारा-का-सारा मर गया। मास्कोकी सड़कोंपर भी बिना दफनाई लाशें पड़ी हुई थीं। यह भयंकर अकाल तीन वर्ष (१६०१-१६०३ ई०)तक रहा। तालुक-दारों, मठों और व्यापारियोंके पास भारी परिमाणमें गल्ला था, लेकिन उन्होंने उसे महंगे भावों-पर बेचकर धन जमा करना पसंद किया। सामंतों और जमींदारोंने उस समय खाना देनेसे इन्कार करके अपने सेवकोंतकको भी भगा दिया। भुखमरोंके विद्रोहका भय देखकर गदुनोफने हुक्म दिया, कि सरकारी बखारोंको खोलकर लोगोंमें अनाज बांटा जाय, लेकिन बांटने वालोंने उसमें भी अपने लिये खूब पैसे बनाये। सरकारके पास इतना गल्ला भी नहीं था, और जिनके पास बहुत गल्ला था, वह मूल्यके और भी अधिक बढ़नेकी आशासे अपनी बखारोंको खोलना नहीं चाहते थे। "मरता क्या न करता"के अनुसार अब भूखसे मरते किसानों और अर्धदासोंने अपनी टुकड़ियां बना जमींदारों और बनियोंको लूटना शुरू किया। उनमेंसे कुछ दोन-उपत्यका और ब्रघांस्कके जंगलों-में चले गये। १६३० ई०में खलोपको कसलोपके नेतृत्वमें किसानोंकी एक बड़ी टुकड़ी राजधानी (मास्को)के पास पहुंची, जिसकी जारकी सेनासे एक भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें जारका वीरवद (राज्यपाल) इवान बसमानोफ मारा गया। बड़ी मुश्किलसे जारकी सेनाने राजधानीसे विद्रो-

हियोंको भगा पाया। खलोपको कसलोप आहत होकर पकड़ा गया, लेकिन जल्दी ही मर गया। बहुतसे किसान और अर्ध-दासोंको जारके बोयवदोंने मास्कोकी ओर आनेवाली सड़कोंके किनारेके वृक्षों-पर लटकाकर फांसी दे दी।

इसी समय प्रतिद्वंद्वी पोलन्दने रूसकी इस हालतसे फायदा उठाया और पोल-राजा सिगिस्मंद III ने एक मिथ्या दिमित्रि को अपने हाथका हथियार बनाना चाहा। रोमन कैथलिक धर्मराज पोपको जब यह खबर मिली, तो उसने भी दिमित्रिका समर्थन किया। अफवाह फैलाई गई, कि जार-पुत्र दिमित्रि उगलिचमें मारा नहीं गया, बल्कि वह भागकर पोलन्द चला गया। बोरिस गदुनोफ जिस समय गद्दीपर बैठा, उसी समय उक्रइनने पान (सामन्त) आदम विस्नियो-वियेच्कीके गढ़में एक आदमी प्रकट हुआ, जिसने अपनेको इवान IVका पुत्र दिमित्रि घोषित किया। मास्को-सरकारको जब यह पता लगा, तो उसने उसके बारेमें कहा—यह दिमित्रि एक भूतपूर्व साधु ग्रिगोरी ओतरेपयेफ है, जो कि कस्त्रोमाके एक छोटेसे सामन्ती घरानेमें पैदा हुआ। ग्रिगोरी जवानीमें कितने ही मठोंमें धूमता रहा, फिर उसने अपना कुछ समय मास्कोमें बिताया, और अंतमें दूसरे तीन साधुओंके साथ पोलन्द भाग गया। आधुनिक इतिहासकारोंका कहना है, कि मिथ्या दिमित्रि कौन था, इसका पता लगाना मुश्किल है।

पोल अमीरोंने मिथ्या दिमित्रिके प्रकट होनेकी खबरका बड़ा स्वागत किया। उसे विस्नियोवियेच्कीके एक संबंधी तथा सम्बोरके बोयबोद यूरी म्निस्जेफके पास पहुंचाया गया। १६०४ ई०के वसंतमें राजा सिगिस्मंदIII ने राजधानी क्राकोमें दिमित्रिका स्वागत किया। उस समय तुरंत रूसके साथ खुली लड़ाई करना पसंद नहीं किया गया, लेकिन इस बातकी कोशिश की गई, कि दिमित्रिके पक्षपाती उसकी सेनामें आकर शामिल हों। पोल अमीरोंको रूसके धनका लोभ था, इसलिये वह दिमित्रिकी हर तरहसे सहायता करनेके लिये तैयार थे। दिमित्रिने पोप, पोलन्दके राजा तथा अमीरोंको बहुत बड़े-बड़े वचन दिये। पोपको खुश करनेके लिये उसने कैथलिक-धर्म स्वीकार किया और सभी रूसियोंको कैथलिक बनानेका बीड़ा उठाया। पोल-राजाको उसने स्मोलेन्स्क नगर तथा चेर्निगोफके इलाके (सेवेर्स्क)को देनेका वचन दिया। म्निस्जेफ परिवारको उसने नवगोरद और प्सकोफ प्रदेशका शासक बनानेका वादा करते कहा, कि जारके खजानेसे जो कुछ भी पैसा और रतन-जवाहर मिलेगा, वह तुम्हारा होगा। इस शर्तपर यूरी म्निस्जेफने अपनी लड़की मरीनाका ब्याह मिथ्या दिमित्रिसे करना कबूल किया—मरीना रूसी जारित्सा (जारानी) बनती। दिमित्रिके लिये सारी तैयारी सम्बोरमें होने लगी। तैयारीके बाद १६०४ ई०के शरदके अन्तमें चार हजार पोल-सेना तथा कई सौ रूसी कसाकोंके साथ दिमित्रिने कियेफके पास द्नीयेपर नदी पार किया। बिना प्रतिरोध किये ही कितने ही नगरोंने दिमित्रिकी अधीनता स्वीकार की। बोरिस गदुनोफके शासनसे असंतुष्ट अकालके मारे कितने ही भगोड़े किसान, अर्ध-दास तथा छोटे-छोटे सैनिक भी उसके झंडेके नीचे जा खड़े हुये। बहुतसे किसान सचमुच ही उसे इवानIVका पुत्र समझने लगे। उनको यह भी विश्वास था, कि वह हमें अर्ध-दासतासे मुक्त कर देगा। १६०४ ई०के अन्तमें मास्कोकी सेना दिमित्रि द्वारा घेरे गये नवगोरद-सेवेर्स्कको मुक्त करनेके लिये पहुंची। मिथ्या दिमित्रिने चाहा, कि बिना लड़े सेवेर्स्ककी ओर चला जाय। जनवरी १६०५ ई०में वह सेवेर्स्कके पास दोबरोनीची गांवमें हारकर अपने बचे-खुचे आदमियोंके साथ पुतिवल्की ओर भाग गया। विजय प्राप्त करनेके बाद भी गदुनोफकी हाल बेहतर नहीं हुई। विद्रोहियोंके नये-नये दल आकर आक्रमण करते रहे। जारकी सेना क्रोमीके किलेको घेरे हुई थी। दोनके कसाक दिमित्रिकी ओर होकर लड़ने लगे। इसी समय जारकी सेनाने भी दिमित्रिके विरुद्ध लड़नेसे इन्कार कर दिया और बहुतसे सिपाही मैदान छोड़कर घर चले गये। इसी अवस्थामें अप्रैल १६०५ ई०में गदुनोफ एकाएक मर गया। सामन्तोंने तुरन्त उसके सोलह वर्षके पुत्र फ्योदोरको जार घोषित कर दिया।

गदुनोफके शासन-कालमें ही १५९८ ई०में साइबेरियामें जाकर रूसी प्रवासियोंके बसनेका पहिला उल्लेख मिलता है। जार-पुत्र दिमित्रिके मरनेके बाद ये लोग उगलिचसे भागकर पूर्वमें

चले गये थे । साइबेरियामें रूसियोंकी कुछ बस्तियां बल्कि पहले ही १५८७ ई०में तबोल्स्क नगरकी स्थापनाके समयसे बसने लगी थीं । १६०४ ई०में तोम्स्क नगर भी स्थापित हो गया ।

२. फ्योदोर, बोरिस-पुत्र (१३ अप्रैल-१ जून १६०५ ई०)

फ्योदोरको गद्दी नहीं बल्कि थोड़े दिनोंके लिये खाली सिंहासनपर बैठकर रूसकी राजा-वलीमें नाम लिखवानेका मौका मिला । गदुनोफके हटते ही मिथ्या दिमित्रिका रास्ता खुल गया । क्रोमामें जो बची-खुची सरकारी सेना रह गई थी, वह भी पीतर वसमानोफकी अधीनतामें दिमित्रिकी ओर चली गई । सामन्त पहिले हीसे गदुनोफसे घृणा करते थे, क्योंकि वह राजुलोकें अस्तित्वको खतरेमें डाले हुये था । राजुल वासिली इवान-पुत्र शुइस्कीने पहले उगलिचमें जार-पुत्र दिमित्रिके मरनेकी गवाही दी थी । अब उसने अपनी बातसे इन्कार करते कहा, कि गदुनोफ जार-पुत्रको मारना चाहता था, किंतु वह जान बचाकर भाग गया । वह जिंदा है और अब राजधानीकी ओर आ रहा है । दिमित्रिके दूतोंके मास्को पहुंचनेपर अमीरोंने जार फ्योदोर और उसकी मांको मार डाला । दिमित्रिने बिना किसी विरोधके जून १६०५ ई०में अपने सहायक पोलोंके साथ रूसी राज-धानीमें प्रवेश किया—यह अकबरकी मृत्युका साल था ।

३. दिमित्रि, मिथ्या (१६०५-६ ई०)

दिमित्रिने जारके पुराने सिंहासनपर बैठते ही अपने असली रूपको दिखलाना शुरू किया । पहले उसने असंतुष्ट किसानोंको विश्वास दिलाया था, कि हम तुम्हारी हालत बेहतर बनायेंगे, लेकिन अब उसने फिर जमींदारों और सामन्तोंकी पूर्व-स्थितिको मजबूत करना शुरू किया । ऊपरसे जो पोल अमीर और दूसरे अनुचर आये थे, वह अपनेको रूसियोंका विघाता समझते उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते दोनों हाथोंसे नोंच-खसोट कर रहे थे । दिमित्रिके चारों तरफ भाड़ेके विदेशी नौकर भरे हुये थे । दिमित्रि स्वयं बहुत भारी परिमाणमें पैसा पोलन्द भेज रहा था । अब लोगोंकी आंखें खुलीं और मास्कोके नागरिकोंने खुल्लमखुल्ला शिकायत करनी शुरू की । १६०६ ई०के वसंतमें दिमित्रिकी बीबी मरीना आई, जिसके साथ पोल अमीरोंका एक बड़ा दल बहुतसे अनुचरोंको लिये आया । मरीनाके साथ दिमित्रिका विवाह-महोत्सव बड़े ठाट-बाटसे मनाया गया, कई दिनोंतक मौज होते रहे । शराबमें मस्त उसके विदेशी सहायकोंने इस समय और भी गजब ढाया, जिससे जनता क्रोधमें पागल हो गई । राजुल वासिली शुइस्कीने इस अवस्थासे फायदा उठा षड्यंत्र रचा और १७ मई १६०६ ई०को घण्टेकी आवाजके संकेतको सुनते ही लोग मुकाबिले के लिये खड़े हो चिल्ला उठे—“चलो लितवों पर ! लितवोंकी क्षय ! !”—रूसी उस समय पोलोंको लितवा कहते थे । मिथ्या दिमित्रिको जब खतरेकी खबर मिली, तो महलके सामने काफी भीड़ जमा हो चुकी थी । जान बचानेके लिये खिड़कीसे कूदा, जिसके कारण वह बुरी तरह घायल हो गया । लोगोंने पहुंचकर उसे तुरन्त ही मार डाला । कुछ दिनों बाद मिथ्या दिमित्रिके शरीरको जला उसकी राख एक तोपमें भरकर उसे उसी ओर मुंह करके दाग दिया गया, जिधरसे वह आया था । सारे नागरिक शहरमें दूढ़-दूढ़कर पोल अमीरों और दरबारियोंको मारने लगे । पत्थर, छुरा, डंडा जो कुछ भी हाथ आया, उसीसे उन्होंने हथियारबंद पोलोंपर आक्रमण किया । दो हजार पोल मारे गये और बाकियोंने मोर्चाबंदी छोड़े आत्म-समर्पण कर दिया । बायरीको डर लगा, कि त्रिद्रोही जनसाधारण कहीं उनके विरुद्धभी कुछ न कर बैठे, इसलिये उन्होंने सबसे पहले सिंहासनपर किसीको बैठाकर राजशक्तिको मजबूत करना जरूरी समझा । उन्हें राष्ट्रीय परिषद् (जेम्स्की सबोर)को बुलाने, की हिम्मत नहीं हुई । डर रहे थे, शायद अधिकांश नागरिक और अमीर भी विरोध करें, इसलिये पुराने राजुलवंशी वासिली इवान-पुत्र शुइस्कीका नाम बिना निर्वाचनके ही १९ मईको क्रैमलिनके सामने जमा हुये लोगोंके बीच जारके तौरपर घोषित कर दिया ।

इस गड़बड़ीके समयके जार निम्न थे—

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| १. बोरिस गदुनोफ | १५९५-१६०५ ई० |
| २. फ्योदोर, बोरिस-पुत्र | १३ अप्रैल-१ जून १६०५" |
| ३. दिमित्रि (मिथ्या) | १६०५-६ " |
| ४. वासिली, इवान-पुत्र शुइस्की | १६०६-१०" |
| ५. ग्लादिस्लाव, सिगिस्मंद-पुत्र | १६१०-१३ " |

४. वासिली शुइस्की, इवान-पुत्र (१६०६-१० ई०)

शुइस्कीने बायरोको वचन दे दिया था, कि मैं तुम्हारी सम्मतिसे राज्य करूंगा, और क्रास (सलेब) के ऊपर कसम खाई थी, कि बिना बायरोकी दूमा (संसद)की रायके मृत्युदंड नहीं दूंगा, न दंडित-पुरुषके संबंधियोंकी सम्पत्ति जब्त करूंगा। रूसके भिन्न-भिन्न नगरोंमें उसके जार होनेकी घोषणा की गई। धनी बायरोने सबसे अधिक लाभके पदोंपर झपट्टा मारा, और उन्होंने फिर मनमानी करनी शुरू की। पुराने राजकुलवंशों और नये जमींदार-धनियों—बायरो—के स्वार्थ एक नहीं थे। सामन्त कब बरदाश्त करने लगे, कि सभी बड़े-बड़े पदों को बायर दखल कर लें। जल्दी ही विद्रोह उठ खड़े होनेकी शंका होने लगी। बायरोने प्रतिरक्षाके लिये क्रैमलिनमें तैयारी शुरू की, उसकी दीवारोंपर तोपें लगा दीं, और खाइयोंके ऊपरके पुलोंको हटा दिया।

किसान-विद्रोह (१६०६-८ ई०)—किसानोंने विद्रोह किया, लेकिन वह संगठित नहीं था। जहां-तहां छिटपुट लोग सरकारके विरुद्ध आक्रमण कर रहे थे, जिससे सरकारी सेनाको अच्छा मौका मिला, और एक जगहके विद्रोहको दबा देनेपर दूसरी जगहके विद्रोहको दबाना आसान था। सबसे ज्यादा खतरनाक और जबर्दस्त विद्रोह था मजदूरों, अर्ध-दासों और कसाकोंका, जिसका नेता इवान बलोत्निकोफ (१६०६-७ ई०) था। अपनी जवानीके समय बलोत्निकोफ एक बायरका अर्ध-दास था, जिसके अत्याचारोंसे परेशान हो वह दोन-उपत्यकाके कसाकोंमें भाग गया, जहां वह तार-तारोंके हाथमें पड़ गया। उन्होंने उसे दास बनाकर तुर्कोंके हाथमें बेंच दिया। कुछ दिनों तक बलोत्निकोफ दूसरे बंदियोंकी तरह पैरोंमें बेड़ी पहने नावकी पतवार चलाता रहा, लेकिन थोड़े ही समय बाद वह तुर्कोंकी दासतासे मुक्त होनेमें सफल हुआ। तुर्कोंसे युरोपके भिन्न-भिन्न देशोंमें कितने ही साल घूमनेके बाद रूसी सीमांतके भीतर लौट आया। इसी समय शुइस्कीके विरुद्ध विद्रोह आरम्भ हुआ था। बलोत्निकोफने विद्रोही सेनाका नेतृत्व स्वीकार किया। सामयिक लेखक उसकी असाधारण शारीरिक शक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि और बहादुरीकी प्रशंसा करते हैं। विदेशी लेखक उसे "युद्धवीर" कहते थे। युद्धोंमें उसने अपनी सैनिक प्रतिभाका अच्छा परिचय दिया था। जहां-कहीं भी बलोत्निकोफकी सेना जाती, किसान अपने जमींदारोंके विरुद्ध होकर उसकी सेनामें आ मिलते। शहरके गरीब भी उसकी तरफ हो जाते। बलोत्निकोफकी सेना पुतिवल्से जल्दी-जल्दी क्रोमी, सेरपुखोफ और कलोम्ना होती मास्कोकी ओर बढ़ी। अक्टूबर (१६०६ ई०)के मध्यमें बलोत्निकोफ मास्कोके सामने पहुंचा। राजधानीके चारों तरफ प्रतिरक्षाके लिये तेहरी पत्थरकी दीवार तैयार की गई थी। बलोत्निकोफ उसे सर नहीं कर सका, फिर मुहासिरा करके बैठ रहा। उसने नागरिकोंसे अपील करते पत्र लिखकर लोगोंमें बंटवाया, किसानों और अर्ध-दासोंको कहा—अपने बायरो और जमींदारोंको खतम कर डालो, मैं तुम्हें राजुलोंकी भूमि प्रदान करूंगा। बलोत्निकोफकी सेनामें कुछ असंतुष्ट राजुल भी थे, जिन्होंने इस खतरेको देखा। रघाजनके सामंत तथा ल्यापुनोफ-भ्रातृयुगल बलोत्निकोफका साथ छोड़कर शुइस्कीकी ओर हो गये। इसपर जारकी सेनाकी हिम्मत और शक्ति बढ़ी, जिसके साथ ही कितने ही और अमीर जारकी ओर हो गये। बलोत्निकोफको बची-खुची सेना लेकर दक्षिणकी ओर हटना पड़ा। उसने जाकर कलूगामें छावनी डाली। १६०७ ई०के बसंतमें जारकी सेनाने कलूगाको घेर लिया, लेकिन इसी समय विद्रोहियोंकी एक नई सेना बलोत्निकोफकी मददके लिये आ गई और शुइस्कीकी सेनाको बुरी तरहसे हार घेरा उठाकर भागना पड़ा।

बलोत्तिकोफ आगे बढ़कर तुला पहुंचा, जहां कसाकोंका एक नया दल उससे आ मिला । इसी दलमें पीतर नामक एक आदमी था, जो अपनेको जार फ्योदोर (इवान-पुत्र)का बेटा कहता था, यद्यपि वस्तुतः फ्योदोरका कोई बेटा नहीं था । गर्मियोंमें शुइस्की एक बड़ी सेना जमाकर चार महीनेतक तुलामें बलोत्तिकोफपर आक्रमण करता रहा । जारके सेनापतियोंने देखा, कि बलोत्तिकोफको जल्दी हराया नहीं जा सकता और जाइमें घेरा रखना मुश्किल होगा, इसलिये उन्होंने पासकी उपा नदीके ऊपर एक ऊंचा बांध बांध दिया, जिससे नदीका पानी इकट्ठा होकर जोरसे शहरके भीतर बढ़ा, जिससे बलोत्तिकोफकी रसद और बारूद बह गई । इसपर समर्पणकी बात होने लगी । जार वासिलीने वचन दिया, कि मैं सभी विद्रोहियोंको क्षमा कर दूंगा, लेकिन उसने अपनी वचनका पालन नहीं किया । इवान बलोत्तिकोफको उत्तरमें करपोलकी ओर भेजकर अंधा करके डुबा दिया गया, और बहुतसे दूसरे विद्रोहियोंको खलोपी (गृहदास) और अर्धदास बनाकर अमीरोंको दे दिया गया । बलोत्तिकोफ मारा गया, उसके सैनिक तितर-बितर हो गये, लेकिन शुइस्कीके विरुद्ध विद्रोह नहीं दबा । बोल्गा-उपत्यकाके मोर्द्विन और मारी (चेरेमिसी) विद्रोही बने और उन्होंने रूसी किसानों और अर्ध-दासोंको साथ लेकर निज्नी-नवोगोरदको घेर लिया । उस समय तो जारकी सेना उन्हें हटानेमें सफल हुई, लेकिन १६०८ ई०की शरदमें सारी मध्य-बोल्गा उपत्यका विद्रोही बन गई ।

इधर देशके भीतर इस तरहकी विद्रोहाग्नि जल रही थी, उधर पोल भी चुप नहीं बैठे थे । उन्होंने यह अफवाह फैलाई, कि मास्कोमें खिड़कीसे कूदकर मरनेवाला आदमी वस्तुतः दिमित्रि नहीं था, बल्कि दूसरे आदमीने अपनी जान देकर जार दिमित्रिके भागनेमें सहायता की । यह अफवाह यद्यपि दिमित्रिके मरनेके दिनसे ही उड़ाई जाने लगी थी, लेकिन उसका प्रभाव उस समय अधिक नहीं पड़ा । १६०८ ई०के वसंतमें एक नया जार-पुत्र मिथ्या दिमित्रि II मास्कोके सीमांतपर प्रकट हुआ । उसके साथ पोलंदकी सरकारी सेना और दूसरे बहुतसे सैनिक थे । लिथुवानी सामन्त यान सपिएहा ७५०० पैदल और सवार सेना लेकर आया, हेतमन रोजिन्सकी भी चार हजार आदमियों के साथ पहुंचा । इसी तरह दोन और जापोरोज्ये कसाक भी मिथ्या दिमित्रि IIके साथ आ मिले । बोलखोफके पास १६०८ ई०के वसंतमें जारकी सेनाने हार खाई और दिमित्रि IIकी मुख्य सेना कलूगा और मोजाइस्केके रास्ते मास्कोकी ओर बढ़ी । उन्होंने मास्कोपर अधिकार करनेकी विफल कोशिश की । इसके बाद पोलोंने राजधानीसे थोड़ी दूरपर मास्क्वा नदीके ऊंचे तटपर अवस्थित तुशिनो गांवमें मोर्चाबंदी करके डेरा डाला, जिसके ही कारण लोगोंने मिथ्या दिमित्रि IIको "तुशिनो जार" अथवा "तुशिनोका चोर" कहना शुरू किया । मास्कोकी स्थिति बहुत बुरी हो गई थी । नगरमें आहारका अकाल था । कितने ही बायर और राजुल शुइस्कीके पतनको निश्चित समझकर मिथ्या दिमित्रिके पास चले गये । मास्कोपर घेरा डालकर मिथ्या दिमित्रिकी सेनाने आसपासके महत्वपूर्ण स्थानोंपर अधिकार करना शुरू किया । राजधानीसे सत्तर किलोमीटरपर अवस्थित त्रोइत्स्क-सेर्गियेफ मठ (आधुनिक जागोर्सक)को पोलोंने लेना चाहा । लेकिन रक्षाके लिये पासके किसान भी मठकी ऊंची दीवारोंके भीतर पहुंचे हुये थे । मठने अपनी तोपों और सैनिकोंके बलपर पोलों और दिमित्रिकी सेनाको मार भगाया । ऊपरी वोल्गाके नगरोंमें उसे जरूर सफलता मिली, क्योंकि वहाके लोग जार और बायरोसे इतनी घृणा करते थे, कि उन्हें मिथ्या दिमित्रि सच्चा दिमित्रि मालूम होता था ।

लेकिन दिमित्रिको जितनी सफलता होती जाती थी, उतना ही उसके सहायक पोलोंका अत्याचार और अपमानजनक बर्ताव बढ़ता जाता था । वह नगरोंमें पहुंचकर व्यापारियोंके मालको छीनते, किसानों और कारीगरोंपर भारी कर लगाते, जरा भी आनाकानी करनेपर उनके घरों और खेतोंकी फसलको जला देते । कितने ही रूसी बायरो और जमींदारोंकी सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिके तौरपर उन्होंने छीन लिया । लोग उनके विरुद्ध खड़े होनेके लिये मजबूर हुये । छिटफुट होते विद्रोह १६०८ ई०में देशव्यापी गोरिल्ला-युद्धके रूपमें परिणत हो गये ।

शुइस्कीने देखा, कि वह अकेला दोनों ओरकी मारको नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिये उसने स्वीडेनके राजा चार्ल्स नवमसे मददके बदलेमें संधि द्वारा करेला (केखहोल्म)के नगर और आसपासके प्रदेशको स्वीडेनको दे दिया। चार्ल्सने इसके बदलेमें पोलोंको भगाने तथा जारकी शक्तको मजबूत करनेके लिये सहायता देनेका वचन दिया। स्वीडेनने १६०९ ई०के बसंतमें पंद्रह हजार सेनाके साथ जेकब देलागारदीको भेजा। इस सेनामें स्वीड, जर्मन, अंग्रेज, फ्रेंच और दूसरे कितने ही देशोंके भाड़ेके सैनिक थे। शुइस्कीका भतीजा राजकुमार स्कोपिन-शुइस्की भी अपने रूसी सैनिकोंको लिये इस सेनाके साथ हो गया। सेना रास्तेमें कितने ही नगरों और कस्बोंको मुक्त करती तुशिनोकी ओर बढ़ी। पोल भी आखिरी दाव लगानेके लिये तैयार थे। १६०९ ई०के ग्रीष्ममें भिन्न-भिन्न पोल सेनाओंने जगह-जगहपर आक्रमण करके लूट-मार की, और इसी सालकी शरदमें पोल राजा सिगिस्मंदIIने एक बड़ी सेना ले रूसके भीतर घुसकर स्मोलेन्स्क नगरपर घेरा डाल दिया। सीधे रूस और पोलन्दके बीच खुलकर लड़ाई होने लगी। सिगिस्मंदको अब मिथ्या दिमित्रिकाकी अवश्यकता नहीं थी। जनवरी १६१० ई०में मिथ्या दिमित्रिका पोल सहायतासे वंचित होकर तुशिनोसे कलूगाकी ओर भागा। उसके साथ अब भी कुछ पोल इस आशासे चल रहे थे, कि शायद मास्कोका सिंहासन आखिरमें उसको ही मिले। दिमित्रिका पक्ष लेनेवाले रूसी बायरों और राजुलोंने आशा छोड़कर सिगिस्मंदके साथ समझौता करना चाहा, और पोल राजाके पुत्र व्लादिस्लावको मास्कोका जार स्वीकार करते हुये ४ फरवरी १६१० ई०में संधि की। सिगिस्मंदने अपने पुत्रकी ओरसे वचन दिया, कि वह अमीरों और जमींदारोंके अधिकारोंपर प्रहार नहीं होने देगा और भगोड़े किसानोंको उनके पास लौट जानेके लिये मजबूर करेगा।

५. व्लादिस्लाव सिगिस्मंद-पुत्र (१६१०-१३ ई०)

मार्च १६१० ई०में रूसी-स्वीडिश सेना मास्कोके भीतर दाखिल हुई। उधर मास्कोपर अधिकार करनेके लिये एक पोल सेना पहुंची, जिसके विरुद्ध शुइस्कीने अपने भाई दिमित्रि शुइस्कीके नेतृत्वमें एक सेना भेजी। जून १६१० ई०में क्लुशिनो गांवके पास दोनों सेनाओंमें लड़ाई हुई, लेकिन लड़ते समय जर्मन और स्वीड भाड़ेके सैनिक रूसियोंका साथ छोड़कर पोलोंकी ओर मिल गये—उन्हें तो पैसेसे काम था। पोलोंने स्वीडोंको स्वतन्त्रता-पूर्वक लौट जानेकी इजाजत दे दी। जुलाई १६१० ई०में मास्कोके नागरिकोंमें भूखे मरनेकी और शक्ति नहीं रह गई, और उन्होंने वासिली शुइस्कीके खिलाफ विद्रोह कर दिया। बायरों और राजुलोंने वासिलीको पकड़कर उसे साधु बननेके लिये मजबूर किया, जिसमें कि वह राजकाजमें दखल न दे सके। शासन-भार अब सात बड़े-बड़े बायरोंकी बनी सरकारके हाथमें चला गया, इसीलिये इस सरकारको सेमी-बायर्-श्चिना (सात बायर शासन) कहा जाता था। बायरोंने अपनी स्थितिको मजबूत नहीं देखी, इसलिये उन्होंने इस शर्तपर व्लादिस्लावको मास्कोका जार बनना स्वीकार किया, कि वह बायरोंके साथ मिलकर शासन करे। विश्वासघातियोंने समझौता करके पोल-सेनाको मास्कोके भीतर आने दिया। संघराज फिलारेत तथा कुछ और बायरोंका एक प्रतिनिधि-मंडल स्मोलेन्स्ककी दीवारोंके बाहर सिगिस्मंदIII से मिलकर संधि करनेके लिये गया। लेकिन, पोलोंने इन देशद्रोहियोंको उनके कियेका अच्छा मजा चखाया और सबको पकड़कर पोलन्द भेज दिया। इन प्रतिनिधियोंने मास्कोमें गुप्त रीतिसे चिट्ठियां भेजकर अपनी हीन स्थिति और पोलोंके विश्वासघातके बारेमें सूचित करते कहा, कि पोलोंकी अधीनता स्वीकार मत करो, आपसमें इसके बारेमें राय करो तथा हमारे पत्रको "नवो-गोरद, बलोभदा और निजनीमें भेज दो, जिसमें सब इस बातको जान लें।" पोल राजाकी मंशा वस्तुतः स्वयं मास्कोका जार बननेकी थी।

मास्कोके भीतर पहुंचकर फिर पोलोंने मनमानी शुरू कर दी, और जरा भी विरोध करनेपर लोगोंको तुरंत गिरफ्तार करके बंदीखानेमें डाल दिया जाता। पोल अमीरोंने क्रैमलिनमें जारके खजानेको लूट लिया। उधर अपने राजाके नेतृत्वमें एक पोल सेना स्मोलेन्स्कको घेरे रही।

उत्तरमें स्वीडॉनने फिनलन्द-खाड़ीके दक्षिणी तटपर अधिकार करके नवोगोरदको खतरेमें डाल दिया। व्यापारियों और कारीगरोंकी हालत बुरी हो गई थी, क्योंकि नगरोंके भीतर आपसी व्यापार बिल्कुल बंद हो गया था। जमींदारों और अमीरोंकी हालत भी खराब थी, क्योंकि उनके खेतोंमें काम करनेके लिये आदमी नहीं रह गये थे।

मास्कोमें पोलोंने बहुत कोशिश की, कि लोग पोल-राजाकी राजभक्ति स्वीकार करें, लेकिन वह इसके लिये तैयार नहीं थे। जिन बायरोंने विश्वासघात करके पोलोंको बुलाया था, उनके खिलाफ घृणाजनक पत्र प्रसारित हो रहे थे। रूसी चर्चका प्रधान संघराज हर्मिंगनने भी इसी समय पोलोंके विरुद्ध अपने विचार प्रकट किये और १६१० ई०के अन्तमें उसने भिन्न-भिन्न नगरोंमें अपनी घोषणा भिजवाकर कहा, कि राजधानीकी मुक्तिके लिये रूसी जनताको आगे बढ़ना चाहिये। संघराजकी घोषणाने लोगोंको और भी उत्तेजित कर दिया। जब इसकी खबर पोलोंको मिली, तो उन्होंने संघ-राजको जेलमें डालकर तरह-तरहकी यातना देनी शुरू की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी।

व्लादिस्लावको जारका सिंहासन तो मिला, लेकिन उसे और उसके बापको रूसियोंने चैनसे रहने नहीं दिया। मास्कोको मुक्त करनेके लिये सारे देशमें तैयारी होने लगी। जनवरी १६११ ई०में र्याजनके वीयवोद (राज्यपाल) प्रोक्रोपी ल्यापुनोफने मास्कोकी मुक्तिके लिये स्वयंसेवकोंका संगठन शुरू किया, जिसमें पहिले मुख्यतः दक्षिणी जिलोंके अमीरोंकी सैनिक टुकड़ियां शामिल हुईं। ल्यापुनोफने कसाकों और अर्धदासोंको भी पैसे और मुक्तिका लोभ देकर अपनी ओर खींचा। शक्ति बढ़ाकर एक सैनिक टुकड़ी राजकुमार दिमित्रि मिखाइल-पुत्र पजास्कीके नेतृत्वमें पोलोंके ऊपर प्रहार करने लगी। इस सेनाका हरावल ठीक समयपर मास्कोके पास पहुंचा, और पोल तथा देशद्रोही बायरोंने मास्कोमें आग लगा दी। जलते हुये घरोंके बीच लड़ाई जारी रही, पर अंतमें धूयें और आगकी ज्वालाने रूसी सेनाको शहरसे बाहर निकलनेके लिये बाध्य किया। राजकुमार पजास्की इसी लड़ाईमें घायल हुआ। कुछ महीनेतक मास्कोके बाहर रहकर फिर कोशिश की, लेकिन वह राजधानीको मुक्त नहीं करा सके। ३० जूनको सेना-संगठनके बारेमें कसाकों और सामन्तोंने आपसमें समझौता किया, जिसमें सामन्तोंका प्रतिनिधि ल्यापुनोफ था और राजकुमार दिमित्रि त्रुवेत्स्की तथा अतमन इवान जारुत्स्की कसाकोंके प्रतिनिधि थे। समझौता ठीकसे चला नहीं, दोनों पक्षोंमें जब-तब झगड़ा हो उठता। ३० जूनको वह यहाँतक बढ़ा, कि कसाकोंन प्रोक्रोपी ल्यापुनोफको मार डाला, जिसके बाद स्वयंसेवक-संगठन छिन्न-भिन्न हो गया। सामन्त अपने सैनिकोंको लेकर चले गये और सिर्फ कसाक सैनिकोंका एक भाग मास्कोके सामने रह गया।

उधर स्मोलेन्स्कके प्रतिरक्षियोंने करीब-करीब दो सालतक पोलन्दकी भारी सेनाका मुकाबिला किया। पोल राजाने तोपोंके गोलोंसे सफलता न पाकर बड़े-बड़े वादोंसे फुसलाना चाहा, लेकिन स्मोलेन्स्कके नागरिक इसके लिये तैयार नहीं थे। जून १६११ ई०के आरम्भमें पोल किलेकी दीवारको एक जगह उड़ानेमें सफल हुये, नागरिकोंने जलते हुये नगरकी सड़कोंमें आखिरी लड़ाई लड़ी। बहुतोंने शत्रुके हाथमें पड़नेकी जगह आगकी ज्वालामें कूदकर जान दे दी। सत्तर मन बारूदके एक ढेरमें आग लगा दी गई, जिससे रूसियोंके साथ बहुतसे पोल भी चिथड़े-चिथड़े उड़ गये। बहुत थोड़ेसे प्रतिरक्षी पोलोंके हाथ बंदी हुये। जिस समय स्मोलेन्स्कको पोलोंने लिया, उसी समय स्वेडॉनने उत्तरमें नवोगोरद नगरपर अधिकार किया।

कसाकों और सामन्तोंके झगड़ेके कारण यद्यपि सैनिक स्वयंसेवकोंका संगठन छिन्न-भिन्न हो गया था, लेकिन रूसियोंने पोलोंके विरुद्ध अपनी तलवार मियानमें नहीं रक्खी। निजनी-नवोगोरदने फिरसे स्वयंसेवकोंके संगठनमें आगे बढ़कर काम किया और मास्कोकी लड़ाईमें घायल प्रसिद्ध वीर राजकुमार दिमित्रि पजास्कीको सेनाका संचालक बननेके लिये नियंत्रित किया। चारों ओर फिर एक नया उत्साह दिखाई देने लगा। मास्कोमें पोलोंको जब पता लगा, कि हमारे विरुद्ध एक बड़ी भारी सेना जमा हो रही है, तो उनमें घबराहट मच गई। उनसे भी ज्यादा

भयभीत थे देशद्रोही बायर। उन्होंने लोगोंसे बहुत कहा, कि पोल राजकुमार व्लादिस्लावकी अधीनता स्वीकार करो, लेकिन लोग इसके लिये तैयार नहीं हुये।

१६१२ ई०के वसंतमें स्वयंसेवक-सेना निजनी-नवोगोरदसे यारोस्लाव्ल पहुंची। सब जगह लोग बड़े उत्साहके साथ स्वागत करते आ-आकर उसमें भर्ती हो रहे थे। यारोस्लाव्लमें सेना चार महीने रही। यहांपर उन्होंने राष्ट्रीय सरकार संगठित की और शासन-प्रबंधके भिन्न-भिन्न विभाग कायम किये। स्वयंसेवकोंमें भिन्न-भिन्न नगरोंके अमीर, तथा सभी वर्गोंके आदमी, कसाक, किसान और स्त्रेलेत्सी (धनुर्धर) ही नहीं, बल्कि तारतार, मारी और चुबाश जैसे अ-रूसी जातियोंके भी लोग सम्मिलित थे। सेनाने अपना केंद्र यारोस्लाव्लमें रक्खा, लेकिन उसकी टुकड़ियां चारों तरफ फैलकर देशको पोलोसे स्वतन्त्र करने लगी। पोल आकर रूसके भिन्न-भिन्न इलाकोंमें फैल तो गये थे, लेकिन उनको देशका परिचय कम था, इसलिये हर जगह ग्रामीणोंको पथ-प्रदर्शनके लिये मजबूर करते। कितने ही पथ-प्रदर्शकोंने उन्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया, जहां वह रूसी स्वयंसेवकों के हाथमें पड़कर नष्ट हो गये। ऐसे ही पथ-प्रदर्शकोंमें कस्त्रोमाका एक किसान इवान सुसानिन था। उसने पोलोंका पथप्रदर्शन करते उन्हें इसुपोस्कोयके दलदलमें डाल दिया। पोलोने सुसानिनको मार डाला, लेकिन वह स्वयं दलदलमें मरनेसे नहीं बचे। पीछे इवान सुसानिनका पद्य-नाटक (ओपेरा) बना, जो आज भी रूसियोंमें बहुत जनप्रिय है।

१६१२ ई०के अगस्तके अंतमें स्वयंसेवक-सेनाका मुख्य अंग मास्कोकी दीवारोंके नीचे पहुंचा। यद्यपि उसका जबरदस्त प्रतिरोध हुआ, लेकिन वह मास्को नदीके तटपर पहुंचे बिना नहीं रहा। स्वयंसेवकोंका एक मुख्य सेनापति कुजमा मीनिन चार सौ आदमियोंके साथ नदीके पार हो पोलोंके पक्षपर प्रहार करने लगा। पोल इसकी आशा नहीं रखते थे, इसलिये पहली ही चोटमें भागकर अपने डेरोंमें घुस गये। चार सौ गाड़ियोंमें भरी उनकी रसद कुजमाके आदमियोंके हाथमें पड़ी। मास्कोमें डेरा डाले पड़ी पोलसेनाको अब न कहींसे अन्न मिलता और न बाहरसे सहायता आनेकी आशा थी। अन्तमें लड़ाई और भूखकी मारसे परेशान हो २६ अक्टूबर १६१२ ई० को क्रेमलिनके फाटककर लड़ाई करते उन्होंने आत्म-समर्पण किया और मास्को मुक्त हो गया।

२. रोमनोफ-वंश (१६१३-१९१७ ई०)

मास्कोको मुक्त करनेके बाद जारके निर्वाचनके लिये राष्ट्रीय सभा (जेम्स्की सवोर)को बुलाया गया। सभामें सबसे ज्यादा जनप्रिय बायर रोमनोफ थे, जिनकी लड़कियां जार इवान IV और फयोदोरको ब्याही थीं। सामन्तों और बायरोंको उनसे भूमि, किसान तथा दूसरी चीजों के मिलनेकी आशा थी। रोमनोफ-परिवारका प्रधान व्यक्ति फिलारेत था, जो कि रस्तोफका संवराज किन्तु अब पोलंदमें बंदी होकर चला गया था। वह साधु भी था, इसलिये जार नहीं बन सकता था। १६१३ ई०के आरम्भमें राष्ट्रीय सभाने उसके सोलह वर्षके पुत्र मिखाइलको जार निर्वाचित किया, जो बुद्धि और आचरण दोनोंमें दुर्बल था।

रोमनोफ-वंश रूसका अन्तिम राजवंश था, जो कि अकबरकी मृत्युके सात साल बाद अस्तित्वमें आ १९१७ ई०की बोलशेविक क्रान्तिक शासन करता रहा। इस वंशके अन्तिम आठ जार नाममात्र के ही रोमनोफ थे, वह वस्तुतः जर्मन थे, जिसके कारण दरबारमें हमेशा जर्मनोंकी तूती बोलती रही। इस वंशमें निम्न जार हुये—

१. मिखाइल, फिलारेत-पुत्र	१६१३-४५ ई०
२. अलेक्सान्द्र I, मिखाइल-पुत्र	१६४५-७६ "
३. फयोदोर, अलेक्सान्द्र I-पुत्र	१६७६-८२ "
४. इवान V, अलेक्सान्द्र I-पुत्र	१६८२-९६ "
५. पीतर I, अलेक्सान्द्र I-पुत्र	१६९६-१७२५ "
६. एकातेरिना I, पीतर I-पत्नी	१७२५-२७ "

७. पीतर II, अलेक्सान्द्र-पुत्र	१७२७-३० ई०
८. अन्ना, इवान V-पुत्री	१७३०-४० "
९. इवान VI, अन्ना-पुत्र	१७४०-४१ "
१०. एलिजाबेथ, पीतर I-पुत्री	१७४१-६१ "
११. पीतर III, पीतर I-नाती	१७६१-६२ "
१२. एकातेरिना II, पीतर III-पत्नी	१७६२-९६ "
१३. पावल I, पीतर III-पुत्र	१७९६-१८०१ "
१४. अलेक्सान्द्र I, पावल I-पुत्र	१८०१-२५ "
१५. निकोलाइ I, पावल I-पुत्र	१८२५-५५ "
१६. अलेक्सान्द्र II, निकोलाइ I-पुत्र	१८५५-८१ "
१७. अलेक्सान्द्र III, अलेक्सान्द्र II-पुत्र	१८८१-९४ "
१८. निकोलाइ II, अलेक्सान्द्र III-पुत्र	१८९४-१९१७ "

१. मिखाइल, फिलारेत-पुत्र (१६१३-४५ ई०)

वस्तुतः शासनसूत्र मिखाइलके नामसे अब उसकी मां और संबंधियोंके हाथमें था। नई सरकारको देशमें व्यवस्था कायम करनेमें काफी दिक्कतका सामना करना पड़ा। अस्त्राखानमें भागे हुये जारुत्स्कीने अपनेको जार दिमित्रि घोषित किया, लेकिन उसको सहायता नहीं मिली और अन्तमें लोगोंने उसे और उसकी स्त्री मरीनाको पकड़कर सरकारके हवाले कर दिया। जारुत्स्कीको मास्कोमें फांसी हुई, मरीना जेलमें मरी और उसका बच्चा भी फांसीपर चढ़ा दिया गया। यद्यपि पोलन्दसे संघर्ष कम हो गया, लेकिन रूसकी भीतरी कमजोरियोंको देखकर स्वीडोंने नवोगोरदपर अधिकार करके संघर्ष जारी रक्खा। उनसे छुटकारा १६१५ ई०में प्सकोफमें उनके प्रसिद्ध योद्धा राजा गस्ताव अदल्फसको हराकर ही हुआ। रूसी भी लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके कारण देशका व्यापार तथा सारा आर्थिक जीवन चौपट हो गया था, लोगोंकी हालत बुरी थी। इंग्लैण्ड और हालैंडको बीचमें डालकर १६१७ ई०के आरम्भमें, स्तोल्बोवोकी संधि हुई, जिसके अनुसार स्वीड सेनाने यद्यपि नवोगोरद और उसके इलाकेको खाली कर दिया, लेकिन फिनलन्द-खाड़ीका सारा तट तथा कितने ही नगर अपने हाथमें ही रखे, इस प्रकार रूस बाल्तिक समुद्रसे वंचित रहा। व्लादिस्लाव अभी भी रूसी सिंहासनकी आशा नहीं छोड़े था। १६१८ ई०में वह एक बार मास्कोतक पहुंचा, लेकिन वहांसे मार भगाया गया। आखिर उसने भी १६१८ ई०के अन्त में साढ़े चौदह सालके लिये मास्कोके साथ संधि कर ली, लेकिन स्मोलेन्स्क और आसपासके इलाके तथा सेवेस्क (चरगीनोफ)के इलाकेको पोलोंने नहीं छोड़ा। इस संधिके बाद जारका पिता फिलारेत रोमनोफ बंदीखानेसे मुक्त हुआ। मास्को पहुंचनेके तुरन्त ही बाद उसे सारे रूसी चर्चका महासंघराज बना दिया गया और अबसे जीवनभर (१६१९-३५ ई०) वही रूसका वास्तविक शासक था। सभी राजादेश जार और उसके बापके नामसे निकाले जाते थे। फिलारेतको महास्वामी ("बेलीकी गसुदार")की उपाधि मिली थी। वह अब धर्म और राज्य दोनोंका कर्णधार था। इस असीम शक्तिको इस्तेमाल करके उसने केन्द्रीय सरकारको बहुत मजबूत किया। मास्कोने १६३२ ई०में स्मोलेन्स्कको लौटानेकी कोशिश की, लेकिन पोलन्दने राजनीतिक चालसे क्रिमियाके तारतारोंको मास्कोसे उलझा दिया, और इस प्रकार उस साल स्मोलेन्स्कका अभियान व्यर्थ गया। १६३३ ई०में महासंघराज फिलारेत मर गया।

इस समय पोलन्दके षड्यन्त्रके कारण मास्कोके दक्षिणी सीमांतको क्रिमियाके तारतारोंसे बहुत खतरा पैदा हो गया था। वह जब-तब रूसके भीतर घुसकर गांवों और शहरोंमें लूटपाट मचाते थे। प्रतिरक्षाके लिये दक्षिणी सीमांतकी मोर्चाबंदी अब आवश्यक हो गई थी। तारतार दोनके कसाकोंपर भी हमला करते थे, इसलिये वह भी उनको दबानेके लिये सब तरहसे तैयार थे। क्रिमियाके

तारतारोंकी पीठपर उधर तुर्कीका सुल्तान भी था, जिसका अधिकार काकेशससे अजोफ समुद्रके तट तक था। १६३७ ई०में दोनके कसाकोंने अजोफके किलेपर आक्रमण किया। दोन नदीद्वारा अजोफ-समुद्रके भीतर पहुंचनेमें तुर्कीका यह किला भारी बाधक था। दो महीनेके मुहासिरेके बाद कसाकोंने किलेको सर कर लिया। तुर्की सुल्तान इसे कैसे बरदाश्त कर सकता था? उसने १६४१ ई०में शक्तिशाली तोपखानेके साथ एक भारी सेना उनके विरुद्ध भेजी। मुट्ठी भर कसाक सेनाने चौबीस बार तुर्कीके आक्रमणको विफल कर दिया। अन्तमें एक और बड़े आक्रमणके समय उन्हें मास्कोसे सहायता मिली। मिखाइलकी सरकार बिना जेम्स्की सबोर (राष्ट्रीय सभा)की सम्मति लिये तुर्कीके साथ युद्ध नहीं छेड़ना चाहती थी। सभाने उसके लिये स्वीकृति नहीं दी, इसपर सरकारने कसाकोंको अजोफ छोड़कर चले आनेकी आज्ञा दी।

यह १७वीं सदीका मध्य या शाहजहांका समय था। उस समय भारतके किसानोंकी भी हालत रूसके किसानोंसे बेहतर नहीं थी। जमीन बड़े-बड़े जमींदारों और सामन्तोंकी थी, जो अपने विलासितापूर्ण जीवनके लिये उनका अधिकसे अधिक शोषण करते थे। किसानोंके लिये अपने गांवोंमें अब आशा नहीं रह गई थी। उनमेंसे कितने ही किसानी छोड़कर व्यापारी बन गये और कुछ दूसरी जगहों में भाग गये। १७वीं शताब्दीके ये जमींदार अपने किसानों, अर्धदासों और कारीगरोंके हाथके कामों से संतुष्ट नहीं थे। राजधानीके धनी अमीर और बायर इतालीके मखमल, इंगलैण्डके ऊनी कपड़ों और विदेशी समूरी टोपियोंको पहनते थे। उनको बहुमूल्य आभूषणों और विदेशी शराबोंका चसका लग गया था। उनके घरोंमें बहुत तरहकी विदेशी चीजें इस्तेमालमें आती थीं और यह सारी विलास-सामग्री किसानोंकी कमाईसे मिले पैसेके बलपर ही खरीदी जा सकती थी। उदाहरणके लिये उस समयके एक बहुत बड़े बायर बोरिस इवान-पुत्र मोरोजोफको ले लीजिये। उसके पास तीन सौ गांव थे, जिनमें चालीस हजार अर्धदास रहते थे; जिनसे उसे दस हजार रूबल मासिककी आमदनी थी, जो आजकलके हिसाबसे लाखों रुपया होगा। उसकी बहुतसी बखारें थीं, जिनमें लाख पूद (१ पूद=१८ सेर) अनाज भरा रहता था। पोलन्दके साथकी लड़ाईमें अनाजका भाव महंगा हो गया। उस समय अपने अनाजको बेचकर मोरोजोफने बहुत पैसा जमा किया। उसकी जमींदारीमें सात सौ नौकर थे, जो किसानोंकी अलग नोच-खसूट करते रहते थे। मोरोजोफके पास इतना पैसा जमा हो गया था, कि उसने उससे लोहेका कारखाना, पोटाश-कारखाना कायम किये और अपने किसानोंको वहां जाकर काम करनेके लिये मजबूर किया। उसके पोटाशको विदेशी व्यापारी खरीद ले जाते थे।

अब कारखानोंके बढ़ानेकी अवश्यकता समझी जाने लगी थी। लड़ाईके लिये लोहेकी सबसे अधिक अवश्यकता होती है, इसलिये लोहेकी उपज बढ़ाने के लिये एक डच व्यापारी एंडरू विनियस को लोह-धूर्नों (ओर)में काम करनेका ठेका दिया गया और उसने तुलामें पहला लोहेका कारखाना खोला, जिससे आगे चलकर तुला रूसका लौह-केन्द्र बन गया। उसके कुछ समय बाद एक स्वीडन मास्कोके पास कांचका कारखाना खोला।

कारखानेका रवाज यद्यपि बढ़ने लगा, लेकिन अब भी व्यापार रूसके आर्थिक जीवनमें खास स्थान रखता था, जिसके कारण कितने ही विदेशी राज्योंसे उसका घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। इसी समय पश्चिमी युरोपसे व्यापार करनेके लिये अर्खन्नेल्स्क प्रधान बंदरगाह बन गया। गर्मियोंमें जब समुद्र बर्फसे मुक्त रहता, तो बहुत-से अंग्रेज, डच और जर्मन जहाज अपना-अपना माल लेकर वहां पहुंचते—जिसमें ऊनी कपड़े, रेशमी कपड़े, मूल्यवान् बर्तन तथा दूसरी विलासिताकी चीजें होतीं। रूसी व्यापारी नावोंमें साइबेरियाके समूर, चमड़े, भांगके कपड़े, पोटाश, शूकरमांस तथा गांवों और नगरोंके कारीगरोंकी बनाई और भी कितनी ही चीजें भरकर उत्तरी द्विना नदीसे हो अर्खन्नेल्स्क पहुंचते। वहां दोनों ओरसे क्रय-विक्रय होता। एसियाके साथ व्यापार मुख्यतः अस्त्रा-खानद्वारा होता था, जहांपर बुखारी और ईरानी व्यापारी पूर्वी देशोंके मालको लेकर पहुंचते थे। इस व्यापारसे लाभ उठानेके लिये हमारे भारतीय व्यापारी और कुछ कारीगर भी अस्त्राखानमें

जा पहुंचे थे। इवान IVने भारतीय कारीगरोंको वहांसे मास्को बुलवा मंगवाया था। व्यापारके बढ़ानेके कारण अब नगरोंकी संख्या और समृद्धि बढ़ने लगी और धनी व्यापारियोंका एक अलग वर्ग स्थापित होने लगा। देशकी शांति और केन्द्रीकरणने इस काममें बड़ी सहायता की।

चीनतक प्रसार—रूसका विस्तार साइबेरियामें पूर्वकी ओर हो रहा था। ऐसी अवस्थामें चीनके बारेमें ज्यादा जानकारी प्राप्त करना उसके लिये आवश्यक था। बुखाराके व्यापारी जहां एक ओर अपने कारवांको लेकर चीनमें पहुंचते थे, वहां दूसरी ओर वह अस्त्राखान भी आते थे। सम्भव है, उनके साथ कुछ चीनी भी रूसमें पहुंचे हों, लेकिन रूस अब पेकिङ्गसे ज्यादा नजदीकका संबंध स्थापित करना चाहता था। १५६७ ई०में ही पेत्रोफ और यालीसेफ नामक दो कसाकोंको इसलिये भेजा गया, कि वह पड़ोसी लोगोंकी भाषा, रीति-रवाज आदिके बारेमें जानकारी प्राप्त करें। उन्हें विशेषकर चीन-राज्य, मंगोलोंकी भूमि और ओब महानदीके बारेमें जानकारी प्राप्त करनी थी। वह पेकिङ्गकी ओर बढ़ते हुये कलगनतक पहुंचे। लेकिन देवपुत्र सम्राट्के लिये वह कोई भेंट नहीं लाये थे, इसलिये सम्राट् मू-चुङ् (१५६६-७२ ई०)के दरबारमें गये बिना ही उन्हें लौटा दिया गया। १६०८ ई०में फिर इसके लिये कोशिश की गई, जिसमें मंगोल राजा अलतनखांकी फिर सहायता ली गई, लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद जार मिखाइलके समय १६१६ ई०में तुमेनेत और पेत्रोफ नामक दो कसाकोंको तोबोल्स्कसे इसी कामके लिये भेजा गया। वह चीन तो नहीं पहुंच सके, लेकिन अलतन खानके दरबारमें कुछ समयतक रहे और खानने रूसी जारके अधीन होना स्वीकार किया। १६१९ ई०में पेंतलिन और मंदोफ भेजे गये। वह भी अपने साथ भेंट नहीं लाये थे, इसलिये चीनी सम्राट्के दर्शनसे वंचित रहे। हां, उन्हें चीनकी ओरसे एक चिट्ठी दी गई, जिसे लेकर वह तोबोल्स्क लौटे, लेकिन उस चिट्ठीको उस समय कोई नहीं पढ़ सका, और डेढ़ सौ साल बाद १७७६ ई०में पेकिङ्गमें लाकर एक जेसुइत पादरीकी सहायतासे उस चिट्ठीका अनुवाद कराया गया।

इस प्रकार मिखाइलके समयमें चीनके साथ कोई बाकायदा दौत्य-संबंध स्थापित नहीं किया जा सका।

मिखाइलके मरनेके बाद उसका पुत्र अलेक्सी सोलह वर्षकी आयुमें गद्दीपर बैठा।

२. अलेक्सी, मिखाइल-पुत्र (१६४५-७६ ई०)

लड़के जारको बाज उड़ाने और दूसरे खेलोंका बड़ा शौक था और राज्यकी सारी शक्ति एक धनी बायर वोरिस इवान-पुत्र मोरोजोफके हाथमें थी, जिसने सभी ऊंचे पदोंपर अपने भाई-भतीजे-भांजोंको भर दिया। जारके वंशसे और भी धनिष्ठता स्थापित करनेके लिये उसने एक साधारण बायर मिलोस्लाव्स्कीकी एक लड़कीका ब्याह जार अलेक्सीसे करवा उसकी दूसरी लड़कीको स्वयं ब्याह लिया। पोलन्दके युद्धके कारण देशकी आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई, और साथ ही युद्धमें असफलता भी रही। मोरोजोफको सबसे पहले राजकोषकी स्थिति सुधारनी थी, इसके लिये उसने जहां सैनिकोंका वेतन कम किया, वहां कई कर लगाये, जिनमें सबसे भारी नमकपर था। नमक इतना महंगा हो गया, कि लोग मछली सुरक्षित रखनेके लिये उसे खरीदकर नहीं लगा सकते थे, जिसके कारण हजारों मन मछलियां सड़ने लगीं, और मोरोजोफको जल्दी ही इस करको उठा देना पड़ा। इन सब कारणोंसे लोगोंकी हालतपर इतना बुरा असर पड़ा, कि अलेक्सीके आरम्भिक शासनकालमें कितने ही विद्रोह हुये। १ जून १६४८ ई०को तीर्थ-यात्रासे लौटकर जार मास्को आया, तो लोगोंने उसके पास जाकर मोरोजोफकी लूट-खसूटके बारेमें शिकायत की। उस दिन आवेदन-पत्र देनेवालोंको कोड़ोंकी मारसे भगा दिया गया, लेकिन दूसरे दिन एक जन-समूहने क्रेमलिनके दरवाजेसे राजमहलमें पहुंचकर मांग की, कि नगर-कोतवाल ल्योन्ति प्लेश्चेयेफको हमारे हवाले किया जाय। ल्योन्ति बड़ा ही क्रूर और पाशाविक अत्याचारी था। बायर शान्त करनेके लिये आये, लेकिन उन्होंने उन्हें भगा दिया। इसके बाद जनताने बायरों और सरकारी अफसरोंके घरोंपर आक्रमण किया। एक बड़ा अफसर मार डाला गया, नगरमें जगह-जगह

आग लगा दी गई, सन्त्रस्त जारने प्लेस्चेयेफ और त्रखानियोतोफ दो जालिम दरबारियोंको जनता के हाथमें दे दिया, जो उसी समय मार डाले गये। फिर लोगोंने मोरोजोफके शिरकी मांग की। लाल मैदान*में भारी भीड़ उमड़ आई थी। जारने लोगोंके सामने कसम खाकर अपने आदमियों द्वारा कहलवाया; कि मोरोजोफको सरकारसे निकाल दिया जायगा। उसी रातको उसे मास्कोसे निकालकर एक दूरके मठमें भेज भी दिया गया। इसी समय कितने ही असंतुष्ट सामन्त भी आ गये और नागरिकों तथा सामन्तोंने मिलकर जारके पास आवेदन भेजा, कि एक नई विधान-संहिताके बनानेके लिये जेम्स्की सबोर (राष्ट्रीय सभा)को बुलाया जाय।

मास्कोके अतिरिक्त दूसरे शहरोंमें भी विद्रोह उठ खड़े हुये थे, इसलिये जारको राष्ट्रीय सभा जल्दी-जल्दी बुलानी पड़ी। सभाके सदस्योंमें बहुमत नागरिकों और जनपदीय सामन्तोंका था। सभी मांगोंको मान लिया गया और जनवरी १६४९ ई०में नई विधान-संहिता स्वीकार की गई। शाहजहाँके कालमें बनी इस विधान-संहिताद्वारा किसानोंके ऊपर सामन्तोंका पूरा अधिकार स्थापित करके उन्हें अर्ध-दास बना दिया गया। नागरिकोंको यह अधिकार मिला, कि सभी बायरों और चर्चकी जायदाद दीहात नहीं नगरोंकी मानी जाय, और उन्हें सामन्तों और अमीरोंकी तरह कर उगाहने और राजसेवाओंका अधिकार मिले। १६५० ई०में नवोगोरद और प्सकोफमें विद्रोह हो गये, जिनमें प्सकोफका विद्रोह विशेष तौरसे खतरनाक था। लोगोंने जारके वीयवद (राज्यपाल)को हटाकर वहाँ स्वायत्तशासन स्थापित कर लिया और जारसे मांग की, कि वीयवदकी अदालतमें हमारे अपने प्रतिनिधियोंको बैठनेकी इजाजत होनी चाहिये। मास्कोने इसका जवाब दिया—“कभी ऐसा नहीं हुआ, कि बायरों और वीयवदोंके साथ अदालतमें कमेरे (मूजिक) बैठें।” प्सकोफके विरुद्ध सरकारी सेना गई, लेकिन उसे बुरी तौरसे हारना पड़ा। पीछे जब वहाँके धनियों और अमीरोंने देखा, कि इस संघर्षमें उनका भी ठौर-ठिकाना नहीं रहेगा, तो उन्होंने विश्वासघात करके जारके निरंकुश अधिकारको फिरसे स्थापित करनेमें मदद दी—१६५० ई०के विद्रोहोंको दमन करनेमें भावी महासंघराज निकोनका खास हाथ था।

शासन-प्रबन्ध —जारका अधिकार असीम था। जो कानून और नियम बनाये गये थे, उनका अन्तिम लक्ष्य यही था, कि अर्ध-दासों और किसानोंके ऊपर बायरोंका पूरा अधिकार रहे। जार सबके ऊपर स्वेच्छाचारी शासक ही नहीं था, बल्कि देशका वह सबसे बड़ा बायर (जमींदार) भी था। अमीरों और दूसरे जमींदारोंके लिये यह जरूरी था, कि जारकी शक्ति खूब दृढ़ हो, जिसमें वह उनके वर्ग-स्वार्थकी रक्षा कर सके। जारकी इच्छा ही सारे देशके लिये विधान थी। सामन्ती कुलोंके बायर भी अपनेको जारका सेवक कहते थे और गांव या नगरके साधारण लोग तो अपनेको वह भी नहीं कह सकते थे। वह जारके “मन्हेंसे अनाथ” थे। जारको सम्बोधित करनेपर वह अपनेको छोटा बनाते हुये पीतरकी जगह पेंतरूसाका (पीतरवा), इवानकी जगह इवासाका (इवनवा) कहते थे। जारको वह देवता मानते हुये धरतीपर ललाट रखकर उसे प्रणाम करते।

राज्यके महत्त्वपूर्ण विषयोंपर निर्णय करनेका काम जारके दरबारी बायरोंकी दूमा (परिषद्) करती थी। इस परिषद्में केवल सामन्त (राजुल) और बायर ही सम्मिलित होते थे, लेकिन १७वीं शताब्दीमें साधारण कुलके प्रभावशाली नये धनी भी उसमें सम्मिलित कर लिये गये।

सरकारी दफ्तरोंके कई दर्जे और विभाग थे। एक विभागका नाम “प्रिकाजी” था, जिसका मुखिया एक बायर और जिसके एक-दो सहायक-लेखक (घाकी) होते। आफिसके साधारण कामोंको पद्याचिये (निम्न-लेखक) करते। सैनिक काम-काजकी व्यवस्था अलग थी। रज़्यादनी-प्रिकाज (सैनिक आफिस) सेना-संचालन विभागका काम करता था। स्त्रेलेत्स्की आफिसका काम था, स्त्रेलेत्स्की सैनिकोंके कामको देखना, पसोल्स्की प्रिकाज (दूत-कार्यालय) विदेश-विभागका काम देखता। स्थानीय शासन-प्रबंधके मुखिया वीयवोद (राज्यपाल) होते, जो राज्यके नगरोंके शासनके लिये

*लाल या “क्रास्नी” रूसी शब्दका अर्थ सुंदर और रक्त दोनों हैं, पहिले इसका अर्थ “सुंदर मैदान” लिया जाता था, किन्तु बोल्शेविक क्रांतिके बादमें क्रांतिके प्रिय रंग लालको माना जाने लगा।

बायरोँ और सामन्तोंमेंसे नियुक्त किये जाते। वीयवोद नगरके सैनिक और असैनिक सभी अधिकारों का प्रमुख था। वही न्याय-प्रबन्ध करता, नगर और उसके इलाकेके लोगोंसे कर उगाहता, एक तरहसे वह अपने इलाकेका स्वच्छंद जाय था।

चर्च-सुधार—रूस सदियोंसे ग्रीक चर्चका पक्का अनुयायी था। चर्चके साधुओं-पुरोहितों। एवं मठों-गिर्जाका जाल गांवोंमें भी बिछा हुआ था, लेकिन तबतक अभी उसका पूरी तौरसे केन्द्रीकरण नहीं हुआ था—यही नहीं कितने ही कर्मकांड और रीति-रवाजको लेकर चर्चकी कई शाखायें हो गई थीं। प्स्कोफमें लोगोंके आन्दोलनको दबानेमें मदद देनेवाला निकोन अब महासंघराज था। निकोन मठोंकी जायदादके साथ अपनी इच्छानुसार जैसा चाहता वैसा करता। उसके पास बहुत भारी निजी सम्पत्ति थी। वह चर्चके भीतर अपनेको सर्वशक्तिमान् जाय समझता था। उसके अत्याचारोंके कारण साधु-पुरोहित उसे “जंगली जानवर” कहते थे। निकोनने चाहा, कि भेदोंको मिटाकर सारे चर्चको एक कर दिया जाय। इसके लिये उसने पूजा-पद्धतियों और रीति-रवाजोंमें परिवर्तन करनेकी आज्ञा दी। निकोनके सामने पश्चिमी चर्चके रोमन-पोपका उदाहरण मौजूद था। उसने अपनेको पूर्वी चर्चका पोप बनाना चाहा। ग्रीक और कियेफके सुशिक्षित साधुओं-ने पद्धतियों और क्रिया-कलापोंके संशोधनका काम किया। निकोनने आज्ञा दी, कि पहले जैसे दो अंगुलियोंसे सलेब खींच पूजाकी मुद्रा की जाती थी, अब उसे तीन अंगुलियोंसे करना चाहिए। बढ़ते-बढ़ते उसने इस सिद्धान्तको भी चलाना चाहा, कि आध्यात्मिक (धार्मिक) शासन सांसारिक शासनसे ऊपर है : “आध्यात्मिक शासन सूर्यकी तरह है, जब कि सांसारिक शासन चन्द्रमा जैसा है—चन्द्रमा अपना प्रकाश सूर्यसे प्राप्त करता है।” निकोन “महास्वामी” (बैलीकी गसूदर) की उपाधि धारण कर राजकाजमें भी दखल देने लगा—सैनिक अभियानों तकके लिये भी आज्ञा निकालने लगा। उसकी इस अनधिकार चेष्टासे सामन्तों और अमीरोंमें भारी असंतोष पैदा हो गया। यद्यपि वह चर्चको मजबूत करनेके निकोनके प्रयत्नको पसंद करते थे, लेकिन नहीं चाहते थे, कि महासंघराजके सामने जाय अर्किचन हो जाये। होते-होते इस वैमनस्यने भयंकर रूप धारण किया, जिसपर निकोन एकाएक अपने पदको छोड़ एक मठमें एकांतवासी बन बैठा। उसने समझा था, कि दरबारी खुशामद करते उसे फिरसे पद संभालनेके लिये प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसे निराश होना पड़ा। निकोनके कामोंकी जांच करनेके लिए जायने १६६६ ई०में दो ग्रीक संघ-राजोंकी समिति बनाई। समितिने अपना निर्णय दिया, कि निकोनने राजशक्ति हथियानेका प्रयत्न किया। तो भी उसके चर्च-संबंधी सुधारोंको स्वीकार किया गया। निकोनको एक साधारण साधु बनाकर उत्तरके एक मठमें निर्वासित कर दिया गया।

निकोनने जो सुधार किये थे, उससे यद्यपि रूसी चर्चमें एकता स्थापित हुई, लेकिन कितने ही सनातनियोंने इन सुधारोंको माननेसे इन्कार कर दिया। उन्होंने “रस्कोलनिकी” (मतभेदी) अथवा पुराणविश्वासी नामसे अलग सम्प्रदाय बना लिया। आज भी रस्कोलनिकी कितनी ही जगहोंमें काफी संख्यामें मिलते हैं। इन विरोधियोंमें एक मास्कोका अब्बाकुम था, जिसे उसके विरोधके लिये पूर्वी साइबेरियामें निर्वासित कर दिया गया, जहां प्रायः दस वर्षोंतक जायके वीयवोदोंने उसके साथ बड़ा कठोर बर्ताव किया। निर्वासनके बाद अब्बाकुमने रूस लौटकर फिर अपने कामको शुरू किया। अब उसे उत्तरमें पुस्तोजेर्स्क स्थानमें बंदी बनाकर एक अंधेरे तहखानेमें डाल दिया गया। राज्यको इतने हीसे संतोष नहीं हुआ, बल्कि १६८१ ई०में अब्बाकुमकी होली जलाई गई। बहुत दिनोंतक रस्कोलनिकी सम्प्रदायका मुख्य केंद्र रूससे बाहर रूमानियामें था। क्रान्तिके बाद ही उनके साथका भेदभाव दूर हुआ, और उनका केन्द्र रूसकी भूमिमें चला आया।

उक्रइनका मिलन—१५६९ ई०में लिथुवानिया और पोलन्दमें एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार दोनों एक हो गये। उसी समयसे उक्रइनका बहुत बड़ा भाग पोलन्दके हाथमें चला गया। उक्रइनी लोग पोल जमींदारों और सामन्तोंके जूयेके नीचे कराह रहे थे। सबसे अच्छी भूमिको लेते बढ़ते-बढ़ते दनियेपर नदीके बायें तटके गावोंके भी स्वामी पोल बन गये। ऐसे आर्थिक शोषण, राज-

नीतिक अत्याचार और दुर्यवहारको उक्रइनी लोग कबतक चुपचाप बर्दाश्त करते ? स्लाव जातिके होनेपर भी पोल जहां कैथलिक होनेसे रोमके पापाको भगवान्का अवतार मानते, वहां उक्रइनी ग्रीक चर्चके अनुयायी थे। पोल अमीर और जमींदार चाहते थे, कि उनके किसान भी रोमके पापाको मानें, ताकि बिना चूं-चिराके हमारे जूयेको उठाते रहें। इसके लिये भी कोशिश की जाने लगी, कि कैथलिक और ग्रीक चर्चको एक संघमें मिला दिया जाये। योजना यह थी, कि दोनों चर्च पूजा-पद्धति अपनी-अपनी रक्खें, लेकिन रोमके पापाको अपना प्रमुख मानें। इस कामके लिये १५९६ ई०में ब्रेस्त नगरमें एक चर्च-सभा बुलाई गई। सभाका बहुमत इसे नहीं पसंद करता था, कि ग्रीक-चर्च रोम-चर्चके अधीन हो जाये, तो भी अल्पमतके निश्चयको स्वीकार करते पोल राजाने वैसा राजादेश निकाल दिया। इसपर असंतोष बढ़ना ही था। धार्मिक एकताकी आड़में असल उद्देश्य तो था, किसानों और कमेरोंपर अमीरोंका निर्बाध अधिकार स्थापित करना। अत्याचारोंके मारे कितने ही उक्रइनी और बेलोरूसी किसान भागकर निम्न-दनियेपर-उपत्यकाकी खाली जगहोंमें चले गये, जो ज़ापरोज़े कसाकके नामसे प्रसिद्ध हुये। इसी समय रूसी जमींदारोंके अत्याचारोंसे बचनेके लिए बहुतसे किसान दोन-उपत्यकामें भाग गये, जो दोन-कसाक कहलाये। उक्रइनके भगोड़े किसानोंने दनियेपरके जल-प्रपातके पास खोतित्सा द्वीपमें अपना एक दुर्ग बनाया। अबतक तुर्क और क्रिमियाके तारतार उक्रइनकी भूमिमें घुसकर लूट-मार करना अपना हक समझते थे, लेकिन अब ज़ापरोज़े कसाक कालासागरके तटकी उनकी भूमिमें हाथ साफ करने लगे। इनका कोई एक निश्चित निवासस्थान नहीं था। जब लूट-मारसे काफी माल प्राप्त हो जाय, और थोड़ेसे पशु-पालनसे काम चल जाये, तो स्थायी बस्ती बांधनेकी क्या आवश्यकता ? कहीं-कहीं उनके मोर्चाबंदी किये डेरे होते थे, जिन्हें सेच कहा जाता था। बसंतके आरंभमें कसाक सेचपर जमा होते। उस समय यह द्वीप जनसंकुल हो उठता। इसी समय कसाक अपना मुखिया (अतमन) तथा दूसरे सेनानायक निर्वाचित करते। सैकड़ों कसाक बीरी (वेद) की लकड़ीकी नावें बनाने या मरम्मत करनेमें लग जाते, हथियारोंको ठीक करते। सब तैयारी हो जानेके बाद इन्हीं नावोंपर चढ़कर वह बड़ी तेजीसे कालासागरमें पहुंच जाते, और फिर तट-भूमिपर लूट-मार शुरू कर देते। कभी-कभी तो वह सुल्तानकी राजधानी कान्स्तान्तिनोपोलतक भी धावा मारते। उनकी नावोंकी गति इतनी तीव्र होती, कि तुर्क संतरी खतरेकी खबर भी नहीं दे पाते थे। जाड़ोंमें कसाकोंकी सेच जनशून्य हो जाती। उस समय वह अपने लूटके मालको ले जाकर उक्रइन और पोलन्दके नगरोंमें बेंच दूसरी चीजें खरीदते।

१६वीं शताब्दीके अन्तमें ज़ापरोज़े कसाकोंकी संख्या काफी बढ़ गई। पोल राजा स्तेफन बाथोरीने उनकी सैनिक क्षमताको देखकर उन्हें अपना संचिकाबद्ध (रजिस्टरबद्ध) सैनिक बनाना शुरू किया—जिसके कारण ऐसे कसाक “रजिस्टरबद्ध कसाक” कहे जाने लगे। उनको राज्यकी ओरसे कुछ वेतन तथा शहरोंमें रहनेके लिये मकान मिलते थे। रजिस्टरमें नाम लिखे कसाकोंकी संख्या बहुत कम थी। १६वीं सदीके अन्तमें ज़ापरोज़े कसाकोंमें भी धनी-गरीबका भेद स्थापित हो गया। राजा उनके सरदार (हेतमन, अतमन) को अपना अफसर बनाता।

धनी-गरीबके भेदने उक्रइन और बेलोरूसियामें जनसाधारणको विद्रोह करनेके लिये मजबूर किया। इन विद्रोहोंमें ज़ापरोज़े कसाक प्रायः किसान-विद्रोहियोंका साथ देते—कभी-कभी रजिस्टरबद्ध कसाक भी उनके सहायक बन जाते। विद्रोही किसान पोल जमींदारोंकी गाड़ियोंमें आग लगा देते, और हाथ लगनेपर उन्हें मार भी डालते। पोल फिर सेना लेकर आते और किसानोंसे बड़ी क्रूरताके साथ बदला लेते। इस वक्त भी कितने ही विद्रोही किसान अपने गावोंको छोड़कर मध्य-दनियेपरके घने जंगलोंमें भाग जाते, जहांसे अपने शत्रुओंपर छापामारी करते।

१६३० ई०के आसपास ज़ापरोज़ेकी सेच पोलोंके खिलाफ एक बार फिर उठी, जिसे आसानीसे दबा दिया गया, क्योंकि उनके धनी मुखिया और सरदार विश्वासघात करनेके लिये तैयार थे। पोलोंने ज़ापरोज़े कसाकोंको उक्रइनमें घुसनेसे रोकनेके लिये दनियेपरके प्रपातके ऊपर कोदकमें फेंच

इंजीनीयरके तत्त्वावधानमें एक किला बनवाया, जिसके तैयार हो जानेपर पोल हेतमनने कसाकोंके साथ मजाक करते हुये कहा—“कोदकके बारेमें तुम क्या सोचते हो ?”

“मानव हाथोंने जिसे बनाया, वह मानव हाथोंद्वारा नष्ट किया जायेगा।”—यह जवाब कसाक सरदार बगदान ख्मेल्नित्स्कीका था।

कुछ वर्षों बाद सचमुच ही कसाकोंने कोदक दुर्गको नष्ट कर दिया, और १६३८ ई०से पहले पोल सेना उक्रइन्के विद्रोहको नहीं दबा सकी।

१६४८ ई०के वसंतमें फिर लोगोंने पोलन्दके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोहके आरम्भक जापरोजे कसाक और उनका नेता बगदान (भग-दत्त) ख्मेल्नित्स्की था। बगदान उक्रइन्में बहुत जनप्रिय था। वह शिक्षित था। कियेफकी अकदमीमें उसने पढ़ा था, और लातीनी भाषा भी जानता था। कसाकोंके कितने ही साहसपूर्ण अभियानोंमें उसने भाग लिया था। अभी वह बीस वर्षसे कुछ ही बड़ा था, कि पोलोंके साथ मिलकर उसने तुर्कोंके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस समय तुर्कोंकी सीमा पोलन्दसे मिलती थी, और कितने ही उक्रइनी गांव तुर्कोंके हाथमें थे, जिनके साथ तुर्क बड़ा दुर्व्यवहार करते थे। बगदानका बाप चेचोरा जासीके पास तुर्कोंकी लड़ाईमें मारा गया और बगदान स्वयं तुर्कोंका बंदी बना, जहां उसे दो सालतक रहनेके बाद मुक्ति मिली। बगदान एक अच्छा खाता-पीता समृद्ध जमींदार था, और पोल राजकीय सेनाके रजिस्टरमें भी उसका नाम था। लेकिन, उसके देशभाइयों (उक्रइनियों)के साथ पोलोंका जैसा दुर्व्यवहार हो रहा था, उसके कारण बगदान अपनेको रोक नहीं सका। पोलोंका शासन मनमानी था। एक दिन एक पोल जमींदारने दखल करनेका सरकारी परवाना ला एकाएक बगदानकी जमींदारीपर अधिकार कर लिया, और सारे परिवारको जंजीरोंमें बांध दिया। बगदानने जब न्याय करनेकी बात कही, तो पोल जमींदारने बगदानके दस वर्षके लड़केको कोड़ेसे पीटते हुये मार डाला। बगदानने राजाके दरबारमें जाकर न्याय पानेकी कोशिश की, लेकिन वहांसे भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। जो भी थोड़ीसी धन-दौलत-जमींदारी उसके पास थी, वह खतम हो चुकी, साथ ही उसके बेटेकी निर्भम हत्या की गई, उसे भी वह भूल नहीं सकता था। उसने अच्छी तरह समझ लिया, कि इन सारे अत्याचारोंका कारण देशकी परतन्त्रता—उक्रइन्का पोलन्दके हाथमें रहना है। उसने अपने कसाक-मित्रोंको जमा करके उनका एक दल बनाया, और फिर उनसे पूछा—

“क्या हम अपने भाइयोंको इस हालतमें छोड़ दें ? देशमें सभी जगह मैंने अपनी आंखों भयंकर अत्याचार होते देखा है। हमारे अभागे भाई हमसे सहायता मांग रहे हैं।”

इसके जवाबमें एक बूढ़े कसाकने कहा—“अब तलवार उठानेका समय आ गया है, पोलोंके ज्येको उतार फेंकनेका समय आ गया है।” पोल जमींदारोंको भी इसकी भनक लग गई, और उन्होंने बगदानको जेलमें डाल दिया, लेकिन वह भागकर जापरोजे पहुंचनेमें सफल हुआ। अब उसने संगठित रूपसे पोल जमींदारोंपर धावा बोलना शुरू किया। पोल अपना सब कुछ छोड़ जान लेकर भागने लगे। यह खबर सुन उक्रइन्में और जगहोंमें भी विद्रोह होने लगे। बगदानने सोचा, हमारी शक्ति और भी मजबूत हो सकती है, यदि क्रिमियाके तारतार खानसे मित्रता हो जाये। इसके लिये वह स्वयं क्रिमियाकी राजधानी बक्सीसराय गया। खान उस समय पोल-राजासे बहुत नाराज था, क्योंकि कितने ही वर्षोंसे उसने भेंट नहीं भेजी थी। खानकी ओरसे बगदानका बड़ा स्वागत हुआ, और अपने उद्देश्यमें सफल होकर लौटा। खानने बगदानकी मददके लिये अपने एक राजकुमारके नेतृत्वमें तारतार सैनिक भी भेजे। कसाकोंने बगदानका भारी सम्मान करते अपनी सभामें उसे कसाक सेनाका हेतमन (मुखिया) घोषित किया और हेतमनके दर्जेका चिह्न एक बुलवा (गदा) भेंट की।


१६४८ ई०के वसंतसे कसाकोंने पोलोंपर खूब जोरके साथ आक्रमण करना शुरू किया। मईके आरम्भमें बगदानने एक बड़ी पोल सेनाको हराया, जिसमें कसाकों और तारतारोंको बहुत-सा लूटका माल मिला। सफलताके साथ-साथ अब बगदानके अभियानोंने उक्रइनी जनताके मुक्ति-युद्धका

रुन लिया। १६४८ ई०के सितम्बरमें पोल सेनाकी पिल्यांका नदीके तटपर और भी भयंकर हार हुई। इस हारके बाद बगदानके लिये पोल-राजधानी वारसाका रास्ता खुल गया था। बगदान उक्रइन-से पोलोको ल्वोफ और जामोस्तयेतक खदेड़कर कियेफ लौटा। लोगोंने उक्रइनके मुक्तिदाताके तौरपर उसका स्वागत किया। तीन सौ वर्षोंतक पोलोकी गुलामीमें रहनेके बाद कियेफ अब स्वतन्त्र हुआ था। पोल सरकारने उक्रइनकी शक्तको समझ लिया और संधि कर लेनेमें ही भलाई समझी। बगदानने मांग या प्रतिज्ञा की—“मैं सारी उक्रइनी जनताको पोलोकी गुलामीसे मुक्त करके ही दम लूंगा।” पोल दूतोंके साथ बातचीतका कोई फल नहीं हुआ, इसपर १६४९ ई०के ग्रीष्ममें बगदानने नया अभियान शुरू किया। क्रिमियाके तारतार अब भी उसके साथ थे, लेकिन पोलोंने प्रलोभन देकर खानको अलग कर दिया और बगदानने अपनी शक्तको देखते हुये संधि करना ही पसंद किया। इस संधिके अनुसार उक्रइनका स्वतन्त्र शासन स्थापित हुआ, जिसका हेतमन बगदान माना गया। रजिस्टरबद्ध कसाकोंकी संख्या छ हजारसे चालीस हजार कर दी गई।

१६४९ ई०की इवोरोफकी यह शान्ति-संधि भी उक्रइनको पूरी स्वतन्त्रता नहीं दिला सकी। पोल इस संधिको अपनी आगेकी तैयारीके लिये सिर्फ बहाना बनाना चाहते थे। १६५१ ई०के आरम्भमें उन्होंने फिर पश्चिमी उक्रइनपर आक्रमण कर दिया। उसी सालके बसंतमें एक बड़ी सेना लेकर पोल-राजा स्वयं चढ़ आया। पोपने अपने पोल-अनुयायियोंको इस धर्मयुद्धमें भाग लेनेके लिये घोषणा की—उक्रइनियोंके साथ युद्ध करनेमें जो भी पाप होगा, हम उसको क्षमा करते हैं। बगदानके साथ क्रिमियाके खानकी सेना थी, लेकिन ऐन-मौकेपर जून १६५१ को बेरेस्तमें तारतारोंने धोखा दे दिया। बगदानने जल्दीसे खानके पास जाकर सेनाको लौटनेके लिये कहा, लेकिन खानने सेना लौटानेकी जगह बगदानको ही अपने पास पकड़ रक्खा। बिना नेताके भी कसाक और उक्रइनी किसान कितने ही दिनोंतक मोर्चा बांधे पोलोसे लड़ते रहे। उन्होंने एक असाधारण शक्ति और हिम्मतके धनी पुरुष बोगुनको अपना नेता चुना। कसाकोंने अपने पराक्रमका खूब परिचय दिया। एक घिरी कसाक-टोलीके पास पोलोंने आत्मसमर्पण करनेके बदले प्राणदान देनेका वचन दिया, जिसका जवाब था—“हमें अपने प्राण प्यारे नहीं हैं। हम शत्रुकी दयाको वृणाकी दृष्टिसे देखते हैं।” यह कहकर वह एक-दूसरेसे गले मिल पोलोके ऊपर टूट पड़े। तीन सौ कसाकोंमेंसे एक-एक वीर-गतिको प्राप्त हुआ। इतनी वीरता दिखलानेके बाद भी पोल सेनाको रोका नहीं जा सका। महीने भर बाद जब खानने बगदानको छोड़ा, तो कियेफ पोलोके हाथमें चला गया था और तारतारोंने देशको लूटकर बरबाद कर दिया था। १६५१ ई० की शरदमें जो संधि करनी पड़ी, उसके अनुसार सारे संघर्षमें प्राप्त सभी चीजोंको हाथसे खो देना पड़ा। पोल जमींदार फिर उक्रइन लौटे और विद्रोहमें शामिल होनेके दंडस्वरूप किसानोंके ऊपर अकथनीय अत्याचार करने लगे। किसान अपने गांवोंको छोड़-छोड़ दूनियेपरके बायें तटपर जमा हो वहांसे रूसी राज्यके भीतर जाकर बसने लगे। पोलोके अधीनकी उक्रइन-भूमि जल्दी ही जन-शून्य होने लगी, भगोड़े उक्रइनी जाकर उत्तरी दोनेत्सकी उपरी उपत्यकाकी उर्वर-भूमिको आबाद करने लगे। पोल राजाने क्रिमियाके खानके साथ शांति स्थापित कर उसे चालीस दिनके लिये उक्रइनी जनताको लूटनेकी खुली इजाजत दी थी। क्रिमियाके तारतारोंने लूटते-पीटते हजारों स्त्री-पुरुषोंको ले जा जिन्दगीभर दास रहने के लिये बंध दिया। इन्हींके बारेमें एक उक्रइनी लोकगीतमें कहा गया है:—

“उक्रइनी लोग दुःख भुगत रहे हैं, उन्हें कहीं छिपनेकी जगह नहीं,
घुमन्तू सवारोंके ओर्दू बच्चोंके शरीरपर दौड़ रहे हैं,
कोमल शिशुओंको रौंदते,
उनके पीछे हथियार—जंजीरमें बंधे जालिम खानके शिकार।”

१६४८-५१ ई०की लड़ाइयोंसे उक्रइनियोंको इस बातका पता लग गया, कि बिना बाहरी सहायताके पोलोके हाथसे अपने देशको मुक्त नहीं किया जा सकता। इसीलिये जब १६५२ ई० में उक्रइनके किसान और कसाक दूसरी बार विद्रोह करनेके लिये तैयार हुये, तो बगदानने



उक्रइनको रूसमें मिला लेनेके लिये मास्को-सरकारसे बातचीत शुरू की । १६५३ ई०के शरद् में मास्कोमें "जेम्स्की सबोर"के अधिवेशनमें निश्चय हुआ, कि उक्रइनको अपने संरक्षणमें ले लिया जाय, और पोलन्दके विरुद्ध युद्ध-घोषणा की जाय । ८ जनवरी १६५४ ई०में उक्रइनी कसाकोके प्रतिनिधियोंका सम्मेलन—रादा—पेरेयास्लाव्लमें हुआ, जिसमें मास्कोके दूत भी शामिल हुये थे । रादाको सम्बोधित करते बगदानने अपने लोगोंकी दयनीय अवस्थाका चित्र खींचते हुये कहा था—

"तुम सब जानते हो, कि हमारा शत्रु हमें पूरी तौरसे मिटा देना चाहता है, जिसमें हमारी भूमिमें रूस (उक्रइनी) नाम फिर कभी न लिया जा सके । इसीलिये तुम चार शासकोंमें से किसी एकको अपने लिये चुन लो : पहला है तुर्कीका सुल्तान, जो कि ग्रीकोपर जुल्म ढा रहा है, दूसरा है क्रिमियाका खान, जिसने हमारे भाइयोंके खूनसे अनेक बार अपने हाथोंको रंगा है, तीसरा है पोल-राजा, जिसके अमीरोंके अत्याचारके बारेमें कहनेकी अवश्यकता नहीं और चौथा है महारूसका पूर्वी जार ।"

हजारों कठोंने एक जवाब दिया :—“हम पूर्वी जारके अधीन रहना चाहते हैं।”

इसके बाद मास्कोसे समझौता हुआ, और रूसने उक्रइनके स्वायत्त-शासनके अधिकारको स्वीकार किया—उक्रइनी सरकारके लिये लोकनिर्वाचित हेतमन (प्रधान) बनाना स्वीकार किया गया। उक्रइनके लिये स्वेच्छाचारी जारका शासन भी पोलोसे कम कठोर नहीं था, पर उक्रइनी और बेलोरूसी भाषा, धर्म और संस्कृतिमें रूसियोंके सगे भाई थे, इसलिये उनको यही रास्ता अच्छा लगा। फिर १६५४ ई० में पोलोसे लड़ाई शुरू हुई, जो बीच-बीचमें रुकती हुई तेरह वर्ष (१६५४-६७ ई०) तक चली। इसी युद्धमें प्रायः सारी बेलोरूसिया भी पोलोसे मुक्त हो गई। रूसकी विजयिनी सेना लिथुवानियाके मुख्य नगर विलनोमें दाखिल हुई। उधर सारी उक्रइन-भूमिको मुक्त करते हुये बगदान और मास्कोके वोयवोद पोलन्दकी सीमाको पार हो लुबलिन नगरको लेनेमें सफल हुये। इसी बीच १६५६ ई० में स्वीडनके राजा दशम चार्ल्सने भी पोलन्दके ऊपर आक्रमण करके वारसा (वरसावा), क्राको और दूसरे पोल-नगरोंपर अधिकार कर लिया। इस अचानक प्रहारके कारण पोल मास्कोके साथ शांति-भिक्षा मांगनेके लिए तैयार हो गये। पर, शांति अस्थायी ही हो पाई, क्योंकि पोलन्द सारे उक्रइन और बेलोरूसियापर अपने अधिकारको छोड़नेके लिये तैयार नहीं था। बाल्तिक समुद्रतट रूसके लिये इस समय खतरनाक था—जबतक स्वीडनको समुद्रतटसे भगाया न जाय, तबतक रूस अपनेको-सुरक्षित नहीं समझ सकता था। इसके लिये १६५६ ई०में स्वीडनसे लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन कुछ सफलता होनेपर भी युद्ध कई वर्षोंतक अनिर्णायक रूपमें चलता रहा। अन्तमें १६६१ ई०में रूसने अपनी असफलता स्वीकार करते यथापूर्व-स्थितिको मानते करसिकी-संधि-पत्रपर हस्ताक्षर कर दिया। बगदान १६५७ ई०में मरा। वह यह देखकर प्रसन्न था, कि उक्रइन अब जालिम पोलोसे मुक्त है।

वोल्गाकी जातियां—१७वीं सदीमें अब भी वोल्गाके दोनों तटोंके घने जंगलों और मैदानोंमें उराल-अल्ताई-वंशकी अ-रूसी जातियां रहती थीं। व्यल्का नदीकी पूर्वी वनभूमिमें उदमुर्त (वोत्याक), रहते थे। वोल्गाके बायें तटपर व्यल्का और वेतुल्गा नदियोंके बीचमें तथा वोल्गाके दक्षिणी तटपर, वोल्गा और सुरा नदियोंके बीचमें मारी (चेरेमिसी) लोग रहते थे। मारियोंके पड़ोसमें चुवास और मोर्द्विनी रहते थे, जिनकी बस्तियां निम्न ओका और ऊपरी सुराकी भूमिमें थीं। निम्न कामाके दोनों तटोंपर तातारों (तारतारों) की बस्तियां थीं। बाशकिर (तुर्क) कामाके दक्षिणी-पूर्वकी भूमि एवं ऊफा नदीके किनारे बसते थे। कुछ बाशकिर उरालके परे तबोल् नदीके ऊपरी भागमें भी रहते थे। इन सभी जातियोंको इवान IVने कजानके खानपर विजय प्राप्त करनेके बाद अपनी प्रजा बना लिया था। जारकी सरकार १५५२ ई०तक वोल्गा-भूमिके अपने पराजित लोगोंसे वही कर वसूल करती थी, जो कजानके खान तथा उसके सामन्त उनसे लिया करते थे। जारके कर उगाहनेवालोका बर्ताव भी इन लोगोंके साथ अच्छा नहीं था, कितनी ही बार वह लोगोंके पशुओं और अन्नको जब्त कर लेते। रूसी महन्तों और जमींदारोंने भी वहांकी बहुत-सी उर्वर भूमि और जंगलोंपर अधिकार कर लिया था—इन जंगलोंमें भारी संख्यामें कीमती समूरी खालवाले जानवर रहते थे। ग्रीक चर्चने यहांके लोगोंको निकोनके समय जबरदस्ती ईसाई बनानेमें बड़ी सरगरमी दिखलाई। ईसाई पुरोहित मोर्द्विनी गांवोंके किसानोंको जमाकर बपतिस्मा दे उन्हें बाध्य करते, कि वह अपने पवित्र वनों-उपवनों और पितरोंकी कब्रोंपर बने लकड़ीके ढांचोंको जला दें।

बाशकिर लोग मुख्यतः पशुपाल थे। वह समूरी जानवरोंका शिकार, जंगली मधुका संचय और मछुवाही भी किया करते थे। १७वीं सदीमें अब वह कहीं-कहीं खेती करने लगे थे, और जहां-तहां लकड़ीके बने उनके झोपड़े भी खड़े होने लगे थे। ग्रीष्ममें वह अपने ढोरों और घोड़ोंको चरानेके लिये चरागाहोंमें और शरदके अन्तमें अपने जाड़ेके निवास-स्थानोंमें चले जाते। पहले उनमें अपने छोटे-छोटे कबीलोंका जनसत्ताक संगठन था, लेकिन अब वह पुराने समयसे चला आता संगठन टूटने लगा था। भूमिपर कबीलेका साझी अधिकार हटकर अब उसके बड़े और अच्छे भागपर तरखनों (राजकुमारों) और बातुरों (बहादुरों)का अधिकार हो गया था। इस प्रकार धनी-गरीब-

का वर्ग-भेद उनमें स्थापित हो चुका था। बाशकिर रूसी सरकारको कई तरहके मूल्यवान् समूरी खालोंको करके रूपमें देते थे। १७वीं सदीमें अब रूसी महंत और जमींदार भी इनकी भूमिमें पहुंचकर घने जंगलों, मछलीमरी नदियों, नमककी खानों, हरे-भरे चरागाहों, तथा खेतीके लिये उपयुक्त बंजर भूमिको अपने हाथमें करने लगे। इसके कारण पशुपाल बाशकिरोंको बड़ी बाधा होने लगी, जिसके लिये असंतोष और विद्रोह करनेका परिणाम यही हुआ, कि वहांपर ऊफ़ा जैसे कितने ही दुर्गबद्ध नगर रूसियोंने स्थापित कर दिये।

वोल्गा-प्रदेशकी अ-रूसी जातियोंमें कलमक (कलमख) भी थे। कलमक मंगोलोंकी एक शाखा थी, इसे हम आगे बतलायेंगे। वह १६३० ई०के आसपास निम्न-वोल्गाकी भूमिमें आये। पहले यह घुमन्तु ज़ाइसन सरोवरके उत्तरकी पहाड़ियोंमें विचरते थे, जिसे जुंगारिया भी कहा जाता है। कलमकोंके कई मित्र-भित्र कबीले थे, जिनका अलग-अलग राजा होता था। वैसे सभी कबीले एक-दूसरेसे स्वतन्त्र थे, लेकिन जब सारी जातिके ऊपर कोई खतरा आता, तो सबसे शक्तिशाली जातिके राजाके अधीन वह अपना लड़ाकूबंध स्थापित कर लेते। १७वीं सदीके आरम्भमें कलमकोंके एक बहुसंख्यक कबीलेका डेरा इर्तिश नदीके ऊपरी भागमें था। इर्तिशके किनारे येरमककी विजयके बाद रूसियोंकी बहुतसी बस्तियां बस गई थीं। इर्तिशके इन कलमकोंने रूसी कसबोंपर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसका बदला भी लिया जाने लगा। फिर दक्षिण-पश्चिमकी ओर बढ़ते १६३० ई०के आसपास उन्होंने यायिक (उराल) और वोल्गाके बीचकी भूमिको दखल कर लिया। १६५६ ई०में कलमकोंने रूसकी अधीनता स्वीकार की। १७वीं सदीके अन्त तथा १८वीं सदीके आरंभमें वोल्गा-कलमकोंका शासक आयुका बड़ा शक्तिशाली खान था। यद्यपि उसने जारकी अधीनतासे इन्कार नहीं किया, लेकिन वह अपनेको स्वतन्त्र समझता था, और वोल्गाके किनारेके रूसी नगरोंपर आक्रमण करनेसे भी बाज नहीं आता था। जो कलमक जुंगारियामें रह गये थे, उन्होंने १७वीं सदीके अन्ततक एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया, जो धीरे-धीरे साम्राज्यका रूप लेने लगा।

रूसी शासकोंके अत्याचारके कारण वोल्गाके लोग जब-तब विद्रोह कर बैठते थे, लेकिन १६६२ ई०में इस विद्रोहने खतरनाक रूप लिया। उस साल एक ही समय बाशकिर-भूमि और पश्चिमी साइबेरियाके बहुत भागोंमें बगावत हो गई। येरमकद्वारा पराजित सिबिरके कूचुम खानके एक वंशजने तातारों, बाशकिरों और पश्चिमी साइबेरियाके वोगुलों (मंसियों)के विद्रोहका नेतृत्व किया। विद्रोहियोंने रूसियोंके किलेबंद नगरोंपर आक्रमण किया, उनके मठों और बस्तियोंको नष्ट कर दिया। यह विद्रोह कई सालतक चलता रहा। विद्रोहके दमन कर देनेके बाद जारशाही सरकार ने बाशकिरोंकी और कितनी ही भूमि छीन ली, बाशकिर जवानोंको जबरदस्ती सेनामें भर्ती करके क्रिमियामें लड़नेके लिये भेजा। इसके कारण १६७५ ई०के आसपास फिर विद्रोह उठ खड़ा हुआ। छिटपुट होते विद्रोहोंको १६८२ ई०में सैयद सादिर जैसा नेता मिल गया। कलमकोंका प्रधान आयुका खान भी बाशकिरोंकी सहायता करने लगा। लेकिन, अन्तमें बौद्ध कलमकों और मुसलमान बाशकिरोंकी प्रतिद्वंद्विता इतनी बढ़ी, कि कलमक जारकी ओर हो गये, और विद्रोहको कुचल दिया गया।

राज़िन-विद्रोह—जार अलेक्सी (अलेक्सान्द्र)के कालमें रूसकी राजशक्ति और सीमा बहुत बढ़ी, लेकिन देशमें संघर्षों और विद्रोहोंके भीतरसे ही। इन विद्रोहोंमें स्तेपन राज़िनके नेतृत्वमें हुआ किसानोंका विद्रोह बड़ा भयंकर था। भूखे गरीब कसाकोंमें अशांतिका होना स्वाभाविक था। इसी अशांतिका नेता येरमक था, जिसने साइबेरियामें रूसकी सीमाको बढ़ाया। कसाक स्वभावतः स्वच्छन्दताप्रेमी तथा लड़ाकू होते हैं। रूसी बोयबोद उनको नाराज होनेका बहुत मौका दे देते थे। १६६६ ई०में कसाक आतमन (सरदार) वासिलीने दोनके गरीब कसाकोंको मास्कोके विरुद्ध भड़काया और एक बड़ी कसाक सेना ले तुलातक पहुंच गया। उसके साथ दक्षिणी जमींदारोंके कितने ही अर्ध-दास किसान भी शामिल हो गये। इसी समय दोनके गरीब किसान विद्रोहियोंको

आतमन स्तेपन तिमोफेयेफ-पुत्र राजिन-जैसा नेता मिल गया। १६६७ ई०के वसंतमें राजिन अपने सैनिकोंको लिये दोनसे वोल्गाकी ओर बढ़ा। उसके कसाकोंने जार, महासंघराज और धनी व्यापारियोंकी अनाज तथा दूसरी पण्य वस्तुओंसे लदी बहुत-सी नावोंको पकड़ लिया, जिनमें देश-निकाला पाये पैरोंमें बेड़ी पड़े कितने ही बंदी भी थे। उन्हें मुक्त करके राजिनने बंदियों, स्त्रेलेत्सी (राज-सैनिकों) और मल्लाहोंसे कहा—“अब तुम सब स्वतन्त्र हो, जहां इच्छा हो वहां जाओ। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। जो कोई मेरे साथ रहना चाहता है, वह स्वतन्त्र कसाक माना जायगा। मैं केवल बायरों और धनी जमींदारोंसे लड़नेके लिये आया हूं, गरीबों और सीधी-सादी जनताको भाईके तौरपर मैं अपना भागीदार बनानेके लिये तैयार हूं।”

इसके बाद राजिनके कसाक नावोंपर चढ़कर अस्त्राखानके किलेसे बचते कास्पियनमें गये। फिर अपने पच्चीस नावोंमें जा उन्होंने यायिक (उराल) नदीके तटपर बसे यायित्स्क नामक दुर्गबद्ध नगरपर अधिकार कर लिया। राजिनने जाड़ोंको यायिकके तटपर बिताया। अगले साल वह समुद्रसे होकर ईरानके तटपर पहुंचा। उसके पास कई हजार कसाक थे। उसने कास्पियन-तटवर्ती काकेशसकी भूमिको लूटा, और ईरानके शाहके पास कई आदमी भेजकर कहलवाया, कि मैं और मेरे कसाक तुम्हारे देशमें सदा रहनेके लिये तैयार हूं, क्योंकि हम मास्कोके बायरोंके अत्याचारको नहीं सह सकते। शाहने राजिनके दूतोंको पकड़कर मरवा दिया। इसपर कसाकोंने ईरानके नगरोंमें लूट-पाट करनी शुरू की। शाहने पचास नावोंमें सैनिक भरकर भेजे, लेकिन राजिनने उनमेंसे अधिकांशको डुबा दिया। सफलता होनेपर भी इन लड़ाइयोंमें कसाकोंको बहुत क्षति उठानी पड़ी, जिससे उनकी संख्या कम होती जा रही थी। बचे हुएओंमें बीमारी फैलने लगी, इसलिये राजिन बायरोंके राज्यसे बाहर ईरानमें रहनेका ख्याल छोड़कर १६६९ ई०की शरदमें फिर अस्त्राखान पहुंचा। उसकी अनुपस्थितिके समय अस्त्राखानकी छावनी और मोर्चाबंदीको बहुत मजबूत कर लिया गया था। राजिनने दोनकी ओर जानेके लिये इजाजत मांगी। अस्त्राखानके वीयवोद जानते थे, कि नगरके अधिकांश लोगोंकी सहानुभूति राजिनके साथ है, इसलिये उन्होंने इस शर्तपर उन्हें जानेकी इजाजत दी, कि वह अपने लूटेके माल और हथियार समर्पित कर दें। अस्त्राखानके गरीबोंने बड़े उत्साहके साथ राजिनका स्वागत किया। वह उसे बत्का (बापू) कहते थे। राजिनके कसाक पहले फटे-चीथड़ोंमें गये थे, लेकिन अब वह गोटेदार रेशमी कपड़े पहने हुये थे। राजिनने खूब दिल खोलकर सोनेकी मुहरों और दूसरी चीजोंको लोगोंमें बांटा। हथियार रखनेसे इनकार करके अपनी हथियारबंद सेनाके साथ राजिन दोनकी ओर चल पड़ा। अस्त्राखानके निवासियोंमेंसे भी कितने ही उसके साथ हो लिये।

चारों ओरसे दोन-कसाक राजिनके झंडेके नीचे आने लगे। इसके बाद कई बार जार-शाही सेनासे उसने सफल मुकाबिला किया। जारित्सिन (आधुनिक स्तालिनग्राद)के निवासियोंने उसे शहरपर अधिकार करनेमें मदद दी। १६७० ई०के बसंतमें राजिन दूसरी बार वोल्गाके किनारे पहुंचा। पहले वह साधारण लुटेरेके तौरपर आया था, यद्यपि उसकी उदारताकी ख्याति उसी समय चारों ओर फैल गई थी; लेकिन अब वह कई हजार अनुशासन-सम्पन्न सेनाका कमांडर था। वह वीयवोदों, अमीरों और धनी व्यापारियोंका दुश्मन था, लेकिन गरीबोंका पक्षपाती और दासोंका हर जगह मुक्तिदाता। राजिनकी दानशीलता, उदारता और गरीबोंके प्रति प्रेम ऐसी आकर्षणकी चीज थी, जिससे वह चारों तरफ मशहूर हो गया। जारित्सिन लेनेके बाद उसने अब रूसके भीतर बढ़नेका निश्चय किया, लेकिन इससे पहले उसने अस्त्राखानपर अधिकार करके निम्न-वोल्गामें अपनी सत्ता जमा लेना आवश्यक समझा। अस्त्राखानके वीयवोदने स्त्रेलेत्सीकी एक सेना राजिनके विरुद्ध भेजी, लेकिन सैनिक अपने अफसरोंको मारकर विद्रोहियोंमें जा मिले। जून १६७० ई०में राजिन अस्त्राखानके पास पहुंचा। पत्थरकी दीवारोंसे घेरकर नगरको बहुत मजबूत कर लिया गया था, दीवारों और मीनारोंपर तोपें लगी थीं, लेकिन बहुतसे स्त्रेलेत्सी तथा नगरके लोग राजिनके स्वागतके लिये अधीर थे। गोधूलीके समय घंटे बजने लगे, यह इस बातका संकेत था, कि कसाकों-

ने आक्रमण कर दिया है। कसाक अंधेरेमें चुपचाप किलेके पास आ सीढ़ियां लगाकर दीवार फांद नगरके भीतर कूद पड़े। नागरिक भी उनकी मददके लिये दीवारके पास प्रतीक्षा कर रहे थे। नगरके समर्पण करनेकी सूचना तोपोंकी पांच आवाजसे दी गई। राजिनके कसाकोंके साथ अस्त्राखानके गरीब भी शामिल हो गये और उन्होंने वहाँके अमीरों तथा प्रतिरोधकोंको मार डाला। सबेरा होते-होते अस्त्राखानपर राजिनका पूरा अधिकार था।

राजिनकी विजय-यात्रा अब शुरू हुई। जारके स्ट्रेल्सी और साधारण लोग राजिनकी सहायता करनेके लिये हर जगह तैयार थे। उसने सरातोफ (पुराना सरातोफ वोल्गाके बायें तटपर था), समारा (आधुनिक कुइबिशेफ)को आसानीसे अपने हाथमें कर लिया, लेकिन सिम्बिर्स्क (आधुनिक उलियानोव्स्क)को लेनेमें बड़े जबरदस्त प्रतिरोधका सामना करना पड़ा। उसके आदमी गांव-गांवमें घूमकर राजिनके नामसे कह रहे थे—“सभी उत्पीड़ितों और गरीबोंको विद्रोहके लिये खड़ा हो जाना चाहिये।” राजिन यह भी कहता था—“मैं महाप्रभु (जार)के लिये देशद्रोही बायरोँ और अमीरोंसे लड़ रहा हूँ।” वह नहीं जानता था, कि जार उसी वर्गका सबसे शक्तिशाली आदमी है, जिसके विरुद्ध उसने जहाद छेड़ी है। प्रायः एक महीनेतक राजिनने सिम्बिर्स्क नगरका मुहासिरा किया। १६७० ई०के अक्टूबरके आरम्भमें नई सेना आ गई, और एक घनघोर लड़ाई हुई। तलवारोंकी खपाखपमें वीर राजिन निश्चक लड़ता दिखाई पड़ता। उसके सिरपर एक गोली लग गई थी, एक पैर भी गोलीसे घायल हो गया था, तो भी वह लड़ रहा था। सारी वीरता दिखलानेपर भी सुशिक्षित सुशस्त्रित बहुसंख्यक जार-सेनाके सामने राजिनको हार खानी पड़ी। वह थोड़ेसे कसाकोंके साथ दोनकी ओर निकल भागा। राजिनके हारनेके बाद भी वोल्गाकी भिन्न-भिन्न जातियों—कलमक, तातार, मोर्विनी, मारी, चुवाश और बाशकिर—तथा दाहिने तटके प्रदेशोंके रूसी किसानोंने विद्रोहको बहुत समयतक जारी रखा। जारकी सेना इन विद्रोहियोंसे खूनी बदला लेने लगी। बंदी किसानोंको वह पकड़कर अर्जमस नगरमें ले गये, जहां उन्हें बड़ी सासत देकर मारा गया। नगरके चारों ओर फांसीकी टिकटियां खड़ी कर दी गई थीं। एक विदेशी प्रत्यक्षदर्शीने लिखा है, कि तीन महीनेके भीतर अर्जमसमें ग्यारह हजार आदमियोंको फांसीपर चढ़ाया गया। किसानोंके नेताओंने अन्तिम समयतक बड़ी निर्भयताका परिचय दिया। जल्लादने एकसे पूछा—

“तुम क्या करना चाहते थे ?”

“हम मास्कोको लेना और तुम्हारे सभी बायरोँ, अमीरों और लिखनीचंदोंको मार डालना चाहते थे।”

एक किसान स्त्री-नेता अल्योनाको जलाकर मारनेका दंड दिया गया। वह दंडाज्ञा सुनकर जरा भी न घबड़ाई और मरते समय बोली—

“जैसे मैं लड़ी, यदि वैसे ही दूसरे भी लड़े होते, तो राजुल यूरी (सेनापति)को हमारे सामनेसे जान लेकर भागना पड़ता।”

१६७१ ई०के आरम्भमें वोल्गाके दक्षिण-तटके विद्रोहियोंको दबानेमें सफलता मिली। अब जारशाही राजिनके पीछे पड़ी थी। अप्रैल १६७१ ई०में उसे पकड़कर मास्को ले गये, जहां राजिन को भीषण सासत दी जाने लगी, लेकिन तब भी उसने मुंहसे एक बार भी आह नहीं निकाली। जून १६७१ ई०में उसको मारनेसे पूर्व जल्लादोंने पहले हाथों और पैरोंको काट दिया, फिर सिरको घड़से अलग कर दिया। जारकी सरकारने राजिनको मारकर संतोषकी सांस ली, लेकिन साधारण जनताके लिये राजिन मरा नहीं। वह समझती थी, कि बायरोँने किसी दूसरेको मारा है, राजिन तो अब भी बचकर कहीं छिपा हुआ है। वह फिर एक बार हम दुखियोंकी मददके लिये आयेगा।

जनताका राजिनके प्रति कितना सद्भाव था, वह लोकगीतोंकी निम्न पंक्तियोंसे मालूम होगा—

उठ हे सूर्य, है मँले-कुचैले,
 तू जो कि पहाड़ोंके ऊपर इस प्रकार छाया है,
 जो कि हरे उगे हुये पौधोंपर छाया है,
 हमारी हड्डियोंको गरमाओ । हम ईमानदार जन हैं ।
 यद्यपि हम गरीब हैं, किन्तु हम किसीका जूआ नहीं उठायेंगे,
 चोर हम नहीं हैं, और न भयंकर डाकू,
 स्तेपान राजिन हमारा नेता है ।

रूसी भाषाका कालिदास पुशकिन स्तेपन राजिनको रूसी इतिहासका अत्यन्त काव्यमय पुरुष कहता है ।

साइबेरियामें प्रसार—हम पहले कह चुके हैं, कि कैसे येरमकने सिबिरके खानको हराकर रूसी सीमाको ओब और ईतिश नदीके तटतक पहुंचा दिया । साइबेरियाके जंगलोंसे मिलनेवाली समूरी खालों सोनेके भाव विकती थीं, और साथ ही वहाँके लोगोंको पकड़कर दास बनाकर बेंचना भी आमदनीका एक अच्छा खासा स्रोत था; इसलिये रूसी व्यापारियों और साहसियोंका उधर खिंचना स्वाभाविक था । समूरी खालोंको पहले वह वहाँके स्थानीय शिकारियोंके हाथसे खरीदते थे । फिर रूसी शिकारियोंने स्वयं जंगलोंमें दूर-दूर तक घुसकर शिकार करना शुरू किया । यह शिकारी कभी-कभी ऐसे स्थानोंमें पहुंचने लगे, जहांपर जारके सैनिक कभी नहीं पहुंच पाये थे । इसी तरह कुछ पीढ़ियोंमें रूसी येनिसेइसे अखोत्स्क समुद्रतक अपना अधिकार स्थापित करनेमें सफल हुये । जहां नदियोंका सहारा था, वहां शिकारियों और व्यापारियोंकी टोली नावोंपर चढ़कर जाती, फिर नावोंको आदमियोंके कंधोंपर उठाकर एक नदीसे दूसरी नदीमें परिवर्तित कर लेते । जार गदुनोफके कालमें रूसी-व्यापारी और शिकारी मंगोलियामें पहुंच चुके थे । गदुनोफके समय वहां एक बड़ा सैनिक अभियान भेजा गया था । स्थानीय शिकारी (नेन्त्सी) इसे बर्दाश्त कैसे करते, लेकिन अपने पुराने हथियारों और बिखरी हुई अल्प-संख्याके बलपर बेचारे सफल प्रतिरोध कैसे करते ? रूसी दूर-दूर जंगलोंमें लकड़ीके किले बनाकर जम जाते । इस प्रकार उन्होंने निम्न-येनिसेइ-उपत्यकाके मार्गपर अधिकार कर लिया । उसके कुछ समय बाद उन्होंने मध्य-ओब और मध्य-येनिसेइमें भी पहुंच १६१९ ई०में येनीसेइस्क नगरकी स्थापना की । यहांसे अब वह येवेंकी, बुर्यत तथा उस प्रदेशके दूसरे लोगोंको अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर करने लगे । दस वर्ष बाद येनिसेइ नदीके तटपर क्रान्स्नोयास्क नगर स्थापित हुआ, लेकिन यहां किरगिजोंने उनसे जबरदस्त मुकाबिला किया । पर, मुकाबिलेसे डरकर रूसी अपने आगेके प्रसारको रोक नहीं सकते थे । येनिसेइस्क नगरसे अंगारा नदीके किनारे चलते हुये रूसी बैकाल महासरोवरपर पहुंच गये । १७वीं शताब्दीके मध्यमें उन्होंने अंगाराके बैकालसे निकलनेके स्थानके पास ही इकुत्स्कका शरदकालीन निवास-स्थान बनाया । बुर्यत मंगोल अपनी वीरताके लिये प्रसिद्ध थे । उन्होंने अपनी भूमिपर हस्तक्षेप करते देखकर रूसियोंके साथ जबरदस्त संघर्ष किया, जिसमें असफल होकर कितने ही मंगोलिया चले गये, लेकिन वहाँके मंगोल-सामन्तोंके अत्याचारके कारण कितनों हीने फिर लौटकर जारके जूयेको अपने कंधेपर रक्खा । इसी समय येनिसेइसे लेना नदीकी ओर जानेवाला महत्वपूर्ण रास्ता स्थापित किया गया । रूसियोंने अफवाह सुनी थी, कि लेनाके किनारे समूरी खालोंकी खानें भरी पड़ी हैं, जिसे सुनकर येनिसेइस्क और मंगजेया दोनों जगहोंसे रूसी साहसियोंकी भीड़ टूट पड़ी । उन्होंने लेना-उपत्यकाके निवासी याकूतोंके ऊपर प्रहार करके उनकी समूरी खालों, पशुओं (बारहसिंगों)पर ही हाथ नहीं साफ किया, बल्कि स्त्री-बच्चोंको भी बेचनेके लिये बंदी बनाया । व्यापारियों और शिकारियोंकी पहुंच स्थापित होते ही येनिसेइस्कके सैनिक अधिकारियोंने लेनाके तटपर याकुत्स्क नामका गढ़ स्थापित किया । कुछ ही समय बाद जारने याकुत्स्कके लिये वोयबोद (राज्यपाल) भेजना शुरू किया । याकुत्स्कमें जम जानेके बाद सैनिक, व्यापारी और शिकारी और भी आगेके अज्ञात इलाकोंकी खोजमें लग पड़े, और उत्तर-पूर्वमें ध्रुवकक्षीय समुद्रके तट तक याकूगिरों (ओडुलियों)के प्रदेशमें पहुंच करके उनसे कर लेने लगे ।

उनसे लड़ाई करो । जेयाके तटपर पहुंचनेपर पोयार्कोफको अन्नके लिये निराश होना पड़ा । वहाँके लोग अधिकतर चीनसे आये अनाजपर गुजारा करते थे । पोयार्कोफ ने अपने सत्तर आदमियोंको पासमें रहनेवाले दौरी लोगोंकी बस्तियोंमें भेजा, लेकिन उन्होंने रूसियोंको अपने गांवोंके भीतर आने नहीं दिया । खाली हाथ लौटनेपर अपने लोगोंने उन्हें रसद देनेसे इन्कार कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ, कि उन्हें अब स्थानीय लोगोंको लूट-मारकर जीवन-यापन करनेके लिये मजबूर होना पड़ा । वसंतके आनेपर यह टुकड़ी नावपर दसेयानदीके नीचेकी ओर बढ़ी । स्थानीय लोगोंको खूनखार रूसियोंका पता पहले हीसे लग गया था, इसलिये वह उनको आते सुनकर भाग निकले । तो भी तीन गिलियक पकड़े गये, जिनके द्वारा रूसियोंने कर उगाहनेमें सफलता पाई । आगे बढ़ते-बढ़ते रूसियोंने आमूर नदीके मुहानेपर पहुंच जाड़ा बितानेके लिये वहां डेरा डाल दिया । मंडली जून १६४६ ई०में याकुत्स्क लौटी । अभियान सफल रहा, क्योंकि उन्होंने एक नई भूमिका पता लगाया, लेकिन साथही उनकी यात्राद्वारा लोगोंमें बड़ा भयसंचार हो गया । अज्ञात कालसे पूर्वी साइबेरियाकी यह जातियां चीनको कर दिया करती थीं, इसलिये अब उन्होंने चीन सरकारतक अपनी गुहार पहुंचाई ।

१६४८ ई०में रूसी व्यापारियोंके एक समूहने कोलुमा नदीके मुहानेके पूर्व ध्रुवीय समुद्र-तटकी भूमिके बारेमें पता लगानेका निश्चय किया । उन्हें मालूम हुआ, कि समुद्री जानवर वालरस वहीं जाकर बच्चे देता है । वालरसका दांत बहुत महंगा बिकता था, इसलिये वह उस अज्ञात भूमिकी ओर खिंचे । इसके लिये याकुत्स्कके व्यापारियोंने कसाक सिमाओन देझन्येफके नेतृत्वमें सात नावों के साथ एक अभियान भेजा । यह लोग कोलुमाके मुहानेसे समुद्रके किनारे-किनारे आगे बढ़े । नावें मजबूत नहीं थीं, इसलिये अधिकतर टूट-फूट गईं, तो भी देझन्येफकी कुछ नावोंको एक तूफान बहाकर अमेरिका और एसियाको मिलानेवाली समुद्रकी उस पतली धारमें ले गया, जिसका नाम पीछे बेंरिंगकी खाड़ी पड़ा । उस समय युरोपमें कोई नहीं जानता था, कि एसिया और अमेरिकाकी सीमाओंको केवल एक पतलीसी सामुद्रिक प्रणाली अलग करती है । आजकल एसियाके उत्तर-पूर्वीय अन्तिम अन्तरीपको देझन्येफ अन्तरीप कहा जाता है । इस प्रकार हम देखते हैं, शाहजहाँके शासनके अन्तिम वर्षोंमें ही रूसी साइबेरियाके पूर्वी छोरतक पहुंच गये । जांच-पड़ताल करनेवालोंने लेनाकी शाखा अलदल नदीसे होते अखोत्स्क समुद्रके तटपर पहुंचकर वहां अखोत्स्क (शिकारवाला) गढ़ स्थापित किया, और बेचारे एवेंकी लोगोंने बारूदी हथियारोंके सामने प्रतिरोधको व्यर्थ समझकर अधीनता स्वीकार की ।

पश्चिमी संस्कृतिका प्रभाव—१७वीं सदीके रूसमें अभी शिक्षाका प्रसार केवल अमीरों और व्यापारियोंमें था । स्त्रियां सिर नहीं ढंकती थीं, किन्तु जबतक विवाहित नहीं हो जातीं, तबतक पुरुषोंसे अलग रहतीं । वह अपरिचितकी ओर देखनेकी हिम्मत नहीं कर सकती थीं । धनियोंकी स्त्रियां अपना समय पूजा-पाठ या गोटा बनानेमें लगातीं । अमीरोंकी पोशाक बहुत भारी होती थी । बाहरी चोगा एड़ीतक पहुंचता था, और लम्बी आस्तीन भी छोड़ देनेपर धरतीको छूनेसी लगती थी । उत्सवके समय बहुत मूल्यवान् ऊनी या रेशमी कपड़े पहने जाते थे । हीरा-मोती-जटित सोने या चांदीके बड़े-बड़े बटन चोगोंमें लगते थे । सामन्त लोग समूरकी बड़ी लम्बी टोपी पहिन्ते थे, जो नीचेकी अपेक्षा ऊपर अधिक चौड़ी होती जाती और इतनी भारी होती थी, कि आदमी सिरको आसानीसे धुमा नहीं सकता था । पुरुष बालोंको काटकर रखते थे, लेकिन दाढ़ीको बड़ी सावधानीसे बढ़ाते थे । बिना दाढ़ीके आदमीको समझा जाता था, कि वह हर तरहके पाप कर सकता है । दाढ़ी मुड़ाना स्वयं भी पाप-कर्म था । लेकिन, १७वीं सदीमें ही पश्चिमी युरोपका प्रभाव धीरे-धीरे रूसके उच्च वर्गपर पड़ने लगा । व्यापारने पश्चिमी यूरोपके व्यापारियोंसे रूसका संबंध बहुत घनिष्ठताके साथ स्थापित कर दिया था । अब कितने ही यूरोपी रूसमें लोहे, काच आदिके कारखाने स्थापित करने लगे थे । मास्को और दूसरे नगरोंमें बहुतसे ग्रीक, अंग्रेज, जर्मन, डच और पोल व्यापारी तथा शिल्पी रहने लगे थे । उनमेंसे कुछ चंद दिनोंके लिए आते और कितने ही रूसी नगरोंके वासी हो गये थे । मास्कोकी सरकार विदेशियोंको—विशेषकर शिक्षितों, सैनिक विशेषज्ञों, डाक्टरों, चित्रकारों तथा

दूसरे कलाकारों-शिल्पियोंको—अपने यहां आकृष्ट करनेकी कोशिश करती थी। सभी विदेशी कामके नहीं थे। उनमेंसे कितने ही मौज उड़ाने, या गुप्तचरी करनेके लिये आते थे, पर इसमें भी शक नहीं, कि कितने ही अपनी विद्या और अनुभवसे रूसियोंको लाभ पहुंचाते थे। १६वीं सदीके अन्तमें ही मास्कोमें विदेशियोंके रहनेके मुहल्ले बन गये थे, जिन्हें पीछे “जर्मन (मह) बस्ती” कहा जाता था। १७वीं सदीके मध्यमें उन्हें यौजा नदीके किनारे प्रयोन्नजेन्स्कोये गांवके पासमें परिवर्तित कर दिया गया। कितने ही रूसी इनके सम्पर्कमें आकर युरोपीय संस्कृतिसे प्रभावित होते रहे—यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि आजकी तरह उस समय भी रूसियोंके लिये “यूरोपा” एक दूसरा ही महाद्वीप था। पश्चिमी युरोप संस्कृतिके साथ-साथ विलासितामें भी बहुत आगे बढ़ा हुआ था। मास्कोके अमीर पुरुष-स्त्री भी इंग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रांस और दूसरे युरोपीय तथा पूर्वी देशोंमें राजदूत बनकर जाते थे। रूसी व्यापारी भी कोशिश कर रहे थे, कि अपनी पण्य-वस्तुओंको सीधे युरोपके नगरोंमें जाकर बेंचें, लेकिन विदेशी व्यापारी इसमें हर तरहकी बाधा उपस्थित करते थे।

उच्च वर्ग ही नहीं रूसी शिक्षित तथा बुद्धिजीवी वर्गपर भी पश्चिमी युरोपका प्रभाव पड़ने लगा था। जार अलेक्सी मिखाइल-पुत्रके समयका एक प्रभावशाली बायर ओरदिन-नाश्चोकिन् युरोपके नमूनेपर शासन-प्रबन्ध संगठित करनेका पक्षपाती था। उक्रइनके रूसमें मिल जानेसे, पोलैण्ड और पूर्वी युरोपके साथ सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित होनेमें बड़ा सुभीता हुआ। शताब्दियोंके सिद्धहस्त कियेफके मूर्तिकार, चित्रकार तथा दूसरे कलाकार मास्कोमें आकर काम करने लगे। बायरोके घरोंमें उक्रइनी विद्वान् शिक्षकका काम करते थे। एक सुशिक्षित बेलोरूसी साधु सिमेओन पोलोत्स्की जार अलेक्सीके परिवारमें शिक्षक था। पोलोत्स्कीने नाटक और कवितायें लिखीं। उसके पद्य बहुत प्रसिद्ध थे। वह साहित्य और काव्यशास्त्रकी भी शिक्षा देता था। बहुतसे विदेशी विद्वानोंने इतिहास, युद्धविज्ञान, चिकित्सा, ज्योतिष, गणित, भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान तथा दूसरे विज्ञानोंकी पुस्तकें १७वीं सदीमें रूसी भाषामें अनुवादित कीं। यह-याद रखना चाहिये, कि यही हमारे यहां औरंगजेबके शासनका समय था, जिसमें जहादी लड़ाइयां छोड़ विद्या-विज्ञानकी चीजोंकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। रूसी शिक्षित अब सिर्फ धार्मिक साहित्य हीसे संतुष्ट नहीं थे, वह पश्चिमकी धर्मनिरपेक्ष कहानियों और उपन्यासोंको अपनी भाषामें पढ़ने लगे थे। अमीरों तथा व्यापारियोंके दैनिक जीवन और वेश-भूषापर भी पश्चिमका प्रभाव पड़ने लगा था। १७वीं शताब्दीके उत्तरार्धमें शराबी साधुओं, लोभी न्यायाधीशों, और घूसखोर अमलों, तथा मूर्ख अमीरोंके ऊपर व्यंग्य करते कितने ही प्रहसन लिखे गये थे। संक्षेपमें कहा जा सकता है, कि अब साहित्यमें वास्तविक जीवन—वस्तुवाद—के लानेकी कोशिश की जाने लगी थी। साहित्य हीमें नहीं, रूसी चित्रमें भी वस्तुवाद घुसने लगा था। प्रसिद्ध कलाकार सिमओन उशाकोफकी कला वास्तविकताका दर्पण-सी थी, जिसमें तत्कालीन जीवनकी झांकी मिलती थी। उस वक्त भी आजकी तरह बहुतसे कलाकार ऊटपटांग-बेढंगी टेडी-मेढी रेखाओं और रंगोंके पीछे इतने पागल थे, जिन्हें कलाका वास्तविकताके पास जाना फोटोग्राफी मालूम होता है। १७वीं शताब्दीमें पहले-पहल मास्कोके दरबारियोंको नाट्यकलाका परिचय मिला, जब महाबस्तीके एक पुरोहित गटफ्रिड ग्रेगोरीने जार अलेक्सीके शासनकालमें रूसी विद्यार्थियों और जर्मन नटोंसे एक नाटकमंडली बनाई, और ऐतिहासिक कहानियोंको लेकर रंगमंचपर नाटक खेले। पीछे एक खास मकान बनाकर रूसी भाषामें लिखे नाटकोंका भी अभिनय होने लगा। अभिनयके समय एक खास आसनपर बैठकर जार भी उसे देखता था, लेकिन जारानी अलग एक परदेमें बैठकर ही देख पाती थी। नवीनताकी तरफ अभिरुचि इतनी बढ़ गई थी, कि महासंघराज निकोनने जल-भुनकर सभी देशों वाद्ययंत्रोंकी होली जला डालनेकी आज्ञा दी।

चीनसे संबंध—जार अलेक्सीने अपना पत्र देकर पेफिलियेफको १६५९ ई०में चीन-सम्राट् शी-चू (१६४४-१६६१ ई०)के पास भेजा। सम्राट्ने उससे मुलाकात की। इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं, कि रूसी दूतको दरबारमें कोतौ (साष्टांग प्रणिपात) करना पड़ा। रूसी दूतको दस पूड (४ मन) चाय देकर बिदा किया गया। चाय शायद यह पहली बार स्थलमार्गसे मास्को पहुंची। इसके बाद १६६९ ई०में अबलिनके अधीन और १६७५ ई०में परदोन्निकोफके नेतृत्वमें रूसी कारवां (वाणिज्य-

चले । चीनियोंके जबरदस्त प्रहारसे रूसी नावोंपर चढ़कर नीचेकी ओर भागे । चीनियोंने नदीतटके निवासियोंको गांव छोड़कर देशके भीतर चले आनेके लिये कहा, जिसमें रूसी सैनिक उन्हें तकलीफ न दे सकें, और स्वयं आहारसे वंचित हो भूखे मरें । बीचके समयमें चीनी दूसरी लड़ाईकी तैयारी करते रहे । ३० जून १६५८ ई०में सुंगारी नदीके मुहानेपर फिर लड़ाई हुई । इस युद्धमें दो सौ सत्तर आदमियोंके साथ स्तेपानोफका पता नहीं लगा, और करीब उतने ही कसाक पहाड़ोंमें भाग गये । अब उनका काम चोरी-डकैती (कज़ाकी) करना रह गया । इस लड़ाईके बाद नेचिन्स्कतक आमूकी धारा शत्रुके खतरेसे मुक्त हो गई । चीनियोंने निर्दिष्ट हो अपनी सेना लौटा ली । लेकिन इसी समय नेचिन्स्कको मदद मिली । इलिम्स्कके कसाक अपने वीरवोदको मारकर भाग गये और उन्होंने पहाड़के परले पार सखालिन और यालुम नदियोंके संगमपर अलबाजीनका किला बनाया, जिसे चीनी और तातार याकसा कहते थे । अलबाजीनके ये कसाक अपनी शक्ति और इलाकेको बराबर बढ़ाते जगह-जगह गढ़ियोंको कायम करके दौरी और दुचेरी लोगोंसे कर उगाहन लगे ।

१६८३ ई०में अलबाजीनके कसाकोंने बीस चीनी शिकारियोंको जीते-जी गाड़ दिया । यह खबर सुनकर चीन सरकार बहुत नाराज हुई । उसने एक चीनी सेना भेजी, जिसने १२ जून १६८५ ई०में अलबाजीनको घेरकर वहां चीनका झंडा गाड़ दिया । चंद ही दिनोंके प्रतिरोधके बाद अलबाजीनियोंने आत्म-समर्पण किया । किलेको बिल्कुल तोड़ दिया गया । चीनी सेना वहांसे अग्रसर हुई । उनके जानेके बाद कसाकोंने लौटकर जाड़ोंमें अलबाजीनको फिरसे तैयार कर लिया । चीनी सेना फिर अग्रसरसे आई, और उसने ७ जुलाई १६८६ ई०में दूसरी बार अलबाजीनका मुहासिरा किया । इसी समय रूससे एक प्रतिनिधिमंडल आया, जिसने सम्राट् खाड्-सी (शेड्-चू १६६१-१७२३ ई०) से जारकी ओरसे निवेदन किया, कि जार युद्धसे नहीं शांतिके साथ मामलेका फैसला करना चाहते हैं । खाड्-सीने निवेदनको स्वीकार करके मुहासिराको उठा लेनेका हुक्म दे दिया । यही समय था, जब कि एलियोत (ओयरोत) और खलखा मंगोलोंके बीचमें रूसी सीमांतके पास लड़ाई हो रही थी । चीनियोंने रूसी अधिकारियोंके पास पत्र भेजकर शिकायत की, कि रूसी सीमांतके लोग हमारे यकसा और चूनिपचूको लूटते-मारते, तथा चीनी शिकारियोंके साथ बुरा बर्ताव करते हैं । उन्होंने यकसाके वीरवोद अलेक्सीपर इल्जाम लगाया, कि उसके दुर्व्यवहारोंसे मजबूर होकर जेनेरलको यकसा मुहासिरा करना पड़ा, जिसमें यकसाको अन्तमें आत्मसमर्पण करना पड़ा । पत्रमें आगे लिखा गया था :—

“तो भी परमभट्टारकने यह समझकर रूसियोंके साथ उनके पदके अनुसार बर्ताव करनेके लिये आज्ञा दी, कि रूसी राजुल वीरवोदके कामको नहीं पसंद करेंगे । यही वजह है, जो यकसाके एक हजार रूसी सैनिकोंको बंदी बनानेके बाद उनके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया गया, बल्कि जिनके पास घोड़े, हथियार या रसद नहीं थी, उन्हें यह चीजें देकर इस घोषणाके साथ लौटा दिया, गया, कि हमारे सम्राट् युद्ध पसंद नहीं करते, वह अपने पड़ोसियोंके साथ शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं । परमभट्टारककी इस उदारतासे अलेक्सीको बहुत आश्चर्य हुआ, और उसने आंखोंमें आंसू भरकर कृतज्ञता प्रकट की ।”

कुछ समयतक बातचीत करनेके बाद सम्राट् खाड्-सीने रूसी और चीनी प्रतिनिधियोंको मिलकर बात करनेके लिये निपचू स्थान निश्चित किया । ३१ जून १६७९ ई०को चीनी प्रतिनिधिमंडल क्या सेना-मंडल निपचू पहुंचा, जिसमें अफसर, सिपाही और नौकर-चाकर लेकर नौ-दस हजार आदमी, तीन-चार हजार ऊंट और कम-से-कम पंद्रह हजार घोड़े थे । वीरवोदने शिकायत की, कि चीनी सुलह नहीं लड़ाई करनेके लिये आये हैं और रूसी दूतमंडलने १८ जुलाईतक यह कहते हुये आनेसे इन्कार कर दिया, कि दोनों तरफके आदमी समान संख्यामें होने चाहिये । अंतमें चीनियोंने निम्न बातें कहकर समझौता किया : रूसी भी उतनी ही संख्यामें आ सकते हैं, लेकिन बैठकके समय प्रतिनिधियोंको तलवार छोड़कर दूसरा कोई हथियार साथ नहीं लाना चाहिये । घोखा न किया जाय, इसके लिये रूसियोंकी तलाशी चीनी, और चीनियोंकी तलाशी रूसी लेवें । बड़े-छोटेका ख्याल हटानेके लिये दोनों राजदूतोंका तम्बू एक दूसरेसे सटा रहे, जिसमें वह अपने-अपने तम्बूमें बैठकर बातचीत कर सकें ।

समझौतेके लिये एकत्रित यह सम्मेलन वस्तुतः दोनों राज्योंके वैभवका प्रदर्शन था। रूसी तम्बू बहुत साफ-सुथरा था। उसके भीतर तुर्की कालीन बिछा हुआ था। चीनी तम्बू अपेक्षाकृत सादा था, जिसके बीचमें एक लम्बी बेंच रखी हुई थी। जब दोनों राजदूत अपने तम्बूओंमें पहुँचे, तो रंगीन ध्वजा-पताकायें फहरा रही थीं, नगारे बज रहे थे। रूसी दूतने पहले घोड़ेसे उतरकर कुछ कदम आगे बढ़कर चीनी राजदूतसे पहले तम्बूमें पधारनेके लिये प्रार्थना की। बीचमें एक मेज रखकर दोनों राजदूत आमने-सामने बेंचोंपर बैठ गये। अनुचर खड़े रहे, और दुभाषिये मेजके छोरपर बैठे। बैठनेके बाद बातचीत शुरू हुई। दोनों ओरसे इतनी बढ़-चढ़कर माँगें पेश की गईं, कि उनमेंसे कोई उन्हें मान नहीं सकता था। गरविलोन चीनी दूतमंडलका दुभाषिया था। उसके कहनेके मुताबिक “बस इतना ही बढ़े कि दो कदम पीछे हटे।” कई दिनोंतक मोल-भाव होता रहा। ऐसा मालूम होने लगा, कि संधि-वार्ता भंग हो जायगी, लेकिन अन्तमें किसी तरह समझौता हुआ। ६ सितम्बरको संधिपत्रका अन्तिम मसौदा तैयार करके ऊंचे स्वरसे पढ़ा गया, और फिर मुहर और हस्ताक्षर करके दोनों पक्षोंको एक-एक प्रति दी गई। ९ सितम्बर १६८९ ई०को अन्तमें “दोनों पक्षोंके मुख्य प्रतिनिधियोंने खड़े होकर संधिपत्रकी प्रतिको हाथमें ले अपने-अपने प्रभुओंके नामसे, सारे संसारके प्रभु सर्वशक्तिमान् भगवान्की शपथ लेकर अपने मनकी ईमानदारीका प्रदर्शन किया।” इसके बाद दोनों ओरसे भेंटें दी गईं। युरोपके किसी राज्यसे बिल्कुल समानताके तलपर की गई चीनकी यह पहली संधि थी।

साइबेरियामें विद्रोह—बहुत थोड़े समयके भीतर ही रूसियोंने उरालसे अखोत्स्क समुद्र तककी भूमिपर अधिकार कर लिया था। रूसी अफसर साइबेरियाके निवासियोंपर भारी कर लगाने लगे, उधर रूसी व्यापारी सस्ती शराब पिलाकर मिट्टीके मोल बहुमूल्य समूरी छालोंको लोगोंसे छीनने लगे। लोग विद्रोह करनेके लिये मजबूर होते, दबाये जाते, लेकिन कुछ वर्षों बाद फिर उठ खड़े होते। एक बार वह याकुत्स्क नगरको नष्ट करनेमें करीब-करीब सफल हो गये थे। वुयंत मंगोल और एवेंकी हथियार रखनेके लिये तैयार नहीं थे। जार अलेक्सीके शासनकालमें पश्चिमी साइबेरियामें भी एक जबरदस्त विद्रोह हुआ था।

साइबेरियामें रूसी बस्तियाँ—रूससे अखोत्स्क पहुंचनेमें एसियाके सबसे चौड़े उत्तरी भागको आरपार करना पड़ता है। यह प्रदेश इतना सर्द है, जिसके सामने रूसकी सर्दी लड़कोंका खिलवाड़ है; लेकिन तो भी १७वीं सदीमें व्यापार और शिकार रूसियोंको उधर खींच ले गये। सरकार सैनिकोंके साथ कितने ही दूसरे लोगोंको भी वहां भेजने लगी। थोड़े ही समय बाद सरकारने समझा, कैदियोंको वहां भेजकर बसाना अच्छा है। हमें मालूम है, आस्ट्रेलियाको भी बसानेके लिये पहले अंग्रेज कैदी ही भेजे गये थे—वह अंग्रेज कैदियोंके लिये कालापानी बना था। बायरों और अमीरोंके लिये विद्रोही गरीबोंसे पिंड छुड़ानेका यह अच्छा मौका था। दूसरी तरफ अपने प्रभुओंके अत्याचारोंसे पीड़ित कितने ही किसानोंने भी मुक्त हवामें सांस लेनेके ख्यालसे साइबेरियामें प्रवास करना शुरू किया। पहले वह उरालतक पहुंचे, फिर आगे बढ़ने लगे। साइबेरियामें जगह-जगह किलाबंदी करके बहुतसे सैनिकोंको रखना पड़ता था। उनके लिये अन्न भी एक समस्या थी, क्योंकि साइबेरियाके अधिकांश कबीले अभी शिकारी अवस्थामें थे, खेतीको एक तरह वहां नये तौरपर शुरू करना था। जो किसान साइबेरिया जाते, उन्हें मुफ्त भूमि मिलती, और बीज-रूपया उधार दिया जाता। इसके बदलेमें वह “प्रभुके लिये” एक निश्चित मात्रामें खेती करके अनाज सरकारको दे देते। रूसके किसानों और साइबेरियाके किसानोंमें यही अन्तर था, कि यहां वह किसी जमींदारके लिये नहीं, बल्कि जारके लिये काम करते थे। किसानोंके अतिरिक्त बहुतसे रूसी व्यापारी भी आकर साइबेरियामें बस गये, जिनमेंसे कितनोंने अपनी खेती-बारी कायम कर ली और कुछ सैनिक सेवामें भी दाखिल हो गये। इस तरह १७वीं सदीके अन्ततक अर्थात् औरंगजेबके अन्तिम वर्षोंतक साइबेरियामें जगह-जगह रूसी बस्तियाँ और गांव बस गये थे। रूसियोंने साइबेरियामें उत्पादनको बढ़ाकर औरोंको भी बहुत प्रोत्साहन दिया। धीरे-धीरे खेतीका प्रसार बढ़ा और १७वीं सदीके अन्ततक पश्चिमी साइबेरियाके दक्षिणी जिले कृषिप्रधान हो गये। रूसी प्रवासियोंने एसियाके उत्तरी भागकी खोज-पड़तालमें बहुत काम किया। उन्होंने वहां लोहेकी धुनों, और नमककी खानोंका पता लगाकर काम शुरू

किया। रूसी यात्रियोंने अपने यात्रा-विवरण तथा साइबेरियाके नक्शे प्रकाशित किये। रूसी सरकारके लिये साइबेरिया अर्थांगमका एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्रोत था। वहांकी बहुमूल्य समूरी छालोंकी पश्चिमी युरोप, चीन और ईरानमें बड़ी मांग थी। इस आमदनीसे सरकार अपने सैनिक खर्च और नौकरोंके वेतनोंको देनेमें समर्थ थी।

३. फ्योदोर, अलेक्सी-पुत्र (१६७६-८२ ई०)

जार अलेक्सीके मरनेके बाद उसका पुत्र फ्योदोर गद्दीपर बैठा। इसने दो बार ब्याह किया, जिसमें पहली स्त्री मीलोस्लाव्स्की-कुलकी कन्यासे उसकी सोफिया आदि कई लड़कियां तथा दो पुत्र फ्योदोर और इवान हुये। मरनेसे थोड़ा समय पहले जार अलेक्सीने नारश्किन कुलकी कन्या नतालिया किरिलोव्नासे ब्याह किया। नतालिया जारके एक कृपापात्र बायर अर्तमान मत्वयेफ परिवारमें पाली-पोसी गई थी, जहां उसे पश्चिमी संस्कृतिके घनिष्ठ संबंधमें आनेका मौका मिला था। मत्वयेफका घर युरोपीय ढंगसे सजा रहता था। उसके पास युरोपीय अभिनेताओंकी एक मंडली थी। १६७२ ई० में नतालियाको एक पुत्र पैदा हुआ, यही पीछे महान् जार पीतर I हुआ। अलेक्सीके मरनेके बाद फ्योदोर जब गद्दीपर बैठा, तो उसकी उम्र चौदह वर्षकी थी। वह मस्तिष्क और शरीरका बड़ा ही दुर्बल बालक था। जारके अन्तिम समयमें नतालियाके संबंधके कारण नारश्किनोंका प्रभाव बढ़ गया था, लेकिन फ्योदोरके मातृ-कुलके होनेसे मीलोस्लाव्स्कीयोंने अधिकार अपने हाथमें संभाल लिया। पश्चिमी युरोप और बाहरी देशोंके प्रथम प्रभावके परिणामस्वरूप १६८७ ई०में मास्कोमें प्रथम स्थायी शिक्षण-संस्था "स्लावानिक-ग्रीक-लातिन-अकदमी"के नामसे स्थापित हुई।

नारश्किन इसे बर्दाश्त करनेके लिये तैयार नहीं थे, कि मीलोस्लाव्स्की दरबारमें सर्वेसर्वा हो जायें। आखिर उनका भी नाती जार-पुत्र पीतर था। जार फ्योदोर १६८२ ई० में निस्संतान मर गया, उसके उत्तराधिकारी उसके दो भाई—सहोदर इवान तथा सौतेला पीतर थे। इवान यद्यपि उमरमें बड़ा, लेकिन दिमागसे बहुत कमजोर था। फ्योदोरके शासनकालमें मीलोस्लाव्स्कीयोंने जो मनमानी की थी, उसके कारण वह अप्रियसे हो गये थे, इसलिये जारके जीवित-कालमें ही उन्होंने नारश्किनोंके साथ मैत्री स्थापित की। जैसे ही जार फ्योदोर मरा, महासंधाराज और बायरोंने छोटे जारकुमार पीतरको जार घोषित कर दिया। महलके सामने जमा हुई भीड़ने बड़ी हर्ष-ध्वनिसे इसका स्वागत किया, लेकिन मीलोस्लाव्स्की कुल इसे माननेके लिये तैयार नहीं हुआ। उन्होंने स्त्रेल्सी (सैनिकों)को भड़काया, जिनको कि काफी समयसे वेतन नहीं मिला था। ५ मई १६८२ ई० को स्त्रेल्सी बहुतसी तोपें अपने अधिकारमें कर झंडा लिये नगाड़ा बजाते क्रेमलिनके भीतर घुस गये। लोगोंने हल्ला उड़ाया, कि नारश्किनोंने इवानको मार डाला, इसपर पीतरकी मां नतालियाने दोनों भाइयों—इवान और पीतरको लाकर खिड़कीपर खड़ा किया। लेकिन स्त्रेल्सियोंका क्रोध शांत नहीं हुआ। वह महलके भीतर घुस गये, और सबसे पहले जिस आदमीको उन्होंने खतम किया, वह था नारश्किनोंका मुखिया राजुल दोगोस्की। शामतक बायरोंको पकड़-पकड़कर वह मारते रहे। वह बायरोंको घसीटते हुये सैनिक मजाक उड़ाते थे—“यह बायर लरमोदानोव्स्की हैं, इमाके सदस्यके लिये रास्ता दीजिये।” मारे गये आदमियोंमें बायर अर्तमान मत्वयेफ और जारानीके दो बड़े भाई भी थे। अन्तमें जारानीने स्त्रेल्सियोंके पैंतीस वर्षके बाकी वेतनको देनेका वचन दिया और उनके आग्रहपर इवान और पीतर दोनोंको संयुक्त जार घोषित किया गया—इवानको प्रथम जार माना गया। उनकी नाबालिगीके समय राजभगिनी सोफिया संरक्षिका घोषित की गई।

सोफियाका शासन—सोफियाका सबसे घनिष्ठ मित्र “प्रथम मंत्री” राजुल वासिली गोलिस्तिन उस कालके सबसे सुशिक्षित बायरोंमें से था। वह चाहता था, कि देशमें नये सुधार किये जायें। लेकिन, अभी रूसको पोलंदसे निबटना था। इसी समय तुर्कीके साथ पोलंदका वैमनस्य बढ़ा, जिससे उसे रूसके साथ समझौता करनेके लिये मजबूर होना पड़ा। तुर्कीके विरुद्ध पोलंद और वेनिस (इताली) को मदद देनेके लिये आस्ट्रियाने संधि की थी। तुर्कीके साथ युद्ध छिड़ा हुआ था। मित्र-शक्तियोंने वीनामें तुर्कीकी सेनाको हराया, और सुल्तानको आस्ट्रियन राजधानीका मुहा-

सिरा उठाना पड़ा। अभी भी तुर्कीको पूरी तरह दबाया नहीं जा सका था, इसलिये मित्र-शक्तियोंको रूसकी सहायताकी आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार १६८६ ई० में पोल-राजाने मास्को अपना दूतमंडल भेजा, और कुछ समयकी बातचीतके बाद दोनों देशोंमें “सनातन” संधि हो गई। पोलंदने कियेफ और उसके पासके थोड़ेसे इलाकेको रूसको देना स्वीकार किया और रूसने तुर्की सुल्तानके सामन्त क्रिमियाके खानसे तुरंत लड़ाई छोड़नेका वचन दिया। १६८७ ई० में राजुल वासिली गोलित्सिनके अधीन पहली रूसी सेनाने क्रिमियापर आक्रमण किया, लेकिन उसे पूर्णतया असफल होकर लौटना पड़ा। फिर १६८९ ई० के बसंतमें और भी बड़ी सेनाके साथ गोलित्सिन तातारोंके किले पेरकोफ पर पहुंचा, जिसे तातारोंने क्रिमियाके स्थलडमरूमध्यके सबसे संकरे स्थानपर बनाया था। गोलित्सिन इस किलेको नहीं ले सका, और फिर उसे लौटना पड़ा। इतना धन और प्राण गंवाकर असफल होनेका परिणाम सोफियाकी सरकारके लिये अच्छा नहीं हुआ। लोगोंने खुलकर असंतोष प्रकट करना शुरू किया।

४. इवान VI, अलेक्सी-पुत्र (१६८२-९६ ई०)

यद्यपि इवान और पीतर दोनों संयुक्त जार घोषित हुये थे, लेकिन संरक्षिका सोफिया इवानकी सहोदरा थी, इसलिये एक तरहसे शक्ति उसके हाथमें होनेसे पीतर उपेक्षितसा था। अपनी मांके साथ उपनगरमें पीतरका समय अधिकतर प्रेयोब्रजेन्स्कीके महलमें बीतता था। वहां जंगलोंमें वह अपने लंगोटिया यारोंके साथ सिपाहियोंका खेल खेला करता। वह मिट्टीके छोटे-छोटे किले बनाते, फिर उसपर आक्रमण करनेका दाव-पेंच लगाते। कुछ सालों बाद पीतरने अपने साथियोंकी दो नकली पलटनें बनाई, जिनमेंसे एकका नाम उसने प्रेयोब्रजेन्स्की रक्खा और दूसरेका नाम सेमओनोव्स्की—ये दोनों गांव पास-पासमें थे। एक बार अपने दादाकी चीजोंमें पीतरको एक पालवाली विदेशी नाव मिली। पीतरने अब उसे लेकर नौचालनका खेल शुरू कर दिया। मास्कोके एक विदेशी निवासी ब्रांटने उसे नौ-संचालनकी शिक्षा दी। ब्रांट पहले नौसेनामें रह चुका था। मास्कोके पास बहनेवाली नदी यजजा (यौजा) छोटी थी, इसलिये पीतर अपनी नावको लेकर इजूमाइलोवोके तालाबमें पहुंचा। लेकिन वह भी नावके मोड़ने-माड़नेके लिये पर्याप्त नहीं था, इसलिये पीतर अब मांकी आज्ञा लेकर पेरेया-स्लाव्के बड़े सरोवरमें गया। उसकी बहिन सोफिया पीतरके इन सैनिक खेलोंमें लगे रहनेको पहले पसंद करती थी, क्योंकि इस प्रकार वह दरबारके षड्यंत्रोंकी ओर ध्यान नहीं दे सकता था; लेकिन आयुके बढ़नेके साथ-साथ पीतरके नकली सैनिक असली होते जा रहे थे। पीतर सत्रह वर्षका हो गया था। उसके लड़कपनके खेलकी दोनों पलटनें अब युरोपीय ढंगपर शिक्षित मास्कोकी पलटन बन गई थीं। सोफियाको जब खतरका पता लगा, तो उसने रास्तेके इस कांटेको अलग करना चाहा। उसने अपनेको कागज-पत्रोंमें “परमशासक” लिखना शुरू किया। वह स्त्रेल्सियोंको अपनी ओर मिलानेके लिये उनको भोज-भाज देने लगी। पीतर और सोफियाके संबंध बिगड़ते गये। अन्तमें अगस्त १६८९ ई० की एक रातको पीतरको खबर लगी, कि सोफिया आक्रमण करनेके लिये स्त्रेल्सियोंको तैयार कर रही है। पीतर तुरन्त घोड़ेपर सवार हो त्रोयत्स्क-सेर्गियेफके दुर्गबद्ध मठमें पहुंचा। वहींपर उसकी “नकली” पलटन जमा हो गई और एक स्त्रेल्सी पलटनके साथ कितने ही अमीर और कुछ बायर भी आ मिले। स्त्रेल्सियोंके भड़कानेका सोफियाका सारा प्रयत्न विफल हुआ। पीतरके समर्थकोंकी संख्या दिनपर दिन बढ़ती गई, और महीने बाद शक्ति पीतरके हाथमें आ गई। सोफियाको मठमें साधुनी बनके रहनेके लिये मजबूर होना पड़ा, और उसके सहायक राजुल वासिली गोलित्सिनको उत्तरमें निर्वासित कर दिया गया।

५. पीतर I, अलेक्सी-पुत्र (१६९६-१७२५ ई०)

औरंगजेबके शासनके अन्तके साथ हम भारतके इतिहासको आधुनिक इतिहासके रूपमें बदलते नहीं देखते, लेकिन पीतरके शासनके साथ रूस आधुनिक जगत्में प्रवेश करता है। जैसा कि पहले कहा गया, १६८२ ई० में अपने भाई इवानके साथ पीतर भी संयुक्त जार घोषित हुआ। असली राजशक्ति

को हाथमें लेनेमें वह १६८९ ई० में सफल हो गया था, तो भी अभी उसका भाई इवान १६९६ ई० तक जारके तौरपर मौजूद रहा। पीतरकी मां ऐसे परिवारकी कन्या थी, जिसमें पश्चिमी युरोपके फैशन बहुत कुछ स्वीकृत किये जा चुके थे। मास्कोमें कितने ही पश्चिमी युरोपके व्यापारी, विद्वान् और शिल्पी रहते थे, जिनके मुहल्लोंमें भी पीतर जाया करता था। पश्चिमी युरोपमें उस समय ज्ञान-विज्ञानकी रोशनी फैलने लगी थी, आधुनिक युद्धकला तथा सामरिक यंत्रोंका विकास हो रहा था। पीतर जैसे प्रतिभाशाली तरुणको साफ मालूम होने लगा, कि रूसको महान् बनानेके लिये हमें पश्चिमी युरोपसे बहुतसी बातें सीखनी होंगी। उनके सीखनेके लिये सिर्फ बादशाही हुकमसे काम लेना बेकार समझ, वह स्वयं आस्तीन समेटकर सीखनेके लिये दिलोजानसे कूद पड़ा। पीतरके शासनके प्रथम अठारह वर्ष औरंगजेबके अन्तिम वर्ष थे। यह भी उल्लेखनीय बात है, कि पीतरका दूत भारत आकर औरंगजेबसे सूरतमें मिला था। पीतर रूसको जहां एक सुसंगठित शक्तिशाली राष्ट्रके रूप में बड़े तेजीसे परिणत कर रहा था, वहां हिन्दुस्तानी औरंगजेबका काम उससे बिल्कुल उलटा था। पीतर ज्ञान-विज्ञान और सहिष्णुता द्वारा रूसका एकीकरण कर रहा था, और औरंगजेब धर्मान्धता द्वारा मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करनेके प्रयत्नमें राष्ट्रको छिन्न-भिन्न कर रहा था। औरंगजेबकी अदूरदर्शिताका फल भारतने १७०७ से १९४७ ई० तक भोगा। यही समय है, जब कि पीतरकी जमाई नीवपर रूस दुनियाका अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। यह आश्चर्य करनेकी बात नहीं है, यदि बोल्शेविक पीतरकी प्रशंसा करते नहीं थकते। वस्तुतः वह रूसके सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र-निर्माताओंमें से था।

बहिन सोफियाके शासनके खत्म होनेके बाद पीतरकी मां नतालिया अभिभाविका बनी। पीतरने मांके काममें दखल देना पसंद नहीं किया। वह अपने सैनिक खेलको और गम्भीरताके साथ खेलता रहा। अपने सहायकोंकी मददसे एक युद्धपोत बनाकर उसने पेरेयास्लाव्ल सरोवरमें उतारा। थोड़े ही दिनों बाद वह उसे लेकर ध्रुवकक्षीय अर्खगल्स्कमें गया, जहांपर पश्चिमी युरोपके बड़े-बड़े जहाज आया करते थे। यहां पहलेपहल उसने उन जहाजोंको देखा, जो कि महासमुद्रोंको चीरते दुनियाके दूर-दूरके देशोंमें जाया करते थे। उसका जिज्ञासु हृदय उन्हें देखकर न जाने किन-किन कल्पनाओंमें लीन हो गया। वहांपर एक पुराने स्काट जेनरल पेट्रिक गोर्डनसे उसने परिचय प्राप्त किया। गोर्डनने उसे अपने सामुद्रिक युद्धोंकी बातें सुनाई। डच टिमरमानसे वह यहीं गणित और तोप चलानेका ज्ञान प्राप्त करने लगा। प्रतिभाशाली होनेके कारण थोड़े ही दिनोंमें वह अपने शिक्षककी भी गलतियां निकालने लगा। पीतरकी यह प्रथम तैयारी थी। वह क्रिमियासे गोलित्सिनकी असफलताओंका बदला लेना चाहता था। रूसने आस्ट्रिया और पोलंडके साथ हो तुर्कीसे लड़नेके लिये संधि की थी, किन्तु उसने अभी उसमें पूरा मनोयोग नहीं दिया था। अजोफके किलेके बारेमें क्रिमियाके खानसे बातचीत चली, लेकिन उसने उसे देनेसे साफ इन्कार कर दिया। अजोफ किलेमें इस समय तुर्कीकी सेना रहती थी। उसपर बिना अधिकार किये रूसी दोन द्वारा कालासागरमें नहीं पहुंच सकते थे। पीतरने अब अपने खेलोंको छोड़कर वास्तविक युद्धमें उतरनेका निश्चय किया। १६९५ ई० के बसंतमें तीस हजार सेना लेकर नावों द्वारा वह ओका नदीसे वोल्गा होकर जहां वोल्गा और दोन एक दूसरेके बहुत नजदीक होती हैं, (जहां पर १९५२ ई० में वोल्गा-दोन नहर जारी की गई है) वहां नावोंको कंधोंपर उठाकर दोन नदीमें पहुंचाया गया। इसी समय पीतरने अपने एक पत्रमें लिखा था—“कोजुकोफमें हमें बड़ा आनन्द आया था (यहीं मास्कोके उपनगरमें पीतरने सैनिक प्रदर्शन किये थे), और अब हम खेलके लिये अजोफ जा रहे हैं।” अभी पीतरके पास युद्धपोत नहीं थे। इसलिये वह समुद्रकी ओरसे किलेको नहीं घेर सकता था। तुर्की सेनाको कुमक मिलनेमें कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने शरद् आरम्भ होते-होते रूसियोंपर इतने जोरका प्रहार किया, कि उन्हें अजोफका मुहासिरा उठा लेना पड़ा।

इस हारने पीतरके लिये बड़ी शिक्षाका काम दिया। उसने अनुभव किया, कि बिना नौसेना के काम नहीं चल सकता, इसलिये सारे जाइलोंमें वह सैनिक पोतोंके निर्माण करनेमें दिलोजानसे पिल पड़ा। बोरोनेज नदीके किनारे दोनके संगमसे नातिदूर बंज, देवदारके जंगलोंके नजदीक रहनेसे वहीं पोतोंका निर्माण किया जाने लगा। इस काममें पीतर स्वयं अपने हाथसे आरे खींचने और बसूला चलानेमें

भी पीछे नहीं रहता था। जारकी इतनी तत्परता देखकर दूसरोंमें क्यों न उत्साह होता ? जाड़ा खतम हो १६९६ ई० का वसंत आया। इसी समय अजोफके पास रूसियोंका एक बहुत बड़ा जहाजी बड़ा देखकर तुर्कोंको बहुत आश्चर्य और उससे भी अधिक परेशानी हुई। यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि अभी वाष्प-इंजनका युग नहीं था। तुर्की सैनिक बेड़ेमें लड़नेकी हिम्मत नहीं थी। पीतरने जल और स्थल दोनों मार्गोंसे अजोफके किलेको घेर लिया। कान्स्तन्तिनोपोलसे कोई मदद नहीं मिली, इसलिये ग्रीष्म के अन्ततक तुर्कोंने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन पीतर जानता था, कि अजोफ ले लेनेसे ही काम नहीं चलेगा। कालासागरके तटपर तुर्कोंके और भी कितने ही सैनिक अड्डे थे। अभी तक अधकचरा ज्ञान रखनेवाले युरोपीय लोगोंसे पीतरने पश्चिमी युरोपकी बातें सीखी थीं, इसलिये वह स्वयं वहां जाकर सीखनेके लिये तैयार हो गया।

मां राजकाज संभाले हुई थी, इसलिये देशमें पीतरकी उतनी आवश्यकता नहीं थी। मुस्लिम तुर्कोंके विरुद्ध पश्चिमी युरोपके राज्योंसे घनिष्ठ संबंध स्थापित करनेके उद्देश्यसे मास्कोने एक महादूत-मंडल भेजा, जिसमें भेस बदलकर पीतर स्वयं शामिल हो गया। वह वहांसे अपने साथ विशेषज्ञों, इंजीनियरों, तोपचियों आदिको लाना चाहता था। १६९७ ई० में दूतमंडल मास्कोसे चला था, जिसके साथ पीतर मिखाइलोफके नामसे एक साधारण जहाजी भी था। उसकी मंशा युरोपकी सभी बातोंको गंभीरतासे सीखनेकी थी। पीतरने पीछे अपनी मुहरमें खुदवा रक्खा था—“मैं गुरुओंकी खोजमें रहने वाला विद्यार्थी हूँ।” औरंगजेब और पीतरके अन्तरको यहां हम साफ देख सकते हैं। दूतमंडलके पहले ही पीतरने कोइनिग्सवर्ग नगरमें पहुंच तोप चलानेकी कला सीखी। वहांसे फिर वह हालैण्डके सारडम नगरमें पहुंचा, जो कि अपने पोत-निर्माणके कामके लिये बहुत प्रसिद्ध था। पीतर एक साधारण लोहारके घरमें बसकर मामूली बढ़ईकी तरह जहाजी कारखानेमें काम करने लगा, लेकिन वह अधिक दिनोंतक अपनेको छिपा नहीं सका। बहुतसे डच-व्यापारी रूस गये हुये थे, उनकी आंखें साढ़े छ फुटके तगड़े जवानको देखकर कैसे चूक सकती थीं ? लोगोंसे बचनेके लिये पीतर वहांसे आम्स्टर्डम चला गया, और वहां एक सबसे बड़े जहाजी कारखानेमें काम करने लगा। यह एक-दो दिनके दिखावेका काम नहीं था। पीतर चार महीनेतक आम्स्टर्डममें काम करता रहा, तबतक जबतक कि जिस जहाज के निर्माणमें वह स्वयं भी काम कर रहा था, वह पानी में नहीं उतार दिया गया। जहाजमें काम करनेके समयके बाद वह दूसरे कारखानों, मिस्त्रीखानों और म्युजियमोंमें जाता, डच वैज्ञानिकों और कलाकारों के साथ बातचीत करता। हालैण्डसे पीतर इंगलैण्ड गया। वहां उसने वहांकी शासन-व्यवस्थाका अध्ययन किया। वह एक बार पाल्यामिंटके अधिवेशन को भी देखने गया। दो महीनेतक टेम्सतटपर डेप्टफर्डके कारखानेमें पोत-निर्माणकी कलाको व्यवहारिक तौरसे सीखता रहा।

समकालीन भारतमें क्या हम किसी ऐसे मुगल युवराज या शाहजादेको देख सकते थे ? पीतर अपने और अपने देशके बारेमें 'होनहार बिरवानके होत चीकने पात' की कहावतको सिद्ध कर रहा था।

इंगलैण्डसे पीतर आस्ट्रियाके सम्राटके साथ सैनिक संधिके बारेमें बातचीत करनेके लिये आस्ट्रिया गया। इस सारे पर्यटनसे महादूतमंडलको मालूम हो गया, कि तुर्कोंके विरुद्ध कोई बहुत बड़ा समझौता नहीं हो सकता। युरोपमें स्पेनके उत्तराधिकारको लेकर अलगे ही विरोध शुरू हो गया था, जो कि अन्तमें तेरह साल (१७०१—१७१४ ई०) के युद्धके रूपमें परिणत हो गया। आस्ट्रियाके राजवंशका सारा ध्यान स्पेनकी ओर था। वह तुर्कोंके विरुद्ध रूसके साथ समझौता कैसे करता ? उलटे उसने तुरंत तुर्कोंके साथ संधि कर ली, जिसमें कि स्पेनकी ओर पूरा ध्यान दे सके। अपनी यात्रामें जहां पीतरने पश्चिमी देशोंकी नई-नई प्रगतिको देखा और उनसे कितनी ही बातें सीखीं, वहां उसके दिलमें यह देखकर सुई चुभ रही थी, कि स्वीडनने अब भी बाल्तिक-तटसे रूसको वंचित कर रक्खा है। समुद्रका रास्ता रूसके लिये कहींसे नहीं था। पीतरकी दूरदर्शी आंखें देख रही थीं, कि कोई भी राष्ट्र बिना समुद्रके सहारे—बिना समुद्रपर विजय किये—अपनेको सुरक्षित और शक्तिशाली नहीं बना सकता। युरोपीय शक्तियोंको तुर्कोंके विरुद्ध कुछ करनेके लिये नहीं तैयार देख, पीतरने पहले स्वीडनसे बाल्तिक-तटको छीननेका निश्चय किया। तुर्कोंकी अपेक्षा स्वीडन ही उस वक्त अधिक निर्बल शत्रु भी था। उसने झट तुर्की और क्रिमियाके खानसे संधि कर ली।

शायद पीतर अभी और कुछ समयतक विद्यार्थी बनकर पश्चिमी युरोपमें घूमता, लेकिन इसी समय स्त्रेल्सियों (गारद सैनिकों) के विद्रोहकी खबर मिली। स्त्रेल्सी मास्कोमें गारदका ही काम नहीं करते थे, बल्कि वह अपना अधिक समय छोटे-छोटे व्यापारों और दस्तकारीके कामोंमें भी लगाते थे। पीतरने राजधानीमें लौटकर उनसे मांग की, कि तुम्हें अपना सारा समय सैनिक सेवामें देना होगा। इस विद्रोहसे फायदा उठानेके लिये राज्य-वंचिता साधुनी सोफिया चुपके-चुपके स्त्रेल्सियोंसे मिलकर षड्यंत्र करने लगी। १६९८ ई०के ग्रीष्ममें तोरोपेत नगरकी छावनीमें रहनेवाले स्त्रेल्सियों की चार पलटनें बलवा कर मास्कोकी ओर चल पड़ीं, लेकिन पीतरके जेनरल गोर्डनने राजधानीके पास उन्हें आसानीसे हरा दिया। यह खबर पीतरको वीनामें मिली। सुनते ही वह बहुत जल्दी मास्कोके लिये चल पड़ा। रास्तेमें वह पोलंदके राजा अगस्तससे मिला। दोनोंने मिलकर स्वीडनके विरुद्ध लड़नेका निश्चय किया। कहीं लोग राजधानीमें उसके स्वागतके लिये बड़ी तैयारी न कर दें, इसलिये वह एक दिन यकायक पहुंचकर महलमें भी न जा प्रयोब्रजेंस्कोय गांवके अपने साधारणसे बंगलेमें चला गया। खबर पाते ही दूसरे दिन सबेरे, बड़े-बड़े बायर, अमीर, व्यापारी और नागरिक स्वागत करने पहुंचे। पीतरने उनके साथ बड़े प्रेमसे मुलाकात की, लेकिन पुराने दस्तूरके मुताबिक उसने किसीको भी धरती पर मत्था टेककर प्रणाम करने नहीं दिया। इसी स्वागतके समय पीतरने कितने ही बायरोंकी लम्बी दाढ़ियोंको कैंची ले अपने हाथसे कतर दिया। पीछे उसने राजादेश निकालकर लम्बी दाढ़ी और ढीलमूढाल रूसी चोगा पहननेका निषेध कर दिया। स्त्रेल्सी-विद्रोहके बारेमें खोज करनेपर पता लगा, कि इसके पीछे सोफियाका हाथ है। जगह-जगहपर फांसीकी टिकटियां खड़ी करके उसने स्त्रेल्सियोंके १९५ सरगनोंको नवोदेविची भिक्षुणी मठके जंगलोंके सामने फांसीपर लटकवा दिया—सोफिया इसी मठमें रहती थी। सब मिलाकर बारह सौ स्त्रेल्सियोंको प्राणदंड दिया गया। पीतरन मास्कोस्थित उनकी पलटनको तोड़ दिया, सोफियाको षड्यंत्र करनेके लिये इतना ही दंड दिया गया, कि अब वह साधूनियोंके घूंघटको पहिनकर एकान्तवास करनेके लिये मजबूर की गई।

अब पीतरको तन्मयताके साथ स्वीडनसे निवटनेकी तैयारी करनी थी। किसानों, अर्धदासों तथा मुक्त आदिमियोंको भर्ती करके उसने एक नई सेना संगठित की। सैनिकोंकी वर्दी उसने पश्चिमी युरोपकी नकलपर बनवाई और सबेरेसे रात होनेतक मास्कोके उपनगरमें यह नये रंगरूट कवायद-परेडमें लगे रहते। तीन महीनेके भीतर बत्तीस हजार सेनाको शिक्षा दी गई—इसी बीच कान्स्तान्तिनोपोलमें दूत भेजकर पीतरने अगस्त १७०० ई० में तुर्कीके साथ संधि की थी। इस संधिके अनुसार तुर्कीने अजोफपर रूसका अधिकार कबूल कर लिया। इसके बाद तुरंत पीतरने अपनी सेनाको स्वीडन-अधिकृत नारवाके किलेपर प्रहार करनेका हुक्म दे दिया। बाल्तिक समुद्रमें पहुंचने के लिये नारवाका लेना आवश्यक था। पीतरका मुकाबिला एक नई सेनासे था। उसे रसद और हथियारोंके प्रबंधमें कितने ही दोषोंका पता लगा। सिपाहियोंको पेटभर खाना नहीं मिलता था, खाइयोंमें सर्दीसे तकलीफ, इसलिये बीमारी फैली। खबर पाते ही स्वीडनके राजा चार्ल्सने सहायताके लिये प्रयाण किया। अन्तमें रूसियोंकी हार हुई, उनके बहुत-से सैनिक तथा सारा तोपखाना स्वीडनके हाथमें पड़ गया। लेकिन, पीतरके लिये हरएक असफलता नई तैयारीका अवसर देती थी। उसने सारी शक्ति लगाकर बड़ी तेजीसे सेनाको फिरसे संगठित करना शुरू किया। तोपोंके ढालनेके लिये उसने गिर्जोंके बहुतसे विशाल घंटोंको गला डाला और एक सालके भीतरही तीन सौ तोपें तथा नारवामें गंवाई सेनासे भी दुगनी सेना तैयार कर ली। पहले बायरोंको जन्मतः जेनरल बननेका अधिकार था, लेकिन अब पीतर ने उनके लिये भी बाकायदा शिक्षा लेनेका नियम बना दिया। १७२१ ई० में—औरंगजेबकी मृत्युके छ साल पहले—रूसी सेना फिर लड़ाईके लिये तैयार थी। शेरमेतोफके नेतृत्वमें एक रूसी सेनाने स्वीडोंको दो बार हराकर बाल्तिक-तटके लिफलंदिया प्रदेशपर अधिकार कर लिया। १७०३ ई०में रूसी सेनाने मरियतबुर्गको सर किया, अगले साल दोरूपत और नारवा उनके हाथमें थे। इस समय पीतर नेवा नदीके बाम तटपर इप्रियामें लड़ाईका संचालन कर रहा था। १७०२ ई०की शरदमें नेवा नदीके उद्गम लदोगा-सरोवरके तटपर अवस्थित स्वीडोंके अधिकृत नोटबोर्गपर अधिकार कर

लिया। पीतरने इस किलेका नाम बदलकर श्लुसेल्बुर्ग (कुंजीनगर) रक्खा, क्योंकि यह नेवा नदी होकर फिनलन्डकी खाड़ीमें पहुंचनेकी कुंजी थी। १७०३ ई०के बसंतमें आगे बढ़कर समुद्र-संगमसे नाति-दूर नेवाके बायें किनारेपर अवस्थित स्वीड किले नेस्कान्सपर अधिकार कर इसी जगहपर पीतर और पाल किलेकी नींव रक्खी और कुछ लकड़ीके मकान बनवाये—यहीसे पीतरबुर्ग (आधुनिक लेनिन-ग्राद) आरम्भ हुआ, जो बोल्शेविक क्रांतिके समयतक रूसकी राजधानी रहा। पीतरका एक बहुत बड़ा संकल्प पूरा हुआ—रूसकी सीमा समुद्र-बेलातक पहुंच गई।

लेकिन, लड़ाईका मतलब केवल प्राणोंकी ही क्षति नहीं, बल्कि अपार धनकी भी क्षति है, जिसके लिये किसानोंका सबसे अधिक दोहन होना था। पीतरने नगरोंमें दाढ़ी रखना निषिद्ध कर दिया था, लेकिन जो दाढ़ी-कर देनेको तैयार थे, वह उसे रख सकते थे—इस करकी रसीदके तौरपर एक तांबेका सिक्का मिलता था। ग्रामीणोंको दाढ़ी रखनेकी स्वतन्त्रता थी, लेकिन नगरमें आनेपर उन्हें भी दाढ़ी-कर चुकाना पड़ता। दाढ़ीको उस वक्त धर्मके साथ संबंधित समझा जाता था, इसलिये पीतर के इस कामसे लोगोंके नाराज होनेका मौका था, लेकिन वस्तुतः सबसे अधिक असंतोष था आर्थिक कठिनाइयोंके कारण। जगह-जगह छोटे-मोटे विद्रोह हुये। एक बड़ा विद्रोह ३० जुलाई १७०५ ई० को अस्त्राखानमें हुआ, जिसमें बोयबोद और कितने ही राजकर्मचारी मार डाले गये। फील्ड मार्शल शेरमेतोफके नेतृत्वमें पीतरकी सुशिक्षित सेना जब गई, तो विद्रोहियोंको क्या आशा हो सकती थी? मार्च १७०६ ई०में तोपोंकी मारके सामने अस्त्राखानको आत्म-समर्पण करना पड़ा, जिसपर आठ महीनेतक विद्रोहियोंने अपना शासन स्थापित कर लिया था। अस्त्राखानके विद्रोहके समाप्त होने के तुरन्त ही बाद दोनमें एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इससे तीन वर्ष पहले १७०४ ई० में बाशकिरोंने भी विद्रोह किया था, जिसमें विद्रोहियोंके नेताओंने क्रिमियाके खान या तुर्कीके खलीफाके अधीन अपना स्वतन्त्र राज्य कायम रखनेका इरादा किया था। पीतरने १७११ ई० तक अपनी शक्तिशाली सेनाके बलपर सभी जगह विद्रोहोंको दबा दिया।

स्वीडनके साथ अभी अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया था। उर्कइनका हेतमन (राजप्रमुख) इवान माजेपा पीतरसे असंतुष्ट हो स्वीडनके राजा चार्ल्ससे सांठ-गांठ कर रहा था, इसलिये भी स्वीडन की हिम्मत बढ़ी थी। माजेपाने रूसके खिलाफ भड़काकर अपने लोगोंको विद्रोह करनेके लिये तैयार करना चाहा, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हुआ। चार्ल्स अप्रैल १७०९ ई०में सेना लेकर आया और उसने पोल्तावाके किलेको घेर लिया। पोल्तावाके लेनेपर स्वीडनके लिये मास्कोका रास्ता खुल जाता। पीतरको तुर्कीसे भी डर था, तो भी वह अपनी प्रधान-सेना लेकर पोल्तावाकी ओर दौड़ा। २७ जून १७०९ ई० को पोल्तावाके पास वोर्स्कला नदीके किनारे वह निर्णायक युद्ध हुआ, जिसने रूस के इतिहासको आगे बढ़ानेमें भारी सहायता की। युद्धके दिनसे पहलेवाली शामको पीतरने रूसी सेनाके लिये जो आदेश दिया था, उसके कुछ अंश निम्न प्रकार हैं—

“जवानो, वह घड़ी आ रही है, जो हमारे देशके भाग्यका फैसला करेगी; इसलिये यह मत सोचो, कि तुम पीतरके लिये लड़ रहे हो। तुम लड़ रहे हो उस राज्यके लिये, जो कि पीतरको सौंपा गया है, तुम लड़ रहे हो अपने परिवारके लिये, अपनी जन्मभूमिके लिये। अजेय कहे जानेवाले दुश्मन की प्रसिद्धिसे हिम्मत न हारो, क्योंकि यह प्रसिद्धि झूठी बात है। इस प्रसिद्धिको तुमने कई बार अपने विजयों द्वारा झूठा सिद्ध किया है। जहांतक पीतरका संबंध है, तुम यह गांठ बांध लो, कि उसे अपना प्राण प्रिय नहीं है।”

लड़ाई शुरू हुई। रूसियोंका प्रहार इतना जबरदस्त था, कि स्वीडोंमें भगदड़ मच गई। वह भारी संख्यामें खेत आये। कुछ थोड़ी-सी सेना ले चार्ल्स और माजेपा तुर्कीकी ओर भागे, बाकी सेनाने आत्म-समर्पण किया, जिसकी संख्या बीस हजार थी। उस समय स्वीडनकी सेना युरोपमें सबसे अच्छी मानी जाती थी। पीतरने उसे हराकर सारे युरोपमें रूसकी धाक जमा दी।

उत्तरमें समुद्रके रास्ते भागना संभव न देखकर चार्ल्स तुर्कीकी ओर भागा था। उसने तुर्कोंको भड़काया, जिसपर तुर्कीने १७१० ई०में रूसके विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। पीतर तुरंत चाळीस हजार सेना ले दन्यूब (दुनाइ) नदीकी ओर चल पड़ा। करीब दो लाख तुर्क सेनाने आगे बढ़कर प्रुथ नदीके

किनारे १७११ ई०में पीतर और उसकी सेनाको घेर लिया। रूसी सेनाकी भीतरी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन तुर्की सेनापतिको इसका पता नहीं था, इसलिये उसने समझौतेकी बात स्वीकार की। पीतर बेवकूफीभरी बीरताका पक्षपाती नहीं था। उसने अजोफको तुर्किके हाथमें दे अपनी सेनाको बचा लेनेमें सफलता पाई।

तुर्किसि छुट्टी पाकर फिर उसने स्वीडनकी तरफ मुंह फेरा और १७१४ ई०में अबकी उसने हंगो अन्तरीप (फिनलन्द)में स्वीडनकी नौसेनापर भारी विजय प्राप्त की। इस नौसैनिक पराजयके बाद स्वीडनने रूससे समझौतेकी बातचीत शुरू की, लेकिन पीछे उसे तोड़ दिया, जिसपर १७२० ई० में रूसको दूसरी नौसैनिक विजय प्राप्त करनी पड़ी। अब बाल्तिक-तट फिर रूसका हो गया। यही नहीं, कुछ ही वर्षोंके भीतर रूसकी नौसैनिक-शक्ति भी बहुत बढ़ गई। अन्तमें १७२१ ई०में संधि करके स्वीडनने फिनलन्द-खाड़ीका तट और रीगा-खाड़ीकी तटभूमि, करेलियाका कुछ भाग—जिसमें बिपुरी भी था—और दूसरे प्रदेश रूसको दे दिये।

पूर्वमें प्रसार—यद्यपि पीतरको स्वीडनके साथ बहुत सालोंतक फंसा रहना पड़ा, लेकिन उसका ध्यान अपने पूर्वी सीमांतसे कभी नहीं हटा। इसके शासनमें १७१५ ई० और १७२० ई०के बीच सारी ऊपरी इतिहास-उपत्यका रूसके हाथमें चली गई। इसी नदीके तटपर ओम्स्क और सेमीप्लातिन्स्क जैसे कितने ही किले बनाये गये। ऊपरी इतिहासे बुखारा और खीवाका वणिक्पथ जाता था। मध्य-एसियाकी ओर भी अपनी विजय-यात्राको बढ़ानेके लिये पीतरने कास्पियन समुद्रको इस्तेमाल किया। १७१६ ई०में राजुल बेकोविच-चेरकास्कीके नेतृत्वमें एक छोटी-सी सैनिक टुकड़ी ने खीवाके खानको गद्दीपर बैठनेके लिये मुबारकबादी देनेके बहाने पहुंचना चाहा, लेकिन रेगिस्तानमें उसे घेरकर नष्टप्राय कर दिया गया, और इस प्रकार पीतर कास्पियन-तटसे आगे अपनी बांह फैलानेमें सफल नहीं हुआ। इधरसे असफल होकर १७२२ ई०में पीतरने काकेशसके विरुद्ध स्वयं एक अभियान का नेतृत्व किया। काकेशसके सामन्तों—विशेषकर गुर्जी, अर्मेनियाके छोटे-छोटे राजा, व्यापारी तथा ईसाई पादरी—मुस्लिम ईरान या तुर्कीकी जगह ईसाई रूसको अधिक पसंद करते थे। ईरानको काकेशसमें हार खानी पड़ी और उसने १७२३ ई०की संधिके अनुसार कास्पियनके अपने बहुत-से तटभागको रूसियोंको दे दिया, जिसमें पश्चिमी तटपर दरबंद, बाकू और पूर्वी तटपर अस्त्राबाद भी शामिल थे, लेकिन रूस इस भूमिको बहुत दिनोंतक अपने हाथमें नहीं रख सका।

शासन-सुधार—पीतरके सैनिक सुधारों और उसके कारण मिली सफलताओंके बारेमें अभी हम देख चुके हैं। पीतरने व्यवस्थित सेनाको कायम किया, जिसमें बाकायदा रंगरूट भर्ती किये जाते, वर्दी और हथियार दे उनको खूब कवायद-परेड कराई जाती। पश्चिमी युरोपमें तोपोंको खींचने के लिये घोड़ागाड़ियोंका इस्तेमाल जब हुआ था, उससे पचास वर्ष पहले ही पीतरका तोपखाना घोड़ों द्वारा खींचा जाता था। राजप्रबन्धमें भी पीतरने कई बड़े-बड़े परिवर्तन किये। १७०८ ई०में उसने राज्यको आठ गुबर्नियों (सरकारों)में बांट दिया, गुबर्नियाका शासक एक गवर्नर होता था, जो कि सीधे केन्द्रीय सरकारसे संबंध रखता था। पहले गुबर्निया बड़ी-बड़ी बनाई गईं, जिन्हें १७१९ ई०में बांटेकर पचासी प्रदेशोंके रूपमें परिणत कर दिया गया। प्रदेशोंको फिर कितने ही जिलोंमें विभक्त किया गया। प्रदेशों और जिलोंके शासक गवर्नर (राज्यपाल) और बोयवाद होते थे।

यह नहीं कहा जा सकता, कि पीतर नवीनताका अंधभवत था, लेकिन उसके कितने ही सुधारों से एक प्रभावशाली वर्ग असंतुष्ट जरूर था। पीतरकी पहली बीबी योदोकिया लोपुखनासे उसका एक पुत्र राजकुमार अलेक्सी हुआ था। रूढ़िवादियोंने अलेक्सीके ऊपर आशा लगा रखी थी, क्योंकि वह पादरियों और अपने ननिहालके लोगोंकी देखरेखमें पला था। अलेक्सी उतावला हो गया था, कि कब बाप मरे और गद्दी उसके हाथमें आये। पीतरने कई बार अपने बेटेको सावधान किया—“अपने देशके सम्मान और समृद्धिके बढ़ानेमें जो भी बात सहायक हो, उसके साथ प्रेम करो। यदि मेरी सलाह नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हें अपना माननेसे इंकार कर दूंगा।” अलेक्सीने बापकी बात नहीं मानी, और विद्रोह करके आस्ट्रिया भाग गया। आस्ट्रिया भला पीतरका कोप-भाजन बननेके लिये उसके पुत्रको क्यों शरण देनेके लिए तैयार होता? पीतरने पुत्रको वहांसे पकड़वा मंगवाया, खास अदालतमें अभि-

योग चलवाया। अदालतने अलेक्सीको मृत्युदंड दिया, लेकिन उससे पहले ही वह जेलमें मर गया। अलेक्सीकी मौतने रूढ़िवादियोंकी आशापर पानी फेर दिया।

शिक्षा और संस्कृति—पीतर शिक्षाके महत्त्वको अच्छी तरह समझता था। उस समयके भारतमें अभी प्रेसोंकी छपाईका पता नहीं था, रूसमें भी अभी उनका प्रचार थोड़ा ही हुआ था। पहलेसे चले आते धार्मिक पुस्तकोंके स्लावानिक अक्षरोंके टाइप छापेकी दृष्टिसे कुछ दोषपूर्ण थे। पीतरने सुधार करके उनको वह रूप दिया, जो कि आज भी रूसीके लिये इस्तेमाल होता है। १७०८ ई०के बाद सिवा गिरजाकी प्रार्थना-पुस्तकोंके सभी पुस्तकें अब नये टाइपमें छपने लगीं। शिक्षा-प्रचारके लिये विदेशी पुस्तकोंका रूसीमें अनुवाद होने लगा। गणित, पोत-निर्माण, दुर्ग-निर्माण, वास्तु-विद्या, युद्ध-शास्त्र आदि विषयोंपर पश्चिमी यूरोपमें लिखे गये कितने ही अच्छे-अच्छे ग्रंथोंके रूसी अनुवाद छापे गये। रूसी इतिहासपर भी कितने ही ग्रंथ प्रकाशित हुये। पहला रूसी अखबार “वेदोमोस्ती” मास्कोमें औरंगजेबके मरनेके चार वर्ष पहले (१७०३ ई०) छपना शुरू हुआ, जो पीछे पीतरबुर्ग राजधानीसे निकलने लगा। अभी तक रूसी पंचांगमें ईसाई पंचांगका अनुसरण करते हुये सन् सृष्टि-संवत्सरसे गिना जाता था, और नया वर्ष पहली सितम्बरको आरम्भ होता था। १ जनवरी १७०० ई० को यूरोपके कितने ही देशोंमें स्वीकृत जूलियस कैसर द्वारा स्थापित जूलियन पंचांगको पीतरने मान लिया। लेकिन जूलियन पंचांगसे भी अधिक शुद्ध ग्रेगरी पंचांग यूरोपके कितने ही देशोंमें प्रचलित था, जिसे बोलशेविक क्रान्तिके बाद ही रूसने अपनाया। पीतरके शासनकालमें मास्को और पीतरबुर्गमें कितनी ही शिक्षण-संस्थायें स्थापित हुईं। १७०२ ई०में विदेशी अभिनेताओंको निमंत्रित करके मास्कोमें नये ढंगसे रंगमंचकी भी स्थापना हुई, जिसमें “ओरेशोक विजय”के नाम का एक नाटक पीतरके विशेष आग्रहपर खेला गया था। सभी दिशाओंमें सामाजिक परिवर्तन इस समय बड़ी तेज गतिसे हुआ, लेकिन इसमें सन्देह नहीं, कि यह परिवर्तन उच्चवर्गके ही भीतर हुआ।

पीतरबुर्ग निर्माण—स्वीडनपर लड़ाईमें विजय प्राप्तकर नेवाके दाहिने तटपर पीतरने “पीतर और पाल” नामक किलेकी स्थापना की थी। उस समय यहाँ आसपासमें बहुत घना जंगल तथा जहाँ-तहाँ छोटे-छोटे गांव थे। इसी जगह पीतरने अपने नामसे नगर बसाना शुरू किया। पीतरने पहले अपने लिये ही जयाची द्वीपपर एक लकड़ीकी छोटी-सी झोपड़ी बनवाई, जिसके बाद दूसरे बायरों और व्यापारियोंने पासमें घर बनाने शुरू किये।

पोल्तावाकी विजय (जून १७०९ ई०) के बाद पीतरने राजधानीको मास्कोसे पीतरबुर्ग लानेका निश्चय किया। हजारों किसान और शिल्पकार नगरके बनानेमें लगा दिये गये। दलदली जमीन भी बहुत थी, जिसके भीतर घुटनों तक डूबे काम करना पड़ता था। हजारों मजूर बीमारीसे मरे, उनका स्थान दूसरे हजारोंने लिया। पीतरबुर्गको मास्कोकी तरह नहीं बनाया जा रहा था। यहाँ पुरानेको बढ़ाना नहीं, बल्कि सारे नगरको आरम्भसे ही नया बनाना था, इसलिये इसकी सड़कें सीधी बनीं। पहले हीसे योजना बनाकर नगर बनानेमें जो सुभीता होता है, वह पीतरबुर्गको प्राप्त हुआ। पीतरने पश्चिमी यूरोपकी राजधानियों और मकानोंको देखा था, इसलिये वह चाहता था, कि उसकी राजधानीमें ईंट और पत्थरके मकान बनें, इसके लिये उसने दूसरे नगरोंमें ईंट-पत्थरके मकानोंका बनाना निषिद्ध करके वहाँसे राजों और मेमारोंको बुलवा लिया। नगरको सुंदर और कलापूर्ण बनानेके लिये उसने कितने ही विदेशी वास्तुशास्त्रियोंको भी बुलवाया। जैसे-जैसे पीतरबुर्गका प्रताप बढ़ता गया, वैसे ही वैसे मास्कोकी अवस्था गिरती गई। धनी व्यापारी और बायर नई राजधानीमें चले गये, सरकारी दफ्तर भी मास्कोसे हट गये। पंद्रह-बीस वर्षोंके भीतर ही एक छोटे-से गांवसे बढ़कर पीतरबुर्ग सत्तर हजार लोगोंका नगर बन गया।

साइबेरिया—पीतरसे पहले ही प्रशान्त-महासागरतक रूसकी सीमा जा लगी थी। युद्धके खर्चके लिये अपार धनकी आवश्यकता थी, जिसके लिये धनके सभी स्रोतोंके पता लगानेकी कोशिश की गई। इसी प्रयत्नमें नई भौगोलिक खोजों और नये प्रदेशोंपर अधिकार प्राप्त करनेका मौका मिला। १६९७-९८ ई०में एक स्त्रेल्ली अफसर ब्लादिमिर अत्लसोफके नेतृत्वमें एक छोटी टुकड़ी अनादिर नदीके तटपर अवस्थित अनादिरकी चौकीसे बारहसिधोंसे खींची जानेवाली बेपहियेकी गाड़ी

द्वारा कमचत्काके किनारे पहुंची, और उसने वहांके लोगोंसे मुख्यतः समूरके रूपमें कर उगाहना शुरू किया। अतलसोफ पहला आदमी था, जिसने कमचत्का प्रायद्वीपका पता लगाकर उसके बारेमें लिखा। कमचत्का-निवासी (कमचादल) अभी जनयुगमें रहते थे। वह कबीलेशाही समाजसे ऊपर नहीं उठे थे। उनके एक-एक जन (कबीले) में कुछ सौ तम्बू होते थे। मछुवाही उनकी जीविका थी। जनोमें आपसमें बराबर लड़ाई होती रहती थी। उनके हथियार थे—धनुष-बाण। वह बाणोंके फल चकमक-पत्थर या हड्डीसे बनाते थे। अतलसोफने कमचादलोंके बीचमें शासन दृढ़ करनेके लिये एक रूसी छावनी स्थापित की, जहांपर कसाक और सैनिक रहा करते, जिनका काम जारके शासनको मजबूत रखनेके साथ लूटपाटकर अपने लिये धन बटोरना भी था। १७३१-३२ ई०में कमचादलोंने कई विद्रोह किये। इनके नेता वही थे, जो कि रूसमें रहकर बारूदी हथियारोंका इस्तेमाल जान गये थे; लेकिन रूसियोंने उन्हें आसानीसे दबा दिया। फिर धीरे-धीरे उनकी जन-व्यवस्था टूटने लगी।

चीनके साथ संबंध—नेचिन्स्क की संधिके (सितम्बर १६८९ ई०) साथ चीनका रूससे दौत्य-संबंध स्थापित हुआ। उस संधिको प्रमाणबद्ध करने तथा व्यापारिक संबंध सुधारनेके लिये मास्कोने १६९२ ई०में अपने एक जर्मन सेवक येवर्ट यसब्रांट इड्सको भेजा। वह अठारह महीनेमें चीचीहार नगरमें पहुंचा। चीनी सीमांतपर पहुंचनेपर एक चीनी मंदारिन (अफसर) आठ रक्षक सैनिकों तथा तीन लोहेकी तोपोंके साथ स्वागतके लिये आया। चीनी मंदारिनने इड्सकी खूब पुरतकल्लुफ दावत की, फिर उसने भी मंदारिनको युरोपीय ढंगसे दावत दी। राजधानीमें भी उसका उसी तरह स्वागत किया गया। तीन दिनोंतक उसकी जियाफत होती रही। इड्सने इसके बारेमें लिखा है—“मेरे लिये जो मेज रखी गई थी, वह प्रायः बर्गाकार थी, जिसके ऊपर एकके ऊपर एक सत्तर तश्तरियां रखी गई थीं, जो सभी चांदीकी थीं।” घोड़ीके दूधकी बनी शराब (कूमिस) को सोनेके प्यालेमें रखकर दिया गया। अन्तमें १२ नवम्बर १६९२ ई०में उसे दरबारमें सम्राट् खाइ-सीके दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसने सम्राट्के सामने अपना राजकीय प्रमाणपत्र पेश किया। शायद उसे साष्टांग दंडवत् (कौतू) करनी पड़ी, जिसके बारेमें एक अंग्रेजने लिखा है—“राजदूत अपने आसनपर ले जाये गये, इसी समय जब सम्राट् अपने सिंहासनसे उतर रहा था, यकायक चीनियोंने अपने घुटनोंको मोड़ सिरको धरतीपर तीन बार टेका। हमें भी प्रतिहारोंने वहां ले जाकर उसी तरह प्रणाम करने के लिये मजबूर किया।” इड्सने १९ फरवरी १६९४ ई०में पेकिङ छोड़ा, जिससे पहले फिर उसे सम्राट्से मिलनेका मौका मिला। सम्राट् खाइ-सीने १७१२-१७१६ ई०में तू-ली-शिन्को दूत बनाकर तर्गुत कल्मकोंके खानके दरबारमें बोल्गा-तटपर भेजा। उस समय पीतर स्वीडनके साथ लड़ाईमें लगा हुआ था, इसलिये वह बोल्गाके तटपर आये चीनी दूतको बुलाकर नहीं मिल सका। इस चीनी दूतमंडलका यद्यपि बाहरी उद्देश्य था आयुका खानके स्वास्थ्यके बारेमें पुछार करना तथा आयुकाके भतीजे राजकुमार ओ-ला-पू-छू-योरको उसके पूर्व पदपर स्थापित करनेकी इच्छा प्रकट करना, लेकिन दूतको यह भी आज्ञा दी गई थी, कि वह मास्को राजधानीमें जाकर जारसे भी मिले। चीन लौटते समय जब तू-ली-शिन् रूसी सीमांतपर पहुंचा, तो रूसी अफसरने उसे सैनिक सम्मानके साथ सेलिगिन्स्की शहरमें पहुंचा था; जहां वीयवोदने उससे बातचीत की। तोबोल्स्कमें आनेपर साइबेरियाके राज्यपाल राजुल गजारिन मिला, जिससे तू-ली-शिन्ने राजकाजके बारेमें बहुत देरतक बातचीत की। यहां पर तू-ली-शिन्को सूचित किया गया, कि जार अपनी सेनाके संचालन करनेमें लगा हुआ है, नहीं तो वह बड़ी प्रसन्नतासे चीनी राजदूतसे मिलता। आयुकासे मिलनेके बाद तू-ली-शिन्ने पेकिङमें लौट कर सम्राट्को एक रिपोर्ट दी, जिसमें लिखा था :

“इस प्रकार उत्तर-पूर्वमें रूसी राज्य अल्पजन तथा बयाबानीसा इलाका है, यद्यपि अत्यन्त प्राचीन कालसे आजतक हमारे चीन-साम्राज्यके साथ उसका संबंध नहीं रहा, और हमारे इतिहास-लेखकोंने भी रूसियोंका उल्लेख नहीं किया और न आजतक कभी एक भी चीनी आदमी वहां पहुंचा, तो भी सभी दिशाओंकी तरह वहां भी हमारे देवोपम सम्राट्की महिमा और महान् गुण प्रभाव डाले बिना नहीं रहे। दुनियाके सभी दसों हजार राज्य सम्राट्की हितकारी सरकारके संरक्षणमें है।...रूस

केवल अब चीनके साथ खुला संबंध स्थापित करने लगा है, लेकिन चालीस या पचास साल पहले भी, जब कि दोनों साम्राज्योंकी सीमायें निश्चित नहीं हुई थीं, सूचनाओं द्वारा हमारे साम्राज्यके बहुतसे अच्छे गुण वहां ज्ञात थे।”

पीतरके प्रथम दूतमंडलने यह भी तै किया, कि रूसी वणिक्-सार्थ थोड़े समयके बाद बराबर जाया करे। लेकिन रूसी जबरदस्त पियकड़ थे, जिसके कारण अक्सर झगड़े हो जाया करते था, जिससे सम्राट् खाइ-सीने संबंध-विच्छेद करनेकी धमकी दी। इसपर १७१९ ई०में पीतरने इस्माइलोफके नेतृत्वमें एक विशेष दूतमंडल भेजा। इस्माइलोफके साथ एक अंग्रेज जान बेल भी था, जिसने उसके बारेमें बहुत सी ज्ञातव्य बातें लिखी हैं। इस दूतमंडलको चीनी सीमांततक पहुंचनेमें सोलह महीने लगे थे। सम्राट्के विशेष प्रतिनिधिने वहां उनका स्वागत किया। बेलने अपने विवरणमें लिखा है :

“हमारे पथदर्शकने खेमोंमें कुछ स्त्रियोंको चलते देखकर दूत (इस्माइलोफ)से पूछा—यह कौन हैं और कहां जा रही हैं? उसे बतलाया गया, कि वह हमारी मंडलीकी हैं, और हमारे साथ चीन जा रही हैं। इसपर चीनी प्रतिनिधिने कहा—पेकिङमें पहले हीसे काफी औरतें हैं। अबतक कोई भी युरोपीय स्त्री चीन नहीं आई, इसलिये सम्राट्की विशेष आज्ञाके बिना मैं उन्हें ले जानेकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यदि आप जवाबकी प्रतीक्षा करें, तो इसके लिये हम एक सार्थ भेजनेके लिये तैयार हैं; लेकिन संदेशवाहक छ सप्ताहसे पहले नहीं लौट सकता। इसपर यही ठीक समझा गया, कि असबाब को ले आनेवाली गाड़ियोंके साथ स्त्रियोंको सेलिगिन्स्की लौटा दिया जाये।”

जिस घरमें रूसी दूतमंडलको ठहराया गया था, उसको दस बजे रातको सम्राट्की अपनी मुहर लगाकर बंद कर दिया जाता था, जिसमें कोई आदमी भीतर-बाहर आ-जा न सके। राजदूतके कहने पर यह नियंत्रण हटा दिया गया। इस्माइलोफने पहले साष्टांग प्रणिपात करनेसे इन्कार कर दिया, लेकिन पीछे उसने इस शर्तपर कबूल किया, कि चीनी दूत भी रूसी दरबारमें वहांकी प्रथाके अनुसार साष्टांग प्रणाम करेगा। बेलने रूसी दूतके दरबारमें जानेका वर्णन निम्न शब्दोंमें किया है :

“हमें प्रायः पाव घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ी। पिछले दरवाजेसे सम्राट् शालमें प्रवेशकर सिंहासनपर बैठा। इस समय सभी लोग खड़े हो गये। अब महाप्रतिहारने कुछ दूरपर खड़े राजदूतको शालके भीतर आनेके लिये कहा, और उसे एक हाथसे पकड़े तथा दूसरे हाथमें राजकीय प्रमाणपत्र धामे ले चला। सीढ़ियोंपर चढ़नेके बाद उसने पूर्वनिश्चयानुसार प्रमाणपत्रको वहां स्थित एक मेजपर रख दिया। सम्राट्ने राजदूतको पास आनेका निर्देश किया, और उसी वक्त प्रमाणपत्रको लिये अलौईके साथ वह सिंहासनके पास गया। फिर घुटना टेकते हुये उसने पत्रको सम्राट्की ओर बढ़ाया, जिसने अपने हाथसे उसे छू दिया। फिर परमभट्टारक जारके स्वास्थ्यके बारेमें पूछकर राजदूतसे कहा—परमभट्टारक जारके लिये मेरे हृदयमें इतना मित्रतापूर्ण और प्रेमका भाव है, कि मैंने उनके पत्रको लेनेमें अपने साम्राज्य की प्रचलित प्रथाके पालन करनेका ख्याल नहीं किया।

“थोड़े समयतक यह भेंट होती रही। उस समय राजदूतके अनुचर शालके बाहर खड़े रहे। पत्रके देनेपर हमने समझा, कि अब काम खतम हो गया। फिर महाप्रतिहारने राजदूतको लौटाकर अनुचरोंको हुक्म दिया कि नौ बार मत्था टेककर सम्राट्के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। महाप्रतिहारने खड़ा होकर तारतार (मंगोल) भाषामें “मोरगू” और “बोस” में बोलते हुये आज्ञा दी। मोरगूका अर्थ है सिर झुकाना और बोसका खड़ा होना।”

बेलके लिखनेसे मालूम होता है, कि रूसी दूतमंडलको यद्यपि बहुतसे दरबारी अपमानजनक शिष्टाचारोंको पालन करनेके लिये मजबूर होना पड़ा, लेकिन उनका सत्कार-सम्मान इतनी अच्छी तरहसे हुआ, कि वह सबको भूल गये। इस्माइलोफके बिदा हो जानेके बाद उसका सचिव देलांग रूसी-प्रतिनिधिके तौरपर पेकिङ (पेचिङ)में रह गया, लेकिन उसकी स्थिति एक नजरबन्द जैसी थी। जिस वक्त देलांग पेकिङमें था, उसी समय मंगोलोंके एक चीनाधीन कबीलेने रूसकी अधीनता स्वीकार कर ली, इसपर पेकिङमें किसी भी रूसी कारवाका आना निषिद्ध कर दिया गया। देलांगके साथ असह्य दुर्व्यवहार हुआ, जैसा कि उसने स्वयं लिखा है :

“मुझे आदेश है, कि हमारे दोनों साम्राज्योंके बीचमें अधिक घनिष्ठता स्थापित करनेके लिये पूरा प्रयत्न करूँ, लेकिन मैं उन्हें—प्रधान मंत्रीको—बतला देना चाहता हूँ, कि इस अवसरपर चीनी सचिवालयने (मेरे साथ) जो बर्ताव किया, उससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। (आपको) यह ख्याल दिलसे हटाना नहीं होगा। परमभट्टारक जारके स्वीडनके साथ हो रहे युद्धको सम्मानपूर्वक समाप्ति पर ही सब कुछ निर्भर करता। शायद जिस वक्त मैं यह बातें कर रहा था, उसी समय सचमुच शांति-संधि की जा रही थी। उसके बाद इसमें कोई बाधा नहीं हो सकती, कि मेरे स्वामी (जार) धीरज खोकर कहीं अपने हथियारोंको इस ओर न घुमा दें।”

लेकिन चीनी प्रधान-मंत्री ऐसी धमकियोंकी कोई पर्वाह नहीं करता था। अन्तमें देलांगको चीन दरबारसे चले जानेकी छुट्टी मिली और सत्रह महीना रहनेके बाद एक कारवांके साथ वह चीनकी राजधानीसे रवाना हुआ। इस प्रकार पीतरके समय चीन-रूसका संबंध अच्छा नहीं रहा। पीतरके मरनेपर यद्यपि बाहरी शक्तियोंसे संघर्षने भयंकर रूप धारण नहीं किया, लेकिन उसके बादके सैंतीस वर्षों (१७२५-६२ ई०) में चीन में छ प्रसादी क्रांतियां हुईं। पीतरके उत्तराधिकारियोंमें अन्ना इवान-पुत्री, और पीतर III अयोग्य और विलासी थे। उनके समयमें दरबारियोंके हाथमें राज-शक्ति चली गई थी। पीतर II और इवान VI गुड़िया जार थे। पीतर I ने १७२२ ई० में बनाये अपने विधानमें सम्राटके हाथमें यह अधिकार दे दिया था, कि वह स्वयं अपने उत्तराधिकारीको चुन सकता है। लेकिन वह अन्त तक उत्तराधिकारीके बारेमें किसी निश्चयपर नहीं पहुंचा। वह मृत युव-राज अलेक्सीके पुत्रको उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहता था, अपनी रानी एकातेरिनाको भी राज देने में आनाकानी कर रहा था, और अपनी लड़कियों एलिजाबेट या अन्नाके बारे भी उसने कोई निश्चय नहीं कर पाया था। लेकिन उसके मरनेके बाद दरबारियोंके एक प्रभावशाली समुदायने पीतरकी रानी एकातेरिनाको गद्दीपर बैठा दिया।

६. एकातेरिना I, पीतर-पत्नी (१७२५-२७)

अपने दो सालके शासनमें उसने किसी योग्यताका परिचय नहीं दिया। दरबारके एक प्रभाव-शाली सामन्त मेंशिकोफने एकातेरिनाको पीतर I के पौत्र तथा अलेक्सीके पुत्र पीतर II को अपना उत्तराधिकारी बनानेके लिये तैयार किया। युवराजसे अपनी लड़कीका ब्याह करके वह अपने प्रभावको बढ़ाना चाहता था।

एकातेरिनाके समय १७२७ ई०में एक रूसी दूतमंडल सावा व्लादिस्लाव-पुत्रकी अधीनतामें पेचिङ्ग भेजा गया। इस दूतमंडलका काम अबतक गये सभी दूतमंडलोंसे बड़ा ही लाभदायक साबित हुआ। सावाने २७ अगस्त १७२७ ई०को जिस संधिपत्रको स्वीकृत करानेमें सफलता पाई, वह सवा शताब्दियों (जून १८५८ ई०) तक मान्य रहा। इतनी देरतक रहनेवाली संधियां बहुत कम ही देखी जाती हैं। इसी समय रूस और चीनके बीचकी सीमारेखा पूर्वमें क्यास्तासे ऐंगून नदीके मुहानेतक और पश्चिममें क्यास्तासे सुइयान-पर्वतमालाके एक डांडे शबिनादावेगतक निर्धारित की गई। यह भी स्वीकार किया गया, कि हर तीसरे वर्ष रूसी कारवां पेचिङ्ग आ सकते हैं, तथा यह भी कि पेचिङ्गमें एक स्थायी रूसी दूतावास स्थापित किया जायगा, और रूसी अपने धर्मके अनुसार पूजा-पाठ कर सकेंगे। राजदूतके निवासमें रूसी और लातीनी भाषाओंके जाननेवाले चार तरुण विद्यार्थी रह सकेंगे, जिनका खर्च चीन बर्दाश्त करेगा, और शिक्षा समाप्त करनेके बाद वह लौटनेके लिये स्वतन्त्र रहेंगे। इस दूत-मिशनके ऊपर चीन सरकारको प्रतिवर्ष हजार चांदीके रूबल और दस मन चावल खर्च करना पड़ता था। रूसी सरकार उसपर सोलह हजार चांदीके रूबल खर्च करती थी, जिसमेंसे एक हजार रूबल अलबाजीन कसाकोंकी पेचिङ्गमें रहती तरुण संतानोंकी शिक्षापर खर्च होता था। यद्यपि इस संधिके अनुसार रूसी हर साल अपने कारवांको भेज सकते थे, लेकिन वस्तुतः १७२७ ई० और १७६२ ई०के बीचमें केवल छ कारवां गये। व्यापारके लिये कई तरहके निर्बंध थे, जिसके कारण निराबाध व्यापार नहीं हो पाता था। बिना एक साल क्यास्तामें रहे कोई चीनी व्यापारी वहां

रूसियोंके साथ व्यापार नहीं कर सकता था, सरकार उन्हींको लाइसेंस देती थी, जो कि रूसी भाषा लिख-बोल सकते थे। व्यापार बदलेनमें होता था, किसी भी तरहके सिक्केका इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित था। चीनी व्यापारी पहले क्याखता जाते और अपने पसंदके मालको चुनते, फिर रूसी व्यापारी उसी बातके लिये मैमाचेन आते। अपनी सरकारों द्वारा नियुक्त कमिश्नर (आयुक्तक) चायके माध्यमसे हर एक चीजका दाम निश्चित करते। चीनी व्यापारी चायके बदलेमें ऊनी कपड़े, चमड़े, छालें जैसी चीजें लेते।

७. पीतर II, अलेक्सी-पुत्र (१७२७-३० ई०)

एकातेरिनाके मरनेके बाद मॅशिकोफने अपने ही महलमें पीतरको गद्दीपर बैठाया। उस समय वह बारह वर्षका लड़का था। उसके नामपर मॅशिकोफ अब शासन करने लगा। धीरे-धीरे मॅशिकोफके प्रति लोगोंमें बहुत असंतोष पैदा हो गया और उसे पकड़कर बेरियोजोफ (साइबेरिया) में निर्वासित कर दिया गया। अब उसका स्थान दोलगोरुकी राजुल-वंशने लिया। उसने अपनी कन्यासे सम्राट्का ब्याह करना चाहा। यह याद रखना चाहिये, कि पीतर ने अपने लिये "सम्राट्" (एम्पेरातोर) की पदवी धारण की थी, जिसका प्रयोग अन्तिम जारतक होता रहा, यद्यपि लोग अधिकतर जारकी उपाधि ही इस्तेमाल करते थे। ब्याहकी तैयारी हो ही रही थी, इसी बीच पीतर II बीमार होकर मर गया। पीतरके साथ रोमनोफ वंशकी पुरुष-संतानोंका अन्त हो गया, इसके बाद रोमनोफ कुमारियां तथा उनके जर्मन पतियोंकी संतानें रूसपर शासन करती रहीं। ये जर्मन जार पूरीतरसे रूसियोंमें मिल नहीं सके, उनके दरबारोंमें जर्मनोंका बाहुल्य था।

पीतर IIके समयकी एक उल्लेखनीय घटना है बेरिंगका भौगोलिक अभियान। १७वीं सदीके मध्यमें रूसियोंने कामचत्का तकका पता लगाकर उसपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, और सिमओन देजिनओफने चुकोत्स्क प्रायद्वीपका चक्कर लगाकर सिद्ध कर दिया था, कि एसिया और अमेरिकाके बीचमें एक पतली-सी खाड़ी है। लेकिन यह बात १८वीं सदीके आरम्भमें भूल गई। अपनी मृत्युसे जरा-सा पहले पीतरने एसिया और अमेरिकाके मिलन-स्थानके बारेमें अधिक खोज-पता लगानेके लिये एक अभियान भेजनेकी आज्ञा दी। इस अभियानका नेता रूसी नौसेनाका एक अफसर तथा डेनमार्क-निवासी वीटस बेरिंग नियुक्त किया गया। पहले अभियान (१७२८-३० ई०)में बेरिंग (अपने नामसे प्रसिद्ध होनेवाली) खाड़ी तक गया, लेकिन उसने अमेरिकन तटभूमिकी पड़ताल नहीं की। दो साल बाद बेरिंग पयोदोरोफ और ग्वोज्देफ दो रूसी सैनिक और भूगोलशास्त्रियोंके साथ गया। अबके उसने सिर्फ एसिया और अमेरिकाके तटोंपरकी ही जांच-पड़ताल नहीं की, बल्कि वहाँका पहला नक्शा तैयार किया। उसके बाद अमेरिका-तटके अलास्का प्रायद्वीपको रूसियोंने १७९७ ई०में अपना उपनिवेश बनाया, जिसे कि जारने १८६७ ई०में अमेरिकोंके हाथमें बँच दिया।

८. अन्ना, इवान V-पुत्री (१७३०-४० ई०)

पीतर IIके मरनेके बाद कुछ समयतक निजी परिषद् (प्रिवी कौंसिल)ने शासनसूत्र अपने हाथमें लिया। इस परिषद्में दो पुराने राजुल-वंशों गोलित्सिन और दोलगोरुकीका प्रभुत्व था। राजुल द० म० गोलित्सिन बहुत भारी जमींदार था, और परिषद्में उसकी चलती भी काफी थी। वह इंगलैण्ड और स्वीडनकी नकलपर राज्य-व्यवस्था करनेका पक्षपाती था, जिसमें शासनमें जमींदारोंका पलड़ा भारी होता। उसके प्रस्तावपर परिषद्ने पीतर I के भाई जार इवानकी पुत्री अन्ना को राजसिंहासन प्रदान किया। अन्नाका ब्याह पीतरने एक जर्मन राजुल (कूरलंडके ड्युक)के साथ किया था। ड्युकके मरनेके बाद बराबर वह वहीं रहती थी। परिषद्के सामन्तोंने कई शर्तें रखीं, जिसके बारेमें अन्नाने कहा : "मैं सभी बातोंको बिना चू-चिराके माननेका वचन देती हूँ।"

दरबारी चाहते भी नहीं थे, कि अन्ना राजकाजमें अधिक भाग ले, और वह भी अपने आतंद-विलसमें समय काटना चाहती थी, जिसके लिये भारी परिमाणमें धन प्राप्त करना ही उसका

लक्ष्य था। पीतरबुर्गके हेमन्तप्रासादमें अपने चाटुकारोंसे धिरी वह अपना दिन बिताती थी। उसने अपने एक जर्मन दरबारी बीरेनको अपनी तरफसे राजकाज संभालनेका काम दे दिया था। बीरेन एक निर्बुद्धि और अशिक्षित जर्मन अमीर था। उसने सभी प्रभावशाली पदोंपर जर्मनोंको लाकर भरना शुरू किया। वही वैदेशिक विभागका संचालन करते थे, और वही रूसी सेनाके सेनानायक थे। बीरेन रूसियोंको बड़ी तुच्छ दृष्टिसे देखता था। उसने कभी रूसी भाषा नहीं सीखी। लोगोंसे पैसे एंठकर जर्मनीमें वह अपने लिये भूमि खरीदता तथा अपनी बीबीके लिये मूल्यवान् कपड़ों और रत्नोंको जमा करता। अन्नाके शासनके साथ रूसमें जर्मनोंका जबरदस्त प्रवेश शुरू हुआ, जो कि अन्तिम जारके समय हृदयक पहुंच गया। रूसियोंके मनमें जर्मनोंके इस बर्तावसे यदि विद्वेष होने लगा, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। अन्नाके शासनकालमें कालासागरके तटपर अधिकार करनेके लिये तुर्की और क्रिमियाके साथ लड़ाई (१७३५-३९ ई०) हुई। रूसने तुर्की सेनाको कई जगह हराया। १७३९ई० में तुर्कोंके साथ हुई संधिके अनुसार रूसको समुद्रतक दनियेपर नदीके दोनों तट मिल गये। लेकिन लड़ाईपर जो खर्च करना पड़ा, उसके कारण देशके जनसाधारणकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो गई।

१७३७ ई०में अन्नाके शासनकालमें चीन और रूसके साथ व्यापारिक संबंध अच्छे हो गये थे, इसलिये कारवांके व्यापारकी इजारेदारी किसी व्यापारीको न देकर खुला व्यापार करनेका रास्ता खोल दिया गया। व्यापारियोंको पेकिङ भी जानेकी जरूरत नहीं थी। रूसी व्यापारी क्यास्ता में आके ठहरते और चीनी मैमाचिनमें—दोनों ही स्थान सीमांतपर पास-पास थे। चीनी सरकार ने चीनी व्यापारियोंपर कुछ निर्बंध लगा रखे थे, जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं, और उसके कारण व्यापारमें कुछ अड़चन होती थी।

९. इवान VI, अन्ना-पुत्र (१७४०-४१ ई०)

अन्नाकी कोई संतान नहीं थी, इसलिये उसकी भतीजी अन्ना ल्योपोल्द-पुत्रीके बेटे इवानको राजगद्दी दी गई। नये जारकी मां एक जर्मन ड्युक (ब्रन्सविक)से ब्याही गई थी। १७४० ई०में अभी तीन महीनेका बच्चा ही था, जबकि इवानको गद्दीपर बैठा दिया गया। जारको कुछ करना-धरना भी नहीं था, इसलिये उसके बच्चे होनेसे कुछ बनने-बिगड़नेवाला नहीं था। उसकी मां राजमाता अभिभाविका घोषित की गई, लेकिन उसका शासन एक सालसे अधिक नहीं रहा। सभी जगह विदेशी जर्मनोंको देख राजधानीमें देशी अमीरोंके दिलमें आग लग रही थी। सैनिक अफसरों और सिपाहियों में भी इसके लिये असंतोष फैला हुआ था। फ्रांसके राजदूतने भी षड्यंत्रमें सहायता दी, और २५ नवम्बर १७४१ ई०को पीतर I की पुत्री एलिजाबेत यकायक अपने अनुचरों और गारदकी एक टुकड़ीके साथ महलमें घुस आई। गारदोंने तुरन्त अन्ना ल्योपोल्द-पुत्री और उसके परिवारको पकड़ लिया और जर्मनोंके साथ काफी दुर्व्यवहार करके एलिजाबेतको साम्राज्ञी घोषित कर दिया। शिशु सम्राट् इवानको श्लुशेल्बर्गके किलेमें बंद कर दिया गया, जहां उसे एकातेरिना IIके शासनकाल (१७६२-९६ ई०) में मार डाला गया।

१०. एलिजाबेत, पीतर I-पुत्री (१७४१-६१ ई०)

एलिजाबेतके शासनकालमें रूसी सामन्तोंका प्रभाव काफी बढ़ा, और अमीरोंके फायदेके लिये कई नियम और विधान बनाये गये। अब केवल पुराने राजुलवंशी ही किसानोंकी बस्तीवाली भूमिके मालिक हो सकते थे। वह अपने अर्ध-दासोंको बिना अभियोगके साइबेरियामें निर्वासित कर सकते थे, जो आम तौरसे सेनामें भर्ती होकर जाते थे। एलिजाबेतको अपने आनंद-मौजके सिवा किसी कामसे कोई वास्ता नहीं था। उसके यहां नाच, गाना और शराबकी मजलिसें लगातार होती रहती थीं। एलिजाबेतने अपने भतीजे कार्ल पीतर उलरिचको अपना उत्तराधिकारी बनाया। कार्ल पीतर I की पुत्री अन्ना और उसके पति ड्युक होल्स्टाइनका पुत्र था। पीतर रूसमें फ्योदोर-पुत्र कहा जाता था। वह बहुत ही निर्बलबुद्धि तरुण था। अठारह-बीस वर्षकी उमरमें भी अभी वह खिलौनों-

से खेला करता और उनसे ऐसे बातें करता मानो वह आदमी हैं। साथ ही अपने जर्मन होनेका उसे हृदसे अधिक अभिमान था, और उसी परिमाणमें वह रूस और रूसियोंके साथ घृणा करता था। साम्राज्ञी एलिजाबेतने उसका ब्याह एक जर्मन राजकुमारी सोफिया अनहाल्ट-जर्बर्त्के साथ कर दिया, जो कि रूसमें एकातेरिना अलेक्सी-पुत्रीके नामसे प्रसिद्ध हुई—बिना पिताके नामसे रूसमें किसी स्त्री-पुरुष-को पुकारनेका रवाज नहीं है, इसलिये हरएकके साथ पितृनाम जोड़ना ही पड़ता है। एकातेरिना अपने पति जैसी नहीं थी। वह बड़ी योग्य और मेहनती स्त्री थी। उसने रूसी भाषा और रूसी रीति-रवाजोंका अच्छी तरह अध्ययन किया। वह रूसी सामन्तों और अमीरोंको हर तरहसे अपनी और खींचनेकी कोशिश करती थी।

११. पीतर III, फ्योदोर-पुत्र, पीतर I-नाती (१७६१-६२ ई०)

पीतरका शासन बहुत थोड़े दिनोंका था। वह अपने समयमें रूसी शासनको प्रुशियाके राजा फ्रेड्रिक (१७४०-८६ ई०) के नमूनेपर बनानेकी कोशिश करता रहा। फ्रेड्रिक बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था, जिसके कारण उसके पड़ोसी बहुत चिन्तित रहते। फ्रांस, आस्ट्रिया और सेक्सनीके साथ रूसने भी फ्रेड्रिकके विरुद्ध अपनी एक गुट बना ली थी। इंग्लैण्ड फ्रेड्रिकका पक्षपाती था। फ्रेड्रिकने पूर्वी पड़ोसीका बिना ख्याल किये ही, सेक्सनीके ऊपर आक्रमण किया इसपर उसी साल रूसी सेना प्रुशियाके भीतर घुस गई, जिस साल अंग्रेजोंने पलासीकी लड़ाई (१७५७ ई०) जीतकर हिन्दुस्तानमें अपना दृढ़ शासन स्थापित किया। फ्रेड्रिकको अपनी सेनापर बड़ा अभिमान था। वह रूसी सेनाको बिल्कुल तुच्छ दृष्टिसे देखता था, लेकिन पहली ही झड़पमें उसे अपनी राय बदलनी पड़ी। उसने अपने सबसे योग्य सेनापतियोंको भारी सेना देकर रूसियोंके विरुद्ध भेजा। अगस्त १७५७ ई० में जर्मनोंने पहला आक्रमण किया, और यह आक्रमण हिटलरके बिल्टजर्नीगका प्रथम नमूना था। यकायक आक्रमण करनेके कारण रूसी पहले कुछ तितर-बितरसे हो गये। मालूम होने लगा, जर्मन विजयी होंगे। इसी समय जंगलोंमें छिपी हुई रूसी सेना मैदानमें कूद पड़ी। यह बिल्टजर्नीगका अच्छा जवाब था। रूसियोंने जर्मन सेनापर पूर्ण विजय प्राप्त की। कोय-निग्सबर्गके महादुर्गने बिना प्रतिरोधके ही आत्म-समर्पण कर दिया। यदि रूसी सेनाने इस समय अवसरसे लाभ उठाया होता, यदि रूसके मित्रोंने सुस्ती न दिखलाई होती, तो फ्रेड्रिकका सर्वनाश हुये बिना नहीं रहता। अपनी सेनाको फिरसे संगठित करके १७५९ ई० में फ्रेड्रिक ओडेर-पर-फ्रांकफोर्टको खतरेमें डाले हुई रूसी सेनाके मुकाबिलेमें चला। सब प्रयत्न करके भी फ्रेड्रिकको बुरी तरहसे हारना पड़ा। जर्मन अपने हथियारों और झंडोंको छोड़कर भाग गये। फ्रेड्रिक रूसियोंके हाथमें बंदी होते बाल-बाल बचा। फ्रेड्रिक अत्यंत निराश हुआ, जैसा कि उसने स्वयं लिखा है : “मैं अभाग्य हूँ, जो जीनेके लिये बचा हूँ, जिस समय मैं यह लिख रहा हूँ, हरएक आदमी भाग रहा है। इन आदमियोंके ऊपर मेरा कोई बस नहीं है।” लेकिन जिस वक्त फ्रेड्रिक इस तरहसे निराश था, उसी वक्त उसके पश्चिमी शत्रुओंने उसे बचनेका अवसर दे दिया। १७६० ई० में एक छोटीसी रूसी सेनाने जर्मन राजधानी बर्लिनपर कूच किया। यद्यपि राजधानीमें छब्बीस बटालियन पैदल, छियालीस रिसाला स्ववाड्रेन और एक सौ बीस भारी तोपें थीं, लेकिन जर्मन सेनापतियोंने नगरकी प्रतिरक्षा करना बेकार समझा। रातके वक्त वह अपनी सेना लेकर बाहर चले गये, और सबेरेके वक्त बर्लिनके नगराधिकारियोंने रूसी सेना-पतियोंको मखमलके गद्देपर रखकर नगरकी कुंजी भेंट कर दी। फ्रेड्रिककी दुरवस्था चरम सीमा तक पहुंच गई थी। इसी वक्त दिसम्बर १७६१ ई० में रूसी साम्राज्ञी एलिजाबेत मर गई। उसके उत्तराधिकारी पीतर II ने प्रुशियाके साथ क्षणिक विराम-संधि करके फ्रेड्रिकको बचा लिया। इस युद्धमें अपनी विजयों द्वारा रूसने पश्चिमी युरोपको चकित कर दिया। रूसी सेनापति प. अ. रुम्यान्त्सेफ (१७२५-९६ ई०) के युद्धकौशलका इसमें बहुत भारी हाथ था।

पीतरके दो सालके राज्यमें रूसकी प्रगतिको लाभ नहीं हानि पहुंची। फिर जर्मन सेना-पतियों और अफसरोंकी सब जगह भरमार हो गई। पीतरकी दिलचस्पी रूसकी अपेक्षा अपने होल्स्टाइन वंशसे अधिक थी। वह होल्स्टाइनके लिये डेनमार्कसे लड़नेकी तैयारी भी कर रहा था। लेकिन अपनी

महत्वाकांक्षाओंके अनुसार उसमें योग्यता नहीं थी। उसकी पत्नी एकातेरिना अलेक्सी-युत्री जानती थी, कि उसका नालायक पति सिंहासनको खोकर रहेगा, इसलिये रूसी दलके षड्यंत्रमें वह स्वयं शामिल हो गई। गारदके अफसर दो-भाई ओरलोफ षड्यंत्रके मुखिया थे। २८ जून १७६२ ई० के बड़े तड़के ही उन्होंने एकातेरिनाको उपनगरके एक प्रासादसे पीतरबुर्गमें लाकर साम्राज्ञी घोषित कर दिया। अगले दिन पीतरने क्रोन्स्तात्में भाग जानेका व्यर्थ प्रयत्न किया, फिर सिंहासनसे बाकायदा इस्तीफा दे दिया। ऐसे नालायक पतिको भी अधिक दिनोंतक जीनेका अधिकार देना बुद्धिमानि की बात नहीं थी, इसलिये थोड़े ही दिनों बाद वह मार डाला गया।

१२. एकातेरिना II, पीतर III-पत्नी (१७६२-९६ ई०)

एकातेरिना योग्य और सुशिक्षिता स्त्री थी। जिस वक्त वह गद्दीपर बैठी, उस वक्त राज्यकी अवस्था अस्तव्यस्त हो रही थी, राजकोष खाली था, सैनिकोंको सात महीनेसे वेतन नहीं मिला था। मरम्मत न होनेसे, युद्धपोत और दुर्ग खराब हो रहे थे। जनतामें बहुत असंतोष था, विशेषकर कारखानोंमें काम करनेवाले उंचास हजार मजूरों और जमींदारोंके डेढ़ लाख अर्ध-दास कैदियोंसे जेल भरे हुये थे। एकातेरिनाने यद्यपि जमींदारोंके अधिकारोंपर प्रहार नहीं किया, लेकिन तब भी अपने शासनके आरम्भमें उसने किसानों और जनसाधारणके बोझको हलका करनेकी कोशिश की। उसे पश्चिमके नये विचारोंवाले दार्शनिकोंके ग्रंथोंके पढ़नेका बड़ा शौक था। फ्रेंच विचारक वोल्तेरके साथ उसका पत्र-व्यवहार था। उस समय वोल्तेर, मोन्तेस्को, दीदरो और दूसरे फ्रेंच विचारक अपनी सशक्त लेखनी द्वारा सामन्तवादी व्यवस्थापर प्रहार कर रहे थे, मिथ्या विश्वासोंको हटाकर बुद्धिवादको आगे बढ़ा रहे थे। एकातेरिना उनके इन विचारोंसे अवगत थी। वह वोल्तेर, दीदरो और दूसरोंसे पत्र-व्यवहार करके यह दिखलाना चाहती थी, कि जिस आदर्श शासन या नृपतिके बारेमें तुम प्रचार कर रहे हो, वैसी बुद्धिमती और नई रोशनीवाली शासिका मैं हूँ। रूसके किसानोंमें उस वक्त भूख और अज्ञानका अखंड राज्य था, लेकिन एकातेरिना वोल्तेरको लिखती थी, कि रूसमें एक भी ऐसा किसान नहीं है, जो इच्छा होनेपर मुर्गी न खा सकता हो, बल्कि अब तो वह मुर्गीकी जगह टर्कीका खाना ज्यादा पसंद करते हैं। एकातेरिना पाखंडमें बहुत ही चतुर थी। वह राजकाजमें सीधे भाग लेती थी। वह स्वयं कानूनों और राजादेशोंका मसविदा बनाती थी। साहित्यमें उसकी दिलचस्पी थी और स्वयं एक पत्रिका "सबका थोड़ा" निकालती थी। एकातेरिनाका शासन सामंतों और अमीरोंके लिये रूसी इतिहासका सुनहला समय था।

जर्मनी (प्रुशिया) के साथ सात वर्ष (१७५६-६३ ई०) वाला युद्ध समाप्त होनेके बाद एकातेरिनाने राज्य संभाला था। यद्यपि बीचमें उसका नालायक पति आ घुसा था, लेकिन थोड़े ही समयमें एकातेरिनाने रूसकी धाकको फिरसे जमा दिया। आस्ट्रिया और फ्रांस रूसकी बढ़ती हुई शक्तको शंकाकी दृष्टिसे देखते थे। फ्रेंच व्यापारी पूर्वी देशोंके व्यापारपर एकाधिपत्य रखना चाहते थे, इसलिये वह नहीं चाहते थे, कि रूसियोंकी शक्ति अधिक बढ़े। आजकलके अमेरिकाकी तरह उस समयका फ्रांस रूसके चारों तरफ शत्रु-राज्योंका घेरा डालना चाहता था। इसके लिये उसने तुर्की, पोलैण्ड, स्वीडन और आस्ट्रियाको अपने साथ मिलाकर एक जबरदस्त गुट बनाना चाहा। रूसने भी इसके विरुद्धमें प्रुशिया, इंग्लैंड और दूसरे राज्योंको मिलाकर एक गुट बनानेकी कोशिश की, लेकिन विरोधी स्वार्थोंके कारण दोनों अपने उद्देश्यमें सफल नहीं हुये। आस्ट्रिया पश्चिमी उक्रइनकी उर्वर भूमिको चाहती थी, प्रुशिया पोलन्दकी निम्न-विस्तुला-उपत्यकापर हाथ साफ करना चाहती थी, और रूस अपने हाथसे छिने बेलोरूसी और उक्रइनी इलाकोंको लौटाना चाहता था। इन स्वार्थों के साथ तीनोंमेंसे कोई नहीं चाहता था, कि किसीकी शक्ति अधिक बढ़ जाये। शताब्दियोंतक शक्तिशाली रहनेके बाद पोलन्द अब निर्बल हो गया था। वहाँके अमीरों और सामन्तोंने राजाके अधिकारको बहुत सीमित कर दिया था। उधर कैथलिक पोल ग्रीक-चर्चके अनुयायी उक्रइनों और बेलोरूसियोंके ऊपर तरह-तरहके अत्याचार कर रहे थे। एकातेरिना कैसे चुप रह सकती थी? १७६३ई० में अगस्तस IIIके मरनेपर एकातेरिनाके उम्मीदवार स्तानिस्लाउस पोनियातोव्स्कीको पोलन्दका राजा

चुना गया। रूस और प्रुशिया दोनोंने मांग की, कि पोलन्दमें ग्रीक-विश्वासियों तथा प्रोटैस्टेंटों (सुधार चर्च) को केथलिकोंके बराबर अधिकार दिया जाय। इन्कार करनेपर रूसी सेना पोलन्दके भीतर भेज दी गई। पोलिश संसदको मजबूर होकर रूसकी मांगको स्वीकार करना पड़ा। इसी समय एकातेरिना ने पोलन्दको करीब-करीब अपने संरक्षणमें ले लिया। रूसके बड़े हुये प्रभावको देखकर आस्ट्रिया और प्रुशियाको चिंता हो गई। फ्रेड्रिकने समझा, कि रूस सारे पोलन्दको हड़प लेगा, इसलिये उसने आस्ट्रिया, प्रुशिया और रूसके बीच पोलन्दके बंट जानेकी एक योजना बनाई, जिसे तीनों राज्योंने स्वीकार किया—प्रुशियाको पोलन्दका बाल्तिक-तट तथा पश्चिमी भाग मिला। इस प्रकार प्रुशियाका पूर्वी भाग, जो अभी तक अलग-अलग था, पश्चिमी भाग (ब्रांडेनबर्ग) से मिल गया। प्रुशियाने डन्जिग और थोर्नको लेना चाहा, लेकिन एकातेरिनाने उसे माननेसे इन्कार कर दिया। आस्ट्रियाको उक्रैनी-गलिसिया मिली, और रूसको बेलोरूसियाका कुछ भाग। १७७३ ई०में इस प्रकार पोलन्दका पहला बंटवारा हुआ, जो कि बहुत कुछ प्रथम विश्वयुद्ध (१९१४-१८ ई०) तक कायम रहा।

प्रथम तुर्की युद्ध (१७६८-७४ ई०)—फ्रांस नहीं चाहता था, कि रूसकी शक्ति और बढ़े, इसलिये उसने तुर्कीको भड़काकर लड़ाई छिड़वा दी। १७६८ ई०में सुल्तानने कान्स्तन्तिनोपोल-स्थित रूसी राजदूतसे मांग की, कि अपनी सेना पोलन्दसे हटा लो। तुर्कीकी इस अनधिकार चेष्टाको रूस कैसे स्वीकार कर सकता था? इसपर रूसी दूतको पकड़कर जेलमें बन्द कर दिया गया। युरोपके लोग समझते थे, कि रूस तुर्की और पोलन्द दोनोंसे एक ही समय नहीं लड़ सकता। क्रिमिया का खान अपनेको तुर्कीके खलीफाके अधीन समझता था। उसने पहल की और १७६९ ई० के वसन्त में क्रिमियाके तारतारोंने दक्षिणी रूसके सीमांती इलाकोंमें लूट-मार मचाई। रूसकी सीमाके भीतर यह तारतारोंकी अन्तिम लूट-मार थी। प्रसिद्ध सेनापति रुम्यान्त्सेफ—जिसने सप्तवर्षीय जर्मन-युद्धमें भारी यश कमाया था—एक बड़ी सेना लेकर दक्षिणकी ओर बढ़ा। उसने अपने कई योग्य सहायक चुने थे, जिनमें अलेक्सान्द्र वासिली-पुत्र सुवारोफ भी था—सुवारोफ सभी कालके रूसी सेनापतियों का शिरोमणि माना जाता है। रुम्यान्त्सेफ सबसे पहले शत्रुकी सैनिक शक्तिको अधिकसे अधिक ध्वस्त करना चाहता था। १७७० ई० में उसे पता लगा, कि लारगा नदीसे नातिदूर अस्सी हजार तुर्क सेना छावनी डाले पड़ी है। रूसी सेनापतिके पास उस समय केवल तीस हजार सैनिक थे, लेकिन उसने आक्रमण कर दिया और तुर्क-सेनाको पूरी तौरसे हारना पड़ा। इसके दो सप्ताह बाद वह एक ओरसे अस्सी हजार तारतारों और दूसरी ओरसे तुर्कीके वजीरकी अधीनतामें डेढ़ लाख तुर्क सैनिकोंके बीचमें घिर गया। लेकिन इससे रुम्यान्त्सेफको घबराहट नहीं हुई। उसने यह कहते हुये पहले स्वयं आक्रमण करनेका निश्चय किया: “छोटी सेनासे बड़ी सेनाको हराना एक कला और कीर्तिकी बात है, और बड़ी सेनासे अधिक शक्तिशाली शत्रुको हरानेमें विशेष चातुरीकी अवश्यकता नहीं है।” तुर्की तोपखाने ने जबरदस्त गोलाबारी की और तुर्क सवारोंने भारी संख्यामें रूसियोंका प्रतिरोध किया। निर्णयकी जब आखिरी घड़ी आई, तो रूसी सेना घबड़ाने लगी, इसी समय रुम्यान्त्सेफ आ पहुंचा और उसने चिल्लाकर कहा—“डटे रहो लड़को” और वह स्वयं युद्धके भीतर पिल पड़ा। तुर्कीकी भारी हार हुई, और दनियेस्तर तथा दन्यूबके बीचकी भूमि रूसियोंके लिये खाली हो गई। रूसी सेना अब दन्यूब महानदके बाम तटपर पहुंच गई। इस विजयके लिये रुम्यान्त्सेफको “जा-दुनाइस्की” (दन्यूब-वाला) की उपाधि प्राप्त हुई। स्थलपर इस तरह सफलता प्राप्त करके रूसी नौसेनाने जलमें भी अपनी श्रेष्ठता दिखलाई और उसने सारे तुर्की बेड़ेको नष्ट कर दिया। १७७१ ई० में थोड़े ही समयके भीतर रूसी सेनाने सारे क्रिमिया प्रायद्वीपपर अधिकार कर लिया। रूसी सेना दन्यूबके किनारेपर नहीं रुकी और उसने कई बार इस महानदको पार करके आक्रमण किया, जिसमें अलेक्सान्द्र सुवारोफने अपने सैनिक कौशलका बहुत अच्छा परिचय दिया। रूस अपनी विजययात्राको और भी जारी रखता, लेकिन एक तो युद्धके अपार व्ययका सवाल था, दूसरे इसी समय पुगाचेफके नेतृत्वमें रूसी किसानोंने जबरदस्त विद्रोह कर दिया था। एकातेरिनाने १७७४ ई०में जल्दी-जल्दी तुर्कीके साथ संधि कर ली। दनियेपर और बुगके बीचका प्रदेश रूसको मिला और साथ ही कालासागरमें घुसनेकी केचकी खाड़ी भी। अब रूसी जहाज स्वच्छंदतापूर्वक कालासागरमें जा सकते थे, तुर्कीने दरदानियाल (दरदानेल्स)

और बासपोरसकी खाड़ियोंको भी रूसी जहाजोंके लिये खोल दिया । क्रिमियाके खानको तुर्कोंकी अधीनतासे स्वतन्त्र घोषित कर दिया गया, और अब उसके ऊपर रूसका प्रभाव बढ़ चला ।

किसान-संघर्ष—रूसी अपने पूर्वजों (शकों) के समयसे ही योद्धा-जाति है । सामन्ती अत्याचारोंको रूसी किसान और अर्ध-दास आंख मूदकर हर वक्त वर्दाशत करनेके लिये तैयार नहीं रहते थे । १६वीं से १८वीं सदीके बीचमें केवल मध्य-एसियामें ही चालीसके करीब विद्रोह हुये । वोल्गा प्रदेशमें रूसी जमींदारों और अफसरोंका अत्याचार बहुत बढ़ा हुआ था । यह वह इलाका था, जहां-पर कि रूसियों और एसियाई जातियोंके इलाके एक दूसरेके पड़ोसमें पड़ते थे । बाशकिरोंकी भूमिपर रूसी व्यापारियों, कारखानेवालोंकी खास तीरसे गृध्र-दृष्टि थी । कल्मक १७७० ई० के आसपास तक निम्न वोल्गाके दोनों तटोंपर रहते थे, लेकिन १७७१ ई०में शासकोंके अत्याचारोंसे परेशान तथा चीनके प्रलोभनके कारण वोल्गाके बायें तटवाले कल्मक अपने सारे तम्बूओं और पशुओंको लेकर चीनकी ओर चले गये, जिसके बारेमें हम अभी कहनेवाले हैं—यह कल्मक चीन द्वारा पूर्वी तुकिस्तानमें बसाये गये । वोल्गाके दाहिने तटपर अब भी कल्मक-मंगोल रहते थे । किसानोंका विद्रोह पहले-पहल यायिक (उराल) नदीके तटपर बसनेवाले रूसी कसाकोंमें फैला । कसाक जिस वक्त भागकर जाप-रोजे और दोनकी भूमिमें बसे, उस वक्त उनमें उतनी सामाजिक विषमता नहीं थी, लेकिन अब उनके भीतर धनियों और गरीबोंका भारी भेद हो गया था । सरकारी अफसर धनी कसाकोंका पक्ष करते थे, और जरा भी विरोध करनेपर उन्हें बड़ी बुरी तरहसे दबा देते थे । १७७२ ई० में यायिस्क नगरमें कसाकोंने विद्रोह करके जेनरल त्राउबेन्बर्ग और कितने ही कसाक आतमनों (सरदारों) को मार डाला । लेकिन सरकारी सेनाने आकर यायिकके कसाकोंके विद्रोहको दबा दिया । बहुतसे कसाक मारे गये, और बहुतसे वहांसे बच निकलनेमें भी सफल हुये । तुर्कीसे लड़ाई हो रही थी, इसी समय दोन और यायिकके कसाकोंमें अफवाह उड़ी, कि जार पीतर II मरा नहीं है, बल्कि वह हमारे बीचमें छिपा हुआ है । १७७३ ई० के शरदमें एमेल्यान पुगाचेफ नामक एक कसाकने विद्रोहका नेतृत्व अपने हाथमें लिया । वह उसी जिमोवेइस्क गांवमें पैदा हुआ था, जिसे प्रथम किसान-वीर स्तेपान राजिनको पैदा करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था ।

पुगाचेफने सप्तवर्षीय युद्धमें भाग लिया था, तुर्कीके युद्धमें भी लड़ा था । बीमारीके कारण छुट्टी पाकर वह घर आया था, लेकिन उसने फिर लौटकर जाना पसंद नहीं किया । वह दोन, वोल्गा और यायिककी उपत्यकाओंमें घूमता रहा । वहां उसे कितने ही दुर्दशाग्रस्त भगोड़े किसान तथा उरालके कारखानोंके मजदूर मिले । अपने इस पर्यटनमें उसे लोगोंसे घनिष्ठता प्राप्त करनेका मौका मिला और धीरे-धीरे उसका एक दल बन गया । अपनेको सम्राट् पीतर III कहते हुये वह सितम्बर १७७३ ई० में यायिकके तटपर पहुंचा । लोग उसके झंडेके नीचे आने लगे । पहले वह अपने आदमियोंको लेकर ओरेनबुर्गकी ओर गया । गेरिसनको अधिकारमें कर किलेपर अधिकार करनेमें उसे कोई कठिनाई नहीं हुई । १७७३ ई० के अक्टूबरमें पुगाचेफ ओरेनबुर्गके नगर-प्राकारके पास पहुंचा, जहां एक मजबूत किला और काफी सैनिक रहते थे । पुगाचेफ छ महीने उसे घेरे रहा । इस विद्रोहने आसपासके लोगोंमें उत्तेजना पैदा की । कजाक (एसियाई) घुमन्तू भी उसकी सेनामें आकर शामिल होने लगे, निम्न वोल्गा और कालासागरके बीचके घुमन्तू कल्मक मंगोल भी पुगाचेफकी सेनामें भर्ती होने लगे । तारतार, बश्किर और मारी नौजवान भी यायिकके तटपर पुगाचेफके पास पहुंचने लगे । यह विद्रोह हर जातिके केवल किसानों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें उरालके धातु-कारखानोंमें काम करनेवाले मजदूर और दूसरे भी शामिल थे । धीरे-धीरे विद्रोह एक किसान-युद्धके रूपमें परिणत हो गया । पुगाचेफकी सेनामें कल्मकों, बश्किरों, तारतारों, कारखानोंके मजदूरों और दूसरोंकी अलग-अलग पलटनें संगठित थीं । उनके पास हथियारोंकी कमी थी । बहुत थोड़ोंके पास पलीतावाली बन्दूकों या पिस्तौलों थीं, बाकी पुराने तरहके हथियारोंसे सज्जित थे । कुछ तोपें पकड़ी गई थीं, जिनका एक तोपखाना बना लिया गया था । उरालके लोहेके कारखानोंके कारीगरोंकी सहानुभूति होनेके कारण, कुछ नई बंदूकें भी विद्रोहियोंको मिल रही थीं । पुगाचेफ अपनी घोषणाओंको सम्राट् पीतर III के नामसे निकालता था, किसानों और गरीबोंके लिये जितना कुछ उससे हो सकता था, उतना कर

रहा था और उससे भी अधिकका वचन देता था। १७७३ ई०के अन्तमें ओरेनबुर्गको मुक्त करानेके लिये जेनरल कारके नेतृत्वमें एक सरकारी सेना आई, जिसे पुगाचेफने हरा दिया, इसके कारण उसका प्रभाव और बढ़ गया। सारे रूसके अमीरों, जमींदारों और धनियोंमें आतंक छा गया। वोल्गासे सैकड़ों मील दूर रहनेवाले जमींदार भी हर वक्त भयके मारे कांपने लगे। लेकिन मार्च १७७४ ई० में सरकारी सेनाने पुगाचेफको ओरेनबुर्गके पास हरा दिया। अभी भी उसने अपने संघर्षको नहीं छोड़ा। पहले वह बश्किरोंके प्रदेशमें गया। फिर रूसी किसानों, बश्किरों तथा धातु-कारखानेके मजदूरोंकी सेना संगठित कर वह कामा नदीकी ओर बढ़ते कजानकी ओर चला, जो कि सारे वोल्गा प्रदेशका शासन-केन्द्र था। पुगाचेफ जुलाई १७७४ ई० में कजान पहुंचा। यहां भी उसे अन्तमें हारना पड़ा, और वह थोड़ेसे आदमियोंके साथ वोल्गाके दक्षिण तटकी ओर भागा। सरकारी सेनाने पुगाचेफका पीछा करना शुरू किया। वोल्गाके दाहिने किनारेपर उसके पास अब थोड़े हीसे आदमी रह गये थे, लेकिन जब वह घने बसे हुये इलाकेमें पहुंचा, तो निजनी-नवोगोरदके इलाकेने हथियार उठा लिया। बिना अधिक प्रतिरोधके एकके बाद एक नगरोंने आत्मसमर्पण किया। परन्तु पुगाचेफकी यह सफलता क्षणिक साबित हुई। बाकायदा शिक्षाप्राप्त सरकारी सेनाके सामने किसानोंका दल कैसे डटा रहता? पुगाचेफ पेंजा, सरातोफ और कमिशन होते अगस्तके अन्तमें जारिरिसन (आधुनिक स्तालिनग्राद) पहुंचा, जहांपर सरकारी सेनाने नगरसे नातिदूर पुगाचेफकी शक्तिको छिन्न-भिन्न कर दिया। तो भी वह अपने कुछ आदमियोंके साथ वोल्गा पार करनेमें सफल हुआ, लेकिन इसके बाद लोगोंका उसकी सफलतापर विश्वास नहीं रह गया। अन्तमें कसाक ज्येष्ठकोंने उसे पकड़कर सरकारके हाथमें दे दिया। हाथ-पैर बांधकर एक लकड़ीके पिंजड़ेमें पुगाचेफको मास्को ले जा जनवरी १७७५ ई० में फांसी दे दी गई। पुगाचेफने भारी जोश और बड़ी-बड़ी आशायें रूसकी गरीब जनतामें पैदा कर दी थीं, लेकिन उस समय वह बिखरे और अशिक्षित किसानोंको ही विद्रोहियोंकी सेनामें शामिल कर सकता था। अभी कारखानेके मजदूरोंकी पलटन तैयार नहीं हुई थी, जो अपने सुदृढ़ संगठनोंसे किसान-क्रान्तिको सफल बनाती।

जैसा कि पहले कहा गया, एकातेरिनाके शासनकालमें अमीरों और जमींदारोंका बल और भी अधिक बढ़ गया। १७७५ ई० में किसान-विद्रोहको दबानेके बाद एकातेरिनाने राज्यके प्रबन्धमें कितने ही नये सुधार किये। सारा राज्य पचास गुबर्नियों (प्रदेशों) में बांट दिया गया—प्रत्येक गुबर्नियामें प्रायः तीन लाखकी आबादी थी। हरेक गुबर्निया फिर कितने ही उयेज्दोंमें बांटी गई, जिसमें प्रायः तीस हजारकी आबादी थी। कभी-कभी दो-तीन गुबर्नियापर भी एक राज्यपाल नियुक्त होता, लेकिन अधिकतर प्रत्येक गुबर्नियाका एक राज्यपाल होता। इसके कहनेकी आवश्यकता नहीं, कि राज्यपाल या उयेज्दके शासक राजुलों (सामन्तों) और बायरों (अमीरों) में से ही होते थे। १७८५ ई० में नगरके शासनके लिये भी नई व्यवस्था कायम की गई, और उसका कार्य-भार नगर-पालिकाके ऊपर दिया गया, जिसके सबसे बड़े अधिकारी "गरोद्निची" को सरकार नियुक्त करती थी।

वैदेशिक नीति—एकातेरिनाका शासनकाल रूसके भारी प्रसारका काल था। १८वीं शताब्दीकी अन्तिम चार दशान्दियां रूसकी सीमाको अधिक बढ़ाने और मजबूत करनेके लिये विशेष महत्त्व रखती हैं। एकातेरिनाके शासनकालमें ही तुर्की और स्वीडनके साथ दो-दो जबरदस्त युद्ध हुये। प्रथम तुर्की युद्धके समय १७३४ ई०में क्रिमियाके ऊपर रूसका संरक्षण स्थापित हो गया था। कालासागरपर निराबाध अधिकार करनेके लिये क्रिमियाका रूसके हाथमें जाना आवश्यक था। क्रिमियाके खानोंमें आपसमें उत्तराधिकारके लिये झगड़े होते ही रहते थे। रूसने उससे फायदा उठाया, सेना भेज शगिन-गिराईकी पहले खान घोषित किया, फिर १७८३ ई० में शगिनको अधिकारच्युत करके तोरिदाके नाम से क्रिमियाको एक गुबर्निया बना दिया। अब कालासागरके तटकी काली मिट्टीवाली उर्बर भूमि (नवो-रोसिया) रूसियोंके हाथमें थी, जिसके अच्छे-अच्छे इलाकोंको अपने हाथमें करनेके लिये रूसी सामन्त गिद्धकी तरह टूट पड़े। क्रिमिया प्रायद्वीपके भीतर भी उन्होंने वैसा ही किया, और निवासी तारतार पहाड़ोंकी ओर सिमटनेके लिये मजबूर हुये। जेनरल पोतेमकिन एकातेरिनाके कृपापात्रको क्रिमियाका महाराज्यपाल नियुक्त किया गया, जिसने अपना घर भरनेमें कोई कसर उठा

नहीं रक्खी। सेनाके लिये भर्ती किये गये रंगरूटोंको उसने अपने गांवोंमें बसा दिया। नवोरोसिया और क्रिमियामें नये नगर और दुर्ग स्थापित किये गये। निम्न दनियेपरके तटपर एकातेरिनोस्लाव्ल (आधुनिक दनियेपरोपेयोव्स्क) की स्थापना हुई, जो कि इस प्रदेशका शासनकेन्द्र बना। क्रिमियामें सेवस्तोपोलमें एक नौसैनिक अड्डा कायम किया गया, दनियेपर नदीके मुहपर खेर्सोनको किला तैयार हुआ।

क्रिमियाके तातार धर्म और जातिसे तुर्कीके संबंधी थे, इसलिये क्रिमियामें रूस जो कुछ कर रहा था, उसे तुर्की चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रूसियोंको यह मालूम था, इसीलिये आस्ट्रियाके साथ सहायताकी संधि करके एकातेरिनाने भी युद्धकी तैयारी की। फ्रांस तुर्कीको भड़कानेके लिये मौजूद था, फिर १७८७ ई० में द्वितीय तुर्की-युद्ध क्यों न घोषित होता? यह याद रखनेकी बात है कि १८वीं शताब्दीके उत्तरार्धसे आज तक तुर्की किसी न किसी पश्चिमी शक्तिके हाथ में खेलते रूसको आगे बढ़नेका मौका देता रहा। आज जो अमेरिकाके पीठ ठोकनेपर तुर्की रूसके विरुद्ध ताल ठोक रहा है, उसका एक मुख्य कारण है आर्मेनिया और जार्जिया गणराज्योंके कुछ जिलोंको प्रथम विश्व-युद्धके बाद हजारों आदमियोंके निष्ठुर हत्याके अनन्तर तुर्कीका दबा बैठना। रूससे संबंध जब खराब नहीं हुआ था, उस समय अमेरिका-इंग्लैंड-फ्रांस आर्मेनियोंके खूनसे रंगी उनकी भूमिको लौटा देनेके लिये तुर्कीपर जोर दे रहे थे, लेकिन अब वह उसका नाम भी जीभपर आने नहीं देते। यह निश्चय ही है, कि तुर्कीके पेटसे इन जिलोंको उगलवाये बिना सोवियत राष्ट्र चैन नहीं लेगा।

तुर्कीने इस युद्धका आरम्भ दनियेपरकी एक शाखापर बने हुये किनबर्न रूसी किलेपर अधिकार करके किया, लेकिन वहांका सेनप सुवारोफ था। उसने तुर्कीको वहांसे मार भगाया। अगले साल आस्ट्रियाने भी रूसकी ओरसे युद्ध घोषित किया। इस समय रूसी सेना तुर्की किले उशाकोफका मुहासिरा कर रही थी। रूसको काफी प्राणहानि उठानी पड़ी, लेकिन अन्तमें उन्होंने किलेको सर कर लिया। १७८९ ई०में दो और लड़ाइयोंमें सुवारोफने तुर्कीको हराया। आस्ट्रियाने ऐन भौके पर धोखा देकर तुर्कीसे सुलह कर ली, लेकिन रूसियोंने युद्ध जारी रखा। १७९० ई०में उन्होंने दन्यूब (डुनाइ) मुहानेपर तुर्कीके बहुत ही मजबूत किले इस्माईलको घेर लिया। यहांपर भी घनघोर युद्ध हुआ, और अन्तमें इस्माईलके किलेपर रूसियोंका अधिकार होगया। युद्धमें छब्बीस हजार तुर्क मारे गये। सुवारोफ जिस वक्त स्थलपर विजयपर विजय प्राप्त कर रहा था, उसी समय रूसी नौसेनापति अदमिरल फ्योदोर उशाकोफने भी तुर्कीके जंगी बड़े पर कई विजय प्राप्त कीं। इस्माईलके मुहासिरेके समय समुद्रके रास्ते उसने स्थलसेनाकी बड़ी सहायता की। सामुद्रिक युद्धमें दो हजार तुर्क मारे या डूब गये, जब कि उशाकोफके केवल इक्कीस आदमी मरे और पच्चीस घायल हुये। इस प्रतिरोधके बाद रूसी सेना इस्माईलमें उतर गई, लेकिन अभी अन्तिम निर्णायक सामुद्रिक युद्ध नहीं हुआ था, जिसमें तुर्की बड़ेके बुरी तरह हारनेके तथा इस्माईलपर सुवारोफके अधिकार हो जानेके बाद युद्धमें तुर्कीको हार माननी पड़ी। १७९१ ई० में यास्सीमें तुर्कीने संधिपत्र लिख क्रिमियापर रूसके अधिकारको स्वीकारकर दक्षिणी बग और दनियेस्तरकी बीचकी भूमिको भी रूसके हाथमें दे दिया। इस युद्धके बाद कालासागरका सारा उत्तरी तट रूसका हो गया। लेकिन अब भी वर्तमान मोल्दावी सोवियत समाजवादी गणराज्य तुर्कीके हाथमें ही रहा।

दक्षिणके शत्रुको आगे बढ़ते देखकर स्वीडन कैसे अवसरसे फायदा उठाये बिना रह सकता था? उसने भी १७८८ ई०में रूसके ऊपर प्रहार किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली, और १७९० ई०में पुरानी सीमाके अनुसार ही दोनों देशोंमें सुलह हो गई।

चीनसे संबंध—रूस और चीनके बीच मनोमालिन्यका कारण रूस द्वारा एक मंगोल भगोड़े राजाको शरण देना था। अमुरसना जुंगर-कलमक राजवंशका अन्तिम राजा भागकर साइबेरियामें चला गया था। चीनी सरकारने उसे समर्पित करनेके लिये रूसको लिखा, लेकिन रूसने वैसा नहीं किया। इसके थोड़े ही समय बाद अमुरसना मर गया। चीनने फिर भी अमुरसनाकी लाश और दूसरे जुंगर राजुलोंको देनेकी मांग की। न देनेपर नाराज होकर चीनने पेचिङ्ग में रहनेवाले सभी रूसी पादरियोंको जामिनके रूपमें बंदीखानेमें डाल दिया। व्यापारिक संबंधमें गड़बड़ी पैदा होनेमें

एक कारण था तुरगुत मंगोलोंका १७ वीं सदीमें रूसके भीतर वोल्गाके किनारे चला जाना। कुछ समय तक तो वह शांतिपूर्वक रहे, लेकिन उन्होंने देखा, कि रूस और तुर्कीके चक्कीके दो पाटोंके भीतर उन्हें पिस जाना है। उधर तुर्कशाहके दूतमंडलने उन्हें लौटनेका भी बहुत प्रलोभन दिया। तुरगुत मंगोल घुमन्तू थे, लेकिन अपनी पुरानी मंगोल भूमिके साथ उनका बहुत स्नेह था। १७७१ ई०में रूसियों और तुर्कोंके बीचमें जो संघर्ष हुआ, उसमें तुरगुतोंने रूसका पक्ष लिया। इसी समय तुर्कोंके साथ लड़ते उन्हें अपनी शक्तिका भान हुआ, और वह समझने लगे, कि तुर्कों (कजाकों) के बीचसे चीरते-फाड़ते हम अपनी जन्मभूमिको लौट सकते हैं। ५ जनवरी १७७२ ई० को एक दिन यकायक सात लाख तुरगुत परिवारोंने पूर्वकी ओर प्रस्थान कर दिया। रूसियोंने पहले समझानेकी कोशिश की, फिर कुछ सेनाका भी उपयोग किया, लेकिन उस समय वह दक्षिणी शत्रुओंके साथ भी फंसे हुये थे, इसलिये पूरी शक्ति नहीं लगा सकते थे। कजाक-तुर्कोंने अपने पुराने प्रतिद्वन्द्वियोंको आसानीसे बड़ निकलनेका मौका नहीं दिया। तो भी तुरगुत अपने लाखों ऊंटों, घोड़ों, भेड़ों, तम्बूओं और दूसरे सामानके साथ बालबच्चों को लिये, पद-पदपर कजाकोंसे लड़ते आगेकी ओर ही बढ़ते गये। आठ महीनेकी इतिहासकी इस अद्वितीय यात्राके बाद तुरगुत जब इली नदीके तटपर पहुँचे, तो सात लाखकी जगह अब वह तीन लाख आदमी रह गये थे। इलीके तटपर चीनने उनका स्वागत किया, और उन्हें पशु, अन्न और पैसेसे मदद देकर पार्समें ही अलताई (सुवर्ण) की पहाड़ी भूमिमें बसा दिया। रूसने कुछ थोड़े-से मंगोलों को शरण दी थी, अब चीनने लाखोंकी संख्यामें चीनी प्रजाको अपने यहाँ जगह देकर उसका बदला लिया। रूसने भी अब चीनियोंको प्रलोभन देकर अपनी सीमाके भीतर रखना शुरू किया। इसपर दोनों राज्योंके बीच शांति कैसे कायम रह सकती थी? चीन-सम्राट् काउ-चुङ् (च्यानलुङ् १७३५-९५ ई०) ने विरोध प्रदर्शित करते हुये लिखा था :

“परीक्षण करनेपर हमारे दोनों देशोंके समझौतोंके भीतर पता लगा, कि अगर सीमांतपर किसी राज्यका चोर पकड़ा जाय, तो दोनों ओरके संयुक्त अधिकारियोंके सामने उसके बारेमें जांच-पड़ताल होनी चाहिये और अपराधी साबित होनेपर उसे मृत्युदंड देना चाहिये। इसी विधानके अनुसार मेरे चौवालीसवें संवत्सरमें तुम्हारे यहाँके ग्यारह घोड़े चुरानेके कारण दो आदमियोंको मृत्युदंड दिया गया। हमारे महान् साम्राज्यने संधिपत्र और विधानका ईमानदारीसे पालन करनेके लिये ऐसा किया, मित्रता कायम रखनेके लिये ही नहीं, बल्कि सत्यके प्रेमके लिये भी, जिसका कि हम बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन, तुमने चोरोंको प्राणदंड नहीं देकर मित्रता और संधिपत्रके विधान और शपथको भंग किया। . . . यद्यपि हमारे दोनों साम्राज्य एक दूसरेके सीमांतपर हैं, तो भी हमारा (चीन) साम्राज्य अपनेको बड़ा भाई कह सकता है, क्योंकि वह साम्राज्योंमें बड़े भाईका स्थान रखता है। तुम्हारी प्रार्थना पर हमने दो चोरोंको दंडित किया, लेकिन तुम वही बात हमारे महासाम्राज्यको संतुष्ट करनेके लिये करनेसे इन्कार करते हो। . . . क्या तुम नहीं सोचते, कि आनेवाली संतानें तुम पर हँसंगी ?”

इन झगड़ोंको मिटानेके लिये एकातेरिनाने क्रोपोतोफको दूत बनाकर चीन भेजा। बात-चीत होनेके बाद १७२७ ई० के संधिपत्रमें और धारा जोड़ी गई, जिसके बाद फिर व्यापारिक संबंध पहलेकी तरह स्थापित हो गया। यह उल्लेखनीय बात है, कि एकातेरिनाका मंगोलियाके मंगोलोंके साथका बर्ताव वहाँके लामाओं और राजुलोंके लिये अधिक अनुकूल था, इसीलिये वहाँके लोगोंमें मशहूर था, कि एकातेरिना श्वेततारा देवी (चगान-तारा-एखे) की अवतार है। एकातेरिनाके बाद जब रूसकी गद्दीपर जार बैठने लगे, तो उन्हें भी मंगोल चगान खान (श्वेत राजा) कहने लगे।

शिक्षा और संस्कृति—केवल राजनीतिक दांव-पेचोंसे ही किसी भी राजशक्तिको एकताबद्ध और शक्तिशाली नहीं बनाया जा सकता, उसके लिये तो अधिक शक्तिशाली हथियारोंकी आवश्यकता होती है। अपने प्रतिद्वन्द्वियोंके मुकाबलेमें अधिक शक्तिशाली हथियारोंको ढूँढ़ते हुये आदमी बारूदके हथियारों तक पहुँचा, और उसमें भी एक दूसरेसे बाजी मार ले जानेके लिये उसने नये-नये आविष्कार किये, जिसके लिये आदमीको साइंसकी ओर बढ़ना पड़ा। जिसके साथ ही अब साइंस तथा दूसरी विद्याओंकी प्रगति अनिवार्य हो गई। साइंसके प्रसारके लिये पीतर I ने रूसी विज्ञान अकदमी (रूसकी अकदमी नाउक) कायम करनेके बारेमें सोचा था, जो १७२५ ई० में ही उसके मरनेके

बाद स्थापित हुई। यह हम बतला चुके हैं, कि पीतरने पश्चिमी युरोपसे कितने ही विद्वानोंको निमंत्रित करके अपने यहां रक्खा था, जिनमें बरनूली और ल्योनहार्ड यूजर जैसे गणितज्ञ भी थे। रूसका पहला विज्ञानवेत्ता मिखाइल वासिली-मुत्र लोमोनोसोफ (१७११-६५ ई०) था। उसके रूपमें रूसकी प्रतिभा विद्याके बहुत-से क्षेत्रोंमें प्रकट हुई। लोमोनोसोफ उत्तरी समुद्रतटके आरखंगेल्स्क नगरसे नीतिद्वर समुद्रतटके एक गांव देनिसोव्कामें एक खाते-पीते मछुयेके घरमें पैदा हुआ था। दस वर्षकी उमरमें वह अपने बापके साथ समुद्रमें मछली मारने जाया करता था, लेकिन लोमोनोसोफको जल्दी मालूम होने लगा, कि पढ़ना अच्छी चीज है। आरखंगेल्स्कमें कितने ही महीनों तक बहुत लम्बी रातें होती हैं। इन रातोंमें वह अक्षर अक्षर, व्याकरण और गणित पढ़ता था, क्योंकि इस समय मछुवाही करनेके लिये जाना नहीं पड़ता था। पास हीके कस्बे खोल्मोगोरीमें एक स्कूल था, लेकिन मछुवेका लड़का होनेके कारण उसे उसमें भर्ती करने से इन्कार कर दिया गया। लोमोनोसोफ विद्याके लिये इतना व्यग्र था, कि एक मछली ले जानेवाली नावपर उसने मास्कोकी ओर प्रयाण कर दिया। अपने किसान या मछुवेके लड़के होनेको छिपाकर ही वह मास्कोकी स्लावानिक ग्रीक-लातिन-अकदमीमें प्रविष्ट हो सका। पांच वर्ष तक बड़ी कठिनाइयोंके साथ उसने वहां अध्ययन किया। बीस साल के तगड़े जवान विद्यार्थीसे उसके सहपाठी बायरो और धनी व्यापारियोंके लड़के परिहास करते रहते थे। पढ़ाई समाप्त करनेके बाद लोमोनोसोफको एक अवसर हाथ आया। सरकारकी ओरसे तीन विद्यार्थी उच्च-शिक्षाके लिये युरोप भेजे जानेवाले थे। लोमोनोसोफ असाधारण मेधावी विद्यार्थी था, और बायरोके लड़कोंमें से तीन मिल नहीं रहे थे, इसलिये उसे भी युरोप भेज दिया गया। उसने रसायन, धातुशास्त्र, खनिजशास्त्र और गणित अध्ययन करते हुये चार साल वहांके वैज्ञानिकों और विद्वानों के सम्पर्कमें बिताये। १७४५ ई० में स्वदेश लौटनेपर उसे प्रोफेसर होनेके साथ रूसी विज्ञान अकदमीका पहला रूसी मेम्बर बननेका अवसर मिला। अब तकके बीस वर्षोंमें रूसी साइंस अकदमीके सदस्य विदेशी विशेषकर जर्मन विद्वान् ही होते थे, जिनमेंसे कुछका ज्ञान बहुत ही उथला था। साइंस के क्षेत्रमें लोमोनोसोफने कई नये आविष्कार किये, लेकिन अभी कोई गुणग्राहक नहीं था। लोमोनोसोफ के कितने ही आविष्कारों और वैज्ञानिक सिद्धान्तोंकी पुष्टि १९वीं सदीमें जाकर हुई। लोमोनोसोफने ही तापके यांत्रिक सिद्धान्तको पहलेपहल बतलाया था। रसायनमें भी उसने जो नया सिद्धान्त निकाला था, उसका चालीस वर्ष बाद फ्रेंच रसायनवेत्ता लावाजियेने फिरसे पता लगाया, और आज वह सिद्धान्त उसीके नामसे विख्यात है। भूतत्त्वशास्त्रमें भी लोमोनोसोफने धातुओं और धुनोंकी उत्पत्ति का अध्ययन किया, जिससे भूतात्त्विक खोजोंमें बड़ी मदद मिली। वह पहला आदमी था, जिसने बतलाया, कि पत्थरका कोयला पथराये वृक्षों और वनस्पतियोंका अवशेष है। युरोपमें वह पहला आदमी था, जिसने भौतिक रसायनकी व्याख्या करते हुये कई व्याख्यान दिये। ज्योतिषशास्त्र और नाविकशास्त्रके अध्ययनमें भी उसने बहुत समय लगाया। यंगसे साठ साल पहले उसने पृथ्वीतलके कम्पनकी बातका पता लगाया। हर्शलसे तीस साल पहले उसने बतलाया, कि बुधके चारों तरफ वातावरण है। नान्सेनसे एक सौ पैंतीस वर्ष पहले उसने ध्रुवीय महासागरके बहनेकी दिशाकी सूचना दी। इस प्रकार हम देख सकते हैं, कि जिन बातोंको हम पश्चिमी युरोप के वैज्ञानिकोंकी मौलिक खोज मानते हैं, वह गलत हैं। युरोपियनोंने भी विज्ञान की प्रगतियोंमें बहुत भाग लिया है, लेकिन यह केवल झूठा प्रचार है, कि युरोपीय दिमाग ही सभी बातोंमें मौलिक होनेका ठेका लिये हुये है। रूसी दिमाग बहुत सी बातोंमें उनसे आगे-आगे रहा। और तो और, परमाणु-विदरण का प्रायोगिक सिद्धान्त भी दो रूसी वैज्ञानिकोंने पहलेपहल करके उन्हें छपवा भी दिया था, जिसके सहारे जर्मन और अमेरिकन विज्ञानवेत्ता आगे बढ़े। अपने साम्राज्यविस्तारके लिये जैसे युरोप हथियारोंकी चमकाने और लोगोंमें फूट डालने की नीतिको इस्तेमाल करता रहा, वैसे ही अपनी दिमागी श्रेष्ठताका ढिंढोरा पीटकर भी उसने अपनी धाक जमानी चाही।

लोमोनोसोफ प्रयोगका बड़ा भारी पक्षपाती था। उसने तीन हजार प्रयोग करके रंगीन कांच बनानेकी पद्धतिका आविष्कार किया। लोमोनोसोफने ध्रुवीय सागरसे होकर पूर्वी एसियाको अभियान भेजनेके लिये नक्शा तैयार किया था। वह केवल शुष्क विज्ञानवेत्ता ही न था, बल्कि कवि और

साहित्यकार भी था। रूसी साहित्यको उसने धार्मिक भाषासे हटाकर जनभाषाकी ओर ले जानेकी कोशिश की। उसने वैज्ञानिक ढंगपर एक अच्छा रूसी व्याकरण लिखा, जो कई पीढ़ियों तक पढ़ाया जाता था। उसकी प्रतिभाके बारेमें रूसके कालिदास अलेक्सान्द्र पुश्किनने लिखा था :

“अपने असाधारण बुद्धि-बलके साथ असाधारण इच्छाबल रखते हुये लोमोनोसोफने विद्याकी सभी शाखाओंका अवगाहन किया। उसमें ज्ञानकी असाधारण पिपासा थी। वह इतिहासकार, साहित्यकार, यंत्रशास्त्री, रसायनशास्त्री, धातुशास्त्री, चित्रकार और कवि था।”

लोमोनोसोफके अन्तिम वर्ष एकातेरिनाके शासनकालमें बीते। उसके कार्योंके रूपमें रूसी साहित्य, विज्ञानकी भव्य इमारतकी दृढ़ नींव पड़ी।

१८वीं सदीमें शिक्षाकी ओर शहरोंके मध्यवर्गके लोगोंका ध्यान गया था। दूसरी शिक्षण-संस्थाओंमें जगह न मिलनेके कारण अध्यापकोंने अपने घरोंमें छात्रावास-सहित स्कूल खोल रखे थे। बायर और धनी लोग अपने लड़कोंके पढ़ानेके लिये विदेशी शिक्षक रखते थे। फ्रेंचकी महिमा बढ़ती चली गई थी, और १८वीं सदीके मध्य तक अमीरोंके घरोंमें रूसी नहीं फ्रेंच भाषा बोली जाती थी। हमारे आजके कितने ही हिन्दो-आंग्लियन परिवारोंकी तरह रूसी अमीर अपने भावोंको अपनी भाषामें मुश्किलसे प्रकट कर सकते थे। वह फ्रेंच बोलनेमें फ्रेंच लोगोंका भी कान काटना चाहते थे। उनके यहां फ्रेंच अध्यापकोंकी बड़ी मांग थी, और फ्रांसका कोई भी ऐरा-गौरा-नत्थूखैरा आकर रूसमें अमीरोंके घरोंमें अध्यापक बन जाता था। पुश्किनने अपने लघु उपन्यास “कप्तान कन्या” में इसका बड़ा परिहास किया है। लेकिन, इसका एक अच्छा पहलू भी था। प्रौढ़ फ्रेंच साहित्यसे रूसी साहित्यको आरम्भमें बड़ी प्रेरणा मिली। उन्हें पढ़कर रूसी लेखक मोलियेर, बोल्टेरकी नकल करना चाहते थे। पश्चिमी युरोपके साहित्यकी मांग होनेसे उनके बहुतसे ग्रंथोंके रूसीमें धड़ाधड़ अनुवाद होने लगे। लोमोनोसोफ-समकालीन सुमारोकोफ (१७१८-७७ ई०) रूसी भाषाका पहला ख्यातनामा लेखक है। उसने बहुतसे ग्रंथ फ्रेंच शैलीपर लिखे, जिनमें उसके ऐतिहासिक दुःखांत नाटक, प्रेम-गीत और प्रहसन अधिक जनप्रिय हुये। अपने समयके मास्कोके बारेमें उसने लिखा था : “यहांकी सभी सड़कें अज्ञानकी ईंटोंसे सात फुट ऊंची चिनी गई हैं, जिनको तोड़नेके लिये एक सौ मोलियरोंकी आवश्यकता है।”

रूसी लेखकोंके मैदानमें आते ही फ्रेंच साहित्यका प्रभाव घटने लगा, यह सुमारोकोफके समयमें ही देखा जाने लगा। सुमारोकोफपर फ्रेंच क्लासिक और ग्रीक साहित्यका बड़ा प्रभाव था। वह रूसी साहित्यको भी उसी रंगमें रंगना चाहता था, लेकिन उसके तरुण समसामयिक देनिस फोन-विजिन (१७४५-९२ ई०) ने साहित्यको रूसकी भूमि और रूसके जीवनमें लानेका प्रयत्न किया। १८वीं सदीका अन्त होते-होते रूसको गबरील रोमन-पुत्र देझाविन (१७४३-१८१६ ई०) के रूपमें एक उच्च कोटिका कवि पानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसने रूसी वातावरण और रूसी जीवनको अपनाकर अपनी कविताको जनताके समीप ला दिया। इसके बाद रूसी साहित्य युरोपका भिखारी नहीं रह गया। उसने अपने लेखक और साहित्यकार इतने उच्चकोटिके पैदा किये, जिनका लोहा सभी जगह माना जाने लगा। निकोलाई मिखाइल-पुत्र करमजिन (१७६५-१८२६ ई०) ने अपनी विदेश-यात्राओं द्वारा पश्चिमी युरोपके जीवन और संस्कृतिका चित्र खींचकर रूसी पाठकोंके सामने रखा। करमजिनकी “बेचारी लीजा” कथा एक समय बहुत प्रचलित थी, लेकिन करमजिनने पीछे अपना सारा समय रूसी इतिहास लिखनेमें दे दिया।

एकातेरिनाके शासनकालमें नाट्यकला और संगीतकी भी प्रगति हुई। १७५६ ई० में रानी एलिजाबेत्के शासनकालमें “दुःखान्त-सुखांत अभिनयका रूसी तियात्र” के नामसे पीतरबुर्गमें पहली स्थायी नाट्यशालाका उद्घाटन हुआ। सुमारोकोफ उसका पहला संचालक नियुक्त हुआ, और वोल्कोफ तथा उसके साथी पहले अभिनेता। वोल्कोफ १७६२ ई०में मर गया, जब कि रूसी नाट्यकलाकी प्रगतिका द्वार खुल चुका था। राजधानीके अभिनयोंको देखकर दीहातके अमीरोंने भी अपने यहां निजी रंग-शालायें खोलीं। हमारे यहां आज भी सूर, तुलसीके धार्मिक गीतोंका ही संगीतमें प्राधान्य चला जा रहा है, लेकिन रूसमें १८वीं सदीमें ही धर्मनिरपेक्ष संगीतका खूब प्रचार होने लगा था। एकातेरिनाके शासनकाल हीमें ओपेरा (पद्यनाटक) का भी प्रचार हो चला।

इसी कालमें चित्रकला और वास्तुकलाने भी रूसमें प्रगति की, जिसमें पश्चिमी कलाकारोंकी सहायता लाभदायक सिद्ध हुई। रूसी वास्तुशास्त्री बाजेनोफने कई अच्छी-अच्छी इमारतें बनाईं। उसकी प्रतिभाकी ख्याति देशकी सीमासे बाहर पहुंच गई और फ्रांसके राजाने बहुत अधिक वेतन देकर उसे बुलाना चाहा, लेकिन बाजेनोफने अपनी प्रतिभाको अपनी जन्मभूमिकी सेवामें ही लगाना चाहा। उसकी बनाई हुई इमारतोंमें स्कोफ-प्रासाद (आधुनिक लेनिन पुस्तकालय) मास्कोमें अब भी मौजूद है।

यांत्रिक आविष्कारोंमें भी लोमोनोसोफके दिखलाये रास्तेको रूसियोंने आगे बढ़ाया। इवान इवान-पुत्र पोलजुनोफ (१७२६-६६ ई०) उरालकी किसी छावनीके एक सिपाहीका लड़का था, जिसने "अग्नि-चालित इंजन" का पहलपहल आविष्कार किया। उस समय तक पानीकी शक्तको इस्तेमाल करनेवाले कारखाने जहां-तहां बन चुके थे, लेकिन ऐसे कारखाने उन्हीं जगहोंपर बन सकते थे, जहां बहते पानीकी तेज धारा हो। पोलजुनोफने वाष्प-चालित यंत्रोंके कारखानोंको किसी भी स्थानपर स्थापित करनेके ख्यालसे अपने अग्नि-चालित इंजनका आविष्कार किया, लेकिन उसे बर्नॉल (अल्ताई पर्वत) में अपने वाष्प-इंजनको चलाकर अपना जीवन खत्म कर देना पड़ा। जेम्स वाटको आज वाष्प-इंजनका आविष्कारक कहा जाता है। उससे इक्कीस वर्ष पहले पोलजुनोफने दुनियाका प्रथम वाष्प-इंजन तैयार किया था। आविष्कारकी प्रतिभा रूसमें मौजूद थी, लेकिन सामन्तशाही रूस ऐसी प्रतिभाओंको प्रोत्साहन देनेके लिये तैयार नहीं था। १८वीं सदीके दूसरे रूसी आविष्कारक इवान पीतर-पुत्र कुलिबिन (१७३५-१८१८ ई०) की भी उसी तरह उपेक्षा हुई, जैसी पोलजुनोफकी। कुलिबिनने अपने बचपनमें ही एक मित्रके घरमें दीवार-घड़ी देखी, और कुछ ही दिनों बाद उसने लकड़ी की उसी तरहकी घड़ी बना दी। बापके मरनेपर वह दूकानके कामके साथ-साथ समय बचाकर घड़ियां बनाने लगा। उसने और उसके साथियोंने पांच वर्ष लगाकर अंडेके बराबरकी एक घड़ी बनाई, जिसका उस समय बहुत फैशन चल पड़ा था। कुलिबिनने अपनी घड़ी एकातेरिनाको भेंट की। एकातेरिनाने उसे साइंस अकदमीका यांत्रिक नियुक्त किया। कुलिबिनने नेवा नदीके लिये एक मेहराब-वाले लकड़ीके पुलका नक्शा तैयार किया, लेकिन उसके नमूनेको आंखसे देखनेके बाद भी किसीने काममें लानेका ख्याल नहीं किया। कुलिबिन अन्तमें बड़ी गरीबीका जीवन बिताते हुये अपने नगर निजनी-नोवगोरद (आधुनिक गोर्की) में मरा।

रूस प्रतिगामिताका गढ़—एकातेरिनाके समय रूस जिस तरहका रूप ले रहा था, उसके बारेमें हम बतला चुके। रूसमें फ्रेंच साहित्य और विचारोंका बड़ा मान था, लेकिन इसी समय १७८९ ई० में फ्रेंच क्रांति हुई, जिसने बतला दिया कि सामन्तशाहीकी नींव बड़ी निर्बल है। फ्रेंच क्रांतिको देखकर यूरोपके सभी मुकुटधारी कांपने लगे थे। इसी समय रूसने एकातेरिनाके मुंहसे कहल-वाया—“फ्रेंच राजाका काम सभी राजाओंका काम है।” उसने दृढ़तापूर्वक घोषित किया, कि मैं कहीं भी चमारों (मजूरों) को राज्य-शासन करने नहीं दूंगी। इसे संयोगकी ही बात कहिये, कि एकातेरिनाके स्थानपर रूसका सबसे शक्तिशाली शासक योसफ स्तालिन एक चमारका ही लड़का था। सोलहवें लुईको जब फ्रांसमें मृत्युदंड दिया गया, तो सबसे पहले एकातेरिनाने फ्रेंच गणराज्यसे संबंध विच्छेद कर लिया, फ्रांसमें रहनेवाले सभी रूसियोंको बुला लिया, और क्रांतिसे सहानुभूति रखनेवाले फ्रांसीसियोंको रूससे निर्वासित कर दिया। एकातेरिनाको “फ्रेंच महामारी” का सबसे अधिक डर था, लेकिन उसके ही शासनकालमें फ्रेंच क्रान्तिकी विचारधाराके पिताओं—वोल्तेर, दिदरो, रूसोकी पुस्तकें प्रायः सभी रूसी अमीरोंके घरोंमें पाई जाती थीं, वह उन्हें मूल फ्रेंचमें पढ़ते थे। इन पुस्तकोंका प्रभाव रूसियोंकी विचारधारापर भी पड़ रहा था, और वह भी समता, भ्रातृभावके पक्षपाती होते जा रहे थे। ऐसे प्रगतिशील तरुणोंमें अलेक्सान्द्र रादिश्चेफ पहला आदमी था। वह एक अमीर घराने में १७४९ ई० में पैदा हुआ था। उसने जर्मनीके लाइप्जिक विश्वविद्यालयमें अध्ययन किया था। समानता और स्वतन्त्रताके विचारोंसे भरे हुये रूसके ग्रंथोंने उसपर बहुत प्रभाव डाला, और वह स्वेच्छाचारी शासनको बहुत घृणाकी दृष्टिसे देखने लगा। १७९० ई० में उसने अपनी प्रथम पुस्तक “पीतरबुर्गसे मास्कोकी यात्रा” प्रकाशित की। पुस्तककी छ सौ पचास ही प्रतियां निजी तौरसे

छापी गई थीं। एकातेरिनाने इस पुस्तकको देखकर कहा—“यह तो पुगाचेफसे भी भारी बदमाश है। इसके लिये दस फांसीकी टिकटियां भी पर्याप्त नहीं होंगी”। उसने रादिश्चेफको गिरफ्तार करनेका हुक्म दिया। रादिश्चेफने अपनी पुस्तककी भूमिकामें लिखा था :

“जब मैंने अपने चारों ओर देखा, तो मानवताकी पीड़ासे मेरा हृदय फटने लगा।” जमींदारों के अत्याचारोंके बारेमें उसने लिखा था—“यह क्रूर पशु, कभी न अधानेवाली जोंकें, किसानोंके लिये वही छोड़ती है, जिसे वह लेना नहीं चाहती।.....जमींदार किसानोंके लिये विधान-निर्माता, न्यायाधीश हैं, जिसके कारण कोई अपने बचावके लिये एक शब्द भी नहीं कह सकता।” रादिश्चेफ समझता था, कि इन पशु-जोंक-जमींदारोंका सीधा संबंध जाइके सिंहासनसे है, इसलिये अपनी यात्रामें उसने “स्वतन्त्रता” के नामसे जिस गीतको दिया था, उसमें “लोहेके सिंहासन” को नष्ट करनेके लिये जनता के भयंकर बदलेकी बात लिखी थी। सामन्तघरमें पैदा हुआ रादिश्चेफ रूसका पहला क्रांतिकारी, प्रजातंत्र-पक्षपाती तथा प्रगतिशील विचारक था। अदालतने उसे मृत्युदंड दिया, जिसे पीछे दस वर्ष साइबेरिया-निर्वासनके रूपमें परिणत कर दिया गया। एकातेरिनाने रादिश्चेफकी पुस्तककी होली जलवाई। एकातेरिनाने मरनेके बाद उसके उत्तराधिकारी पुत्र पावल I ने जब सार्वजनिक क्षमादान दिया, तो रादिश्चेफको भी साइबेरियासे लौटनेका मौका मिला, लेकिन उसका राजधानीमें आना निषिद्ध था, और अलेक्सांद्र I (१८०१-२५ ई०) के समयमें ही उसके ऊपरसे यह निर्बंध हटाया गया। उसने स्वतन्त्रता और समानताके आधारपर राज्यशासनमें सुधार करनेकी योजना बनाई। सत्ताधारी उसे फिर साइबेरियामें निर्वासित करनेकी सोच रहे थे, इसपर रादिश्चेफने विष खाकर १८०२ ई० में अपने जीवनका अन्त कर लिया। एकातेरिनाने समयके स्वतन्त्र विचारकोंमें निकोलाइ नोविकोफ भी था, जिसने नये विचारोंके प्रचारके लिये पुस्तककी दूकान खोली थी। उसने एक प्रहसन और व्यंगभरी पत्रिका “त्रूतेन” तथा और भी पत्र निकाले। अपने व्यंगोंमें वह शासकोंकी अच्छी खबर लेता था, और किसानों और अर्ध-दासोंकी पीड़ाको बड़े सजीव रूपमें रखता था। उसकी पुस्तक “एक स्वामीका अपने गांवके किसानोंके साथ पत्र-व्यवहार” में बड़े ही मार्मिक रूपमें किसानोंकी विपदाका चित्रण किया गया था।

१३. पावल I, पीतर III-पुत्र (१७९६-१८०१ ई०)

पावलके शासनके रूपमें अब हम रूसके उस समयमें आजाते हैं, जब कि भारतमें रही-सही सामन्तोंकी स्वतन्त्रता भी अंग्रेज बनियोंकी ईस्ट इंडिया कंपनी छीन रही थी। एकातेरिना अपने पतिके मरवानेसे ही संतुष्ट नहीं थी, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षाने अपने पुत्रके साथ भी सौहार्द स्थापित करने नहीं दिया। पावलको उसकी दादी एलिजाबेतने पाला था। वह समझता था, मेरी मानें मेरे उचित अधिकारको छीन रखा है। एकातेरिना भी इसे समझती थी, इसीलिये वह पावलको राजकाजमें हाथ डालनेका मौका नहीं देती थी। पावल मांकी ओरसे दी हुई अपनी जमींदारी गत्चिनामें अपना सारा समय सैनिक कार्योंमें बिताता था। उसने गत्चिनाको फ्रेड्रिक II के सैनिक नियमोंके अनुसार एक युद्ध-शिविर बना दिया था, जहांपर सैनिकोंको प्रुशियन सेनाकी वर्दी पहनाकर डंडोंके हाथों कवायद-परेड कराई जाती थी। सिंहासनपर बैठते ही पावलने बापके कदमोंपर चलते रूसी सेनाको प्रुशियन सेनाके रूपमें परिणत करना शुरू किया। उस समय राजधानी (पीतरबुर्ग) भी बहुत कुछ एक सैनिक शिविरकी तरह मालूम होती थी। राज्यके सभी विभागोंमें उसने कठोर सैनिक अनुशासनके बरते जानेकी मांग की। फ्रेंच-क्रांतिकी छाया अभी भी युरोपसे लुप्त नहीं हुई थी। उसके बारेमें वह अपनी मांसे बिल्कुल सहमत था। विदेशी आकर कहीं क्रांतिकी महामारी न फैला दें, इसलिये उनके आनेमें उसने निषेध और रूकावट डाल दी। वह रूसी अमीरोंको भी युरोपके विश्वविद्यालयोंमें पढ़नेके लिये जानेकी इजाजत नहीं देता था। बाहरसे हर तरहकी पुस्तकोंका आना उसने बंद कर दिया। उसने जमींदारोंके साथ पहलेसे भी अधिक पक्षपात किया—अपने चार वर्षके शासनमें उसने तीन लाखसे अधिक किसानोंको उनके मालिकोंका अर्ध-दास बना दिया। इसका परिणाम किसानोंका विद्रोह छोड़ और बड़ा हो सकता था? ५२ गुबर्नियोंमेंसे बत्तीसमें किसानोंके विद्रोह हुये, जिन्हें दबानेके

लिये पावलने अपनी सेनाका बड़ी कूरतापूर्वक उपयोग किया। उस समय अर्ध-दासोंके विक्रयके विज्ञापन सरकारी समाचारपत्रमें बराबर निकला करते थे, जिसके कुछ उदाहरण हैं : “बिक्रीके लिये : दो परिवार अर्ध-दास, जिनमेंसे एक कोड़े और जूते बनानेवाला तीस वर्षका विवाहित मर्द है, उसकी स्त्री धोबिन है, जो पशुओंको चरा सकती है। आयु पच्चीस वर्ष। दूसरा परिवार एक गायक-वादक सत्रह वर्षके मर्दका है... दाम-कामके लिये लिखो, १७-१ अरबत, आप्त. १।”

जिस वक्त पावल गद्दीपर बैठा, उस वक्त १७९५ ई० वाली रूस-इंगलैंडकी मैत्री-संधिके अनुसार रूस भी फ्रांसके विरुद्ध लड़ रहा था। पावलने गद्दी संभालते ही अपने देशको विश्राम देनेका निश्चय किया, और अंग्रेज राजदूतको सूचित कर दिया, कि हमारी माने सेना भेजनेके लिये कहा था, लेकिन उसे भेजा नहीं जा सकता। इंगलैंडने पावलको प्रलोभन देकर लड़ाईमें रखना चाहा, और कार्सिका द्वीपपर अधिकार करनेके लिये कहा। मिस्र जाते वक्त नेपोलियनने माल्ता द्वीपपर अधिकार कर लिया था, जो कि भूमध्यसागरमें बड़े सैनिक महत्वका स्थान था। पावल भी अपनी मांकी तरह चाहता था, कि भूमध्यसागरमें पैर रखनेका कोई स्थान मिले। माल्ता-धार्मिक-संगठन माल्ताद्वीपका मालिक था, जिसका जारके दरबारके साथ विशेष संबंध था। उसने पावलको सहायताके लिये बुलाया। उधर नेपोलियनने जब तुर्कीके अधीन देश मिस्रपर आंख गड़ाई, तो तुर्कीने भी अपने पुराने शत्रु रूसके साथ फ्रांसके खिलाफ सैनिक संधि कर ली। अगस्त १७९८ ई० में कालासागर के रूसी जंगी बड़ेके सेनापति अदमिरल उशाकोफको हुकम हुआ, और वह सोलह जहाजों, सात सौ बानवे तोपों और आठ हजार नौसैनिकोंके साथ तुर्की जंगी बड़ेकी मददके लिये फ्रांसिसियोंके खिलाफ चल पड़ा। छ सप्ताहमें उशाकोफने यूनिया (यवन) द्वीपोंमेंसे चार छोटे-छोटे द्वीपोंपर अधिकार कर कोरफू द्वीपको लेनेके लिये प्रयाण किया। उस समय वहां छ सौ पचास तोपोंके साथ तीन हजार फ्रेंच सैनिक रहते थे। मुकाबिला बहुत सख्त हुआ, लेकिन १८ फरवरी १७९९ ई० को कोरफूकी फ्रेंच सेनाने आत्म-समर्पण कर दिया। कोरफूके जीतनेके बाद रूसी सेना दक्षिणी इतालीके तटपर उतरी। इतालियन जनता नेपोलियनके विदेशी शासनसे घृणा करती थी। रूसियोंने उसकी सहायतासे नेपल्स और रोमपर अधिकार कर लिया। रूसी सामुद्रिक युद्धविद्याका मूलाचार्य उशाकोफ माना जाता है, और स्थलीय युद्धविद्याका सुवारोफ।

१७९९ ई० के आरम्भमें प्रजातंत्री फ्रांसके विरुद्ध रूस, इंगलैंड, आस्ट्रिया, तुर्की तथा नेपल्स-राज्यकी एक गुट बनी। जनवरी १७९९ ई० में नेपोलियनकी सेनाको हराकर नेपल्सवालोंने अपना गणराज्य घोषित किया। पावल नहीं चाहता था, कि नेपल्समें उसके मित्र राजाका इस प्रकार अन्त होकर उसकी जगह इतालीमें पेरिसका एक नया संस्करण स्थापित हो। पावलने नेपल्सके राजाकी मदद के लिये ग्यारह हजार सेना भेजकर हुकम दिया, कि आस्ट्रियाकी मददके लिये पहिले भेजी गई बीस हजार सेनासे मिलकर आगे बढ़े। आस्ट्रियन सरकारकी मांगपर पावलने सुवारोफको सेनापति नियुक्त किया। सुवारोफ आज सोवियत रूसका भी सबसे अधिक सम्माननीय योद्धा है, जिसने उसके नामसे वीरताका एक उच्च तमगा प्रचलित किया। वह १७३० ई० में एक सैनिक अफसरके घर मारकोमें पैदा हुआ था। बचपनमें उसका स्वास्थ्य बहुत खराब और शरीर बड़ा दुर्बल था, इसलिये पिताने उसे लड़कपनमें सेनामें शामिल नहीं किया, लेकिन लड़केने बचपनसे ही सैनिक बातोंमें दिलचस्पी लेनी शुरू की और बापके पासकी सभी सैनिक पुस्तकोंको बड़े ध्यानसे पढ़ डाला। बारह वर्षकी उमरमें उसे रेजिमेंटमें नाम लिखानेका मौका मिला और सत्रह वर्षकी उमरमें कारपोरल (हवलदार) के तौरपर उसने सैनिक जीवन आरम्भ किया। आगे तुर्की और पोलन्दके युद्धोंमें उसने अपने युद्ध-कौशलका परिचय दिया, जिसके कारण उसे फील्ड-मार्शल बना दिया गया। वह गतानुगतिक नहीं, बरिक् “बेलीकपर चलने-वाला सिंह था।” उसने युद्धविद्यामें कई नई बातें निकालीं, जिनको आज भी लाल सेना बड़े आदरसे स्वीकार करती है। फ्रेड्रिक II भी एक नये सैनिक विज्ञान और संगठनका आविष्कारक माना जाता है, लेकिन उसका विचार था “सिपाही सिर्फ एक यंत्र है, जिसे नियमोंके अनुसार चालित होना चाहिये।” पावल फ्रेड्रिकके ही सैनिक आदर्शको मानता था, लेकिन सुवारोफ इससे बिल्कुल उल्टा था। उसका कहना था “केशचूर्ण बारूदका चूर्ण नहीं है, झूठे ताले

तोपें नहीं हैं, लम्बी चोटी तलवारें नहीं हैं। मैं जर्मन नहीं, बल्कि जन्मजात रूसी हूँ।” भला पावल ऐसे आदमीको क्यों पसंद करता? १७९७ ई० में उसने फील्ड मार्शल सुवारोफको उसकी जमींदारीमें निर्वासित कर दिया। लेकिन जब अंग्रेज और आस्ट्रियन मित्रोंने जोर दिया, तो फिर उसने सुवारोफको बुलाकर १७९९ ई० में फ्रांसके साथ लड़नेवाली मित्रोंकी सेनाओंका प्रधान सेनापति बना दिया। सुवारोफने साढ़े तीन महीनेके भीतर श्रेष्ठ फ्रेंच सेनापतियोंकी सेनाओंको बुरी तरह से हरा, सारे उत्तरी इतालीसे फ्रांसीसियोंको निकाल बाहर किया। आस्ट्रिया सारे इतालीको अपने हाथमें करनेकी धातमें था, इसलिये बहाना बनाकर सुवारोफको स्विट्जरलैण्ड भेज दिया गया। बड़े भीषण पहाड़ी रास्तों और नदियोंको पार करते हुये सुवारोफ स्विट्जरलैण्डकी ओर गया। एक जगह उसकी बीस हजार सेना साठ हजार फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा घेर ली गई। उस समय रूसियोंके पास पर्याप्त रसद, गोला-बारूद और तोपें भी नहीं थी। इस स्थितिको देखकर उसने अपनी युद्ध-परिषद् में कहा—“हमें क्या करना होगा? पीछे हटना अपमानकी बात है, मैं कभी नहीं पीछे हटा। आगे श्वाइजकी ओर बढ़ना, असम्भव, वहां मसेनाके पास साठ हजार सैनिक हैं, जब कि हमारे पास केवल बीस हजार हैं। साथ ही हमारे पास न रसद है, न गोला-बारूद और न तोपखाना। . .हमें किसी तरहसे भी मदद मिलनेकी आशा नहीं है। . .हमारे लिये बस एक ही आशा है, . . .अपनी सेनाकी हिम्मत और आत्म-बलिदानकी भावना। हम रूसी हैं।” इसके बाद फ्रांसीसियोंके प्रहारको रोकते हुये सुवारोफकी सेनाने ४ अक्टूबर १७९९ ई० की रातको आल्पके हिमाच्छादित शिखरोंको पार करनेके लिये पानिखेर डांडेका रास्ता लिया। पहाड़ बहुत ऊंचे और सीधे खड़े थे। सिपाहियोंको कितनी ही जगह हाथों और पैरोंसे चिपक करके बर्फके ऊपर या सीधी खड़ी चट्टानोंपर सरकना पड़ा। एक खड़ी उतराईमें पकड़नेके लिये न कोई पेड़ था, न चट्टान। सुवारोफके प्रोत्साहनके सामने रूसी सैनिकोंके लिये कोई भी बात असंभव नहीं थी। वह अपनी बन्दूकें पकड़े इस भीषण उतराईमें बर्फपर फिसल पड़े। डांडा पार करनेके बाद अंत में सुवारोफकी सेनामें पंद्रह हजार आदमी बच रहे। आस्ट्रियाने रूसके साथ वचनका पालन नहीं किया।

सुवारोफने इतालीमें जिस तरह चमत्कारपूर्ण विजय प्राप्त की, उससे इंग्लैंड, आस्ट्रिया और रूसके बीच में ईर्ष्या और आशंका पैदा होने लगी। आस्ट्रियावाले गुप्त-चुप फ्रांससे संधि करनेके लिये बातचीत चलाने लगे। इसपर पावलने आस्ट्रियाको लिखा :

“भविष्यमें तुम्हारी भलाईका ख्याल मैं छोड़ दूंगा, और केवल अपने और अपने मित्रोंके हितको देखूंगा।” उसने गुस्सामें हो सुवारोफको रूस लौटनेके लिये लिखा : “तुम्हें राजाओंकी रक्षा करनी थी, अब तुम्हें रूसके योद्धाओं और अपने राजाके सम्मानकी रक्षा करनी है।”

सुवारोफ बड़ी कठिनाइयोंके साथ अपनी सेनाको रूस लौटा ले आया, और उसे रूसकी सारी सेनाका “गेनरलिस्सिमो” (महामहासेनापति) की उपाधि प्रदान की गई। लेकिन थोड़े ही समय बाद फिर जारने सुवारोफको उपेक्षित कर दिया; राजधानीमें आनेपर लोग उसका राजसी स्वागत न करें इसके लिये उसका दरबारमें आना मना कर दिया। इसी तरह अपमानित और उपेक्षित रहते १८ मई १८०० ई० को यह महान् सेनापति मरा। लेकिन आजका रूस उसे जितना सम्मान प्रदान कर रहा है, उतनेकी सुवारोफने आशा भी न की होगी।

इसी बीच पावल और इंग्लैंडके भी संबंध बुरे हो गये, जब कि इंग्लैंडने माल्तापर अधिकार कर लिया। नेपोलियनने इस सुअवसरसे फायदा उठाते हुये पावलके साथ समझौता करना चाहा, और माल्ताको फिरसे अधिकार करनेपर उसे रूसको देने तथा बदलेमें अपने सैनिकोंको लौटानेकी मांग किये बिना सारे हथियारोंके साथ रूसी कैदियोंको मुक्त कर देनेका वचन दिया। दिसम्बर १८०० ई० में पावलके साथ नेपोलियनने निजी लिखा-पढ़ी शुरू की, जिसका जवाब पावलने भी इंग्लैंडके विरुद्ध जहर उगलते हुये दिया : “इंग्लैंड अपनी ईर्ष्या, धोखेबाजी और धनसे ही फ्रांसका केवल प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि हीन शत्रु होगा। . .धमकी, षड्यंत्र और पैसोंसे इंग्लैंडने सभी राज्योंको फ्रांसके खिलाफ खड़ा कर दिया—उसके इस पापमें हम भी सम्मिलित हो गये।” अब फ्रांसकी भी स्थिति बदल गई थी। नेपोलियनने फ्रेंच-क्रांतिका गला दबाते ९ नवम्बर १७९९ ई० की प्रतिक्रांति द्वारा वहां

अपनी सैनिक तानाशाही स्थापित कर दी थी। रूस और फ्रांसने चाहा, कि दोनों मिलकर भारतसे अंग्रेजोंके शासनको खतम कर दें। जनवरी १८०१ ई० में पावलने दोन-कसाक सेनाको हुक्म दिया, कि वह ओरेनबुर्गसे बखारा और खीवा होते सीधे सिंधु नदीकी ओर कूच करें। बिना तैयारी किये हुये इतने बड़े अभियानका स्थलमार्गसे भेजना बुद्धिमत्ताकी बात नहीं थी, इसलिये पावलके मरते ही नये सम्राट् अलेक्सान्द्र I ने अभियानको रोक दिया। अपने अन्तिम जीवनमें पावलको काकेशस और ईरानके रास्ते भारत पहुंचनेकी धुन सवार थी। १८ जनवरी १८२१ ई० को उसने गुरजी (जार्जिया) और रूसके स्वेच्छापूर्वक एकताबद्ध होनेकी घोषणा निकाली। अभी हिन्दुस्तानमें अंग्रेजोंकी जड़ अच्छी तरह नहीं जमी थी, इसलिये पावलकी गतिविधिसे अंग्रेज बहुत चिंतित थे। पीतरबुर्गमें स्थित अंग्रेज राजदूत भी उस षड्यंत्रमें शामिल था, जिसमें पावलको अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा। ११ मार्च १८२१ ई० की रातको युवराज अलेक्सान्द्रकी शहसे षड्यंत्रियोंने पावलके कक्षमें घुसकर उसे मार डाला।

साइबेरियाकी जातियाँ—यह हम बतला चुके हैं, कि कैसे येरमकने १६वीं सदीमें सिबिर राजधानीको लेते वहाँके खानको खतम किया, और राजधानीके नामपर देशको सिबेरिया (साइबेरिया) नाम देते रूसकी सीमाको इतिश और तोबोल नदियोंके तट तक पहुंचा दिया। १७वीं सदीमें येनीसेइ नदीके तटसे लेकर अखोत्स्क समुद्र तक सारा पूर्वी सिबेरिया भी रूसके हाथमें चला गया। इस विशाल भूभागमें भिन्न-भिन्न सामाजिक और आर्थिक विकासकी स्थितिकी कई जातियाँ रहती थीं। येनीसेइसे पूर्व अखोत्स्क समुद्र तक इवेंकी (तुङ्ग-गुस) लोग रहते थे, जो कि पुराण-एसियाई जातिसे संबंधित थे। उनके अपने बड़े-बड़े कबीले थे, जिनके अक्सर आपसमें खूनी झगड़े हुआ करते थे। जाइोंमें ये लोग सिबेरियाके ताइगामें शिकार करते और गर्मियोंमें मछलीके मौसिममें नदियोंके किनारे चले आते। गर्मियोंमें उनके तम्बू भोजपत्रके छालसे ढंके रहते, और जाइोंमें वह चमड़ेके होते। बारहसिंगा उनका पालतू पशु था, जिसपर वह अपने सामानको ढोया करते थे। अपने दक्षिणी पड़ोसियोंसे उनको लोहा मिल जाता था। कोई-कोई कबीले हड्डियोंके बने हुये कवचको भी इस्तेमाल करते। भड़कीले रंगवाले कपड़े और चमकीले आभूषण उन्हें बहुत पसंद थे। वह अपने सारे चेहरे पर गोदना गुदवाते थे। इवेंकी बड़े लड़ाकू लोग थे। उनके ऊपर अपने ओझों-सयानोंका बड़ा प्रभाव था। ये ओझा-सयाने देवताओंको अपने सिरपर बुलाते, विशेष पोशाक पहिनकर तम्बूरिन बजाते खास नाच नाचते थे।

आमूर नदीके मुहानेपर भी प्राचीन पुराण-एसियाई जातिसे संबंध रखनेवाली नीवखी (गिलियक) लोग रहते थे, जिनकी मुख्य जीविका मछुवाही थी।

उत्तर-पूर्वी सिबेरियामें ओट्टुल (यूकागिर), निमिलन (कोर्याक), लओराबेतलन (चुकची), इतेल्मेन (कम्सुचदाल) जातियाँ अब भी बर्बर अवस्थामें रहती थीं। उन्हें लोहेका पता नहीं था। उसकी जगह वह चकमक-पत्थर तथा हड्डियोंके हथियारोंका इस्तेमाल करती थीं। उनके छूरे पत्थरके होते थे, और वाणोंके फल चकमकके। लोहेका परिचय उन्हें पहलेपहल रूसियोंद्वारा मिला, इसीलिये अपनी जन-कथाओंमें वह रूसियोंको “लौह-पुरुष” कहने लगे।

ऊपरी येनीसेइ उपत्यकामें प्राचीन कालसे येनीसेइ-किरगिज नामक एक तुर्की जाति रहती थी, जिन्हें चीनी लोग खकास कहते थे, और आज भी खकास ही कहा जाता है। किरगिज येनीसेइके मैदानोंमें घुमन्तू-पशुपालोंका जीवन बिताते थे। अल्ताईके पहाड़ोंमें भी कितनी ही पहाड़ी जातियाँ बसती थीं, जिनमेंसे कुछ लोहधूनसे लोहा बनाकर कई तरहके लोहेके सामानको तैयार करती थीं। अल्ताईके इन लोगोंको ओइरोत-मंगोलोंने अपने भीतर हजम कर लिया, जिससे इस इलाकेका नाम ओइरोतिया पड़ा—आज यह ओइरोत-स्वायत्त-जिलेके नामसे सोवियत संघका एक भाग है।

एवेंकियोंकी भूमिके मध्यमें लेना-उपत्यकाके पिछले हिस्सेमें तुर्की जातिके याकूत रहते थे। उनकी परंपरासे मालूम होता है, कि एवेंकियोंके साथ भारी संघर्षके बाद बैकाल-मार इलाकेके दक्षिणसे आकर वह लेना नदीके तटपर रहने लगे। १७वीं सदीमें याकूत अपने पड़ोसियोंकी अपेक्षा अधिक सभ्य थे। उनकी मुख्य जीविका पशुओं और घोड़ोंका पालन थी। वह लकड़ीके झोपड़ोंमें रहते थे, जिनको आग


जलाकर गरम किया जाता था। धातुका काम भी वह पुराने ढंगसे जानते थे। उनके बनाये हुये लकड़ी की मुट्ठीवाले छुरे तथा कवच रूसी भी बहुत पसंद करते थे। १७वीं शताब्दीमें जन-व्यवस्था याकूतोंमेंसे उठने लगी, जब कि उनके सरदारोंके पास पशुओंके बड़े-बड़े रेवड और धन एकत्रित होने लगा। उनके पास साधारण चाकर और दास भी रहते थे। येनिसेइकी शाखा अंगारा नदी, बैकाल सरोवर, और ऊपरी लेनाकी भूमियोंमें बुर्यत मंगोल लोग रहते थे। यद्यपि इनकी मुख्य आजीविका पशुपालन था, लेकिन वह थोड़ी-थोड़ी खेती और बदलेनके रूपमें कुछ व्यापार भी कर लेते थे। शिकार भी करते थे, लेकिन वह जीविकाका मुख्य साधन नहीं था। याकूतोंकी तरह बूर्यतोंके भी शासक उनके सरदार होते थे। आमूर नदीके किनारे दौर और दूसरी मंचुरियावाली जातियां रहती थीं। १७वीं सदी में दौर उच्च सभ्यताके धनी हो चुके थे। वह गांवोंमें रहते, कई तरहके अनाजों और साग-भाजीकी खेती करते तथा फलदार बगीचे लगाते थे। पशुपालन तो वह करते ही थे, साथ ही उन्होंने चीनसे मुर्गी पालना भी सीख लिया था। जंगलमें समूरी जानवरोंका शिकार भी उनके लिये बहुत लाभकी चीज थी। कृषि और समूरी छालके कारण समृद्ध इस इलाकेकी ओर चीनी सामन्तोंका भी ध्यान गया था, और उन्होंने वहां अपनी धाक जमा रक्खी थी। प्रतिवर्ष चीनी व्यापारी अपने मालको लाकर यहां मांगे दामोंमें बेच बदलेमें समूरी खाल और दूसरी चीजें सस्तेमें ले जाते थे। दौरोंमें धनी लोग अब चीनी रेशम पहनते, चीनी बर्तनोंका इस्तेमाल करते तथा मकान बनाकर चीनियोंकी तरह अपने गवाक्षोंको कागजसे ढांकते थे। उनकी पोशाक भी चीनियों जैसी थी। दौरोंके पास कितने ही दुर्गबद्ध नगर थे। किस तरह रूसी कसाकों और दूसरे साहस-यात्रियोंने पूर्वी साइबेरियामें बढ़कर आमूरके मुहाने तकके सारे भूभागको जीता यह हम बतला चुके हैं।


येरमक (१५८१ ई०), खबारोफ (१६४९-५४ ई०) और पीछे मुरायफ (१८४७—.....ई०) साइबेरियामें रूसके प्रसारके सबसे बड़े वाहक थे। येरमक और खबारोफके कामोंके बारेमें हम पहले बतला चुके हैं, और यह भी, कि किस तरह चीनके साथ होते सीमांती झगड़ोंके बारेमें दोनों राष्ट्रोंने प्रयत्न करके समझौता किया।

पावल I १९वीं सदीके पहले वर्षमें मरा। उस समयतक रूसके राज्यका विस्तार पूर्वी पोलैंडको लेते प्रशान्त महासागर और बेरिंगकी खाड़ीतक था। उत्तरमें वह ध्रुवीय महासागरसे लेकर दक्षिमें मध्य-एसियाके सीमांततक ही नहीं, बल्कि कहीं-कहीं उसके भीतर भी घुसा हुआ था। काकेशस में गुरजी और उत्तरी आजुर्बाइजान उसके हाथमें थे। रूसी सेनाओंने रोम, आल्प्स और बर्लिन तककी विजय-यात्रायें की थीं। पावल हिन्दुस्तानसे अंग्रेजोंको भगाकर अपना शासन कायम करना चाहता था। इस प्रकार १८वीं सदीके अन्ततक रूस दुनियाका एक बहुत ही शक्तिशाली देश बन गया था, इसमें संदेह नहीं। अभी इंग्लैंड उसके मुकाबिलेमें एक धनी बनियेसे अधिक हैसियत नहीं रखता था, लेकिन सारी १९वीं सदीमें, जहां अंग्रेजोंने नई वैज्ञानिक खोजोंसे लाभ उठाकर अपने देशको उद्योग-प्रधान बनाते हुये पूंजीवादी शासनकी दृढ़ स्थापना की, वहां रूसी अभी सामन्तशाहीका मोह छोड़ने के लिये तैयार नहीं थे, जिसके कारण वह अंग्रेजोंके सामने पिछड़ गये—इस पिछड़ेपनको बड़ी तेजीके साथ सोवियतके समाजवादी शासनने दूर किया।

३. (१. जार-वंशवृक्ष)

(१५९८—१८०१ ई०)





चीन-वंशावली : मिङ्ग और छिङ्ग—रूसके पूर्वकी ओर प्रसारके समय उसका मुकाबिला चीनकी शक्तिसे होने लगा था । मंगोल-वंश (१२०६-१३६८ ई०) के बादकी चीनी राजावली इस प्रकार है :—

मिङ्ग-वंश १३६८-१६४४ ई०—राजधानी नानकिङ्ग (१३६८-१४०२ ई०), पेकिङ्ग (१४०३-१६४४ ई०)

रूसी जार

१. ताइ-चू (चू-युवान-चाङ्ग)	१३६८-९८ ई०
२. हुइ-ती	१३९८-१४०२ "
३. चेङ्ग-चू	१४०२-२४ "
४. जे-चुङ्ग	१४२४-२५ "
५. स्वान्-चुङ्ग	१४२५-३५ "
६. यिङ्ग-चुङ्ग	१४३५-४९ "
७. ताइ-चुङ्ग	१४४९-५७ "
यिङ्ग-चुङ्ग (पुनः)	१४५७-६४ "

८. सियान्-चुङ	१४६४-८७ "	
९. स्याव-चुङ	१४८७-१५०५ "	
१०. वू-चुङ	१५०५-२१ "	
११. मू-चुङ	१५६६-७२ "	
१२. शेन्-चुङ	१५७२-१६२० "	मिखाइल (१६१३-४५)
१३. कुवाङ-चुङ	१६२० "	
१४. सी-चुङ	१६२०-२७ "	
१५. सू-चुङ	१६२७ "	

छिङ (मं-चू)-वंश १५८३-१९११ ई०--राजधानी ल्याक्-प्राङ (१६२१-४३ ई०),
पेचिङ (१६४४-१९१२ ई०)

१. ताइ-चू नुर-हा-चू	१५८३-१६२७ "	मिखाइल (१६१३-४५)
२. ताई-चुङ (हू-वाङ-ताई-ची)	१६२७-४४ "	
३. शिः-चू	१६४४-६१ "	अलेक्सान्द्र I (१६४५-७६)
४. शेङ्-चू (खाङ-सी)	१६६१-१७२३ "	फ्योदोर (१६७६-८२)
५. शीः-चुङ	१७२३-३५ "	पीतर I (१६९६-१७२५)
६. काउ-चुङ	१७३५-९५ "	एलिजाबेत (१७४१-६१)
		एकातेरिना II (१७६२-९६)
७. जेन्-चुङ	१७९५-१८२० "	पावल I (१७९६-१८०१)
		अलेक्सान्द्र I (१८०१-२५)
८. स्वान्-चुङ	१८२०-५० "	निकोलाइ I (१८२५-५५)
९. वेन-चुङ	१८५०-६१ "	अलेक्सान्द्र II (१८५५-८१)
१०. मू-चुङ	१८६१-७५ "	अलेक्सान्द्र III (१८८१-९४)
११. तैः-चुङ	१८७५-१९०८ "	निकोलाइ (१८९४-१९१७)
१२. पू-यी	१९०८-११ "	

स्रोत ग्रन्थ

1. History of U.S.S.R. (Ed. A.M. Pankratova, Moscow 1947)
२. ओचेर्क को इस्तोरिइ कळोनिजातिसइ सिविरि १७वीं-१८वीं सदी (मास्को १९४६)
३. यञ्जीकोञ्जानिये इ इस्तोरिया लितेरातुरी (स. स. विलिन्स्की आदि, मास्को १९१४)
४. यञ्जीकोञ्जानिये
५. इस्तोरिया अकातेरिनी वृत्तरोय (२ तोम्, विल्वस्सोफ, बर्लिन १९००)
६. इस्तोरिया त्सात्र्वोवानिया पेत्रा वेलिकओ (५ जिल्द, ओस्त्रियालोऊ, पेत्रेर्बुर्ग, १८१५-७१)
७. ओ देकन्नस्ताख् पो सेमेइनीम् वोस्पोमिनानियाम् (स. वोल्खोन्स्की)
८. इस्तोरिया सससर (४ जिल्द, व. इरव्दोनिकस्)
९. क् वप्रोमु ओ खिस्तियान्स्वे ना रुशि दो व्लादिमिरा (न. वोलोन्स्काया, १९१७)

श्वेत-ओर्दू (२)

(१४२५-१७२८ ई०)

१. बुराक, बरका, कोइरियक-पुत्र (—१४२७ ई०)


श्वेत-ओर्दू (अक-युर्त) के बारेमें हम पहले कह चुके हैं। उसी ओर्दूके प्रतापी खान बुराकने अपने दक्षिणी पड़ोसियोंकी नाकमें दम कर रक्खा था। बुराक खानकी मृत्यु ८३१ हि० (२२ X १४२७—११ IX १४२८ ई०) में हुई। यही बुराक (बोराक) या बरका श्वेत-ओर्दूकी नई शाखाका संस्थापक था, जिसकी राजधानी सिर-दरियाके तटपर सिगनक थी। बुराक खानके दो बेटों गिराई और जानीबेगमेंसे गिराई बापके मरनेपर गद्दीपर बैठा। इस वंशमें निम्न खान हुये—

१. बुराक, बरका, कोइरियक-पुत्र	—१४२७ ई.
२. गिराई, बुराक-पुत्र	१४२७— ”
३. बेरेंदक, गिराई-पुत्र	—१५०९ ”
४. कासिम, जानीबेग-पुत्र	१५०९—१८ ”
५. मीमाश, यादिक-पुत्र	१५१८— ”
६. ताहिर, यादिक-पुत्र	
७. उजियाक अहमद, उज्बेक, जानीबेग-पुत्र	
८. अकनजर, कासिम-पुत्र	—१५८० ”
९. शिगाई, यादिक-पुत्र	१५८०— ”
१०. तवक्कल, शिगाई-पुत्र	—१५९८ ”
११. इशिम, शिगाई-पुत्र	१५९८—१६३५ ”
१२. जहांगीर, इशिम-पुत्र	१६३५—९८ ”
१३. तौफीक, तिअबका, जहांगीर-पुत्र	१६९८—१७१८ ”

२. गिराई, बुराक-पुत्र (१४२७—ई०)

१४९१ ई० में अबुलखैर शैबानीका किपचक भूमिमें प्रताप छाया हुआ था, जिसके डरके मारे गिराई और जानीबेग दोनों भाई किपचक छोड़ भागकर इस्सिकुल-काशगर (मुगोलिस्तान)के खान इस्सनबुगाके पास पहुंचे। मुगोलिस्तानी खानने दोनों भाइयोंको चू-उपत्यका और बशीकुजीमें चर-भूमि दी। जब तक १४६९ ई० में अबुलखैर मर नहीं गया, तब तक दोनों भाइयोंको पश्चिम की ओर नजर डालनेकी हिम्मत नहीं हुई। अब उनके पास दो लाख व्यक्ति हो गये थे—इनके ओर्दूका नाम उज्बेक-कजाक पड़ा था। दोनों भाइयोंने अपनी पितृभूमिके उद्धारका बीड़ा उठाया, लेकिन अबुलखैरके पुत्र भी दबनेवाले नहीं थे, इसलिये जबर्दस्त संघर्ष शुरू हुआ। मुगोलिस्तानके खान महमूदने एक ओर बुराकके पुत्रोंकी सहायता की, तो दूसरी ओर अबुलखैरके पौत्र मुहम्मद शैबानीको भी तुर्किस्तान शहर देकर सहारा दिया। गिराई और जानीबेग इससे रुष्ट हो गये—“शैबानी हमारा शत्रु है, फिर खान क्यों उससे मेल कर रहा है?” अन्तमें दोनों भाइयोंने मुगो-

लिस्तानी खान महमूदसे झगड़ा कर दो लड़ाइयोंमें महमूदको बुरी तरह हराया, जिसका बदला महमूद के छोटे भाई अहमदने उज्बेक-कजाकोंको तीन बार हराकर लिया—इसी समय इनका नाम उज्बेक-कजाक पड़ा, जिसमें कजाक शब्द साधारण डाकूके लिये नहीं, बल्कि साहसियोंके लिये मध्य-एशियामें



प्रयुक्त होता था—उज्बेक-कजाक (=श्वेत-ओर्दू) का अर्थ पहले "साहसी * उज्बेक खानके उलुस-वाले" लिया जाता होगा, पीछे कजाक विशेषण नहीं, बल्कि बुरीकके पुत्रों गिराई और जानीबेगके अनुयायी श्वेत-ओर्दूका दूसरा नाम ही पड़ गया, जो आज भी प्रचलित है।

३. बेरेंदक खान, गिराई-पुत्र (—१५०९ ई०)

गिराई और जानीबेग कब मरे, इसका ठीक पता नहीं है। उनके बाद गिराईका पुत्र बेरेंदक उज्बेक-कजाकोंका खान हुआ। उज्बेक खानका पुराना उलुस अब शैबानी और कजाक दो प्रतिद्वंद्वी भागोंमें विभक्त था, जिनका द्वंद्व बेरेंदकके समयमें भी जारी रहा। आगे चलकर मुहम्मद शैबानी

*तुर्की भाषामें "कजाक" बहादुर (वीर) को कहते हैं।

के किपचक-तुर्क उज्बेक कहे जाने लगे, और बुराक-वंशके अनुयायी कजाक। बेरेंदक उस समय सिगनकमें था, जब कि उज्बेक मुहम्मद शैबानीके पास नोगाई खान मूसाका दूत आया था, और उसने दस्तकिपचकका खान बननेके लिये निमंत्रण दिया। मुहम्मद शैबानी वहां गया। मूसाने स्वागत भी किया, लेकिन अब उज्बेकोंका वास्तविक नेता बेरेंदक खान था, जिसे पसंद नहीं था, कि मुहम्मद शैबानी किपचकका भी खान बने। बेरेंदक सेना लेकर आया, लेकिन शैबानीने उसे मार भगाया। पीछे मूसाने अपने वचनको भंग कर दिया और अमीरोंके राजी न होनेका बहाना करके मुहम्मद शैबानीको खान बनने नहीं दिया। १४९४ ई० में मुहम्मद शैबानी और उसके भाई महमूदने सारे तुर्किस्तान (सिर-उपत्यका) पर अधिकार कर लिया। शैबानीके हटते ही बेरेंदक अपनी सेना लेकर सावरानपर चढ़ आया। अमीर मुहम्मद तरखनके कहनेपर नागरिकोंने महमूद शैबानीको पकड़कर बेरेंदकके चचेरे भाई जानीबेग-पुत्रके हाथमें दे दिया, जिसने उसे सूजक भेज दिया, लेकिन वह भागकर अपने भाई मुहम्मद शैबानीके पास ओतरार पहुंचनेमें सफल हुआ। बेरेंदक सावरान शहरको नहीं ले सका था। इसी समय बेरेंदकके कजाक मुगोलिस्तानके खानसे मिलकर ओतरारके विरुद्ध अपना सैनिक प्रदर्शन कर लौट आये। इसपर शाहीबेग कजाकोंके ऊपर चढ़ दौड़ा। उस समय उनका डेरा अलाताग (वेर्नोये) के पास अलाताउके पहाड़ोंमें था। आखिरमें दोनों पक्षोंमें समझौता हो गया। बेरेंदकने अपनी लड़की मुहम्मद शैबानीके पुत्र मुहम्मद तेमूर सुल्तानको प्रदान की। लेकिन घुमन्तुओंका समझौता तोड़नेके लिये ही हुआ करता था। ११२ हि० (२४ V १५०६-१४ IV १५०७ ई) में कजाकोंने फिर अन्तर्वेदपर आक्रमण कर दिया। शैबानीने उनका जवाब दिया। दो साल बाद १५०९ ई० में फिर कजाकोंने प्रहार किया। इस समय बेरेंदक किपचकोंका नाममात्रका खान था, असली शक्ति उसके चचेरे भाई जानीबेग-पुत्र कासिमके हाथमें थी। कजाकोंकी दो लाख सेना उसके पास थी। जाड़ोंमें मुहम्मद शैबानी कुरुकमें ठहरा हुआ था। जाड़ोंके अन्तमें यकायक कासिमके चढ़ आनेकी बात सुनकर उसने मुकाबिला करना चाहा, लेकिन बहुत हानि उठाकर उसे वहांसे समरकन्द भागना पड़ा, जहांसे भी खुरासानमें हटना पड़ा। इसी समय कासिमने कजाक तख्त लेकर बेरेंदक खानको समरकन्द भगा दिया।

४. कासिम, जानीबेग-पुत्र (१५०९-१८ ई०)

अब खानकी गद्दी गिराईके वंशसे निकलकर जानीबेगके खान्दानमें चली गई। किपचक-भूमि गिराई-जानीबेगके कजाकोंके हाथमें थी। धीरे-धीरे दस्त-किपचककी जगह कजाकस्तानका प्रयोग होता जा रहा था। बेरेंदकके शासनकालमें कासिमने अपनी प्रभुता बड़ा ली थी, लेकिन वह खानके पास यह कहकर नहीं रहता था—“यदि मैं सम्मान नहीं दिखाऊंगा, तो खान नाराज होगा, और सम्मान दिखाना मेरी आत्माके विरुद्ध होगा।” उस समय बेरेंदक सिगनक और मुगोलिस्तानके सीमांतपर रहता था। खान हो जानेपर कासिम किपचकोंका सबसे शक्तिशाली खान था। उसके पास दस लाख सेना थी। इतनी बड़ी सेना जू-छिके बाद किसी खानके पास नहीं रही। कासिमके नौ भाइयोंमें सबसे अधिक प्रसिद्ध यादिक या उज्बेक सुल्तान था, जिसने मुगोलिस्तानके खान यूनसकी चौथी लड़की सुल्तान निगार खानम् (तेमूरी सुल्तान अबूसईदके लड़के महमूद मिर्जाकी विधवा)से शादी की थी। यादिकके मरनेपर वह कासिमकी भी बीबी बनी। नोगाई शेखमिर्जासे लड़ाई करते वक्त ९३० हि० (१० XI १५२३-२८ X १५२४ ई०) बेटेने कासिमको मार डाला, और अपने बाप यादिकके स्थानको चचासे छीन लिया।

५. मीमाश, बिबाश, यादिक-पुत्र (१५१८—ई०)

मीमाशने मुगोलिस्तानके रशीद खानकी लड़की ब्याही थी। वह लड़ाईमें मारा गया।

६. ताहिर, यादिक-पुत्र

भाईके मरनेपर ताहिर गद्दीपर बैठा। ९२९ हि० (२० XI १५२२-११ X १५२३ ई०)

में उसने स्वयं अपने भाईकी विधवा सुल्तान निगार खानमको ले जाकर उसके बापके पास पहुंचा दिया। बाप अपनी बेटीको बहुत प्यार करता था, लेकिन बेटी घुमन्तु जीवनसे तंग थी, इसलिये इजाजत लेकर वह अपने भाईके लड़के सुल्तान सईदके पास चली गई। बुवाके संबंधसे खान सईदने उठकर स्वागत करना चाहा, मगर ताहिरने चगताई खानका ख्याल करते हुये उसके सामने कोर्निश की। ताहिरकी बहिन रशीद खानसे ब्याही गई। ताहिरका सितारा गिर चुका था। पड़ोसी सुल्तानोंसे बराबर लड़ाई-झगड़ा रहता था। ताहिरने अपने भाई अबुल-कासिम सुल्तानको अपने हाथों मारा, जिसपर उसके उलुसके लोगोंने साथ छोड़ दिया। वह अकेला पुत्रके साथ किर्गिज (बुस्त) लोगोंमें चला गया। लड़का भी बापसे तंग आ गया, और ९३६ हि० (५ IX १५२९-२७ VII १५३० ई०) में वह भी साथ छोड़ गया। इसी हालतमें बड़ी दुर्गतिके साथ ताहिरकी मृत्यु हुई। कहां ९२४ हि० (१३ XI-४ VII १५१८ ई०) में उसके पास दस लाख सेना थी और कहां ९४४ हि० (१० VI १५३७-१ V १५३६ ई०) में उसके कजाकोंका चिह्न नहीं रह गया। तीस हजार कजाकोंने मुगोलिस्तानमें पहुंचकर ताहिरके भाई बुइदशको खान बनाया, लेकिन अब कजाकोंके कई खान थे।

७. उजियाक अहमद, उज्वेग, जानीबेक-पुत्र

किपचक कजाकोंकी इस गड़बड़ीमें जगह-जगह उनके कई खान बन गये थे, जिनमें ही यादिक या सैदिक-पुत्र उजियाक भी था। इसने अधिक दिनों तक शासन नहीं किया। उस समय दशत-किपचकमें नोगाइयोंकी शक्ति बढ़ गई थी। नोगाइयोंके अमीर सैदकसे लड़ते हुये उरुक मिर्जिके हाथों उजियाक मरा। उसका पुत्र बुलात (पुलाद, फौलाद) सुल्तान भी अपने पुत्रों सहित नोगाइयोंके हाथों मारा गया। उजियाक खान लघु-ओर्दूके प्रसिद्ध खान अबुल्खैरका पूर्वज था—यह अबुल्खैर शैबानी अबुल्खैरसे अलग था। नोगाइयोंने ९३२ हि० (१८ X १५२५—८ IX १५२६ ई०) में बहुसंख्यक कजाकोंको मार भगाया। १५३३ ई० तक नोगाइयोंकी शक्ति इतनी बढ़ गई, कि उन्होंने ताश्कन्द पर अधिकार कर लिया। नोगाई अमीर यूसुफने १५३७ ई० में अपने विजयोंके बारेमें रूरिकवंशी जार वासिली-पुत्रके पास लिखकर भेजा था।

८. अकनजर, कासिम-पुत्र (—१५८० ई०)

प्रतापी कासिम खानके बेटे अकनजरने कजाकोंके रूठे भागको लौटानेकी कोशिश की। अपने विजयोंके कारण अकनजरका यश बहुत दूर-दूर तक फैला। कजाक और किर्गिज उसे अपना खान मानने में गौरव समझते थे। अकसू और मुगोलिस्तानके शासक अब्दुर रशीद खानके पुत्र अब्दुल लतीफ सुल्तान को इसने लड़ाईमें मारा। ताश्कन्दके राज्यपाल बाबा सुल्तान और शैबानी खान अब्दुल्लाके साथ इसकी प्रतिद्वंद्विता थी। बाबा सुल्तान शैबानी अब्दुल्लासे डरकर तलस नदीपर कजाकोंमें चला गया। दूतने आकर यह खबर मुगोलिस्तानके खानको दी। जांच करनेपर मालूम हुआ, कि अकनजर खान जालिम सुल्तान, यादिक-पुत्र शिगाई सुल्तान आदिके साथ तरस नदीपर डेरा डाले हुये हैं। शिगाई-पुत्र ओन्दन सुल्तानने अब्दुल करीम सुल्तानकी विधवा पत्नीसे ब्याह किया था, और बीबीकी बहिन को जालिम सुल्तानके लिये रख रक्खा था। बाबा सुल्तानके भागकर कजाकोंमें शरण लेनेकी बात भी गलत मालूम हुई, इसलिये गलत खबर देनेवाले गुप्तचरको मार डाला गया। मुगोलिस्तानका खान अपनी सेना ले तलसकी ओर बढ़ा। इसकी खबर पाकर कजाकोंने खानके स्वागतके लिये अपना दूत भेज आज्ञा शिरोधार्य करनेकी बात कही। सुलहनामा हुआ, जिसमें यह भी शर्त थी, कि बाबाके एक लड़केको—जो अपने कुछ अनुचरोंके साथ कजाकोंमें भाग गया था—पकड़कर जिंदा या शिर काटकर भेजा जाय। कजाकोंके दूतको खानने खिलत और इनाम दिया, तथा प्रसन्न होकर उन्हें तुर्किस्तान के चार शहर भी प्रदान किये। मुगोलिस्तानके खानकी उदारतासे तुर्किस्तानमें कजाकोंके पैर जम गये, और पीछे वह खानके राज्यमें भी लूटमार करने लगे। मुगोलिस्तानी ताश्कन्दका राज्यपाल

कजाकोंको रोकनेमें असमर्थ रहा । उसने यस्सी (तुर्किस्तान) और साबरानके शहरोंको भी उनके हाथमें जाने दिया । बाबा अपने आदमियोंके साथ समरकन्द चला गया । उसने खानके विरुद्ध लड़ने के लिये कजाकोंको मिलानेके वास्ते जानकुली बेगको दूत बनाकर अपने समुद्र जालिम सुल्तानके पास भेजा । कजाक इसके लिये तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने जानकुलीको भी मार डालना चाहा । किसी तरह हत्यारोंके हाथसे बचकर उसने बाबाको खबर दी, कि जालिम सुल्तानको तुम्हें मारनेके लिये नियुक्त किया गया है । यकायक जालिम और अकनजरके दो पुत्र काफी सेना ले बाबाकी ओर दौड़े । शराबखानी नदीके तटपर बाबासे उनकी भेंट हुई । उसे अकनजरके पास चलनेके लिये कहा । बाबा जानता ही था, उसके साथ क्या होनेवाला है, इसलिये उसने अपने सैनिकोंको तलवार निकालकर उन्हें काट डालनेका हुक्म दिया । जमीनको उनके खूनसे लाल कर उसने अपने भाई बूजाखुरको अकनजरपर चढ़ाई करनेके लिये कहा—यह १५८० ई० (अकबरके समय) की बात है । शायद इसी लड़ाईमें कई सुल्तानोंके साथ अकनजर मारा गया । अकनजर नोगाइयोंका दुश्मन था । नोगाइयोंपर इस समय रूसियोंका प्रहार हो रहा था, इसलिये अकनजर रूसियोंसे मेल करना चाहता था ।

९. शिगाई, सैदिक (यादिक)-पुत्र (१५८०—ई०)

अकनजरके बाद १५०३ ई० में मारे गये सैदिकका पुत्र शिगाई गद्दीपर बैठा । यह अनुभवी और राजनीति-पटु खान था । इसने एक बार तलसमें बाबाके ऊपर अचानक असफल आक्रमण किया । १५८१ ई० में बाबा सिर-दरियाके पास कराताउमें डेरा डाले हुये था । यहीं उससे मिलनेके लिये तवक्कलके साथ शिगाईका पुत्र आया । दोनोंमें मित्रतापूर्ण बातचीत हुई । अब्दुल्ला शिगाईको खोजन्दका राज्यपाल बना तवक्कलको अपने साथ समरकन्द ले गया । तवक्कलने शैबानी खानके यहां निशानाबाजीमें प्रसिद्धि पाई । खानके बागकी बगलमें बन्दूक चलानेका एक भारी खेल हो रहा था, जहां लम्बे खम्भोंपर लटकती सोने-चांदीकी चमकती गोलियोंपर लोग निशाना लगा रहे थे । इस कठिन लक्ष्य-वेधको तवक्कलने करके दिखाया और इस प्रकार उसे अब्दुल्ला खानसे ज्यादा समीपता प्राप्त हुई । इसके बाद ही जनवरी १५८२ ई० में अब्दुल्ला खानने बाबा सुल्तानके विरुद्ध उलुगतागकी ओर अभियान किया । सिर दरियाके बाद अरिसको भी पार करनेपर सुना, कि बाबा दशतिकिपचककी ओर चला गया है । इसपर अब्दुल्ला अरिस-तटपर अवस्थित कराअसमन (करा-सामा) में कुछ सेना छोड़ बुगान-चोयान नदियोंसे अर्सलनलिकतोईकान (तुर्किस्तान शहरके पास गांव) होते सरीसू पार हो अप्रैलमें उलुगताग पहुंचा । वहां पता लगा, कि बाबा मंगीतों (नोगाइयों) में शरणापन्न हुआ है । बाबाका पीछा करनेके लिये एक सेना छोड़ अब्दुल्ला राजधानीकी ओर लौटा, लेकिन साबरानके मुहासिरेमें दो मासतक रुकना पड़ा । अब्दुल्ला (शैबानी खान) साबरान नदी पारकर शिकार खेलने गया था, जहां उसका पुत्र अब्दुल मोमिन सुल्तान खो गया, जिसे पहुंचा कर शिगाईके छोटे भाई यानबहादुर सुल्तानने शैबानी खानसे बहुत इनाम पाया ।

शिगाई खान अन्तर्वेदके प्रतापी शैबानी खान अब्दुल्लाका पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी था । उसने एक बार फिर किपचकमें शत्रुओंके विरुद्ध अभियान किया । तवक्कलने अपने कजाकोंके साथ शत्रुका पथप्रदर्शन किया, और वह केन्द्रलिक नदी पार हो गये । यहीं जू-छि खानकी कब्र थी, जिसके पास ही उसके कुछ दूत दुश्मनके हाथोंमें पड़कर मारे गये । खबर पा बाबा सुल्तान नोगाइयोंमें भाग गया, और कुछ आदमियोंको शिगाई खानने पकड़कर लूटा । शिगाई खानकी सरगरमीको सुनकर अब्दुल्ला खान फिर उलुगतागकी ओर चला, और ईलांचिक (जिलांचिग) में शिगाईने आकर उससे मुलाकात की, इस प्रकार झगड़ा नहीं हुआ । सिबिरके प्रसिद्ध खान कूचुमके भाई अहमद गिराइने "बुखारा" के अमीर गिराईकी लड़कीको ब्याहा था । उनके बुरे बर्तावके कारण नाराज हो शिगाईने आकर उसे इतिशके तटपर मार डाला । जगताई शाहजादी याशिम बेकिमसे उसे तुकाई या तवक्कल पुत्र पैदा हुआ था, जो बापके बाद कजाकोंका खान बना ।

इन लड़ाइयोंसे मालूम होगा, कि शैबानियोंके प्रतापी खान अब्दुल्लाको उत्तरके घुमन्तू कितना परेशान किये रहते थे। १५९४ ई० में तवक्कलने जार फ्योदोर इवान-पुत्रके पास अपना दूत भेजकर निवेदन किया, कि मैं अपने उलुसके साथ जारकी प्रजा बनना चाहता हूँ, मेरे भतीजे उराज मोहमेतको मुक्त कर दिया जाय। मार्च १५९५ ई० में जारने तवक्कलके प्रस्तावको स्वीकार कर लिया, और कुछ बारूदी हथियार भेजकर उससे कहा, कि बुखाराके खान अब्दुल्लाके साथ शांति रखो, सिविरखान कूचुमको अधीन बनाओ। भतीजेको हम मुक्त कर रहे हैं। उसकी जगह दरबारमें अपने पुत्रको भेजो।

लेकिन, तवक्कल भला अन्तर्वेदकी लूटसे अपनेको क्यों वंचित होने देता? १५९७ ई० में अब्दुल्ला और उसके पुत्र अब्दुल मोमिनके बीचके झगड़ेकी खबर उसे तुर्किस्तानमें मिली। तवक्कल खान—अब वही खान था—बहुत-से कजाक अमीरों और सैनिकोंके साथ ताश्कन्दकी ओर बढ़ा। अब्दुल्लाने तवक्कलको कोई महत्व नहीं दिया, और उसके मुकाबिलेके लिये कुछ सुल्तानों, शाहजादों और पड़ोसी अमीरोंको थोड़ी सेना देकर भेजा। ताश्कन्द और समरकन्दके बीच सख्त लड़ाई हुई, जिसमें अब्दुल्लाकी सेना हारी, बहुतसे सेनापति मारे गये, बाकी बुखारा भाग गये। अब्दुल्ला मुकाबिलेके लिये बुखारासे समरकन्दकी ओर चला, लेकिन बीच हीमें बीमार होकर मर गया। अब तवक्कलकी बत आई। उसने भारी सेना ले तुर्किस्तानसे अन्तर्वेदमें घुसकर अकसी, अन्दिजान, ताश्कन्द, समरकन्द तथा मियानकुल तकके प्रदेशपर अधिकार कर लिया। फिर अपने भाई इशिम सुल्तानको बीस हजार सेना दे समरकन्दमें छोड़ सत्तर-अस्सी हजार सेनाके साथ बुखारापर चढ़ा। पीर मुहम्मद पंद्रह हजार सैनिकोंके साथ बुखाराकी रक्षापर नियुक्त था। उसने शहरके दरवाजोंको बन्द कर लिया, और बीच-बीचमें निकल कर कजाकोंके ऊपर ग्यारह दिनोंतक वह छापा मारता रहा। बारहवें दिन सारी सेना शहरसे बाहर निकल आई। शाम तक भयंकर युद्ध हुआ। कजाक हारकर तितर-बितर हो गये। धोखा देनेके लिये डेरोंमें आग जली छोड़ तवक्कल रातको ही चला गया था। इस हारकी खबर समरकन्दमें इशिमको मिली। उसने अपने भाईके पास संदेश भेजा—“तुम्हें बहुत लज्जा आनी चाहिये, कि मुट्ठीभर बुखारियोंने इतनी भारी सेनाको हरा दिया। अगर तुम यहां आये, तो हो सकता है, समरकन्दके लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करें। खानको देश लौटना चाहिये, और मैं भी अपनी सेना लेकर उसके साथ मिलनेके लिये आ रहा हूँ।” तवक्कल अपने भाईके साथ लौटा। मियानकुल प्रदेशके उजुनसुकाल स्थानमें पीर मुहम्मद पीछा करते हुये सामने आया। एक महीने तक दोनोंकी झड़प होती रही, इसके बाद तवक्कल ने धावा बोल दिया। पीर मुहम्मदके संबंधी सैयद मुहम्मद सुल्तान और दूसरा अफसर मुहम्मद बाकी अतालीक काम आये। तवक्कल भी लड़ाईमें घायल हुआ, और लौटते समय १५९८ ई० में ताश्कन्दमें मर गया। उज्बेकों और कजाकोंके युद्धका कोई फ़ैसला नहीं हुआ।

११. इशिम, शिगाई-पुत्र (१५९८-१६३५ई०)

भाईके मरनेपर इशिमने कजाकोंका नेतृत्व ग्रहण किया। उसने पहले बुखाराके विशद कोई भारी कदम उठाना नहीं चाहा। १६११ ई० में बुखाराके अधिकारच्युत खान वली मुहम्मद और उसके भतीजे इमामकुल्लीके झगड़ेमें इशिम पांच हजार कजाकोंके साथ शामिल हुआ। वली मुहम्मद मारा गया। इस संघर्षमें इशिमका भाई सैयदबी भी शामिल हुआ था। उरगंज (ख्वारेज्म)से भागा अबुलगाजी १६२५ ई० में इशिम खानके पास तुर्किस्तान शहरमें आकर तीन मास तक रहा। ताश्कन्द का तुरसुन खान (अकनजर-पुत्र) जब तुर्किस्तानमें आया था, तो इशिमने अबुलगाजीका यह कहकर उससे परिचय कराया—“यह यादगार-खानके वंशज अबुलगाजी हैं। इनसे पहले हमारे यहां ऐसे राजकुमारने शरण नहीं ली, यद्यपि दूसरे बहुत-से राजकुमारोंने शरण ली थी।” तुरसुन खान अबुलगाजीको अपने साथ ताश्कन्द ले गया। दो साल बाद १६२७ ई० में इशिमने तुरसुनको मार दिया, लेकिन अबुलगाजीको इमामकुल्ली खानके पास बुखारा जानेकी इजाजत दे दी। कजाकों और बुखाराके खान इमामकुल्लीके बीच झगड़ा-लड़ाई चलती रही। कजाकोंने दो बार १६२१ ई० में बुखारियोंको हराया था। अकनजर खानके पुत्र तुरसुन मुहम्मदने बीचमें पड़कर समझौता करवाया।

अब कजाकोंके भारी शत्रु पूर्वमें जुंगारियाके कल्मक (मंगोल) थे, जिनके आक्रमण उनके ऊपर बराबर हो रहे थे। १६३५ ई० में इशिम खानने कल्मक राजा बातुर खुड तैशीके साथ लड़ाई मोल लेकर कजाकोंके ऊपर आफतका पहाड़ ढा दिया। कजाक सेनाका सेनापति इशिम-पुत्र यमगीर (जहांगीर) सुल्तान कल्मकोंके हाथमें बंदी बना। इसीके आसपास इशिम मर गया।

१२. यमगीर, जहांगीर, इशिम-पुत्र (१६३५-९८ ई०)


मित्रताका वादा करके जहांगीर मुक्त हो गया, लेकिन कजाकोंका खान बननेके बाद उसने फिर जुंगरों (कल्मकों) से छेड़खानी शुरू की। अन्तमें १६४३ ई० में पचास हजार सेना लेकर बातुर खुड-तैशी उसके ऊपर पड़ा, और अलतन किर्गिजों और तोकमक कबीलोंको पकड़कर अपने साथ ले गया। इस लड़ाईमें जुंगरोंने कजाक सेनाका इतना सत्यानाश कर दिया, कि जहांगीरके पास सिर्फ छ सौ आदमी रह गये। वह दो पहाड़ोंके बीच ताकमें छिपा हुआ था, जब कि कल्मकोंने आक्रमण किया। जहांगीरने पीछेसे कल्मकोंपर आक्रमण किया। उसके बारूदी हथियारोंने कल्मकोंके बीचमें गजब ढाया। दस हजार कल्मक मारे गये। फिर जल्दी ही बीस हजार सेना जमा करके जहांगीर यलानतुश पहुँचा। बातुरको असफल लौटना पड़ा। अगले साल १६४४ ई० में बातुरने फिर अपने आदमियोंको कजाकोंके साथ लड़नेके लिये जमा किया, लेकिन जहांगीरका मित्र खोसोत मंगोल कबीलेके सरदार कुंदेर्लिंग तार्ईशी बीचमें पड़ा। इस प्रकार कल्मकों और कजाकोंका युद्ध उस समय बच गया, और जहांगीर तुर्किस्तान चला गया।

१३. तौफीक, तवका, तिअबका, जहांगीर-पुत्र (१६९८-१७१८ ई०)

कजाक खानोंमें यह अत्यन्त प्रसिद्ध और जनप्रिय खान था। घुमन्तुओंके झगड़ोंको शांतिपूर्वक मिटानेमें इसने बड़ी सफलता पाई। कमजोर कबीलोंको वह सहानुभूतिसे अपनी ओर मिला लेता, शक्तिशाली कबीलोंको इज्जत करना सिखलाता। इसीने कजाकोंको तीन ओर्दुओंमें बांटा। एक तरह यह बंटवारा बहुत प्राचीन समयसे चला आता था, जब कि इनके पूर्वज आगूज-नुर्क कहे जाते थे। तिअबकाने उनकी जगहपर तीन विभाग किये, और महाओर्दूके लिये तिवोल, मध्यओर्दूके लिये कज्वेक और लघुओर्दूके लिये एतियकको केन्द्र बनाया। तौफीकके जीवनभर कजाक एकताबद्ध रहे। तुर्किस्तान शहर उसकी राजधानी थी।

१६९८ ई० में जुंगर राजा छेवड-अर्पचनने कजाकोंके साथ हुये संघर्षोंके बारेमें चीन-सम्राटके पास लिखा था—“दूसरे कल्मक राजा गंदनने तौफीकके पुत्रको पकड़कर दलाई लामाके पास भेज दलाई लामाके बीचमें पड़नेके लिये कहा, इस पर पुत्रको पांच सौ आदमियोंके साथ छोड़ दिया गया। उस (तौफीक-पुत्र)ने विश्वासघात करके मेरे आदमियोंको मार डाला, और सरदार, उसकी बीबी, उसके बच्चोंको एक सौ किबितका (परिवारों) के साथ छीन लिया। यह घटना हुलियान हान (संभवतः कल्मकोंका ग्रीष्म वासस्थान उलुगताग-पर्वतमाला)में हुई। तवकाने इसके बाद अपनी बहिनके साथ बापके पास जाते तोरगुत राजा आयुकापर रास्तेमें हमला किया। फिर हमारे देश से अपने देश लौटकर जाते एक रूसी करवांको लूटा।” यह सब दोष कल्मकोंने तवका (तौफीक) और उसके कजाकों पर लगाया। कल्मकोंके साथ लड़ाई लड़कर कजाकोंने अपना भारी अनिष्ट किया। इसीके कारण वह अपनी पुरानी भूमिसे भागनेके लिये मजबूर हुये, और उनके कबीले भी छिन्न-भिन्न हो गये। अन्तिम दिनोंमें तवका खानका भी जोर कम हो गया। उसके सरदार अपने-अपने कबीलोंको ले स्वतन्त्र हो गये। कजाकोंके तीनों ओर्दू अपने स्वतन्त्र अमीरोंके शासनमें रहने लगे, जिनमें मध्य-ओर्दू बहुसंख्यक और अधिक शक्तिशाली था, यही अपनेको इवेत-ओर्दूका असली उत्तराधिकारी मानता था। १७१८ ई० में कल्मकोंके आक्रमणसे परेशान होकर तौफीक खान, खायेप खान और अब्दुलखैर खानने साइबेरियामें जार पीतर I के राज्यपाल राजुल गगारिनके सामने जाकर अपनेको रूसके अधीन कर दिया। तवका १७१८ ई० में मरा।

३. (२. श्वेत-ओर्दू-वंशवृक्ष)
(१४२५-१७२८ ई०)



स्रोत ग्रन्थ

१. तारीखे-रशीदी (मिर्जा मुहम्मद हैदर)
२. History of Mongol (H. H. Howorth)

नोगाई

(१३००-१७२४ ई०)

१. नोगाई (-१२९९ ई०)

किपचक भूमिमें प्राचीन समयसे ही वहांके तुर्क कबीलोंको अपने सामन्तोंके नामपर नया नाम लेते देखा जाता है, इसलिये नोगाई नाम होनेका यह अर्थ नहीं, कि उनका आरम्भ जू-छि-प्रपौत्र तेवल-पुत्र तारतार-पुत्र नोगाईके समयसे होता है। ईसाकी आरम्भिक सदियोंमें हूणोंको हमने बल्काशसे कास्पियनके उत्तरी तट तक फैलते देखा, उनसे पहले यह भूमि शकोंकी थी। एक तरह मंगोलायित जातिका इस भूभागमें निवास इसी समयसे आरंभ होता है। तुर्कोंकी मारसे जब पूर्वके अवार भाग, तो इनमेंसे कितनोंने अवारका नाम कायम रक्खा और कितने ही अपनी बैल-गाड़ियोंपर घुमन्तू-जीवन बितानेके कारण कड़ या कड़-ली कहे गये। अवारोंने ठप्पा प्राचीन हूणोंके इन वंशजोंपर अपने नामका नहीं लगाया, लेकिन अवारोंके प्रतिद्वंद्वी और उत्तराधिकारी तुर्कोंने जब चीनकी सीमासे कास्पियनके उत्तर तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया, तबसे इन्हें तुर्क कहा जाने लगा—आज भी इस भूमिके उनके वंशज कजाक तुर्कोंकी एक शाखा माने जाते हैं। मंगोलोंके समयमें इन असंख्य मंगोलायित ओर्दुओंमेंसे एकका नाम खानजादा नोगाईके नामसे नोगाई पड़ा। उससे पहले नोगाई कहे जानेवाले कबीले बोल्गासे पश्चिममें दनियेपरके पार तक दक्षिणी रूसमें पेचेनगाके नामसे चरवाहीका जीवन बिताते थे। पेचेनगा जू-छिके पुत्र तेवल या तारतारको जागीरमें दिये गये थे, जो पीछे उसके पुत्र नोगाईके हाथमें आये। नोगाई सुवर्ण-ओर्दूके प्रतापी खान बरकाके समय प्रधान-सेनापति था। उसने ईरानके हुलाकू-वंशी खानोंको कई बार काकेशसकी भूमिमें हराया था, यह हम बतला आये हैं। इसने कान्स्तान्तिनोपलके सम्राट् मिखाइल पलियोलोगस् (१२००-६१ ई०) की लड़की यूफियोसिनेसे ब्याह किया था। मिखाइलकी दूसरी लड़की मरिया हुलाकू खानसे ब्याही थी। नोगाई बहुत प्रभावशाली मंगोल राजकुमार था, यह भी हम बतला चुके हैं। दोनसे दन्यूब तककी भूमिका वह स्वामी था, और बुल्गारी (बोल्गा) का राजा भी उसके अधीन था। १२९९ ई० के आसपास सुवर्ण-ओर्दूके खान तोकताईने दनियेपर पार हो ओजीमें जिस तरह बूढ़े नोगाईको घायल किया, और आखिरमें वह मर गया, यह बतला आये हैं। इसीके समयसे पुराने पेचेनगा नोगाई कहे जाने लगे। आगे चलकर इनके दो भाग हुये, जिनमें महानोगाई यायिक (उराल) और यम्बा नदियोंके बीचके प्रदेशके दक्षिणी भागमें रहते थे, ये पूरी तौरसे मुसलमान हो गये थे। इनका दूसरा भाग बाश्किरोंके सीमांतपर रहता था, जो बहुत कुछ पुराने मंगोलोंके धर्म और रीति-रवाजोंका पालन करते थे। इन्हींमें सिबेरियाके खान थे।

२. चुके, चुको, नोगाई-पुत्र (१३०० ई०)


नोगाईके मरनेपर उसके लड़के चुकेको पकड़नेके लिये तोकताई खानके आदमियोंने बहुत कोशिश की, मगर वह हाथ नहीं आया। पहले वह आस (उबान) में गया, फिर वहांसे बुल्गारियामें अपने बहनोईके पास चला गया, किन्तु १३०० ई० के आसपास उसका शिर काटकर खानके पास भेज दिया गया।

३. बुरी, नोगाई-पुत्र (—१३०१ ई०)

यह इलखान (ईरानी) अबकाका दामाद था। इसने पिताकी हत्याका बदला लेना चाहा, लेकिन तोकताई खानको षड्यंत्रका पता लग गया, और यह १३०१ ई० में मारा गया।

४. कराकिजिक, चुके-पुत्र

नोगाईका खानदान एक-एक करके सुवर्ण-ओदूके खानोंकी कोपाग्नमें भस्म हो रहा था, लेकिन राजकुमार नोगाईके प्रताप और दीर्घकालीन शासनके कारण उसके उलुसका समय-समयपर बिखराव-जमाव होता रहता था, जिसके ही कारण नोगाई कबीलेका नाम इतने समय तक बना रहा।



अपने बाप और चचाके मारे जानेके बाद कराकिजिक अपने दो संबंधियों तथा तीन हजार अनुयायियोंके साथ साइबेरियाके शमसमान देशके अबादुल स्थानमें गया, जहाँसे वह तोकताके राज्यमें जब-तब लूट-मार करता रहा। शमसमान लोगोंने कराकिजिक और उसके अनुयायियोंको बड़े सम्मानके साथ रक्खा, और वह गुइउक या यायिक (उराल) नदीकी उपत्यकामें बस गये।

जब बा-तू-वंश निर्वंश हो गया, तो अमीरोंने लाकर शैबानी-वंशज खिजिर खानको सुवर्ण-ओर्दुका खान बनाया, जिसे हटाकर जेंक्रियाने अपने पुत्र करा नोगाईको खान बना दिया।

५. करा नोगाई, जेंक्रिया-पुत्र

करा नोगाईको करा तोगाई भी कहते हैं। इसके अधीन वोल्गाके पूर्वी इलाकेमें नोगाइयोंके कई कबीले थे। करा नोगाईके बाद फिर नोगाइयोंके खानोंका सूत्र विलुप्त हो जाता है, और तेमूर-लंगके समकालीन इदिकूके समयमें फिर हम उन्हें प्रभावशाली कबीलेके रूपमें देखते हैं।

§ २. महानोगाई (१४३१ ई०)

१. नूरुद्दीन, इदिकू-पुत्र (१४३१ ई०)

इदिकूको मंगुतोंका वेग कहा गया है, और मंगुत नोगाई ही थे, इसमें संदेह नहीं। इदिकू तेमूर-लंगके प्रभावशाली अमीरोंमेंसे था। तोकतामिशके विरुद्ध तेमूरके अभियानमें यह उसका प्रधान-पथप्रदर्शक रहा। तोकतामिशकी हारके बाद इदिकू तेमूरसे छुट्टी लेकर अपने कबीलेमें चला गया। तेमूर कुतुलुक क्विपचक-खानोंकी गद्दी चाहता था, और इदिकू उसका चाणक्य था। १३९९ ई० में तेमूर कुतुलुकके मरनेपर क्विपचकके सिंहासनपर इदिकूने तेमूरके भाई सादीबेगको बैठाया। फिर १४०७ ई० में उसे हटाकर पुलादबेगको खान बनाया। १४३१ ई० में तोकतामिश-पुत्र कादिरबरदीसे जो संघर्ष हुआ, शायद उसीमें इदिकू मारा गया। इदिकूके मरनेपर उसके पुत्र गाजी नोरोज और मंसूरने रूसमें शरण ली, तथा उसके दूसरे पुत्र कैकुबाद और नूरुद्दीन तूरान (तुर्किस्तान) की ओर भाग गये।

इदिकूके समय तक पुराने नोगाइयोंकी परंपरा जारी रही, और आदिम राजकुमार नोगाई, और अन्तिम इदिकूके कालोंमें नोगाई कबीला शक्तिशाली और बहुसंख्यक रहा। पुराने कबीलेके पतनके बाद उसका अधिकांश भाग यायिक (उराल) और यम्बा नदियोंके बीचमें रहता था। इदिकू-पुत्र नूरुद्दीन उनका खान बना। यही महानोगाई कबीलेका संस्थापक था।

नूरुद्दीनको अपने पिताका उलुस बहुत क्षीण रूपमें मिला था, जिसके अस्तित्वको वह कायम भर रख सका।

२. ओकस, नूरुद्दीन-पुत्र (१४८७ ई०)

१५ वीं सदीके मध्यमें कजाक खानोंके भीतर नोगाइयोंका अब काफी असर बढ़ चुका था। उनके दोनों भाइयों मुहम्मद अमीन और अलीखानके झगड़ोंमें नोगाई अलीके समर्थक थे। लेकिन, अलीको रूसी पंसद नहीं करते थे। १४८७ ई० में रूसियोंने अली पर आक्रमण करके उसे पकड़ लिया। दो साल बाद १४८९ ई० में त्यूमनके शासक तजार ईवक, मिर्जा ओकास, या तत्पुत्र हसन, मूसा, और यमागुरचीने जारके पास अलीको छोड़ देनेके लिये चिट्ठी लिखी थी।

३. यमागुरची, ओकस-पुत्र (१४९९ ई०)

अब नोगाइयोंका प्रभाव यही था, कि वह कजाक खानोंके आपसी प्रतिद्वंद्वितामें किसी पक्षके सहायक होते रहे। यमागुरची और मूसाने कजाक खान अब्दुल लतीफके ऊपर उसके भाई मुहम्मद अमीनकी ओरसे हमला किया, लेकिन अब्दुल लतीफकी पीठपर रूसी थे, इसलिये उन्हें हारना पड़ा। शायद इसी समय यमागुरची मर गया। १५०५ ई० में हम कजाक खान मुहम्मद अमीनको चालीस हजार कजाकों और बीस हजार नोगाइयोंके साथ रूसी सीमांतपर आक्रमण करते देखते हैं। इसी युद्धमें मुहम्मद अमीन खानका साला मूसा मारा गया।

१५१७ ई० से १५२६ ई० तक वोल्गापारके नोगाई यायिक (उराल) और कास्पियनके तट पर तीन भाइयोंमें विभक्त थे, जिनमें (१) सिदियक खान सेरायचुक नगरका स्वामी था, यायिक-उपत्यका इसीके हाथमें थी, (२) हसन (गसन) को कामा-वोल्गा और यायिक नदीके बीचका इलाका मिला था, और (३) शेख ममाईको सिबिरवाला भाग तथा पास-पड़ोसका इलाका ।

४. शेख ममाई, मूसा-पुत्र (१५२६ ई०)

इसके बारेमें हमें ज्यादा मालूम नहीं ।

५. युसुफ मिर्जा, मूसा-पुत्र

इसका पता भी इसके पुत्र अली मिर्जाके कारण लगता है ।

६. अली मिर्जा, युसुफ-पुत्र (१५५१ ई०)

पासमें होनेके कारण नोगाई रूसके सीमांतमें हर वक्त खतरा पैदा किये रहते थे, जिसके लिये रूसियोंको अपने सीमांतको किलाबंद करनेकी बड़ी जरूरत पड़ती । अली मिर्जाने १५५१ ई० में क्रिमियाके खान साहेब गिराईके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन खानने उसे हरा दिया । वोल्गा और दोन पार करके क्रिमियाके पास पहुंचना, यही बतलाता है कि अभी सोलहवीं सदीके मध्यमें वहां कोई ऐसी शक्ति नहीं पैदा हुई थी, जो कि अली मिर्जाके रास्तेमें रुकावट पैदा करती । अली मिर्जा कजानमें रहता था । उसके कबीलेने नाराज होकर उसे निकाल यादगारको गद्दीपर बैठानेके लिये बुलाया । मास्कोके जारने इसे पसंद नहीं किया, और अक्टूबर १५५२ ई० में उसने आक्रमण करके कजानको ले लिया ।

७. इस्माईल मिर्जा, मूसा-पुत्र (१५६४ ई०)

इसीके समयमें १५५८ ई० में अंग्रेज व्यापारी जेन्किन्सन अस्त्राखान पहुंचा था । वह लिखता है कि वोल्गाके बायें तटकी सारी भूमि—अस्त्राखानसे कास्पियन-तट होते तुर्कमानोंकी भूमि तकका प्रदेश—मंगुतों (नोगाइयों)का प्रदेश कहा जाता है । यहाँके लोग मुसलमान हैं । १५५८ ई०में जो भयंकर गृहयुद्ध हुआ था, जिसके साथ ही अकाल-महामारीने आक्रमण किया, उससे उनके एक लाख आदमी मर गये । जेन्किन्सन लिखता है—“इस तरहकी महामारी इस भूभागमें कभी नहीं देखी गई । नोगाइयोंकी भूमि चरागाहोंकी भूमि है । इस महामारीके बाद वह उजाड़ हो गई, जिससे रूसियोंको संतोष हुआ, क्योंकि उनके साथ उन्हें बहुत दिनोंसे भयंकर लड़ाइयां लड़नी पड़ रही थीं । जब नोगाई कबीला अच्छी अवस्थामें था, उस समय वह कई भागोंमें विभक्त था, जिन्हें होर्द (ओर्दू या उर्दू) कहते हैं । हरेक ओर्दूका अपना एक राजा होता है, जिसे मुर्जा (मिर्जा) कहा जाता है । सारा ओर्दू उसकी आज्ञा मानता है । इनके न घर हैं न नगर, बल्कि यह खुली जगहोंमें रहते हैं । हरएक मिर्जा (राजा) अपने ओर्दू या लोगोंको आसपास लिये हुये रहता है, जहां उनकी बीबियां, बच्चे और पशु भी रहते हैं । एक चरागाहकी घासके खतम हो जानेके बाद, वह दूसरी जगह चले जाते हैं । जब वह चलते हैं, तो ऊंटोंसे खींची जानेवाली गाड़ियोंपर उनके घरकी तरहके तम्बू भी चलते हैं । इन्हीं गाड़ियोंमें उनके बीबी-बच्चे तथा सारी सम्पत्ति लदी रहती है । हरेक अमीरके पास दासियोंके अतिरिक्त चार-पांच बीबियां होती हैं । नोगाई सिक्केका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कपड़ों और दूसरी चीजें अपने पशुओं से बदलते हैं । उन्हें युद्ध छोड़ और किसी विद्या और कलासे प्रेम नहीं और युद्धमें वह सिद्धहस्त हैं, अधिकतर पशुपालका जीवन बिताते हैं । उनके पास पशु-धन बहुत अधिक है—वस्तुतः पशु ही उनकी सम्पत्ति है । वह मांस अधिक खाते हैं, जो विशेषकर घोड़ेका होता है । घोड़ेका दूध पीते हैं, उसका मद्य (कूमिस) भी बनाते हैं । विद्रोह, चोरी, डकैती और हत्या इनके स्वभावमें हैं । न वह

अनाज खाते हैं और न रोटी, इसके लिये ईसाइयोंका वह उपहास करते हुये कहते हैं—“तुम सर्कंडेकी फुन्गी खाते हो और वर्षाका पानी पीते हो, फिर क्यों न कमजोर रहोगे? हम खूब मांस खाते हैं, दूध पीते हैं, इसीलिये हम ताकतवर हैं।” जेन्किन्सन जब पेरे-बोलोग (प्राग्-बोल्गा) में पहुंचा, तो वहां उसे एक नोगाई ओर्दू मिला। पेरे-बोलोग पीछे जारित्सिन और आजकल स्तालिनप्रादके नामसे पुकारा जाता है। यहींपर बोल्गा और दोनके बीचमें नावोंको स्थल-मार्गसे पार कराया जाता था। आज बोल्गा-दोन-नहरके हो जानेसे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पेरेबोलोगमें मिले नोगाई-ओर्दूके बारेमें जेन्किन्सनने लिखा है—“इसमें घरके आकारवाली गाड़ियोंको करीब एक हजार ऊंट खींच रहे थे। यह घर एक विचित्र तरहके तम्बू थे, और चलते समय दूरसे नगर जैसे मालूम होते थे।” यह ओर्दू नोगाइयोंके राजा (मिर्जा) इस्माईलका था, जो कि जेन्किन्सनके अनुसार “सभी नोगाइयोंमें सबसे बड़ा राजा है। उसने बाकी सभीको मार डाला या भगा दिया, अपने भाइयों और बच्चों तकको भी नहीं छोड़ा। रूसके सम्राटके साथ सुलह करके अब वह नोगाइयोंपर शासन करता है, और रूसी भी नोगाइयोंके साथ शांति पा रहे हैं।” अस्त्राखानमें महामारी और अकालका क्या असर हुआ, इसके बारेमें जेन्किन्सन लिखता है—“वहां बहुत-से लोग भूखसे मर गये। सारे द्वीप (अस्त्राखान) में मुर्दोंका ढेर मिलता है, जो बिना जलाये हुये जानवर जैसे मालूम होते हैं। देखकर बड़ी जुगुप्सा होती है। इन अस्त्राखानी नोगाइयोंमेंसे बहुतोंको रूसियोंने बँच डाला, और दूसरोंको द्वीप (अस्त्राखान) से निर्वासित कर दिया। अगर मेरे पास एक हजार मुद्रा होती, तो मैं सुंदर-सुंदर तारतार बच्चोंको उनके मां-बापोंसे खरीद सकता था। इंगलैंडमें जो रोटी छ पेन्समें मिलती है, उसमें मैं एक लड़के या तरुणीको खरीद सकता था। लेकिन उस समय इस तरहके सौदेसे हमें अधिक आवश्यकता थी खाद्य पदार्थकी।”

इस्माईलके समयमें नोगाइयोंकी यह हालत थी। अस्त्राखानपर रूसियोंने अपनी दृढ़ प्रभुता जमा ली थी। नोगाइयोंको उनके सामने सिर झुकानेके लिये मजबूर होना पड़ा था। इस्माईल १५६३ ई० के अन्त या १५६४ ई०के आरम्भमें मरा, अर्थात् उसी समय, जब कि अतितरुण अकबरने भारतमें अपने राज्यको संभाला था।

८. दीनमुहम्मद, इस्माईल-पुत्र (१५६४ ई०)

यह सिबिरके कुचुम खानका समकालीन था। इसने अपने पुत्र अलीकी शादी दीनमुहम्मदकी लड़कीसे की थी। बोल्गा और दोनके पास अभी रूसियोंकी बस्तियां नहीं आबाद हुई थीं, और नोगाई कबीलेका ही यहाँपर निवास था। उनके पड़ोसमें क्रिमियाके तारतार थे। वह रूसी ईसाइयोंको मुसलमान तारतारोंके ऊपर इस तरह हावी होते देखना नहीं पसंद करते थे। दोनोंने मेल करके अपनी संयुक्त सेना ले ७ मई १५८० ई०में अस्त्राखानको घेर लिया, किन्तु चंद दिनोंके असफल मुहासिरेके अतिरिक्त उन्हें कुछ हाथ नहीं आया। इस समयतक उराल (यायिक) -उपत्यकामें कसाक रूसी जैसे लड़ाकू लोग आ बसे थे, जिनका नोगाइयोंसे झगड़ा होता रहता था। दोनके ऊपरी भागमें भी रूसी कसाक रहते थे। उन्होंने पहुंचकर अस्त्राखानपर अधिकार करके सीमांती इलाकोंमें लूट-मार शुरू की। व्यापारियोंको ही नहीं, जारके दूतमंडलको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं, कि इस समय निम्न-बोल्गाकी भूमि नोगाइयों, रूसी कसाकों तथा इवान IV के संवर्षोंकी भूमि बनी हुई थी। इवानने एक बड़ी सेना जेनरल इवान मुरविकनकी अधीनतामें भेजी, जिसने शत्रुओंको हराकर अस्त्राखानको मुक्त किया। इन्हीं दोन-कसाकोंका एक नायक थेरमक था, जिसने सिबिर विजय किया, और जिसके बारेमें हम पहले कह चुके हैं। मुरविकन द्वारा भगाये हुये कसाकोंका एक भागने कास्पियनके पश्चिमी-तटपर तेरेक नदीकी ओर जा वहां अपना उपनिवेश बसाया। एक और भागने कास्पियन-तटसे होते यायिक (उराल) नदीके मुहानेपर जाकर डेरा डाला। १५८० ई०में इन कसाकोंने अपने अंधियोंसे नोगाइयोंकी राजधानी सरायचुकके बारेमें सुना, और वह उस पर चढ़ दौड़े। शहरपर अधिकार कर

उन्होंने मकानोंमें आग लगा दी। जीते नोगाइयोंपर ही उन्होंने अत्याचार नहीं किया, बल्कि कब्रोंमेंसे उनके मुर्दोंको भी निकालकर बाहर फेंक दिया।

९. उरुस, इस्माईल-पुत्र (१५८० ई०)

उरुसके पूर्वी सीमांतपर सिबिरके खान कुचुमका राज्य था, और पश्चिममें क्रिमियाके खान मुहम्मद गिराई का। इसके सीमांतपर रूसके अधीन प्रदेश थे, जिनमें कहीं-कहीं रूसियोंकी भी बस्तियां बसती जा रही थीं। उरुसने १५८३ ई०में मुहम्मद गिराई और कुचुम खानकी सहसे कामा-तटके इलाके-में लूट-मार मचाई; लेकिन, इन जगहोंमें बसनेवाले रूसी हिम्मतवाले कसाक थे। उन्होंने १५८४ ई० में अपने लिये उरालस्क नगर बसाया। नोगाइयोंके आक्रमणका हर वक्त डर लगा रहता था, इसलिये उन्होंने नगरके चारों ओर मिट्टीके घुस खड़े कर दिये। पूर्वकी ओर रूसियोंके विस्तारमें सबसे पहली और बड़ी बाधाके रूपमें नोगाई मौजूद थे।

१०. अल्ता, उलिशाइन और यान अरसलन, उरुस-पुत्र (१६०१ ई०)


१६०१ ई०में नोगाइयोंके दो भाग हो गये थे, जिनमेंसे एकका नाम उरुस था, और दूसरेका कस्साई (छोटा)। अल्ता और उलिशाइन दोनों भाई अपने चचा या मामा कस्साईके ऊपर आक्रमण करना चाहते थे। दोनों कबीलोंके आपसी संघर्षके मारे ओर्दूके दो भाग हो गये। १६०८ ई०में उरुस कबीलेने कस्साईके त्यूमन इलाकेमें घुसकर पिशमा-तटकी बस्तियोंको लूटा, लेकिन अन्तमें उन्हें हारकर भागना पड़ा। १६१३ ई० में अभी भी नोगाई इतने शक्तिशाली थे, कि उन्होंने इश्तेराकके नेतृत्वमें सारे उरुसको ही नहीं लूटा, बल्कि ओका नदी पार हो उत्तरमें कलोम्ना, सेरपुकोफ और मास्कोके पास तकके गांवोंको भी नहीं छोड़ा। ये घुमन्तू कबीले स्थायी निवासी रूसियोंके लिये उस समय भी बड़े खतरेकी चीज थे, जब कि भारतमें जहांगीरका राज्य था।

नोगाइयोंमें एक तरहकी आनुवंशिक बीमारी थी, जोकि इसी भूमिमें प्राचीनकालमें रहनेवाले शकों (सिथियनों) में भी पाई जाती थी—जिसका कारण सिरियाकी उरानिया देवीका मंदिर लूटने के लिये देवीका शाप समझा जाता था। ग्रीक लेखक हिप्पोक्रातने सिथियनोंके बारेमें लिखा है—“सिथियनोंके भीतर कुछ ऐसे लोग हैं, जो कि हिजड़े होते हैं, और स्त्रियोंके सभी काम करते हैं। इसी-लिये उन्हें इनारी (नारी-समान, स्त्रैण) कहा जाता है।” नोगाइयोंमें इस बीमारीका पता आधुनिक कालमें बेइनेग्स नामक एक विद्वान्ने लगाया। कल्पोतने यह भी लिखा है—“यह एक तरहकी अचिकित्स्य बीमारी है, जोकि किसी साधारण रोग या अधिक उमरके कारण होती है। उस समय मर्दोंके चमड़ेमें झुरियां पड़ जाती हैं, और उनकी जो चंद बालोंकी दाढ़ी होती है, वह भी गिर जाती है। फिर आदमी बिलकुल स्त्रीका रूप ले लेता है। वह बिलकुल स्त्रीका-सा मालूम होता है, और स्त्रियोंसे ही मेल-जोल रखता है।”

१८वीं सदीके पूर्वार्धमें पहुंचकर नोगाइयोंकी शक्ति एक प्रभुताशाली कबीलेके तौरपर खतम हो जाती है, और पीछे इनका नाम भी लुप्त होने लगता है। बुखाराका आखिरी राजवंश मंगीत नोगाइयोंमेंसे ही था, लेकिन अब उनके लिये भी नोगाई शब्द अपरिचित-सा होता जा रहा था। अजोफ सागरके पास रहनेवाले नोगाई कसाई (कसबुलाद)के ओर्दूसे संबंधित थे। कसाईको लघु ओर्दूका संस्थापक माना जाता था। कसाईके वंशज अरसलनबेग, मुजाबेग, मूसाबेग, तोगानबेग, कसबुला, आदि लघु नोगाईके सरदार थे।

३. (३ नोगाई-वंशवृक्ष)

१३००-१७२४ ई०



§ ३. कराकल्पक

कराकल्पक आजकल निम्न वधु-उपत्यका और अराल सागरके तटपर रहते हैं, जहाँपर उनका सोवियत स्वायत्त गणराज्य स्थापित है। यह भी नोगाई ओर्दूकी ही शाखा थे, इसलिये यहाँपर उनके इतिहासपर भी एक सरसरी नजर डालना आवश्यक है।

कराकल्पक अराल-समुद्रके पासके मैदानोंमें तथा बुखारा और खीवाके सीमातक आकर बस गये। शायद यह महानोगाइयोंके मुर्जा उरुसके पुत्र अल्लाके साथ संबंधित थे। इनके पड़ोसी इन्हें मङ्गू (चिप्टी नाकवाला) कहा करते थे। परंपरा बतलाती है, कि जब अमीर तेमूर-लंगने उनकी राजधानी वोल्गार नगरको नष्ट कर दिया, तो वह सिर-दरियाके मुहानेपर भाग आये। सूर्यकी धूपसे बचने या शोक प्रकट करनेके लिये इन्होंने काली टोपी पहिननी शुरू की, जिसके कारण करा-कल्पक (काली-टोपी) इनका नाम पड़ गया। एक दूसरी भी परंपरा है, जिसे कराकल्पकोंके दूत मुरादशेख

और दूसरोंने ओरेनबुर्गके रूसी वीयवोदके पास कही थी : कराकल्पक लोग एक समय अस्त्राखान और कजानके बीच बोलगाके पहाड़ी किनारोंपर रहा करते थे । जब रूसियोंने कजान (१५५२ ई०) और अस्त्राखान (१५५६ ई९) के राज्योंको खतम कर दिया, तो यह कबीला वहांसे भाग आया । वह अपने को कराकिपचक कहा करते थे, और अपना उद्गम नोगाइयोंके अल्ता-ओर्दूसे बतलाते थे, लेकिन पड़ोसियोंने उन्हें काली टोपीके कारण कराकल्पक कहना शुरू किया । मंगुत या मंगित नामकी सार्थकता अब भी उनकी चिप्टी नाकसे है ।

१७१५ ई०में यात्री बेल बोलगाके किनारेपर आया था । वह समाराके बारेमें लिखते हुये कराकल्पकोंका भी उल्लेख करता है : समारा (वर्तमान कुइविशियेफ) को एक खाई और धुस्सोंसे किलाबंद किया गया है, जिसमें थोड़े-थोड़े फासलेपर तोपोंके रखनेके लिये लकड़ीके मीनार बने हुये हैं । यहां पूर्वके रेगिस्तानमें रहनेवाले कराकल्पकों (काली टोपियों)के आक्रमणका डर रहता है; इसीलिये यह सावधानी रखी गई ।

कराकल्पकोंके पहले दो भाग हुये—

(१) ऊपरी कराकल्पक—यह सिरके मुहानेसे ताशकन्द तक पाये जाते थे । जाड़ोंमें इनके युर्ता (डेरे) किसी निश्चित जगहपर होते, लेकिन गर्मियोंमें ये चरवाही करते घूमते-फिरते हैं । इनमें खानोंकी उतनी नहीं चलती थी, जितनी कि खोजों (संत-मंहतों) की । इनमेंसे अधिकांश १८वीं सदीके अन्तमें लड़ाकूपन छोड़कर कुछ-कुछ खेती करने लगे । कजाक इन्हें बहुत सताया करते थे, इसलिये तुर्किस्तान शहर और ताशकन्दके पासवाले कराकल्पकोंने जुंगारियोंके कल्मकोंकी अधीनता स्वीकार कर ली थी ।

(२) निचले कराकल्पक—कराकल्पकोंके कुछ कबीले अराल-समुद्रके तट तथा कुबान नदीके दक्षिणके प्रदेशमें रहते थे । १८वीं सदीके आरम्भमें रूसियोंके साथ इनका सम्पर्क हुआ । १७३२ ई०में कजाकखान अबुल्खैरने अपने डेरेको सिरदरियाकी उपत्यकामें परिवर्तित कर दिया, और रूसकी अधीनता स्वीकार कर ली । उसने अपनेको इस तरह मजबूत करके निम्न-सिर-उपत्यकापर भी दावा किया । रूसी प्रतिनिधि दिमित्री ग्लादिश्येफ समारासे चलकर १७४१ ई०के अप्रैल में अबुल्खैरके डेरेमें पहुंचा था । उसी यात्रामें उसकी सिर और अदामतके बीचकी भूमिमें घूमनेवाले कराकल्पकोंके मुखिया उबैदुल्ला, मुरादशेख, उरसनाक बातिर, तोकुम्बेतबी, उबिलाई सुल्तान और खोजा मरसेनसे मुलाकात हुई । उन्होंने निम्न-कराकल्पक ओर्दूके तीस हजार परिवारोंकी ओरसे सदाके लिये रूसकी अधीनता स्वीकार करते हुये कसम खाकर कुरानको चूमा । १७४२ ई० में ओरेनबुर्गमें जाकर उन्होंने अपनी शपथ दुहराई । कराकल्पक अब इतने विनम्र और आज्ञाकारी साबित हुये, कि ओरेनबुर्गसे ग्लादिश्येफको उन्हें ओरेनबुर्गके पड़ोसमें आकर बसनेके लिये समझानेको भेजा गया । ग्लादिश्येफको वहां काइपखान और उसके तीन पुत्र मिले, जिन्होंने जारकी राजभक्तिकी शपथ ली । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अब वह अबुल्खैरके कजाकोंकी अधीनतासे बिल्कुल मुक्त हो गये थे ।

१७४३ ई०में फिल्लात गोर्दयेफको दुभाषिया देलनोईके साथ ओरेनबुर्गसे कराकल्पकोंके पास भेजा गया—गोर्दयेफ कराकल्पकोंकी भाषा जानता था । देलनोईको रास्तमें ही नवम्बरमें काइपखान और उरुजकुलके दूत मिले । उसने उन्हें पीतरबुर्ग भेजा, जहां दरबारमें उनकी बड़ी खातिर हुई और रानी एलिजाबेतने खुद दरबारमें उनसे मुलाकातकर अधीनता स्वीकारकी शपथ स्वीकार कर शत्रुओंसे रक्षा करनेका वचन दिया । लौटती यात्रामें भी ग्लादिश्येफ उनके साथ था । अबुल्खैरने स्वयं रूसकी अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन वह यह नहीं पसंद करता था, कि कराकल्पक सीधे रूसको अपना स्वामी माने । इसी बीचमें उसने अचानक हमला करके कितने ही कराकल्पकोंको मार डाला, और उनके एक खान उरुजकुलको उसके बीबी-बच्चों के साथ पकड़ ले गया । इस तरह कजाक तबतक कराकल्पकोंको सताते रहे, जबतक कि १७४८ ई० में अबुल्खैर मर नहीं गया । कजाकोंकी इन लूटपाटोंके कारण निम्न-सिर-उपत्यकामें कराकल्पकोंकी बहुत सी बस्तियां उजड़ गईं, जहां उन्होंने

नहरें बनाकर अपने खेत आबाद किये थे। कराकल्पकोंके भागनेसे यह सारी बस्तियां उजड़ गईं, और नहरें भी बंद हो गईं। १७४२ ई०में ग्लादिश्येफने उजड़े यांगीकन्तकी कुछ पत्थरकी दीवारों और मीनारोंको अच्छी हालतमें देखा था।

बातिरखान, काइप—बातिरखानका भी अबुलखैरके वंशसे संघर्ष होता रहा। बातिरके पुत्र काइपको खीवावालोंने अपना खान बनाया था, जिसके बारेमें हम आगे कहनेवाले हैं। उसीके साथ बहुत भारी संख्यामें कराकल्पक भी खीवाके राज्यमें जा निम्न वक्षु-उपत्यकामें बसने लगे, और धीरे-धीरे वहां उन्हींकी अधिकता हो गई, जिसके कारण आज वहां कराकल्पक स्वायत्त गणराज्यकी स्थापना हो सकी।

१७५० ई०में अबुलखैरके पुत्र एरलीने कराकल्पकोंपर आक्रमण किया, लेकिन वह अपने बहुतसे साथियोंके साथ मारा गया। अगले कितने ही वर्षोंतक बातिर और उसके पुत्र काइपका कजाकोंके लघु-ओर्दूके खान मूरलीके साथ संघर्ष होता रहा, इसी कारण कराकल्पक काफी संख्यामें निम्न सिर-उपत्यका छोड़कर ताशकन्दके पास कजाकोंके महाओर्दूकी शरणमें चले गये। कजाकोंकी लूटमारके कारण १८वीं सदीके अन्ततक कराकल्पकोंने निम्न-सिरको बिल्कुल छोड़ दिया, और वह ऊपरकी ओर बढ़ते हुये यानी दरियाके पास चले गये। वहां उन्हींने अपने परिश्रमसे एक बड़ी नहर खोदी, जो पीछे सिर नदीकी एक शाखा बन आजकल यानी दरिया (नवीन नदी) के नामसे मशहूर है। कराकल्पकोंके हट जानेपर निम्न-सिर-उपत्यकामें कजाक आबाद हो गये।

हमने घुमन्तुओंके जीवनके ढंगको देखा। मधु-मक्खियोंकी तरह वह सारे कबीलेके साथ एक स्थानसे दूसरे स्थानपर थोड़े समयमें पहुंच जाते, और कितनी ही बार अपने नामोंको भी भुलाकर कोई दूसरे नाम ले लेते। कराकल्पकोंके बारेमें १९वीं सदीके मध्यमें बम्बेरीने लिखा था—

“वह वक्षुके परले तटपर गोरलानेके सामने और कुआदके पासतक रहते हैं। वहां पड़ोसमें बहुत जंगल हैं। जंगलोंमें उनके पशुओंके गोठ होते हैं। उनके पास बहुत थोड़े से घोड़े होते हैं, और भेड़ तो मुदिकलसे होती हैं। कराकल्पक तुर्किस्तानमें अपनी अत्यन्त सुंदरी स्त्रियोंके लिये प्रसिद्ध हैं, लेकिन दूसरी ओर वह सबसे बड़े मूर्ख भी कहे जाते हैं। उनके तम्बुओं (परिवारों) की संख्या दस हजार है। चालीस साल पहले उन्हींने कून्प्रतोंके खिलाफ विद्रोह किया था, जिसमें मुहम्मद रहीमखाने उन्हें दबा दिया। आठ साल बाद १८५५ ई०में फिर उन्हींने जरलिंगके नेतृत्वमें बीस हजार सवारोंके साथ विद्रोह किया, लेकिन कुतुलुक मुरादने उन्हें पूरी तौरसे हरा दिया।” कुइलवाइन १५५८-५९ ई० में खीवामें गया था। उसके समय पंद्रह हजार कराकल्पक अर्द्ध-घुमन्तु जीवन बिताते हुये रहते थे। राज्यने उनके ऊपर सबसे ज्यादा कर लगा रक्खा था, अतएव बिचारे बहुत गरीब थे।

रूसियोंने जब वक्षुके मुहानेको ले लिया। उस समय कराकल्पकोंके विद्रोहकी अफवाह सुनकर कर्नल इवानोफने उनके बी (सरदार) लोगोंको बुलाया, जिनमें चिमबाई भी था। जब इवानोफने अपने लोगोंकी संख्या-सूची देनेके लिये कहा, तो वह डर गये। इसपर रूसी कसाकोंने घेरकर बहुतांको गिरफ्तार कर लिया। इस बर्तावसे रूसियोंने कराकल्पकोंके मनमें बुरा भाव पैदा कर दिया, क्योंकि वह अपने बी लोगोंको बहुत आदरकी दृष्टिसे देखते थे।”

स्रोत ग्रन्थ

1. History of Mongol I-III (H. H. Howorth)
2. Bambery

मुगोलिस्तानके खान


(१३२१-१५६५ ई०)

चगताई-वंशसे किस तरह मुगोलिस्तानके खानोंका अलग वंश स्थापित हुआ, इसके बारेमें हम बतला चुके हैं। मुगोलिस्तान मुगलोंका स्थान था, यह तो इसके नामसे ही पता लग जाता है, लेकिन वस्तुतः जिस भूमिको मुगोलिस्तान कहा जाने लगा, वहां मुगल तो दालमें नमकके बराबर कुछ खान और अमीर परिवारोंके रूपमें ही रह गये थे, जो भी बड़ी तेजीसे तुर्क बनते जा रहे थे। बाकी साधारण जनता तो तुर्क थी ही। पहिले इसी प्रदेशका नाम कराखिताई भी था, जो कि कराखिताई राजवंश (११२५-१२१८ ई०)का सूचक था। यूनसखानके शासनके आरम्भ ८८९ हि० (३०I-२०XII १४८४ ई०) में जब नगरों और खेतीको प्रोत्साहन दिया जाने लगा, तो वहां पुराने समयके कितने ही नगरों और बस्तियोंके ध्वंसावशेष मौजूद थे। ऊपरी मुगोलिस्तान पहाड़ी नदियों और झीलोंका प्रदेश था। इसके मैदानी इलाकोंमें बहुत अच्छी चरागाहें थीं, और पहाड़ी इलाके जंगलों और वृक्षोंसे ढंकी उपत्यकायें थीं। पहाड़ बहुत ऊंचे नहीं थे, इसलिये सर्दी अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचती थी, और आबोहवा बड़ी अच्छी थी। असली रेगिस्तान यहां वस्तुतः थे ही नहीं, सिवाय उत्तर-पश्चिमी छोरके। इस भूमिमें नगर या गांव नहीं, बल्कि खुले मैदान (दस्त) थे। मुगोलिस्तान पहले किर्गिजों और बादमें कजाकोंका देश बन गया, तो भी उनके ऊपर मुगोलिस्तानके खान काशगरसे शासन करते थे। १४ वीं सदीके पूर्वार्धके एक इतिहास-लेखकने इस प्रदेशके बारेमें लिखा है—“जबसे इस प्रदेशको तारतारों (मंगोलों)की तलवारोंने उजाड़ दिया, तबसे यहां बहुत कम बाशिंदे रह गये। ध्वंसावशेषों और करीब-करीब विलुप्त-सी बस्तियोंके सिवा यहां कुछ नहीं दिखाई पड़ता। दूरसे आदमीको एक अच्छा बसा हुआ नगर दिखाई पड़ता है, जिसके चारों तरफ सुंदर हरियाली छाई हुई है, लेकिन जब पास जाते हैं, तो वहां बाशिंदे नहीं बल्कि पूरी तरहसे खाली मकान मिलते हैं। यहांके सारे ही बाशिंदे घुमन्तू मेघपाल और चरवाहे हैं, जिनको खेती या फसल उगानेसे कोई वास्ता नहीं।”*

कराखिताइयोंने अपने समय इस भूमिमें बहुतसे नगर बसाये थे, जिन नगरोंमेंसे कुछ बालुका-भूमिमें अब भी हों, तो कोई आश्चर्य नहीं। महारेगिस्तानके पासमें बसे हुये नगरोंको यदि मंगोलोंने उजाड़ दिया, तो कभी-कभी बालुका-वृष्टिसे भी उनका सर्वनाश हुआ। स्वेन्-चाइन भी एक बालुका-वृष्टि का वर्णन किया है, जिसके कारण हौ-लो-लो-कि-या नगर बालूके नीचे दब गया। डाक्टर बेल्लोने मुगोलिस्तानकी भूमिमें बालुका-वृष्टि द्वारा एक नगरके ध्वंस होनेका वर्णन निम्न प्रकार किया है : “मजार हजरत बेगमके पासमें बालुका एक पूरा समुद्र है, जो कि उत्तर-पूर्वसे दक्षिण-पूर्वकी ओर बाकायदा लहरोंमें आगे बढ़ रहा है। बालूके टीले अधिकतर दससे बीस फुट तक ऊंचे हैं, लेकिन कुछ पूरे सौ फुटकी छोटी पहाड़ीसे दिखाई पड़ते हैं, कुछ तो और भी ऊंचे हैं। वह एक ऐसे मैदानको ढांके हुये हैं, जहां नीचे जहां-तहां कठोर मिट्टी दिखाई पड़ती है। यह टीले दो या तीनके समूहमें एकके पीछे एक चले गये हैं। लहरें वैसी ही मालूम होती हैं, जैसे बालुकामय तटपर समुद्रके पानीके हट जानेपर मालूम होती हैं। दक्षिण-पूर्वकी ओर इन टीलोंकी शकल चंद्राकार तथा कुछ खाली ढलानकी तरह होती है।

*“मसल-उल्-अबसार” (शहाबुद्दीन)।

रूसी यात्री प्रेजेवाल्स्कीने मुगोलिस्तानकी इसी भूमिको १९ वीं सदीमें देखकर लिखा था :
 “इन निर्जन और निष्ठुर पीली पहाड़ियोंको देखकर दर्शकके मनमें बड़ी उदासी पैदा होती है। वहां
 आकाश और बालू छोड़कर और कुछ नहीं दिखलाई पड़ता—एक भी वनस्पति, एक भी प्राणीका कहीं
 पता नहीं है। पीले रंग लिये हुये खाकी रंगके गिरगिट कहीं-कहीं दिखाई पड़ते हैं, जिनके चलनेका चिह्न
 बालूके ऊपर पड़ जाता है। इस निर्जन बालुका-समुद्रको देखकर दिल भारी हो जाता है, कहींसे कोई
 आवाज नहीं सुनाई देती.....।”



लेकिन, कभी इस निर्जन भूमिमें हरे-भरे नगर और गांव बसे थे। उन्हींके ध्वंसावशेषोंमें भारतीय संस्कृतिके चिह्न और भारतीय इतिहासपर प्रकाश डालनेवाली बहुत-सी महत्त्वपूर्ण सामग्री मिली है।

चगताई खानका राज्य बहुत विस्तृत था। १३२१ ई० में जब तुर्क और मंगोल प्रधानताके पक्षपातियोंमें झगड़ा बहुत बढ़ गया, तो मंगोल-दलने चगताई-वंशके पूर्वोत्तरीय भागको अपने हाथमें कर लिया। मुगोलिस्तानका प्रथम खान तुगलक तेमूर था, जो कि संयुक्त चगताई राज्यके खान ईसान-बुगाका पुत्र था। मुगोलिस्तानके खानोंकी नामावली निम्न प्रकार है :—

१. तुगलक तेमूर, ईसानबुगा-पुत्र	—१३६२ ई०
२. इलियास, तुगलक-पुत्र	१३६२-८९ ”
३. खिजिर मुहम्मद, तुगलक-पुत्र	१३८९-९९ ”
४. शमाजहान, खिजिर-पुत्र	१३९९-१४०८ ”
५. मुहम्मद, खिजिर-पुत्र	१४०८-१६ ”
६. नक्शोजहान, शमाजहान-पुत्र	१४१६-१८ ”
७. शेरमुहम्मद, मुहम्मद-पुत्र	१४१८ ”
८. बेइस, शेरअली-पुत्र	१४१८-२८ ”
९. शातुक, शेरअली-पुत्र	१४२८-३४ ”
१०. ईसानबुगा, बेइस-पुत्र	१४३४-६२ ”
११. दोस्तमुहम्मद, ईसानबुगा-पुत्र	१४६२-६८ ”
१२. यूनस, बेइस-पुत्र	१४६८-८७ ”
१३. महमूद, यूनस-पुत्र	१४८७-१५०८ ”
१४. मन्सूर, महमूद-पुत्र	१५०८ ”
१५. सईद, अहमद-पुत्र	१५०८-३३ ”
१६. रशीद, सईद-पुत्र	१५३३-५६ ”
१७. अब्दुल करीम, रशीद-पुत्र	१५९३ ”
१८. महमूद	
१९. इस्माईल	

१. तुगलक तेमूर, ईसानबुगा-पुत्र (—१३६२ ई०)

चगताई-वंशके इतिहासमें हम पढ़ चुके हैं, कि किस तरह मंगोल सरदारोंने अपनी प्रभुता और अलग अस्तित्व कायम रखनेके लिये कोशिश करके असफल होनेपर चगताई राज्यके एक भाग को अलग कर अपना अलग खान चुना। इस भागको मंगलई-सूबे या मंगोलिस्तान कहते थे—मंगलाका अर्थ सेनाका हरावल भी है। इस भूभागमें कुल्जा, सप्तनद, इस्सिकुल, दक्षिणी सप्तनद तथा काशगरसे कूचा तक सारा पूर्वी तुर्किस्तान शामिल था। मुगोलिस्तानी-वंशके संस्थापनमें सबसे अधिक हाथ अमीर पुलादचीका था। यद्यपि मंगोल-अमंगोलके साथ मुसलमान और अ-मुसलमानका सवाल भी उठाया गया था, लेकिन उनका पहला खान तुगलक तेमूर भी अधिक दिनों तक अपनेको रोक नहीं सका, और अपनी प्रजा और अमीरोंकी हमदर्दी प्राप्त करनेके लिये उसे मुसलमान बनना पड़ा। तुगलक तेमूरके जन्मके बारेमें कहा जाता है, कि उसकी मां अपने पतिके मरनेके बाद एमिल खोजा दुवा-पुत्रकी पत्नी बनी। वहीं तुगलक तेमूर पैदा हुआ। वहांसे उसे लाया गया। दूसरी कहावतके अनुसार पुलादचीने उसे पहले खानके वंशसे प्राप्त किया। ईसानबुगाकी प्रिया भार्या सातिलमिश थी, और दूसरी बीबीका नाम मनलिक था। मनलिकको गर्भिणी देखकर उसकी बड़ी सौतके दिलमें ईर्ष्या पैदा हुई। इसी समय ईसानबुगा मर गया, और मनलिक एमिलखोजाकी पत्नी बन गई। अमीर पुलादची दोगलतको अब एक खानकी जरूरत पड़ी। उसने मनलिक और उसके पुत्रको हूँदनेके लिये ताश तेमूरको कहा। ताशने कहा—“यह बड़ी लम्बी और कठिन यात्रा होगी, इसलिये यात्राकी अच्छी तरह तैयारी करनी पड़ेगी। मैं प्रार्थना करूंगा, कि हमें छ सौ बकरियां मिलें, जिसमें कि पहले हम उनका दूध

पीते रहें, पीछे एक-एकको मारकर खाते अपनी यात्रा जारी रखें।” ताश तेमूर अभियानमें सफल हुआ और वह मनलिकके बच्चेको चुरा लाया। फिर वह अक्सू गया, जहांपर अमीर पुलादचीने बच्चे तुगलक तेमूरको खान घोषित किया। तुगलक तेमूर केवल मंगलाई-सूबेका ही नहीं, बल्कि चगताई राज्यके कुछ और भागोंका भी शासक था। कहते हैं, जब वह कल्मक (जुंगारिया) देशसे लाया गया, तो उसकी उमर सोलह सालकी थी। अठारह वर्षकी उमरमें वह खान बनाया गया। जन्म उसका ७३० हि० (२५ X १३२९-१५ IX १३३०) में हुआ था। चौबीस वर्षकी उमरमें वह मुसलमान बना।

शेख जमालुद्दीन नामक एक सूफी-संत कतकमें रहता था। उसने जुमा (शुक्र) के दिन भविष्यद्-वाणी की थी—“मैं तुमसे छुट्टी लेता हूं, दूसरी बार हम कयामतके दिन मिलेंगे।” उसने मस्जिदके मुअज्जनको भी साथ चलनेके लिये कहा। तीन फरसक जानेपर मुअज्जन किसी कामके लिये लौटा, और अजानके लिये मीनारपर चढ़कर उतरा, तो देखा : मीनार चारों ओरसे छिप गया है, बालुका-वृष्टि हो रही थी, और इतने जोरकी कि सारा नगर उससे ढंक गया। थोड़ी देरमें धरतीके ऊपर उठे मीनारका थोड़ा ही सा भाग ऊपर निकला था। मुअज्जन मीनारपरसे बालूपर कूदकर भाग निकला। शेख अक्सूके पड़ोसमें बाइब्रुलमें पहुंचा। खान तुगलक तेमूरकी शिकार-पार्टी थी, जिसमें उसे जाना जरूरी था। न जानेके कारण उसे पकड़कर खानके पास ले गये। अनजान होनेसे उस ताजिकको सजा नहीं दी गई। उस समय खान अपने कुत्तोंको सूधरका मांस खिला रहा था। वह शेखसे बोला—“क्या तू इस कुत्तेसे अच्छा है, या यह कुत्ता तुझसे अच्छा है ?”

शेखने जवाब दिया—“अगर मेरे भीतर ईमान है, तो मैं इस कुत्तेसे बेहतर हूं, यदि मेरेमें ईमान (इस्लाम) नहीं है, तो यह कुत्ता मुझसे बेहतर है।”

इस बातको सुनकर तुगलक बहुत प्रसन्न हुआ, और उसने शेखको घोड़ेपर चढ़ाकर लौटाया। शेखकी यही करामात थी, जो कि उसके प्रभावमें आकर खानने इस्लामको स्वीकार किया।

मंगोलोंके समयसे पहले ही ईर्तिश-एमिलसे त्यान्शान तक और बरकुलसे फरगाना और बलकाश तकके प्रदेशको कुकचा-तेङ्गिज कहा जाता था। इस भूमिमें मंगोलोंके आनेसे पहले अच्छी आबादी थी, लेकिन १४ वीं सदीके उत्तरार्धमें बस्तीवासी और घुमन्तू संस्कृतियोंका द्वंद्व चल रहा था। तुगलक तेमूरने इस्लामी संस्कृतिको स्वीकार कर मंगोलोंकी घुमन्तू संस्कृतिको छोड़ दिया। लेकिन उससे दो शताब्दियों पहले यहांके वासी मुसलमान नहीं, बल्कि बहुत कुछ बौद्ध और कुछ-कुछ नस्तोरी ईसाई थे। चगताईकी एक शाखाके उत्तराधिकारी तेमूरियोंका मुगोलिस्तानी खानोंके साथ बराबर झगड़ा रहता रहा। तेमूरी इन्हें चिढ़ानेके लिये जे-ते (प्रांतवासी) कहा करते थे।

१३६० ई० में तुगलक तेमूरका अपने तुर्क-अमीरोंके साथ अच्छा संबंध था। तुगलक तेमूरने ७६२ हि० (११ XI १३६०—२ X १३६१ ई०) में अन्तर्वेदपर आक्रमण किया था। उसकी मृत्युके (७६४ हि० २१ X १३६२—११ IX १३६३ ई०) बाद ही उसके पुत्र इलियास खोजाकी सेना अन्तर्वेदसे हटाई गई। तुगलक तेमूरकी कन्या अलमालिकमें अलिमतूसे आठ वेस्त (५ फरसख) और तरानचिन (तरानचिन्स्की) गांव खारिनमजारसे एक वेस्त पर अब भी मौजूद है।

तुगलक तेमूर मृत्युसे पहले ही पुलादची मर गया था। उसका स्थान उसके अल्पवयस्क पुत्र खुदादादने लिया।

२. इलियास खोजा, तुगलक-पुत्र (१३६२-८९ ई०)

समरकंदका उपराज रहकर बापकी मृत्युपर कैसे मुगोलिस्तान भागकर इलियासने गद्दी संभाली, इसे हम बतला चुके हैं। अमीर पुलादचीका भाई कमरुद्दीन इसके समय सर्वेसर्वा था।

इलियास खोजाने मीराके युद्धमें तेमूरी-सेनापर विजय पाई। एक बार उसने समरकंदको भी जा घेरा, लेकिन घोड़ोंकी महामारीके कारण उसे वहांसे हटना पड़ा। अमीर पुलादचीके भाई अमीर कमरुद्दीनने शक्तिको अपने हाथमें रखनेके लिये एक दिन तुगलक तेमूरके अठारह पुत्रोंको मरवा

डाला । कमरुद्दीनका भतीजा अमीर खुदादाद अपने पिताके लगाये वंशके साथ सहानुभूति रखता था । उसने तुगलकके एक पुत्र खिजिर (?) खोजाको काशगर-बदरशांके पहाड़ोंमें भेजकर छिपा दिया ।

इलियासने चीनके विरुद्ध भी धर्मयुद्ध छेड़ा, और कराखोजा तथा तुरफानपर अधिकार कर वहाँके लोगोंको मुसलमान बननेके लिये मजबूर किया । इन युद्धोंके समय इलियासको अनाजकी महिमा मालूम हुई, और उसने अपने भाई खिजिरसे पूछा—“क्या सेनाके लिये खाद्य-सामग्री जमा करनेके वास्ते मुगोलिस्तानमें खेती की जा सकती है ?”

तेमूर-लंग ७७२ हि० (२६VII १३७०-१६VI १३७१ ई०)में कोचकर तक चढ़ आया था, लेकिन उस समय वह मुगोलिस्तानमें और भीतर बढ़कर आक्रमण नहीं कर सका । १३७५ ई०के आरम्भमें वह सैरामसे प्रस्थानकर चारिनतक पहुँचा । उस समय कमरुद्दीनका डेरा कोकतेपे पर्वतमें था । तेमूर-लंगके साथ सीधे लड़ना उसने पसंद नहीं किया, और बेरकेई गुरयानकी तरफ हटा, जिसके बीच में तीन बड़ी-बड़ी नदियां पड़ती थीं । इन्हींमेंसे एकके किनारे पीछा करके तेमूरने उसे हराया और आगे बढ़ते बाइतकमें पहुँचा । अपने तीन अमीरोंको उसने इलीके तटपर दंड दिया । तेमूर बाइतकमें ५३ दिन रहा । इस समय उसके पुत्र जहाँगीरने पहाड़ोंमें पीछा करके कमरुद्दीन और मंगोल सेनाको उगफेरमर (पूर्वी तुर्किस्तान)में हराया । बाइतकसे तेमूर करा-कसमक (कस्तेक) डांडा होते हुये अतबाश पहुँचा । वहाँसे अरपाकी द्रोणीमें जा कमरुद्दीनकी लड़कीसे अपना ब्याह कर यासी (जासी) डांडेसे होकर उजगेन्दको लौट गया । ख्वारेज्मकी चढ़ाईमें तेमूरको फंसा जानकर कमरुद्दीनने १३७६ ई०में उसपर चढ़ाई की, और अतबाश पहुँचा । कमरुद्दीनने रास्तेमें उसे जा घेरा, लेकिन सेकिज-इगाचेमें बड़ी बुरी तरहसे हारकर घायल हुआ । इस विजयके बाद तेमूर-लंग अताकुर होते सिर-दरिया लौटा, जहाँसे वह समरकन्द चला गया । १३७७ ई०में तेमूरने कमरुद्दीनके विरुद्ध फिर सेना भेजी, जिसने कुरातमें उसे हराया । तेमूर बड़ी सेनाके साथ स्वयं सप्तनदमें पहुँचा था । उसके हरावलने कमरुद्दीनको बुम्सकमें पाया । तेमूर कोचकर तक गया, जहाँसे ओईनोग होते उजगन्द लौटा ।

१३८३ ई०में तेमूरने फिर मुगोलिस्तानपर चढ़ाई की । सप्तनदमें उसने अपनी कुछ सेना भेजी । उसकी सेना अताकुममें थी, जहाँ हरावल भी शत्रुको छिन्न-भिन्न करके लौट आया । अब दोनों सेनाओंको लेकर तेमूर इस्सिककुल महासरोवर होते कोकतेपे पर्वतमें पहुँचा, लेकिन कमरुद्दीनका वहाँ कोई पता नहीं था, इसलिये समरकन्द लौट गया ।

३. खिजिर मुहम्मद, तुगलक-पुत्र (१३८९-९८)

बापके मरनेके समय खिजिर खोजा बारह वर्षका था । कमरुद्दीनके शासनकालमें खुदादादने उसे काशगर और बदरशांके बीचके पहाड़ोंमें छिपा रखा । फिर बारह वर्षतक वह दक्षिण-पूर्वके सीमांतपर लोबनोर झीलके पास रहा । जिस तरह उसके बापको खोजकर लाया गया था, उसी तरह खिजिरको भी लोबनोरसे लाकर १३८९ ई०के आसपास खान बनाया गया । इलियास और खिजिर दोनों भाई थे । दोनोंकी बाल्य-कथायें एक दूसरेसे इतनी मिला दी गई हैं, कि उनके बारेमें कुछ निश्चयपूर्वक कहना मुश्किल है । तो भी इतना मालूम होता है, कि इलियास शायद बहुत दिनों तक कमरुद्दीनके हाथों नहीं बच पाया । खिजिरसे मुगोलिस्तानकी चरागाहोंमें खेती करनेके बारेमें सलाह लेनेसे पता लगता है, कि इलियास और खिजिर दोनों भाई उस समय साथ रहते थे ।

जिस साल खिजिरने गद्दी संभाली, उसी साल तेमूरने फिर मुगोलिस्तानपर चढ़ाई की । वह अल्कोशिनानसे बुरीबाश और त्यूपेलिक करक होते ओरनाक (ओजनाक या ओरतक) की ओर बढ़ा । अतकानसूरीमें जब पहुँचा, तो गर्मियोंके दिनोंमें अब भी वहाँ बर्फ मौजूद थी । ताउरा-अतलस और अईगिरके मैदान, उलागचारलिग होते आगे बढ़ चापरऐगिरमें उसने मुगोलिस्तानी सेनाको पूरी तौरसे हरा दिया । खिजिर खानने अंगा-त्यूरीके नेतृत्वमें तेमूरके खिलाफ सेना भेजी । अंगा-त्यूरी जब उरेंगयारमें पहुँचा, तो तेमूरने उसके विरुद्ध अपनी हरावल सेनाको भेज अपनी सेनाको कई टुकड़ियों में करके भिन्न-भिन्न दिशाओंमें उसे घेरनेके लिये भेज दिया । तेमूर-लंग स्वयं करागुचुर तरबगताई डांडेके पश्चिमी भागकी ओर चला । तेमूर-पुत्र उमरशेख दूसरी सेनाके साथ अंगा-त्यूरीके पीछे कोबुक

डांडेकी ओर जा उसे हरानेमें सफल हुआ। अंगा-त्यूरी भागकर ककमा-बुरूजीमें पहुंचा। तेमूरने करागुचुरमें डेरा डालकर अपनी एक सेनाको इतिश-उपत्यकाकी ओर भेजा, और बंदियोंको वहांसे समरकन्द भेज दिया। फिर वह एमिलगूचुरमें खानकी एक चरागाह सराय-ओर्दामें पहुंचा। एमिल-गूचुरमें वह सरायओर्दामें ठहरा। एमिलसे तेमूरने अपनी सेनाको दक्षिणी मुगोलिस्तानपर आक्रमण करनेका हुक्म दिया। सभी सेनाको आगे युलदुजमें इकट्ठा होना था। युलदुजसे खिजिर खोजाके पीछे उसने उमरशेखके नेतृत्वमें एक सेना चालिश (करासर)में भेजी। फिर पूर्वी तुर्किस्तान हो ८-९ अगस्त १३८९ ई०को युलदुज लौट ३० अगस्तको समरकन्द पहुंचा। इस रास्तेसे कारवां दो महीनेमें गुजरता था।

१३९० ई०में फिर तेमूरने मुगोलिस्तानपर आक्रमण किया। ताशकन्दसे वह कमरुद्दीनका पीछा करते इतिशतक पहुंचा। उसकी सेना ताशकन्दसे इस्सिककुल (सरोवर), कोकतेपे (पर्वत) फिर पहाड़ी-दुर्ग अराजातू होते निश्चय ही वर्तमान अल्माअता नगरकी भूमिसे गुजरी। अलमालिक फिर इली नदी और काराताल होते, इचनीबुचनी, उकुर-कितचीके मैदानमेंसे जब तेमूर-लंग इतिशके तटपर पहुंचा, तो कमरुद्दीन वहांसे उत्तरकी ओर भागकर त्यूलेस देशमें चला गया। इस देशमें समूरी छालवाले जानवर बहुत होते हैं। लौटते वक्त तेमूर अलतुन-क्युरगे और अरतक-कुल (बलखाश) सरोवरके रास्ते आया। कमरुद्दीन अपने अन्तिम जीवनमें लकवाकी बीमारीसे बेकार हो गया, और लोगोंने उसे कुछ रखेलियों और थोड़े दिनोंका खाना देकर जंगलमें छोड़ दिया।

तेमूर-लंगको इन सारे अभियानोंसे बहुत फायदा नहीं हुआ। उसके प्रतिद्वंद्वी घुमन्तुओंको अपने नगरों और गावोंका मोह नहीं था, इसलिये वह तेमूरी-सेनाके सामने भागकर अपनी रक्षा कर लेते, और उसके हटते ही फिर एकत्रित हो तेमूरको परेशान करनेके लिये तैयार हो जाते। इसलिये तेमूरने अब मुगोलिस्तानके साथ अपनी नीति बदलनी चाही। इसकी खबर पाकर १३९७ ई०में खिजिर खोजाने अपने ज्येष्ठ पुत्र शमाजहानको दूत बनाकर तेमूरके दरबारमें भेजा। तेमूर-लंगने उसके द्वारा उसकी बहिन तवक्कल आगासे ब्याह किया। नई रानीके आनेपर तेमूरने उसका नाम किचिक खानिम (छोटी रानी) रक्खा।

खिजिर खानके समय मुगोलिस्तानके अधिकांश कबीले मुसलमान थे।

खिजिरखान १३९९ ई०में मरा। उसके बाद उसके चार पुत्रों शमाजहान, मुहम्मद ओगलान, शेरअली और शाहजहानके बीचमें उत्तराधिकारके लिये संघर्ष शुरू हुआ। इस समय उमरशेखका पुत्र मिर्जा अस्कन्दर मुगोलिस्तानकी सीमापर अवस्थित फरगानाका राज्यपाल था। इस झगड़ेसे फायदा उठाकर मिर्जा अस्कन्दरने अक्सू शहरको घेर लिया, जो कि चीनके व्यापारका बहुत बड़ा केन्द्र था। कुछ समयके लिये व्यापारके रास्ते अस्कन्दरके हाथमें आ गये। खिजिरके मरनेपर (१३९९ ई०) मुगोलिस्तानका कुछ भाग तेमूरके राज्यमें सम्मिलित कर लिया गया, जिसमें इस्सिककुल सरोवर-वाला प्रदेश भी था। तेमूर-लंगने क्षुद्र-एशिया (वर्तमान तुर्की)से लाकर काले तातारोंको इस्सिककुलके किनारे बसाया।

४. शमाजहान, खिजिर-पुत्र (१३९९-१४०८ ई०)

भाइयोंके संघर्षमें शमाजहानको सफलता मिली। यह तेमूरके जीवनका अन्तिम समय था। तेमूरके मरनेके साथ ही उसके लड़कोंमें जो झगड़ा पैदा हुआ, उससे फायदा उठा शमाजहानने १४०७ ई०में चीनकी मदद लेकर अन्तर्वेदपर चढ़ाई की, किन्तु १४०८ ई०में उसका देहान्त हो गया।

५. मुहम्मद, खिजिर-पुत्र (१४०८-१६ ई०)

मुहम्मद इस्लामका बहुत पक्षपाती था। इसीके शासनकालमें अधिकांश मुगल-कबीले मुसलमान हो गये। इसने शाहखके पास दूत भेजा था। १४१६ ई०में यह काशगरमें था। चादिरकुलके उत्तरकी ओरकी पहाड़ियोंमें इसकी बनवाई एक रबात (पांथशाला)में बड़े-बड़े पत्थर इस्तेमाल किये गये हैं। इतिहासकार हैदरका कहना है, कि ऐसे पत्थर कश्मीरके मंदिरोंमें मिलते हैं : रबातका फाटक

चालीस हाथ ऊंचा है। फाटकके भीतर घुसकर दाहिनी ओर घूमनेपर साठ हाथ लम्बा एक रास्ता मिलता है। फिर चालीस हाथका एक गुम्बद है, जो बड़ा ही सुंदर और सुडौल है। गुम्बदके चारों ओर चलनेका स्थान है, जिसके चारों तरफ और रास्तेमें भी कितने ही सुंदर कमरे बने हुये हैं। पश्चिम ओर तीस हाथ ऊंची एक मस्जिद है, जिसमें बीससे अधिक द्वार हैं। सारी इमारत पत्थरकी है। दरवाजोंके ऊपर विशाल शिलाखंड रखे हैं, जिन्हें कश्मीरके मंदिरके देखनेसे पहले हैदर अद्भुत चीज समझता था।

डाक्टर लेंडसेलने शायद हैदरलिखित इतिहास 'तारीखे-रशीदी' से उद्धृत डाक्टर बेलोका उद्धरण देते हुये लिखा है—असली बात यह है, कि महमूदखानने "ताश-रबाद" नामक एक प्राचीन हिंदू-मंदिरको मस्जिद बना दिया, जो कि चादरकुलवाले डांडेके रास्तेपर काशगर राजधानीको किर्गिजोंसे बचानेके लिये बने दुर्गमें बना था। हैदर ('तारीखे-रशीदी' कार)का कहना है, कि वस्तुतः महमूदखानने बड़े-बड़े पत्थरोंकी यह रबात बनवाई।

यह रबात चादरकुलसे थोड़ी दूर अलमाती, बेरनीसे काशगरको नारिनसे होकर जानेवाले मुख्य रास्तेपर अवस्थित है, जिसे बहुतसे युरोपीय यात्रियोंने देखा है। डाक्टर सीलेंडने लिखा है—“यात्रीको भारी पत्थरोंसे बनी हुई अड़तालीस कदम लम्बी और छत्तीस कदम चौड़ी इमारतको देखकर आश्चर्य हुये बिना नहीं रहता। इसकी छत समतल है, जिसके बीचसे पच्चीस फुट ऊंचा आधा नष्टसा गुम्बद उठा हुआ है। दरवाजा काफी ऊंचा और मेहराबी है, जिसके द्वारा भीतर जाया जा सकता है। भीतर खिड़कियां नहीं हैं। गुम्बदके नीचे एक कमरा या शाला है, जिसकी बगलमें नौ फुट ऊंचाईवाली कोठरियां चारों दिशाओंमें लातिनी (रोमन) सलेबकी शकलमें हैं। कोठरियां नीचे वर्गाकार और ऊपर गोल हैं। उनके भीतर पूरा अंधेरा छाया रहता है, सिवाय उन कोठरियोंके जिनकी छतें गिर पड़ी हैं। इनके द्वार इतने नीचे हैं, कि आदमीको बहुत झुककर भीतर जाना पड़ता है। कोठरियोंके भीतर किसी गवाक्ष या सोने-बैठनेकी जगह नहीं है। इस इमारतमें रसोईघर या चूल्हेका कहीं पता नहीं। इमारत पास-पड़ोसमें पाये जानेवाले पत्थरोंकी बनी हुई है। बीचके हॉलमें पलस्तरका थोड़ा-थोड़ा चिह्न मिलता है, लेकिन किसी तरहकी सजावट नहीं है।” यह यात्री लिखता है, कि मध्य-एसियाके कारवां-सरायों या रबातोंसे इस इमारतका कोई सादृश्य नहीं है। कोई-कोई इसे ईसाई-मठ बतलाते हैं, और कोई-कोई हिंदू (बौद्ध)-विहार। दोनों ही एक समय इस भूमिपर बहुत प्रभावशाली धर्म थे, इसलिये इसका बौद्ध-विहार या नेस्तोरीमठ होना आश्चर्यकी बात नहीं है। महमूदखानने ऐसी विचित्र इमारत स्वयं बनाई हो, यह विश्वासकी बात नहीं जंचती।

६. नकशोजहान, शमाजहान-पुत्र (१४१६-१८ ई०)

१४१६ ई०में खान बननेपर इसके पास चीन-सम्राट और शाहखके दूत आये। इसका शासन-काल थोड़ा रहा, और १४१८ ई०के आरम्भमें शेरअलीके पुत्र बेइस ओगलानने इसे खतम करके गद्दी संभाल ली।

७. शेरमुहम्मद, मुहम्मद-पुत्र (१४१० ई०)

शेर मुहम्मद शाहख मिर्जाका समकालीन था। इसका भतीजा बेइस विद्रोही बनकर कजाकों (लुटेरों) का जीवन बिता स्वतंत्र खान बन गया। बेइसके लूट-मारमें बहुतसे मंगोल तरुण भी शामिल थे, जिनमें इतिहासकार हैदरका दादा मीर सैयदअली भी था। हैदरने बड़े अभिमानके साथ लिखा है—“मैं बेइसखानका नाती हूँ, और बापकी तरफ अमीर खुदादाद-पौत्र सैयद अहमद मिर्जा-पुत्र अमीर सैयदअली मेरा दादा था। अमीर खुदादादने अपने पुत्र सयद अहमदको काशगरका राज्यपाल बनाकर भेजा था। उस समय वहां खोजा शरीफकी बहुत चलती थी। उसने अधिकार छिन जानेसे नाराज होकर काशगरको उलुगबेगके हाथमें दे दिया। इसपर सैयद अहमद मिर्जाको अपने बेटे अमीर सैयदअलीके साथ काशगर छोड़कर मुगोलिस्तानकी तरफ भागना पड़ा, जहां अहमद जल्दी ही मर गया।”

८. बेइस, शेरअली-पुत्र (१४१८-२८ ई०)

शेरमुहम्मदके समय यह अलग खान बन बैठा, पर चैनसे रहनेका मौका नहीं मिला। १४२० ई० में मुहम्मदखान-पुत्र शेरमुहम्मदसे इसका संघर्ष हुआ, और अन्तमें शेरमुहम्मदको समरकन्द भाग जाना पड़ा। जहाँ कुछ समय बंदी रखकर उलुगबेगने उसे मुक्त कर दिया और १४२१ ई० में वह मुगोलिस्तान लौटा। बेइसने अपनेको पक्का मुसलमान साबित करनेके लिये मुसलमानों के ऊपर आक्रमण करनेकी मनाही कर दी थी। लेकिन धुमन्तुओंके लिये लूट-मारका कोई रास्ता तो चाहिये, इसलिये उसने बौद्ध कल्मकोंको अपनी जहादका शिकार बनाया। पर, कल्मक भी बहुत तगड़े थे। कई बार उन्होंने बेइसको हराया। मिगलकके युद्धमें पकड़कर उन्होंने उसे अपने राजा ईसन थैसीके पास भेज दिया। उसने घोड़ेसे उतरकर थैसीको सलाम नहीं किया, तो भी मंगोलोंको छिड़-गिस्के पवित्र वंशका ख्याल था, इसलिये उन्होंने बेइसको छोड़ दिया। दूसरा युद्ध उसका कबाका के पास मुगोलिस्तानमें हुआ, जिसमें मुस्लिमसे जान बचाकर वह भाग पाया। एक और युद्ध उसने तुफानके पास ईसन थैसीसे किया, जिसमें बेइस बंदी हुआ, और उसने अपनी बहिन मखदूम खानिमको देकर छुट्टी पाई। बेइसने कल्मकोंके साथ छोटे-बड़े एकसठ युद्ध किये, जिसमें सिर्फ एकमें सफल हुआ। बेइस शरीरसे बहुत बलवान् था। हर साल वह तुफान, तरिम-उपत्यका, लोब और कातकके प्रदेशोंमें जंगली ऊंटोंके शिकारके लिये जाता। 'खान स्वयं गर्मियोंमें अपने दासोंकी मददसे घड़ोंमें पानी निकालकर जमीनकी सिंचाई करता।'

अमीर खुदादाद अब बानवे सालका हो गया था। वह हज करनेके लिये जाना चाहता था, लेकिन मौका नहीं पा रहा था। इसपर बूढ़ेने उलुगबेगको बुलाया, लेकिन उलुगबेगको मंगोलोंके हाथों बड़ी मुसीबत उठानी पड़ी। जब वह मुगोलिस्तानके प्रसिद्ध नगर चूममें पहुँचा, तो अमीर खुदादाद सेना छोड़कर मिर्जा उलुगबेगसे जा मिला। मुंगोल हराकर तितर-बितर कर दिये गये। खुदादाद उलुगबेगके साथ समरकन्द पहुँचा। तेमूरियोंको छिड़-गिस् खानके तूरा (यासाक)के जाननेकी बड़ी उत्सुकता थी। शायद उनको मालूम नहीं था, कि छिड़-गिस्के आदेशों (यासाक)को चीनी और मंगोल भाषाओंमें लिखकर पहिले हीसे सुरक्षित रक्खा गया है। उस समय समझा जाता था, कि छिड़-गिस्का तूरा कुछ बड़े-बूढ़ोंने अपनी स्मृतियोंमें सुरक्षित रख छोड़ा है। अमीर खुदादाद छिड़-गिस्के तूराका नहीं, बल्कि इस्लामका पक्षपाती था। उसने उलुगबेगसे कहा—“हमने कुख्यात छिड़गिस् तूराको बिल्कुल छोड़ शरीयतको स्वीकार किया है; लेकिन, यदि मिर्जा उलुगबेग तूराको पसंद करते हैं, तो मैं उन्हें ऐसे सिखलाऊंगा, जिसमें कि वह शरीयतको छोड़कर तूराको स्वीकार करें।” मिर्जा उलुगबेगने शायद अपनी वैज्ञानिक-बुद्धिसे बूढ़ेको परख लिया हो, इसलिये उसने तूरा सीखनेका ख्याल छोड़ दिया।

उलुगबेग अपने इस आक्रमणमें चू, और चारिनके रास्ते गया था। खुदादाद जहाँ उसे आकर मिला, उसी स्थान पर मई १४२५ ई०में शेरमुहम्मदकी हार हुई। उलुगकी सेनाने शेरमुहम्मदका पीछा इली नदीतक किया, यद्यपि स्वयं उलुगबेग यूलदुजमें रहा। वहाँसे लौटते वक्त रास्तेमें करशी स्थानमें उसने प्रसिद्ध कोक-ताश (नील-पाषाण)को पाया। तेमूर भी इस कोक-ताश (नीलपाषाण)को समरकन्द ले जानेकी बड़ी इच्छा रखता था, जिसको पूर्ण करनेका अवसर उसके पोतेको मिला।

शेरमुहम्मद वस्तुतः बेइसका समकालीन खान था। मुगोलिस्तानका कुछ भाग इसके हाथमें था। उसके मरनेपर उसका राज्य भी बेइसके हाथमें चला गया। बेइस खानको १४२८ ई०में इस्सिककुलके तटपर शातुककी शहसे कत्ल कर दिया गया। उलुगबेग शातुकको खान बनाना चाहता था, इसलिये बेइसके विनाशमें उसकी भी सहमति थी। यह भी कहा जाता है कि बेइस घोड़ा कुदाते हुये स्वयं गिर गया, और गलतीसे अपने ही आदमियोंके तीरका शिकार हुआ।

बेइसके जमानेसे काफिर (बौद्ध) मंगोलों—चोरोस, खोशोत, तोरगोत और खाइत—का पूर्वसे मुगोलिस्तानपर आक्रमण शुरू हुआ। १३९९ ई०में ओइरोत राजा उगेची खासागने मंगोलोंके खान

एलबेकको मार डाला। उसके बाद ओइरोतोंकी प्रधानता शुरू हुई। १४०८ ई०में उन्होंने उलजई-तिमूरको विशबालिकमें कआनकी गद्दीपर बैठाया। इसी समय मुगोलिस्तानके कुछ हिस्सेपर पूर्वी-मंगोलोंने अधिकार कर लिया। इन्हीं ओइरोतोंको मुसलमान लेखक कलमख (कलमक) कहते हैं। मुहम्मदखान उनसे लड़नेके लिये तैयार हुआ, और उसका प्रतिद्वंद्वी बेइस चीनी लेखकोंके अनुसार पूर्वी तुर्किस्तानसे अपनी मुख्य सेना ले पश्चिममें सप्तनदमें इली-तटपर ईलीबालिक पहुंचा।

१५ वीं सदीके यात्रियोंके अनुसार मुगोलिस्तान उस समय मुख्यतः घुमन्तुओंका देश था, जो तम्बुओं में रहते और घोड़ोंके मांस और कूमिसपर गुजारा करते। उनमेंसे कुछ बौद्ध ओइरोतोंकी तरफ थे, और कुछ मुसलमानोंकी तरफ। इलीके तटपर ही बेइस खानको कई बार ओइरोतोंके सरदार ईसन थैसीसे लड़ना पड़ा।

९. शातुक, शेरअली-पुत्र (१४२८-३४ ई०)

शातुक समरकन्दमें रहता था, जहांसे उलुगबेगने उसे बेइससे लड़नेके लिये मुगोलिस्तान भेजा। मुगोलिस्तानमें शातुकके पक्षपाती अमीर कम थे, इसलिये वह काशगर गया, जहांपर खुदादादके पौत्र कराकुल अहमद मिर्जाने उसे हराकर मार डाला। इसपर उलुगबेगने एक सेना भेजी, जो अहमद मिर्जाको पकड़कर समरकन्द ले गई, जहां उसके दो टुकड़े कर दिये गये।

शातुकके मरनेके बाद मंगोल अमीरोंके दो दल हो गये थे, एक बेइसके बड़े लड़के यूनसको खान बनाना चाहता था, और दूसरा बेइसके दूसरे पुत्र एसेनबुकाको। दोनों ही अल्पवयस्क थे। एसेनबुकाकी पार्टी ज्यादा मजबूत थी, इसलिये वह गद्दीपर बैठा। यूनस अपने आदमियोंके साथ उलुगबेगके दरबारमें चला गया, जिसने उसे ईरान भेज दिया। बाबरके अनुसार यह घटना जून १४३४ ई०की है।

१०. एसेनबुगा, ईसनबुगा, बेइस-पुत्र (१४३४-६२ ई०)

एसेनबुगा अमीरोंके हाथका खिलौना था। उसके प्रभावशाली अमीरोंमें खुदादाद-पुत्र मीर मुहम्मदशाह (अतबाश) और मीर करिमबेदीं थे। करिमबेदींने अपने लिये अलाबुगमें एक दुर्ग बनवाया, जहांसे वह उलुगबेगशासित फरगानामें लूट-मार किया करता था। तीसरा अमीर मीर हकबेदीं बेकिचेक था, जिसने इस्सिककुल सरोवरके एक द्वीप कोइसुइमें अपना गढ़ बनाया था। कलमकोंका भी उत्तर-पूर्वसे बराबर आक्रमण होता रहता था। एसेन एक बार स्वयं तुर्किस्तान शहर और सैरामपर आक्रमण करने गया।

मुगोलिस्तानी उधर अन्तर्वेदपर लूट-मार करने जाते, तो कलमक उन्हें लूटते-पाटते इस्सिककुलतक पहुंचते—कुछ साल पीछे तो वह सिर नदीतक पहुंचने लगे।

ईसनबुगाके खान बननेके बाद यूनस तीस हजार परिवारोंवाले ओर्दू और ईराजान तथा मीरकतुकमानके साथ उलुगबेगके पास पहुंचा था। उलुगबेगने उसे अपने पिता शाहखके पास भेज दिया, जिसने यूनसके साथ पुत्रवत् व्यवहार किया। यूनस बारह सालका था, जब कि यज्द (ईरान)में उसने मौलाना शरफुद्दीन यज्दीसे पढ़ना शुरू किया। मौलानाके मरनेके समय वह चौबीस सालका था। फिर वह यज्द छोड़कर यात्रापर निकला, और इराक, अरब, आजुर्बाइजान होकर शीराजमें रहने लगा। एकतीस सालकी उमर तक वह मुगोलिस्तानसे बाहर रहा।

यूनसके चले जानेपर ईसनबुगा सारे मुगोलिस्तानका खान था। शासन मजबूत हो जानेपर अमीर सैयद अलीने काशगर आनेकी आज्ञा मांगी। यह कह ही चुके हैं, कि काशगरको खोजा शरीफ काशगरीने उलुगबेगको दे दिया था, जिसकी ओरसे अमीर सुल्तान मलिक दुलादाई राज्यपाल नियुक्त हुआ, उसके बाद हाजी मुहम्मद शाइस्ता फिर पीर मुहम्मद बरलस राज्यपाल हुये। सैयद अलीने खानसे कहा—“मैं देखना चाहता हूं, कि क्या मैं अपने परिवारके पुराने इलाकेपर फिरसे अधिकार स्थापित कर सकता हूं, जिससे कि चालीस वर्षसे हम वंचित हैं। यदि मैं सफल नहीं हुआ, तो आप मुझे धिक्कार सकते हैं।” एसनबुगाने अपनी सहमति दे दी।

इस समय मंगलाई सूयाह (काशगरिया) का अधिकांश भाग दोगलतोंके हाथमें था, लेकिन अन्दिजान और काशगरपर समरकन्दके शासक उलुगबेगका अधिकार था। इस्सिककुलका पहाड़ी इलाका संघर्षोंका अखाड़ा बन गया था। बाकी इलाके दोगलत अमीरोंके हाथमें थे। अमीर सैयद अली अक्सूसे अपने भाइयोंको भगा वहाँ अपने परिवारको रख सात हजार सेना लेकर काशगरके ऊपर चढ़ा। पहली ही भिड़न्तमें हाजी मुहम्मद शाइस्ता भाग निकला। मुगोलिस्तानियोंने चगताइयों (उलुगबेगकी सेना) का पीछा किया, लेकिन अभी भी काशगरके किलेमें दुश्मन मौजूद था—शाइस्ताने वहाँ मोर्चाबंदी कर रखी थी। अमीर सैयद अलीने नगरपर अधिकार पा आसपासके इलाकोंको उजाड़ना शुरू किया। उलुगबेगके पास समरकन्द गुहार गई, लेकिन वह ऐसी स्थितिमें नहीं था, कि सेनाकी मदद भेजता। अमीर सैयद अलीने जब तीसरे वर्ष काशगरपर चढ़ाई की, तो लोगोंने तंग आकर खोजा शरीफसे कहा—“हमने लगातार तीन वर्षतक फसल गंवा दी। अगर इस सालकी फसल भी हाथसे चली गई, तो देशमें भारी अकाल पड़ेगा।” लोगोंने पीर मुहम्मद बरलसको पकड़कर अमीर सैयद अलीके हाथमें दे दिया, जिसने उसे मारकर काशगरके भीतर प्रवेश किया, और चौबीस सालतक वहाँ राज्य किया। हैदरके अनुसार उसने कृषि और पशु-पालनके ऊपर बहुत ध्यान दिया। वह तीन पुत्र और दो लड़कियां छोड़कर मरा। इन्हीं पुत्रोंमेंसे एक “तारीखे-रशीदी” का लेखक मुहम्मद हैदर मिर्जा था।

ईसानबुगाकी तरुणार्थके कारण अमीर उसका बहुत मान-सम्मान नहीं करते थे। उस समय तुर्फानके उइगुरोंके अमीर तेमूरका बहुत मान था, जिससे दूसरे अमीर डह करने लगे, और एक दिन खानके सामने ही उन्होंने पकड़कर तेमूरकी चोटी काट डाली। अमीर सैयद अलीने जब यह खबर सुनी, तो उसने ईसानबुगा खानको अकबाससे ले आकर अक्सूका राज्यपाल बना दिया। चोटी काटनेसे यह मालूम होगा, कि अभी उइगुरोंमें गैर-मुस्लिम (बौद्ध) भी थे। जान पड़ता है, मुस्लिमोंसे अलग करनेके लिये चुटियाका चिह्न समकालीन भारतमें ही नहीं, बल्कि मध्य-एशियामें भी था। चीनियोंसे जबर्दस्ती मंचूओंने-चोटी रखवाई थी, किन्तु मंगोल गृहस्थोंकी चोटी तो मैंने अपनी आंखों १९३५ ई० में खैलरके पास देखी। जब उक्रइनके लोग तुर्की सुल्तानके अधीन थे, उस समय वहाँ भी चोटी ईसाइयों का और दाढ़ी मुसलमानोंका चिह्न था।

ईसानबुगाके समय अमीरोंकी मनमानी चलती रही। दुगलत कबीलेके मीर करीमबर्दीने मुगोलिस्तानकी सीमांतपर अलाबुगाकी पहाड़ीपर अपने किले बनाये थे, जहाँसे वह फरगना अन्दिजानकी ओर मुसलमानोंको लूटने जाता। दूसरा अमीर मीर हकबेदी बेगजिकने इस्सिककुलके टापू कुई-सुईमें किला बनाकर कलमखोंसे बचनेके लिये वहाँ अपने परिवारको रक्खा था। जारा और बारिनष कबीलोंके अमीर ईसान थैशीके पुत्र अमासांजी थैशीका साथ देते थे। ईसान थैशी कल्मक-भूमिका स्वामी था। कालूजी, बलगाजी और दूसरे कितने ही कबीले कजाक-खान अबुलखैर (तुर्किस्तान) के साथ हो गये थे।

ईसानबुगाके अक्सूमें जम जानेपर धीरे-धीरे उसके अमीर भी उसके पास जमा होने लगे। खान भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करता था। जब शक्ति मजबूत हो गई, तो ईसानबुगाने ८५५ हि० (१४५४ ई०) में एक साथ ही आक्रमण करके सैराम, तुर्किस्तान शहर और ताशकन्दको लूट-मारकर बरबाद कर दिया। इस समय बाबरका दादा सुल्तान अबूसईद मिर्जा अन्तर्वेद (पश्चिमी तुर्किस्तान) का बादशाह था। अबूसईदने खानका पीछा किया, और उसे यंगी—जिसे इतिहासकी पुस्तकोंमें तराज कहा जाता है—में जा पकड़ा। मुगल बिना युद्ध किये ही भाग गये। अबूसईद अन्तर्वेद लौट गया, लेकिन जब वह खुरासानकी ओर गया, तो फिर मुगोलिस्तानियोंने हमला कर दिया। ईसानबुगाके अन्दिजानमें पहुंचनेकी बात सुनकर अबूसईदके सेनापति मिर्जा अली कूचुकने भीतरी किलेको मजबूत कर दिया था, लेकिन बाहरी किले पर ईसानबुगाका अधिकार हो गया। अन्तमें सुलह हुई। खान सारे अन्दिजान इलाकेपर अधिकार करके लौट गया। सुल्तान अबूसईदको बड़ी परेशानी थी। यदि वह मुगोलिस्तान पर चढ़ाई करता, तो खान अपने देशके दूसरे छोरपर चला जाता, जहाँपर उसका पीछा करना समरकन्दकी सेनाके लिये बहुत मुश्किल था। जब अबूसईदकी सेना लौटती, तो खान उसकी पीठपर होता।

हर समय मुकाबिलेके लिये सेना भोजना सम्भव नहीं था। अबूसईदकी जैसी परेशानी घुमन्तुओंके साथ उससे डेढ़ सहस्राब्दी पहलेके दूसरे राजाओंके सामने भी आती रही।

मुगोलिस्तानमें फंसे होनेके कारण अबूसईद इराकपर चढ़ाई नहीं कर पाता था। अन्तमें अबूसईदको एक ही रास्ता दिखलाई पड़ा, कि यूनसको ईरानसे बुलाकर उसके भाईके खिलाफ भिड़ा दिया जाय। उसने ऐसा ही किया। इस समय दशतेकिपचकपर अबुलखैर खानका मजबूत शासन था। इस कजाक खानसे हारकर जू-छि-वंशज जानीबेग खान और गिराई खान मुगोलिस्तानमें चले गये। अबुलखैरके मरनेके बाद उसका उज्बेक-कजाक उलुस आपसी झगड़ोंके कारण छिन्न-भिन्न हो गया, और उनमेंसे अधिकांश जाकर गिराई और जानीबेग खानके ओर्दूमें मिल गये। अब इनकी संख्या दो लाख थी। इसी समय उनके ओर्दूको उज्बेक-कजाकका नाम दिया गया, यह कह आये हैं। कजाक-मुल्तान ८७० हि० (२४ VIII १४६५-१५ VII १४६६ ई०) से शासन करने लगे, और ९४० हि० (२३ VII १५३३-१३ VI १५३४ ई०) तक उज्बेकिस्तान (किपचक-भूमि)के अधिकांश हिस्सेपर उनका पूर्ण प्रभुत्व था। गिराई खानके बाद बरेन्दक-पुत्र फिर जानीबेग खानके पुत्र कासिम खान हुआ। कासिम खानने सारे दशते-किपचकको जीत लिया, यह हम पहले बतला चुके हैं। हैदरके अनुसार उसकी सेना हजार-हजार (दस लाख) से ज्यादा थी, और जू-छि खान छोड़कर इतना बड़ा खान उस भूमिमें और कोई नहीं हुआ। कासिमके बाद उसका पुत्र मिमेश खान, फिर उसका पुत्र ताहिर खान हुये। ताहिरके समयसे कजाकोंकी शक्ति कमजोर होने लगी। ताहिरके बाद उसका भाई बिरलस था, जिसके समय उसका उलुस बीस हजार कजाकोंका रह गया था। ९४० हि० (१५३३-३४ ई०) में बिरलसके मरनेपर कजाक बिल्कुल लुप्त हो गये। ईसानबुगाके समयसे रशीद खानके समय (१५३३-६५ ई०) तक कजाकों और मुगलोंके बीच अच्छा संबंध रहा।

हैदरकी तरह मध्य-एसियाके किसी कबीलेके लुप्त होनेकी बातका अर्थ यही है, कि उनमें फिर नई गुटबंदी हो गई।

अमासंची थैची (थैशी) और उजतिमूर थैचीने १४५२ ई० और १४५५ ई० के बीच (दूसरी परंपराके अनुसार १४३७ ई० में) सिर-दरियाके तटपर उज्बेक-कजाकोंको बुरी तरहसे हराया। इस प्रकार अल्ताईके पासवाले कल्मक अब सिर-दरियाके तटतक पहुंचने लगे। १४५९ ई०के अन्तमें सुल्तान अबूसईदने हिरातमें कल्मक-दूतसे भेंट की। मंगोलोंके आक्रमणका उत्तर देनेके लिये अबूसईदने मुगोलिस्तानपर चढ़ाई कर उन्हें अशपारम हराया।

१४५६ ई० में अबूसईदने यूनसको मुगोलिस्तानमें लाकर बैठाया, किन्तु उसे हारकर फरगाना और सप्तनदकी सीमापर अवस्थित जीतीकेंदमें भागना पड़ा, जिसे कि अबूसईदने यूनसको दिया था। एसेनबुगा १४६२ ई०में मरा।

११. दोस्तमुहम्मद, ईसानबुगा-पुत्र (१४६२-६८ ई०)

ईसानबुगाके मरनेके बाद सत्रह वर्षकी अवस्थामें उसका पुत्र दोस्तमुहम्मद अक्सूमें बापकी गद्दी पर बैठा। यह बड़ा ही सनकी-सा तरुण था। इसने यारकन्द और काशगरपर चढ़ाई की, और काशगरको लूटकर अक्सू लौट गया। मुहम्मद हैदर मिर्जा (इतिहासकार) इससे नाराज होकर यूनस खानसे जा मिला। थोड़े ही समय बाद दोस्तमुहम्मदने अपनी सौतेली मांपर आशिक हो मुल्तोंसे ब्याह करनेके अनुकूल फतवा मांगा। इन्कार करनेपर सात मौलवियोंको उसने मरवा डाला। आठवें मौलवी मुहम्मद अत्तारकी बारी आई। शराबमें मदहोश और हाथमें तलवार लिये हुये उसने मौलवीसे पूछा—“मैं अपनी मांसे ब्याह करना चाहता हूँ। यह विहित है या नहीं?” अत्तार अपने समयके पूर्वी तुर्किस्तानका बहुत ही धार्मिक और अत्यन्त विद्वान् दरवेश था, उसने खानसे कहा—“तुम्हारे जैसोंके लिये यह विहित है।” खानने तुरन्त ब्याहकी तैयारी कर दी। हैदरके अनुसार स्वप्नमें उसके पिताने उसे फटकारते हुये कहा—“ओ अभाग, एक सौ वर्ष तक मुसलमान रहनेके बाद तू काफिर बनना चाहता है।” मंगोलोंमें सौतेली मांको मां नहीं मानते थे, और उनमें ऐसा ब्याह होता रहता था। शायद यही समझकर दोस्तमुहम्मदको सौतेली मांके ब्याहको शरीयतसे विहित करानेकी इच्छा हुई।

चिरागकुश (दीपबुझाव) संप्रदाय—दोस्तमुहम्मद खान (१४६१-६८ ई०) की लम्पटताके बारेमें सुनते वक्त यह भी याद रखना चाहिये, कि हैदरके अनुसार दोस्तमुहम्मदसे सौ वर्ष पीछे भी बदख्शामें एक धार्मिक सम्प्रदाय था, जिसे 'चिरागकुश' कहते थे—“इस मतका बदख्शामें संस्थापक शाह राजीउद्दीन था। उसके अनुयायी जिस किसी अजनबीको पा उसे मार डालनेको मुक्तिका रास्ता मानते थे। कोहिस्तान (पामीर)के विधर्मियोंमें राजी बड़ा ही पापी था। बदख्शाके अधिकांश लोग इसके ही अनुयायी हैं। उनके लिये अपने नजदीकी संबंधियोंसे व्यभिचार करना वैध है, उसके लिये विवाह करनेकी भी कोई अवश्यकता नहीं। अगर कोई किसीके साथ यौन-संबंध करना चाहता, तो बेटा या मां किसीसे भी प्रसंग करना बिल्कुल वैध है। उनमें यह नियम है, कि एक दूसरेकी स्त्री और सम्पत्तिका उपभोग करें।” हैदरका यहाँ अभिप्राय शायद बदख्शाके इस्माइलियोंसे है। इस्माइली शीयोंका एक सम्प्रदाय है। ये लोग छठें इमाम जाफर सादिकके ज्येष्ठ पुत्र इस्माइलको वास्तविक उत्तराधिकारी तथा अन्तिम इमाम मानते हैं, जब कि दूसरे शीया इस्माइलके भाई मूसा तथा पांच और पीछेके दूसरे—कुल बारह इमामोंको मानते हैं। इन्हीं इस्माइलियोंके गुरु आगा खां है। सोवियत शासनकी स्थापना (१९१८ ई०) से पहिले तक पामीरके इस इलाकेमें 'चिरागकुश' इस्माइलियोंकी काफी संख्या थी—अफगानिस्तानके इलाकेमें शायद वह अब भी है।

चालीस सालकी उमरमें छ दिन बीमार रहकर ८७३ हि० (२२ VII १४६८-१२ VII १४६९ ई०) में दोस्तमुहम्मद मर गया। उसके पुत्र सुल्तान ओगलानको पकड़कर तुफान और चालिश (करासर) ले गये। इस समय यूनसको मौका मिला और उसने आकर अक्सूको ले लिया।

१२. यूनस, बेइस-पुत्र (१४६८-८७ ई०)

एसन (ईसन) बुगाके मरनेके बाद वस्तुतः मुगोलिस्तानका राज्य दो भागोंमें विभक्त हो गया था। ८७३ हि० (१४६८-६९ ई०) तक अक्सू और पूर्ववाले प्रदेशमें एसनबुगाके पुत्र दोस्तमुहम्मदका शासन था, और पश्चिमी भाग पर यूनसका। दोस्तमुहम्मदके बाद केबेक-सुल्तान चार साल पीछे तक राज्य करता रहा, जिसके सिरको काटकर उसके ही आदमियोंने यूनसके पास भेज दिया। इस प्रकार १४७२ ई०में यूनस सारे राज्यका स्वामी बन गया।

यूनसका जन्म ८१८ या ८१९ हि० (१४१५ या १४१७ ई०) में हुआ था, और जैसा कि पहले बतलाया, बचपनमें ही वह ईरान चला गया, जहाँ उसे शरफुद्दीन यज्दी जैसे प्रसिद्ध इतिहासलेखक और विद्वानके पास शिक्षा प्राप्त करनेका अवसर मिला। उसे घुमन्तू-जीवन पसंद नहीं था। दोस्त मुहम्मद खानके मरनेपर यूनसको मैदान खाली मिला। वह अक्सूपर अधिकार करके वहीं रहना चाहता था। शायद वह केबेक-सुल्तान ओगलानके साथ झगड़ा न करता, यदि उसे डर न होता, कि उसके ओर्दूके लोगोंमेंसे कितने ही केबेककी ओर चले जायेंगे।

८ फरवरी १४६९ ई०में तेमूरी सुल्तान अबूसईदके मरनेपर उसका राज्य अलग-अलग शाह-जादोंमें बंट गया—खुरासानका शासक सुल्तान हुसेन मिर्जा हुआ, समरकन्दका अहमद मिर्जा, हिसार-कुंदुज-बदख्शाका सुल्तान महमूद, और अन्दिजान-फरगानाका वली (राज्यपाल) बाबरका पिता उमर शेख मिर्जा। यूनसने मुगोलिस्तान लौटनेपर तीनोंको अपना दामाद बनाया। अपनी लड़की मेहरे-निगार खानम अहमद मिर्जाको दी, कुतुलुग निगार उमरशेख मिर्जाको। इसी कुतुलुग निगार खानमसे बाबर पैदा हुआ। ताशकन्दका वली (राज्यपाल) शेख जमाल सुल्तान अहमद मिर्जा समर-कन्दके अधीन रहा।

यूनसको कल्मकोंका झगड़ा उत्तराधिकारमें मिला था। १४७२ ई०में कल्मक-सेनापति अमा-सांजी (इस्सनपुत्र) थैशीने मुगोलिस्तानमें आकर इली-तटपर यूनसकी हराया, जिसपर यूनसकी सेना तुर्किस्तान प्रदेश (सिर-दरिया)की ओर भागी, और वहीं उसने जाड़ा बिताया। मंगोल करातुकाई सिर-तटतक पहुँचे। उस समय कजाक खान गिराई (कराई) और जानीबेगको भगाकर अबुल्-खैरका पुत्र बूरुज ओगलान तुर्किस्तान (सिर-उपत्यका)का शासक था। वह यूनससे लड़ने गया था। उस समय उसे शिकारमें अनुपस्थित पा उसके ओर्दूके साठ हजार परिवारोंको पकड़ लिया। डेरेमें कोई

नहीं था, इसलिये बिना विरोध हीके बूरज ओगलानने सबपर अधिकार कर लिया। जब यह खबर यूनसको मिली, तो वह सींग बजवाकर जल्दी-जल्दी लौटा, और जमी हुई सिर नदीके पार हो गया। बूरजने जब आवाज सुनी, तो उसने भी जल्दीसे घोड़ेपर चढ़ना चाहा, लेकिन उसकी नौकरानियोंने उसके घोड़े और साईस (अखताची) को पकड़े रक्खा। कुछ औरतें अपने घोड़ोंसे उतरकर आईं, और उन्होंने बूरज ओगलानको पकड़ लिया। इसी समय यूनस खानने आकर अपनी नौकरानीको बूरजका सिर काट लेनेका हुकम दिया। उसने तुरंत सिर काट लिया। बिना रानीकी मधुमक्खियोंकी तरह बिना सरदारका उज्जेक-कजाक ओर्दू क्या कर सकता था? वीस हजार घुमन्तुओंमें बहुत कम जान बचाकर भाग पाये।

ताशकन्दका वली जमाल सुल्तान यूनसको सिर-उपत्यकामें नहीं देख सकता था। उसने आक्रमण करके यूनस खानको पकड़कर सालभर बंदी रक्खा, जिसपर सारा मुगोलिस्तानी उलुस शेख जमालके अधीन रहनेके लिये मजबूर हुआ। शेख जमालने यूनसकी बेगम और बाबरकी नानी ईसान दौलान बेगमको अपने एक अफसर ख्वाजा कलानको दे दिया। बेगमने बाहरसे स्वीकृति दे दी थी, लेकिन रातको पास आनेपर उसने ख्वाजा कलानको मार डाला। सालभर बाद अमीर करीमबेदी दोगलातके भतीजे अमीर अब्दुल कुद्दुजने शेख जमालको मारकर यूनस खानको मुक्त किया। अब ताशकन्द और शाहरखिया भी बाबरके पिता उमरशेख मिर्जाके हाथमें थे। मुगोलिस्तानी अमीर फिर यूनसके पास लौट आये। उन्होंने खानसे शिकायत की—“खानने हमेशा हमें कृषिवाले प्रदेशके नगरोंमें बसानेकी कोशिश की, जिसे हम लोग घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं।” खानने अफसोस प्रकट करते हुये कहा—“अबसे मैं नगरों और खेतीवाले स्थानोंमें रहनेका विचार छोड़ देता हूँ।”

इस वक्त कलमक अपने घुर्त (ओर्दूवाले देश) को लौट गये थे, इसलिये यूनस खानको मुगोलिस्तानमें मुगलोंके साथ रहनेकी हिम्मत हुई। इसके बाद कई सालों तक खानने घर या नगरमें रहनेका नाम नहीं लिया। काशगरके शासक मुहम्मद रेहर मिर्जाने यूनसकी अधीनता स्वीकार कर ली।

अपने एक दामाद बाबरके पिता उमरशेख मिर्जाके साथ यूनसका विशेष स्नेह था। भाई अहमद मिर्जा (समरकन्दके सुल्तान) के आक्रमणका भय होनेपर उमरने यूनसको बुलाया। यूनसने फरगानाके सबसे बड़े शहर अक्सीमें आकर डेरा डाला। अहमद मिर्जाने खानसे तीकासगरकूके पुलपर लड़ाई की, जिसमें वह खानका बंदी बना, लेकिन खानने अपने दामादको बहुतसी भेंटें देकर छोड़ दिया। कुछ समय बाद फिर उसने चढ़ाई की, और उमरशेखकी सहायताके लिये खान मर्गिलान पहुंचा। इतिहासकार हैदरने मौलाना मुहम्मद काजीके मुहसे सुना था—“एक बार मैं मर्गिलान गया। मैंने सुन रक्खा था, कि यूनस खान मुगल है, और समझा था, कि वह दूसरे रेगिस्तानी तुकोंकी तरह बिना दाढ़ी-मूँछका (मंगोलायित) आदमी होगा। मैंने उसको देखा, वह बड़ा ही खुबसूरत था। उसका चेहरा ताजिकोंकी तरह दाढ़ीसे भरा हुआ था। बातचीत और व्यवहारमें वह बड़ा ही संस्कृत था, जैसे कि ताजिकोंमें भी बहुत कम पाये जाते हैं।” मौलानाने सभी सुल्तानोंको पत्र लिखा—“मैंने यूनस खान और मुगलोंको देखा। ऐसे बादशाहकी प्रजाको बंदी बनाकर नहीं ले जाना चाहिये। वह इस्लामके अनुयायी हैं।” इसके बादसे मुगलोंको अन्तर्वेद और खुरासानमें ले जाकर दासके तौरपर बेचना बंद हो गया। इससे पहले मुगलोंको भी दूसरे काफिरोंकी तरह दास बनाकर बेंच दिया जाता था। यह मालूम ही है, कि इस्लामी शरीयतके अनुसार मुसलमानको दास नहीं बनाया जा सकता।

अहमद मिर्जा और उमरशेख मिर्जा अर्थात् समरकन्द और फरगानाका झगड़ा बराबर ही चलता रहा, और उमरशेखकी मददके लिये यूनसको भी बराबर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक समयमें यूनसके आनेपर उमरशेखने उसे ओश दे दिया। खानने वहीं जाड़ा बिताया। मुगोलिस्तानकी ओर लौटते समय उसने अपने दूसरे नाती इतिहासकार मुहम्मद हैदर मिर्जाको ओश (ऊश) का शासक बना दिया। शेख जमालकी मृत्युके बाद ताशकन्दको उमरशेखने ले लिया। समरकन्द-शासक अहमद मिर्जा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। खान उमरशेख और अहमद मिर्जाकी सेनायें फिर लड़नेके लिये सिर-उपत्यकामें पहुंचीं, लेकिन हजरत नासिरुद्दीन उबैदुल्ला सूफी (संत)ने बीचमें पड़कर

विवादग्रस्त ताशकन्दको खानके हाथमें देकर झगड़ा शांत करा दिया। अभी यूनस ताशकन्दमें ही था, कि उसे लकवा मार गया। दो साल तक इस बीमारीमें पड़े रहकर ७४ वर्ष की उमरमें ८९२ हि० (२८ XII १४८६-१८ XI १४८७ ई०)में यूनस मर गया। चगताई खानोंमें अधिकांश चालीस वर्षसे अधिक नहीं जी पाये, और उनमेंसे कितने ही स्वाभाविक मौतसे नहीं मरे, लेकिन यूनस इसका अपवाद था। यूनसकी कब्र ताशकन्दमें ही पुरानवार शेख खावन्दि-तुहरकी समाधिसे पास है।

१३. महमूद, यूनस-पुत्र (१४८७-१५०८ ई०)

बापके मरनेपर ज्येष्ठ पुत्र महमूद * को मंगोलोंकी रीतिके अनुसार सफेद नम्देपर बैठा कंधेपर उठा खान घोषित किया गया। लेकिन महमूदका अधिकार पूर्वी मुगोलिस्तानपर ही रहा। वह बापकी तरह ही संस्कृत और सुशिक्षित था। वह कविता भी करता था, जो बुरी नहीं होती थी। अन्तर्वेद लेनेकी उसकी बड़ी इच्छा थी, जिसमें कमजोर तेमूरी-सुल्तानोंके मुकाबिलेमें पहिले इसे सफलता भी मिली, लेकिन १५०० ई० में जब उज्बेक खान मुहम्मद शैबानीने अन्तर्वेदको अपने पंजेमें कर लिया, तो उसके लिये फिर मौका नहीं रह गया। १४८८ ई० में कुछ सफलता मिली थी। उमरशेखने असलमें महमूदसे ताशकन्द छीननेके लिये सेना भेजी थी। खानने सफलता प्राप्त कर मिर्जाके सभी अनुयायियोंको पकड़कर मरवा डाला। इसी समयसे बाबरके पिता और मामाका संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें मिर्जाकी शक्ति बहुत क्षीण हो गई, और अंतमें वह बिल्कुल हार गया। इसपर अहमद मिर्जा डेढ़ लाख सेना लेकर आया। अहमद मिर्जाके साथ कजाक अबुल्खैरका पौत्र और शाहबुदागका पुत्र शाहीबेग (मुहम्मद शैबानी) भी अपने तीन हजार आदमियोंको लेकर गया था। हम पहले बतला चुके हैं, कि कैसे युद्धके समय शाहीबेग अपने तीन हजार आदमियों के साथ युद्धक्षेत्रसे निकल गया, और मिर्जाकी परताल (रसद) पर टूटकर उसे लूट लिया। इसके कारण अहमद मिर्जाकी सेना भागनेपर मजबूर हुई, लेकिन उसके सामने चिर नदी—जिसे ताशकन्दवाले पराक कहते हैं—थी, जिसमें बहुतसे सिपाही डूबकर मर गये और अहमद मिर्जा किसी तरह जान बचाकर समरकन्द पहुंचा। इतिहासकार हैदरका पिता मुहम्मदहुसेन गूरगानसे महमूद खानका बड़ा प्रेम था। वह सदा एक ही डेरे या कमरेमें रहते थे। उनके घर बगल-बगलमें होते। वह अपने निजी घरेलू बातों को भी एक दूसरेसे निःसंकोच कहते थे। महमूद खानने अपनी बहिन यूनस-पुत्री खूबनिगारसे महमूद हुसेनकी शादी कर दी थी। जब अहमद मिर्जा, उमरशेख मिर्जा और महमूद मिर्जा मर गये, तो उरातेपा भी महमूद खानके हाथमें चला गया, जिसे उसने अपने मित्र और बहनोई मुहम्मद हुसेनको दे दिया।

शाहीबेगने धोखा देकर ताशकन्द विजय करनेमें महमूद खानकी सहायता की थी। अब वह खानका सेवक था। उसकी सहायताके बदलेमें खानने तुर्किस्तान-शहरका इलाका उसे दे दिया, जिसे गिराई खान और जानीबेग दोनों भाई अपना समझते थे। इसके कारण खानसे उनका बिगाड़ हो गया। उन्होंने कहा—हमारे दुश्मन शाहीबेगको क्यों तुर्किस्तान दिया? इसके बाद उज्बेक-कजाकों और महमूद खानमें लड़ाईकी नौबत आ गई। दो बड़ी-बड़ी लड़ाइयां हुईं, और दोनोंमें महमूद खानकी हार हुई। महमूद खानका बर्ताव अच्छा न देख यूनस खानके समयके कितने ही सेनापति उसे छोड़ गये। खानने पांच अमीरोंको मरवाकर एक नीच कुलके आदमीको अपना सेनापति बनाया।

८९९ हि० (१२X १४९३-२IX १४९४ ई०)में बाबरके पिता उमरशेख मिर्जाकी मौत घरके नीचे दबकर हुई। अमीरोंने उसके पुत्र जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबरको फरगानाके तख्तपर बैठाया। अन्दिजानपर कहीं मुगल हाथ न फेर दें, इसलिये अहमद मिर्जा अपनी सेनाके साथ आया, लेकिन मंगोलानमें पहुंचकर बीमार हो जानेसे उसे पीछे लौटना पड़ा, और उमरशेखकी मृत्युके चालीस दिन बाद वह भी चल बसा। सुल्तान महमूद मिर्जा ने अब हिसार (ताजिकिस्तान)से आकर समरकन्दकी गद्दी संभाली। छ महीने बाद वह भी मर गया, फिर उसका पुत्र मिर्जा बैसुंकर गद्दीपर बैठा। महमूद खानने इस स्थितिसे उत्साहित हो समरकन्दकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन हैदरके अनुसार नीच-कुलीन

*जन्म ८६८ हि० (१५ XI १४६३-—५ VIII १४६४ ई०)

सेनापतियोंके कारण कामयाबीकी लड़ाईमें खानको हार खानी पड़ी। ताशकन्द लौटनेपर अमीरोंने उसे समरकन्द और बुखारा लेनेमें शाहीबेग खानकी सहायता करनेकी सलाह दी, जिसमें वह आरामसे ताशकन्दमें रहें। खानको उनकी राय पसंद आई। इतिहासकार हैदरके पिता मुहम्मद हुसेनने बहुत रोका, लेकिन शाहीबेगको सहायता दी जाती रही। शाहीबेगके पास पचास हजार सेना हो गई, जिससे उसने समरकन्द और बुखारापर पूरी तौरसे अधिकार कर लिया। उसकी सफलता और लूटके लोभसे चारों ओरसे उज्बेक उसके झंडेके नीचे आ गये थे।

पिताके ताशकन्दमें रहनेपर यूनसका दूसरा पुत्र सुल्तान अहमद [जन्म ८७० हि० (२४ VIII १४६५-१५ VII १४६६ ई०)] मुगोलिस्तानमें अपने मुगलों और पशुओंकी चरवाही करता था। पहले दस सालके संघर्षमें उसने इरलातके अमीरोंको दबाया। अहमद अपने भाई महमूदकी तरह ही संस्कृत नहीं था। बाबरके अनुसार वह सचमुच ही रेगिस्तानका पुत्र था—शरीरसे हट्टा-कट्टा और बड़ी हिम्मतवाला। वह मंगोलों जैसी वेष-भूषा रखता था। अहमदने दो लड़ाइयोंमें कल्मक-शैची एसेनकी सेनाको हराया, जिससे कल्मकोंपर इसका बहुत रोब था। वह इसे अलाची (बहादुर) कहते थे। अहमदने कजाकोंको भी तीन बार हराया। सिर्फ काशगर और यारकन्दमें वह अपने मनसूबेमें सफल नहीं रहा। मुहम्मद शैबानी (शाहीबेग) ने जब अपने पहिले संरक्षक महमूद खानपर हाथ साफ करना चाहा, तो खानने अपने भाई अहमदको बुला भेजा। भाईका कहना मानकर इसने अपने पुत्र मन्सूरको मुगोलिस्तानमें रक्खा, और दूसरे दो पुत्रोंसहित ताशकन्द आया। १५०३ ई० में मुहम्मद शैबानीने अकसीकी लड़ाईमें दोनों भाइयोंको हराया। अहमद अकेले मुगोलिस्तान भागा। शैबानीने महमूदसे ताशकन्द और सैराम छीन लिया। फिर दोनों भाइयोंने अक्सू (पूर्वी तुर्किस्तान) में इकट्ठा जाड़ा बिताया, जहां ही अहमद लकवाकी बीमारीसे मर गया। महमूदने अक्सू और पूर्वी मुगोलिस्तानको ले लिया। अक्सूमें अपने भाई खलील सुल्तानसे हारकर वह सप्तनदके किर्गिजोंके पास पहुंचा। शाहीबेगने महमूद खानपर विजय प्राप्त की, उसी समय अकसीमें दोनों खान-भाई बंदी बने, और मुक्त कर देनेपर अहमद खान ९०९ हि० (२६ VI १५०३-१६ V १५०४ ई०) लकवासे मर गया।

महमूद खानकी हालत अंतमें बहुत बुरी हो गई। वह शाहीबेगके दरबारमें दयाकी भिक्षा मांगनेके लिये मजबूर हुआ। शाहीबेग (शैबानी) ने जवाब दिया—“एक बार मैंने तुमपर दया दिखला दी, अब दूसरी बार दया दिखलानेपर मेरी हकूमत खतरेमें पड़ जायेगी।” उसने जरा भी दया न कर महमूद खान तथा उसके छोटे-बड़े सभी बच्चोंको खोजन्द नदीके किनारे ९१४ हि० (२ V १५०८-२३ III १५०९ ई०) में मरवा डाला। अबतक अन्तर्वेद शैबानियोंका हो चुका था, यह हमें मालूम है।

१४. मन्सूर, महमूद-पुत्र (१५०८ ई०)

इसी समय किर्गिजोंका नाम पहलेपहल मुगोलिस्तानमें सुनाई पड़ता है। शायद किर्गिज १०वीं शताब्दीमें ही यहां पहुंच गये थे। हैदर किर्गिजोंको मंगोलोंसे विभिन्न नहीं समझता। मंगोलिस्तानी मंगोलों और किर्गिजोंके झगड़का कारण वह उनका मुसलमान और काफिर होना बतलाता है। खलीलसे जल्दी ही उसका भाई सईद (जन्म १४९० ई०) आ मिला, जो कि अबतक बापके साथ अन्तर्वेदमें उज्बेकोंका बंदी था। सईदकी उमर उस समय तेरह-चौदह सालकी थी। दोनों भाई चार सालतक एक साथ रहे। इसी बीचमें चचासे झगड़ा हो उठा, और मन्सूर उनसे लड़ने मुगोलिस्तान गया। यही समय था, जब कि १५०८ ई०में शैबानीके हुकमसे महमूद खान और उसके बेटोंको खोजन्द नदी (सिर-दरिया) के तटपर कत्ल किया गया। इसके पश्चात् चारसनचलाक या चारिन (आधुनिकल अल्माअताके पास) में मन्सूरने अपने भाइयोंको परास्त किया। खलील भागकर फरगाना चला गया, जहां उज्बेक शासक जानीबेगने उसे कत्ल करवा दिया। सईद कुछ महीनों नरिनके जंगलोंमें छिपा रहा, फिर उज्बेकोंके हाथमें पड़कर फरगानामें बंद रहा, जहांसे भागकर काबुलमें जा १५०८ ई०के अन्ततक बाबरका मेहमान रहा।

पिताके मरनेपर अक्सूके खान चचा महमूद खानके साथ मन्सूरका झगड़ा था। मन्सूरने काशगरसे मुगोलिस्तान लेनेके लिये महमूद खानके खिलाफ जाकर अक्सूमें डेरा डाला। वहां मीर जब्बारबर्दीसे मन्सूरका झगड़ा हो गया। जब्बारने काशगरके हाकिम अबूबकरको बुला भेजा। मन्सूरको अक्सू छोड़कर भागना पड़ा। उसकी स्थिति बहुत बुरी हो गई। इसपर उसने अपने मामा जब्बारबर्दीसे शपथ-

पूर्वक क्षमा मांगी। जब्बारने मन्सूरके साथ बड़ी उदारता दिखलाई, जिससे उसकी स्थिति अपने बाप सुल्तान अहमद खानसे भी बेहतर हो गई। इसी समय उसे खबर मिली, कि मुगोलिस्तान (सप्तनद) में सुल्तान महमूद, सुल्तान सईद और सुल्तान खलीलमें झगड़ा हो गया है। मन्सूरने मुगोलिस्तान पहुंच अपने चचा महमूदसे भेंट की। वहीं उसकी अपने छोटे भाइयों—सईदखां और खलील सुल्तान—से भी मुलाकात हुई। उसके बाद ही महमूदखान अन्तर्वेदकी ओर लौटा, जहां मुहम्मद शैबानीसे हारकर उसे अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा। अब मन्सूरने अपने भाइयोंपर आक्रमण किया, जो कि मुगोलिस्तानमें मुगलों और किर्गिजोंके साथ रहते थे। चारुनचलाकमें लड़ाई हुई, जिसमें हारकर मन्सूरके दोनों भाई विलायत (अन्तर्वेद) भाग गये। वहांके वलीने सुल्तान खलीलको मरवा डाला, और सुल्तान सईद भागकर काबुलमें बाबरके पास पहुंचा। मन्सूर मुगोलिस्तानमें हाथमें लगे किर्गिजों और मुगलोंको अपने साथ चालिश (कराशर) और तुर्फान ले गया। पीछे उसने कल्मकोंपर सफल आक्रमण किया।

इसी बीच काबुलसे लौटकर सुल्तान सईदने काशगरको जीत लिया। मन्सूरको भारी भय लगने लगा। लेकिन शायद सईदको अन्तर्वेदमें शैबानियोंकी शक्तिको देखकर कुछ अकल आई। उसने समझौता करनेके लिये ९२२ हि० (५ II-२६ XII १५१६ ई०) में अक्सू और कुसानके बीचमें मन्सूरसे भेंट की, और खानकी अधीनता घोषित करते हुये उसके नामसे खुतबा पढ़े जानेका हुक्म दिया। इसके बाद बीस सालतक देशमें शांति रही। चीनमें कामिल (हामी) से लेकर अन्दिजान तक बिना रोक-टोक आदमी यात्रा कर सकते थे, रास्तेमें कोई कर नहीं लिया जाता था। यात्री हरेक रातको किसी घरमें मेहमान रह सकता था। यह बतलाते हुये इतिहासकार हैदर लिखता है—“अल्लाह दोनों धर्मात्मा भाइयोंको स्वर्गोद्यान प्रदान करे।” मन्सूरके हाथमें पूर्वी तुर्किस्तानका पूर्वी भाग था, जिसकी सीमा चीनसे लगती थी। वह अपनेको इस्लामका गाजी साबित करना चाहता था। इसमें मुख्य कारण लूट-मारका प्रलोभन था, जिसके लिये मिङ्ग सम्राट् शी-चुङ्ग (१५२१-६६ ई०) की सेनाओंसे बराबर उसका धर्मयुद्ध होता रहा। मन्सूरने अरिग (मुगोलिस्तान) में उज्बेक-कजाकोंके साथ जमकर लड़ाई की, जिसमें उसकी हार हुई।

काशगरी अबूबकरकी सेना अमीर वेलीकी अधीनतामें सप्तनद गई, जहां उसे कुछ सफलता हुई। आखिरमें मन्सूरने अपने बड़े पुत्र शाह खानको खान बनाया और स्वयं अल्लाकी भक्तिमें लग गया। हैदरके समय ९५१ हि० (१५४५ ई०) में शाहखान तुरफान और चालिशपर शासन कर रहा था। इसी समय बाबरका बेटा हुमायूँ हिन्दुस्तानसे भागकर मारा-मारा फिर रहा था। शाहखानका चाल-चलन हैदरको पसंद नहीं था। उसने लिखा है—“इतिहासकारका धर्म है, कि ठीक या बेठीक जो भी उसे मालूम हो, उसका उल्लेख करे।”

यद्यपि सईदने १५०८ ई० में ही पूर्वी तुर्किस्तानके पश्चिमी हिस्सेका शासन संभाल लिया था, लेकिन उसने बहुत सालों तक मन्सूरको अपना प्रभु माना था। इतिहासकार हैदर सईदका सम-कालीन था। उसने “तारीखे-रशीदी”में इसके बारेमें बहुतसी बातें लिखी हैं। रशीद खान, जिसके नामसे हैदरने अपने इतिहासको लिखा है, सईद खानका ही पुत्र था। सईद अहमद खानके आठ पुत्रोंमेंसे एक था। अपने भाई महमूद खानकी सहायताके लिये जिस वक्त अहमद खान जा रहा था, उस वक्त चौदह सालका सईद भी अपने बापके साथ था। अकसीकी लड़ाईमें एक तीरके लगनेसे उसकी जांघकी हड्डी टूट गई, और वह घायल हो अकसीके वली शेख बायजीदके जेलमें बन्द रहा। दूसरे साल शाहीबेग (मुहम्मद शैबानी) ने शेख बायजीद, सुल्तान अहमद तम्बालको उसके सारे भाइयोंके साथ मारकर फरगानाको ले लिया। शाहीबेग सईदको पुत्रवत् मान अपने साथ समर-कन्द ले गया। जिस वक्त शाहीबेग (मुहम्मद शैबानी) ख्वारेज्मपर आक्रमण करने गया था, उसी समय सईद निकल भागा और यतीकन्दमें अपने चचा महमूद खानके यहां जाकर कुछ दिन रहा। फिर वहांसे अपने भाई खलील सुल्तानके पास गया, जो कि उस समय किर्गिजोंके ऊपर राज्यपाल था। चार सालतक वह अपने भाईके साथ वहां रहा। जब महमूद खान विलायत (अन्तर्वेद) गया, तब भी दोनों भाई किर्गिजोंमें ही रहे। मन्सूर तुर्फान और चालिशसे सेना लेकर किर्गिजोंके ऊपर चढ़ा, तो दोनों भाई अपने अनुयायियों (मुगलों-किर्गिजों)के साथ मिलकर उससे चारुनचलाकमें लड़े,

और हार खा भागकर अकसी गये, जहां शाहीबेग (मुहम्मद शैबानी)के चचेरे भाई जानीबेगने मुल्तान खलीलको मरवा दिया। सुल्तान सईद कुछ समयतक अब लूट-मारका जीवन बिताता रहा, फिर मुगोलिस्तान छोड़नेपर मजबूर हो अन्दिजान होते बाबर बादशाहके पास काबुल पहुंचा। बाबरने उसे बड़े आदर और प्रेमसे रक्खा—छिड़-गिसू खानकी औलाद और मुगोलिस्तानके खानका बेटा था, इसलिये मुगलोंके नामपर बाबल बाबर क्यों न उसका सत्कार करता? सईद काबुलमें तीन सालतक बाबरका मेहमान रहा। जब शाह इस्माईल (ईरान) ने मेर्वमें शाहीबेग (मुहम्मद शैबानी) को मार डाला, तो बाबर काबुलसे कुंदुज पहुंचा। सईद भी इस वक्त बाबरके साथ था। इसी समय इतिहासकार हैदरके पिता सैयद मुहम्मद मिर्जाने शैबानी जानीबेग सुल्तानको अन्दिजानसे भगाकर उसपर अधिकार कर लिया था। बाबर बादशाहको इसकी खबर लगी, तो उसने सईद और कुछ मुगल अमीरोंको अन्दिजान भेजा। सैयद मुहम्मद मिर्जाने जीते देशको उनके हाथमें दे दिया। सईदने खान मुहम्मद मिर्जाको “उलुस-बेगी” (कबीलोंका सरदार) की उपाधि प्रदान की। लेकिन काशगरी मिर्जा अबूबकर भी अन्दिजानपर आंख गड़ाये था। दोनोंमें लड़ाई हुई। हैदरके अनुसार सईदने अपनी पन्द्रह सौ सेनासे अबूबकरकी बीस हजार सेनाको हरा दिया।

इस समय सप्तनदके उत्तरी भागमें कजाकोंके खान कासिम [मृत्यु ९२४ हि० (१३I-४XII १५१८ ई०)] का राज्य था, जो जाड़ोंमें करातालमें रहता था। कासिमने १५१० ई० के करीब मुहम्मद शैबानीको हराया, और १५१२ ई०में तलस और सैरामपर अधिकार कर ताशकन्दके किलेको नष्ट कर दिया। हैदरके अनुसार उसके कजाकोंकी संख्या दस लाख थी, लेकिन बाबरके अनुसार तीन लाख। १५१३ ई० के वसन्तमें चू नदीके तटपर सईदने कासिम खानसे मुलाकात की। कासिमकी उमर उस समय तिरसठ सालकी थी। उसने सईदकी बड़ी खातिर की। सईद इस वक्त बाबरकी सेवामें था।

बाबरकी इन सफलताओंको शैबानी उज्वेक देख नहीं सकते थे। उन्होंने ताशकन्द और समरकन्दके सीमान्तपर भारी सेना जमा की। बाबरने इसी समय (जून या जुलाई १५११ ई०) उन्हें हराकर थोड़े दिनोंके लिये समरकन्दके सिंहासनपर बैठनेमें सफलता पाई थी, लेकिन उसी सालके वसन्तके आरम्भमें उवैदुल्ला खानने बाबरको हराकर उसे परिवारसहित हिसारकी ओर भगा दिया। अन्तर्वेद उज्वेकोंका हो गया, तो भी अन्दिजानपर सईद खानका अधिकार बना रहा। शाह इस्माईलकी कुमकसे साठ हजार सेना लेकर जब बाबरने समरकन्दपर चढ़ाई की, उस समय सईद खान भी अन्दिजानसे उसकी मददके लिये आया था। ताशकन्दके पास शैबानी सयुनजी (ख्वाजा) खानने सईदको हराकर अन्दिजानसे भागनेके लिये मजबूर किया। इसी समय इतिहासकार हैदर बाबरसे छुट्टी ले सईद खानकी सेवामें चला गया, और वसन्तमें दशतेकिपचक (किर्गिज-कजाक) के खान कासिमसे मिला, जिसके पास बाबरके अनुसार तीन लाख सेना थी।

९२० हि० (२६ II १५१४-१७ I १५१५ ई०) में उज्वेकोंकी भारी सेनाने अन्दिजानपर आक्रमण किया। खानने भागकर काशगरियापर चढ़ाई की, मिर्जा अबूबकर काशगरमें किलेबन्द हो गया। यंगी-हिसारपर तीन मास घेरा डाल सईदने उसपर अधिकार कर लिया। मिर्जा अबूबकर दक्षिणकी ओर भागा। उसका पीछा करते सईद खानकी सेना तिब्बत (लदाख) के पहाड़ोंके भीतरतक गई। इस प्रकार मई-जून १५१३ ई० (९२० हि०) में सईद खान काशगर-प्रदेशका स्वामी था, और ९२२ हि० (१५१६ ई०) में, जैसा कि पहिले कहा, उसने बड़ी दूरदर्शिता दिखलाते हुये मन्सूर खानको अपना प्रभु मान लिया।

शैबानियोंसे अन्तर्वेद छीननेका मनसूबा सईदने बाबरसे उधार लिया था, इसीलिये उनसे उसने छेड़खानी जारी रक्खी। सप्तनदसे तोर्गुत डांडेसे होकर काशगरियामें सैंतालीस सौ सेनाके साथ घुसकर अबूबकरको भगानेमें उसने पूरी तौरसे सफलता प्राप्त की। काशगर और यारकन्द को लेकर वहां पूरी तौरसे शांति-स्थापन कर १५१६ ई० में उसने अक्सू और कुचेईके बीच अरबात स्थानमें मन्सूरसे भेंट की। जैसा कि पहिले कहा, दोनोंमें पूर्ण मैत्री स्थापित हुई, सईद ने मन्सूरको अधिराज माना, लेकिन शासित प्रदेशोंका बंटवारा तो करना ही था। मन्सूरको तुर्फान, कराशर और पूर्वी तुर्किस्तानका सारा ऊपरी भाग मिला, दूसरे भाई एमिल खोजाको

तुफान और अक्सू, तीसरे भाई बाबा सुल्तानको बाई और कूची मिले। काशगर और दक्षिणी सप्तनद सईदके हाथमें रहे। हामी (चीन)से अन्दिजान (फरगाना) तकका वणिक्पथ मुक्त हो गया। अबूबकरसे लड़ते वक्त किर्गिज मुहम्मदने सईदकी बड़ी सहायता की थी, इसलिये उसे किर्गिजोंका सरदार बना दिया गया। १५१६ ई० के वसन्तमें फरगानामें उज्बेकों से लड़नेकी तैयारी करनेके लिये सईद मुगोलिस्तान गया। उसने चातिर-कुलके तटपर अपने भाई बाबा अचकसे भेंट की। अरपा-उपत्यकामें मन्सूरको छोड़कर सारे भाई मिले, उन्होंने साथ ही शिकार खेला और जाड़ा ब्रिताया। इसमें सईद अभियानकी बात भूल गया। इसी समय उसके अमीर मुहम्मदकी अधीनतामें किर्गिजोंने जाकर तुर्किस्तान-शहर, ताशकन्द और सौराममें लूटमार की, और शैबानी खानके सौतेले भाई तुर्किस्तान-शासक अब्दुल्लाको बन्दी बनाया। लेकिन मुहम्मदने उसे बहुत-सी भेंट देकर छोड़ दिया, जिसके कारण उसका सईदसे मन-मुटाव हो गया। १५१७ ई० के वसन्तमें सईद अपनी सेना ले काशगरसे चला। एमिल खोजा भी अक्सूसे सारिग-अत्-आखुरी डांडेसे होते आगे बढ़ा। दोनों सेनायें काफिर-यारिगमें मिल गईं, जहाँसे सईद बेसकाउन-द्रोणी और एमिल खोजा चू-द्रोणीसे आगे बढ़ा। किर्गिज मुहम्मद बेसकाउनके मुहानेके पास डेरा डाले पड़ा था। दोनों भाइयोंके आनेकी खबर पाकर वह तुर्किस्तानकी ओर भागा, और उसके घोड़े, भेड़ें तथा सारी चीजें शत्रुओंने ले लीं। सईदने किर्गिजों को बन्दी नहीं बनाया। वहाँसे वह हिसार लौट गया।

१५१७ ई०में मुहम्मद किर्गिजने तुर्किस्तान और फरगानापर आक्रमण करके मुसलमानोंको लूटा, जिसके लिये सईदने चढ़ाई करके मुहम्मद किर्गिजको पकड़कर जेलमें डाल दिया, जहाँ वह पन्द्रह सालतक पड़ा रहा। इसी साल सईद अपने पुत्र रशीदको लेकर मुगोलिस्तानमें गया। उसने किर्गिजोंको दबाकर सारे मुगोलिस्तानपर अधिकार कर लिया। पीछे मंगितोंकी शक्तके कारण उज्बेक-कजाक दशतेकिपचकमें रहनेकी हिम्मत नहीं कर सकते थे, इसलिये वह दो लाखकी संख्यामें मुगोलिस्तान में चले आये। उनके साथ लड़ना असंभव समझकर रशीद सुल्तान—जिसे बापने मुगोलिस्तानमें छोड़ रक्खा था—अपने आदमियोंको ले काशगर भाग गया। १५१९ ई० (९२५ हि०) और १५२९-३० ई० (९३६ हि०)में दो बार सईदने बदल्शापर चढ़ाई कर उसका आधा हिस्सा ले लिया।

१५२२ ई० में मुसलमानोंपर आक्रमण करनेका कारण बतलाकर सईदने अपने बेटे रशीद के सेनापतित्वमें फिर किर्गिजोंपर आक्रमण करनेके लिये सेना भेजते समय जेलसे छोड़कर मुहम्मद किर्गिजको भी उसके साथ कर दिया था। रशीदने कोचकरकी उपत्यकामें डेरा डाला। अधिकांश किर्गिजोंने मुहम्मदकी अधीनता स्वीकार की, लेकिन उनमेंसे कुछ भाग गये। उस जाड़ेमें रशीद खान कोचकर हीमें रहा। इसके बाद वह हर साल कुछ समय कोचकर-उपत्यकामें ब्रिताता था। १५२४ ई०में जब खान कोचकरमें था, उसी समय उसके पास उत्तरी सप्तनदके कजाकोंके खान कासिम-पुत्र ताहिरका आदमी आया। वह मुगोलिस्तानियोंके साथ मिलकर उज्बेकों और नोगाइयों (मंगितों) से लड़ना चाहता था। उसने अपनी बहिन भी रशीद खानको प्रदान की। इसके बाद अधिकांश किर्गिज ताहिरके अधीन हो गये। १५२५ ई० में खान इस्सिक्कुलके तटपर था, जब कि मुगोलिस्तानके सीमान्तपर कलमकोंके चढ़ आनेकी खबर मिली। इससे पहले १५२२-२४ ई० में रशीद कलमकोंके ऊपर सफल अभियान कर चुका था, जिससे उसे गाजीकी उपाधि मिली थी। अपने परिवारको इस्सिक्कुलके किसी द्वीपमें छोड़कर रशीद कलमकोंके विरुद्ध चलकर दस दिनमें कबीकलर (कबिलककला) पहुँचा। इसी समय ताशकन्दके शैबानी खान सू-युन-चुकके मरनेकी खबर मिली। उज्बेकोंके साथ लड़नेका यह अच्छा मौका था, इसलिये वह जल्दीसे लौटकर इस्सिक्कुल पहुँचा, और वहाँसे कोनुर-उलेनके रास्ते फरगाना गया; लेकिन उसे जल्दी ही असफल हो उतुलुक (मुगोलिस्तान) लौटना पड़ा, जहाँसे जल्दी ही काशगर गया।

अगले जाड़ोंमें ताहिरका डेरा कोचकरके पास था। आधे किर्गिज उसकी ओर थे। रशीद अतवासामें पड़ा था। १५२६ ई० के आरम्भमें रशीदने किर्गिजोंके साथ मेल किया, इसपर कितने ही कजाक सारे काश और कुनगोजतक सप्तनदसे हट गये। किर्गिजोंके डेरे कोचकर और जुगमलेके पास

पड़े हुये थे। ताहिरसे बातचीत करनेके लिये उसकी सौतेली मां (यूनस की पुत्री) को भेजा, जो कि काशगरमें सईदके पास रहती थी। सईद लौटकर अकसाई पहुंचा था, जब कि कजाकों और किर्गिजों के बीच समझौतेकी बातका उसे पता लगा। दोनों घुमन्तू जातियोंके मिल जानेका खतरा सईदको साफ मालूम होने लगा, इसलिये वह वहांसे बाबाचककी कूचीसेनाको भी ले अककुयाश होते अरिखलारके रास्ते चला। उसने सप्तनदसे किर्गिजोंको भगाकर उनकी एक लाख भेड़ें पकड़ लीं, जिससे उस स्थानका नाम कोई-चरीकी (भेड़ोंवाला) पड़ा।

१५२७ ई०के वसन्तके आरम्भमें ताहिर अतवासपर चढ़ आया, और वहांसे उसने किर्गिजोंके साथ मिलकर मुगलोंको मार भगाया। मुगलोंके हट जानेपर अब सप्तनद कजाकों और किर्गिजोंके हाथमें चला गया, लेकिन दोनों जातियोंकी मित्रता अधिक दिनोंतक नहीं निभी। १५२६ ई० में ताहिरने अपने भाई अब्दुल कासिमको मार डाला, जिसपर कजाकोंने उसका साथ छोड़ दिया। १५२९ ई० में अभी ताहिरके पास बीस या तीस हजार कजाक थे। हैदरके अनुसार ताहिर अन्तमें बड़ी बुरी अवस्थामें मरा। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसका भाई वुईदश हुआ।

(तिब्बतपर जहाद)—हैदर कलमका ही नहीं तलवारका भी धनी था। 'गाजी' बनने की उसकी बड़ी इच्छा थी, जिसके लिये उसने तिब्बतके भीतरतक आक्रमण किया। अपने इतिहासमें वह लिखता है: ९३४ हि० (२७ IV १५२७-१७८ VIII १५२८ ई०)में सईद खानने मुझे अपने बेटे रशीद सुल्तानके साथ बालूर (बदखशां और कश्मीरके बीचमें काफिरोंके देश काफिरिस्तान) पर आक्रमण करनेके लिये भेजा। यहां हमने सफलतापूर्वक 'धर्मयुद्ध' किया, और विजयी हो बहुत भारी लूटके मालके साथ लौटे। . . . ९३८ हि० (१५ VIII १५३१-५ VII १५३२ ई०) के अन्तमें खान सईदने तिब्बतके काफिरिस्तान (लदाख) के साथ 'धर्मयुद्ध' किया, और मुझे पहले ही सेना देकर भेजा। मैंने बहुतसे किलोंको लेकर तिब्बत (लदाख) देशके अधिक भागको अपने अधिकारमें कर लिया था, जब कि खान हमारे पास पहुंचा। दोनोंकी सेनामें पांच हजार आदमी थे। यह संख्या इतनी अधिक थी, जिसे सारा तिब्बत मिलकर जाड़ोंमें खिला-पिला नहीं सकता था। खानने चार हजार सेना और इस्कन्दर सुल्तानके साथ मुझे कश्मीर भेजा, और खुद बलती-बालूर और तिब्बत (लदाख)के बीचमें जाड़ा बिताया। (हैदरका यह बालूर गिलगितका इलाका है, और तिब्बतसे उसका मतलब लदाखसे है)। खान बलतीमें 'धर्मयुद्ध' में लगा रहा, फिर वसन्तमें वह तिब्बत (लदाख) लौटा। हैदरने कश्मीरमें पहुंचकर वहांकी सेनाको हराया। कश्मीरके राजा मुहम्मदशाहने अपनी लड़की इस्कन्दर सुल्तानको ब्याह दी, और सईद खानके नामसे खुतबा और सिक्का चलाना मंजूर किया। कश्मीरसे लूटकी भारी सम्पत्ति ले हैदर वसन्तमें तिब्बत (लदाख) में खानके पास पहुंचा।"

अबकी खानने हैदरको उर-सांग (बू-चाङ्ग) की ओर भेजा, अर्थात् हैदर अब मुख्य तिब्बतकी ओर चला। खान उसे इस तरफ रवाना करके काशगर लौट गया। हैदर तिब्बतकी ओर बढ़ते हुए ऐसी जगहपर पहुंचा, जहांपर सांस रुकनेका रोग होता है (अर्थात् अधिक ऊंचाईके कारण हवाके क्षीण होनेसे सांस अधिक फूलने लगती है)। शायद वह लदाखसे यारकन्दकी ओर जानेवाले बड़े डांडोंपर जा रहा था। इसी समय ९३९ हि० (३ VIII १५३२-२४ VI १५३३ ई०) में ४५ सालकी उमरमें सईद खान मर गया और हैदरके अनुसार इस इस्लामके 'गाजी'को अल्लामियाने स्वर्गमें पहुंचाया। हैदरके अनुसार सईदने अपने अभियानोंसे राज्यकी सम्पत्ति बहुत बढ़ाई। मुगल, उज्बेक और चगताई तीनों उलुसोंमें उसके समान वाण चलानेवाला कोई नहीं था। वह एकके बाद एक सात-आठ तीर छोड़ सकता था और सभी लक्ष्यपर जाकर लगते थे। वह बड़े ही सुन्दर नस्तालीक अक्षर लिखता था। उसकी तुर्की और फारसी लिखावटोंमें कोई गलती निकाल नहीं सकता था। वह तुर्कीमें गद्य-पद्य दोनों लिखता था। हैदरने सिर्फ एक बार उसे फारसीमें कविता करते देखा था। वह सेहतारा और चारतारा अच्छी तरह बजा सकता था—चारतारापर उसका हाथ ज्यादा खुला हुआ था। वह वाण बनानेमें बड़ा चतुर था, और हड्डीकी दस्तकारीका भी अच्छा ज्ञान रखता था। वह बड़ा उदार था।

१६. रशीद, अब्दुर् रशीद, सईद-पुत्र (१५३३-५६ ई०)

सईद जब अन्दिजानमें बन्दीखानेमें पड़ा था, उस समय रशीद मांके गर्भमें सात मासका था । वह ९१५ हि० (२१ IV १५०९—१२ III १५१० ई०) में पैदा हुआ । बाबरके अनुसार उसका पूरा नाम अब्दुर् रशीद था । जिस समय खलील सुल्तानको शैबानी जानीबेगने अकसीमें मरवाया, उस समय खलील-पुत्र बाबा सुल्तान दूधपीता बच्चा था । सईद बाबाको अपने पुत्रसे भी ज्यादा मानता था, और ख्वाजा अलीबहादुरको उसने उसका अतावेग (अध्यापक-संरक्षक) बना दिया था । ख्वाजाका मुगोलिस्तानसे बहुत प्रेम था । उसने सईद खानसे प्रार्थना की, कि मुगोलिस्तान और किर्गिज प्रदेशको बाबा सुल्तानको दे दो, मैं स्वयं बाबाको अपने साथ ले वहांका सारा प्रबन्ध ठीक-ठाक करूंगा । खान राजी हो गया । बाबा सुल्तानके ससुरने मना किया—“अगर बाबा सुल्तानने एक बार उस देशपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो यहांसे सभी मुंगल मुगोलिस्तान चले जायेंगे, और खानको हानि पहुंचेगी, इसलिये यही अच्छा है, कि बाबाकी जगह रशीदको मुगोलिस्तान भेजा जाय ।” इतिहासकार हैदरका चचा बाबाका ससुर था, लेकिन वह रशीदका ज्यादा पक्षपाती था । सईद खानने अपने अधिकृत इलाकोंका एक-तिहाई रशीद सुल्तानको देकर मुगोलिस्तान भेज दिया । ९४४ हि० (१० VI १५३७—१ V १५३८ ई०) में सुल्तानके मुगोलिस्तान पहुंचनेपर मुहम्मद किर्गिजने सभी किर्गिजोंके साथ आकर सारे मुगोलिस्तानको अधीनता न स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया । उज्बेकोंने भी विरोध किया । उज्बेकों और किर्गिजोंके विरोधके मारे रशीदको काशगर लौटनेके लिये मजबूर होना पड़ा । अपने सम्मिलित शत्रुओंके साथ लड़नेमें हानि देखकर रशीदको पीछे उज्बेकोंके साथ समझौता करना पड़ा ।

बाप (सईद खान)के मरनेके बाद रशीद मुगोलिस्तानका खान बना । सबसे पहले जो काम उसने किया, वह था अपने पिताके खैरखाहोंका वध । २ अगस्त १५३३ (१० मुहर्रम ९४० हि०) को रशीद सुल्तानके आनेपर हैदरका चचा पिताकी मृत्युपर अफसोस प्रकट करने गया । आते ही रशीदने उसे तथा उसके मित्र अली सैयद दोनोंको मरवा दिया, और हैदरके चचाकी जगहपर मिर्जा अली तगाईको नियुक्त कर यह हुक्म दे काशगर भेज दिया, कि हैदरके चचाके बच्चों और संबंधियोंको बिना कोई दया-माया दिखलाये बड़ी क्रूरतासे मारनेमें कोई कसर उठा न रखना । यह खबर सुनकर पूर्वसे मन्सूर खान भी रशीदके ऊपर चढ़ दौड़ा, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा । मन्सूरने रशीदको दबानेके लिये और भी प्रयत्न किये, पर उसे सफलता नहीं मिली । रशीदके अत्याचारोंसे भयभीत हो उसके अमीरोंने विद्रोह किया, किन्तु रशीदने उनका दमन कर दिया । उसने अपनी सौतेली माताओं, बुवाओं और बहिनोंको भी निर्वासित कर दिया, जिनमें उसके बापकी चहेती बीबी जैनब सुल्तान खानम भी थी । इधर जब उसने अपनीसे इतना झगड़ा कर रखा था, उसी समय उत्तरमें उज्बेक-कजाक भी उसके दुश्मन थे, फिर अन्तर्वेदके उज्बेक-शैबानियोंसे मेल करनेके सिवा रशीदके लिये और कोई चारा नहीं था ।

८७७ हि० (८ VI १४७२-२९ IV १४७३ ई०) में यूनस खानने करातुकाईमें उज्बेक-कजाकोंको हराया था । लेकिन उसके बाद मुगल उनसे बराबर हार रहे थे, केवल रशीद खानने एक बार उनको हराया । इस समय अन्तर्वेदके मंगोलवंशियोंको चगताई कहा जाता था, और मुगोलिस्तानके चंगेजवंशियोंको मोगल, लेकिन चगताई मोगलोंके प्रति घृणा प्रदर्शित करते हुए उन्हें जाता (सीमांती) कहते थे, और मोगल चगताइयोंको करावाना । १६वीं सदीके मध्यमें लिखते हुए हैदरने कहा है—“वर्तमान कालमें बादशाहोंको छोड़कर कोई चगताई नहीं रह गया है । और ये बादशाह हैं बाबर बादशाहके पुत्र । चगताइयोंका स्थान (अब) कुछ दूसरे सभ्य लोगोंने लिया है ।” लेकिन रशीदका यह कहना गलत है । तेमूर-वंशज बाबर मांकी तरफसे अर्ध-मंगोलोंसे संबंध रखते भी बापकी ओरसे तुर्क था, मंगोल या मोगल हरगिज नहीं । लेकिन भारतमें व्यवस्थापित बाबरका वंश अपनेको मंगोल (मुगल) कहनेके लिये तुला हुआ था, जिसका दुहराना

बाबर और हुमायूँ का कृपापात्र हैदर अपना फर्ज समझता था। हैदरके लिखनसे मालूम होता है, तुफान और काशगरके आसपासमें अब भी तीस हजार मुगल (मंगोल) रहते थे, लेकिन मुगोलिस्तानको उज्बेकों (कजाकों) तथा किर्गिजोंने ले लिया था। मंगोल (मुगल) शब्दका कितना अनिश्चित प्रयोग उस समय हो रहा था, यह इसीसे मालूम होगा, कि हैदर किर्गिजोंको भी मुगल-कबीलेमेंसे बतलाता है, जो कि “खाकानके साथ बराबर विद्रोह करते रहनेके कारण मुगलोंसे अलग हो गये।” हैदरके समय सभी मुगल मुसलमान हो चुके थे, लेकिन किर्गिज अब भी काफिर (बौद्ध) थे। “इसीलिये उनका मुगलोंसे झगड़ा रहता है।” साथ-साथ इस्लामके गाजीका यह भी कहना है—“जो मुगल मुसलमान नहीं हैं, उनका हमने अधिक नामोल्लेख नहीं किया है, क्योंकि काफिर चाहे जमशेद और जोहाबके प्रतापको भी पा जायें, तो भी उसका जीवन याद रखने लायक नहीं होता।”*

९४४ हि० (१० VI १५३७-१ V १५३८ ई०)में रशीदने उज्बेक-कजाकोंको करारी हार दी थी, जिसमें उनके खान ताहिरका भाई तुगुम और सैंतीस सुल्तान मारे गये। कजाकोंका उसने सप्तनदमें उच्छेद-सा कर दिया। अपने बापका अनुकरण करते हुये रशीदने भी अपने बेटे अब्दुल्लतीफ को सप्तनदमें बँठाया, और शैबानी-उज्बेकोंसे मित्रता जारी रखी। ९५१ हि० (१५४४-१५४५ ई०) में इस्सिक्कुलके तटपर ताशकन्दके खान नौरोज अहमद (बराक)से मुलाकात की। इसके कुछ समय ही बाद उज्बेक-कजाकोंने फिर सप्तनदपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यह याद रखना चाहिये, कि अभीतक उज्बेक शब्द कजाक और शैबानी दोनोंके लिए प्रयुक्त होता था, जो कि पीछे स्वयं केवल अन्तर्वेदके शैबानी-अस्त्राखानी-मंगीती खानोंकी तुर्क प्रजाके लिये रूढ़ हो गया, और कजाक आधुनिक कजाकिस्तानमें रहनेवाले तुर्कोंको कहा जाने लगा। किर्गिज भी उस समयतक किर्गिज-कजाक कहे जाते थे, जो अन्तमें किर्गिजके नामसे मशहूर हुये।

रशीदका ज्येष्ठ पुत्र अब्दुल्लतीफ बापके जीवन हीमें कासिम खानके पुत्र अकनजरके साथ लड़ाई करते मारा गया। अकनजर किर्गिजों और कजाकोंका खान था। अंग्रेज यात्री जेन्किन्सनके अनुसार १५५८ ई०के आसपास कजाकों और किर्गिजोंने ताशकन्द और काशगरमें बड़ी लूट-मार की, और चीनसे पश्चिमी-एसियाकी ओर जानेवाले वणिक्पथको काट दिया।

रशीद मुगोलिस्तानी खानोंमें अन्तिम शक्तिशाली खान था।

१७. अब्दुल करीम, रशीद-पुत्र (-१५९३ ई०)

यह अकबरका समकालीन था और १५९३ ई०में काशगरपर शासन करता था। अब्दुरशीदका तीसरा पुत्र अब्दुरहीम पिताकी आज्ञाके बिना ही तिब्बतमें जहाद करने गया, जहाँ वह मारा गया। कश्मीरपर कितने ही समयतक मुगोलिस्तानके खानोंका अधिकार रहा, फिर १५८७ ई० के आसपास अकबरने कश्मीरको ले लिया।

१८. मुहम्मद खान (१६०३ ई०)

ईसाई साधु गोयेज आगरासे लाहौर, काबुल, बदख्शा होते १७०३ ई०में यारकन्द पहुँचा। उस वक्त मुहम्मद खान वहाँका राजा था। गोयेज सालभर यारकन्दमें रहा। उस समय काशगर राज्यकी राजधानी यारकन्द थी। गोयेज सूचाव (चीन)में अप्रैल १६०७ ई०में मर गया।


१९. इस्माईल खान

यारकन्दकी गद्दीपर पीछे इस्माईल बैठा।

बाबर और हैदरकी पलटनमें मुगल नामसे प्रसिद्ध तुर्क भी काफी संख्यामें आये थे। दिल्लीके पास-पड़ोस और रावलपिंडीके इलाकेमें इन मुगलोंकी संख्या काफी थी। पश्चिमोत्तर प्रदेशके रास्तेपर भी वह जहाँ-तहाँ बस गये थे, इनमें चगताई (बाबरके अपने भाई-बंधों)की संख्या २३५९३ थी, और बरलसोंकी १२१७३।

*इसी जगह हैदरने अपने ग्रंथके बारेमें लिखा है—“यह तारीखे-रशीदी ९५३ हि० के जुलहेजा महीनेके अन्त (फरवरी १५४७ ई०) में कश्मीरके नगरमें लिखी गई, जब कि मुझ मुहम्मद गुरगान-पुत्र हैदर मिर्जाको कश्मीरके सिंहासनपर बैठे पांच वर्ष हो गये थे।”

३. (४. मुगोलिस्तानी खान-वृक्ष)
(१३२१-१५६५ ई०)



स्रोत-ग्रन्थ

१. तारीख रशीदी (मिर्जा मुहम्मद हैदर दुगलत्, लन्दन १८८८)
२. " (Tr. E. D. Ross, London 1895)
३. ओचर्क इस्तोरिइ सेमिरेच्या (व. व. बर्तोल्द)

सिबिरखान

(१५००-१६५९ ई०)

येरमकके सिबिर नगरके ड्वंस और पश्चिमी साइबेरियापर रूसके शासनके स्थापित होनेकी बात कहते हुये हमने सिबिरके खान कूचुमका जिक्र किया था । १७ वीं सदीमें साइबेरियामें बसनेवाली जातियोंके बारेमें भी हम बतला चुके हैं ।

सिबिरके खान भी अपना संबंध छिङ्ग-गिस्-पुत्र जू-छिके पुत्र शैबान खानसे जोड़ते हैं, जो कि बा-तू खानका भाई था । शैबानके बाद उसके पुत्र बा-तू खान, तत्पुत्र जूजीबुका, तत्पुत्र बादाकुल, तत्पुत्र मंगू तेमूर, तत्पुत्र तुकाबेक, तत्पुत्र अलीओगलान, तत्पुत्र हाजी मुहम्मद खान, तत्पुत्र इलबक (या ईबक), तत्पुत्र मुर्तजा, तत्पुत्र कूचुमखानके पास पहुंचकर हम येरमकके समकालमें आ जाते हैं । ७ नवम्बर १५८१ ई० में कूचुमको ही हराकर येरमकने उसकी राजधानी सिबिरको दखल किया था । कूचुमके बाद उसके पुत्रों अली और इशिमने कुछ समय तक शासन किया । इशिमका पुत्र अबले गिराई और उसके बाद इशिमके भाई चुवाकके पुत्र दौलात गिराईने शासन किया । साइबेरिया जैसे सम्यताके छोरपर बसे देशके बाकायदा इतिहास लिखनेकी सम्भावना नहीं हो सकती थी, इसलिये इन खानोंके बारेमें बहुत बातें हमें मालूम नहीं हैं । वस्तुतः कबीलेशाही-धर्ममें इतिहास द्वारा अमर होनेकी संभावना न देख शासकोंका सामन्तशाही-धर्मकी तरफ झुकनेका एक कारण यह भी है, कि सामन्तशाही पुरोहित अपने इतिहास-ग्रंथों या पुराणों द्वारा अपने यजमानोंको अमर कर देनेकी क्षमता रखते थे । सिबिरतक इस्लाम पहुंचा तो था, लेकिन अभी वहांके लोगोंपर उसका गहरा प्रभाव नहीं पड़ा था । बा-तूके वंशके खतम होनेपर सुवर्ण-ओईके सिंहासनपर शैबानी-वंशज खिजिरखा बैठा, जो कि मङ्गू तेमूरका संबंधी था । खिजिरखाका सिक्का ख्वारेज्ममें भी मिला है, जिससे जान पड़ता है, शायद ख्वारेज्मपर भी उसका अधिकार था । मङ्गू तेमूरके छ पुत्रोंमें किपचकका खान पुलद या पोलाद-तेमूर है । इसने किपचक खान अजीजको १३६७ ई० के आसपास मार डाला । पोलादके दो पुत्रोंमें अरबशाहके वंशजोंने ख्वारेज्मपर शासन किया, और इब्राहिमके वंशजोंने बुखारापर, यह हम बतला आये हैं । मेङ्गू तेमूरके पौत्र हाजी मुहम्मद खानके पुत्र ईबकसे हम सिबिरके खानोंपर पहुंचते हैं ।

१. ईबक, हाजी मुहम्मद-पुत्र (१४९३ ई०)

ईबक या इलबक उस समय हुआ, जब कि जू-छि-उलुस विश्रुंखलित-सा हो चुका था । साइबेरिया और बश्किरोके छोटे-छोटे राजा इसे अपना अधिराज मानते थे । पुराने पंवाड़ोंमें इसे कजानका जार उपक कहा गया है । इसने अपनी बहिनका ब्याह साइबेरियाके शासक मारसे किया था, जिसे झगड़ा हो जानेके कारण पीछे इसने मार डाला । उसके बाद वह त्यूमेन (प० साइबेरिया) प्रदेशका राजा हुआ । ईबक १४९३ ई० के बाद किसी समय मरा ।

२. मुर्तजा, ईबक-पुत्र

इसके शासनकालमें उज्बेक-उलुसका अधिकांश भाग मुहम्मद शैबानी और इल्बर्सके नेतृत्वमें अन्तर्वेद और ख्वारेज्ममें चला गया । जिसका कारण था पूरबमें मंगोल राजा अलतन खानके

नेतृत्वमें मंगोलों द्वारा कल्मकोंपर भारी प्रहार पड़नेसे उनका पश्चिमकी ओर भागते हुए उज्बेकोंके ऊपर पड़ना। उन्हें कल्मकोंकी बाढ़ने डुबाना चाहा, और उधर तेमूरी साम्राज्यके नष्ट-भ्रष्ट होनेके कारण दक्षिणसे न्यौता आया। उज्बेक-उलुसमेंसे जो यहां रह गये, वह मुर्तुजाको अपना खान मानते रहे। मुर्तुजाने नोगाइयोंपर बड़ा अत्याचार किया, जिसका बदला पीछे उन्होंने उसके पुत्र कूचुमको मारकर लिया।

३. कूचुम, मुर्तुजा-पुत्र (१५५५-१५ ई०)

१५५६ ई० में सिबेरके खान यादगारने रूसी जारके पास करन भेजनेका यह कारण बतलाया था, कि शबानी राजकुमार हमारे देशमें लूट-मार कर रहा है। यह शैबानी राजकुमार कूचुम खान था, जो उस समय सिबिरसे पश्चिमके त्यूमन प्रदेशका शासक था। १५६३ ई० के आसपास कूचुमने यादगारको हटाकर सिबिर राजधानी दखल कर ली। १५६९ ई० में रूसी उसे सिबिरका जार (राजा) कहते थे, जिसे रूसी जारने एक संधि द्वारा अपने संरक्षणमें ले लिया था। संरक्षणकी एक शर्त यह थी, कि सिबिर खान हर साल सेबलकी हजार छालें और स्क्वाइरलों (गिलहरी) की हजार छालें प्रतिवर्ष भेजा करेगा। इस सोनेके मुहर लगे संधि-पत्रको चाबुकोफ साइबेरिया ले गया। कूचुमकी एक बीबी कजानके किसी छोटे खानकी लड़की थी, जिसके साथ कितने ही रूसी और चुवाश गुलाम भी सिबिर गये थे। उसकी दूसरी दो बीबियां मिर्जा दौलतबेगकी लड़कियां थीं। इस प्रकार सभ्यताके सीमान्तपर बसे होनेपर भी सिबिर नगरीमें सभ्यताके संदेशवाहक स्त्री-पुरुष पहुंच चुके थे। लेकिन कूचुमकी प्रजामें अभी बर्बर अवस्थामें रहनेवाली कितनी ही जातियां थीं। इतिश और तोबोलके कितने ही तारतार ओर्दू तथा बाराबिनके तारतार भी इसे अपना खान मानते थे। इसीके समय त्यूमनमें रूसियोंके साथ मिला हुआ एक अर्ध-स्वतंत्र राजा रहता था। इस तरह कूचुमका राज्य तूराके मुहानेसे अधिक पश्चिम नहीं था। तरखनके तारतार इसकी अन्तिम प्रजा थे। तोबोलके सबसे नजदीकवाले बश्किर और ओस्तियाक कबीले भी कूचुमके अधीन थे। कहते हैं, कूचुम पहला खान था, जिसने साइबेरियामें इस्लामका प्रवेश कराया, लेकिन अभी वह बहुत फैला नहीं था। उसने अपने पिता मुर्तुजाको लिखा, जिसपर उसने एक आखुन (बड़े मुल्ला) और कई मुल्लाओंके साथ अपने पुत्र अहमद गिराईको कजानसे इस्लामके प्रचारके लिये कूचुमके पास भेजा। कूचुमने प्रजाको जबर्दस्ती मुसलमान बनानेकी कोशिश की, तो भी वह अभी तारतारोंको पूरी तौरसे मुसलमान बनानेमें सफल नहीं हुआ था। इतिश-उपत्यकाके तारतार अब भी मूर्तिपूजक थे। रूसी यात्री मुलरसे यालीनिश तारतारोंके एक सरदार (बी) ने कहा था : अपनी जवानीसे ही हम अपने मां-बाप, अपनी प्रजा तथा पड़ोसियोंके साथ सदा मूर्तिपूजक रहे। तोबोलस्क और देमियान्स्कोयके बीचके निवासी लेबाउज्की ओर्दूके तारतार तथा तूरिन्स्कके पड़ोसवाले तारतार भी तबतक मूर्तिपूजक रहे, जबतक ओस्तियाकोंके साथमें उन्हें ईसाई नहीं बना लिया गया। बाराबिन्स्की कबीलेके बहुतसे लोग १८वीं सदीतक मूर्तिपूजक रहे, यद्यपि उनके इलाकेमें बहुत पहले कूचुमके समयमें ही मुसलमान पहुंच चुके थे। एक दूसरे रूसी लेखक फिशरके अनुसार निजार-उपत्यकाके तूरिन्स्क तारतारोंके कितने ही परिवार १६३९ ई० तक मूर्तिपूजक रहे।

७ नवम्बर १५८१ ई० को येरमकने किस तरह कूचुमकी राजधानी सिबिरपर अधिकार किया, यह हम बतला चुके हैं। १७ या १८ अगस्त १५८४ ई० को येरमक लड़ाईमें हारकर अपने कवचके भारी बोझके कारण नदीमें डूबकर मर गया, लेकिन उससे रूसी अधिकारको साइबेरियामें क्षति नहीं पहुंची। येरमक और उसके साथियोंका स्थान दूसरे रूसी बराबर लेते रहे। येरमककी मृत्युके दो साल बाद १५९६ ई० के बसन्तमें वोयवोद वासिली बोरिस-पुत्र सूकिन और इवान म्यास्नोईके साथ तीन सौ रूसी सैनिक आये—उन्होंने युगुरके पहाड़ों और ओब नदीके रास्ते चढ़ाई की। १० जुलाई १५८६ ई० को सूकिन तारतारोंके एक पुराने किले चिंगीपर पहुंचा, जो कि तुरा नदीके तटपर था। वहां उसने

त्यूमनके नामसे एक नगर बसाया, जो आजकल पश्चिमी साइबेरियाका एक जिला है । त्यूमन तुरा नदीके दक्षिण तटपर बसा उरालसे पूर्व रूसियोंकी प्रथम स्थायी बस्ती थी । रूसियोंने बहुत आसानीसे तुरा, पिशिमा, इसेत, तोदा और तबोलकी उपत्यकाओंके तारतारोंको अपना करद बना लिया और कुछ ही समय बाद सैदिक खानको भी अपनी अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया । सैदिक कूचुमसे पहलेके सिबिर-खानोंका वंशज था ।

कूचुम अब भी हाथमें नहीं आया था । वह भागकर नोगाइयोंके भीतर बराबिनके मैदानोंमें चला गया, जहांसे १५९० ई०में उसने तोबोल्स्कके पासवाले इलाकेपर आक्रमण किया, और रूसी प्रजा बननेके कारण कौरदक और सालिन्स्कके तारतारोंको लूटा । इसपर तोबोल्स्कके नये वोयवोद राजुल (कन्याज) कोल्जोफ-मोसाल्स्कीने कुछ रूसी और तारतार सैनिकोंके साथ अगले साल जुलाई १५९१ ई०में कूचुमके विरुद्ध अभियान किया, और वह चिलिक झीलके पास इशिमके तटपर कूचुमको हराकर उसकी दो बेगमों, एक पुत्र (अबुल्खैर) और बहुतसी लूटी हुई सम्पत्तिको लेकर वह लौटा । १५९४ ई० में रूसियोंने तारानगरका निर्माण किया, जिसके लिये जारने राजुल अन्द्रेइ वासिली-पुत्र लेज़्कोइको वोयवोद नियुक्त किया । वह मास्कोसे एक सौ पैतालीस स्ट्रेलत्सी, सौ कजान-तारतार, तीन सौ बाश्किर, पचास पोलकसाक भरोको साथ लेकर आया था । त्यूमनसे भी उसके साथ कितने ही लोग आये थे, जिनमें लियुवानी, चेरकासी, निर्वासित-कसाक, तथा कुछ साइबेरियाके तारतार थे । इस सेनामें अधिकांश सवार थे । उनके पास तोपखाना और काफी गोला-बारूद था । पहले नगरको तारा नदीके तटपर बसानेका ख्याल था, किन्तु पीछे विचार बदलकर उसे इतिशकी शाखा अगरकापर बसाया गया, पर नाम तारा ही रहा । रूसी अब कूचुमको दबानेके लिये उतारू थे । कूचुमको अधीनता स्वीकार करनेके लिये कहा गया, और यह भी वचन दिया गया, कि छोटे पुत्रोंमेंसे एक तथा दो-तीन प्रमुख तारतारोंको जामिनके तौरपर मास्को भेज देनेपर बड़े लड़के अबुल्खैर तथा दूसरे संध्रान्त बंदियोंको लौटा दिया जायगा । अबुल्खैरने भी जार फ्योदोरकी उदारताकी प्रशंसा करते हुये बापको चिट्ठी लिखी । कूचुमने जवाब दिया—“मैंने ये रमकको सिबिर नहीं दिया, यद्यपि उसने उसे जीत लिया । मैं शांतिसे रहना चाहता हूं, यदि इतिशके किनारेको सीमान्त मान लिया जाय ।”

१५९५ ई० में फ्योदोर येलिज़्की नया वोयवोद होकर आया । उसने तुरन्त कूचुम और उसके मित्र नोगाई खान अलीके ऊपर चढ़ाई करनी चाही । तोबोल्स्क और त्यूमनसे भी मदद आई, जिसमें पांच तोपें भी थीं । पहले जाड़ों में ९० कसाक-सैनिक भेजे गये, जो अयालिन्स्कके अट्ठाईस तारतारोंके साथ लौटे । कूचुम इन कसाकोंको अपने रहनेकी जगह ऊपरी इतिशमें ले जाना चाहता था । इस समय वह ओबके जलप्रपातसे दो दिन आगे गाड़ियां-नगरमें डेरा डाले पड़ा था । फिर वोयवोदने नया अभियान भेजा, जो कूचुमके रहनेकी जगहको नष्ट करके तारा लौट गया । लेकिन कूचुम अभी दबा नहीं था । १५९६ ई० के वसन्तमें दोमोशेरोफके अधीन तैंतालीस सैनिकोंका अभियान भेजा गया वह २९ मार्चको बरफानी जूतोंपर रवाना हुये । मामूली संघर्षके बाद रास्तेके चमगुल, लुगुई, लुबा, केलेमा, तुराश, बरमा (उलुकबरमा), किरकिपी आदि गांवोंने अधीनता स्वीकार की । इसी समय नोगाई मिर्जा चिन, और कितनोंने भी अधीनता स्वीकार की, लेकिन कूचुम अब भी प्रतिरोधके लिये तैयार था । अगस्त १५९८ ई० में ३९७ रूसी सैनिकोंके साथ अन्द्रेइ बोयेकोफ कूचुमके विरुद्ध ओब नदीकी ओर चला । चारों ओर फसलें खड़े खेतोंके बीचमें कूचुम अपने परिवार तथा पांचसौ अनुयायियोंके साथ छिपा हुआ था । २ सितम्बर को सूर्यास्तसे पहले रूसियोंने आक्रमण कर दिया । सारे दिन लड़ाई होती रही, जिसमें कूचुमका एक भाई, एक पुत्र, राजकुमार इलितन और पांच-छ अमीर, दस मिर्जा और एक सौ पचास सैनिक मारे गये । शामके वक्त नदीकी ओर शत्रु भगे । उनमें एक सौसे ज्यादा नदीमें डूब गये, पचास बन्दी बने, और कुछ लोग नावों द्वारा भागनेमें सफल हुये । वोयकोफको बहुतसे लूटके माल के अतिरिक्त आठ बेगमें, पांच कुमारियां और पांच राजकुमार हाथ लगे । वोयकोफने तारा

५. इशिम, कूचुम-पुत्र (—१६१६ ई०)

१६१६ ई० में इशिम सलबूर और कोशुर दो कल्मक राजकुमारोंके साथ ऊपरी इतिशमें सेमीप्लातिन्स्कमें रहता था। वहाँसे वह साइबेरियाके नगरोंमें ऊफा तक लूट-मार करता था। अलीके पकड़े जानेके बाद इसने अपनेको खान घोषित किया था। १६१८ ई० में कल्मकोंके साथ मिलकर इसने रूसियोंपर आक्रमण किया, जिसमें इतिशके मैदानों और तोबोलके बीचमें उसे बहुत बुरी तरहसे हारना पड़ा। इस लड़ाईमें इसके बहुत-से आदमी काम आये। १६२० ई० में इशिम कल्मक सेचक थैशीके साथ मिल कर शूचिये झीलकी ओर जा खबर लाया, कि पूर्वी मंगोलोंने कल्मकोंको बुरी तरह हराया है, और वह पश्चिमकी ओर भागे जा रहे हैं। इसके बाद इशिम तोरगुत राजा उरलुककी लड़कीसे ब्याह करके अपने ससुरके साथ रहता रहा। उरलुक बोला-कल्मकोंका प्रथम सरदार था। इस समय कल्मक पश्चिमी साइबेरियाके स्तेपीमें रूसी सीमाके दक्षिणकी भूमिमें रह रहे थे। १६२२ ई० में इशिम त्यूमनते सात दिनके रास्ते-पर तोबोल-तटपर अवस्थित खामा करगाईमें रहता था। इसके बाद वह ऊफा शहरके पास चला गया।


६. अबलइ गिराई, इशिम-पुत्र (१६३५-१६५० ई०)

अबलइ गिराई भी कल्मकोंके साथ मिलकर लूट-पाट करता था। कल्मक सरदार कोरुशुल, उरलुक और बाइबेगिश इसके दोस्त थे, जिनकी सहायतासे इशिमने बराबिनके तारतारोंको कल्मकों का करद बनाया। इस प्रकार सहायता करके अबलइ गिराईने कल्मकोंके थैशियों (राजाओं) तेलेंगुत राजा ओबक, कुरचाकिश सैची केशोसके साथ मित्रता बढ़ाई। अबलइ अपनी लूट-मार जारी रखे रहा। १६३२ ई० में वह इसेतके तटपर अलीबयेफ यूति नामक गांवमें था। १६३५ ई० में इसेत-तट, बेर्लें-निजिन्सकया और चूवावोफामें था। इसी साल रूसियोंने इसके विरुद्ध अभियान भेजा, लेकिन कुछ कल्मकोंके मारे जानेके सिवा उसका कोई फल नहीं हुआ। १६३६ ई० में ऊफासे अभियान भेजा गया। बहुतसे कल्मक मारे गये। अबलइ ५४ कल्मकोंके साथ पकड़कर ऊफा लाया गया, जहाँसे उसे मास्को भेज दिया गया। पीछे वहाँसे उसके चचेरे भाई दौलत गिराईको उसके मरनेकी खबर भेज दी गई।

७. दौलत गिराई, चुवाक-पुत्र (१६३७ ई०)

१६३७ ई० में तारामें बुखाराके बाईस व्यापारी आये, जिनके साथ दौलतका दूत भी था। १६४० ई० में कल्मकोंको साथ ले दौलतने तरखन्स्कोये ओस्त्रोग (राजकुमार द्वीप) को लूटा। इसपर १६४१ ई० में रूसियोंने दो सौ बहत्तर सैनिक भेजे, जिन्होंने उनमेंसे बहुतोंको मारा और कितनों को बंदी बनाया। बंदियोंमें तोरगुत-सरदार उरलुकका एक भतीजा और एक भतीजी भी थी। १६४६, १६४८, १६४९, १६५१ और १६५५ ई० में कूचुमवंशी राजकुमारोंकी लूट-मारकी खबर लगती रही। १६५९ ई० में बुगई, कुचुक, कंचुवार और चूचेलेईने एक हजार आदमियोंके साथ कितने ही कल्मक थैशियोंसे मिलकर बहुत-सी रूसी बस्तियोंको लूटा, और ३५८ पुरुषों और ३७५ स्त्रियोंको बन्दी बनाकर ले गये। पीछे इन बंदियोंमेंसे बहुतोंको जुंगारियाके खून थैशीके बीचमें पड़नेपर छोड़ दिया। अब वस्तुतः सिबिरके खानोंकी प्रभुता खतम हो चुकी थी, और याधिक (उराल) नदीके पूरबवाले प्रदेशके स्वामी कल्मक थे। उन्हींमें सिबिर खामके आदमी विलीन हो गये, और आगे इतिहासमें उनका नाम नहीं मिलता।

३. (५. सिबिरखान-वंशवृक्ष)
(१५००-१६५९ ई०)



स्रोत ग्रन्थ

१. ओचेर्क पो इस्तोरिड कलोनिजात्सि इ सिविरि (मास्को १९४६)
२. History of Mongol (H. H. Howorth)

जुङ्गर-साम्राज्य

(१५८२-१७५७ ई०)

कल्मक-मंगोल—मंगोलोंकी एक शाखाका नाम कल्मक था। इनका मंगोल नाम तोरगुत था, लेकिन मुसलमान और रूसी लेखक इन्हें अधिकतर कल्मकके नामसे पुकारते हैं। १६०० ई० (अर्थात् अकबरकी मृत्युसे पांच साल पूर्व) के पहले अल्ताई पर्वतमालाके पश्चिममें कल्मक नहीं थे। पूर्वी मंगोलोंके शक्तिशाली राजा अल्तन खानने जब १६२० ई० में तोरगुतोंको बुरी तरहसे हराया, तो वह अपने सरदारों खराखुला, दालय और मेरेगनके नेतृत्वमें पश्चिमकी ओर भागने लगे और फिर यम्बा नदी, उराल पर्वतमालासे पूर्व और अल्ताई पर्वतमालाके पश्चिममें छा गये। १६ वीं सदी तक यह भूभाग उज्बेक-कजाकों (शैबानी और कजाक) से नोगाइयोंके हाथमें चला गया था। वह इस भूमिमें अपना घुमन्तु-जीवन बिताते थे। कल्मकोंका उनसे संघर्ष होने लगा। कल्मक लगातार पश्चिमकी ओर बढ़ते बश्किरोंके देशमें पहुंचे। कल्मक राजा उरुसलन थैशीने बश्किरोंसे कर मांगा—बश्किर अभी तक नोगाइयोंके अधीन थे, जिससे नोगाइयोंसे झगड़ेकी नौबत आ गई। इस्माईल-पुत्र दीनेबेइका पुत्र कनाई उस वक्त नोगाइयोंका राजा था। तोरगुत (कल्मक) सरदार उरलुक और उसके पुत्र दाइशिगने नोगाई खानके विद्रोही सलतानियासे मिलकर १६३३ ई०में कनाईपर चढ़ाई की। कनाई रूसके अधीन था, इसलिये जारकी सरकारने तोबोल्स्क, त्यूमन और तुराके रूसी सेनापतियोंको उसकी मदद करनेके लिये हुक्म दिया।

१६४३ ई०में रूसियोंने आक्रमण करके उरलुक और उसके कुछ पुत्र-पौत्रोंको भी मार डाला। इसके बाद उरलुक-पुत्र येलदेङ और लोब्जाङने यायिक पार कर वोल्गाके मैदानोंमें प्रवेश किया, और नोगाइयोंको किताई-किपचक, मैलाबाश और येदिस्सन (एतिसन) के तीन भागोंमें बांट दिया। साथ ही उन्होंने उलाङतुमान (लाल ऊंटवाले ओर्दू)के तुर्कमानोंको भी उनकी भूमि यम्बाके दक्षिणी भागसे हटा दिया। अब वोल्गाके दोनों पारका इलाका नोगाइयोंके हाथसे निकलकर कल्मकोंके हाथमें चला गया। इस प्रकार नोगाई अपनी मूल-भूमिसे वंचित हुये। करीब डेढ़ शताब्दियों तक कल्मक इस भूमिमें छाये जरूर रहे, लेकिन अन्तमें फिर कजाक आकर आबाद हो गये, जिसके ही कारण आज यह भूमि कजाकस्तानके नामसे मशहूर है। पश्चिमी मंगोलोंको तोरगुत या कल्मक कहा जाता था, जब कि पूर्वी मंगोल खलखा नामसे प्रसिद्ध थे।

(१) कल्मकोंके भीतर ओइरोद, कुरी, तुला, तुमेत, बरगुत, कुरतुतके कबीले थे, जो अंगारा नदी और बैकाल सरोवरके पश्चिममें रहते थे। हो सकता है, पश्चिमी मंगोलोंका कोई मुख्य सरदार कल्मक रहा हो, जिसके नामपर कबीलेका यह नाम पड़ा।

(२) उरियानकुत मंगोल कोस्सागोल (झील)के पास रहते थे।

(३) सुवाइत (सूनित) कबतेरून (कैरून) भी मंगोलोंका कबीला था।


तायनखान (१४७०-१५४४ ई०) के पुत्रोंने आपसमें मंगोलोंका बंटवारा किया था।

कल्मकोंके बाद ज्यादा शक्तिशाली खलखा मंगोल थे। आज भी बाह्य-मंगोलिया इन्हींकी है। खलखाके उन्चास झंडे थे, अर्थात् ये उन्चास छोटे-छोटे कबीलोंमें विभक्त था। इनके चार मुख्य भेद थे—(१) जस्सक्तुखानके पश्चिमी खलखा, (२) तूशीयेतुखानके उत्तरी खलखा, जो कि तुला और केरुलोन-उपत्यकाओंमें रहते थे, (३) साइननोयनके मध्य खलखा, और (४) सेतजेनखानके पूर्वी खलखा।



मंगोलराजाबलि—चीनसे मंगोल-शासनके उठनेके बाद मंगोलोंकी शक्ति तितर-बितर हो गई थी, जिसको एक बार फिर एकत्रित करके १४७० ई० में तायनखान सारे मंगोलियाका शासक बसा। तायनखानका वंश-वृक्ष निम्न प्रकार है:—

३. (६ क. मंगोलिया-वंशवृक्ष)
(१३३२-१६०३ ई०)



तायनखान बहुत शक्तिशाली शासक था, लेकिन उसने बड़ी गलती यह की, कि राज्यको अपने ग्यारह पुत्रोंमें बांट दिया। इसके ग्यारह पुत्र थे—(१) तोरोबोलोद, जिसका पुत्र बोदी तायनकी गद्दीपर बैठा, (२) उलुस थैशी, (३) बुर्सबोल, (४) अरसू, (५) अल्लिखान, (६) वत्शिर, (७) अरा, (८) गेरेबोल, (९) गेरेसजा, (१०) बुशिगुन, (११) गेरेतू। इस विभाजनके बाद मंगोल शक्ति फिर दुर्बल हो गई, और छिड़-गिस्के वंशके दावेदार बहुतसे छोटे-छोटे खान हो गये।

अन्तर्-मंगोलिया—यह तायनखानके बड़े पुत्रोंके हाथमें गई। अन्तर्-मंगोलिया मंचूरियाके पड़ोस में थी, इसलिये दोनोंकी घनिष्ठता बढ़ी, और अन्तमें मंगोलोंकी मददसे मंचू नूर-हाच् या (ताई-चू) ने १५८३ ई०में अपने मंचू (छिड़)-वंश (१५८३-१९१२ ई०)की स्थापना की, जिसके द्वारा मंगोल सम्राटोंके स्थानपर स्थापित मिङ्ग-वंश (१३६८-१६४४ ई०)का उच्छेद हो गया। चीनके ऊपर अधिकार करके मंचुओंने कलके अपने सहायक मंगोलोंके ऊपर हाथ फेरा, और उन्हें अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया। इस प्रकार अन्तर्-मंगोलिया चीनका भाग बन गई।

बाह्य-मंगोलिया—इसे खलखा भी कहते हैं। यह तायनखानके छोटे लड़कोंके हाथमें गई। १६८९ ई०में उनमें और उनके पश्चिमी पड़ोसी ओइरोद—कल्मक—कबीलोंके बीचमें लड़ाई छिड़ गई। अन्तमें खलखा (बाह्य-मंगोलियावालों)को ओइरोदोंसे हारकर अपने कितने ही भूभागको गंवाना पड़ा। कल्मकोंके प्रहारसे मजबूर होनेपर खलखोंने रूसकी अधीनता स्वीकार करके अपना बचाव करना चाहा, लेकिन इस समय मंगोलियामें तिब्बतके दलाई लामाकी तरह एक बौद्ध संवराज—हू-तुकू-तू—का बहुत प्रभाव था। उसने यह कहकर रूसकी अधीनता स्वीकार करनेसे मना कर दिया, कि वह बौद्ध देश नहीं है। इसपर खलखोंने चीनकी सहायता चाही। इस समय मंचू-सम्राट् खाङ्ग-सी (शेङ्ग-चू १६६१-१७२३ ई०) चीनकी गद्दीपर था। उसने खलखोंकी मदद की, और ओइरोदों (ओलिओतों)को असानीसे दबा दिया। १६९१ ई०में खाङ्ग-सीने दोलोन-नोर (दक्षिणी मंगोलिया) में खलखोंकी एक बड़ी परिषद् बुलाई, जहाँपर एकत्रित होकर बाह्य-मंगोलियाके राजुलोंने चीन की अधीनता स्वीकार करते हुये अभय वर प्राप्त किया। तबसे प्रायः मंचू-वंशके अंतिम समय (१९११ ई०) तक बाह्य-मंगोलियाने चीनकी अधीनता स्वीकार कर रक्खी, और प्रतिवर्ष आठ सफेद घोड़े, और एक सफेद ऊंट—नौ श्वेत—करके रूपमें चीन सम्राट्के पास भेजे जाते रहे, और चीनका 'अम्बन' (महामात्य) बाह्य-मंगोलियाकी राजधानी उरगा (ताहुरे, आधुनिक उलानबातुर) में रहता रहा। उसके अतिरिक्त कोब्दो (पश्चिमी मंगोलिया) और उलियस्सुतैमें सैनिक राज्यपाल रहते थे।

कल्मक (जुंगर), ओइरोद (ओलियोत) खलखा मंगोलोंके प्रतिद्वंद्वी थे, इसे हमने अभी देखा। यद्यपि चीनकी सहायतासे खलखोंकी रक्षा हो गई, और कल्मकोंने खलखोंके हाथ बड़ी बुरी तरहसे हार खाई, लेकिन तो भी कल्मकोंकी शक्ति अपनी पश्चिमी और दक्षिणी पड़ोसियोंपर बढ़ती ही गई। पूर्वकी तरफ बढ़ावके एक जानेपर वह अपने सरदारों खराखुल, ताले और मेरेगनके नेतृत्वमें छू-मिश, ओब और तोबोलकी उपत्यकाओंमें रहने लगे। कल्मक पशुपाल थे, इसलिये चरागाहोंके लिये उनका नोगाइयोंसे झगड़ा हो गया। नोगाइयोंके अधीनस्थ बाश्किरोसे कर मांगनेपर नोगाइयोंसे संघर्ष हुआ, यह हम बतला चुके हैं।

कल्मकोंकी शक्तिका संस्थापक तुमेतवंशी अल्लन खान (१५०७-८३ ई०) को माना जाता है। इसने १५५२ ई०में ओइरोतोंके नेताके तौरपर कजाकोंके खान तवक्कल शिगाई-पुत्र तथा ताहिर खानके वंशजोंको लड़कर भगा दिया। तवक्कल ताशकन्द पहुंचा, जहाँका खान नौरोज अहमद (मृत्यु १५५६ ई०) था। तवक्कलने मंगोलोंके विरुद्ध उससे मिलकर लड़नेकी बात की, तो उसने जवाब दिया : हमारे जैसे दस खान भी कल्मकोंका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

इस समय सप्तनद और उसके आसपासकी भूमिमें किर्गिज और कजाक दो घुमन्तू जातियां रहती थीं। १९० हि० (१५८२ ई०) अर्थात् अकबरके समकालीन एक अज्ञात लेखकके अनुसार किर्गिज मंगोलोंके वंशके हैं, और उनके यहां कोई राजा नहीं होता—उसकी जगह उनके नेता बेक होते हैं, जो कि काफिर हैं। वह पहाड़ोंमें रहते हैं। यदि कोई उनके ऊपर अभियान करता,

तो वह अपने परिवारको पहाड़ोंमें छिपा देते, फिर शत्रुका मुकाबिला करते हैं। उनकी भूमि बहुत ठंडी होनेसे सहायक होती है, जिसके कारण सफल विजेता भी उन्हें हाथमें नहीं रख सकता।

कजाक—काफिर किर्गिजोंके पड़ोसी कजाक थे, जिनकी संख्या दो लाख परिवार थी। यह मुसलमान तथा केवल इमाम अबू-हनीफाके अनुयायी (हनफी) थे। इनके पास बहुतसे ऊंट थे। यह अपने तम्बुओंको गाड़ियोंपर ले चलते थे। मुसलमान होनेकी वजहसे इनका संबंध बुखारासे बहुत घनिष्ठ था। कजाकोंके खान तवक्कलने १५९४ ई० में जार फ्योदोरके पास अधीनता स्वीकार करनेके लिये अपने दूत मास्को भेजे। उस समय रूसी तवक्कलकको 'कजाकों और कल्मकोंका राजा' कहते थे, जिससे यह पता लगता है, कि १६वीं सदीके अन्तमें उसने कल्मकोंके विरुद्ध कोई सफलता प्राप्त की थी। अपनी मृत्युके समय तवक्कल तुर्किस्तान-शहर (निम्न सिर-उपत्यका) और काश्गरका शासक था। ये दोनों नगर कजाकोंके हाथमें प्रायः १७२३ ई० तक रहे। १७ वीं सदीमें कजाकोंकी शक्ति बहुत मजबूत थी। उस वक्त वह सप्तनदपर भी अधिकार रखते थे, और उनका केन्द्र तुर्किस्तान और ताश्कन्दके नगर थे। उसी शताब्दीके अन्तमें ख्वारेज्म और वोल्गातट तक उनका प्रभुत्व फैला था। लेकिन इसी समय कजाकोंके प्रतिद्वंद्वी कल्मकों (जुंगरों)की शक्ति बढ़ी। कल्मकोंके राजा निम्न प्रकार थे—

जुंगर-(कल्मक) राजावलि—

१. खराखुल या कराकुल	—१६३४ ई०
२. बातुर थैची, खराखुल-पुत्र	१६३४—५३ "
३. सेङ्गो, बातुर-पुत्र	१६५३—७१ "
४. गल्दन, गन्दन, बातुर-पुत्र	१६७१—९७ "
५. छेवङ्ग-रन्तन, सेङ्गो-पुत्र	१६९७—१७२७ "
६. गल्दन, छेरिङ्ग-छेवङ्ग-पुत्र	१७२७—४५ "
७. छेवङ्ग-दोर्जे, गल्दन छेरिङ्ग-पुत्र	१७४५—५० "
८. दावा छेरिङ्ग, सेङ्गो-वंशज	—१७५५ "
९. अमुरसना, बातुर-थैची-वंशज	१७५०—५७ "

१. खराखुल, कुतुगैतू अबूदा अबलई-पुत्र, ओनगोजो-पौत्र, अरखान चिङ्ग-सेन-प्रपौत्र (—१६३४ ई०)

तायन खानके समय (१४७०—१५४४ ई०), कल्मकों [१ करइत (केरगुदी), २. जुंगर, ३. देरबेत, ४. खोरोत (चोरोस)] की भूमि तयानशान-पर्वतमालाके उत्तर तथा बोगदोउला-पर्वतके पड़ोसमें थी। सोलहवीं सदीमें इनका केन्द्र कुल्जाके आसपास इलि-उपत्यकामें था। खराखुल (चोरोस) मंगोलोंके खान खराखुलने १६३४ ई०के आसपास (शाहजहांके समय) ओइरोतोंको एकताबद्ध करके अपनी शक्तिको बढ़ानेकी कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता उसके पुत्र बातुर थैची (तैची, तैसी, थैशी) को हुई।

२. बातुर थैची, खराखुल-पुत्र (१६३४—५३ ई०)

१६३४ ई० में बातुर (बहादुर) ने अपने बापका राज्य पा खून-थैचीकी उपाधि धारण की। इसके समय ओइरोतों या जुंगरों (वामदल) का राज्य दृढ़ हुआ। इसने १६४० ई०में कूरिल्टाई (महापरिषद्) बुलाई, जिसमें रूसके राज्यमें रहनेवाले कल्मकोंके भी प्रतिनिधि आये थे। यहां पर बातुरको खून-थैची (सारे कल्मकोंका सरदार) बनाया गया। बातुर ऊपरी इतिश-उपत्यका तथा जाइसन सरोवरके पासकी भूमिमें चारण करता था। इसने तवक्कल खानके भाई और उत्तराधिकारी कजाकोंके खान इशिमसे सफल लड़ाइयां कीं। १६५३ ई०में बातुरके मरनेके समय कल्मक एकताबद्ध हो चुके थे।

अल्ताईके उत्तरमें रहनेके कारण बातुरके कल्मकोंको उत्तरी एलियोत (ओइरोत) भी कहा जाता था, और दाहिनेकी ओर प्रवास करनेके कारण जुंगर—सेगोनगर—या वामपक्ष भी। बातुरने तोर्गुतोंके राजा उर्लुककी लड़की ब्याही थी, लेकिन पीछे उर्लुकसे झगड़ा हो गया, जिसके कारण भी तोर्गुत पश्चिमकी ओर प्रयाण करनेके लिये मजबूर हुये। करा-ईतिशकी उपत्यकामें बातुरके रूसी तथा खलखा पड़ोसी हुये। रूसी अबतक साइबेरियाके खानोंकी शक्तको छिप-भिन्न कर चुके थे। ताराके आसपासके बराबिंस्की तथा दूसरे तुर्की कबीलोंपर बातुर थैचीका दावा था। उसके आदमी १६०६ ई० में कर उगाहनेके लिये इस इलाकेमें गये, तो रूसियोंने विरोध किया, लेकिन वह उन्हें वहांसे भगा नहीं सके। अगले साल कल्मकोंने कूचुमके पुत्रोंको साथ ले तारासे पश्चिमकी ओर बढ़ते हुए तोबोल्स्क, त्यूमन आदि जिलोंपर भी हमला किया। तारा-उपत्यकाके निवासी ईतिशके मैदानोंसे नमक लाकर सारे देशमें बँचते थे। १६१० ई० में कल्मकोंने नमककी खानोंको दखल कर लिया। इसपर तारतारों और दूसरे कबीलोंने लड़नेकी तैयारी की, लेकिन जब १६१३ ई० में नमककी खानें उन्हें मिल गई, तो झगड़ा खतम हो गया। १६१५ ई० में बातुर थैची (खराखुल तैची ?) के दूत तारा गये। और अगले साल थैची, बातुर और कई दूसरे थैचियोंने तोबोल्स्कसे आये रूसी कसाकोंके सामने जाके प्रति राजभक्तिकी शपथ ली, लेकिन यह शपथ नाममात्रकी थी। कल्मकोंने छेड़-छाड़ जारी रखी, और १६१८ ई० में ईतिश और तोबोलकी बीचकी भूमिमें सिबिर खानके पुत्रोंके साथ आये कल्मकोंको रूसियोंने हराकर उनके सत्तर ऊंट और एक बक्सी (भिक्षु)को पकड़ लिया, जिसे पचास घोड़ा देनेपर छोड़ा गया।

१६२० ई० में बातुर तैची (?) खराखुलने अल्तन खान खलखाकी राजधानीको दखल किया, जो कि उवसा सरोवरके ऊपर थी, लेकिन खलखोंने जल्दी ही कल्मकोंके ऊपर आक्रमण करके उन्हें हरा दिया। कल्मक तैचीको अपने एक पुत्रके साथ ओबकी ओर भागनेके लिये मजबूर होना पड़ा। कल्मक तैचीने चूमिश नदीके तटपर एक दुर्ग बनाया। उसके दूसरे जुंगर-कल्मक ईतिश, तोबोल आदिकी उपत्यकाओंमें चले गये। इसी समय देरबेत-मंगोल भी भागकर साइबेरियामें गये।

धीरे-धीरे बातुरका राज्य बढ़ा। किर्गिज और कजाक खास तौरसे अधीनता स्वीकार करने के लिये मजबूर हुये। कुछ कल्मकोंने किर्गिज और कजाक बंदियोंको रूसियोंके पास भेजकर उनसे अपने बन्दी छुड़ाये। १६२३ ई० में खलखोंने फिर कल्मकोंको हराया। अबतक पिछले चालीस सालोंमें खलखोंमें लामाओंका जोर बहुत बढ़ गया था। इसके बाद उनका प्रभाव जागन नोमेन खान द्वारा कल्मकोंपर भी पड़ने लगा, और जुंगर खान खराखुल, दरबेतोंके थैची तालेई और तोर्गुतोंके सरदार उर्लुकने अपने एक-एक बेटेको भिक्षु बनाया। इसका एक अच्छा परिणाम यह हुआ, कि खलखों और कल्मकोंके बीच चला आता झगड़ा शांत हो गया।

१६३४ ई० में रूसियोंको नमक न ले जाने देनेके लिये कल्मकोंने दो हजार सेना बैठा दी। रूसी डरके मारे नहीं गये, तो उन्होंने तारापर चढ़ाई कर दी, लेकिन वहांसे मार भगाये गये। १६३८ ई० में रूसी कसाक यामिश सरोवरपर पहुंचे, जहां कल्मकोंके साथ उनकी पंचायत बैठी, जिसमें निम्न शर्तोंपर सुलह हुई—(१) हम रूसी बस्तियोंपर आक्रमण नहीं करेंगे, (२) शिकार और मछलीके लिये गये रूसियोंके साथ छेड़-छाड़ नहीं करेंगे, (३) नमक ले जानेमें कोई रुकावट नहीं पैदा कर, उसके ढोनेके लिये अपने पशु भी देंगे। यह एकतरफा शर्तोंकी सुलह थी, जिसमें रूसियोंका ही पलड़ा भारी था। लेकिन कल्मक घुमन्तू ऐसी शर्तोंको माननेके लिये क्यों तैयार होने लगे? सीमान्तपर उनकी लूट-मार बराबर जारी रही।

बातुर थैचीका डेरा अपनी पुरानी जगह इली नदीके तटपर पड़ा था, जहांसे उसने सन् १६३४ ई० में त्यानशानके दक्षिणके नगरोंपर आक्रमण किया। बातुरकी धर्मभक्तिसे प्रसन्न होकर १६३५ ई० में दलाई लामाने उसे खुड-थैशी और एर्दन-बआतुरकी उपाधि प्रदान की। उसकी रूसियोंसे भी दोस्ती थी। उसने अल्ताईके उत्तर ओब-ईतिशके बीचकी भूमिके अपने उपराज कूला थैचीको हुकम दिया, कि तारा (रूसी नगर)से पकड़ लाये परिवारोंको लौटा दो। सौ परिवार—जिसमें रूसी भगोड़े भी शामिल थे—हजार घोड़ोंके साथ रूसियोंके पास लौटा दिये गये। अब रूसियों और बातुर थैचीमें दूतांका

दानादान होने लगा। इस समय बातुर एक बौद्ध विहार बनवा रहा था। निश्चय ही विहार अबतक तम्बुओंमें रहे होंगे, लेकिन तम्बुओं वाले विहारोंसे तो कीर्ति स्थायी नहीं हो सकती थी, इसलिये तिब्बतके विहारोंके अनुकरणपर वह एक भव्य इमारत खड़ी कर रहा था। उसने यह भी देखा, कि घुमन्तुगिरीसे जीविकाका स्थायी प्रबन्ध नहीं हो सकता, इसलिये वह चाहता था, कि कल्मक खेती करें। कल्मकोंकी एक प्रधान बस्ती थी कुबकसरी। बातुर अपना अधिक समय दे अपने देशको सुन्दर तथा खेती द्वारा समृद्ध करनेमें लगा था। १६४० ई०में नौ सौ रूबल (चांदी)के रेशम और दूसरे कपड़े मास्कोसे उसके लिये भेजे गये। थैचीके कहनेके अनुसार वयवोदको हुक्म मिला था, कि साइबेरियासे सूअर, मुर्गे और कुत्ते भी भेजे जायं। इससे मालूम होता है, कि बातुर अपने लोगोंके आर्थिक ढांचेमें परिवर्तन करना चाहता था।

रूसियोंके कारण बातुर थैचीका बढ़ाव उत्तर (साइबेरिया) में नहीं हो सकता था, और पूर्वमें चीनके कारण भी आगे बढ़नेकी गुंजाइश नहीं थी, इसलिये उसका ध्यान अपने पश्चिमके किर्गिज-कजाकोंपर ही जाना स्वाभाविक था। १६४५ ई० में उसने कजाकोंके सबसे बड़े खान इशिम खानको हराया, और उसका पुत्र यंगिर सुल्तान कल्मकोंके हाथमें पड़ा। लेकिन वह जल्दी ही उनके हाथसे निकल भागा और शक्ति संचय करके १६४३ ई० में उसने बातुरको पीछे हटनेके लिये मजबूर किया। पर इस हारका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। इसी समय बातुरका प्रधान शिविर इमिल नदीके तटपर कुबकसरीमें था। यहींपर रूसी राजदूत इलिन उससे मिला। लौटते समय बातुरने पत्र देकर इलिनके साथ अपने दो दूत कर दिये। बातुरके पत्रमें लिखा था :—

“परमभट्टारक महाराज (जार)को बगतिर खुद थैची अभिनन्दन करता है। हम अच्छी तरह हैं, और जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं। आप महाराज, और मैं खुद थैची अबतक शांतिके साथ रहे हैं। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। दूरतम देशोंके लोग हम दोनोंके पारस्परिक अच्छे बर्ताव और सौहार्दको सुन चुके हैं। मेरे और आपके लोग साथमें व्यापार करते हैं, और एक दूसरेको नहीं लूटते, न एक दूसरेसे लड़ते हैं, बल्कि दोनोंके बीचमें शांति है। लेकिन आपके लोगोंने हमारी प्रजापर करसागलेनमें तोम नदीके तटपर आक्रमण किया, और उनमेंसे कुछको बन्दी बनाया। अगर महाराज, आपको यह बात मालूम है, या आपकी आज्ञासे ऐसा किया गया, तो बिना मुवित-धन लिये बंदियोंको लौटा दो। अगर ऐसा नहीं हो, तो अपराधीको हमारे पास जुरमाना देनेके लिये मजबूर करो। आपके आदमी हमारे हर एक बंदीके लिये चार सौ सबलें (समूरी छाल) मांगते हैं, चाहे वह दस सालका बच्चा ही क्यों न हो। यदि आप कृपा करके उन्हें बिना मुवित-धनके छोड़नेको आज्ञा नहीं देंगे, तो हमारी मित्रता खतरेमें पड़ जायेगी। हम आपके पास २ पातरके छालें, ६ रूथी (धनुर्धरोंके कामका मोटा चमड़ा), और दो घोड़े भेज रहे हैं, जिनके बदलेमें हम एक कवच, एक बन्दूक, चार लड़नेवाले मुर्गे, आठ लड़नेवाली मुर्गियां चाहते हैं। यदि परमभट्टारक, आपको किसी चीजकी जरूरत हो, तो पत्रमें लिखें। हमारे दूतोंको मास्को जानेकी इजाजत मिले, जिसमें वह अपने घोड़ोंको साथ ले जा सकें।” इस समय जुंगारियामें अकाल पड़ा हुआ था, जिसके कारण बहुतसे कल्मक बरेबास्तेपीमें साइस्सननोर (श्रेष्ठ सरोवर)में मछली मारकर गुजारा कर रहे थे। इसके पहले इस सरोवरका नाम कीसलपू-नोर था।

शिकायतोंका कुछ भी फल न देखकर १६४९ ई० में खुद थैचीके प्रतिनिधि कुला थैची-पुत्र सकिलने तोम्स्क जिलेपर आक्रमण करके सगस्का गांवको उजाड़ दिया। अगले साल रूसियोंने कप्तान क्लपकोफको शिकायत करनेके लिये बातुरके पास कुबकसरीमें भेजा। उस समय बातुर वहां पत्थरोंकी इमारतोंवाले एक नगरके बनानेमें लगा हुआ था। बातचीत करनेपर मालूम हुआ, कि पहले रूसियोंने आक्रमण किया था। क्लपकोफके साथ फिर बातुरने अपने दूतोंको भेजकर दो बढ़ई, दो राजगीर, दो लोहार, दो बन्दूक बनानेवाले मिस्त्री, एक तोप, कुछ सोनेके आभूषण, बीस सुअरियां, पांच सूअर, पांच लड़ाईके मुर्गे, दस लड़ाईवाली मुर्गियां और एक घंटा मांगा था।

बातुर थैची बिखरे कल्मकोंको एकताबद्ध करके कल्मक साम्राज्यका संस्थापक तथा जबर्दस्त विजेता ही नहीं था, बल्कि उसकी जैसी प्रतिभा घुमन्तुओंमें मुश्किलसे पाई जाती थी। अकालोंके

भयसे त्राण पाने और दूसरे अभावोंको हटानेके लिये उसने अपने लोगोंको स्थायी तौरसे बस जाने की प्रेरणा दी, जिसके लिये जुंगारिया (कल्मक भूमि) में जगह-जगह बौद्ध विहार बनवाये। बातुर थैचीकी भारी मददसे कोकोनोरके खोसोतोंके सरदार गूशी (गूथी) खानने तिब्बतके छोटे-छोटे राजाओं को खतम करके सारे तिब्बतको एकताबद्ध कर १६४३ ई०में पांचवें दलाई लामाको प्रदान करके लामा-राज्यकी स्थापना की। बातुर थैची १६५३ ई०में मरा।

३. सेङ्गो, बातुर-पुत्र (१६५३-७१ ई०)

बातुरका बड़ा लड़का सेत्सेन खान या सेङ्गो इरशि ऊपरी इतिहास-उपत्यकामें चारण करता था। वह सेङ्गोका सलाहकार था। सेङ्गोका बापके साथ अच्छा संबंध नहीं था। उसने कई बार पिताके रास्तेमें हकावट डालनी चाही। पिताके मरनेके बाद यह कल्मकोंका थैची बना, तो भी सौतेले भाइयोंसे इसका झगड़ा बराबर चलता रहा, जिसमें ही वह १६७१ ई०में मारा गया।

४. गल्दन, बातुर-पुत्र (१६७१-९७ ई०)

सेङ्गोके बाद उसका भाई गल्दन बोशोक्तू (बुशू) खान गद्दीपर बैठा। गल्दन पहले बौद्ध भिक्षु बन तिब्बतमें अध्ययनके लिये गया हुआ था। लौटकर देश आनेपर भाई सेङ्गो (सेत्सेन खान) से अनबन हो गई। दोनोंमें लड़ाई हुई, और १६७६ ई० के अन्तमें सेत्सेनको ताल्की डांडे और सेइराम झीलके पास हारकर भागना पड़ा। गल्दनका कजाकों और किर्गिजोंसे भी झगड़ा रहा।

तिब्बतमें लूट-मार करनेके कारण गल्दनने अपने चचा शूकेरको किजिलपू सइस्सन (झील)के तटपर हराया। भिक्षुके तौरपर तिब्बतमें रहते समय इसका दलाई लामासे घनिष्ठ संबंध था, इसलिये उसका प्रभाव कल्मकोंपर बहुत जल्दी बढ़ा—जुंगर ही नहीं खोशोत आदि दूसरे कल्मक कबीलोंने भी इसकी अधीनता स्वीकार की, और १६७६ ई०में बापकी तरह इसने भी खुड-थैचीकी उपाधि धारण की। इसके समय त्यान्शानके दक्षिण (पूर्वी तुर्किस्तान)के शासक खोजा (पीर) थे, जिनमें आपसमें झगड़ा लगा हुआ था। काले पहाड़ियोंका नेता काशगरका खान इस्माईल था। उसने सफेद पहाड़ियोंके नेता अप्पक खोजाको देशसे भगा दिया था। अप्पक खोजा पहले कश्मीर गया। औरंगजेबको अपने धर्म-बंधुकी मदद करनेकी फुर्सत नहीं थी। फिर वह तिब्बतमें दलाई लामाके पास पहुंचा। दलाई लामाने खोजाको काशगर और यारकन्द दिलानेमें मदद करनेके लिये गल्दनके पास लिखा। १६७८ ई०में गल्दनने पूर्वी तुर्किस्तानको जीतकर अप्पकको अपना उपराज बना यारकन्दमें बैठा दिया, और काशगरके खानके परिवारको ले जाकर इली-उपत्यकाके मुसलमान नगर कुल्जामें बसा दिया। तबसे जबतक (१७५५ ई०में) कि चीनियोंका पूर्वी तुर्किस्तानपर अधिकार नहीं हो गया—अर्थात् ७७ वर्षोंके लिये—एक बार फिर पूर्वी तुर्किस्तानकी प्राचीन बौद्ध-भूमि कल्मक बौद्धोंके हाथमें जा जुंगर-साम्राज्यका अंग बन गई। वहाँके प्रबन्धका काम गल्दनने खोजाके हाथमें दे रक्खा था, जो प्रतिमास चार लाख तंका कर भेजता था। इसी समय गल्दनने तुफान और खामिलको भी जीत लिया, और बुशू खान (बोधिसत्व राजा) की उपाधि धारण की, जिसे कि अबतक छिङ्ग-गिस्की सन्तान ही धारण करती थी। गल्दनने चीन-सम्राट्के पास भेंट भेजी, जिसके लिये सम्राट्ने प्रतिभेंटके साथ-साथ राजमुद्रा प्रदान की। १६८२ ई०में सम्राट् खाङ्ग-सी गल्दन (गल्दन) के पास भारी भेंट भेजते हुये उसके प्रतिद्वंद्वी खलखा राजा तुशियेतूको भी भेंट भेजना नहीं भूला। १६८८ ई०में गल्दनने खलखोंके तुशियेतू खानपर चढ़ाई की। खलखोंमें भगदड़ मच गई, और तुशियेतूकी बीबी और बच्चे भी तीन सौ आदमियोंके साथ जान लेकर भागे। गल्दनको मालूम हुआ, कि उसके भाई सेङ्गोके मरवानेमें तुशियेतूका भी हाथ था, इसीलिये उसने दलाई लामाके दूतसे कहा था—“यदि मैं तुशियेतू खानसे सुलह कर लूं, तो मेरे भाईके खूनका बदला कौन लेगा? मैंने निश्चय किया है, कि अपनी सारी सेनाको ले उसके साथ चार-पांच वर्षतक लड़ाई करूं। मैं खलखोंको नष्ट करना चाहता हूं और तबतक संतोष नहीं लूंगा, जबतक कि तुशियेतूके भाई चुपसुन तन्पा*को हथकड़ियों-बेड़ियोंमें अपने पैरोंमें पड़ा नहीं देखूंगा।”

लेकिन अब गन्दन दूसरे झगड़ेमें फंसा। उसका भतीजा सेंड-पुत्र छेवड् अर्बतन बापके सिंहासनका दावेदार था। उसने १६८९ ई०में चचाको हराया। इस लड़ाईमें गन्दनके लोगोंकी हालत इतनी बुरी हो गई, कि कुछने तो जीवन-रक्षाके लिये आदमीका मांसतक खाया। लेकिन यह अवस्था देरतक नहीं रही। गन्दन यदि अपने पूर्वी पड़ोसी खलखोंसे लोहा ले रहा था, तो साथही उसने रूसके साथ खूब मित्रता स्थापित की थी। रूसी व्यापारी बराबर उसके राज्य (जुंगारिया) में जाते रहते थे। १६८८ ई० में गन्दनने दरखन (तरखन, राजकुमार) सइस्सनको दूत बना पत्र और भेंटके साथ इर्कुत्स्क भेजा।

चीन चुपचाप यह कैसे देखता रहता, कि उसके अधीन खलखोंसे कल्मकोंकी ताकत अधिक बढ़ जाये? इसीलिये वह बीचमें कूद पड़ा। रूसी अभी दूर थे, इसलिये वह अपने मित्र कल्मकोंकी अधिक मदद नहीं कर सकते थे। चीन-सम्राट् खाड् सीने बड़ी सैनिक तैयारी की। पहले वह स्वयं सेनाका संचालक बनकर आना चाहता था, लेकिन कहने-सुननेपर अपने बड़े भाई ऊ-हो-चे-यू चिड-वाड्को प्रधान सेनापति बनाया। गन्दन भी कोई ऐसा-वैसा प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने चीनकी राजधानी पेकिङ्से अस्सी योजन (लीग) पर जाकर लड़ाई छेड़ी। उसके पास चीनके बराबर सेना नहीं थी और न तोपें ही। पहले उसके हरावलको बहुत हानि उठानी पड़ी, लेकिन उसकी सेना दलदलके पीछे थी, जहां चीनी सेनाके लिये पहुंचना बहुत कठिन था। लड़ाई रात तक होती रही, और किसी निर्णयपर पहुंचे बिना ही दोनों सेनायें लौट गईं। चीनने इस शर्तपर समझौता किया, कि यदि गन्दन इस बातकी शपथ खाये, कि मैं सम्राट् और उसके मित्रोंकी भूमि-पर आक्रमण नहीं करूंगा, तो वह अपनी सेनाके साथ लौट जा सकता है।

गन्दनकी शक्तिको कमजोर करनेके लिये चीनियोंने उसके भतीजे अर्बतनको उसकाया। गन्दनका राज्य इस समय उत्तरमें केरुलोन नदीसे दक्षिणमें कोकोनोर सरोवरतक, और पूर्वमें खलखाकी सीमासे पश्चिममें किर्गिज-कजाकोंकी सीमातक फैला हुआ था। चीनी इतिहासकारों के अनुसार—“वह (गन्दन) कजाकों और तुर्कोंको प्रसन्न करनेके लिये अपनेको इस्लामका भक्त बताता था, और तूशियतू खानके भाई *जेचुन तन्पाके प्रतिद्वंद्वी दलाई लामाके पक्षका समर्थन करते हुये मंगोलोंके बीचमें झगड़ा पैदा किये हुये था।” गन्दनने मंचू सम्राट्के भक्त कोरचिन मंगोलोंके सरदारके पास लिखा था—“हमारे लिये इससे बढ़कर अयुक्त बात क्या हो सकती है, कि जिनके ऊपर एक बार हमने शासन किया, आज उनके ही हम दास बनें? हम मंगोल हैं, (बौद्ध) धर्मके नीचे एकताबद्ध हैं, इसलिये आओ हम अपनी शक्तियोंको मिलकर उस साम्राज्यको फिर प्राप्त कर लें, जो कि हमारा है, और हमें पूर्वजोंसे उत्तराधिकारमें मिला है। मैं अपने विजयके लाभ, यश और आनन्दमेंसे उनको अपना भागीदार बनाऊंगा, जो कि बिपद्में भागीदार बननेके लिये तैयार हैं। लेकिन अगर कोई भी मंगोल राजा—और मैं समझता हूं, कि ऐसे कोई नहीं हैं—ऐसे हैं, जो हमारे सबके एकसे दुश्मन मंचुओंका दास रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे क्रोधके भाजन वही होंगे, चीनको जीतनेसे पहले मैं उनका सत्यानाश करके रहूंगा।”

अप्रैल १६९६ ई०में एक बहुत जबरदस्त चीनी सेनाने गन्दनके विरुद्ध प्रस्थान किया। इस सेनाके साथ जेसुइत (ईसाई) साधु गेर्विलोन भी था। सम्राट् खाड्-सी भी सेनाके साथ था। दरबारियोंने सम्राट्को रास्तेसे लौटनेके लिये बहुत जोर दिया, लेकिन उसका उत्तर था—“मैं यह बात बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या मैंने अपने पूर्वजोंके सामने शपथपूर्वक अपने अभिप्रायको प्रकट नहीं किया? क्या हरएक सिपाही यह नहीं जानता, कि प्रस्थान करनेसे मेरा क्या मतलब था? क्या मेरे पूर्वजोंने खतरे और कठिनाइयोंका मुकाबिला करके सिंहासनको नहीं प्राप्त किया? शक्तिशाली वीरोंकी संतान होकर खतरेके डरसे औरतकी तरह मैं कैसे भाग सकता हूं? ऐसा आचरण करके मैं कौनसा मुंह लेकर अपने पितरोंसे भेंट कर सकूंगा?”

* जे-चुन् तन्-पा = भट्टारक शासन (धर) उर्गाके महालामाकी उपाधि थी।

आगे जानेपर पता लगा, कि गन्दन तुला नदीके तटपर था, जहांसे वह केरुलोन नदीके किनारे-किनारे लौट गया। चीनी मुख्य-सेना सम्राट्के नेतृत्वमें केरुलोनके किनारे-किनारे पश्चिम की ओर बढ़ती दोनों ओर सूइलहित तक गई। लेकिन, अब आदिमियोंके लिये रसद और जानवरोंके लिये चारा मिलना मुश्किल हो गया, इसलिये चीनी सेनाको मुड़कर तोइरिनके उपजाऊ इलाकेमें जाना पड़ा। गन्दनका पीछा करनेके लिये पांच-छ हजार सैनिक छोड़ दिये गये थे। चीनी सेनापति चे-ताइने गन्दनको बहुत मजबूत पाया, इसलिये कुछ गोलियां दागकर वह लौट पड़ा। गन्दनने उसका पीछा किया, और यह श्याल नहीं किया, कि दूसरा सेनापति तेयेन्कू काफी सेना लेकर उसकी ताकमें है। तो भी बड़ा जबर्दस्त मुकाबिला किया। यदि तोपचियों और बन्दूकचियोंने गोले-गोलियोंकी वर्षा न की होती, तो गन्दन पराजित न होता। अन्तमें कलमक पीछेकी तरफ भागे। तीस ली (८ मील) तक चीनी सैनिकोंने उनका पीछा किया। गन्दनकी रानी गोलीकी शिकार हुई। गन्दन अपनी लड़कियों, एक लड़के तथा कुछ अनुचरोंके साथ भागकर पश्चिमकी ओर चला। उसके सैनिकोंने चीनी जेनरलके पास आत्म-समर्पण किया। उसके बाद गन्दनके दूतने चीन-सम्राट्के पास पहुंचकर कहा—“जल्दी ही मेरा स्वामी भी खलखोंकी तरह साम्राज्य सिंहासनके पास आ शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार करेगा।” खाङ्-सीने चिट्ठी लिखकर गन्दनको अस्सी दिनका अवकाश दिया। लेकिन चीनी दूतोंमेंसे केवल एक गन्दनके सामने जाने पाया। उस समय गन्दन खुली जगहमें पत्थरोंके ढेरपर बैठा हुआ था। उसने पोची (दूत) को अपने पास आने नहीं दिया। सम्राट्की शुभेच्छाके लिये धन्यवाद दे अपनी इच्छा प्रकट करनेके लिये दूत भेजनेकी बात कही। कुछ क्षणोंकी भेंटके बाद गन्दन घोड़ेपर चढ़कर चला गया। चीनी दूतने देरतक प्रतीक्षा की। वह कुछ सैनिक कारंवाई करना चाहता था, किन्तु असफलतासे निराश और भतीजेके विद्रोहसे हताश हो गन्दनने ५ जून १६९७ ई० को आत्महत्या कर ली। कहते हैं, छ सप्ताह पहले वह सूर्योदयके समय बीमार पड़ा, और उसी रातको मर गया। यह खबर छ सप्ताह बाद चीन-दरबार को मिली।

गन्दनकी योग्यताके कायल उसके शत्रु भी थे। सम्राट् खाङ्-सीने स्वयं लिखा था—

“गन्दन एक बड़ा ही दुर्धर्ष शत्रु था। उसने समरकन्द, बुखारा, वुस्त (किर्गिज), उरगंज, काशगर, सूइरमान (? सैराम), तुफान और खामिलको मुसलमानोंसे ले लिया, और बारह सौसे अधिक नगरोंपर अधिकार किया, जो बतलाता है, कि उसकी बांह कितनी लम्बी थी। सातों झंडोंके खलखोंने व्यर्थ ही अपने एक लाख जवानोंको जमा करके उसका विरोध किया। उन्हें तितर-बितर करनेके लिये गन्दनके वास्ते एक वर्ष पर्याप्त था।”

यदि अपने प्रतिद्वंद्वियोंकी तरह गन्दनके पास भी बारूदके शक्तिशाली हथियार होते, या उद्दीयमान मंचू-शक्तिके यह आरम्भिक दिन न होते, तो कौन जानता है, उसने फिर छिड़-गिस्का अनुसरण करते हुये चीनके ऊपर मंगोलोंकी विजय-ध्वजा न गाड़ी होती ?

१६८१-८३ ई०में गन्दन सैरामपर आक्रमण कर रहा था। १६८३, १६८४ और १६८५ ई० में किर्गिजों और फरगानियोंके ऊपर उसने प्रहार किया। गन्दन प्रथम खुङ्-थैची था, जिसने हलीकी उपत्यकामें चारण किया। जाड़ोंमें वह कभी-कभी इतिशके तटपर रहता था। तुर्क जातियोंमेंसे केवल बुस्त (किर्गिज) १८ वीं सदीमें इस्सिककुलके पास विचरण करते थे। गन्दनके भतीजे छेवङ्-रब्तनने १६७८ ई० में चचाको मंगोलियामें अभियान करनेके लिये गया देखकर आक्रमण किया था।

५. छेवङ्-रब्तन, सेङ्-गो-पुत्र (१६९७-१७२७ ई०)

छेवङ् औरगंजबके शासनके अन्तिम दस सालोंके साथ-साथ और भी बीस वर्षतक मध्य-एशियाका शासक रहा। इसने अपने चचा और दादाकी सफलताओंको अक्षुण्ण रखते हुये अपने राज्यमें एकता स्थापित की। चीनको अपने रास्तेमें बाधक देखकर थोड़े ही समयमें छेवङ् भी चचाकी तरह उसका शत्रु हो गया। तो भी पहले सत्रह सालोंतक वह चीनके साथ शांतिपूर्ण बर्ताव करता रहा। १७१४ ई०में उसने चीन-अधिकृत हामीपर आक्रमण किया। चीनने आलक (अलताऊ) तकके इलाकेको उससे मांगा, जिसे छेवङ्ने देनेसे इन्कार कर दिया। चीनके जैसे बलिष्ठ शत्रुका विरोध करनेसे पहले

छेवडने जरूरी समझा, कि रूसियोंको अपना प्रभु मान लें। इसी संबंधमें बात करनेके लिये कल्मकोंके पास इवान चेरदोफ १७१९ ई०में भेजा गया इससे पहले १७१७ ई०में छोटी सी नदी खकिरपर मूजार्तके पास रहते हुये छेवडने तोबोल्स्कके रूसी राज्यपाल बेल्यानोफके पास अपना दूत भेजा था। १७२२ ई० में रूसी कप्तान उन्कोव्स्कीने इलीके दक्षिणी तटपर खुड-थैचीके शिविरमें मुलाकात की। जिस स्थानपर मुलाकात हुई, वह चारिनसे कुछ वेस्तपर था। उन्कोव्स्की सितम्बर १७२३ ई०तक छेवडके दरबार में उसके ओर्दूके साथ लूप और जरगलानकी उपत्यकाओंमें धूमता रहा, लेकिन इसका कोई अधिक फल नहीं हुआ, क्योंकि १७२२ ई० में मंजू-सम्राट् खाड-सीके मर जानेके कारण अब छेवडको चीनियोंसे उतना डर नहीं रह गया।

१७२३ ई० में कल्मकोंने कजाकोंपर भारी विजय प्राप्त करके सैराम, तुर्किस्तान-शहर और ताशकन्दको ले लिया। कप्तान उन्कोव्स्कीके अनुसार छेवडके पास एक लाख सैनिक थे। वह बहुत ही जनप्रिय था। वह बिना अपने सेनापतियों और सरदारोंकी सम्मतिके कोई निर्णय नहीं करता था। खुड थैचीका सौतेला भाई छेरिड-वोण्डुव (दीर्घायु सिद्धार्थ) उसका एक बड़ा सरदार और सलाहकार था, जो कि लेप्सा और करातलाके तटपर चारण करता था। इस समय कितने ही कल्मक भी खेती करने लगे थे। खरगोशके मुहानेके नजदीक सरतों (ताजिकों) की कई बस्तियां थीं। शांतिकालमें चीनियोंके साथ कल्मक व्यापार करते थे, रूसियों, तंगुतों (अम्दुओं), अन्तर्वेदियों और भारतीयोंके साथ तो वह बराबर व्यापार करते रहते थे।

१७१५-१६ ई०के जाड़ोंमें एक कारवाके साथ स्वीडन-निवासी रेनाड कल्मकोंके हाथमें पड़ गया। वह प्रायः सत्रह साल (१७३३ ई० तक) उनके देशमें रहा। उसने उन्हें यूरोपकी कितनी ही बातें सिखलाई, और उनके बारेमें भी भ्रान्तकारी प्राप्त की। कल्मक-भूमिकी स्थिति और विचार के बारेमें उसने लिखा है:—(१) सप्तनदका (अलाताउ), तेकुशचिख नदी तथा बलखाशकी तटभूमि, (२) उत्तरमें इलीसे कोकताल और कोकतेरेकके बीच अलतिन-एमेल और कोइविनके बीचकी भूमि, (३) उत्तरमें केगेनके किनारेसे और चारिनसे पूर्वमें केतनेन पहाड़तक, (४) ऊपरी चिलिक-उपत्यका और उसकी पासकी भूमि, (५) ल्यूपाके तटसे इस्सिककुलके दक्षिणी तट तक पश्चिमी छोरसे उत्तरमें कोइसू और अक्सूके बीच तक, (६) महाकेविन-उपत्यका चूके संगम कराताल तक।

चचाके साथ विरोधका कारण एक यह भी बतलाया जाता है, कि उसे पश्चिमी जुंगारियामें अधिकार न देकर उसके भतीजेको नियुक्त किया गया था, तथा त्यान्धानके पासवाले नगरोंमें भी उसे कुछ अधिकार-वंचित किया गया। १६९६ ई० में अर्बतन (रब्-तन) * के पांच सौ सैनिक तुर्फानमें थे। खामिल और आसपासका शासक उस समय अब्दुल्ला तरखनबेग था। १६९७ ई० में अब्दुल्लाने चीनसम्राट्से यह कहकर मदद मांगी, कि खुड-थैची हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहता है। अर्बतनने उसके ऊपर दोषारोप किया, कि अब्दुल्ला कल्मकोंकी सीमाके भीतर घुसकर गन्दनके पुत्र छेर्तन पल्जोर † (सेप्तेन बल्जूर) तथा दूसरे जुंगरोंको भी पकड़ ले गया, और हमारे दूतोंको रोके रक्खा। चीनने अब्दुल्लासे मांग की, कि गन्दनके पुत्रको दिखलाओ और हमारे दूत तथा बंदियोंको तुर्फान लौटा दो। अब्दुल्लाने कैदियोंको चीन भेज दिया, जिनमेंसे सत्तर आदमियोंको वहाँ जेलमें डाल दिया गया।

रब्-तन कैसे पसन्द करता कि चचाके समयसे उसके करद लोग चीनकी छत्रछायामें चले जाय ? बहुतसे छोटे-छोटे राजाओंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अर्बतनने तंतसीलाको हराया, जिसमें उसे चेरन सन्लुप (छेरिड सम्डुव्) गन्दन-पुत्र, चीनसी हाई (गन्दन-पुत्री), गन्दनकी स्त्री कुलीन और गन्दनकी चिताभस्म भी मिली। चीन-सम्राट् देख रहा था, कि छेवड फिर चचाकी तरह जुंगरोंको एकताबद्ध करनेमें सफल हो रहा है। उसने रब्-तनको रोकना चाहा, और पहले रब्-तन को विजयमें प्राप्त वस्तुओंको अपने पास भेजनेके लिये लिखा। रत्नका जवाब था:—
“लड़ाई अब समाप्त हो गई, इसलिये घावोंको भूल जाना चाहिये। हमें पराजितोंपर दया करनी

* रब्-तन=प्रशासन (तिब्बती)

† महाशासन श्रीयोगी (तिब्बती)

चाहिये । उन्हें नष्ट करनेका ख्याल बर्बरोचित होगा, मानवताका यह प्रथम विधान है, जिसे कि एलियोतो (ओइरोतो) ने सदा पवित्र मानकर पाला है ।” रब्तनने गन्दनके लड़के और पत्नीको भेज दिया, लेकिन लड़कीके बारेमें कहा—‘ओइरोतोमें कायदा नहीं है, कि अपने शत्रुओंकी लड़कीसे बदला ले । और गन्दनकी चिताभस्मसे सम्राट्के विजयमें कोई वृद्धि नहीं होगी ।’ इसके बाद चीनसे कई दूत आते-जाते रहे । बहुत दबाव पड़नेपर उसने गन्दनकी चिताभस्म और उसकी पुत्रीको चीन भेज दिया । सम्राट्ने भी अपने पुराने शत्रुकी संतानके साथ बड़ी उदारता दिखलाई, और दोनों बहिन-भाइयोंको क्षमा कर दरबारमें उन्हें ऊंचे पद दिये ।

अपने पश्चिमी पड़ोसियों किर्गिज-कजाकोंके साथ रब्तनने भयंकर युद्ध जारी रखा । १६८८ ई० के अपने एक पत्रमें रब्तनने सम्राट् खाङ्-सीको लिखा था, कि कैसे गन्दनने तबक्कल तुर्कके पुत्रको पकड़कर दलाई लामाके पास भेज दिया था । लेकिन मैंने उसके बापकी प्रार्थनापर पांच सौ आदमियोंके साथ उसे लौटा दिया, और केवल पांच सौ कृतघ्नोंको ही मारा । लेकिन ये कृतघ्न मेरे प्रदेश हुलियन हानपर चढ़ाई करके सौ परिवारोंको पकड़ ले गये । मेरे ससुर आयुका खानने मेरी बीबीको मेरे साले सत्तिसत-चापूके साथ जब मेरे पास भेजा, तो तबक्कलने उन्हें पकड़नेकी कोशिश की । उसने रूससे लौटते वक्त हमारे कारवांको भी लूटना चाहा । रब्तनके पास कजाकोंके खिलाफ कार्रवाई करनेके कई कारण हो सकते थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था चचाकी तरह उसकी राज्य-विस्तारकी अभिलाषा । उसने किर्गिज-कजाकोंके मध्य-ओर्दूके बहुत बड़े भागको अपने अधीन कर लिया, और इस्सिक्कुल-सरोवरके पास रहनेवाले बुरुतों (काले किर्गिजों) को भी जीत लिया ।

उस समय तिब्बतका गद्दीधारी (छठा दलाई लामा) उसके चचा गन्दनका आदमी था । खोशोत ल्हचन खानने उसे मार भगाया और तिब्बतसे जुंगरोंके प्रभावको खतम कर दिया । ल्हचनकी सफलतासे अब तिब्बतमें चीनके प्रभावके जमनेकी संभावना हो गई । इसपर रब्तनने कोकोनोरके पासवाले खोशोत मंगोलोंसे मिलकर दो सेनायें भेजीं, जिनमेंसे एक सीनिङ्-फू शहर पर पड़ी, जहांपर कि दलाई लामा नजरबन्द था, और दूसरी सेना पोतलाके विरुद्ध गई । पहली सेना को सफलता नहीं प्रप्त हुई, लेकिन दूसरीने जाकर ल्हासाको ले लिया । ल्हचन खानने पोतला-प्रासादमें शरण ली, लेकिन उसे पकड़कर मार डाला गया । तिब्बतके बहुतसे नगर और गांव उजाड़ दिये गये, मंदिर लूट लिये गये, स्वयं दलाई लामाके महल (पोतला) में बहुत सालोंसे जमा होती सम्पत्तिको भी जुंगरोंने लूट लिया । कितने ही विरोधी लामा थैलोंमें बन्द करके ऊंटोंपर लादकर जुंगारिया भेज दिये गये । तिब्बतकी मददके लिये आती एक सेनाको एक दुर्गम डांडेपर जुंगरोंने मारकर भगा दिया । १७१७ ई० या १७२२ ई० में जुंगरोंकी सेनाने तिब्बतमें आकर जो ध्वंसलीला की थी, उसके चिह्नस्वरूप अब भी मध्य-तिब्बतमें बहुतसे उजड़े हुये गांवोंकी दीवारें खड़ी मिलती हैं, जिनकी जुड़ाई और दूसरी स्थितिके देखनेसे पता लगता है, कि जुंगरोंके इस भयंकर प्रवाहके बाद फिर तिब्बतकी वास्तुकला अपनी पूर्व-स्थितिमें नहीं पहुंची । चचा गन्दनने जहां तिब्बतकी समृद्धि बढ़ानेकी कोशिश की, वहां उसके भतीजे रब्तनने उसके नाशमें हाथ बंटया ।

रब्तनकी यह कार्रवाई चीनको पसन्द नहीं थी । दो साल बाद चीनने उसे दंड देनेके लिये सेना भेजी, लेकिन वह उसके हाथसे केवल तुफानको ही छीन पाई । इससे पहिले १७१७ ई० में करासर नदीतक चीनी सेना पहुंची थी, जहांपर उसे कल्मकोंसे हारना पड़ा । १७१९ ई० में एक दूसरी चीनी सेनाने साइसन सरोवर तक धावा मारा । सम्राट् खाङ्-सीके शासनकालके अन्त (१७२३ ई०) तक चीन और जुंगरोंका संघर्ष जारी रहा । उसके उत्तराधिकारी युङ्-चेन (शी-चुङ् १७२३-३५ ई०) ने सीधे लड़ाईमें भाग लेनेकी जगह अपनी सेनाको हटाकर रेगिस्तानी कबीलोंको आपसमें लड़नेके लिये छोड़ दिया ।

रब्तनके शासनके अधिक समयतक पूर्वी तुर्किस्तानपर उसका वैसा ही प्रभुत्व रहा । एक बार वहांके मुसलमानोंने विद्रोह किया, जिसपर बड़ी संख्यामें जुंगर-सेना यारकन्द पहुंची, जिसका साथ काले-पहाड़ी नेता खोजा दानियलने भी दिया । काश्गरियोंको नगरका द्वार खोलनेके लिये मजबूर होना पड़ा । लोगोंके मनोनीत हाकिमबेगको कल्मकोंने भी अपना हाकिमबेग बनाया, और

वह काश्गरके खोजा अहमद तथा अपने सहयोगी दानियल खोजाको उनके परिवारोंको बन्दी बनाकर इली ले गये । १७२० ई०में रब्तनने दानियलको छ नगरोंका शासक बनाकर भेजा । दानियलने अपने लिये एक लाख तंका कर निश्चित किया, जब कि अप्पकके लिये हजार तंका मिलना निश्चित था ।

रब्तन जुंगर-वंशका सबसे शक्तिशाली राजा था । उसकी प्रजा उमे बहुत पसन्द करती थी, क्योंकि उसका बर्ताव उनके साथ बहुत अच्छा था । दलाई लामाने उमे "एदेंनी मूरिकत् वआतुर खुड्-थैशी" की उपाधि प्रदान की थी ।

रूसी अठारहवीं सदीके शुरूमें साइबेरियाके एक छोरसे दूसरे छोरतक पहुंच गये थे । मध्य-एसियाके भी कितने ही खान उनकी अधीनता स्वीकार किये हुये थे, इसलिये इस देशके बारेमें उनको बहुत-सी झूठी-सच्ची खबरें मिली थीं । किसीने उन्हें बतलाया था, कि पूर्वी तुर्किस्तानमें सोनकी खानें हैं । इसपर १७१४ ई०में साइबेरियाके रूसी राज्यपाल राजुल गगरिनने खुड्-थैचीके पास इस प्रदेशको लेनेके लिये इतिशसे यारकन्दतक किला बनानेका प्रस्ताव किया । साथ ही तोबोल्स्कमें वहांसे आई सोनेकी कुछ धूल भी भेजी । जारने इस कामके लिये इवान बुखोलजको भेजा, जो २९३२ सेनाके साथ जुलाई १७१५ ई०में तोबोल्स्कसे ताराके रास्ते रवाना हुआ, और इतिशसे साढ़े छ वेस्ट (१ फर्सख) पर अवस्थित यामिशकी नमकवाली झीलपर पहुंचा । इस झील तथा इतिशके बीचमें एक छोटी-सी मीठे जलकी झील प्रयाज्जोये ओजेरो थी, जिससे एक छोटी नदी प्रयाज्जुखा निकलकर इतिशमें गिरती थी । इसी नदीके मुँहके पास कुछ ऊंची भूमिपर रूसी यामीशेफका मिट्टीका छोटा-भा किला बनाने लगे । इसकी खबर पाकर, रब्तनके भाई छेरिड् दोंडुबने आक्रमण किया, और रसदके कारवांको भी लूट लिया । रूसियोंके पास आधुनिक अस्त्र-शस्त्र थे, तो भी उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ी । उनके पास जब सात सौ आदमी रह गये, तो वह किला तोड़कर उत्तरकी ओर लौट गये । तारासे दो सौ सतहत्तर वेस्ट (१३ फर्सख) पर ओब नदीके मुहानेपर उन्होंने ओम्स्कया-क्रेपोस्त नामक किला बनाया । उसी साल १७१६ ई०में बुखोलजको बुला मंगाया गया, और पीतर I ने मरिपोरोफकी मातहत दूसरा अभियान यामीसेफको लेनेके लिये भेजा । पीतर I इस योजनामें विशेष तौरसे दिलचस्पी रखता था । १७१७ ई० में स्तूपिनकी अधीनतामें दूसरा अभियान भेजा गया । उसने यामीशेफमें पहुंचकर बाकायदा एक मजबूत किला तैयार किया । १७१८ ई० के वसन्तमें विलियनोफने रब्तनके पास पहुंचकर उसे पीतरका पत्र किया । रब्तनने धमकी देते हुए किला तोड़ देनेके लिये कहा । किलेके तोड़नेकी बात तो दूर रही, स्तूपिनने १६१८ ई०में यामीशेफसे भी दो सौ अट्ठाईस वेस्ट (३४ फर्सख) आगे इतिशपर एक नया किला सेमीप्लातिन्स्क (सप्तप्रासाद) बनाया । यह किला एक बौद्ध विहारके ध्वंसपर बना, जिसकी नींव खोदते समय बहुतसे तिब्बती हस्तलेख मिले थे, जो युरोपमें जानेवाले सबसे पहले तिब्बती हस्तलेख थे ।

पीतरको गति मन्द मालूम हुई, इसलिये १७१९ ई०के आरम्भमें उसने इस कामकी देख-भालके लिये जेनरल लिखारेफको नियुक्त किया, जो भारी संख्यामें अफसरोंको लेकर मई १७२० ई० में तोबोल्स्क पहुंचा, फिर सेमीप्लातिन्स्क होते ४४० आदिमयोंके साथ नावोंपर सैसन झीलकी ओर बढ़ा । रूसियोंकी इस गतिविधिसे कल्मकोंको संदेह होना स्वाभाविक था । रब्तनके पुत्र और उत्तराधिकारी गन्दन छेरिड्के नेतृत्वमें बीस हजार कल्मक प्रतिरोधके लिये जमा हुये । दोनों पक्षोंकी संख्यामें बहुत अन्तर था, लेकिन रूसी आधुनिक हथियारोंसे सज्जित थे । उनके पास बहुतसी छोटी-छोटी तोपें थीं, जब कि कल्मकोंके पास सिर्फ तलवार और तीर-धनुष थे । तीन दिनकी लड़ाईमें एक रूसी मरा और तीन घायल हुये, जब कि कल्मकोंकी भारी क्षति हुई । अन्तमें दोनोंमें समझौता हो गया । सेमीप्लातिन्स्कसे १८१ वेस्ट (३० फर्सख) पर एक झीलके पास ऊंची जगहपर लिखारेफने उस्तका-मेन्नेगोर्स्कया नामका किला बनाया । लेकिन, यारकन्द की सोनेकी भूमिमें पहुंचनेका यह प्रयत्न यहीं खतम हो गया । पीतर I के बाद फिर किसीको उसके लिये दिलचस्पी नहीं हुई ।

शासन-व्यवस्था—रूसी दूत उन्कोस्कीने १७२२ ई०में कल्मकोंकी शासन-व्यवस्थाको देखा था । उसने लिखा है, कि खुड्-थैची (महाराजा) के बाद सबड़े बड़ा दर्जा सइस्सनका था, जिस पदपर उस समय राजकुमार छेरिड् दोंडुब था । इसके बाद एक परिषद् (सर्गा) थी, जिसके सदस्य

थे—सइस्सन, सम्डुब बआतुर, शरातञ्जिन, सङ्ग-जी फुनछोक, सोद्बो, बतुमसी, जिम्बिल, सनजक, बसुन, बक्सीगिर तथा पारिषत्क नमिश्का तख्तन जारुक्तू और खुङ्कतैशीका सचिव सोलमुदक्सा। इसके देखनेसे मालूम होगा, कि कल्मकोंके ऊपरी शासन-यंत्रमें बहुसंख्यक मुसलमान प्रजाका कोई आदमी नहीं था।

उपज—पिछले तीस वर्षोंमें जुंगारियामें खेतीमें बहुत प्रगति हुई थी। सदाके घुमन्तू ये मंगोल अपने एक हूण पूर्वजकी तरह अब खेतीकी महिमा अनुभव करने लगे थे। अकालोंने बतला दिया, कि ऐसे समयमें अधिक समयतक जमा रक्खे जा सकनेवाले अनाज ही अधिक सहायक होते हैं। उस समय भी यहां गेहूं, जौ, चावल और बाजरा प्रधान फसलें थीं। फलोंमें सेब, लाल-सफेद अंगूर, खूबानी, तरबूजा-खरबूजा, बड़े कुम्हड़े आदि होते थे। अल्मा-अता (सेबका बाप) के नामसे प्रसिद्ध आजका नगर इसी भूमिमें है, जहांके सेब अच्छे होते थे। इली और चूकी उपत्यकायें बहुत पहलेसे ही कृषि और बागबानी में प्रधानता रखती थीं, इसे हम शकोंके कालमें भी देख चुके हैं।

ग्राम्य पशुओंमें घोड़ा, ऊंट, बैल, बड़ी भेंड़े, बकरियां और खच्चर मुख्य थे, जो अभी भी कल्मकोंके सबसे बड़े धन थे, क्योंकि किसानी-जीवनकी अपेक्षा अभी भी वह पशुपालकोंके जीवनसे अधिक प्रेम रखते थे।

दस्तकारियोंमें ऊनी कपड़े और चमड़ेका काम कल्मक जानते थे, जिसमें पिछले दो शताब्दियोंके शासनमें बाहरके दस्तकारोंने आकर अधिक उन्नति कराई। कल्मकोंकी भूमिमें लोहा-तांबा प्रचुर परिमाणमें मिलता था,। यहांकी तांबे और सोनेकी खानोंमें तो नव-ताम्र-युगमें भी काम होता था, यह हम बतला आए ह। अब लड़ाइयोंमें तोरों और बारूदी हथियारोंसे मालूम हो गया था, कि उनके तीर-धनुष आजकलके हथियारोंके सामने बेकार हैं, और कुछ सौ रूसी-कसाक वीस हजार कल्मक बहादुरोंको घास-मूलीकी तरह काटके रख सकते हैं, इसलिये वह लोहेकी उपजकी ओर भी विशेष ध्यान देने लगे थे। वस्तुतः कल्मक यदि मध्य-एशियामें साइबेरियासे विवन्नलत् पामीरके पर्वतों, तथा आमू और कास्पियनतक पहुंचकर भी वहांपर अपना एक स्थायी साम्राज्य नहीं स्थापित कर सके, तो उसका कारण यही था, कि वह उस तरहके हथियार नहीं तैयार कर सकते थे, जैसे कि रूसियों और चीनियोंके पास थे। उन्होंने अगर लोहेके बनानेकी ओर ध्यान भी दिया, तो वह भी कुटीर-शिल्पके तौरपर ही उपजको संगठित करके। कल्मकोंका साम्राज्य घुमन्तुओं का अन्तिम साम्राज्य था, जिसे और सब योग्यता रहनेपर भी निर्वल हथियारोंके कारण सफलता नहीं प्राप्त हुई। रब्तन और गन्दन दोनोंने अपने लोगोंको पशुपालन-युगसे कृषि-युगमें ला रखनेकी कोशिश की, लेकिन वह अपने समसामयिकोंकी तरह लौह-युगमें नहीं आ सके।

कहते हैं, उसकी जुंगर-सेनाने तिब्बतमें लामाओं और मठोंके साथ जो अत्याचार किये थे, उसीके कारण कितने ही लोग असंतुष्ट हो गये थे, और रब्तन उन्हींके षड्यंत्रका शिकार हो १७२७ ई०में मारा गया।

६. गल्दन (गन्दन) II छेरिङ्ग, रब्तन-पुत्र (१७२७-४५ ई०)

रब्तनके बाद उसका पुत्र गल्दन (गन्दन) छेरिङ्ग गद्दीपर बैठा। इसके समयमें भी कई रूसी राजदूत आये, जिनमें उग्रिउमोफ उसके साथ-साथ १७३२-३३ ई०में जहां-तहां घूमता रहा। अप्रैल और मईमें छेरिङ्गका ओर्दू निम्न इली उपत्यकामें कोजितेरमें था। मईके अन्तसे सारी गर्मियोंमें वह तेमिरलिक, चेगेन, करकर और तेकेसमें घूमता रहा। सितम्बरसे मार्चके अन्ततक सारे जाडोंमें वह इली तटपर रहा। छेरिङ्गकी भी खलखा-मंगोलोंसे लड़ाई जारी रही, लेकिन दलाई लामाने अपने दोनों धर्मानुयायियोंमें इस खून-खराबीको पसन्द नहीं किया, और १७३४ ई०में उनके बीचमें पड़नेसे लड़ाई बन्द हो गई। छेरिङ्गने मंचू-सम्राट् चि-येन-लुङ्ग (काउ-चुङ्ग १७३५-९५ ई०) की अधीनता स्वीकार की, यह जुंगर-साम्राज्यके लिये अच्छा ही हुआ। १७४५ ई०में छेरिङ्गके मरनेके साथ जुंगर-साम्राज्यकी समृद्धिका समय खतम हो गया।

७. बायन बीजिगन, अदसान खान, छेरिङ-पुत्र (१७४५ ई०)

बायन १७३३ ई०में पैदा हुआ था, और अभी बारह ही सालका था, जब कि उसे बापकी गद्दी मिली। इस अवस्थामें भी वह भारी अत्याचारी, जिससे जनतामें अप्रिय हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं है। हां, उसका चचा दोर्जे (दर्गा) लामा गद्दीका अभिलाषी था, लेकिन रखेलीका पुत्र होनेके कारण उसे वंचित कर दिया गया था। दोर्जेको बुखारा और किर्गिजोंके इलाकोंमें बड़ी जागीर मिली थी। उसने सरदारोंको मिलाकर षड्यंत्र किया और बायनको पकड़कर उसकी आंखें निकलवा पूर्वी तुर्किस्तान (सिङ्क्याङ्ग) के एक नगरमें कैद कर दिया। सभी सैसन (राजकुमार) तथा बहुतसे जुंगर तथा लामा दोर्जेके साथ थे।

८. छेवङ्ग दोर्जे, दरशा लामा, गन्दन छेरिङ-पुत्र (१७४५-५० ई०)

दोर्जे लामाके गद्दीपर बैठनेसे तिब्बतके दलाई लामा भी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने इसे "एरदेनी लामा बातुर खुङ्ग थैची"की पदवी प्रदान की। दोर्जे लामाकी बातुरी (बहादुरी) थी अपने वंशके सभी राजकुमारोंको मारकर सिंहासनके सारे खतरोंको खतम कर देना। वैसे जुंगर राजवंशमें बुढ़ापेके लक्षण पहले हीसे दिखलाई पड़ने लगे थे, लेकिन दोर्जेने राज्यके सर्वनाशकी घड़ीको जल्दी लानेमें बहुत काम किया।

९. दावा छेरिङ्ग, सेङ्ग-गे-वंशज (१७५०-५५ ई०)

जुंगर राजाओंके नाम प्रायः सभी तिब्बती भाषाके बौद्ध हैं। दावा छेरिङ्गका अर्थ है, 'चन्द्र दीर्घायु'। इसे कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि आजकलकी तरह उस समय भी खलखा, जुंगर (कल्मक) और दूसरे मंगोल बौद्ध-धर्मको अपना जातीय धर्म मानने लगे थे, और तिब्बतके महन्तराज दलाई लामा का इनके ऊपर बहुत प्रभाव था।

दावा रत्नके भाईका पोता था। अधिकांश जुंगरोंने दोर्जे लामाको नहीं माना था। रत्नके वंशको दोर्जेने मारकर खतम कर दिया था, लेकिन उसके भाई छेरिङ्ग दोण्डुबुकी संतानें अभी मौजूद थीं। दावाने तिब्बत आदिके अभियानोंमें सेनाका संचालन किया था, इसलिये अपनेको गद्दीके योग्य समझता था। खोयेत कबीलेके सरदार अमुरसनाने भी दावाके पक्षका समर्थन किया, लेकिन दोर्जे लामा बहुत मजबूत था। उससे हारकर दावा और अमुरसानको कजाकोंके भीतर भागना पड़ा, लेकिन जुंगरोंमें उनके समर्थक कम नहीं थे। जुंगरों और कजाकोंकी मददसे अचानक एक रातको दावाने हमला कर दिया। लड़ाईमें दोर्जे लामा मारा गया, और दावाने गद्दी संभाल ली। अमुरसना अपनी दूसरी ही योजनायें रखता था। वह गर्मियोंमें इली-तटपर तम्बुओं और राजकीय झंडेको गाड़कर दरबार करता। दावा एक म्यानमें दो तलवारोंको कैसे पसन्द करता? उसके आक्रमण करनेपर अमुरसना चीन भाग गया, और कुछ समयके लिये दावा सारी जुंगारिया और पूर्वी तुर्किस्तानका भी खान हो गया। दावाने छेरिङ्ग द्वारा नियुक्त काशगरके शासकको इली प्रदेशमें रहनेके लिये मजबूर किया, लेकिन वह बहाना बनाकर काशगर पहुंच वहां लड़ाईकी तैयारी करने लगा। उधर काशगरी नेता यूसुफने काफिरोंका जूवा उतार फेंकनेके लिये लोगोंको उस्काया—“इलाकेके नगरद्वारोंपर बाजे बजे, और अपने देशकी स्वतंत्रताको फिरसे प्राप्त करनेके निश्चयके लिये लोगोंने शपथ खाई।” खोजा यूसुफ एक कट्टर मुसलमान था। उसने लोगोंके सामने सुझाव रक्खा, कि नगरके पड़ोसमें डेरा डालकर पड़े हुये तीन सौ कल्मक व्यापारियोंको मुसलमान बना लेना चाहिये। अगर वह इन्कार करें, तो उन्हें मार डालना चाहिये। उन्होंने उनके साथ ऐसा ही किया, और कसाकान (पुलित अक़तर)के तौर पर काम करनेवाले जुंगरोंको खानके पास भेज दिया। यारकन्दमें कल्मकोंकी तरफसे नियुक्त शासक हाजीवेगने आखोंमें आंसू और सिरपर कुरान रखकर क्षमा मांगी, और लोगोंने उसे क्षमादान दे दिया। जब लोगोंने उसे जुंगरोंके दूत और अनुचरोंको मार डालनेकी बात कही, तो उसने जवाब दिया—“काफिरको सिर्फ युद्धमें मारा जा सकता है।” एक मजबूत पहरेमें कल्मकोंको शहरसे बाहर

भेजकर उसने हुकम दिया, कि तुम फिर इस देशमें न आना। खोजा यूसुफने अन्तर्वेदके नगरों—खोकन्द, बुखारा, समरकन्द आदि—से काश्गरियाके स्वतंत्र होनेकी खबर देते हुए सहायता मांगी, अन्दिजानके किर्गिज सरदार किबत मिर्जसि भी मुसलमानोंकी सहायता करनेके लिये कहा।

दावासे हारकर भागा अमुरसना चीन-दरबारमें पहुंचा था। उसने अपनेको सिंहासनका वास्तविक अधिकारी प्रमाणित किया। सम्राटने उसे च्वाङ्क-चिन्-वाङ्क (प्रथम श्रेणीके राजकुमार)की उपाधि प्रदान कर लफ्टनेन्ट-जेनरल (उपमहासेनापति) नियुक्त किया। १७५५ ई०में चीनी सेना लेकर अमुरसना प्रस्थान किया। सेनाको मुश्किलसे कहीं धनुष खीचनेकी अवश्यकता पड़ी होगी। सभी जगह लोग अधीनता स्वीकार करनेके लिये तैयार थे। दावा अपने तीन सौ अनुचरोंके साथ मुजार्त डांडेसे होकर उश-तुर्फानकी ओर भागा, लेकिन शहरके हाकिम हाजिमबेगने उसे पकड़कर चीनियोंके हाथमें दे दिया, जिसके लिये हाजिमबेगको “वाङ्क” (राजकुमार) की उपाधि प्राप्त हुई।

१०. अमुरसना, बातुर-वंशज (१७५५-५७)

दावाके गद्दीपर बैठनेके समय भी अमुरसना अपनेको कल्मकोंका राजा समझता था। १७३४ ई० में वह कजाकोंकी मददसे, एमिल और ऊपरी इतिशकी भूमिको लेनेमें सफल हुआ था।


चीनी सेनाके साथ आकर अमुरसनाने समझा, कि जुंगारियाको जीतकर चीनी उसे सारा अधिकार सौंप देंगे। लेकिन उसकी यह आशा सफल नहीं हुई। दावा और छेरिङ्को पकड़कर पेकिंग भेज दिया गया था। अमुरसनाको पता लगा, कि उसके साथ भी मंचू-सम्राट मेरे ही जैसा बर्ताव कर रहा है। असलमें चीनने दावाको अपने हाथमें एक बड़ा हथियार बनाकर रख छोड़ा था, जिसमें कि अमुरसनाके जरा भी विरोध प्रकट करनेपर उसे इस्तेमाल किया जाय। लेकिन दावा बहुत दिनोंतक नहीं जिया। हाथसे निकल गये पूर्वी तुर्किस्तानको अमुरसनाने फिरसे लेना चाहा और थोड़ेसे संघर्षके बाद उसके कितनेही भागोंको फिर अपने हाथमें कर लिया। चीनी अमुरसनाको कठपुतली बनाकर रखना चाहते थे। इसका विरोध करते इलीमें पड़ी हुई छोटी-सी चीनी सेना और उसके जेनरलको अमुरसनाने मार डाला। इसपर चीनसे नई सेना आई। एकाध बार झड़प हुई। अमुरसनाने देख लिया, कि उसके लिये चीनी सेनाका सामना करना आसान नहीं है। १७५७ ई०में—जिस सालमें अंग्रेजोंने पलासीकी लड़ाई जीतकर भारतमें अपने राज्यकी दृढ़ नींव रक्खी—दो चीनी सेनाओंने आकर जुंगर-साम्राज्यको खतम कर दिया। इनमेंसे एक उत्तरके रास्ते आई, और दूसरी दक्षिणके रास्ते। कल्मकोंमें उस वक्त आपसमें भारी फूट थी, तो भी अमुरसना हिम्मत करके इलीकी ओर बढ़ा। लोगोंको बड़ी संख्यामें अपने झंडेके नीचे आते देखकर उसे बहुत उत्साह मिला, लेकिन जब चीनकी अपार सेनाको देखा, तो उसके होश उड़ गये, और वह कजाकोंकी ओर भागा। जेनरल चाउ-होइने कुछ सैनिकोंको पीछा करनेके लिये छोड़ जुंगारियापर चीनी शासनको व्यवस्थापित करना शुरू किया। दूसरा चीनी सेनापति फू-ते अमुरसनाका पीछा करते हुये कजाकोंमें पहुंचा। कजाकोंने चीनकी अधीनता स्वीकार की। कजाक-खान अबले उसे पकड़कर चीनको देना चाहता था, इसलिये अमुरसना वहांसे लोचा (साबेरिया)की ओर भागा। एक बार चीन-सम्राटको दरबारियोंने कहा—“इली प्रान्तको बिल्कुल छोड़ दिया जाय। हमसे यह बहुत दूर है। वहां जाकर शासन करना आसान नहीं है, इसलिये जिसकी इच्छा हो वह उसे ले लें।” चीन-सम्राटने इस सलाहको नहीं माना, और चाउ-होइ तथा फू-तेको युद्ध जारी रखते शासनको दृढ़ करनेका हुकम दिया। अमुरसना अन्तमें साइबेरियामें कुछ समयतक मारा-मारा फिरा, लेकिन इस आफतसे चेचकने उसे जल्दी ही (१७५७ ई०)में छुटकारा दे दिया। हम बतला आये हैं, कि अमुरसना और उसके अनुयायियोंको साइबेरियामें शरण देनेके कारण रूस और चीनके संबंधमें खिचाव पैदा हो गया था। जब रूसियोंने कहा, कि अमुरसना मर गया, तो चीनने उसके शवको मांगा, शव न होनेपर चिताभस्मको भेजनेके लिये कहा। रूसियोंने चीनी अमात्यको अमुरसनाके चिताभस्मको दिखला दिया, किन्तु उसे अपमानपूर्वक बिखेरनेके लिये देनेसे इन्कार कर दिया—“हर एक जातिके अपने रीति-रवाज होते हैं, जिन्हें वह पवित्र मानती है। जिस अभागे व्यक्तिने हमारे पास शरण ली, वह तुम्हारा दुश्मन मर चुका है। हमने उसके शरीर-

वशेषको दिखला दिया, इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते।" रूसकी भूमिमें पट्टुवनेसे-पहलेही अमुरसनाकी बीबी बीतेइ—जो गन्दन छेरिङकी पुत्री भी थी—पतिसे आ मिली थी। पतिके मरनेके बाद उसे पीतरबुर्ग भेज दिया गया।

मंचू सैनिकोंने बड़ी निष्ठुरतापूर्वक कल्मकोंका संहार किया। उनके अत्याचारोंके कारण इलीकी सुन्दर उपत्यका उजड़ गई, जहां चीनियोंने अपने कैदियोंके लिये कालापानी स्थापित किया। पांच लाखके करीब ओइरोत (कल्मक) चीनियोंके हाथों मारे गये। उनका तहस-नहस करनेके बाद चीनी सेनाने आगे भी अपनी दिग्विजय जारी रखी। १७५६-५८ और १७६० ई०में चीनी सेना कजाकोंके मध्य-आर्कूकी भूमिमें घुसी। अबलै खानने चीनियोंके सामने अधीनता स्वीकार की। उसके बाद लघु-ओर्कूके सरदार नूरअलीने भी चीनियोंको अपना प्रभु माना। बूसत (किर्गिज) सरदारोंने भी उनके सामने सिर झुकाया। १७६६ ई०में चीनने अबलैको वाङ (राजा)की उपाधि दी। अब मध्य-एसियामें सब जगह चीनियोंकी जय-झुंझुभी बजने लगी। नूरअलीने भेंटके साथ अपने दूतमंडलको पेरिंग भेजा। खोकन्दके खान एदेनिया बीने भी १७५८ ई०में वही काम किया।

जुंगर-साम्राज्यके विच्छिन्न होने और चीनियोंद्वारा पांच लाख कल्मकोंके मारे जानेपर जनशून्य सप्तनद भूमिमें फिर कजाक और किर्गिज लौट आये, और कुछ समयतक वह चीनकी प्रजा बने रहे। पीछे सप्तनदका बहुत भाग रूसियोंने ले लिया, और सिर्फ ऊपरी इली-ज्पन्यका चीनके भीतर बनी रही।

३. (६ ख. जुंगर-वंशवृक्ष)
(१५८२-१७५७ ई०)



स्रोत ग्रन्थ

१. ओचेर्क इस्तोरिइ सेमिरेच्या (व. व. बर्तोल्द)
२. History of Mongol (H. H. Howorth)

वोल्गा-कल्मक

(१६१६-१७७१ ई०)

हम कह आये हैं कि कैसे १६२० ई०में कल्मकोंने खलखा मंगोलोंके हाथों भयंकर हार खाई, और उन्हें पश्चिमकी ओर भागनेके लिये मजबूर होना पड़ा। उन्हींका एक भाग नोगाइयोंकी भूमि होते पश्चिमकी ओर बढ़ा। इनके नेता उर्लुक (तोगुत राजा), और उसके पुत्र दै-शिङ्गने १६३३ ई०में नोगाई-विद्रोही सल्तानियासे मिलकर कन्हाईपर चढ़ाई की, जिसपर मास्कोने तोबोल्स्क, त्यूमन और तुराके रूसी कमांडरोंको कल्मकोंके दवानेके लिये हुक्म दिया। इस प्रकार कल्मकोंको साइबेरियासे हटना पड़ा। यही उर्लुक वोल्गा-कल्मकों या तोगुत-मंगोलोंका प्रथम शासक था। वोल्गाके कल्मकोंकी राजावली निम्न प्रकार है:—

१. खुङ्ग थैची उर्लुक, सुलसेगा-पुत्र	१६१६-४३ ई०
२. दै-शिङ्ग, उर्लुक-पुत्र	१६४३-५६ "
३. फुन्-छोग्, दै-शिङ्ग-पुत्र	-१६७२ "
४. आयुका, फुन्-छोग्-पुत्र	१६७२-१७२४ "
५. छेरिङ्ग-दोण्डुब्, आयुका-पुत्र	१७२४-३५ "
६. दोण्डुब् अम्बो, आयुका-पुत्र	१७३५-४१ "
७. दोण्डुब् थैची, छग्दोर-पुत्र	१७४१-६१ "
८. उबासा, दोण्डुब् थैची-पुत्र	१७६१-७१ "

१ खुङ्ग थैची उर्लुक (१६१६-४३) ई०

वोल्गा-कल्मक राजवंशका वास्तविक संस्थापक सुलसेगा उर्लुकका ज्येष्ठपुत्र खुङ्ग-थैशी (थैची) उर्लुक था। १५६२ ई०में अलतन खानके भतीजेके लड़के खूतकताई सेसेनने एर्चिश (इर्तिश) नदीके तट पर चार ओइरोत (कल्मक) कबीलोंको करारी हार दी, जिसके कारण तोगुतोंकी शक्ति क्षीण हो गई, और जुंगरों (कल्मकों) की ताकत बढ़ने लगी। १६०६ ई०में जुंगरोंका बड़ा सरदार बानुर बापसे अलग हो इतिशपर चला आया। यहांपर उसका मुकाबिला तोगुतोंके साथ हुआ, जिसके कारण तोगुतोंको पश्चिमकी ओर भागना पड़ा। पहले उन्होंने कूचुम खानके बेटोंके साथ मिलकर साइबेरियामें अपनी जड़ जमानी चाही, लेकिन रूसियोंने उनकी एक भी नहीं चलने दी। फिर कल्मक अरब मुहम्मदके समय ख्वारेज्मके इलाकेकी ओर बढ़े, और उनका जब-तब ख्वारेज्मी उज्जेकोंके साथ झगड़ा होता रहा—इसके बारेमें हम पहले कह चुके हैं। १६३२ ई०में वह अपने थैची उर्लुककी अधीनतामें अस्त्राखानके आसपासमें रहते रूसी प्रतिनिधिका स्वागत करते रहे। १६३९ ई०में तोगुतोंने मंगिशालकके तुर्कमानोंको लूटा। १६४३ ई०में उर्लुकके अधीन पचास हजार क्विब्लका (तम्बू, परिवार) थे। १६४३ ई०में उर्लुकके खतरेको समझकर रूसियोंने हमला किया, और वह लड़ाईमें मारा गया। उर्लुकके तीन पुत्र थे—दैशिङ्ग, येल्दिङ्ग और लोब्जङ्ग। बापके मरनेपर भाइयोंमें भी झगड़ा हो गया।

२. दै-शिङ्ग, उर्लुक-पुत्र (१६४३-५६ ई०)

उर्लुकके मरनेके बाद उसके लोग पूरबकी ओर भागे, लेकिन कुछ ही समय बाद एल्देर और लोब्जाङ्ग यायिक (उराल) नदी पार हो वोल्गाके मैदानोंमें चले आये। उन्होंने तीन

कबीलों—किताई-किपचक, मैलेबाश और एतीसनको अपने आधीन किया, साथ ही उलान-तुमान् (लाल ऊंट कबीला)के तुर्कमानोंने भी इनकी अधीनता स्वीकार की, जो कि उस समय येम्बाके दक्षिणमें रहते थे। अब नोगाइयोंका अधिक भाग कल्मकोंकी प्रजा था। १६५६ ई०में ही दै-शिङ्ग और उसके पुत्र फुन-छोगने जारको अपना प्रभु स्वीकार किया।

३. फुन-छोग्, दै-शिङ्ग-पुत्र (—१६७२ ई०)

इसके बारेमें इतना ही मालूम है, कि १६७० ई०में अधिकांश वोल्गा-कल्मक इसके अधीन थे और वह ख्वारेज्मके भीतरतक लूट-मार किया करते थे।

४. आयुका थैची, फुन-छोग्-पुत्र (१६७२—१७२४ ई०)

वोल्गा-कल्मकोंका यह सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। पीतर का समकालीन रहते हुये इतनी शक्ति संचय करना इसकी दूरदर्शिता और राजनीतिक चातुरीका परिचायक है।

१६७२ ई०में यह प्रतापी तोर्गुत (कल्मक) राजा आयुका गद्दीपर बैठा। उसके समय लघु-ओर्दूके नोगाई तथा पहाड़ी चिरकासी क्रिमियाके खानके अधीन थे। आयुकाने उन्हें क्रिमियाके अधिकारसे छीन लिया, साथ ही नोगाइयोंके दूसरे दो ओर्दू कसाई और येदिसनको भी अपने यहां जांमिन भेजने के लिये मजबूर किया। आयुका जानता था, कि अपने पड़ोसी मुसलमान कबीलोंकी शत्रुता मोल लेनेके साथ-साथ रूससे भी बिगाड़ करना अच्छा नहीं होगा; इसीलिये उसने २६ फरवरी १६३९ ई०में अस्त्राखानमें जाकर रूसियोंको अधीनता स्वीकार करनेका वचन दिया। लेकिन तब भी उसका बर्ताव बहुत स्वतंत्रतापूर्वक होता था। रूसी डरते थे, कि तोर्गुतोंके अतिरिक्त, नोगाइयोंके भिन्न-भिन्न ओर्दू भी लूट-मारमें आयुकाके साथ सम्मिलित हो सकते हैं, इसलिये उन्होंने अधिकतर साम और दानसे ही आयुकापर अंकुश रखना चाहा। आयुकाने १६९३ ई०में रूसियोंकी ओरसे जाकर बाश्किरोंको जीता। आयुकाका डेरा अधिकतर कुबनस्तेपीके करातेपे स्थानमें रहा करता था। महानोगाईके थोड़ेसे लोगोंको छोड़कर बाकी सभी नोगाई आयुकाके अधीन थे, और उनमेंसे अधिकांशने यायिक और वोल्गाकी स्तेपियोंको छोड़ कुबान और कुमामें डेरा डाला था—महानोगाई अब भी अस्त्राखानके आसपास रहा करते थे। १७२४ ई०में आयुकाके मरनेके समयतक नोगाइयोंकी यही हालत थी। नोगाइयोंके तम्बू मुर्गियोंके बड़े टोकरेकी तरह होते थे, जिनमें नीचे गोल ढांचा होता, जिसे बीचमें धुआं निकलनेके लिये छेद छोड़कर ऊंटके बालोंके नम्देसे छा दिया जाता। कच्चे चमड़ेके टुकड़ोंको भी कभी-कभी नम्देकी जगह इस्तेमाल किया जाता था।

१६१३ ई०में आयुकाने छग्दोरको अपना युवराज घोषित किया। १७२२ ई०में जब पीतर I ईरानके विरुद्ध अभियान लेकर गया था, तो उसने अपने जहाजपर आयुका और उसकी पत्नीका सत्कार-सम्मान एक स्वतंत्र राजाके तौरपर किया। १७२४ ई०में मरनेके समय आयुका ८३ वर्षका था।

५. छेरिङ्ग दोण्डुब्, आयुका-पुत्र (१७२४—३५ ई०, १७४१—६५ ई०)

आयुकाके बाद धर्मपाल-पुत्र छेरिङ्ग गद्दीपर बैठा। यह बहुत ही कमजोर स्वभावका आदमी था। रूसियोंकी कृपा प्राप्त करनेके लिये ईसाई बनकर इसने अपने लोगोंकी सहानुभूति खो दी।

१७३५ ई०में यह मर गया।

६. दोण्डुब् अम्बो, आयुका-पुत्र (१७३५—४१ ई०) और

७. दोण्डुब् थैची छग्दोर-पुत्र (१७४१—६१ ई०)

इनके समय कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी।

८. उबासा, दोण्डुब् थैची-पुत्र (१७६१-७१ ई०)

यह एक लाख कल्मक-परिवारोंका राजा था। तुर्कीके युद्धोंमें इसके नेतृत्वमें कल्मक बड़ी बहादुरीके साथ रूसियोंकी ओरसे लड़े थे, लेकिन उसके बदलेमें रूसियोंका बर्ताव रूखा देखकर इसने पचास वर्षसे चले आते "स्वदेश चलो"के आन्दोलनका समर्थन किया और वोल्गाके दक्षिण तटके पन्द्रह हजार तम्बुओंको छोड़कर बाकी कल्मक इसके नेतृत्वमें इली उपत्यकाकी ओर चले गये।

कल्मकोंका भागना—१७०३ ई०में आयुका खान और जुंगर थैची छेवङ्क-रब्तनसे लड़ाई हुई। वर्तमान कजाकस्तानके पूर्वी भागके स्वामी जुंगर थे, और पश्चिमी भागके तोर्गुत (वोल्गा-कल्मक)। दोनोंकी सीमा मिलती थी, इसलिये इस तरहकी लड़ाई स्वाभाविक थी। वोल्गाके कल्मक भी उसी तरहके कट्टर बौद्ध थे, जिस तरह उनके भाई जुंगर। वह तिब्बत तथा ल्हासाको अपनी धर्म-भूमि समझकर तीर्थयात्राके लिये जाया करते थे। आयुकाका भांजा या भतीजा करा-कुचिन छेरिङ्ग अपनी मांके साथ तीर्थयात्राके लिये तिब्बत गया हुआ था। लड़ाईके कारण देश लौटनेका रास्ता न मिलनेसे वह चीन चला गया। चीन-दरबारमें उसका बड़ा स्वागत हुआ। इस समय मंचुओंका सबसे अधिक प्रभावशाली सम्राट् खाङ्-सी (१६६१-१७२३ ई०)का शासन था। सम्राट्ने राजकुमार कराकुचिनको उसके अनुयायियोंके साथ शेन्सी प्रदेशके पश्चिमी सीमान्तपर बसा दिया। इसी बीचमें सम्राट्ने निश्चय किया, कि वोल्गाके तटपर भागे हुये मंगोलों (तोर्गुतों)को फिर देशमें बुलाया जाय। कराकुचिनसे बढ़कर इस कामके योग्य और कौन हो सकता था? नौ साल रहनेके बाद १७१२ ई०में सम्राट्के दूतके साथ वह वोल्गातटपर लौटा। उसने अपने लोगोंके सामने जन्मभूमिमें लौट चलनेका प्रस्ताव रक्खा। यद्यपि इसी समय वह लौटनेके लिये तैयार नहीं हुये, लेकिन यह आन्दोलन कल्मकोंके भीतर चलता रहा। चीन इस काममें तिब्बतके लामाओंसे भी सहायता लेने लगा। अन्तमें वोल्गाके तोर्गुत ओईका मुख्य लामा लोब्जाङ् जाजेर अरन्त शिम्बा जैसा योग्य व्यक्ति चीनको इस कामके लिये मिल गया। वह राजकुमार बम्बरका पुत्र था जिसका तोर्गुतोंपर उसका बहुत प्रभाव था। पन्द्रह भिक्षु और साथ ही एक टुल्कू (अवतारी) लामा (जिसके शरीरमें किसी बड़े महापुरुषने अवतार धारण किया) के साथ उसने अपने आदमियोंमें बाह्य-धर्मियों (रूसियों) के देशसे स्वर्धर्मियोंके देश और अपने पूर्वजोंकी जन्मभूमिमें लौट चलनेके लिये प्रचार करना शुरू किया। इस समय आयुकाका पौत्र उबासा तोर्गुतोंका खान था। उसने १७६१-७० ई०के तुर्की-युद्धमें रूसकी ओरसे अपने तीस हजार आदमियोंके साथ भाग ले अपनी बहादुरीका परिचय दिया था, और तुर्कोंको कई जगहोंमें करारी हार दी थी। इन सफलताओंके कारण उबासाका आत्मविश्वास और बढ़ गया था, और वह हर बातमें रूसियोंकी नाजवरदारी करनेके लिये तैयार नहीं था। जब रूसियोंने दबानेकी कोशिश की, तो स्वदेश लौटनेकी बातको जोर मिलने लगा। उस समय अस्त्राखानमें रूसी राज्यपाल प्रिस्तोफ किशिन्स्की था। उसको भनक लग गई, कि तोर्गुत चले जानेकी तैयारीमें हैं, लेकिन उसने उन्हें समझाने-बुझानेकी जगह कड़े शब्दोंका इस्तेमाल किया—“तुम अपनेको समझते हो, कि हम बहुत भाग्यशाली होकर अपना काम-काज करेंगे, लेकिन तुमको समझ रखना चाहिये, कि तुम जंजीरमें बंधे भालूसे अधिक कुछ नहीं हो। जंजीर पकड़कर तुम्हें जहां ले जाया जाये, वहीं जा सकते हो।” तोर्गुतोंको सचमुच ही एक घेरेमें डाल रक्खा गया था। उनके पूर्वमें यापिक नदीकी उपत्यकामें कितने ही रूसी किले थे, जिनमें कसाक सैनिक थे। पीतर I के बादके रूसी जारोंके जर्मन होनेका एक फल यह हुआ था, कि बहुत काफी संख्यामें जर्मनोंको लाकर वोल्गाके दाहिने तटपर बसा दिया गया था। यह जर्मन-उपनिवेश तोर्गुतोंके उत्तरमें पड़ते थे। पश्चिममें क्रिमियाके तारतारोंकी चोट भी कल्मकोंको ही बर्दाश्त करनी पड़ी थी। पिछले सालोंम कुछ अकाल भी पड़ गया था, इन सब कारणोंसे 'स्वदेश चलो' आन्दोलनको बड़ी मदद मिली। वोल्गाके दाहिने तटके देब्रेत कबीलेने इस योजनाको पसन्द नहीं किया, और प्रयाणके लिये जो दिन निश्चित हुआ था, उस दिन वोल्गाके नजमनेका बहाना करके उन्होंने साथ नहीं दिया। सप्ती तैयारी इधर हो रही थी, लेकिन प्रिस्तोफ जैसे अयोग्य शासकके कारण रूसियोंने उन्हें रोकनेके लिये

कोई तैयारी नहीं की। कल्मकोंके पास दो रूसी तोपें भी थीं, जिनको वह पूर्वकी ओर जाते समय अपने कजाक विरोधियोंके विश्द इस्तेमाल कर सकते थे। यह मालूम ही है, कि १७५७ ई०के विजयके बाद त्यान्शान-सप्तनद चीनियोंके हाथमें था, इसलिये तोर्गुतोंको सीमान्ततक पहुंचनेकी ही दिक्कत थी। आगेके लिये उन्हें बहुत-बहुत-से प्रलोभन दिये गये थे।

बड़े लामाने ५ जनवरी १७७१ ई०को प्रयाणका दिन निश्चित किया था। उसी दिन उबासा सत्तर हजार परिवारोंके साथ चल पड़ा। उस समय अधिकांश कल्मक वोल्गाके बायें तटके मैदानमें जमा थे। सब उबासाके पीछे-पीछे चलने लगे, केवल वोल्गाके दक्षिण तटके पन्द्रह हजार परिवार रूसमें रह गये। यह पन्द्रह हजार परिवार १९४१ ई० तक संख्यामें कई लाख हो गये थे, और उनका एक स्वायत्त प्रजातंत्र भी स्थापित हो गया था, लेकिन जर्मनोंके प्रहारके कारण द्वितीय युद्धके समय इन्हें वोल्गातट छोड़कर पूर्वमें अपने पूर्वजोंकी भूमिमें जानेके लिये मजबूर होना पड़ा, जहांसे वह फिर लौटकर नहीं आये। द्वितीय विश्वयुद्धने इस भूभागमें जो परिवर्तन किये, उनसे वोल्गाके जर्मन-उपनिवेश सारे रूसमें बिखर गया, और क्रिमियाके तारतार साइबेरियाकी ओर चले गये।

तोर्गुत (कल्मक) हल्की चीजें ही अपने साथ ले जा रहे थे। जब आगे यात्राकी कठिनाइयां मालूम हुईं, तो उन्होंने रूसी तांबेके सिक्कोंको भी फेंक दिया, जिन्हें वर्षों बाद पाया गया। तोर्गुतोंको कजाकोंकी भूमिमेंसे जाना था, जो उनके पुराने दुश्मन थे, और जो हर जगह लूट-मार करनेकी कोशिश करते थे। कल्मकोंने स्त्री-बच्चों और अपने पशुओंको बीचमें रक्खा था। चारों ओर हथियारबन्द पुरुष प्रतिरक्षाके लिये तैयार होकर चलते थे। उबासा स्वयं पन्द्रह हजार आदमियोंके साथ यात्रिकके किनारे पहुंचा, जिसमें कि रूसी कसाकोंसे अपने लोगोंकी रक्षा कर सके। आठ दिनमें तोर्गुत वोल्गासे यात्रिकके स्तेपीमें पहुंचे। उस समय यात्रिकके कसाक (रूसी) कास्पियनमें मछली मारने गये हुये थे, इसलिये तोर्गुत असानीसे यात्रिक पार कर गये। फिर किर्गिजोंकी भूमिमें बर्फपर चलना पड़ा। अभी नदी पार करके बहुत दूर नहीं गये थे, कि मित्रासोफकी अधीनतामें दो हजार कसाकोंने उनका पीछा किया, और वह येका-जुखोरके एक हजार तम्बुओंको लौटानेमें सफल हुये। आगे कल्मकोंकी कठिनाइयां और बढ़ी। बर्फ पिघलनेके कारण कीचड़में घोड़ों, ऊंटों, पशुओंका चलना मुश्किल था, ऊपरसे घास-चारेकी कमीके कारण वह बहुत दुर्बल होने लगे। गरीब लोगोंको पैदल चलना पड़ता था, जब कि धनी मंगोल सवारियोंपर चल रहे थे। इस विषमताने भी लोगोंके हृदय में जलन पैदा की। लेकिन जैसे भी हो, अब तो उनके लिये आगे बढ़नेके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। दो मासकी यात्राके बाद वह इर्गिच नदी पार हुये। अब उनकी यात्रा सबसे कठिन थी। वसन्तके कारण बर्फ पिघलनेसे सभी नदी-नाले भरे हुये थे, जिन्हें पार करनेके लिये उन्होंने नरकटके मुट्ठोंको बांधकर तैरते पुल तैयार किये थे। इर्गिच और तुरगाई नदियोंके बीचमें तोर्गुतोंके सबसे अधिक आदमी मरे। तुरगाई पार होकर उन्होंने दोनों तोपोंको छोड़ दिया। इसी समय रूसी सेनाके साथ जेनरल व्राउब्रेन्बर्ग ओर्स्कसे चला, किर्गिज-कजाक लघु-ओर्दूका खान नूरअली भी कल्मकोंके पीछे पड़ा। वह तुरगाईसे आगे होकर उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन तोर्गुत दस दिन पहले ही आगे जा चुके थे। उन्होंने दूत भेजकर कल्मकोंको लौटनेके लिये कहा, लेकिन कल्मकोंने आगे जानेका निश्चय नहीं छोड़ा। इशिम नदीके तटपर पहुंचनेपर उनकी अवस्था कुछ बेहतर हुई, लेकिन यहांपर किर्गिज-कजाकोंसे दो बार संघर्ष हुआ। अब कंगरबेइन्, शर्गा-उसुनकी १५० वेर्स्ट (२५ फर्सख) चौड़ी स्तेपी जैसी भयंकर भूमि मिली, जिसमें वह तीन दिन चले। यहां पीले रंगका दुस्स्वादु पानी मिला। प्याससे मजबूर होकर उन्होंने उसे पिया, जिसके कारण बीमार होकर कई सौ आदमी मर गये। इस स्तेपीको पार करते ही नूर अली (लघु-ओर्दू) और अबलाई (मध्य-ओर्दू) के कजाकोंने आक्रमण कर दिया। दो दिनतक भयंकर लड़ाई हुई। इसके बाद तोर्गुत बलखासके किनारे पहुंचे, जहां फिर कजाकोंसे युद्ध हुये। आठ महीनेकी भयंकर यात्राके बाद १७७१ ई०के मध्यमें इली नदीसे नातिदूर चरापेन स्थानमें वह चीनी सीमाके भीतर घुसे। एक रूसी इतिहासकारने लिखा है—“इस प्रकार आधुनिक


कालकी एक अत्यन्त असाधारण प्रवास-यात्रा समाप्त हुई, रूसी साम्राज्य एकाएक एक ऐसी योद्धा जातिसे वंचित हो गया, जिसका जीवन कास्पियन तटकी स्तेपीके बिल्कुल अनुकूल था, और जिसे घूमन्तू हजारों परिवारोंने अपने असंख्य पशुओंका चारण करके आबाद रखा था, लेकिन अब वह बहुत वर्षोंके लिये निर्जन हो गया।

चीनकी ओरसे उनके स्वागतकी भारी तैयारी की गई थी। एक सालके खाने-कपड़ेका इति-जाम था। चीनने उन्हें इलीपर बसानेका प्रबन्ध किया था, जहां खेती और पशुचारणके लिये बहुतसी जमीन पड़ी हुई थी और जिसे १४ ही साल पहले उनके जुंगर भाइयोंने खाली कर दिया था। खाने-कपड़ेके अतिरिक्त बहुतसी नकद चांदी भी कलमकोंको चीनने दी। चीन-सम्राट्ने इस यात्राके स्मारक के तौरपर तोर्गुतोंकी नई भूमिमें इली-तटपर चार भाषाओंमें अभिलेख लिखकर पत्थरपर खुदवाया, जिसके कुछ वाक्य हैं—“यदि वह अपनी इच्छाओंको सीमित रख सके, तो किसी को क्षुब्ध होनेकी अवश्यकता नहीं, किसीको डरनेकी अवश्यकता नहीं, यदि वह अपनेको ठीक समयपर रोक सकता है। ये भाव हैं, जिन्होंने कि मुझे इस काममें लगाया। आकाशके नीचे सभी जगहोंमें समुद्रसे पार दूरतम कोनोंमें ऐसे आदमी हैं, जो कि दास या प्रजाके नामपर आज्ञा पालन करते हैं। क्या मैं यह मान लूं, कि वह सब मेरे अधीन हैं, और वह मेरे करद हैं? यह गलत बात होगी। मैं अपने मनमें यह समझता हूं, जो कि बिल्कुल सच है, कि तोर्गुत लोग बिना मेरी ओरसे दबाव डाले अपने आप अबसे मेरे कानूनोंके अधीन रहनेके लिये चले आये हैं। निःसंदेह दैवने उन्हें ऐसा करनेकी प्रेरणा दी। उन्होंने ऐसा करके दैवी आज्ञाका पालन किया। मेरे लिये यह ठीक नहीं होगा, यदि इस घटनाका एक प्रामाणिक रूपसे स्मारक तैयार न करूं।”

वोल्गातटसे चले सत्तर हजार परिवारोंमेंसे केवल पच्चीस हजार परिवार (तीन लाख व्यक्ति) इलीके तटपर पहुंच पाये थे। इनमेंसे कितने ही इली-उपत्यकामें बस गये, और कितने ही जाकर गोबीके पश्चिमी भागमें रहने लगे।

३. (७. वोल्गा-कलमक-वंशवृक्ष)

(१६१६-१७७१ ई०)



स्रोत ग्रन्थ

१. History of Mongol (H. H. Howorth)

कजाक-ओर्दू

(१७१८-१८१२ ई०)

१८ वीं सदीमें जिस तरह कपचकों (जू-छि-उलुस) का एक भाग मध्य-ओर्दू, महाओर्दू और लघु-ओर्दूके रूपमें बंट गया, इसके बारेमें हम कह चुके हैं। इन्हीं तीनों ओर्दूओसे वर्तमान कजाक जातिका विकास हुआ।

क. मध्य-ओर्दू (१७१८-१८१८ ई०)

श्वेत-ओर्दूजू-छिके दूसरे पुत्र ओर्दाका उलुस था, इसे हम बतला आये हैं। सुवर्ण-ओर्दूके प्रभुत्व के समय श्वेत-ओर्दू उसके अधीन रहा, लेकिन बा-तू-वंशके उच्छेदके बाद श्वेत-ओर्दूके खानोंने प्रधानता प्राप्त की। इसी श्वेत-ओर्दूकी एक शाखा मध्य-ओर्दू था, जिससे इसके खान भी जू-छिके पुत्र ओर्दासे अपना संबंध जोड़ते हैं। श्वेत-ओर्दूको विच्छिन्न करनेमें नोगाइयोंका भी खास हाथ था, यह भी हम बतला चुके हैं। मध्य-ओर्दूका प्रथम खान पुलाद (बुलात) श्वेत-ओर्दूका सीधा उत्तराधिकारी था, जिसके वंशके मुख्य खान निम्न प्रकार हुये—


- | | |
|------------------------------|--------------|
| १. पुलाद, बुलात, शेमीअका खान | १७१८-३४ ई० |
| २. अबुल मोहम्मद, पुलाद-पुत्र | १७३४-४८ ,, |
| ३. अबलद्, शिगाईवंशज | १७४८-८१ ,, |
| ४. वली, अबलद्-पुत्र | १७८१-१८१८ ,, |

१. पुलाद, बुलात, शेमीअका खान (१७१८-३४ ई०)

श्वेत-ओर्दूकी शक्तिको चूर्ण करनेमें काफी हाथ जुंगर-कल्मकोंका था। पुलादके समय इसका ओर्दू अपने चरम उत्कर्षपर पहुंचा हुआ था। जुंगरोंने मध्य-ओर्दूके कजाकोंको उनकी अपनी भूमिसे भगा दिया। कजाकों (उज्बेक-कजाकों) को केवल सप्तनद ही छोड़कर नहीं भागना पड़ा, बल्कि १७२३ ई० में जुंगरोंने कजाक खानोंकी पुरानी राजधानी तुर्किस्तान-शहरको भी दखल कर लिया, जहांपर कि उनके कितने ही खानोंकी समाधियां बनी थीं। जुंगरोंने ताशकन्द और सैरामको भी लेकर मध्य-ओर्दूको बहुत क्षीण हालतमें छोड़ा। उनमेंसे अधिकांश कजाक समरकन्दकी ओर भागे, महा-ओर्दू तथा मध्य-ओर्दूका कुछ भाग खोजन्दकी ओर और लघु-ओर्दू बुखारा और खीवाकी तरफ शरण लेने गया। अभाग भगोड़ोंका अकाल और महामारीने पीछा किया। इस तरहकी भारी आफतमें पड़नेपर उज्बेक-कजाकोंने कुछ समयके लिये अपने भीतरी बैरको भुला दिया, और एक बड़ी सभामें जमा होकर उन्होंने अपनी पितृभूमिको काफिरोंसे मुक्त करनेका निश्चय करते हुये लघु-ओर्दूके सरदार अबुलखैरको अपना प्रधान सेनापति बनाया, और अपनी शपथको पक्का करनेके लिये हूणोंके समयसे चली आती प्रथाके अनुसार एक सफेद घोड़ेकी कुर्बानी की। कुछ लड़ाइयोंमें सफलता जरूर मिली, लेकिन जुंगर थैची गन्दन छेरिङने उन्हें हराकर भयंकर बदला लिया। कजाकोंने अब पितृभूमिका ख्याल छोड़कर भागनेमें ही कल्याण समझा। लघु-ओर्दूने पश्चिमकी ओर वोल्गा-कल्मकों (तोर्गुतों)को भगाते जाकर येम्बा तथा यायिक (उराल)की उपत्यकाओंमें विचरण करना शुरू किया। मध्य-ओर्दूने उत्तरकी ओर भागकर पहले ओरी और उई नदियोंकी उपत्यकाओंमें जा वहांसे बाश्किरोंको भारी

संख्यामें भगा दिया। पीछे बाश्किर उरालके कसाकों (रूसियों)से मिलकर इनके बगलमे कांटे बन गये। चारों ओरसे खतरा ही खतरा दिखलाई देनेपर मध्य-ओर्दूने रूसियोंकी अधीनता स्वीकार करनेमें खैरियत समझी १७३२ ई०में शेमीअकाने रानी अन्नाकी वफादारीकी शपथ ली, लेकिन कसाकोंने इसे पसन्द नहीं किया, जिसके कारण मध्य-ओर्दूमें झगड़ा हो गया। बाश्किरोंपर इन्होंने असफल आक्रमण किया। जिस समय अपनी मूलभूमिको कसाक छोड़कर भाग रहे थे, उस समय महा-ओर्दू अपनी पुरानी भूमिमें जुंगरोंकी अधीनता स्वीकार कर किसी तरह रह गया।

जिस समय शेमीअका रूसकी अधीनता स्वीकार करके अपनी रक्षा करनेकी कोशिश कर रहा था, उस समय सारे कजाकोंका सबसे बड़ा नेता तथा लघु-ओर्दूका खान अबुल्खैर भी रूसका खैरखाह था। मध्य-ओर्दूको रूसकी अधीनता स्वीकार करानेमें उसका काफी हाथ था। १७३४ ई०में रूसी सीमान्त (ओरेनबुर्ग) के राज्यपाल किरिलोफको शेमीअकाको खानकी पदवी-दानके लिये नियुक्त किया गया था, लेकिन पदवी प्राप्त करनेसे पहले ही शेमीअका मर गया। इस पदवीके साथ जो पत्र रूसी रानीने भेजा था, उसमें लिखा था—“हमारी प्रजा शेमीअका खान और मध्य-ओर्दूके किर्गिज-कजाकोंकी सेनाके मुखियोंको।”



२. अबुल् मुहम्मद, पुलाद-पुत्र (१७३४-४८ ई०)

शेमीअकां (पुलाद)खानके मरनेके बाद मध्य-ओर्दूके अबुल् मुहम्मद और उसके बाद अबलइ खान हुये। किसी-किसीके मतमें अबुल् मुहम्मद पुलाद खानका पुत्र था। इस समय किरिलोफकी जगह तातिश्चेफ १७३० ई०में ओरेनबुर्गका राज्यपाल था। उसने अबुल् और अबलइ दोनोंको ओरेनबुर्गमें बुलाया। स्वयं न आकर उन्होंने अगस्त १७३८ ई०में संदेश भेजा, कि हम बहुत दूर इतिशके किनारे हैं, इसलिये अगले साल आकर राजभक्तिकी शपथ लेंगे।

लेकिन यह भी बात उन्होंने पूरी नहीं की। इसी बीचमें १७३९ ई०के आरम्भमें राजुल उरुसोफ ओरेनबुर्गका राज्यपाल होकर आया। मध्य-ओर्दूका अभीतक कोई पक्का खान नहीं चुना गया था, लेकिन अबुल् मुहम्मद उसका सबसे बड़ा प्रभावशाली नेता था। लघु-ओर्दूका खान अबुल्खैर दावा करता था, कि वह हमारे अधीन है। इसके कारण दोनोंमें झगड़ा खड़ा हो गया। १७४० ई०में अबुल् मुहम्मद, अबलइ सुल्तान और दूसरे कितने ही सरदारों और साधारण कजाक मुखियोंके साथ ओरेनबुर्ग पहुंचा। राजुल उरुसोफने उसका उसी तरह सम्मान किया, जैसा कि अबुल्खैरके साथ किया था। उन्होंने राजभक्तिका पत्र अर्पित किया, जिसे एक दुभाषियेने पढ़ा। इसके बाद अबुल् मुहम्मद और अबलइने, एक जरदोजीके खंडपर घुटने टेककर शपथ ली, कुरानको अपने माथेपर लगाया, और शपथपत्रकी मुहरको सिरसे छू कुरानको चूमा। पासके ही तम्बूमें मध्य-ओर्दूके १२८ अमीरोंने उसी तरह जारके प्रति शपथ ली। रस्मकी समाप्ति होनेपर तोपें दागी गईं, और अन्तमें भोज हुआ। वहांके सेनापतिने दूसरे दिन भेंट करते समय मध्य-ओर्दूके नेताओंसे कहा, कि अपने देशसे गुजरते समय रूसी कारवांकी रक्षा करना, और मूलरके कारवांकी जो वस्तुएं महा-ओर्दूने लूट ली हैं, उन्हें लौटवानेका प्रयत्न करना। उसने कजाकों ओर वोल्गा-कल्मकोंके साथ शांति स्थापन करनेकी कोशिश की। लेकिन यदि लूटके मालको लौटाना या लूट-मार बन्द करना हो सकता, तो वह कजाक ही क्यों होते? जिस समय यह कार्रवाई हो रही थी, उसी समय ओरेनबुर्गमें अबुल्खैरके दो पुत्र नूरअली और एरअली मौजूद थे, लेकिन उनको डर लगा, कि अबुल् मुहम्मद कहीं रूसियोंसे चुगली करके हमें कैद न करा दे, इसलिये वह जल्दी-जल्दी बहांसे चले गये।

१७४१ ई० में बाश्किर विद्रोहियोंके नेता कराशककाल (काली दाढ़ी) ने भागकर कजाकोंमें पनाह ली, और उसने मध्य-ओर्दूकी एक टोलीको लेकर जुंगरोंको लूटा। जुंगर उनका पीछा करते आ रहे थे, कि रास्तेमें कजाकोंके डेरोको पा उन्होंने उन्हें लूट लिया। राजुल उरुसोफने जुंगर- राजा और रूसके बीचमें हुई सुलहका हवाला देकर ऐसा न करनेके लिये कहा। इसपर जुंगरों ने जवाब दिया—“हम नहीं जानते, कि कजाक रूसी प्रजा है।” अबुल् मुहम्मदने देशमें जुंगरोंसे प्रतिरक्षार्थ एक मजबूत किला बनानेके लिये रूसियोंको लिखा। उधर कजाकोंका आक्रमण जुंगारियाकी सीमान्तपर जारी रहा। १७४१-ई०में जुंगर-राजा गल्दन छेरिङ्गने मध्य-ओर्दू और लघु-ओर्दूको दंड देनेके लिये दो सेनायें भेजीं, जिन्होंने अबलइको बंदी बनाकर अपने साथ ले जानेमें सफलता पाई। अबलइ रूसी प्रजा था, इसलिये उसे छुड़ानेके लिये रूससे १७४२ ई०में मेजर मूलरको जुंगरोंके पास भेजा गया। मुहम्मदने भी दूतमंडलके साथ अपने पुत्रको जामिनके तौरपर भेजा। रूसियोंको यह बात पसन्द नहीं आई, कि हमारी प्रजा होते हुये कजाक कल्मकोंसे सीधे बातचीत करें। कजाकोंने जुंगरोंसे बहुत कहा, कि अब हम लूट-मार नहीं होने देंगे, लेकिन जुंगर कजाकोंके स्वभावसे अच्छी तरह परिचित थे, इसलिये वह जामिन रखनेपर जोर देते रहे। अबुल् मुहम्मदको अपने लोगोंपर नियंत्रण रखनेके लिये सावधान किया गया, और मामला उस समयके लिये सुधर गया।

अबुल् मुहम्मद यद्यपि अधिकांश कजाकोंके लिये मध्य-ओर्दूका खान था, लेकिन उनकी भारी संख्या तुरसुनखान-पुत्र बुराकिको अपना खान मानती थी, जिसने भी इसी समय रूसियोंके जारके प्रति राजभक्तिकी शपथ ली थी। १७४३ ई०में उसने अपना दूतमंडलन भेज साधारण संदेशवाहक द्वारा पत्र और सुनहरी समूरी खाल भेजी, जिसे लौटानेपर उसने रूखासा जवाब दिया। उधर मेजर मूलरके प्रयत्नसे १७४२ ई०में जुंगरोंने अबलेई सुल्तानको छोड़ दिया था।

१७४४ ई०में जुंगरोंने साइबेरियामें रूसी सीमाके पास शक्ति प्रदर्शन किया । अबुल्-मुहम्मद और उसके लोग तुर्किस्तानकी ओर खिसक गये, और उन्होंने गन्दन छेरिङ्के साथ घनिष्ठ मित्रता करनी चाही—अबुल् मुहम्मदका लड़का अब भी गन्दनके पास जामिनके तौरपर था । अबुल् मुहम्मदको आशा थी, कि इस तरह वह गन्दनसे मध्य-ओर्दूकी पुरानी राजधानी तुर्किस्तान-शहरको पा लेगा । लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी बुराक सुल्तान भी अपने पुत्रको जुंगरोंके पास जामिन दे मध्य-ओर्दूको अपनी ओर करनेकी चेष्टा कर रहा था । इस्लाम और बौद्ध धर्मको लेकर कजाकों और जुंगरोंका झगड़ा बहुत पुराना था, जिसके कारण यदि रूसियों और जुंगरों (कल्मकों) में लड़ाई छिड़ती, तो कजाक जरूर रूसियोंकी ओर हो जाते । खैर, रूसी सीमान्तके पास प्रदर्शन करके ही जुंगर लौट गये, और लड़ाई नहीं हो पाई । इस शांतिसे लाभ उठाकर दो सालके बाद फिर मध्य-ओर्दू रूसी सीमान्तपर पहुँचा, और अबुल् मुहम्मद तथा बुराक दोनोंने पुनः जार-भक्तिकी शपथ ली । १७४६ ई०में जुंगर आक्रमण करके कजाकोंके बहुत-से घोड़े छीन ले गये । यह वही साल था, जिस साल कि जुंगर-राजा गन्दन छेरिङ्क मरा ।

१७४८ ई०में बुराकने लघु-ओर्दूके खान अबुलखैरको हराया । पीछे रूसी प्रजा करा-कल्पकोंको लूटा । जिसके लिये रूसी दंड देते, इसलिये डरके मारे पूर्वकी ओर बढ़ बुराकने ईकान, ओतरार और सिगनकपर अधिकार कर वहाँ डेरा डाला । अगले साल एक खोजाके साथ-रहते बुराक और उसके दो पुत्रोंको जहर खिलाकर मार डाला गया । शायद अबुलखैर-पुत्र नूरअलीने पिताकी हत्याकी शिकायत जुंगरोंसे की । इस समय (१८वीं सदीके मध्यमें) मध्य-ओर्दू के अधिकांश सुल्तानों और सरदारोंने जुंगरोंके यहाँ अपने जामिन दे रखे, थे, इसीलिये जुंगर मध्य-ओर्दूको अपनी प्रजा मानते थे । इसी समय अबुल् मुहम्मद तुर्किस्तानकी ओर गया, जहाँपर वह अपनी मृत्युके समयतक रहा ।

३. अबलइ, शिगाई-वंशज (१७४८-८१ ई०)

अबुल् मुहम्मदके दक्षिणकी ओर, चले जानेपर मध्य-ओर्दूके कुछ सरदारोंने मृत बुराकखान के भाई सुल्तान कूचुकको अपना खान चुना, लेकिन रूसियोंने उसे स्वीकार नहीं किया । इस पर वह जुंगरोंकी ओर झुके । शिगाई खानके वंशज अबलइकी दूसरी ही नीति थी । उसका कबीला अधिकतर रूसी सीमाके पास रहता था, इसलिये वह रूसियोंका अधिक पक्षपाती था—खासकरके तबसे, जब कि मध्य-ओर्दूने १७५१ ई०में उलुकतागमें जुंगरोंसे करारी हार खाई । १७५४ ई०में उनके ऊपर जुंगरोंका इतना अधिक दबाव था, कि बहुत-से अमीरोंने रूसियोंसे आज्ञा मांगी, कि हमारे बीबी-बच्चोंको अपने यहाँ शरण दो, और सीमान्तपर जमीन दो, तो हम खेती करके अपने गाँव बसा लेंगे । इसपर कितने ही कजाकोंको उइस्कके पास बस जानेकी इजाजत मिली, और उचित जामिन दे देनेपर कितनों हीको हटकर रूसी सीमान्त रेखाके पीछे आनेकी भी इजाजत मिल गई । लेकिन इसी समय जुंगर-साम्राज्यको चीनियोंने नष्ट कर दिया, जिसमें अबलइका भी काफी हाथ था । साम्राज्यके पतनमें अमुरसना और दावा छेरिङ्क (१७५०-५५ ई०) का झगड़ा मुख्य कारण था, इसे हम पहले बतला आये हैं । चीनियोंकी सहायतासे अमुरसना खान बना था, लेकिन वह चीनियोंके हाथकी गुड़िया नहीं बनना चाहता था, इसलिये विद्रोही बना, और भारी चीनी सेना आनेपर उसने कजाकोंमें भागकर शरण ली । अबलइ खानने घोड़े और संरक्षक दिये, और गिरफ्तार करनेके लिये वचन देकर चीनी सेनापतियोंके पता पूछनेपर बहाना कर दिया, कि अमुरसना रूसियोंके पास भाग गया । इसपर नाराज हो चीनी जेनरल तलतंगा कजाकोंके देशमें घुसा । फिर कजाकोंने उसे भुलावमें डाला । उधर मंगोलों और मंचू सैनिकोंको अपने जेनरलका आचरण बुरा लगा, इसलिये उनमेंसे बहुतेरे साथ छोड़कर चले गये, और जेनरलको पीछे हटना पड़ा । इन लड़ाइयोंमें सबसे बहादुर चीनी सेनापति हो मारा गया, और वही हालत कल्मक सेनानायकों—नीमा, पयार, सीला और मंगलिक आदिकी हुई, जो कि अमुरसनाके विरुद्ध हो चीनकी ओरसे लड़े थे । इस हारकी खबर मिलनेपर चीनसे एक

नई सेना आई, जिसने कजाकोंको हरा उनके बहुत-से मुखियों को पकड़कर पेंकिंग भेज दिया, जहां उन्हें प्राणदंड दिया गया।

जुंगरों जैसी अजेय शक्तिको इतनी आसानीसे खतम करते चीनियोंको कोई दिक्कत नहीं मालूम हुई, यह देखकर अबलई रूसका पक्ष छोड़ चीनकी ओर झुका, और कुछ समय बाद उसने चीनी सम्राट् चियान-लुङ्ग (काउ-चुङ्ग १७३५—१५ ई.) की अधीनता स्वीकार की। सम्राट्ने इतने प्रभावशाली खानको अपना सामन्त बनते देखकर उसे राजा (वाङ्ग) की उपाधि भेजी। अगले साल १७५७ ई० में जब उसे अपने ओर्दूके साथ चीनी प्रजा घोषित करनेकी आज्ञा आई, तो अबलइने टालमटोल कर दिया।

१७५८ ई०में मध्य-ओर्दूके एक भागके कजाक रूसी सीमापर आक्रमण कर दोनों ओरके करद २२० तारतारोंको पकड़ ले गये, और इनका दूसरा भाग पूर्वकी ओर बढ़कर जुंगर उच्छेद-से खाली पड़ी भूमिको आबाद किया। अबलइ जहां एक ओर चीनियोंको विश्वास दिलाता था, कि मैं सम्राट् का करद सामन्त हूं, वहां दूसरी ओर उसने रूसको भी विश्वास दे रक्खा था, कि मैं यह सब कुछ ऊपरी मनसे कर रहा हूं, समय आनेपर मैं रूसकी ओरसे चीनके साथ लड़ूंगा। रूसी रानीने बड़ी प्रशंसा करते हुये उसके लिये एक बहुमूल्य समूरी छाल भेजी। मध्य-ओर्दूका अधिकांश अबलइको अपना खान मानता था। रूसी नहीं चाहते थे, कि अबलइका प्रभाव और शक्ति अधिक बढ़े। उन्होंने तब भी कूटनीतिसे ही काम लेना चाहा, और कहा, कि लघु-ओर्दूके नूरअली खानकी तरह तुम भी अपने पुत्रको जारके दरबारमें जामिन भेजकर सम्मान प्राप्त करनेकी प्रार्थना भेजो। अबलइने इसे पसन्द नहीं किया।

१७६० ई० में मध्य-ओर्दूके कजाकोंने चीनकी प्रजा बुरूतों (जंगली किर्गिजों) पर आक्रमण किया। चीनियोंने इसपर विरोध प्रकट करते हुए अपनी सेना अबलइको दंड देनेके लिये भेजी। तीन ही वर्ष पहले जुंगरोंकी क्या दशा हुई, यह कजाक देख चुके थे, इसलिये उन्होंने तुरन्त चीनियोंकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन साथ ही रूसको प्रसन्न रखनेके लिये भी कितने ही बारिकर और बराबिन तारतार बंदियोंको उनके पास लौटा दिया। रूसी चाहते थे, कि अबलइका संबंध चीनसे न हो। १७६२ ई० में उन्होंने हुक्म दिया, कि कजाक बड़ोंमें भेंट बांटनी है, सीमान्तके पास घोड़ोंके लिये अस्तबल, गाड़ियोंके रखनेके लिये गाड़ीखाने, चारों ओर प्राकार और दूकानसे घिरा एक छोटा महल खासकरके खानके लिये बनाना है। वह महल पेत्रोपावलोव्स्केके सामने बना भी दिया गया है। रानी एकातेरिना II की गद्दीके समय अबलइ, ऐचूवक और लघु-ओर्दूके नूरअलीने भी राजभक्तिकी शपथ ली, यद्यपि अबलइ अब भी चीनियोंकी अधीनताको मानता था। इस प्रकार उसकी चाल दोरंगी थी।

चीनी सेना जुंगरोंको हरानेके बाद पश्चिमकी ओर बढ़ती गई। उसने खोकन्द और ताशकन्दपर आक्रमण किया। इसपर वहाँके शासकोंने अफगानिस्तानके अमीर अहमदसे इस्लामके नामपर मदद मांगी। काश्गर और यारकन्द आदिके लोगोंने भी जाकर काबुलपतिके पास गुहार की। अहमदशाह अब्दाली भारतमें भारी विजय (१७५६ ई०) प्राप्त करके काफी नाम कमा चुका था, इसलिये वह उत्तरसे आई गुहारको ठुकरा कैसे सकता था? उसने काफी सेना अन्तर्वेद की ओर भेजी। ताशकन्द और खोकन्दके बीचमें चीनी सेनासे बातचीत चलती रही, फिर सारे मध्य-एसियामें जहाद (धर्मयुद्ध) की घोषणा कर दी गई। उधर चीनियोंने अबलइको सनद देकर इलीपर बसनेकी इजाजत देते हुये, दुश्मनोंसे रक्षाका भार अपने ऊपर ले लिया। अबलइने अपने ससुर सुल्तान अहमद, कुछ कजाक अमीरों और उनके लड़कोंको जामिन बनाकर चीनियोंके हाथमें दिया, और इस प्रकार अबलइ मुसलमानोंके जहादमें शामिल नहीं हुआ।

रूसियोंने कोलचवली नदीपर १७६४ ई०में एक छोटासा किला सेमीप्लातिन्स्क बनाया था, जो कजाकोंके साथ व्यापार करनेका केन्द्र था। अबुल्मोहम्मद-पुत्र अबुल्फैज, तथा तुकिस्तानके पुलाद खानके भाई अबुल्फैजके कहनेपर ही रूसियोंने यह किया था। अबुल्फैज मध्यओर्दूके सबसे अधिक शक्तिशाली कबीले नैमनका मुखिया था। जुंगारियामें रहनेके कारण अब वह चीनियोंपर अधिक

निर्भर करता था। रूसियोंने अबलइको सेमीप्लातिन्स्कमें व्यापार करनेकी आज्ञा दे दी। कजाकोंने खेती सीखनेकी इच्छा प्रकट की, तो समुचित जामिन लेकर दस खेती सिखानेवालोंको भी रूसियोंने भेज दिया। इतिहासके आदिकालसे अबतक खेतीसे अच्छे कजाक जुगारोंकी भांति अब खेतीके महत्त्वको समझने लगे।

अब हम उस समयमें पहुंचते हैं, जब कि १७७० ई०में बोल्गा-तटसे तोर्गुत (कल्मक) भगे थे। कल्मकोंका रास्ता अपने पुराने दुश्मन कजाकोंकी भूमिके बीचसे था। रूसियोंने भी उन्हें भड़का रक्खा था, इसलिये अबलइ और उसके आदमियोंने सुल्तान अबुल्फैजकी तरह कल्मकोंपर आक्रमण करके बहुत लूट-मार की, और उनमेंसे भारी संख्याको अपना बन्दी बनाया।

१७७५ ई०में अबुल्फैज तथा मध्य-ओर्दूके और कितने ही सरदारोंने साइबेरियाकी सीमापर जाकर रूसी प्रजा होनेकी आज्ञा मांगी—प्रजा होनेका मतलब था वार्षिक पेंशन और भेंट-इनामकी प्राप्ति। रूसियोंने कहा—“तुम तो पहले हीसे हमारी प्रजा हो।”

अबलइ अपनी चालाकी-चतुराईके बलपर बहुत शक्तिशाली बन गया, और बराबर रूस और चीनके बीचमें अपने दावपेच चलाता रहा। तो भी चीनकी ओर उसका झुकाव अधिक था, वह चीनी भाषा बोल भी सकता था। अपनी शक्तको १७७१ ई०के बाद उसने अपनेको देश खुल्लमखुल्ला खान (राजा) कहना शुरू किया। कहांसे यह पदवी मिली, पूछनेपर वह बड़े अभिमानके साथ जवाब देता—तोर्गुतोंपर विजय प्राप्त करनेसे अबुल्मुहम्मदके मरनेपर तुर्किस्तान और ताशकन्दके कजाकोंने मुझे अपना खान निर्वाचित किया। अपने पूर्वजोंकी भांति वह भी चाहता था, कि मैं भी कजाकोंके सबसे बड़े संत खोजा अहमदकी समाधिके पास रहूं। रूसियोंने दबाव दिया, कि अपने पुत्रको जामिन भेजकर जारसे खानकी पदवी प्राप्त करो। इसपर १७७७ ई०में उसने अपने पुत्र तोर्गुमको खान-पदवी प्राप्त करनेकी प्रार्थनाके साथ पीतरबुर्ग भेजा। दरबारमें उसका अच्छा स्वागत हुआ, और २२ अक्टूबर १७७८ ई०को कुछ और भेंटोंके साथ खानकी उपाधिका शासनपत्र ओरेनबुर्ग के राज्यपालके पास भेज दिया गया। अबलइको सूचित किया गया, कि उपाधि प्राप्त करनेके लिये त्रोटस्क या साइबेरियाके किसी दूसरे रूसी नगरमें आओ। अबलइने ऐसा करनेसे इन्कार कर दिया। इसपर उसे उसके डेरेमें एक रूसी अफसरके सामन शपथ दी गई। लेकिन अबलइ चीनियोंको नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिये, उसने रूसी रानीकी भेजी हुई भेंटको स्वीकार नहीं किया। चूंकि रूसियोंने बुरूतों (जंगली किर्गिजों)के विरुद्ध मदद देनेसे इन्कार कर दिया था, इसलिये अबलइने अपने पासके रूसी बंदियोंको वहीं लौटा दिया, और उन तुर्कमानोंको भी, जिन्हें कि तोर्गुत अपने साथ ला महायात्रामें कजाकोंके देशमें छोड़ गये थे। इसपर रूसियोंने नाराज हो अबलइकी पेंशन बन्द कर दी, और कुछ कजाक सुल्तानोंको भी उसके विरुद्ध उकसाया, जिन्होंने उसे पकड़कर रूस ले जानेका असफल प्रयत्न किया। अबलइ बुरूतोंके विरुद्ध सफल अभियान करके तुर्किस्तान-शहर लौटा। उसने अपने लड़के हादिलके लिये तलस नदीके तटपर एक प्राकारबद्ध महल बनवाया। पास हीमें महाआर्दूके कजाकों—जो कि इस समय अबलइकी प्रजा थे—के कहनेपर एक शहर भी बसाया, जहां कराकल्पक किसान आकर आबाद हो गये। बन्दी बनाकर लाये बुरूतोंको वह मध्य-ओर्दूके देशके उत्तरमें ले गया, जहां वह पीछे यानी-किर्गिज (नये किर्गिज)के नामसे प्रसिद्ध हुये। १७८१ ई०में अबलइ रूसी सीमान्तकी ओर जा रहा था, इसी समय ७० वर्षकी उमरमें उसका देहान्त हो गया। उसकी कब्र तुर्किस्तान शहरमें बनाई गई। चीनमें खबर मिली, तो वहांसे एक विशेष अफसर भेजा गया, जिसने परिवारको जमाकर राजसी ढंगसे अबलइकी अन्त्येष्टि-क्रिया कराई।

४. वली, अबलइ-पुत्र (१७८१-१८१८ ई०)

अबलइके मरनेपर मध्य-ओर्दूको महा-ओर्दूवाले बुरी तौरसे हराकर भारी संख्यामें उनके पशुओं को छीन ले गये। मध्य-ओर्दूकी शक्ति अब बिखरने लगी। उसके उत्तरी भागने अबलइ-पुत्र वलीको अपना खान चुना, और प्रार्थना करनेपर रूसने उसे स्वीकार भी कर लिया। १७८२ ई०में लेफ्टेनेन्ट-जेनरल याकोबने बड़ी धूमधूमसे पेत्रोपावलोव्स्कमें वलीको खान घोषित किया, लेकिन मध्य-ओर्दूके

सबसे प्रभावशाली कबीले नैमनने वलीको न मंजूर कर अबुलमुहम्मद-पुत्र अबुल्फज (मृत्यु १७८३ ई०) को अपना खान चुना, जिसे चीनने मंजूर कर लिया। लेकिन नैमनोंमें भी सब एकराय नहीं थे। अबुल्फजका पुत्र बुपू और दामाद खान खोजा बुराक-पुत्र इससे सहमत नहीं हुये। नैमनोंमें काफी संख्या खान खोजाकी पक्षपाती थी, जिसे स्वीकार करते हुये चीनियोंने अपना शासनपत्र भेजा। वलीको छोड़कर अबलइके सारे संबंधी रूस नहीं, बल्कि चीनके पक्षपाती थे। वलीके एक भाई जिगिसने १७८४ ई०में सेना ले जाकर ताशकन्दमें एक विद्रोहको दबाया। उसके दूसरे भाई सुल्तान तीजकी बुरतोंसे भारी दुश्मनी थी। बुरत लड़ाकू चीनी सेनाको भी अनेक बार पराजित कर चुके थे। सुल्तान तीजको भी उन्होंने एक बार हराकर पकड़ लिया, और उसने अपने कई गुलामोंको देकर छुट्टी पाई। वलीका बड़ा भाई बेर्दी खोजा चीनी सीमान्तपर रहनेवाले मध्य-ओर्दूके कजाकों का शासक था। इसे भी लड़ाकू बुरतोंसे पाला पड़ा था, और इसने उन्हें कई बार हराया। १७८५ ई०में ऐयागुज नदीके तटपर इसने बुरतों (जंगली किर्गिजों)के विरुद्ध अपनी सबसे बड़ी और अंतिम विजय प्राप्त की। लेकिन उस समय वह चीनी सेनाके सहायकके तौरपर लड़ रहा था, जिससे उत्साहित हो अपनी छोटी सेनाके साथ जब वह यिदिस्से नदीके तटपर पहुंचकर कुमक आनेकी प्रतीक्षा कर रहा था, इसी समय बुरतोंने आक्रमण करके उसे पकड़ लिया। तीजको अब प्राणों की आशा क्या हो सकती थी? उसने एक रक्षरक्षीको मार डाला, जिसपर बाकी टूट पड़े, और उन्होंने उसे हाथ-पैर अलग-अलग काट, पेटको चीरकर उसीके भीतर हाथों-पैरोंको डालके मारा। पीछे तीजके भाई अककियक और उसके पुत्रों लेपेस तथा चोकाने युद्धमें हराकर बुरत सरदारके पुत्रको पकड़ा, और उसे घर ले जाकर बेर्दी खोजाकी स्त्रियोंको दे दिया, जिन्होंने उसे पीट-पीटकर मार डाला।

१७८६ ई०में रूसियोंने अबुलखैर-पुत्र नूरअलीको लघु-ओर्दूका खान बनाया।

इस समय मध्य-ओर्दूके उत्तरी भागमें शांति छाई हुई थी। इनके पड़ोसी थे महा-ओर्दू, लघु-ओर्दूके कजाक, रूसी, ताशकन्द-तुर्किस्तान राज्यके शांतिप्रिय निवासी। दूसरे पड़ोसी लड़ाकू बाश्किर, त्रोइत्स्कके पासमें रहते थे। दूसरी ओर बुरत भी चैनसे रहने देना नहीं चाहते थे। मध्य-ओर्दूकी स्थिति इस समय दूसरे दोनों ओर्दूओंसे कुछ बेहतर थी। महा-ओर्दू और लघु-ओर्दूकी अपेक्षा वह अधिक संस्कृत और स्थायी जीवन बिता रहा था, तथा अपने खानों और सुल्तानोंकी बात मानते थे। वलीने भी अपने पिताकी तरह शक्ति-संचय करनेमें सफलता प्राप्त की। अस्त्राखानसे तोर्गुतोंद्वारा छीने गये तुर्कमानोंको लौटानेसे इन्कार करके उसने रूसियोंको नाराज कर लिया। रूस-पक्षपाती अमीरोंका भी वह दमन करता था। १७८९ ई०में महा-ओर्दूके एक सुल्तान तुगुमके साथ वलीके ओर्दूके भी कितने ही लोग रूसमें चले गये, और रूसियोंने उन्हें उस्त-कामेन्नोगोस्क्के किलेके पास जगह देकर बसा दिया। १७९३ ई०में जनरल स्वान्दमानने जबर्दस्ती तुर्कमानोंको वलीके हाथसे छुड़ाया, जिसकी शिकायत कजाक खानने रूसी रानीके पास की। बापकी तरह यह भी दुरंगी चाल चल रहा था। १७९५ ई० में इसने एक पुत्रको चीनमें अधीनता स्वीकार करनेके लिये भेजा था। प्रजाको इसने अपने जुल्मोंसे इतना नाराज कर दिया था, कि १७९५ ई०में मध्य-ओर्दूके दो सुल्तान, उन्नीस जेठे, ४३३०८ अनुचरों तथा ७९००० दूसरे कजाकोंने रानी एकातेरिनाIIसे प्रार्थना की, कि हमें वलीके पंजेसे छुड़ाकर रूसी प्रजा बना लो। खानने इसपर क्षमा मांगी। १७९५ ई०में बाश्किरोंके पड़ोसी मध्य-ओर्दूके एक दलने चेलियाबिन्स्क और ब्रेस्ने उराल्स्कमें जाकर लूट-मार की।

१७९८ ई०में पावलके शासनकालमें कजाकोंके आपसी झगड़ोंके मिटानेके लिये पेत्रो- पालोव्स्कमें रूसियों और कजाकोंकी एक सम्मिलित अदालत बैठी, लेकिन उसने अपना काम १८०६ ई०में शुरू किया। वली १८१८ ई०में मरा। अन्तिम वर्षोंमें कजाकोंमें उसकी चलती नहीं थी, और कितने ही अमीर उसकी आज्ञा माननेसे इन्कार करते थे। इसपर जार अलेक्सान्द्रा (१८०१-२५ ई०)ने बोराक-पुत्र बूकेइको मध्य-ओर्दूका द्वितीय खान १८१६ ई०में नियुक्त किया। बूकेइ भी १८१८ ई०में मर गया, जिसके साथ ओर्दूके खानोंकी परम्परा खतम हो गई, और उनके कजाक सीधे रूसी प्रजा हो गये, जिनके शासनके लिये रूसियोंने एक विशेष प्रबन्ध कर रखा था।

ख. लघु-ओर्दू (१७४४-१८१२ ई०)

तेअवका, तौफीक या तवक्कल खान (१६९८-१७१८ ई०)के बाद श्वेत-ओर्दू तीन भागोंमें विभक्त हो गया था, जिनमें लघु-ओर्दूके अमीर थे—यादिक खानके भाई उजियक सुल्तानके वंशज। तेअवकाने अदिया (आइतिक)को लघु-ओर्दूके शासनका भार सौंपा। इस प्रकार अदिया लघु-ओर्दूका प्रथम खान था। लघु-ओर्दूके खानोंके नाम निम्न प्रकार हैं:—

१. अदिया, जानीबेग वंशज, ईरिश-पुत्र	—१७१७ ई०
२. अबुलखैर, अदिया-पुत्र	१७१७-४९ "
३. नूरअली, अबुलखैर-पुत्र	१७४९-९० "
४. एरअली, अबुलखैर-पुत्र	१७९०-९४ "
५. इशिम, नूरअली-पुत्र	१७९४-९७ "
६. एचुवक, अबुलखैर-पुत्र	१७९७-१८०५ "
७. जन्ती उरा, एचुवक-पुत्र	१८०५-९ "
८. शेरगाजी, एचुवक-पुत्र	-१८१२ "

१. अदिया, एतीयक, इरिश-पुत्र (-१७१७ ई०)

श्वेत-ओर्दूके अन्तिम खान तेअवका (तौफीक)ने इसे लघु-ओर्दूका शासक बनाया था, लेकिन अदियाके समय अभी लघु-ओर्दू अपने स्वतंत्र अस्तित्वको कायम नहीं कर पाया था। यह काम उसके पुत्र अबुलखैरने किया।

२. अबुलखैर, अदिया-पुत्र (१७१७-४९ ई०)

१७१७ ई०में अबुलखैर भी तौफीक और काइपके साथ जुंगरोंके विरुद्ध सहायता मांगनेके लिये रूस गया था। बापके मरनेपर काइपके साथ अबुलखैरकी प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई। १७१७ ई०में रूसियोंसे भी उसका झगड़ा हो गया, उसने कजान प्रदेशमें नवोशेशिमन्स्कतक लूट-मारकरके बहुतसे बन्दी पकड़ लिये। जुंगरोंने भी लघु-ओर्दूकी लूट-मारोसे तंग आकर १७२३ ई० में उन्हें तुर्किस्तान-ताश्कन्द-सैरामसे भगा दिया। तबतक अबुलखैरने तुर्किस्तान शहरमें रहते अपनी शक्ति भी बहुत बढ़ा ली थी। आपसी झगड़ोंसे जुंगरोंको लाभ और अपने वंशका नाश देखकर उसने एक महापरिषद् बुलाकर फैसला कराना चाहा, जिसने अबुलखैरको अपना मुखिया चुनकर सफेद घोड़ेकी कुर्बानी दी। लघु-ओर्दूने उसके नेतृत्वमें कई बार जुंगरोंको छोटी-मोटी हार दी, लेकिन इससे उनके राजा छेवड्क अर्पचन (रब्तन)का कुछ बिगड़नेवाला नहीं था। जब जुंगरोंने जोरका प्रहार किया, तो लघु-ओर्दूको पश्चिमकी ओर भागना पड़ा, और उन्होंने यम्बा नदीको पार हो तोर्गुतों (बोल्गा-कल्मकों)को भगाकर यायिक(उराल)तक की भूमिको ले लिया। अब तोर्गुत उनके विरोधी हो गये और बादमें उरालके कसाक भी दुश्मन बन गये। इन दोनोंके प्रहारसे इन्हें इतनी हानि उठानी पड़ी, कि १७२६ ई०में इनके प्रतिनिधियोंने जाकर रूससे संरक्षण पानेकी प्रार्थना की, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हुये। यद्यपि ओर्दूका बहुमत तैयार नहीं था, तो भी अबुलखैरने इसीमें खैरियत समझकर १७३० ई०में ऊफाके वीथवोद बूतुलिनके पास अधीनता स्वीकार करनेके लिये पत्र भेजा। दूत जुलाई १७३० ई०को ऊफा पहुंचे, जहांसे उन्हें पीतरबुर्ग भेज दिया गया। दूतोंने दरबारमें कल्मकों (तोर्गुतों), बाश्किरों और उरा-कसाकोंके साथ लड़ाई करनेका वचन दिया—हम रूसके शत्रुओंसे लड़नेके लिये सदा तैयार हैं, और यदि खीवा, कराकल्पक तथा अरबी कबीलोंको दबानेके लिये हमें सैनिक दिये जायं, तो हम उनपर अभियान कर सकते हैं। उन्होंने अपने ओर्दूकी ओरसे रूसी प्रजा होनेको स्वीकार किया, पीतरबुर्गमें इसके लिये बड़ी खुशी मनाई गई, क्योंकि बिना एक गोली दागे रूसको इतने नये प्रजाजन मिल गये। बाश्किर जब-तब रूसियोंके विरुद्ध विद्रोह कर देते थे।

खीवावालोंने हाल हीमें रूसी राजदूत राजुल बेकोविच-चेरकास्कीको मार डाला था, उसको भी बदला लेनेका मौका मिल रहा था। रानी अन्नाने सहायता और संरक्षण देनेका वचन-पत्र दिया। दूत जब अपने देशको लौटे, तो कजाक भूमिका नक्शा बनानेके लिये दो इंजीनियर अफसर भी साथ कर दिये गये। सारा ओर्दू विरोधके लिये खड़ा हो गया। फिर एक बड़ी परिषद् बुलाई गई, और किसी तरह झगड़ा शांत हुआ। १७३२ ई०म लघु-ओर्दूके अबुलखैर और मध्य-ओर्दूके शेमीअका खान दोनोंने राजभक्तिकी शपथ ली। अबुलखैरने दस्तकपचकको छोड़ सिर-दरियाके मुहानेपर अपना डेरा डाला वहांके करकल्पकोंको भी अपने अधीन करके रूसकी प्रजा बनोया।

जनवरी १७३४ ई०में अबुलखैरका पुत्र एरली सुल्तान और भी कितने ही कजाक मुखियोंके साथ पीतरबुर्ग गया। रानीने उसका स्वागत करके बहुत इनाम दिया। एरलीने अबुलखैर-परिवारमें खानकी पदवी पानेकी प्रार्थना की, और यह भी कहा, कि ओरी और उराल नदियोंके संगमपर रूसी किला बनाया जाय, अपने आसपाससे जानेवाले कारवांकी रक्षाका भार अबुलखैरको मिले, तथा सैनिक सहायताके लिये कलमकों और बारिकरोंकी तरह समूरी छालके रूपमें भेंट दी जाय। शर्तें मानना आसान था, लेकिन कजाक-जैसे कबीलोंके लिये उनका पालन करना बहुत मुश्किल था। एक और भी बात थी: कजाकोंमें मुखिया या खानकी उतनी चलती नहीं थी। लोग जनतंत्रताके अत्यन्त पक्षपाती थे, इसलिये खान द्वारा स्वीकृत शर्त-को माननेके लिये मजबूर नहीं थे। प्रसिद्ध भौगोलिक किरिलोफको कुछ इंजीनियरोंके साथ किला बनाने तथा नक्शा तैयार करनेके लिये भूमापक बनाकर भेजा गया। तीन अफसर, कुछ मिस्त्री और नाविक त्राव बनानेके लिये, एक खनिज इंजीनियर, कुछ तोपची-अफसर, एक वनस्पतिशास्त्री, एक चित्रकार, एक डाक्टर, कजाकोंकी भाषा सीखनेके लिये कुछ तरुण विद्यार्थी किरिलोफके नेतृत्वमें भेजे गये। कजान पहुंचनेपर एक रेजिमेंट पैदल सेना, कुछ तोपखाना भी साथ हुआ। ऊफामें कसाकोंकी एक पैदल बटालियन साथ हो गई। तेवकेलेफ नामक एक बारिकरको कर्नलका दर्जा दे दुभाषिया नियुक्त किया गया। ऊफाकी आमदनी इस अभियानके खर्चके लिये निश्चित कर दी गई। किरिलोफको आज्ञा दी गई थी, कि ओरीके मुहानेपर नगर बसाकर लोगोंको वहां बसनेके लिये आकृष्ट करे, तथा अबुलखैरको खान उपाधिका शासन-पत्र प्रदान करे। शेमीअका, महा-ओर्दूके दूसरे मुखियों और करकल्पकोंके मुखियोंको किरिलोफसे मिलनेके लिये हुक्म दिया गया था। यह भी हुक्म था, कि मध्य-ओर्दू और महा-ओर्दूके मुखियोंको राजभक्तिकी शपथ लेनेके लिये कहे, एरलीको अच्छे रक्षियोंके साथ उसके बापके पास भेजे, कजाकोंको भेंट-रिश्वत या कड़े हाथोंसे शान्त रखे, नये नगरमें उनके अमीरोंको घर और मस्जिद बनाने और आसपासमें उनके पशुओंके चरनेकी इजाजत दे, उराल (यायिक) नदीको सीमा मानकर कजाकोंको उसके पार होनेसे मना करे, झगड़ोंको तै करनेके लिये रूसियों और कजाक-बड़ोंकी सम्मिलित अदालत स्थापित करके देशके रीति-रवाजके अनुसार फैसला कराये। किरिलोफ १७ जुलाई १७३४ ई०को पीतरबुर्गसे चला।

उसी साल अबुलखैरने अपने पुत्र एरलीको फिर भेजा। किरिलोफ आगेके कामके लिये नेता था। १५ अगस्त १७३५ ई०में ओरी और उराल नदियोंके संगमपर उसने कोरेनबुर्गकी नींव डाली। रूसके इस प्रकार लगातार आगे बढ़नेको देखकर इस भूमिके घुमन्तू कबीले कैसे संतुष्ट रह सकते थे? उनमेंसे कुछने विद्रोह भी किया, लेकिन तोपों और बन्दूकोंके सामने उनका क्या बस चलता? दीवारोंके तैयार हो जानेपर १७३६ ई०के वसन्तमें अबुलखैरको आनेके लिये निमंत्रण दिया गया, और ताशकन्दके व्यापारियोंको भी ओरेनबुर्गकी मंडीमें व्यापार करनेकी सलाह दी गई। इस समय सबसे ज्यादा विद्रोही थे बारिकर, जिनके विरुद्ध रूसियोंको सेना भेजनी पड़ी, और नये किले भी बनाने पड़े, जिनमें उराल नदीके तटपर गुल्लिन्स्क, ओजेर्नया, सेदनी, बेर्दस्कोइ और किरिलोफ थे। समारा नदीके ऊपर भी कुछ किले बनाये गये, लेकिन रूसियोंको अपने हितके लिये इससे भी ज्यादा आवश्यक यह था, कि बोल्गा-कलमकों, बारिकरों और कजाकोंके आपसी झगड़े बराबर बने रहें।

किरिलोफ अप्रैल १७३७ ई०में मर गया। इसी समय रूसी व्यापारियोंका एक कारवां ताशकन्द जानेवाला था, जिसके साथ कप्तान येल्टन गया, जो पीछे भारतपर आक्रमण करने-

वाले नादिरशाहका नौकर हो गया। रूसकी ओरसे येल्तनको अराल समुद्रमें नौसंचालन तथा सिरके मुहानेपर कैदियोंके लिये नगर बसानेके बारेमें विवरण देनेके लिये भेजा गया था। किरिलोफके मरनेके बाद उसकी जगह तातीशेफ नियुक्त किया गया। बाश्किर विद्रोहियोंको दबानेके लिये अबुल्खैरको उपर मनमानी करनेकी छूट दे दी गई थी। उसने बाश्किरोंमें विद्रोही और और अविद्रोही का फर्क किये बिना सबके ऊपर भारी अत्याचार किये। उसीके बाद वही काम कजाकोंने कल्मकोंपर आक्रमण करके किया, और वह कल्मकोंको ही नहीं, बल्कि रूसियोंको भी बन्दी बनाकर ले गये। बन्दी बनाकर ले जानेका मतलब था अन्तर्वेदमें उन्हें दासोंके बाजारमें बेच डालना। इसके कारण रूसी नाराज हो गये, और अबुल्खैरको, नूरअलीको जामिन बनाकर हटनेका हुक्म दिया। डरके मारे अबुल्खैर नहीं आया। अगस्त १७३८ ई०में वह आनेको राजी हुआ। उसके आनेपर रास्तेकी दोनों तरफ पांती बांधे सेना खड़ी थी। जब वह उस तम्बूमें आया, जिसमें रूसी रानी अन्नाका चित्र रखा हुआ था, तो नौ तोपें दागकर उसके लिये सलामी दी गई। तातीशेफको सम्बोधित करते हुये उसने कहा—“परम-भट्टारिका महारानी उसी तरह दूसरे राजाओंमें श्रेष्ठ है, जैसे सूर्यका प्रकाश तारोंमें। यद्यपि दूर होनेसे मैं उन्हें नहीं देख सकता, लेकिन उनके हितकारी प्रतापको मैं अपने दिलमें महसूस करता हूँ। उनके प्रकाशद्वारा रोशनी पाकर मैं रानीकी अधीनता और एक राजभक्त प्रजाकी तरह अपनी आज्ञाकारिताको घोषित करता हूँ। मैं अपने परिवार और अपने ओर्दूको परमभट्टारिकाके संरक्षणमें एक शक्तिशाली वाजके पंखके नीचे जैसे रखता हूँ; और सदाके लिये अधीन रहनेकी प्रतिज्ञा करता हूँ। साथ ही महान् जेनरल, मैं तुम्हारी ओर भी अपनी मित्रताका हाथ फैलाता हूँ।” फिर अबुल्खैरने हाथमें कुरान लेकर वफादारीकी कसम खाई, और रूसी बंदियोंको लौटानेका वादा किया। यही नहीं, उसने अपनी स्त्री पपाइको भी दरबारमें भेंट-स्वरूप भेजनेकी इच्छा प्रकट की। इस प्रकार अबुल्खैर जैसे शक्तिशाली घुमन्तू खानको अपने अधीन पाकर रूसियोंको भारी प्रसन्नता होनी ही चाहिये थी।

१७३९ ई०में तातीशेफकी जगह राजुल उरसोफ वोयवोद होकर आया। आते ही उसने सुना, कि लघु-ओर्दूवालोंने दो रूसी कारवानोंको लूट लिया। १७४० ई०में अबुल्खैरने अपने तीन हजार कजाकोंको वोल्गा-कल्मकोंको लूटनेके लिये भेजा। इसी बीचमें कुछ समयके लिये अबुल्खैर खीवाका खान भी बन गया था, लेकिन नादिरशाहने उसे वहां टिकने नहीं दिया। इस समय उसकी पूर्वी सीमान्तपर जुंगरोंका प्रताप छाया हुआ था। अबुल्खैर उन्हें भी खुश रखना चाहता था। जुंगर कजाकोंके बार-बारके आक्रमणसे तंग आ गये। उन्होंने दो बड़ी-बड़ी सेनायें मध्य-ओर्दू और लघु-ओर्दूके विरुद्ध भेजीं, और अबुल्खैरसे जामिन भेजनेके लिये कहा।

रूसी राज्यपाल नेप्ल्युफने इसे उचित नहीं समझा, कि रूसी प्रजा होते हुये अबुल्खैर जुंगरोंके पास जामिन भेजे। १७४२ ई०में शपथ लेते वक्त अबुल्खैर और दूसरोंने यह वचन दिया था, कि हम जुंगरोंसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अबुल्खैरने अपने पुत्रके स्थानपर किसी दूसरेको रूसी राज्यपालके यहां जामिन रखना चाहा, लेकिन रूसियोंने इसे नहीं माना। इसपर उसने कजाकोंको भड़काया, और १७४३ ई०में दो हजार कजाक आकर नये बसे शहर ओरेनबुर्गको लूट वहांके निवासियोंको पकड़ ले गये। इन कजाकोंका नेता अबुल्खैरका संबंधी दरवेशअली सुल्तान था।

अभीतक अबुल्खैर पर्वकी आड़में शिकार खेल रहा था, लेकिन १७४४ ई०में उसने नकाब उठा फेंका। अब उसके आदमी खुलकर रूसी कारवांको लूटने लगे। अन्तमें २४ अप्रैल १७४४ ई०को रूसियोंने कल्मक राजा दोण्डुबू यैचीको बारूद और शीशाके साथ पत्र लिखकर हुक्म भेजा, कि तुम अपने आदमियोंको जमा करके कजाकोंपर हमला करो, जो भी लूटमें हाथ आये, वह तुम्हारा होगा। लेकिन यह पत्र भेजा नहीं जा सका, क्योंकि इसी समय जुंगर-कल्मकोंका साइबेरियापर आक्रमण होनेवाला था, जिसमें अबुल्खैरके कजाकोंकी सहायता आवश्यक थी। अब भी अबुल्खैरकी लूट-मार बन्द नहीं हुई। उसके आदमी फरवरी १७४६ ई० और जनवरी १७४७ ई०में जमे हुये कास्पियनपरसे होकर वोल्गा-कल्मकोंको लूटने गये। बहुत इधर-उधर करनेके बाद १७४८ ई०की गर्मियोंमें अबुल्खैरन खोजा अहमदकी जगहपर अपने पुत्र ऐचुवक तथा कुछ दूसरे कजाक अमीरोंके लड़कोंको जामिन देना स्वीकार किया, और यह भी वचन दिया, कि मैं अपने पासके रूसी बंदियोंको लौटा दूंगा, और मेरे

आदमी फिर साम्राज्यपर आक्रमण नहीं करेंगे। इधर वह रूससे इस तरहकी प्रतिज्ञायें कर रहा था, और उधर चुपचाप जुंगरोंके खुड-थैचीको अपनी लड़की देनेकी बात चला रहा था।

अपने स्थानपर लौटनेके बाद लोगोंको जमाकर अबुलखैरने कराकल्पकोंपर चढ़ाई की, लेकिन मध्य-ओर्दूके शक्तिशाली कबीले नैमनका एक अत्यन्त प्रभावशाली खान बुराक कराकल्पकोंको अपनी प्रजा कहता था। अबुलखैरकी रूसने जो आवभगत की थी, उससे भी बुराक जल-भुन गया था। दोनोंकी लड़ाई हुई, जिसमें अबुलखैरको हारकर भागना पड़ा। बुराक-पुत्र शिगाईने दौड़कर उसे घोड़ेसे उतार भाला घुसेड़ दिया, इसी समय बुराक आ पहुंचा, जिसने अपने हाथों अबुलखैरको खतम किया। फिर वह कराकल्पकोंको लूटने गया, लेकिन कराकल्पकोंके रक्षक अब रूसी थे, जिनके डरके मारे उसने तुर्किस्तान लौट इकान, सिगनक और ओतरारपर अधिकार किया। पर जैसा कि पहले कहा, अगले ही साल १७४९ ई०में दो पुत्रों सहित उसे जहर देकर मार डाला गया—कहते हैं, इसमें जुंगर खुड-थैशी छेवड्क दोर्जेका भी हाथ था, जिसके पास अबुलखैर-पुत्र नूरअलीने बापकी निर्मम हत्याकी शिकायत की थी। अबुलखैरकी कन्न उत्किया नदीकी शाखा कादिर नदीके पास अक्षांश ५०.३० देशान्तर ८६-०१० में मौजूद हैं।

३. नूरअली, अबुलखैर-पुत्र (१७४९-९० ई०)

अबुलखैरके मरनेके बाद राज्यपाल नेप्लुयेफके प्रयत्नसे अबुलखैर-पुत्र नूर अलीको खान चुना गया। वह लघु-ओर्दू और मध्य-ओर्दू दोनोंका खान बनना चाहता था, पर रूसियोंने २६ फरवरी १७३९ ई० को शासनपत्र भेज उसे किर्गिज-कजाकोंका खान बनाया। नूरअलीकी मां पपाईका प्रभाव कजाकों और पीतरबुर्ग दोनोंमें था। ओरेनबुर्गमें नूरअलीको बड़े ठाट-बाटके साथ खान घोषित करनेकी रसम अदा हुई। उसे दरबारी खिलअत, टोपी और तलवार दी गई, फिर घुटने टेककर उसने राजभक्तिकी शपथ ली। ओर्दूमें लौटनेपर जुंगर खुड-थैचीका दूत आ मिला, जिसने उसकी बागदत्ता बहिनको मांगा। उसने यह भी कहा, कि खुड-थैची तुर्किस्तान शहरको तुम्हें देनेके लिये तैयार है, जहांपर तुम्हारे बाप-दादोंकी हड्डियां कलिममें गड़ी हुई हैं। लेकिन नूरअलीके सुल्तान और ओर्दूके मुखिया रूसियोंको नाराज नहीं करना चाहते। रूसी जुंगरोंकी ताकतको समझते थे, जिनके प्रभुत्वको महा-ओर्दू और मध्य-ओर्दू मानता था, और दोनों मध्य-एसियाई उनके हाथोंसे बाहर जानेकी शक्ति नहीं रखते थे। इसलिये उन्होंने खुड-थैचीको नूरअलीका बहनोई बननेसे रोका। १७५० ई०में बहिन मर गई, संदेह था, वह स्वाभाविक मौतसे नहीं मरी। अबुलखैर और काइपमें प्रतिद्वंद्विता चलती रही। काइप-पुत्र बातिर (बहादुर)को लघु-ओर्दूके एक भागने अपना खान चुना। फिर बातिर-पुत्र काइप II खीवाका शासक चुना गया। बातिरने खीवासे बुखारा जानेवाले कारवांकी रक्षाका भार अपने ऊपर लेनेकी मांग की, जिसे कुछ अंशमें रूसियोंने मंजूर भी कर लिया, इसपर नूरअली नाराज हो गया। नूरअलीके भाई ऐचुवकने १७५० ई० के वसन्तमें शांतिप्रिय कबीला अरालीपर आक्रमण किया, जो कि खीवाके खानके अधीन था। इसका बदला लेनेके लिये खीवा-खान काइपने खीवामें व्यापारके लिये गये नूरअलीके लोनों तथा उसके दूतको बन्दी बना लिया, और लूटे माल तथा बन्दी अरालियोंको लौटा दिया। ऐचुवकके दूसरे भाई एरलीने कराकल्पकोंपर हाथ मारा, लेकिन यहां मुकाबिला निर्बल्लोंसे नहीं था, इसलिये एरलीके अधिकांश आदमी मारे गये, और स्वयं एरली भी कितने ही महीनोंतक कराकल्पकोंका बन्दी रहा।

नूरअली नहीं पसंद करता था, कि खीवाके कारवांसे बातिर छेड़-छाड़ करे। १७५३ ई० में उसने एक रूसी कारवांको खीवा जाते वक्त लुटवा लिया, ऐसी ही और भी कितनी ही मनमानियां कीं, जिसकी शिकायत करनेपर उसने जवाब दिया—“बातिर और उसके पुत्र काइपने जो अत्याचार किये, उन्हींके कारण ऐसा हुआ। वह रूसके इलाकेपर हमला करना चाहते हैं, यदि मुझे दस हजार सेना और तोपखाना मिले, तो मैं जन्द दिनोंमें उन्हें दबा सकता हूं। रूसियोंने इसे स्वीकार नहीं किया। खीवावालोंके साथ झगड़ा होनेपर रूसियोंने नूरअलीको खीवपर आक्रमण

करनेके लिये उकसाया। नूरअलीने अपने ओर्दूके मुखियोंको राय लेनेके लिये बुलाया, लेकिन दुआ देनेवाले खोजा (सैयद)के बीचमें पड़ जानेपर खीवा और लघु-ओर्दूका झगड़ा रुक गया।

१७५५ ई०में बाश्किरोने रूसियोंके खिलाफ विद्रोह कर दिया। मुल्ला बातिर शाहने उन्हें काफिरों (रूसियों)के विरुद्ध भड़काया, और कजानके तारतारों तथा कजाक-ओर्दूसे भी जहाद करनेके लिये कहा। उनमेंसे कुछने रूसी बस्तियोंको लूटा-मारा। इसपर राज्यपाल तथा कमांडर नेप्लुइयेफने कजाकोंके शत्रुओं—दोन-कसाक, कल्मक, मेश्केरियक, तेपियर आदि कबीलोंसे सहायता ली। ओरेनबुर्गके अखुन (जिलेके अमीर शरियत या धर्माचार्य)ने फतवा दिया, कि रूसियोंके मार भगानेके बाद कजाकोंको बाश्किर खतम कर डालेंगे, इसलिये रूसके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिये। रूसी राज्यपालने फतवाको कजाकोंमें बंटवाया। रूसी दरबारकी सहमतिके साथ उसने कजाक खान और सुल्तानोंको वचन दिया, कि उनके बीचमें रहनेवाले सभी बाश्किर औरतों और बच्चोंको हम इस शर्तपर तुम्हारे हवाले कर देंगे, कि तुम उनके पुरुषोंको सीमान्तसे बाहर भगा दो। इस समय विद्रोहके कारण बहुत भारी संख्यामें बाश्किर भागकर यायिक (उराल) नदीके पार चले गये थे। लोभी कजाक ऐसे मौकेसे फायदा उठाये बिना कैसे रह सकते थे, उन्होंने इन सभी अभागों लोको पकड़ लिया। बाश्किर मरदोंमें प्रतिरोध करनेकी शक्ति नहीं थी, उनमेंसे कितने ही मारे गये, और कितनों हीको कजाकोंने पकड़कर रूसियोंके हाथमें दे दिया, और कुछ देश लौट बदला लेनेकी तैयारी करने लगे। रूसियोंने उन्हें भीतर-भीतर सहायता दी। फिर बाश्किर बड़ी संख्यामें यायिक पार हो कजाकोंके ऊपर पड़े। रूसी दोनों जातियोंमें दुश्मनीकी आग भड़काकर चैनकी वंशी बजाने लगे। बाश्किरों और कजाकोंका झगड़ा अब हिंदियोंके लिये जारी हो गया। अपनी सीमान्तकी रक्षाके लिये जारशाहीने क्या-क्या तरीके इस्तेमाल किये, इसका एक उदाहरण देखिये—अभी रूसी इतने साधन-सम्पन्न नहीं थे कि सीमान्तपर अपने बलपर शांति स्थापन कर सकते। नूरअलीने इसकी शिकायत जब रूसियोंके पास की, तो उन्होंने जवाब दिया—“बाश्किर भगोड़ोंको शरण देनेका यह फल है।”जब बाश्किरों और कजाकोंका खूनी संघर्ष काफी हो चुका, और दोनों जातियां खूब कमजोर हो गईं, तो नेप्लुइयेफने यायिक नदीको दोनोंके बीचमें सीमा निश्चित करके उसे पार करना निषिद्ध कर दिया। थोड़े दिनोंके लिये झगड़ा रुक गया, लेकिन कबीलोंकी बदला लेनेकी प्रवृत्ति कितने दिनोंतक रुक सकती थी? फिर वह एक दूसरेके इलाकेमें घुसकर लूट-मार करने लगे, यदि सरदार रोकना चाहता, तो उसे काफिर रूसियोंका आदमी कहकर बदनाम करते। इसी बीचमें प्रुशिया (जर्मनी) के साथ रूसका सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया, इसलिये रूसियोंका सारा ध्यान उधर खिंच गया।

१७५७ ई०में कल्मक शासक दोण्डुब्-थैचीने नूरअली और क्रिमियाके खानसे कहा, कि आओ मिलकर रूसियोंके ऊपर हमला करें। लेकिन इसी समय चीनियोंने आक्रमण करके जुंगर-साम्राज्यको खतम कर दिया, और विजयी चीनी सेनाके कारण रूसी सीमान्त खतरेमें पड़ गया। नूरअली रूसियोंकी शहरपर चीनियोंसे लड़नेके लिये तैयार था, लेकिन चीनी सेना जुंगरोंके प्रभावक्षेत्रसे आगे नहीं बढ़ी।

१७५९ ई०में ओरेनबुर्गमें नया रूसी राज्यपाल था, जिसने नूरअलीके साथ उचित शिष्टाचार नहीं दिखलाया, जिसपर कजाकोंने फिर लूट-मार शुरू कर दी, और रूसी भी बदला लेने लगे। एचुवकने जुंगारियामें चले चलनेका प्रस्ताव किया। इसकी भनक मिलनेपर रूसियोंने वार्षिक पेंशन और दूसरे साम-दानके हथियारोंसे कजाकोंको ठंडा कर दिया, और ओरेनबुर्गके हाकिमोंको हिदायत दी, कि कजाकोंके साथ बहुत अच्छी तरह बर्ताव किया जाय, उनमें उदारताके साथ भेंटें बांटी जायं, जाड़ोंमें उनके ढोरों और घोड़ोंके रहनेके लिये गौशालायें और अस्तबल बना दिये जायं। रूसी समझ रहे थे, कि ऐसा न करनेपर कजाक चीनियोंकी सीमान्तकी ओर चले जायेंगे, और लघु-ओर्दूका यह इलाका तथा मध्य-एसियाका वणिक्पथ निर्जन और उजाड़ हो जायेगा।

१७६२ ई० में एकातेरिना II जब गद्दीपर बैठी, तो उस समय नूरअली, एचुवक तथा मध्य-ओर्दू के अबलइ खानने भेंटें भेजीं, लेकिन उसी समय नूरअलीने पेकिगमें भी एक दूतमंडल भेजा, जिसका

वहां अच्छा स्वागत हुआ। इसपर फूलकर नूरअलीने रूसियोंके साथ अपने लोगोंकी छोड़छाड़को नहीं रोका। इसके बाद उसने वोल्गा-कल्मकोंपर भी आक्रमण किये। उस समय जाड़ोंमें उत्तरी कास्पियन समुद्र जम गया था, इसलिये बर्फपरसे होकर आक्रमण करनेमें उसको सुभीता था। रूसियोंने यायिक नदीकी सीमा निश्चित की थी, लेकिन अब नूरअली उसके पश्चिममें जाड़ा बितानेकी मांग करने लगा। जुंगरोंके ऊपर विजय प्राप्त करके चीनी सेनाको सामने खड़ी देखकर मध्य-एसियाके मुस्लिम राज्य अपने घर झगड़ोंको भूलकर थोड़े समयके लिये एक हो गये। नूरअली भी उनके साथ था। १७६४ ई०में नूरअलीने रानी एकतेरिनाको लिखा, कि मध्य-एसियाके मुसलमानोंने मुझे निमंत्रित किया है। साथ ही उसने रूसी इलाकेमें लूट-मार भी जारी रखी। १७६५, १७६६ और १७६७ई०में इस तरहके कई हमले किये। इसके बाद १७७० ई० का वह समय आया, जब कि तोर्गुत-मंगोल वोल्गाके तटको छोड़कर पूर्वकी ओर भागने लगे। तोर्गुतोंके भागनेमें जहां चीन-सम्राट और दलाई लामाकी प्रेरणा काम कर रही थी, वहां कजाकोंके बार-बारके आक्रमणसे भी वह तंग आ गये थे। रूसियोंने तोर्गुतोंको रोकनेके लिये नूरअली और उसके कजाकोंको कहा। काफिर तोर्गुतोंकी लूट-मार मुसलमान कजाकोंके लिये पुण्य-अर्जनकी बात थी। नूरअली, उसका भाई एचुवक, खीवा का भूतपूर्व और अब लघु-ओर्दूका एक खान काइपअपने आदमियोंके साथ अभागे प्रवासियोंपर टूट पड़े। इन भयंकर दुश्मनोंने चीनी सीमान्ततक उनका पीछा किया। कभी-कभी कल्मकोंने भी उन्हें हराया—सागिजके पास कजाकोंको भारी हार खानी पड़ी, लेकिन मुगजर पहाड़ और इशिम नदी के तटपर कजाकोंने अधिक सफलता पाई।

१७७३-७४ ई०में पुगाचेफके नेतृत्वमें वोल्गाके किसानोंने विद्रोह कर रक्खा था, यायिकके कसाक और बाश्किर भी उसके साथ थे। दोनों ही कजाकोंके शत्रु थे, इसलिये वह विद्रोहमें शामिल नहीं हुये; हां, देशकी गड़बड़ीसे लाभ उठाकर रूसी बस्तियोंको लूटनेमें वह पीछे नहीं रहे, जिसके लिये १७७४ ई०में रूसियोंने भी इनकी खूब मरम्मत की। इसी समय नूरअलीके पुत्र पीरअलीको खीवा और सराइचुकके बीचके तुर्कमानोंने अपना खान चुना, और उसने खीवा जानवाले कारवांसे कर लेना शुरू किया। कजाकोंने जो लूट-मार की थी, उसका बदला लेनेके लिये १७८४ ई०में ३४६२ रूसी सैनिकोंने यायिक पार हो असली लुटेरोंको न पा दूसरे ४३ कजाकोंको पकड़ लिया, जिसपर सिरिमके नेतृत्वमें कजाकोंने भी जवाब दिया। अगले साल (१७८५ ई०) में दो डिवीजन रूसी सेना यम्बाकी ओर बढ़ी, जिसने २३० औरत बच्चोंको पकड़ लिया, और कजाकोंने मजबूर होकर उनके बदलेमें रूसी बंदियोंको लौटाया। कजाकोंके साथके झगड़ेको मिटानेके लिये १६ आदमियोंकी एक विशेष अदालत बैठाई गई, जिसमें ओरेनबुर्गका सेनापति, दो सरकारी, दो व्यापारी, दो किसान इस प्रकार सात रूसी और एक सुल्तान तथा छ मुखिया—सात कजाक, एक बाश्किर और एक मेशकेरी प्रतिनिधि थे। इस अदालतने शांति स्थापित करनेका प्रयत्न किया। रूसियोंने यह भी देखा, कि लड़ाकू कजाकोंको केवल तलवारके बलपर नहीं दबाया जा सकता, इसलिये १७८५ ई०में ओरेनबुर्ग और त्रोइत्स्कमें कजाकोंके लिये मदरसा, मस्जिदें और कारवांसराय बनानेका हुक्म दिया। रूसियोंके सामने वही समस्या थी, जो कि हिन्दुस्तान छोड़कर जानेतक पश्चिमोत्तर सीमान्तपर अंग्रजोंके सामने।

१७८५ ई०में नये राज्यपाल बैरन इगोल्स्त्रोमने कजाकोंको दबानेके लिये एक नया तरीका इस्तेमाल किया। उसने लघु-ओर्दूके तीन टुकड़े—सेमीरोद्सक, वेउलिन और अलीमुल—करके उनपर अलग-अलग खान नियुक्त किये, और लघु-ओर्दूके खान पदको उठा देना चाहा। साथ ही कजाकोंकी महापरिषद् बुलानेका अधिकार खानके हाथमें न रख सुल्तानों और जेठोंके हाथमें दे दिया। लेकिन इस तरह महापरिषद् बुलानेपर अपमान समझकर कोई कजाक सुल्तान उसमें शामिल नहीं हुआ, तो भी परिषद् जमा हुई, और उसका सभापति डाकू नेता सिरिम बातिर बना, जो कि आनुवंशिक कुलीनताका विरोधी था। उसने जोर देकर कहा—हमें खानकी जरूरत नहीं। कुल नहीं योग्यताको देखना चाहिये। रूसियोंकी अधीनता स्वीकार करना ही हमारी भलाईका एकमात्र रास्ता है। उसने रूसियोंसे मांग की, कि अबुलखैरके वंशको खान-पदसे वंचित कर दो। रूसियोंने आंशिक रूपसे उसकी बात मान भी ली। १७८६ ई०में उसका अच्छा परिणाम भी दिखाई पड़ा, जब कि पहलेकी अपेक्षा अधिक पशु

५. इशिम, नूरअली-पुत्र (१७९४-९७ ई०)

लघु-ओर्दूके अधिकांश जेठे सहमत नहीं थे, तो भी रूसियोंने इशिम सुल्तानको खान बनाया। सिरिम बातिरने एकाएक नवम्बर १७९७ ई०में क्रास्नोयास्कके दुर्गपर आक्रमण करके इशिमको मार डाला और उसकी सम्पत्ति लूट ली। सिरिमके अनुयायी कजाक बराबर ऐसा ही करने लगे, जिसका बदला यायिकके कसाकोंने १७९७ ई० और १७९८ ई० में आक्रमण करके उनके बहुतेरे आदमियोंको मार हजारां घोंड़ोंको लूट कर लिया। कुछ ही समय बाद बाश्किरोंने भी कजाकोंको लूटना-मारना शुरू किया।

६. ऐचुवक, अबुलखैर-पुत्र (१७९७-१८०५ ई०)

इशिमके मारे जानेके बाद लघु-ओर्दूके शासनका भार एक परिषद्के हाथमें दिया गया, जिसका प्रधान ऐचुवकको बनाया गया। इस परिषद्में ओर्दूके प्रत्येक कबीलेके दो-दो प्रतिनिधि थे। इस समय बैरन इगोल्स्ट्रोम फिर राज्यपाल होकर आया था। लघु-ओर्दूकी सरकारका केंद्र खोब्दा नदीपर रखना निश्चित हुआ। ओर्दू इस प्रबंधसे संतुष्ट नहीं था। उन्होंने फिर अपने लिये खानकी मांग की। रूसियोंने ऐचुवकका समर्थन किया, रुपये-पैसोंके बलपर ऐचुवक खान निर्वाचित हो गया और जार पावलने भी स्वीकृतिकी मुहर लगा दी। ऐचुवक बूढ़ा था। वह कजाकोंको काबूमें नहीं रख सकता था। ओर्दूमें अब बिखराव शुरू हुआ। उनमेंसे कुछ कबीले मध्य-ओर्दूमें मिल गये, कुछने सिर नदीके तटपर जा कर कल्पकोंको दबाकर काइप-पुत्र अबुलाजीको अपना खान चुना। कुछने उस्तउर्तके अधिकांश भागपर अधिकार करके वहांसे तुर्कमानोंको भगा दिया। नूरअली-पुत्र बकेइ ऐचुवकके परिषद्का सभापति था। उसने गुर्जी-अस्त्राखानके महाराज्यपाल वनोर्गिके पास प्रार्थनापत्र भेजा, कि हमें कलमकोंद्वारा परित्यक्त भूमि (यायिक-बोलाके बीचके इलाके रिन्पेस्की) में रहनेकी इजाजत दी जाय। उनमें व्यवस्था कायम रखनेके लिये सौ कसाक नियुक्त कर ११ मार्च १८०१ ई०के उकाज (राजादेश) द्वारा सरकारने मंजूरी दे दी। ये कजाक मुख्यतः बाउलिन कबीलेके थे, जिनकी संख्या दस हजार थी। नई भूमिमें आकर वह खूब फलने-फूलने लगे, और सात-आठ सालके भीतर ही उनके पास पहलेसे दस गुना पशु हो गये, जब कि यायिक पारवाले उनके भाई फूट और भूखकी मारसे अपने बच्चोंको रूसियोंके हाथ बेच रहे थे।

१८०५ ई० में बूढ़ापेके कारण ऐचुवकने अपने पदको छोड़ दिया।

७. जन्ती उरा, ऐचुवक-पुत्र (१८०५-९ ई०)

नया खान थोड़े ही समयतक रहा, जिसके बाद नूरअलीके एक पुत्रने उसे कत्ल कर दिया। दो सालतक लघु-ओर्दूका कोई खान नहीं बनाया गया। इसी समय १८१० ई०में ओरेनबुर्ग प्रदेशके इलेत्स्क इलाकेमें—जहांपर कि नमककी बड़ी अच्छी खाने थीं—लाकर बहुत भारी संख्यामें रूसी बसा दिये गये। कजाकोंके बीचमें रूसियोंकी बस्तियोंको बसा-बसाकर जारशाही अपने शासनको दृढ़ करती थी, यह हम प्रशान्त महासागरतक फैली हुई रूसी बस्तियोंसे जानते हैं। इस बातमें उनकी नीति, भारतमें अंग्रेजोंसे भिन्न थी। अंग्रेज हिन्दुस्तानमें केवल अपने शासकों, सैनिकों और कुछ व्यापारियोंको रखकर शासन और शोषण जारी रखना चाहते थे, जब कि रूसी अपने अधीन पूर्वी देशोंमें भारी संख्यामें रूसी किसानों और मजदूरोंको लाकर बसाते जाते थे।

८. शेरगाजी, ऐचुवक-पुत्र (१८१२-४४ ई०)

भाईकी जगहपर शेरगाजी लघु-ओर्दूका खान बना। इसी समय यायिक और बोलाके बीचमें बसे बुकेई-कबीलेका भी एक खान बुकेई था। १८२४ ई०में उसके मर जानेपर बुकेईके ज्येष्ठ पुत्र जहांगीरको खान नियुक्त किया गया। शेरगाजीके ओर्दूके भी तीन टुकड़े हो गये थे, जिनपर

तीन सुल्तान शासन करते थे। किर्गिज लोगोंमें अपने राजवंशके प्रति बहुत सम्मान था, और वह काली हड्डीवाले (साधारण जनता) सफेद हड्डी (पुराने राजवंश) के जूथेको बड़ी खुशीसे उठानेके लिये तैयार थे।

अब कास्पियनके पूर्वी तटपर भी रूसने हाथ-पैर फैलाना शुरू किया था। १८३३ ई०में वहां उन्होंने नवोअलेक्सान्द्रोव्स्की, फिर मंगुश्लक (मंगिश्लक) किलोंको बनाया। १८३५ ई०में यायिक (उराल) और उई नदियोंके बीचमें एक नई दुर्ग-पंक्ति बनाई, और इसके बीचमें पड़नेवाली भूमि ओरेनबुर्गके कसाकोंके इलाकेमें मिला दी गई। कुछ ही साल बाद मध्य-ओर्दूके प्रसिद्ध खान केनीसर कासिमोफने साइबेरियाके कजाकोंमें भारी विद्रोह फैलाया, और लघु-ओर्दूके भी कुछ कजाक विद्रोहियोंमें जा मिले। इस विद्रोहने छ सालतक रूसी सरकारको परेशान रक्खा। १८४४ ई०में रूसी सेनाने कासिमोफका पीछा करके उसे बुरुतों (करा-किर्गिजों)में भागनेके लिये मजबूर किया, जहां उनसे लड़ते हुये कासिमोफ मारा गया। इस विद्रोहके दबानेके प्रयत्नके फलस्वरूप तुरगाई नदीपर ओरेनबुर्ग-किर्गिजपर उरालके किले १८४७ ई०में बने। अगले साल कराबुलात-तटपर उसी नामका एक रूसी किला बनाया गया। रूसी सीमाके भीतर रहनेवाले कजाकोंपर खोकन्दी और खीवावाले लूट-मार किया करते थे, जिसके प्रतिरोधके लिये रूसियोंने १८४७ ई०में ही निम्न-सिरपर अरालस्क (भूतपूर्व राइम्स्क)का किला बनाया। इस प्रकार रूस कदम-कदम आगे बढ़ता जा रहा था, फिर भला कजाकोंके भीतर शांति कैसे कायम हो सकती थी? जबतक इजत कुतेबेरोफको भगा नहीं दिया गया, और प्रसिद्ध बातिर जान खोजा मारा नहीं गया, तबतक दस्त (स्तेपी)में रूसियों और कजाकोंका संघर्ष जारी रहा, फिर कजाक पूरीतौरसे रूसियोंके संरक्षणमें आ गये।

१८६९ ई०में ओरेनबुर्गके दस्तमें नया शासन-सुधार हुआ, जिसके अनुसार सारे लघु-ओर्दूको उरालस्क और तुरगाई दो जिलोंमें बांट दिया गया। हरएक जिलेमें एक रूसी सैनिक कमांडर रहता था, जिसके अधीन कजाकोंद्वारा निर्वाचित कुछ औल-जेठे (डेरके मुखिया) शासन-प्रबंधमें सहायता देते थे। कजाकोंमें इसका भारी असंतोष था, कि उनके ऊपर रूसी कसाक शासन करनेके लिये नियुक्त किये गये हैं। खीवाके खान कजाकोंके खान-वंशके ही होते थे और उनका रूसियोंसे अच्छा संबंध नहीं था। खीवाके खानने कजाकोंके असंतोषसे फायदा उठाकर उन्हें भड़काया, जिसके कारण १८६९-७० ई०में सारे दस्तमें विद्रोहकी आग भड़क उठी, डाकके रास्ते बंद हो गये। कजाकोंने डाककी चौकियोंको नष्ट कर दिया, मुसाफिरोंमेंसे पकड़कर कुछको मार दिया और कुछको दास बनाकर बेंच दिया। इसके लिये रूसियोंने घोर दमन किया, और कबीलोंको जबर्दस्ती जहां-तहां भेज दिया। लेखक श्माइलर १८७३ ई०में तुर्किस्तानमें कजाक राजुल छिङ्ग-गिस्के साथ रहा, जो कि बुकेइयेफ ओर्दूके अन्तिम खानका पुत्र था। पिताके मरनेपर जारने उसे राजुलकी रूसी उपाधि प्रदान की थी, लेकिन वह पक्का मुसलमान था, और हाल हीमें मक्कासे लौटकर आया था। समारा जिलेमें उसे जमींदारी मिली थी। श्माइलरके अनुसार वह बड़ा ही संस्कृत, भद्र पुरुष था। उसका अधिक समय फ्रेंच उपन्यासोंके पढ़नेमें लगता था। लघु-ओर्दू १९वीं सदीके चतुर्थ पादतक पहुंचते-पहुंचते अपने स्वभावमें कितना परिवर्तन कर चुका था, इसका उदाहरण यह राजुल था। लेकिन यह परिवर्तन अमीरों और राजवंशियोंतक हीमें सीमित था, अभी साधारण कजाक-जनता बहुत-कुछ पुरानी दुनियामें रहनेकी कोशिश कर रही थी, और बोल्शेविक क्रांतिके बाद ही उसमें वास्तविक सामाजिक क्रांति हुई।

ग. महा-ओर्दू (१७४०-६० ई०)

मध्य-ओर्दू और लघु-ओर्दू रूसी सीमांतके पास रहते थे, इसलिये उनका संबंध बहुत पहले ही से रूसियोंके साथ हो गया था, लेकिन महा-ओर्दू बहुत दूर रहता था, इसीलिये रूसियोंके साथ संबंध बहुत कम रहनेके कारण उनके इतिहासके बारेमें भी हमें बहुत अधिक मालूम नहीं है। महा-ओर्दूके कई कबीले थे, जो अपने अलग-अलग सुल्तान, बेग या खानके अधीन रहते थे। यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि सारे कजाक-ओर्दूओंकी तरह यहांपर भी छिङ्ग-गिस् खानके खूनसे संबंध रखनेवाले ही शासकके तौरपर पसंद किये जाते। महा-ओर्दू पहले जुंगरोंके अधीन था, पीछे उन्होंने चीनियोंकी

३. (८. कजाक लघु-ओर्दू-वंशवृक्ष)

(१७१८—१८१८ ई०) जानीबेग

उजियक

बोलियकइ

एचुवक

इरिश

१. अदिया (—१७१७)

२. अबुल्खैर (१७१७-४९)

३. नूरअली (१७४९-९०) ४. एरली (१७९०-९४) ६. ऐचुवक (१७९७-१८०५)

५. इशिम (१७९४-९७)

७. जन्तिउरा (१८०५-९)

८. शेर्गाजी (१८१२)

अधीनता स्वीकार की। यद्यपि नाम महा-ओर्दू था, लेकिन संख्या और प्रभाव दोनोंमें यह श्वेत-ओर्दूके मध्य और लघु-ओर्दूसे निर्बल था। तौफीक (तियाअवका) खानने श्वेत-ओर्दूको तीन हिस्सोंमें बांटकर तिउलको महा-ओर्दूका शासक नियुक्त किया था। १७२३ ई०में जब जुंगरोंने कजाकोंकी भूमि और तुकिस्तान शहरको ले महा-ओर्दू और मध्य-ओर्दूके कितने ही कबीलोंको अपने अधीन किया, तो बाकी बचा हुआ महाओर्दू और मध्य-ओर्दूका कुछ भाग खोजन्दकी ओर चला गया। पीछे कितने ही कजाक उत्तरकी ओर चले गये, लेकिन महा-ओर्दूवाले जुंगरोंकी प्रजा बनकर अपने पुराने देशमें बने रहे। महा-ओर्दूके निम्न खानोंका पता है :—

१. यलबर्स, इलबर्स

१७४० ई०

२. तिउल बी

१७४०—ई०

३. कुसियन बी

१७४२—ई०

१. एलबर्स (—१७४० ई०)

१७३८ ई०में महा-ओर्दूके खान एलबर्सने रूसियोंसे उनकी प्रजा बनकर व्यापार करने की इजाजत मांगी, जब कि मालूम हुआ, कि ओरी नदीपर किलाबंद नगर बन गया है, और मध्य तथा लघु-ओर्दूके लोग व्यापार करके बड़े मौजमें रह रहे हैं। एलबर्स इस प्रकार ओरेनबुर्गके साथ व्यापार करनेके लाभको देखकर ही रूसी प्रजा बननेके लिये तैयार हुआ। पीछे राजादेश तैयार हो ओरेनबुर्गके अभिलेख-गृहमें आकर यों ही पड़ा रहा। इसी समय जुंगर-राजा गन्दनने महा-ओर्दूके प्रत्येक कजाकपर एक छाल कर लगाया। १७३९ ई०में मूलरके नेतृत्वमें एक रूसी कारवां जा रहा था, जिसे महा-ओर्दूके कजाकोंने लूटा। मूलरने ९ नवम्बर १७३९ ई०को ताशकन्द पहुंचकर एलबर्ससे इसकी शिकायत की, और लूटे मालको लौटानेके लिये कहा। खानने जवाब दिया—“मैंने दुर्घटनाकी खबर पहले ही सुनी थी, अल्लाका शुक करो, जो कि जिन्दा बच गये। मैंने गिरोहके नेता कोगिलदेसे माल लौटानेके लिये कहा है, और माल न लौटानेपर उसे दंड देनेकी धमकी दी है। लेकिन मुझे मालके लौटानेकी बहुत कम आशा है।” उस समय ताशकन्दका शासक सईद सुल्तान था, लेकिन कजाक और उनका खान करीब-करीब स्थायी तौरसे ताशकन्दके इलाकेमें डेरा डाले ताशकन्दियोंको मनमाना लूटा करते थे। मूलरके

कारवांके प्रस्थान करनेके चौथे अप्रैल १७४० ई०में दिन सरत नागरिकोंने एलबर्सको पकड़कर मार डाला, जिसका बदला कजाकोंने शहरको लूटकर लिया। एलबर्सके मरनेके बाद उसका साथी तिउल बी सारे ओर्दूका शासक बना।

२. तिउल बी (१७४०-ई०)

तिउल बीको शायद तौफीक खानने नियुक्त किया था। उसे अधिक दिनोंतक शासन करनेका मौका नहीं मिला, और उसे भगाकर गन्दन कुसियन बी छेरिङ्ग की ओरसे शासन करने लगा। १७३९ ई०में तिउल बीने रूसियोंकी अधीनता स्वीकार करके अपने खोये अधिकारको प्राप्त करनेका असफल प्रयत्न किया।

३. कुसियन बी, कुसियक बी (-१७४२-ई०)

१७४२ ई०में कुसियन बी अब जुंगरोंके राज्यपालके तौरपर ताशकन्दपर शासन कर रहा था। इस समय यद्यपि कजाकोंकी राजनीतिक प्रधानता नहीं थी, लेकिन शहरके चारों ओर जिस तरह वह डेरा डाले पड़े थे, उससे जान पड़ता था, कि मानो नगरका मुहासिरा किये हुये हैं और किसी वक्त भी टूट पड़नेके लिये तैयार हैं। तुर्किस्तान शहरकी भी हालत कुछ समयतक ऐसी ही रही, लेकिन जुंगरोंकी शक्ति इतनी मजबूत थी, कि वह उनके व्यापारमें कोई बाधा नहीं डालते थे। तुर्किस्तान और ताशकन्द नगरोंके बीचके दीहाती इलाकेपर महा-ओर्दूके कजाकोंका स्थायी अधिकार था। जुंगरोंके दबानेपर कजाक भागकर फरगानामें चले गये, जहां वह वहांके पुराने बाशिन्दोंपर प्रभुत्व जमाने लगे, यद्यपि उन्हें बराबर जुंगरोंका भय बना रहता था। जुंगरोंके अंतिम संघर्षके समय कजाकोंने भी हाथ साफ किया और अमुरसनाके विद्रोह करनेपर ये भी उसके पक्षमें रहे। १७५६-५७ ई०में जुंगर-राज्यके पतनके बाद कजाकोंकी बन आई, और वह जुंगरोंकी छोड़ी हुई भूमि सप्तनदमें चले गये। चीनियोंने १७५८ ई०में ताशकन्द लेकर जुंगरोंकी भूमिमें कजाकोंके बसनेके लिये प्रोत्साहन दिया।

इस समयतक महा-ओर्दूके कई टुकड़े हो चुके थे, इनमेंसे जो जुंगारिया लौटे, उनमेंसे कुछ चीन की प्रजा बने हुये थे, और कुछ चीनके विरोधी। दोनों पक्षोंमें बराबर लड़ाई होती रहती थी, फिर इनके पड़ोसी बुरुत (करा-किगिज) भी इन्हें चैनसे रहने देना नहीं चाहते थे। १७७१ ई०में जब तोर्गुत बोल्गा छोड़कर पूर्वकी ओर भाग रहे थे, उस समय अपने दूसरे कजाक भाइयोंकी तरह इन्होंने भी उन्हें खूब लूटा। एरली सुल्तानने तोर्गुत थैची उबासा (उपासक)को बहुत तंग किया, और इनके कारण उसे अठारह दिनतक एक जगह डेरा डालके पड़ा रहना पड़ा। इसी बीच एरलीने कल्मकोंके धन और सुंदर स्त्रियोंका लोभ देकर भारी संख्यामें जहादी जमाकर उन्हें चढ़ाया। कजाकोंकी शक्तिको देखकर उबासा डर गया। एरलीने उन्हें इली-उपत्यकामें चले जानेकी इजाजत दी। तोर्गुत जब निश्चित हो किसी जगह डेरा डाले हुये थे, उसी समय एरलीने आक्रमण करके भारी संख्यामें मंगोलोंकी निर्मम हत्या की, और कजाक बहुतसा लूटका माल और स्त्री-बच्चे पकड़ ले गये।

ताशकन्द इलाकेमें कुछ कजाक अब स्थायी तौरसे रहने लगे थे, ताशकन्द-शहर को उनकी दयाका भिखारी था। वह पास-पड़ोसके लोगोंको भी लूटते-उजाड़ते थे, जिसके कारण उन्हीं प्रजा न होनेपर भी वहांके लोग कर देनेके लिये मजबूर थे। १७६० ई०में लघु-ओर्दूद्वारा सिर नदीके मुहानेसे भगाया कराकल्पकोंका एक समूह इनके साथ आ मिला। सालों अत्याचार बर्दाश्त करते-करते १७९८ ई०में ताशकन्दके नागरिक अपने शासक यूनस खोजाके अधीन उठ खड़े हुये, और उन्होंने कजाकोंसे घोर बदला लिया—कजाकोंके सामने उनके भाइयोंका शिर काटकर मीनार (स्तूप) बनवाया। यूनस खानने उन्हें पूरी तौरसे दबाकर ताशकन्दकी क्षतिपूर्तिको भी भरनेके लिये मजबूर किया। हर सौ भेड़ पर एक भेड़ कर वसूलकर उन्हें सेनामें भर्ती होनेके लिये भी मजबूर किया। १८१४ ई०में जब ताशकन्द खोकन्दके खानके हाथमें चला गया, तो ये कजाक भी खोकन्दकी प्रजा हो गये, लेकिन चिमकन्दके पास रहनेवाले कजाकोंमेंसे कितनों हीने अपने घरों और बागोंको छोड़कर चीनी सीमाके भीतर जाना पसंद किया। कुछ अपने स्थायी निवासके जीवनको न पसंदकर मध्य-ओर्दूके पास इतिहास-तटपर चले

गये, और कुछ अकताग पहाड़की ओर। उनका एक भाग कितने ही समयतक सेमेरेक (सप्तनद), कुस्मू, और करातालके इलाकोंमें स्वतंत्र विचरता रह १८१९ ई०में रूसके अधीन बना। इस समय उनका शासक मध्य-ओर्दूके खान अबलइका पुत्र सिउक था, जिसकी राजधानी अल्माअता थी, इसे रूसियोंने वेर्नोय (शब्दा) नाम दिया था—जो बोलशेविक क्रांतिके बाद फिर अल्माअता बन आजकल कजाकिस्तान गणराज्यकी राजधानी तथा एक समृद्ध नगरी है। सिउक सुल्तान महा-ओर्दूके सबसे बड़े कबीले दोगलत (दूलत) का शासक था। रूसी उसे ३५० रूबल पेन्शन देते थे। रूसी अफसर वेनीउ-कोफने एक बार सुल्तानसे कहा—“मैं नहीं समझता, तुम्हारे लोग तुम्हें अपना शासक पाकर खुश हैं?” इसपर बूढ़ेने जवाब दिया—“ऐसा मत कहो, मैं तो पादिशाह (जार)की आज्ञाके अनुसार अपने लोगोंपर शासन करता हूँ, अल्ला जारकी रक्षा करे।”

रूसी अफसरने फिर कहा—“तुम बड़े तम्र हो सुल्तान ? हम सभी सम्राट् (जार)की इच्छाका अनुसरण करना चाहते हैं, और वेर्नोयके हर एक आदमीको बैसा करना चाहिये, लेकिन सुल्तान तुम्हारा ओर्दू तुम्हारी बात मानता है ; इसलिये उनका बादशाहका भक्त होना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है।”

“मेरे लोगोंको बादशाहका हुक्म मानना छोड़कर और कुछ नहीं करना चाहिये। जिन्हें बादशाहने हमारे ऊपर नियुक्त किया है, वह उनकी आज्ञा मानते हैं। हम यहां दो हाथोंकी तरह साथ-साथ रहते हैं—तुम रूसी लोग दाहिने हाथ हो, हम बायें, और राज्यपाल प्रिस्तोफ हमारा सिर है। यह बुरा होगा, यदि बायां हाथ दाहिनेकी आज्ञा नहीं माने, या दोनों ही सिरके कहेको न मानें।”

महा-ओर्दूके कुछ कजाक-परिवार रानी एकातेरिनाके उंकाजे (राजादेश)के अनुसार अपने सुल्तान चुरिगोइके साथ चार हजार परिवारोंको ले १७८९ ई०में उस्तकामेन्नोगोर्कमें बस गये, और १७९३ ई०में महा-ओर्दूके कितने ही कजाक अपने सुल्तान तुगुमके साथ साइबेरियाके सीमांतपर जा बसे। कजाकोंको अपनी ओर खींचनेके लिए चीनी नाममात्रका कर लगाते थे। भेड़ोंपर प्रति-हजार एक और ढोरोंपर प्रतिशत एक कर लेते थे। कजाक कितनी ही बार पेकिङ्ग जाते, और उन्हें सम्राट्-की ओरसे बहुत-बहुत इनाम मिलते। रूसी भी उनको अपनी ओर खींचना चाहते थे। कजाक अब भी अपने अक्खड़पनको छोड़नेके लिये तैयार नहीं थे। सीमांतपर कर मांगनेपर एक चीनी अफसरको एक कजाकने कहा था—“घास और पानी अल्लाने बनाये हैं, और पशु उसीका दान है। हम उनकी चरवाही करते हैं, फिर हम क्यों किसीको कर दें ?”

लेकिन कजाक बहुत दिनोंतक अपना अक्खड़पन नहीं चला सकते थे। रूसी गोले-गोलियोंके सामने उन्हें सिर नवाना ही पड़ा। अबलइ-जैसे साहित्य और संस्कृतिके नेताओंने रूसियोंसे सीखकर अपनी कजाक जातिमें प्रकाश फैलानेकी कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता १९१८ ई०के बाद ही हुई, जब कि बोलशेविक क्रांतिने उन्हें समानताका अधिकार दे नये भविष्यके निर्माणमें हाथ बंटानेके लिये निमंत्रित किया।

स्रोत ग्रन्थ

१. History of Mongol (H. H. Howorth) *
२. Medieval Researches from Eastern Asiatic Sources
(E. Bretschneider, London 1888)

भाग ४

दक्षिणापथ

जारशाहीका अन्तिम प्रसार

(१८०१-१९१७ ई०)

पावल I के शासनके बारेमें कहते हुये हम बतला चुके हैं, कि १८ वीं सदीके अन्तमें रूस अब यूरोपकी एक सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। पावलकी हत्याके बाद उसका लड़का अलेक्सान्द्र गद्दीपर बैठा।

१. अलेक्सान्द्र I, पावल I-पुत्र (१८०१-२५ ई०)

अलेक्सान्द्र अपनी दादी एकातेरिना II की देख-रेखमें यूरोपीय शिक्षा-दीक्षामें पला था। एकातेरिनाने एक गणतंत्री स्विस-विद्वान् लहार्पको अलेक्सान्द्रका अध्यापक नियुक्त किया था, जो उसके साथ गणतंत्रताकी बातें किया करता था। उधर प्रुशिया (जर्मनी) की सैनिक-कला उसके खूनमें थी। पीतर-वंशके समाप्त होनेपर जर्मनीसे लाकर जो जार और उनकी संतानें रूसी सिंहासन पर बैठाये गये थे, वह अपने जर्मन होनेका अभिमान करते रूसियोंको हीन दृष्टिसे देखते थे। अलेक्सान्द्रकी घनिष्ठता जेनरल अरक्चेयेफसे भी पहले ही स्थापित हो गई थी, जो कि किसानोंकी अर्ध-दासताका जबर्दस्त पक्षपाती था। नये जारके बारेमें लोगोंका कहना था—“वह आधा स्वटजलैंडका नागरिक और आधा प्रुशियाका जमादार है।” लेकिन अरक्चेयेफ जैसे अर्ध-दासताके पक्षपाती चाहे कितना ही चीखें-चिल्लाये, १९ वीं सदीके आरम्भके साथ रूसमें पूंजीवादका प्रभाव और कारखानोंका विस्तार जोरसे होने लगा, जिससे खेतीके अर्ध-दासोंकी नहीं, बल्कि कारखानोंके मजदूरोंकी अवश्यकता बढ़ी। व्यापारने नदियों और समुद्रोंके सस्ते जलपथोंके महत्त्वको बतलाया, जिसके लिये कृत्रिम जलपथोंके बनानेकी ओर ध्यान जाना जरूरी था। १८०३ ई०में उत्तरी-एकातेरिना-नहर बनाकर कामा और उत्तरी द्वीना नदियोंको मिला दिया गया। अब उत्तरी द्वीनासे नौकायें वोल्गामें आने-जाने लगीं। १८०४ ई०में ओगिन्स्की नहर बनाई गई, जिसने बाल्तिक और काला सागरको मिला दिया। अलेक्सान्द्रके शासनकालके प्रथम दस वर्षोंमें मारीइन्स्क और तिखविन्की नहर-प्रणाली बनकर तैयार हो गई, जिनके द्वारा रूसके भीतरी भागोंका संबंध बाल्तिक समुद्रसे हो गया। नहरोंके साथ-साथ व्यापारके सुभितके लिये बैंकोंकी भी स्थापना होने लगी। १७८६ ई०में पीतरबुर्गमें राजकीय ऋण-बैंक स्थापित हुआ था। इससे सरकार और जमींदारोंको फायदा था। १८०७ ई०में मास्कोमें व्यापारिक बैंककी स्थापना हुई। अब मास्को, आखगिल्क, तगनरोग और फयोदोसिया (क्रिभिया) में कितने ही बैंक-केंद्र स्थापित हो गये। मालकी मांग अधिक होनेसे उद्योग-धन्धोंको बढ़नेका मौका मिला। १८०४ ई०में चुकंदरकी चीनीके सात कारखाने काम कर रहे थे, जब कि १८१२ ई०में उनकी संख्या तीस हो गई। १८०८ ई०में पहली सूती कताई मिल स्थापित हुई। १८१२ ई०में जितने कारखाने चल रहे थे, उनमेंसे बासठ प्रतिशत व्यापारियोंके थे, और केवल सोलह प्रतिशत के स्वामी जमींदार थे। इस प्रकार अब औद्योगिक पूंजीवाद रूसमें पैर बढ़ाता जा रहा था।

शासन-सुधार—१८वीं सदीके अन्तमें फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी, जिसके प्रभावको दवानेके लिये जार पावलने बड़ी कोशिश की थी। उसके पुत्रको मालूम हो गया था, कि शासनमें बिना सुधार किये क्रांतिको रोका नहीं जा सकता। जब अलेक्सान्द्र अभी युवराज ही था, तभी उसने

जारशाहीका अन्तिम प्रसार

(१८०१-१९१७ ई०)

पावल I के शासनके बारेमें कहते हुये हम बतला चुके हैं, कि १८ वीं सदीके अन्तमें रूस अब युरोपकी एक सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। पावलकी हत्याके बाद उसका लड़का अलेक्सान्द्र गद्दीपर बैठा।

१. अलेक्सान्द्र I, पावल I-पुत्र (१८०१-२५ ई०)

अलेक्सान्द्र अपनी दादी एकातेरिना II की देख-रेखमें युरोपीय शिक्षा-दीक्षामें पला था। एकातेरिनाने एक गणतंत्री स्विस-विद्वान् लहार्पको अलेक्सान्द्रका अध्यापक नियुक्त किया था, जो उसके साथ गणतंत्रताकी बातें किया करता था। उधर प्रुशिया (जर्मनी) की सैनिक-कला उसके खूनमें थी। पीतर-वंशके समाप्त होनेपर जर्मनीसे लाकर जो जार और उनकी संतानें रूसी सिंहासन पर बैठाये गये थे, वह अपने जर्मन होनेका अभिमान करते रूसियोंको हीन दृष्टिसे देखते थे। अलेक्सान्द्रकी घनिष्ठता जेनरल अरक्चेयेफसे भी पहले ही स्थापित हो गई थी, जो कि किसानोंकी अर्ध-दासताका जबरदस्त पक्षपाती था। नये जारके बारेमें लोगोंका कहना था—“वह आधा स्विट्जलैंडका नागरिक और आधा प्रुशियाका जमादार है।” लेकिन अरक्चेयेफ जैसे अर्ध-दासताके पक्षपाती चाहे कितना ही चीखें-चिल्लाये, १९ वीं सदीके आरम्भके साथ रूसमें पूंजीवादका प्रभाव और कारखानोंका विस्तार जोरसे होने लगा, जिससे खेतीके अर्ध-दासोंकी नहीं, बल्कि कारखानोंके मजदूरोंकी अवश्यकता बढ़ी। व्यापारने नदियों और समुद्रोंके सस्ते जलपथोंके महत्त्वको बतलाया, जिसके लिये कृत्रिम जलपथोंके बनानेकी ओर ध्यान जाना जरूरी था। १८०३ ई०में उत्तरी-एकातेरिना-नहर बनाकर कामा और उत्तरी द्वीना नदियोंको मिला दिया गया। अब उत्तरी द्वीनासे नौकायें बोल्गामें आने-जाने लगीं। १८०४ ई०में ओगिन्स्की नहर बनाई गई, जिसने बाल्तिक और काला सागरको मिला दिया। अलेक्सान्द्रके शासनकालके प्रथम दस वर्षोंमें मारीइन्स्क और तिखविन्की नहर-प्रणाली बनकर तैयार हो गई, जिनके द्वारा रूसके भीतरी भागोंका संबंध बाल्तिक समुद्रसे हो गया। नहरोंके साथ-साथ व्यापारके सुभीतेके लिये बंकोंकी भी स्थापना होने लगी। १७८६ ई०में पीतरबुर्गमें राजकीय ऋण-बैंक स्थापित हुआ था। इससे सरकार और जमींदारोंको फायदा था। १८०७ ई०में मास्कोमें व्यापारिक बैंककी स्थापना हुई। अब मास्को, आर्खंगिल्स्क, तगनरोग और प्योदोसिया (क्रिमिया) में कितने ही बैंक-केंद्र स्थापित हो गये। सालकी मांग अधिक होनेसे उद्योग-धंधोंको बढ़नेका मौका मिला। १८०४ ई०में चुकंदरकी चीनीके सात कारखाने काम कर रहे थे, जब कि १८१२ ई०में उनकी संख्या तीस हो गई। १८०८ ई० में पहली सूती कताई मिल स्थापित हुई। १८१२ ई०में जितने कारखाने चल रहे थे, उनमेंसे बासठ प्रतिशत व्यापारियोंके थे, और केवल सोलह प्रतिशत के स्वामी जमींदार थे। इस प्रकार अब औद्योगिक पूंजीवाद रूसमें पैर बढ़ाता जा रहा था।

शासन-सुधार—१८वीं सदीके अन्तमें फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी, जिसके प्रभावको दबानेके लिये जार पावलने बड़ी कोशिश की थी। उसके पुत्रको मालूम हो गया था, कि शासनमें बिना सुधार किये क्रांतिको रोका नहीं जा सकता। जब अलेक्सान्द्र अभी युवराज ही था, तभी उसने

लाहार्पको एक पत्रमें लिखा था—“देशको स्वतंत्रता दूंगा, और इस प्रकार मैं उसे पागलोंके हाथका खिलौना नहीं बनने दूंगा।” गद्दीपर बैठते ही अलेक्सान्द्रने घोषित किया, कि मैं अपनी दादी एकातेरिना II के विधानों और उसके भावोंके अनुसार शासन करूंगा। उसने जो सुधार किये, उनके द्वारा दो सौमेंसे एक किसान अर्ध-दासको फायदा हुआ। इन अर्ध-दासोंको मुक्ति पानेके लिये पांच हजार रूबल जमींदारको क्षति-पूर्ति देनी थी। भला इतना पैसा गरीब किसान कहाँसे लाते ?

अलेक्सान्द्रके सुधारोंमेंसे एक था १८०२ ई०में आठ मंत्रालयोंकी स्थापना। इसके पहले एकातेरिनाके शासकीय विभाग काम कर रहे थे। शिक्षाकी ओर भी नये जारने कुछ ध्यान दिया। १९ वीं सदीके आरम्भमें मास्को और दोरपतमें दो विश्वविद्यालय मौजूद थे, १८०५ ई०में खरकोफ और कजानमें नये विश्वविद्यालय स्थापित हुये, और १८१९ ई०में पहलेसे मौजूद केन्द्रीय-शिक्षण-प्रतिष्ठानको फिरसे संगठित करके पंतरवुर्ग (लेनिनग्राद) विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इसी समय शिक्षा-मंत्रालयकी स्थापना हुई। लेकिन साथ ही अलेक्सान्द्र शिक्षाके खतरेको भी समझता था, इसीलिये मुद्रणपर अंकुश रखनेके लिये पुस्तकोंको छापनेसे पहले उनके हस्तलेख सेंसर को दिखला लेनेका नियम बनाया।

नेपोलियनसे युद्ध (१८०५-७ ई०)—अलेक्सान्द्र उस समय जार हुआ, जब कि १७९२-९३ ई०की फ्रेंच-क्रांति समाप्त हो गई थी, और उसके बाद नेपोलियनने मौकेसे फायदा उठाकर अपनी विजय-यात्रा शुरू कर दी थी। वाणिज्य और बाजारके संबंधमें इंग्लैंड और फ्रांसकी उस समय बड़ी प्रतिद्वंद्विता थी, जिसका प्रभाव तत्कालीन भारतमें भी देखा जा सकता था। रूसका व्यापार अधिकतर इंग्लैंडके साथ था, इसलिये अलेक्सान्द्रने गद्दी संभालते ही इंग्लैंडसे मित्रताकी संधि कर ली, और बापके समयसे जो अंग्रेजी जहाज रोक रक्खे गये थे, उन्हें मुक्त कर दिया। लेकिन नेपोलियनकी शक्ति उस वक्त बहुत जबरदस्त थी। यदि बीचमें ब्रिटिश चैनलकी खाड़ी न होती, तो नेपोलियनके चंगुलसे इंग्लैंड नहीं बच सकता था। इसपर भी १८०२ ई०में आमिनकी संधिद्वारा इंग्लैंडने नेपोलियनसे त्राण पानेकी कोशिश की। लेकिन यह मित्रता या युद्धविराम अधिक समयतक नहीं टिक सकेगा, यह इंग्लैंड भी जानता था, इसलिये उसने आस्ट्रिया, रूस और स्वीडनसे शत्रुके खिलाफ सैनिक मित्रताकी संधि कर ली। इंग्लैंडको भारत-जैसी धनकी खान और दुनियाका व्यापार मिला था, इसलिये चांदीके भरोसे वह अपनी युद्ध लड़नेके लिये दूसरोंको तैयार कर रहा था, जैसे कि, आजकलका अमेरिका। इंग्लैंड और रूसकी इस संधिका एक मतलब यह भी था, कि नेपोलियनको हराकर फ्रांसके पुराने राजवंश बूरबों को फिर गद्दीनशीन किया जाय, और सामन्तवादियोंके शासनको फिरसे स्थापित करके पूंजावादियोंकी सफलताको खतम किया जाय।

अगस्त १८०५ ई० में रूसी सेनापति कतुजोफकी अधीनतामें एक बड़ी सेना युरोपमें नेपोलियनके विरुद्ध भेजी गई। उस समय नेपोलियन अपनी डेढ़ लाख सेनाके साथ इंग्लैंडपर आक्रमण करनेके लिये तैयार था। कतुजोफ जिस वक्त जर्मनी (बवेरिया) के नगर ब्रौनौमें पहुंचा, तो मालूम हुआ, कि आस्ट्रियाकी मुख्य सेनाने हथियार रख दिये हैं। नेपोलियनकी विशाल सेनाके पांचवें ही भागके बराबर कतुजोफकी सेना थी, इसलिये लौटनेके सिवा उसके लिये और कोई चारा नहीं था। लौटनेमें भी जो कौशल रूसी सेनापतियोंने दिखाया, वह अद्वितीय था। रूसी सेनापति बगरातियोंके पास छ हजार सेना थी, जिसे तीस हजार फ्रेंच सैनिकोंने शोनग्रावेनमें घेर रक्खा था। बगरातियोंका सेना बड़ी बहादुरीसे लड़ी और फ्रेंच-संघर्ष तोड़कर निकलनेमें सफल हुई। इस वीरताके उपलक्षमें उन सारे सैनिकोंके “पांचके प्रति एक”के अभिलेखके साथ बांहोंपर फीता प्रदान किया गया। सबसे बड़ी लड़ाई ऑस्ट्रालज़ (बोहीमिया) में २ दिसम्बर १८०६ ई० को हुई, जिसमें एक ओर नेपोलियनकी नब्बे हजार सेना थी, और दूसरी ओर रूस और आस्ट्रिया १६ छियास हजार। सेनापति इस समय ओर स्थानको युद्धके लिये उचित नहीं समझते थे, लेकिन आस्ट्रियाके सम्राट् फ्रांसिस I ने तुरंत युद्ध आरम्भ करनेके लिये जोर दिया। २ दिसम्बर १८०५ ई० को सबेरे कुहरा पड़ रहा था, जब कि रूसी फौजोंने फ्रेंच सेनाके दाहिने पक्षपर असफल आक्रमण किया। रूसी और आस्ट्रियन सेनायें दूर तक बिखरी हुई थीं, इसलिये नेपोलियनके प्रत्याक्रमणको वह बर्दाश्त नहीं कर सकीं, तो भी रूसी

सैनिकोंने लड़ाईमें जो बहादुरी दिखाई थी, उसके बारेमें नेपोलियनने खुद कहा—“ऑस्ट्रिज (चेकोस्लावाकिया) में रूसियोंने जैसा भारी पराक्रम दिखलाया, वैसा मेरे विरुद्ध दूसरे किसी युद्धमें नहीं दिखलाया गया।”

१८०६ ई० के शरदमें अलेक्सांद्रने अपने मित्र प्रुशिया (जर्मनी) की महायुताके लिये सेना भेजी, लेकिन नेपोलियनने येनामें आक्रमण करके प्रुशियन सेनाको तितर-बितर कर दिया। बर्लिनने बिना लड़ाईके ही अपनेको नेपोलियनके हाथमें समर्पित कर दिया, और १८०६-८ ई० में दो वर्षों तक वह नेपोलियनके सैनिकोंके हाथ में रही। जनवरी १८०७ ई० में नेपोलियन बरमावा (पोलैंड) में दाखिल हुआ। रूसी-सेनाको भी उसने दो जगह जबर्दस्त हार दी, जिसमें १८०७ ई० के ग्रीष्ममें फ्रीडलैंडकी लड़ाईमें रूसी सेनाका पंचमांश नष्ट हो गया। जून १८०७ ई० में जारके वास्ते इसके सिवा कोई चारा नहीं था, कि नेपोलियनकी विजय और उसके सम्राट् पदको तिलजितकी मंघिटारा स्वीकार करे।

नेपोलियन चाहता था, कि इंगलैंड यूरोपकी दूसरी शक्तियोंसे सहायता न पा सके। इसके लिये उसने दूसरे देशोंका इंगलैंडके साथ व्यापार करना मना कर दिया। रूस तकने नेपोलियनकी निषेध-आज्ञाको मानते हुये इंगलैंडको अपना अनाज भोजना बंद कर दिया, लेकिन इससे इंगलैंडको नहीं, बल्कि स्वयं रूसके बड़े जमींदारोंको अनाजके न विकने या सस्ता हो जानेसे भारी क्षति उठानी पड़ रही थी, जिससे रूसमें आर्थिक संकट पदा हो गया। तो भी रूस नेपोलियनको नाराज करनेकी हिम्मत कैसे कर सकता था ?

इसी बीच (१८०८-९ ई०) रूस और स्वीडनमें लड़ाई छिड़ गई। नेपोलियन रूसकी शक्ति को अपने फायदेके लिये इस्तेमाल करना चाहता था। उसके कहनेपर रूसने इंगलैंडके साथ अपना कूटनीतिक संबंध तोड़ लिया था, और उसीके सह देनेपर रूसने स्वीडनके खिलाफ यह युद्ध घोषित किया। स्वीडनका यही कसूर था, कि उसने नेपोलियनकी आज्ञा न मानकर इंगलैंडके साथ मित्रताका संबंध कायम रक्खा। फरवरी १८०८ ई० में रूसी सेनाने सीमांत पार किया। उस समय फिनलन्ड स्वीडनके हाथमें था। १८०८ ई०के अन्त तक फिनलन्डको लेकर रूसी सेना स्वीडनकी भूमिमें दाखिल हो गई। १६ मार्च १८०६ ई० को, जब कि स्वीडनके साथ घनघोर युद्ध हो रहा था, अलेक्सांद्रने फिन्सैंडको बर्गा नगर में बुलाकर वचन दिया, कि फिनलन्डके विधानको हम पूरी तौरसे मानेंगे। इसी समय फिनलन्ड रूसका एक प्रदेश घोषित हुआ, और तबसे वोल्गेविक-क्रांतिके समय (१९१७ ई०) तक वैसा ही रहा। ५ सितम्बर १८०९ ई० को संधि करके स्वीडनने फिनलन्डपर रूसके अधिकारको स्वीकार किया। नेपोलियनके आदेशानुसार इंगलैंडके घिरावेमें यूरोपके दूसरे देशोंने साथ देना स्वीकार किया।

नेपोलियन जानता था, जब तक रूसको अपने हाथमें नहीं किया जाता, तब तक उसकी विजय अधूरी रहेगी। बीचके समयमें नेपोलियनने रूसके बारेमें बहुतसी जानकारी प्राप्त की, और आक्रमण करनेके लिये पोलन्डको आधार-भूमिके तौरपर तैयार करता रहा। इसपर जारने नेपोलियनसे मांग की, कि पोल-राज्यको फिरसे जीवित करनेकी कोशिश न करे, और दरेदानियाल तथा कान्स्तान्तिनोपलपर रूसके अधिकार करनेके साथ सहमत हो। नेपोलियनने इसे स्वीकार नहीं किया। मुलहके लिये नेपोलियन और जारने आपसमें मुलाकात करके भी बातचीत की, लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ। नेपोलियनने मोल्दाविया और बलाचियाका रूसके हाथमें जाने देना स्वीकार किया। इसी बीच १८१० ई०में उसने हालैंडको अपने राज्यमें मिला लिया, और रूसके विरोधकी कोई पर्वाह नहीं की। रूस समझने लगा, कि नेपोलियन मौकेकी ताकमें है, इसलिये उसने १८०६ ई०से चली आती तुर्कीकी छेड़छाड़को आगे बढ़ाना चाहा। यूरोपके युद्धक्षेत्रमें रूसियोंके हारकी बात सुनकर तुर्कीकी भी हिम्मत बढ़ी, और उसने अपने छिने हुये कालासागर-तटवर्ती पश्चिमी काकेशस-प्रदेशको रूससे ले लेना चाहा। शांति और मुलहकी बात बेकार गई, क्योंकि तुर्की जानता था, कि इस समय रूसकी प्रधान सेना यूरोपमें फंसी हुई है। तब भी रूसी सेनाने नवम्बर १८०६ ई० में दन्यूबकी ओर आक्रमण करके बेसराबिया, मोल्दाविया और बलाचियाके तुर्की प्रदेशोंको ले लिया। रूसी प्रगतिको दन्यूब-तटवर्ती तुर्की किलोंने नहीं रोक पाया। ८ मई १८२२ ई०को बुखारेस्तकी संधिके अनुसार

तुर्कीने बेसराबियाके ऊपर रूसके अधिकारको स्वीकार किया, और साथ ही खोतिन, बन्दर, अकर-मान और इस्माइलके किलोंको भी उसके हवाले कर दिया। रूसने पोती और अखकलाकी तुर्कीको लौटा दिये। तुर्कीने इस तरह छुट्टी पाकर रूस अब नेपोलियनके आक्रमणका जवाब दे सकता था।

नेपोलियन रूसको विश्राम लेने देना नहीं चाहता था। वह रूसकी ओर अपनी सेना भेजकर मई १८१२ ई०में स्वयं भी ड्रेसडनसे नीमन नदीकी ओर चल पड़ा। २४ जून (पुराना १२ जून) १८१२ ई० को नेपोलियनने हिटलरकी तरह बिना युद्ध-घोषणाके ही रूसपर आक्रमण कर दिया। नेपोलियनके पास जहाँ पांच लाख सेना थी, वहाँ रूसकी कुल सेना एक लाख अस्सी हजार थी। हिटलरकी सेनाकी तरह नेपोलियनकी सेनामें जर्मन, इतालियन, स्वीस, क्रोवात, स्पेनिश आदि युरोपकी सभी जातियोंके सैनिक थे। इतनी बड़ी सेनाके साथ सामने होकर लड़ना बवकूफी थी, इसलिये रूसी सेनाने कमसे कम संघर्ष करते हुये पीछे हटने को पसंद किया। नेपोलियनकी सेना आगे बढ़ती अगस्तमें स्मोलेन्स्क पहुँची। उसकी तोपोंने शहरपर तेरह घंटे गोलाबारी की, सारा नगर जलने लगा। नेपोलियनके विरुद्ध रूसियोंने उसी नीतिका पालन किया, जिसे एक सौ तीस वर्ष बाद उन्होंने हिटलरी आक्रमणके समय किया। आक्रमणकी गतिको धीमी करनेके लिये कहीं-कहीं लड़ते रूसी पीछेकी ओर हटते गये, और साथ ही नेपोलियनको परित्यक्त भूमिसे खाने-पीने-रहनेकी कोई चीज न मिल सके, इसके लिये अपने घरोंमें अपने हाथसे आग लगाते गये। स्मोलेन्स्कके निवासी भी अपने घरों और सम्पत्तिमें अपने हाथों आग लगाकर वहाँसे चल दिये। उस समयके रूसमें प्रतिभाशाली पुरुषोंकी कदर बहुत कम होती थी, क्योंकि जार-वंश एक विदेशी वंश था, जो रूसियोंसे अधिक अपने जर्मन संबंधियोंको मानता था। सुवारोफकी उपेक्षाके बारेमें हम कह चुके हैं। कतुजोफकी प्रतिभाकी भी उतनी कदर नहीं की गई, लेकिन नेपोलियनके इस भयंकर आक्रमणके समय जार अलेक्सान्द्रको मजबूर होकर ६७ वर्षके बूढ़े कतुजोफको सारी रूसी सेनाका महासेनापति नियुक्त करना पड़ा।

राजुलवंशो मिखाइल ईलारियोन-पुत्र कतुजोफ सुवारोफका योग्य शिष्य था। २९ वर्षकी उमरमें क्रिमियामें तुर्कीके साथ लड़ते हुये उसकी एक आंख जाती रही। वह सुशिक्षित था, बहुत-सी विदेशी भाषाओंको जानता था, और युद्ध-विद्यापर युरोपकी भिन्न-भिन्न भाषाओंमें जितनी पुस्तकें प्राप्य थीं, उनका उसने गम्भीर अध्ययन किया था। १८१२ ई० में महासेनापति नियुक्त करते हुये भी जार अलेक्सान्द्रने अपने एक दरबारीसे कहा था—“लोग उसकी नियुक्ति चाहते थे, इसलिये मैंने नियुक्त कर दिया, लेकिन व्यक्तिगत तौरसे मैंने उससे अपना हाथ धो लिया।” नेपोलियनकी सेनायें अब मास्कोकी ओर बढ़ रही थीं। मास्को उस समय रूसकी राजधानी नहीं था, लेकिन उसका महत्त्व पीतरबुर्ग राजधानीसे भी अधिक था, क्योंकि वही व्यापारका सबसे बड़ा केंद्र था। कतुजोफको बगरातियोन जैसे दूसरे योग्य सेनापति मिले थे। बगरातियोनने युद्धके बारेमें कहा था—“यह साधारण युद्ध नहीं बल्कि लोक-युद्ध है।” सचमुच ही सारी रूसी जनता उस वक्त अपने देशके लिये सब कुछकी बाजी लगाकर नेपोलियनके आदमियोंसे लड़ रही थी। रूसी ही नहीं, बल्कि बाश्किर, कल्मक, तारतार आदि जातियोंके सैनिक भी साथ-साथ बहादुरी दिखला रहे थे। लड़नेसे भी ज्यादा नेपोलियनकी कठिनाइयाँ इसलिये बहुत बढ़ गई थीं, कि रूसी रास्तेके गांवों, नगरों या खड़ी फसलोंमेंसे कोई चीज उसके लिये नहीं छोड़ते थे। २३ सितम्बर १८१२ ई० में नेपोलियनने रूसी सेनापतिके पास इस तरहके “बर्बरतापूर्ण और असाधारण” युद्धके तरीकेका विरोध करते हुये शांति करनेका प्रस्ताव किया। उसने जब इस बातपर जोर दिया, कि “लड़ाईमें युद्धके सर्वस्वीकृत नियमोंको पालन करना चाहिये,” तो कतुजोफने जवाब दिया—“लोग तुम्हारे इस युद्धको तारतार (मंगोल) आक्रमण जैसा समझते हैं। इसीलिये वह प्रतिरोधके सभी तरीकोंको इस्तेमाल कर रहे हैं।” जार और दरबारी चाहते थे, कि नेपोलियनसे जमकर लड़ाई हो, लेकिन कतुजोफका कहना था, काल और देश (दूरी) की सहायतासे ही हम दुश्मनको हरा सकते हैं। यदि मास्को भी शत्रुके हाथमें चला जाय, तो उसके लिये भी हमें तैयार रहना चाहिये, क्योंकि हमें मास्को नहीं रूसकी रक्षा करनी है। नेपोलियनकी सेनाको भारी क्षति हो रही थी। वह चाहता था, कि कतुजोफ लड़नेके लिये तैयार हो, ताकि युद्धक्षेत्रमें रूसी सेनाकी रीढ़ तोड़ दी जाय, लेकिन कतुजोफ अपनी निश्चित की हुई जगहपर ही लड़ना चाहता

था। ५ सितम्बर (२३ अगस्त) की रातको सेवर्दिनो गांवमें एक छोटीसी रूसी सेनाने डटकर लड़ाई करके उस युद्धका आरम्भ किया, जो कि ८ सितम्बर (२६ अगस्त) के प्रातःकाल मास्कोसे ९० किलोमीटरपर अवस्थित बोरोदिनो गांवके ऐतिहासिक युद्धके रूपमें हुआ। युद्धक्षेत्रमें ११२ हजार रूसी सैनिक थे, जिनके अतिरिक्त सात हजार कसाक और दस हजार नागरिक सैनिक भी शामिल हुये थे। नेपोलियनके पास अब एक लाख तीस हजार सेना और ५८७ तोपें रह गई थीं। युद्धमें बगरातियों घायल होकर अन्तमें मर गया। बेहोश होनेसे पहले उसके मुंहसे अन्तिम शब्द निकले थे—“हमारे आदमी कैसे हैं?” उसने “डटे हुये हैं” जवाब सुनकर प्राण छोड़ा। पीतर इवान-पुत्र बगरातियों एक गुर्जी-वंशका सैनिक था, जिसे सुवारोफके चरणोंमें बैठकर युद्धविद्या सीखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यद्यपि बोरोदिनो में रूसी नेपोलियनकी सेनाको हरा नहीं सके, लेकिन उसके सालों बाद अपने मृत्युसे जरा सा पहले नेपोलियनने स्वीकार किया था—“मैंने जितनी लड़ाइयां लड़ीं, उनमें सबसे भयंकर लड़ाई वह थी, जो मास्कोके पास हुई। फ्रांसिसियोंने अपनेको विजयके योग्य यदि साबित किया, तो रूसियोंको भी अजेय होनेका अधिकार वहीं प्राप्त हुआ।” रूसी महान् कवि लेर्मन्तोफने बोरोदिनोके बारेमें लिखा था —

“उस दिन शत्रुने अच्छी तरह समझा
कि हम रूसी सिपाही कैसे लड़ते हैं—
भयंकर हाथसे हाथ
घोड़े और आदमी एक साथ लड़ते,
और तो भी तोपोंकी गड़गड़ाहट।
हमारी छातियां वैसे ही कांप रही थीं,
जैसे वहां धरती कांपती थी।
फिर पहाड़ों और मैदानोंमें अंधकार छाया,
तो भी हमें अभी फिर लड़ना था।”

बोरोदिनोमें रूसी सेनामें पराजितकी तरह भगदड़ नहीं मची, बल्कि वह सुव्यवस्थित रीतिसे मौजाइस्क होते मास्को पहुंची। १४ सितम्बर १८१२ ई० को मास्कोके पास फिली गांवमें कतुजोफने युद्धपरिषद् की। सेनापति लड़नेके पक्षमें थे, लेकिन कतुजोफने यह घोषित करते हटनेका हुक्म दिया—“मास्कोका हाथसे जाना रूसका हाथसे जाना नहीं है।” १४ (२) सितम्बरके सबेरे रूसी सेना मास्को छोड़कर बाहर जाने लगी। मास्कोके नागरिक भी जो कुछ साथ ले जा सकते थे, उसे लेकर पैदल या गाड़ियोंपर नगरसे निकल पड़े। रातको मास्कोमें आग लग गई। हवा तेज थी, जिसने लकड़ीके मकानोंमें चिनगारी फेंक-फेंककर सारे नगरको जला दिया, जिससे फ्रेंच सैनिकोंको खुलकर लूटनेका मौका नहीं मिला। आग छ दिनोंतक जलती रही। मास्को नेपोलियनके हाथमें था। लेकिन जला-भुना आश्रयहीन मास्को जल्दी ही शुरू होनेवाले जाड़ेसे उसकी सेनाको कैसे बचा सकता था? नेपोलियनने बहुत कोशिश की, बहुत बार जार अलेक्सान्द्रको संधि करनेके लिये लिखा, लेकिन जारने उसका जवाब भी देना पसंद नहीं किया। जाड़ा भयंकर रूप लेता जा रहा था, उसके कारण सैनिकोंकी हालत खराब होती जा रही थी। नेपोलियनको अब कतुजोफके युद्ध कौशलका पता लगा, और उसने मास्को छोड़नेका निश्चय कर लिया।

१८ (६) अक्टूबरके सबेरे सात बजे नेपोलियनने मास्कोसे हटना शुरू किया। उसने क्रेमलिनको बारूदसे उड़ा देनेका हुक्म दिया, लेकिन वर्षाके कारण कितने ही पलीते भीग गये थे, इसलिये क्रेमलिनका एक मीनार तथा दीवारका कुछ भाग ही नष्ट हो पाया। नेपोलियनको लौटते समय अब कतुजोफकी सेनाका मुकाबिला करना था, जो बीच-बीचमें फ्रेंच सेनापर भयंकर प्रहार कर रही थी। रास्तेके नगर और गांव बिल्कुल उजाड़ थे। घोड़ोंको मारकर खानेके सिवा नेपोलियनकी सेनाके लिये प्राण बचानेका कोई उपाय नहीं था। भुखमरीके साथ-साथ बीमारीने भी अपना आक्रमण कर दिया था। रास्तेपर पड़ी आदमियों और घोड़ोंकी लाशें नेपोलियनके लौटनेका परिचय दे रही थीं।

सैनिकोंके अतिरिक्त रूसी गोरिल्लोंने नेपोलियनकी सेनाके नाकमें दम कर दिया था। सर्दी अब इतनी बढ़ गई थी, कि भूखे फ्रेंच सिपाही गाड़ियों, घरोंके सामानों या मकानोंमें आग लगाकर उससे बचनेकी कोशिश करते थे। लेकिन यह केवल रूसी जाड़ा नहीं था, जिसने कि १८१२ ई० में शत्रुकी सेनाको नष्ट किया। उस सालका जाड़ा अपेक्षाकृत नरम था, १२ सेंटीग्रेड हिमबिन्दुसे नीचे तक ही चार-पांच दिन तापमान गया था। इससे कहीं अधिक सर्दी १७९५ ई० और १८०७ ई० में हुई थी, जिसको कि सहते हुये नेपोलियनकी सेनाने हालेंड आदिके युद्ध लड़े थे। दिसम्बरके अन्ततक जब वह बेरेजिना नदीको पार हुई, तो नेपोलियनकी महासेना अब तीस हजार रह गई थी। नेपोलियन अपनी सेनाको वहीं छोड़ जल्दी-जल्दी पेरिसकी ओर दौड़ा। अभी उसे अपने अन्तिम दिन देखने थे। १८१३ ई०की शरदमें लाइपजिकमें मित्र-शक्तियोंने नेपोलियनको हराया, फिर मित्र-सेनायें जार अलेक्सान्द्र I के नेतृत्वमें मार्च १८१४ ई० में पेरिसके भीतर दाखिल हुई। क्रांति द्वारा अपसारित बूरबों राजवंशको फिरसे फ्रांसमें प्रतिष्ठापित किया गया, नेपोलियनको एल्ब द्वीपमें निर्वासित कर दिया गया। आगेकी बातोंका फ़ैसला करनेके लिये मई १८१५ ई० में वीना की कांग्रेस हुई, जिसमें पोलन्दके बहुत बड़े भागको “सदाके लिये” रूसके हाथमें दे दिया गया। अभी कांग्रेस चल ही रही थी, कि नेपोलियन एल्बसे भागकर पेरिस पहुंचा, और वह फिरसे अपनी खोई शक्तिको हाथमें करने लगा, लेकिन सौ दिन वीतते-वीतते अंग्रेज और जर्मन सेनाओंने वाटरलूके मैदानमें उसे अन्तिम तौरसे हराकर हेलेना द्वीपमें भेज दिया, जहां वह १८२१ ई० में मर गया। फ्रांसके सिंहासनपर अठारहवां लुई बैठाया गया। फ्रेंच-क्रांतिने मुकुट-धारियोंकी जो दुर्दशा की थी, उससे यूरोपके सभी राजाओंमें आतंक छा गया था। जार अलेक्सान्द्रने फिर ऐसा मौक़ा न देनेके लिये आस्ट्रिया और प्रुशियाके राजाओंके साथ मिलकर १८१५ ई० में पवित्र-संधिके नामसे एक समझौता किया। नेपोलियनके हारनेके बाद अब यूरोपमें सब जगह रूसी जारकी तूती बोल रही थी। कार्ल मार्क्सने पवित्र-संधिके बारेमें कहा था—“यह यूरोपके सभी राज्योंपर जारकी प्रधानताका ही दूसरा नाम था।”

सुधार—यह बातला आये हैं, कि तर्हणाईमें जारको लाहार्प जैसे प्रगतिशील विचारोंवाले अध्यापकके सम्पर्कमें आनेका मौक़ा मिला था। इसके अतिरिक्त अपने शासनके आरम्भिक दिनोंमें जारपर स्पेरन्स्की जैसे एक प्रतिभाशाली व्यक्तिका भी प्रभाव पड़ा था। स्पेरन्स्की एक गांवके ईसाई पुरोहितका लड़का था। उसकी शिक्षा पीतरबुर्गकी एक धार्मिक पाठशालामें हुई थी। अपनी असाधारण प्रतिभाके कारण वह एक मामूली क्लर्कसे बढ़ते-बढ़ते राज्यसचिव हो गया। तिलिजतकी संधिके बाद स्पेरन्स्की जारका प्रधान सलाहकार था। रूसकी शक्तिको दृढ़ करनेके लिये उसने यह जरूरी समझा, कि शासनमें सुधार किया जाय। १८०९ ई०में स्पेरन्स्कीने “राज्य-विधानोंका संहिताकरण” के नामसे एक सुधार मसौदा तैयार किया। इस सुधार द्वारा वह चाहता था कि सामन्तशाही राजतंत्रकी जगह बूज्वा राजतंत्र स्थापित हो, तथा “विज्ञान, व्यापार और उद्योग” की रक्षा की जाय। उसने कहा—“दुनियाके इतिहासमें ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता, कि नव-शिक्षित और व्यापारप्रधान जाति अधिक दिनोंतक दासतामें रहे।” स्पेरन्स्कीने सुझाव पेश किया था, कि सभी सम्पत्ति रखनेवाले लोगोंकी एक राज्यदूमा (संसद्) बुलाई जाय, जिसके लिये हरएक बोलोस्त (परगना) के सम्पत्तिवाले चुनकर एक बोलोस्त-दूमा बनायें, फिर बोलोस्त-दूमाओंके सदस्य ओक्रुग (जिले) की दूमाके सदस्योंका चुनाव करें, फिर ओक्रुग-दूमाओंके सदस्य गुबर्निया (प्रदेश) की दूमाओंका निर्वाचन करें, और गुबर्नियाकी दूमायें राज्य-दूमाके सदस्योंको निर्वाचित करें। इस प्रकार चार जगहोंसे होकर चुनाव किया जाय। बिना राज्यदूमा और राज्यपरिषद्की स्वीकृतिके कोई विधान पास न किया जाय। शासन-प्रबंध मंत्रियोंके हाथमें रहे, जो दूमाके सामने जवाबदेह हों। इसमें शक नहीं, आजसे सवा सौ वर्ष पहलेके लिये स्पेरन्स्कीका कानूनी मसौदा प्रगतिशील था। लेकिन सत्ताधारी जमींदार इसे क्यों पसंद करने लगे? वह स्पेरन्स्कीको “बदमाश”, “क्रांतिकारी” और “कामत्रेल” कहकर बदनाम करते। उनके विरोधके कारण मजबूर हो अलेक्सान्द्रने मसौदेको अस्वीकार कर दिया, और उसकी जगह अपने नियुक्त किये सदस्योंकी एक राज्य-परिषद् १८१० ई०में स्थापित की। राज्यपरिषद् का काम जारको केवल सलाह देनाभर था। यह राज्यपरिषद् १८१० ई० से १९०६ ई० तक बनी रही।

मंत्रियोंकी संख्या अबसे आठकी जगह ग्यारह कर दी गई थी—पुलिस, संचार और राज्य-नियंत्रण के तीन और मंत्रालय स्थापित किये गये। राजुलों और जमींदारोंने प्रसिद्ध इतिहासकार तथा भारी जमींदार न० म० करमजिनके नेतृत्वमें मांग की, कि स्पेरन्स्कीसे इस्तीफा लिया जाय। करमजिनने इन मुधारोंकी जगह “पचास अच्छे राज्यपालों” को नियुक्त करनेकी सलाह दी। स्पेरन्स्कीके प्रयत्नके असफल होनेपर तुर्की और नेपोलियनके बड़े युद्धोंके भीतरसे रूसको गुजरना पड़ा।

नेपोलियनके पतनके बाद जार समझता था—यूरोपके भाग्य और व्यवस्थाकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। देशके भीतर अरक्चेयेफकी सलाहको मानकर जार सारा काम करता था। लोग अरक्चेयेफको कितनी घृणाकी दृष्टिसे देखते थे, यह पुश्किनकी निम्न कवितासे मालूम होगा :—

वह सारे रूसको अपनी एड़ीके नीचे पीस रहा है,
ढांचेपर बैठा वह चक्का चलाना जानता है।
जारका राज्यपाल और मुद्राधर स्वामी,
उसका मित्र और बिल्कुल जमुआ भाई,
बदला लेनेके लिये, घृणाके लिये भरा,
मस्तिष्कहीन, हृदयहीन और बिल्कुल सम्मानहीन,
कौन है यह “सच्चा अनतिशयोक्तिपूर्ण, वीर” ?
एक सिपाही, नहीं वह तो उसे छू भी नहीं गया।

उसने सैनिक बस्तियां बसाई थीं। किसानोंको जबर्दस्ती इन बस्तियोंमें रहकर जन्मजात सिपाहीका काम करना पड़ता था। रूसके पश्चिमी सीमांतपर १८२० ई०के आसपास ३७५ हजार सैनिक किसानोंकी बस्तियां बसी थीं। किसान इस जबर्दस्तीको बर्दाश्त नहीं करते थे, जिसके कारण कितने ही विद्रोह हुये। अरक्चेयेफने इन विद्रोहोंको बड़ी निष्ठुरतापूर्वक दबाया। अलेक्सान्द्र I को जब इन बस्तियोंको अनावश्यक कहकर रोकनेके लिये कहा गया, तो उसने जवाब दिया—“हर हालतमें सैनिक बस्तियां मौजूद रहेंगी, चाहे इसके लिये हमें पीतरबुर्गसे चूदवा तकके सारे रास्ते (७० किलोमीटर ५० मीलसे ऊपर) लाशोंसे भी ढांक देना पड़े।”

काकेशस-विजय—१८०१ ई०में पूर्वी गुर्जीको रूसने ले लिया था। इसके बाद जारको सारे काकेशस-प्रदेशपर हाथ साफ करनेका ख्याल आया। इस काममें एक गुर्जी (जाजियन) अमीर राजुल त्सित्सियानोफ जारका भारी सहायक था। १८०२ ई०में अलेक्सान्द्रने उसे उधरकी सेनाका मुख्य-सेनापति नियुक्त किया। उसने काकेशसके छोटे-छोटे राजाओंको जीतकर रूसमें मिलाना शुरू किया। १८०४ ई०में त्सित्सियानोफने येरेवान (अरमनी)के राज्यपर चढ़ाई की। दो महीनेतक येरेवानके दुर्गको घेर रखनेके बाद उसे असफल लौटना पड़ा। १८०५ ई०के अन्तमें उसने बाकूके खानके विरुद्ध अभियान किया। बाकूका महत्त्व इसलिये भी ज्यादा था, कि उसे आधार बनाकर ईरानके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जा सकती थी। खानसे उसने किलेकी चाभी मांगी, लेकिन खानने धोखेसे मारकर गुर्जी राजुलका सिर ईरानके युवराजके पास भेज दिया। पर बाकू बच नहीं सका, और १८०६ ई०की शरदमें वह रूसका अंग बन गया। इसके बाद उसी समय पड़ोसी कूबाके खानको भी रूसियोंने जीता। रूसियोंने इन जीते हुये छोटे-छोटे राज्योंका दो प्रदेश—एलिजाबेतापोल और बाकू—बना दिया। जारके रास्तेमें ईरान और तुर्की बाधा दे रहे थे, रुपये-पैसे दे इंगलैंड और फ्रांस उनकी पीठ ठोक रहे थे। ईरानने रूसके विरुद्ध १८०५ ई०में युद्ध-घोषणा की, और तुर्कीने १८०६ ई०के अन्तमें। यह युद्ध कई सालों तक चलते रहे। ईरानी और तुर्की सेनाने कई बार करारी हारें खाईं। ईरानने अंतमें दागिस्तान और गुर्जीको रूसके हाथमें देना स्वीकार किया, और कास्पियन समुद्रमें सैनिक जहाज न रखनेका भी वचन दिया। तुर्कीके साथकी लड़ाई मई १८१२ ई०में वुखारेस्तकी संधिके साथ समाप्त हुई, इसे हम बतला आये हैं। तुर्कीने पश्चिमी गुर्जीपरसे अपने दावेको हटा लिया, जो रूसकी कुर्तसी गुबर्निया बन गई। ईरानके साथका युद्ध १८१३ ई०में खतम हुआ, जिसमें इंगलैंडने भी तत्परता दिखलाई, क्योंकि वह चाहता था, कि रूस इधरसे मुक्त होकर दोनोंके दुश्मन

नेपोलियनके खिलाफ अपनी सारी शक्ति लगाये। १८१३ ई० की गुलिस्तान-संधि के अनुसार आजकल-के रूसी आर्जुर्बाइजानको ईरानने सदाके लिये जारके हाथमें दे दिया।

वोल्गाके लोग—वोल्गाके बाश्किर, चुवाश, मोर्दवी, तारतार आदि जातियां लड़ाकू स्वभावकी थीं, इसलिये उन्होंने आसानीसे रूसी जूयको अपने कंधेपर नहीं रक्खा। रूसियोंने उनके भीतर अपने शासनको दृढ़ करनेके लिये कई तरीके इस्तेमाल किये। इन इलाकोंकी उर्बर भूमिको रूसी जमींदार अपने हाथमें करके उनपर अपना रोब कायम करते, कहीं-कहीं रूसी किसानोंको भी ले जाकर उनके भीतर बसाते, जो कि किसानीके साथ-साथ सैनिकका भी काम देते। इसके अतिरिक्त ईसाई पादरियोंको जबर्दस्ती ईसाई बनानेकी भी छूट थी। नये बने ईसाइयोंको काफी प्रलोभन भी दिया जाता था। कितनी ही जगहोंपर प्रत्येक नवईसाईको एक सलेब, एक रूबल और एक सफेद कमीज दी जाती थी। तारतारों और दूसरोंके सरदारों और सुल्तानोंको ईसाई-धर्म न स्वीकार करनेपर कितनी ही बार अपने असामियोंसे वंचित कर दिया जाता था। इनके अतिरिक्त निम्न-वोल्गाके किनारे ले जाकर जर्मन किसानोंको बसा दिया गया। रूसी जार ऊपरसे रूसी थे, नहीं तो उनकी सारी मनोवृत्ति जर्मन थी, इसीलिये जर्मन शिक्षितों, सैनिकों और दरबारियोंके प्रति ही नहीं, बल्कि साधारण जर्मनोंके प्रति भी उनका विशेष पक्षपात था। १८ वीं सदीके उत्तरार्धमें वोल्गाके दोनों किनारोंपर सरतोफसे और दक्षिण तक जगह-जगह जर्मन प्रवासियोंके गांव बसने लगे थे। १७६३ ई०में एकातेरिना II ने विशेष राजघोषणा निकालकर बाहरसे रूसमें लोगोंको आनेका निमंत्रण दिया था, जिसके अनुसार बीस हजारसे अधिक विदेशी—अधिकांश जर्मन आकर वोल्गाके किनारे बस गये। इन प्रवासियोंको प्रति परिवार तीस देसियातिन (अस्सी एकड़) जमीन तथा कुछ नकद ऋण भी दिया जाता था। कजाकों और कल्मक घुमन्तुओंको रोकनेके लिये उफ्रे-इनसे लाकर बहुतसे कसाकोंको वोल्गाके पूर्वमें बसा दिया गया था। इस प्रकार हम देख रहे हैं, कि वोल्गा और उसके पूर्वकी एशियाई जातियोंपर अपने शासनको मजबूत करनेके लिये जारशाहीने रूसी ही नहीं, युरोपके दूसरे देशोंके साधारण लोगोंको भी लाकर बसाना जरूरी समझा। इसपर भी बाश्किर, तारतार, चुवाश आदि जातियां हथियार रखनेके लिये जल्दी तैयार नहीं हुईं।

साइबेरियाके लोगोंको जमींदारी या अर्ध-दासता प्रथा क्या है, इसका पता नहीं था। उनके पड़ोसी कजाक और दूसरी जातियां मौका पाकर उनके आदिमियोंको पकड़कर दास बनाकर बेंच देती थीं। रूसियोंने उनके भीतर भी पहुंचकर अपने शोषणके नये तरीकेको जारी किया। १८१२ ई० से स्पेरन्स्की जारके मनसे उतर गया था, लेकिन १८१९ ई०में जारने उसे साइबेरियाका महाराज्यपाल बनाकर भेजा। स्पेरन्स्कीने वहां जाकर कुछ सुधार किये, लेकिन इसी समय साइबेरियाके लोगोंको जबर्दस्ती ईसाई बनानेका काम भी आरम्भ हुआ, जिसमें मिशनरियोंने लोभ, धमकी हर तरहसे काम लिया।

भौगोलिक अभियान—नेपोलियनके युद्धोंमें सम्मिलित होकर रूस और बातोंमें भी दूसरे देशोंसे क्यों पीछे रहने लगा? अब उसने भी अपने भौगोलिक अभियान भेजने शुरू किये। १८०३-६ ई० में आदम क्रूजेन्स्तने जहाज द्वारा पृथिवी-प्रदक्षिणा की। उस समय रूस अपने समूरी छालोंका व्यापार चीनके साथ स्थलमार्गसे क्याखता होकर करता था। क्रूजेन्स्तने सोचा, जलमार्गसे इसे और सस्तेमें किया जा सकता है; इसके लिये १८०३ ई०के ग्रीष्ममें उसने एक सामुद्रिक अभियानको योजना बनाई और वह अतलान्तिक समुद्र पार हो दक्षिणी अमेरिकाका चक्कर काटते प्रशान्त महासागरमें पहुंचा। फिर काम्चत्का और जापानके तटसे वह एशिया और अफ्रीकाके बाहर-बाहर होते अतलान्तिकमें लौटा। इस अभियानने सखालिन, काम्चत्का, कूरिल और एलूतियान द्वीपोंके किनारोंकी खोज-पड़ताल की, और उत्तरी अमेरिकाके उत्तर-पश्चिमी किनारेको भी देखा-भाला। अपनी पुस्तकमें क्रूजेन्स्तने इस यात्रा का वर्णन किया। १८०९-११ ई० में एक दूसरे अभियानने हेदेनस्त्रोमके नेतृत्वमें ध्रुवीय समुद्र के बीचमें नवसिबेरीय द्वीपोंकी जांच-पड़ताल की। १८१० ई० में इसी अभियानके एक सदस्य सपिक्रोफने इन द्वीपोंके सबसे उत्तरवाले द्वीपका पता लगाया, और यह भी दावा किया, कि वहां स्थलमार्ग है, जिसे सोवियतकालीन अभियानोंने गलत बतलाया। १८१५-१८ ई० में "रूरिक"

जहाजने काम्चत्का, चुकोत्स्क और बेरिंग जलडमरूमध्यके बारेमें विशेष खोज-पड़ताल की। १८२१-२४ ई०में प्रसिद्ध रूसी नाविक लिक्नेने काम्चत्का और चुकोत्स्कका पहला नक्शा बनाया। १८२०-२४ ई०में रेंगलके नेतृत्वमें एक अभियान गया, जिसने साइबेरियाके उत्तरी तटकी लेनासे बेरिंग जलडमरूमध्य तक जांच-पड़ताल की।

दिसम्बरी-विद्रोह (१८२६ ई०)—नेपोलियनकी पराजयके बाद जारका प्रभुत्व और प्रभाव बहुत बढ़ गया। जारने यद्यपि फ्रेंच-क्रांतिके रूपमें ऊपर आनेवाली नई शक्तियोंको दबानेकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रक्खी थी, लेकिन वह विचारोंको कैसे रोक सकता था? अब रूसमें कल-कारखाने भी खुलने लगे थे। १८०४ ई० में जहां रूस में २४२७ कारखाने और ९५००० मजदूर थे, वहां १८२५ ई० में ५२६१ कारखाने और २११ हजार मजदूर हो गये थे। पुराने हस्तशिल्प और कुटीरशिल्पकी जगह अब कारखानोंकी चीजें बाजारोंमें आ रही थीं। उधर १८ वीं सदीके मध्यसे ही रूसी कुलीन घरानोंमें फ्रेंच भाषा और साहित्यका जोर हो चला था, और फ्रेंच साहित्यके साथ फ्रेंच-क्रांतिके विचार देनेवाले साहित्यिकोंकी कृतियोंका भी प्रचार हो रहा था। जार साधारण रूसी जनताका ही देवता नहीं था, बल्कि उसके सामने राजुलों और अमीरोंको भी घुटने टेककर दंडवत् करनी पड़ती थी। शिक्षित अमीर तर्हण जब फ्रेंच प्रगतिशील साहित्यके प्रकाशमें देखते, तो उन्हें यह असह्य मालूम होता। उनमेंसे कितने ही पश्चिमके देशोंको घूमने जाते, और वहांके जीवनके सम्पर्कमें आते, जिससे उन्हें रूसकी पुरानी जारशाही बुरी लगती। फ्रेंच-क्रांतिने फ्रांसमें ही एक नये भावको पैदा नहीं किया, बल्कि उससे बर्दान, इताली और स्पेन सब जगह जातीय स्वतंत्रताकी लहर फैली। दिसम्बरी विद्रोहियोंके नेता पेस्तेलने लिखा था—“यूरोपके एक छोरसे दूसरे छोरतक वही एक बात घटित हो रही है; पोर्तगालसे रूसतक सभी देशोंमें—जिसके अपवाद इंगलैंड या तुर्की भी नहीं हैं। सुधारकी शक्तियां, कालकी मांगें चारों ओर आदमीके दिमागको उत्तेजित कर रही हैं।” चूंकि शिक्षाका प्रसार अभी अमीरों और कुलीनोंमें ही था, इसलिये नये विचारोंके वाहक भी वही थे। इन्हीं क्रांतिकारी कुलीनोंने रूसमें परिवर्तन लानेके लिये गुप्त राजनीतिक समितियां संगठित कीं। ऐसी पहली समिति १८१६ ई० में स्थापित की गई, जिसका नाम था “पितृभूमिके सच्चे और भक्त पुत्रोंकी सभा”, अथवा “मुक्ति-संघ”। कर्नल अलेक्सान्द्र मुरावयोफ इस समितिका संस्थापक था। इसके बीस और सदस्य थे। इसका उद्देश्य था—किसानों को अर्ध-दासतासे मुक्त करना और रूसमें वैधानिक राजतंत्रकी स्थापना। इसके जल्दी ही दो दल हो गये, जिनमें एक दल नरम था और दूसरा गरम। गरम दलवालोंका नेता कर्नल पावल इवान-पुत्र पेस्तेल (१७९३-१८२६ ई०) था। दो साल बाद (१८१८-२१ ई०) “समृद्धि-संघ” के नामसे एक और सभा स्थापित हुई, जिसकी कितनी ही शाखायें जगह-जगह खोली गईं। इनमें सबसे अधिक क्रांतिकारी दक्षिणी शाखा थी, जिसे कर्नल पेस्तेलने उक्रइनके तुलचिन नगरमें संगठित किया था। समृद्धि-संघने पेस्तेलके प्रभावमें आकर अपनेको गणराज्यके पक्षमें घोषित किया। मास्कोमें जनवरी १८२१ ई० में संघका सम्मेलन हुआ, जिसमें नरमदली सदस्योंने डरकर संघको बंद कर देनेकी घोषणा की, लेकिन पेस्तेलने इसे नहीं स्वीकार किया और उसने “दक्षिणी सम्मिलनी” (१८२१-२५ ई०) के नामसे एक नया संगठन स्थापित किया, जिसमें पेस्तेल, दाविदोफ आदि कई प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। पेस्तेल सुशिक्षित तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। समकालीन महाकवि पुश्किनने उसके बारेमें लिखा था—“पेस्तेल पूरे अर्थोंमें चतुर पुरुष है। जहां तक मैं जानता हूं, वह सबसे मौलिक विचारोंका आदमी है।” पेस्तेल १८१२ ई०में नेपोलियनकी सेनासे लड़ते बोरोदिनोके युद्ध-क्षेत्रमें घायल हुआ था। १८१३-१५ ई०के विदेशी अभियान में भी पेस्तेल रूसी सेनाके साथ था। बोल्तेर, दिदेरो, रूसी जैसे बहुत-से यूरोपीय विचारकोंके ग्रंथोंका उसने गम्भीर अध्ययन किया था। पेस्तेलने रूसके वैधानिक सुधारका एक प्रोग्राम “रूसका प्राध्दा” (रूसी सत्य अधिकार) के नामसे बनाया था, जिसके अनुसार सशस्त्र क्रांति द्वारा रूसका एक अखंड गणराज्य कायम करना था। उसका प्रस्ताव था : राजवंशके सभी आदमियोंको मार डाला जाय, इसके बाद एक कामचालू सरकार घोषित की जाय। शासनके लिये उसने तीन उच्च संस्थाओंका निर्माण होना आवश्यक समझा था : विधान-संस्था—नरोदनये वेचे (लोकसभा), प्रशासन-संस्था—देझाव्नया दुमा

(राज्यद्वामा) और निरीक्षक संस्था—वेर्खोःनी सबोर (उच्चतम सभा) । वोटका अधिकार सम्पत्ति और शिक्षा दोनोंपर निर्भर है । सभी नागरिकोंको समान अधिकार और समान स्वतंत्रताको देते हुये समाजके भीतरके विभाजनको बंद किया जाये । “रुक्या प्राव्दा” ने घोषित किया था, कि जमींदारोंको बिना क्षति-पूर्तिके दिये किसानों और उनकी जमीनको मुक्त कर दिया जाय । पेस्तेलने जो बात १८१२ ई० में घोषित की थी, वहां तक अभी १९५५ ई० के भारतीय भूमिसुधारका भी जाननेके लिये तैयार नहीं हैं ।

१८२२ ई० में पीतरबुर्गमें भी एक क्रांतिकारी संस्था “उत्तरी सम्मिलनी” स्थापित की गई, जो कि १८२५ ई० तक मौजूद रही । इस सम्मिलनीका मुखिया निकिता मुरावयोफ (१७९८-१८२६ ई०) था, जो कि जारकी गारदका एक अफसर था । १८१२ ई० में तरुण मुरावयोफ घरसे भागकर सेनामें भरती हो रूसी सेनाके साथ दूसरे देशोंमें लड़ाई लड़ता रहा । इसने नेपोलियनके खिलाफ लड़ाइयोंमें भाग लिया था । पेरिसमें रहते उसने निर्वाचन होते देखा । वहीँ उसने क्रांतिकारी पुस्तकोंका भी एक संग्रह किया । देश लौटनेपर वह क्रांतिके संगठनमें जुट गया । “उत्तरी सम्मिलनी” के सदस्योंमें कवि कोन्द्राती फ्योदोर-पुत्र रिलयेफ (१७९५-१८२६ ई०) भी था । १८२३ ई०में “उत्तर तारा” नामसे एक पत्रिका निकाली, जिसमें उसने जारके कृपापात्र अरक्चेयेफके अत्याचारोंकी खूब खबर ली । जल्दी ही वह और उसका पत्र जनप्रिय हो गया । १८२३ ई० में वह “उत्तरी सम्मिलनी”में शामिल हो १४ दिसम्बर १८२५ ई० के विद्रोहकी तैयारीमें पूरी तौरसे जुट पड़ा । वह कहता था—“मैं कवि नहीं, बल्कि एक नागरिक हूँ ।”

नवम्बर १८२५ ई० में जार अलेक्सान्द्र I एकाएक तगनरुकमें मर गया । इस प्रकार दिसम्बरी विद्रोहकी तैयारी हो जानेपर भी वह अलेक्सान्द्रके समय नहीं हो सका । अलेक्सान्द्रका कोई पुत्र नहीं था, इसलिये उसके भाई कन्स्तन्तिनको सिंहासन मिलना चाहिये था, लेकिन उसने अलेक्सान्द्रके जीवन-काल ही में अपने अधिकारको त्याग दिया था, इसलिये जारके तीसरे भाई निकोलाइ I को गद्दी मिली ।

चीनसे संपर्क—अलेक्सान्द्रको युरोपका ही नहीं बल्कि पूर्वमें प्रशान्त महासागर तक फैले अपने साम्राज्यका भी ख्याल था । उसने गोलोउकिनके नेतृत्वमें १८०५ ई०में एक बड़ा दूतमंडल पेकिङ्ग भेजा । सीमांतपर चीनियों ने बहाना बनाकर देर तक दूतमंडलको रोके रक्खा । आगे बढ़नेके पहले रूसी राजदूतसे मांग पेश की, कि चीन-सम्राट्के चित्रके सामने साष्टांग दंडवत् (कौतौ) करो । राजदूतने यह कहकर इसे माननेसे इन्कार कर दिया, कि हाल हीमें अंग्रेज राजदूतको कौतौ (साष्टांग दंडवत्) करनेसे मुक्त कर दिया गया है । इस बहानेसे उन्होंने रूसी दूतमंडलको आगे बढ़ने नहीं दिया और उसे वहीसे लौट जाना पड़ा । अगले साल १८०६ ई० में क्रुजेन्स्तर्नकी अधीनतामें दो रूसी जहाजोंने कान्तन पहुंच अपने मालको वहां उतारा । इसकी खबर पाकर राजधानीसे हुक्म आया, कि रूसियोंको स्थलमार्गसे ही व्यापार करनेका अधिकार है, उन्हें सामुद्रिक मार्गसे व्यापार नहीं करने दिया जा सकता, इसलिये उनके जहाजोंको-रोक लिया जाये । लेकिन पेकिङ्गकी आज्ञाके आनेसे पहले ही रूसी जहाज वहांसे विदा हो चुके थे ।

रूसके एशियाके विस्तारमें येरमक (१५७९-८४) और खवारोफ (१६५४) दो प्रमुख व्यक्तियोंके बारेमें हम बतला चुके हैं । १९ वीं सदीमें रूसके प्रभावको साइबेरियामें दृढ़ करनेका काम मुरावेफने किया ।-

२. निकोलाइ I, पावल I-पुत्र (१८२५-५५ ई०)

एंगःसने “रूसी जारशाहीकी वैदेशिक नीति” पर लिखते हुये १८९० ई० में इस जारके बारेमें कहा था—“एक क्षुद्र मिथ्याभिमानी आदमी था, जिसका दृष्टिक्षेत्र एक जमादार (कम्पनीके अफसर) से अधिक दूर तक नहीं जाता था । वह ऐसा आदमी था, जो कि क्रूरताको शक्ति, हठधर्मीको मनोबल समझता था । सबसे अधिक जो चीज उसको पसंद थी, वह था शक्तिका प्रदर्शन ।” निकोलाइ प्रुशियाके सैनिकवादका सभी जारोंसे अधिक पक्षपाती था । उसकी बीबी चार्लोत्तका बाप

पुशियाका राजा फ्रेड्रिक विल्हेल्म III था, जिसका भी उसे और उसकी वीर्वाको बहुत अभिमान था। सिपाहियोंको निष्ठुरतापूर्वक कवायद-परेड कराके कठपुतली बना देनेको वह सैनिक विज्ञानका बहुत भारी कौशल मानता था। उस क्रूर, मंदबुद्धि और अभिमानी आदमीने कभी पुस्तक नहीं पढ़ी। उसने अरक्नेयेफकी शासन-व्यवस्थाको पूरी तौरसे कायम रक्खा। लेकिन, निकोलाइके लिये सर मुड़ाते ही ओले पड़े। उसे बापके समयसे भीतर ही भीतर पकती क्रांतिका मुकाबिला करना पड़ा। वह इसके बारेमें कहता था—“पड़्यंत्रियों और पड़्यंत्री नेताओं के विरुद्ध (मेरा) युद्ध अत्यन्त क्रूर और निर्णयता-पूर्ण होगा। मैं उसके लिये कोई बात उठा नहीं रखूंगा। मेरा कांक्ष्य है, कि रूस और युरोपको इसके बारेमें शिक्षा दूं।”

उसने क्रांतिकारियोंको निर्मम होकर शिक्षा दी भी, जिसमें उसे इस बातका सुभीता था, कि क्रांतिकारी अभी नौसिखिये थे, अभी वह दृढ़तापूर्वक अपने कामपर डटे नहीं थे। क्रांतिकारियोंने २६ (१४) दिसम्बरको विद्रोह करनेका दिन निश्चित कर रक्खा था, जिस दिन कि नये जारके प्रति शपथ लेनी थी। उस दिन (२६ दिसम्बर १८२५) सबेरे दिसम्बरी अफसरों द्वारा संचालित रेजिमेंट सीनेट्के मैदानमें एकत्रित हुई, तीन हजारसे ऊपर विद्रोही सैनिक और नौसैनिक पीतर I के स्मारकके चारों ओर जमा हुये, लेकिन वह निष्क्रिय रहे, क्योंकि अभी विद्रोहके बारेमें क्रांतिके नेता अनिश्चित-से मालूम होते थे। अन्तिम क्षणमें क्रांतिका अधिनायक सेगेंड ब्रूबेत्स्की मैदानमें नहीं आया और विद्रोही बिना नेताके रह गये, जिसके कारण उनका संगठित बल खतम हो गया। निकोलाइ I कायर तो था ही, पहले वह हिचकिचाता रहा, लेकिन जब उसको विद्रोहियोंकी अवस्थाका पता लगा, तो अपने विश्वास-पात्र सैनिकों और तोपचियोंको बारह बजे मैदानमें भेजा। तमाशा देखनेके लिये कितने ही मजदूर, कारीगर और नगरके गरीब मैदानमें जमा हो गये थे। उस समय रूसका सबसे बड़ा गिर्जा ईसाइकी सबोर बन रहा था। मजदूरोंमें भी इतना जोश आ गया था, कि उन्होंने जारके सैनिकोंको अपने पास पड़े लकड़ीके कुंदों और डंडोंसे मारा। लेकिन मालूम हो गया, विद्रोही आक्रमण करनेके लिये तैयार नहीं हैं। किसी भी विद्रोहमें आक्रमणकी नीति सबसे लाभदायक होती है, क्योंकि उसमें थोड़ेसे भी आदमी बहुसंख्यक शत्रुको घबराहटमें डाल सकते हैं। जारके हुक्मपर सवारोंने आक्रमण किया। विद्रोही सैनिकोंने गोलियोंकी वर्षा करके उन्हें भगा दिया। गोलियोंके अतिरिक्त समझा-बुझाकर भी शांत करनेकी कोशिश की गई। आखिर किसी भी निरंकुश शासनकी आधारशिला सैनिक अफसर हैं। जब उनमें विद्रोहकी भावना पैदा हो गई, तो भविष्यके लिये क्या विश्वास किया जा सकता है? ईसाई संघराजने समझानेकी कोशिश की, लेकिन विद्रोही सैनिक उसकी बातको माननेके लिये तैयार नहीं थे। फिर पीतरबुर्गके महाराज्यपाल मिलोरदोजिचने जाकर समझानेका प्रयत्न किया, जिसमें उसे विद्रोही अफसर कखोस्कोने मरणासन्न घायल कर दिया। जारको आता देख उसके ऊपर भी सैनिकोंने बन्दूक दागीं। जार बहुत घबरा गया और उसको डर लगा, कि देर करनेमें शायद नगरके गरीब भी इस झगड़ेमें शामिल होकर लूट-मार करने लगें, इसलिये उसने तोप छोड़नेकी आज्ञा दी। सीनेट मैदान, नेवा नदीके बांध और सड़कोंमें चारों ओर लाशें बिछ गईं। नेवा बर्फ बनी हुई थी। रातके वक्त बर्फमें छेद करके बहुतसे हत और आहत लोगोंको उसके भीतर डालकर समुद्रकी ओर बहा दिया गया। विद्रोही नेताओंको पकड़ लिया गया।

इस प्रकार पीतरबुर्गमें दिसम्बर की क्रांतिको दबा दिया गया। उक्रइनमें चेनिगोफकी रेजिमेंटने भी १० जनवरी १८२६ ई० (पुराने पंचांगके अनुसार २९ दिसम्बर १८२५ ई०) को विद्रोह किया, लेकिन उसे भी दबा दिया गया। पेस्तेलको किसी विरुद्धाघातीने पकड़ा दिया था। सेगेंड मुराव्योफ-अपोस्तोलने वहां विद्रोहका नेतृत्व किया, लेकिन चेनिगोफने भी आक्रमण न करनेकी गलती की, जिससे वह जारशाहीको बहुत नुकसान नहीं पहुंचा सके। “संयुक्त स्लाव सम्मिलनी” के कुछ दृढ़ सदस्य चाहते थे, कि एक विद्रोही रेजिमेंट भेजकर क्रियेफ पर अधिकार कर लिया जाय। इसमें सुभीता भी था, क्योंकि क्रियेफमें छावनीकी पलटनमें विद्रोहसे सहानुभूति रखनेवाले काफी आदमी थे, लेकिन यहां भी नेताओंने डिलमिलयकीनीका प्रमाण दिया। निकोलाइ I ने विद्रोहको दबाकर विद्रोहियोंके प्रति क्रूरतापूर्वक बदला लेनेका काम शुरू किया।

२५ (१३) जुलाई १८२६ ई०में पांच विद्रोही नेताओं—पेस्टेल, कवि रिलेयेफ, काखोवस्की, मुराव्योफ-अपोस्तोल और बेस्तुजेफ-रयूमिनको फांसी दे दी गई। फांसी देते वक्त रिलेयेफ, काखोवस्की और मुराव्योफ-अपोस्तोलके गलेकी रस्सी टूट गई, जिसपर उन्हें दुबारा फांसी दी गई। बहुतसे विद्रोहियोंको कड़ी-कड़ी सजायें दी गईं, और कितनोंको साइबेरियामें आजीवन कालापानीका दंड देकर भेज दिया गया। सिपाहियोंको कितनी यातनायें दी गईं, इसका उदाहरण अनोइचेंको था, जिसे अदालतने बारह हजार बेंत लगानेकी सजा दी और बेंत खाते-खाते वह मर गया।

दिसम्बरका विद्रोह उच्चवर्ग-अमीरों-का विद्रोह था, उसमें साधारण जनताको शामिल करनेकी कोशिश नहीं की गई, और न ऐसा कोई तरीका इस्तिहार किया गया, जिससे जनसाधारण उस ओर खिंचता-भारतमें १८५७ ई०के विद्रोहमें भी कुछ ऐसाही हुआ था। इसीलिये विद्रोहके दबते देर नहीं हुई। लेनिनने उसके बारेमें लिखा था—“क्रांतिकारियोंका घेरा बहुत छोटा था। जनसाधारणसे उनका कोई संबंध नहीं था। लेकिन उनका काम व्यर्थ नहीं गया। दिसम्बरियोंकी असफलतासे पीछे रूसके क्रांतिकारियोंने शिक्षा ली। उसने प्रगतिशील मस्तिष्कोंमें गर्मी पैदा की, जिसने हर क्षेत्रमें क्रांतिके लिये जगह तैयार की।”

निकोलाइ I को राजकाज संभालते ही जिस तरहके खतरेका मुकाबिला करना पड़ा। वह दिलोदिमागसे कमजोर आदमी था। इसके कारण उसको हर जगह प्राणोंका भय मालूम होने लगा। उसने पुलिस-राज्य कायम करते हुये “तृतीय भाग” के नामसे एक राजनीतिक गुप्त पुलिसका संगठन किया। जैसे ही किसी सैनिक या असैनिक अफसर अथवा सरकारी नौकरपर संदेह होता, उसे नौकरीसे निकाल बाहर किया जाता। उसे शिक्षण-संस्थाओंसे भी भय था, क्योंकि सभी विद्रोही नेता नवशिक्षित थे। इसीलिये शिक्षण-संस्थाओंपर भी पुलिसकी निगाह रहने लगी।

पूँजीवादी विकास—चाहे इंगलैंड और फ्रांससे पीछे ही क्यों न हो, किन्तु पूँजीवादी उत्पादनके साधनों—कल-कारखानों—के विस्तारको किये बिना रूस सैनिक तौरसे कैसे सबल रह सकता था? पूँजीवादी नफेको देखकर कितने ही रूसी इस तरह झुके। इनमें काफी संख्या उनकी थी, जिन्होंने छोटे-छोटे व्यापारों या दस्तकारियों द्वारा पैसा जमा किया था। पूँजी कम रहनेके कारण अपने कारखानेको बढ़ाने और पूँजी जमा करनेके लिये काम भी वह मजूरोंके भीषण शोषण द्वारा करना चाहते थे। निकोल्स्कया फैंक्रीका स्वामी मोरोजोफ पहिले अर्धदास किसान था, जिसने १८२० ई० में जमींदारको क्षति-पूर्ति देकर मुक्ति प्राप्त की थी। फिर वह पशुपाल (चरवाहा), बादमें कोचमैन (कोचवान), फिर मिलमजदूर और दर्जीका काम करता रहा। बादमें उसने दूकान खोली और अन्तमें अपनी फैंक्री स्थापित की। १९ वीं शताब्दीके और भी कितने ही रूसी पूँजीपतियोंका यही इतिहास था। १९ वीं शताब्दी के पूर्वार्धमें पूँजीवादी ढंगके धातु-उद्योगका आरम्भ हुआ। यद्यपि उसकी प्रगति मंद रही। उक्रइनमें भी लोह-धून मिली, और वहां भी लोहा बनानेका काम शुरू हुआ था, पर मुख्य लौहकेंद्र एसिया सीमापर उराल रहा, जहांपर मजदूर बहुत सस्ते मिलते थे। १८३० ई०के बाद साइबेरियाकी सोनेकी खानोंमें—पहले पूर्वी साइबेरिया, येनिसेइ-उपत्यका और फिर प्रसिद्ध लेनाके सुवर्ण-क्षेत्रमें—काम शुरू हुआ। १८१५ ई०में रूसकी ४१८९ फैक्ट्रियों और मिलोंमें १७३ हजार मजदूर काम कर रहे थे, जब कि १८५८ ई०में क्रमशः उनकी संख्या १२२५९ और ५५९ हजार हो गई। १८४० ई०के बाद ही वाष्पचालित मशीनोंका उपयोग होने लगा, जिन्हें रूसी उद्योगपति इंगलैंड और दूसरे देशोंसे मंगाते थे। १८३५ ई० में इस कामके लिये जितनी मशीनें मंगाई गई थीं, पचीस साल बाद १८६० ई०में वह उनसे पच्चीस गुना अधिक मंगाई जाने लगीं। अभी तक किसानोंकी अर्धदासता बंद करनेका प्रयत्न आदर्शवादी भावुकतासे प्रेरित होकर किया जाता था, लेकिन अब अर्धदासताका सबसे बड़ा शत्रु औद्योगिक पूँजीवाद आ गया था, जिसको गैरजिम्मेदार अर्धदास मजूरों की नहीं, बल्कि मजूरीके लिये अपनेको बेचनेवाले कुशल कारीगरोंकी जरूरत थी। इसलिये अर्धदासताके विरुद्ध कानून पास करनेसे बहुत पहले ही अर्धदास किसान कारखानोंमें भाग-भागकर मजदूर बनते जा रहे थे।

यातायातका सुभीता पूँजीवादके लिये सबसे आवश्यक चीज है, क्योंकि तभी माल एक जगहसे दूसरी जगह सस्तेमें भेजा जा सकता है। अंग्रेज नहीं, बल्कि एक रूसीने सबसे पहले रेल-इंजन बनाया

था, लेकिन सामन्तशाही रूसमें उसकी कदर नहीं हुई। इंगलैंडने पहले उससे फायदा उठाया। उसने १८२५ ई० में अपनी पहली रेल बनाई, जिसके बीस वर्ष बाद कलकत्तासे पश्चिमकी ओर रेलकी पटरियां ही नहीं बिछीं, बल्कि १८४५ ई० में भारतमें रेलोंके कामके लिये ईस्ट इंडिया रेलवे-कम्पनीकी स्थापना की गई, और १५ अगस्त १८५४ ई० में हवड़ा और हुगलीके बीच रेलका यातायात शुरू हो गया। रूसमें पीतरबुर्ग और जास्कोयेसेलो (आधुनिक पुश्किन) के बीच पहली रेलवे लाइन १८३७ ई० में बनी, जिसके लिये सारा सामान इंगलैंड से आया था। सबसे पहली महत्वपूर्ण रेलवे लाइन पीतरबुर्ग और मास्कोकी थी, जो नौ वर्षमें बनकर १८५१ ई० में यात्राके लिये खोल दी गई। तब भी रूसमें रेलोंके प्रसारकी गति बहुत मंद ही रही। १८५५ ई० में रूसी रेलें फ्रांसकी रेलवे लाइनों का पंचमांश और जर्मन रेलोंका षष्ठांश ही थीं। अब भापके इंजन और भापसे चलनेवाले जहाजों के महत्वको उपेक्षित नहीं किया जा सकता था, इसलिये रूसमें वाष्पचालित जहाजों के बनानेके कारखाने भी स्थापित हुये। सैनिक हथियार और शक्ति तो लोहेके ऊपर निर्भर करती है, इसलिये उसके उत्पादनकी तरफ जारशाहीका ध्यान जाना जरूरी था। १८ वीं शताब्दीके अन्तमें रूस और इंगलैंड दोनों ही अस्सी लाख पूद (१ पूद=३६ पौंड=१८ सेर) लोहा पैदा करते थे, लेकिन १९ वीं सदीके पूर्वार्धमें जब कि रूसने अपनी लोहेकी उपजको दुगुना ही कर पाया था, इंगलैंडमें १८५९ ई०में कच्चे लोहेकी उपज तीस गुना (२३४० लाख पूद) हो गई थी।

निकोलाइ I के शासनकालमें विद्रोहोंकी कमी नहीं रही। पोलोंने रूसी शासनके विरुद्ध १८३०-३१ ई०में विद्रोह किया था। वहांसे विद्रोहकी लहर बेलोरूसिया, उक्रइन और लिथुवानियामें फैली। उक्रइनमें इस विद्रोहने किसानोंके विद्रोहका रूप लिया। १८२६-३४ ई०में १४५ विद्रोह हुये थे, जब कि १८४५-५४ ई०में उनकी संख्या ३४८ हो गई। जारशाही अत्याचारोंके मारे कभी-कभी सारे किसान अपने गांवको छोड़कर भाग जाते थे।

ईरान (१८२६-२८ ई०) और तुर्की-युद्ध (१८२७-२९ ई०)—रूसके खिलाफ ईरान और तुर्कीको उकसाना इंगलैंड और फ्रांसकी नीति हो गई थी, और उधर जारशाही भी अपने राज्य-विस्तारके लिये इन देशोंकी ओर हाथ बढ़ा रही थी, इसलिये युद्ध होना स्वाभाविक ही था। १८२६ ई० की गमियोंमें रूसके काकेशसमें बढ़ावको देखकर ईरानने लड़ाई शुरू कर दी। ईरानी सेनाने आजु-बाइजानको लेकर दागिस्तान और चेचनपर धावा किया, लेकिन १८२७ ई० के वसंतमें रूसी सेनाने ईरानियोंको हरा दिया। १८२८ ई० के जाड़ोंतक ईरानको नखचेवान और येरिवानके इलाकोंसे भी हाथ धोकर संधि करनी पड़ी। इसी समय रूस पश्चिमी काकेशसके लिये तुर्कीसे भी लड़ रहा था। निकोलाइ I तो कान्स्तान्तिनोपल और दरेदानियलपर भी अपना झंडा गाड़ना चाहता था। यद्यपि रूसके आक्रमणोंका वह फल नहीं हुआ, जो कि निकोलाइ चाहता था, तब भी १८२९ ई०की संधिके अनुसार कालासागरके सारे काकेशस-तटको रूसने ले लिया, और केवल बातू अब तुर्कीके पास रह गया।

शामिलका विद्रोह—काकेशसमें यद्यपि ईरान और तुर्कीको रूसियोंने दबा दिया, लेकिन वहांके वीर पहाड़ियोंने आसानीसे जारके शासनको नहीं स्वीकार किया। इमाम काजी मुल्लाने १८३२ ई०में ईसाइयोंके खिलाफ मुरीदवादके नामसे मशहूर एक सम्प्रदाय स्थापित किया। आरम्भमें यह एक धार्मिक सम्प्रदाय था, जिसने काफिरोंके शासनके स्थापित होनेपर राजनीतिक रूप ले लिया। काजी मुल्लाने स्वयं अपने अनुयायियोंको लेकर रूसी सेनापर जहां-तहां आक्रमण किया। उसके मरनेपर उसका चेला शामिल नेता हुआ, जिसने १८३४ से १८५९ ई०के पच्चीस वर्षोंमें काकेशसमें जारशाही अफसरोंको नाकों चने चबवाये। शामिल बड़ा ही बहादुर और चतुर नेता था। उसने मुरीदोंका संगठन बहुत मजबूत किया। काकेशसकी दुर्गम पहाड़ियोंसे लाभ उठाकर वह रूसियोंके ऊपर आक्रमण करता रहा। पांच वर्षके संघर्षके बाद अगस्त १८३९ ई० में दागिस्तानके अपने केंद्रको छोड़कर उसने चेचनके दुर्गम पहाड़ियोंका आश्रय लिया। काकेशसके बेग और खान पहले ही जारशाहीके गुलाम बन चुके थे, इसलिये शामिलने उनके खिलाफ भी लड़ाई जारी रखते साधारण पहाड़ियोंको अपनी ओर खींचा। १८५९ ई० में दागिस्तानके गुनिब किलेमें शामिलने अन्तिम बार रूसियोंका मुका

बिला किया। २५ अगस्त १८५९ ई०को रूसी सेनापतिने खबर भेजी—“गूनिब हाथमें आ गया, शामिल बंदी कर लिया गया।” शामिलको पकड़कर पीतरबुर्ग भेज दिया गया, जहाँसे उसे ले जाकर कलुगामें बसा दिया गया। पीछे वह हजके लिये मदीना जा वहीं मरा। काकेशसके मुस्लिम-प्रधान इलाकोंमें जारशाहीको चैनसे शासन करनेका मौका नहीं मिल सकता था, इसलिये एक ओर जहाँ जारशाही अत्याचारके कारण वार्शिदे अपना गांव और देश छोड़कर भागते जाते थे, या उन्हें खास-खास जगहों से हटाया जाता था, तो दूसरी ओर रूसी किसानों और कसाकोंको ले जाकर उत्तरी काकेशसमें बसाया जाता था।

मध्य-एशियाकी रियासतें—आगे हम बतलायेंगे, कि कैसे १८ वीं शताब्दीके अन्तमें पश्चिमी मध्य-एशियामें खीवा, बुखारा और खोकन्दकी तीन रियासतें कायम हो गईं। इन्हीं तीनों रियासतोंकी भूमिपर आगे चलकर उज्बेक, ताजिक, किर्गिज और तुर्कमान गणराज्य बने। तुर्कमानोंकी भूमिको नादिर-शाहके समयसे ही ईरानके अधीन माना जाता था। तुर्कमान घुमन्तू समय-समयपर बुखारा, अफगानिस्तान और ईरानके भीतर भी जाकर लूट-मार किया करते थे। ये तीनों रियासतें भी आपसमें लड़ती रहती थीं। १९ वीं शताब्दीके आरम्भमें खोकन्दका खान ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, जब कि उसने ताशकन्द जैसे एक बड़े ही महत्वपूर्ण व्यापारिक और सैनिक केंद्रको अपने हाथमें कर लिया। ताशकन्दको ले लेनेके बाद कजाकों और किर्गिजोंकी बहुतसी भूमिको भी खोकन्दने ले लिया। खोकन्दियोंने इस भूमिमें जहाँ बहुतसे सैनिक महत्वके किले बनवाये, वहाँ लोगोंको पक्का मुसलमान बना अपनी ओर खींचनेके लिये भिन्न-भिन्न जगहोंपर कितने ही मदरसे भी स्थापित किये। अकमेचेत (श्वेत-मस्जिद), औलियाअता विशेषकर इसी समय महत्वपूर्ण नगर बने। १९ वीं सदीके दूसरे पादमें पहुंचते-पहुंचते खोकन्द मध्य-एशियाका सबसे बड़ा राज्य हो गया। वह पश्चिमी चीन और पामीरसे निम्न सिर-दरिया तक फैला हुआ था।

खीवाने भी खोकन्दकी तरह कजाकों, तुर्कमानों और करकल्पकोंकी भूमिपर अधिकार करके १९ वीं सदीके आरम्भमें अपनी सीमाका काफी विस्तार कर लिया था। खोकन्द और खीवाके बीचमें बुखाराका खान था, जिसके हाथमें पहले तुर्किस्तान (निम्न और मध्य सिर-उपत्यका) था, लेकिन खोकन्दने उसे छीन लिया। बुखाराके नीचे रहनेवाले तुर्कमानोंमेंसे कितनोंको खीवाने ले लिया था। इस प्रकार बुखारा उतना शक्तिशाली नहीं था, तो भी शताब्दियोंसे बुखारा इस्लामिक संस्कृतिका केंद्र चला आया था, और वहाँकी दस्तकारी और शिल्पकी बड़ी धाक थी, जिसके द्वारा उसे व्यापारमें काफी नफा रहता था। इन रियासतोंके खान (राजा) और बड़े अमीर अधिकतर उज्बेक थे, उनके बाद मुल्लाओं और खोजों (संतों) का प्रभाव ज्यादा था।

कजाकोंके बारेमें लिखते हुये हम बतला चुके हैं, कि १९वीं सदीके पूर्वार्धमें उनके लघु, मध्य और महा-ओर्दूके नामसे तीन ओर्दू थे। १८वीं सदीके पूर्वार्धमें ही लघु और मध्य-ओर्दूने रूसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, और १८२० ई० के आसपास रूसी प्रवासी भी इनकी भूमिमें जगह-जगह बसने लगे थे। १८३५-३७ ई०में ओरेनबुर्गके महाराज्यपाल व० अ० पेरोव्स्कीने ओर्स्क और त्रौयत्स्कके बीचमें किलोंकी पंक्ति बना करके जंगल और चरागाहकी दस हजार वर्ग किलोमीटर बड़ी अच्छी भूमि कजाकोंसे छीन ली, जिसके बाद कजाकोंने विद्रोह किया, इसे हम पहले बतला चुके हैं।

१८४५ ई० में दशकजाकके गर्भमें जारशाहीने नई किलाबंदियां तैयार कीं। कजाक लोग सुल्तान केनेसरी कासिमोफके नेतृत्वमें रूसी बस्तियोंपर आक्रमण करते आगे-पीछे हटते जा रहे थे। कासिमोफका पीछा करते रूसी सेना इली नदीकी ओर बढ़ी। अब रूसियोंको उनका रास्ता अल्ताई और त्यान्शानमें चीनी सीमाके पास ले जा रहा था। सबसे पहले रूसियोंका ध्यान खीवाकी ओर गया। यह मालूम ही है, कि खीवा (ख्वारेज्म) बहुत पुराने समयसे रूसके व्यापारकी एक मुख्य शृंखला थी। खीवामें भी १९ वीं सदीके पूर्वार्धमें बड़ी अव्यवस्था थी, जिससे रूसियोंको आगे बढ़नेका बहाना और सुभीता मिल गया। महाराज्यपाल पेरोव्स्कीने एक छोटीसी सेनाको लेकर १८३९ ई०की शरदमें ओरेनबुर्गसे खीवाके विरुद्ध अभियान किया। इस सेनामें कसाक, बाशकिर और कितने ही कजाक सवार भी थे। प्रंद्रह हजार ऊंटोंपर सेनाके लिये रसद चल रही थी। पहला

अभियान सफल नहीं हुआ। बर्फानी तूफान और सशक्त सर्दीने बहुतसे घोड़ों और ऊंटोंको मार डाला, जिसपर पेट्रोव्स्कीको पीछे हटना पड़ा। इस असफलताके बाद पेट्रोव्स्कीने अपने इरादोंको छोड़ा नहीं, बल्कि दक्षिणकिर्गिजकी तरफसे बढ़नेका निश्चय किया। भूमिके बारेमें पता लगाया, पानीके लिये क्यूँ तैयार किये, जगह-जगह किलें बनाये। इस तरह रास्तेको सुरक्षित करनेकी कोशिश की। सिर-दरियाके ऊपर अरात्स्काका किला बनाकर वहां (अराल समुद्रके तटपर) रूसी किसानोंकी बस्तियां बसा दी गईं। यही नहीं, बल्कि वाष्पचालित अग्निबोट भी अराल समुद्र और सिर-दरियाके भीतर चलने लगे। इस तरह ओरेनबुर्ग और अराल समुद्रके बीचके रास्तेको यातायातके लिये सुरक्षित कर दिया गया। इतनी तैयारीके बाद १८५३ ई०के वसंतमें पेट्रोव्स्की एक बड़ी सेनाके साथ सिर-दरियाके द्वारा ऊपरकी ओर बढ़ा, और खोकन्दकी राज्यसीमाके भीतर जाकर उसने अकमेचित किलेको घेर लिया। रूसियोंके सामने खोकन्दी कितने दिनों तक ठहरते? अकमेचित पेट्रोव्स्कीके हाथमें आई। उसने सिर-दरियाके ऊपर पांच नये किले बनवाये। रूसियोंने पिशपेक, तोकमक आदि कितने ही नगरोंको ले लिया। ये किले किर्गिजस्तानकी चूइस्क-उपत्यकोंमें थीं, जिनके शासक यद्यपि खोकन्दी थे, लेकिन निवासी किर्गिज थे। इसी समय किर्गिजोंको पश्चिमके नये स्वामियोंसे वास्ता पड़ा। तो भी वह १८७० ई०से पहले पूरी तौरसे रूसियोंके अधीन नहीं हो पाये थे। उधर साइबेरियाकी तरफ बढ़ते हुये १८५४ ई०में रूसी वैनोयके किलेको बनानेमें सफल हुये, जहांपर पीछे वेर्नी (आधुनिक अल्माअता) नगर की स्थापना हुई।

इतना कर लेनेके बाद १८५४ ई०में अब फिर पेट्रोव्स्की खीवाके खिलाफ चला। खानको संधि के सिवा और कोई रास्ता नहीं दिखलाई पड़ा, और उसने रूसियोंके पास अपना दूत भेजकर जारकी अधीनता स्वीकार कर खीवामें व्यापार करनेकी रियायतें प्रदान कीं। निकोलाइ I के शासनके अन्तिम वर्षोंतक कजाक और किर्गिजके दस्त (स्तेपी) पूर्णतया रूसियोंके हाथमें हो गये, और सिर-दरियासे लेकर अल्ताइके उत्तरमें सेमीप्लातिन्स्क तक जगह-जगह रूसी किले बना दिये गये। खीवाका खान अब रूसके अधीन था तथा खोकन्द और बुखाराके खान अब खीवाका अनुसरण करनेके लिये प्रतीक्षा कर रहे थे।

निकोलाइ I के शासनकाल ही में फरवरी १८४८ ई०में पेरिसमें क्रांति हुई। यद्यपि यह प्रथम क्रांति जितनी सबल नहीं थी, लेकिन इसने जारके दिमागमें खलबली जरूर पैदा कर दी। निकोलाइ उस समय नाचमें था, जब कि उसे इसकी खबर मिली। वह गुस्सेमें पागल होकर अपने दरबारियोंसे बोल उठा—“भद्र पुरुषो, अपने-अपने घोड़ोंको कस लो, पेरिसमें क्रांति हो गई है।” पेरिसकी इस क्रांतिके समय ही वीना-आस्ट्रियामें भी क्रांति हो गई। दूसरी जगहोंपर भी उसका प्रभाव पड़ रहा था। निकोलाइने इतालीके राष्ट्रीय स्वतंत्रता-आन्दोलनको दबानेके लिये साठ लाख रूबल दिये। लेकिन निकोलाइको क्या पता था, कि उसी समय एक ऐसी सबल जवाला तैयार की जा रही है, जिसका शिकार सबसे पहले रूस और उसका पोता निकोलाइ II होनेवाला है? पेरिसकी इसी क्रांतिके समय मार्क्स अपने क्रांतिकारी कार्यक्षेत्रमें प्रविष्ट हो चुके थे। उन्होंने उस सिद्धान्त और उस सैनिक कौशलका भी पता लगा लिया था, जिसके द्वारा विश्वमें सहस्राब्दियोंसे चला आता मुट्ठीभर धनियोंका राज्य खतम होकर उनकी जगह सर्वहाराओंके नेतृत्वमें बहुजनका शासन स्थापित होनेवाला था। कार्ल मार्क्सने पेरिसकी इस द्वितीय क्रांतिके एक साल पहले १८४७ ई० में प्रथम कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्ट लीगके नाम से संगठित किया था। उसीके लिये मार्क्स और उनके साथी एंगल्सने “कम्युनिस्ट पार्टीकी घोषणा” तैयार करके १८४८ ई० में प्रकाशित की थी। निकोलाइको दुनियाके सबसे अधिक शक्तिशाली क्रांतिके हथियार इस “घोषणाके” बलका पता नहीं था। वह नहीं समझता था, कि उसके दरबारी घोड़ोंको कितना ही कसें, वह घोषणाके पथको रोक नहीं सकेंगे। पेरिसकी द्वितीय क्रांतिके बाद लायोंस कोसुवके नेतृत्वमें मग्यार (हंगरी) की जनताने आस्ट्रियाके सामन्ती शासनके विरुद्ध विद्रोह किया। निकोलाइने एक लाख चालीस हजार सेना लेकर अपने सेनापति पस्केविचको उसे दबानेके लिये भेजा, और १८४९ ई०में विद्रोही मग्यारोंकी तेईस हजार सेनाने आत्म-समर्पण किया। रूस अब सिद्ध कर रहा था, कि प्रुशिया हो या आस्ट्रिया, फ्रांस हो या इताली, सभी जगह क्रांतिको दबानेका सबसे जबर्दस्त

साधन निरंकुश जारशाही है, इसीलिये तो नहीं क्रांतिन सबसे पहले रूसके जारको ही खतम किया ?

निकोलाइको अपने शासनके अन्तिम कालमें क्रिमियाका युद्ध (१८५३-५६ ई०) देखना पड़ा। इस युद्धके लिये भी फ्रांस और इंगलैंडने तुर्की सुल्तानको उकसाया था, लेकिन उसके आरम्भ करनेका मौका निकोलाइने दिया। फिलस्तीन उस समय तुर्कीके हाथमें था, जिसके कारण ईसाइयोंके योरोशिलम आदि तीर्थस्थान भी सुल्तानके अधीन थे। १८५३ ई०में एक विशेष दूतमंडल कान्स्तान्तिनोपल भेजकर निकोलाइने सुल्तानसे मांग की, कि फिलस्तीनके बेटलहेमके मंदिरकी कुंजी रखनेका अधिकार रूसी चर्चको दिया जाय, लेकिन फ्रांस और तुर्कीके बीच जो संधि हुई थी, उसके अनुसार यह अधिकार कैथलिक चर्चको मिला था। सुल्तान जानता था, कि इस बातमें फ्रांस और इंगलैंड हमारे समर्थक होंगे, इसलिये उसने रूसकी बात माननेसे इन्कार कर दिया। दोनों देशोंका दौत्य संबंध तोड़ दिया गया, और जून १८५३ ई०में अस्सी हजार रूसी सेना तुर्कीकी ओर अभियान करते मोल्दाविया और वलाचियामें दाखिल हुई। समझौतेकी कोशिश की गई, लेकिन उसमें सफलता नहीं हुई। तुर्की सेनाने कालासागरके पूर्वी और पश्चिमी तटोंपरसे होकर आक्रमण शुरू किया। सबसे पहला जबर्दस्त संघर्ष कालासागरके दक्षिणी किनारेपर अवस्थित सीनोपमें हुआ। नवम्बर १८५३ ई०में रूसी नौसेनापति नखिमोफने एकाएक वहां आक्रमण करके तुर्कीके जंगी बेड़ेको नष्ट कर दिया। अब इंगलैंड-फ्रांस और अधिक पर्वकी आड़में शिकार नहीं कर सकते थे, इसलिये वह सीधे मैदानमें कूद पड़े। प्रुशिया और आस्ट्रियाने भी गाढ़के समय रूसका पक्ष छोड़ दिया। रूसको इंगलैंड और फ्रांसके मजबूत जंगी बेड़ेका मुकाबिला करना था, जो उसकी अपेक्षा कहीं अधिक सबल था। १ अप्रैल १८५४ ई० को फ्रांस और इंगलैंडके जंगी बेड़ेने अदेस्सा नगरपर बम वर्षा की। यही नहीं, उन्होंने उससे बहुत दूर उत्तर श्वेत-सागरके किनारेके रूसी नगर सोलोवेत्स्कपर जहां गोलाबारी की, वहां प्रशान्त महासागरके कामचत्का प्रायद्वीपमें पेत्रोपावलोव्स्क नगरको भी तोपोंका निशाना बनाया। सबसे अधिक संघर्ष हुआ कालासागरमें। सितम्बर १८५४ ई०के आरम्भमें अंग्रेज और फ्रेंच नौसैनिक सेवस्तापोलको पीछेसे लेनेके लिये समुद्र-तटपर उतरे। सेवस्तापोलने बड़ा जबर्दस्त मुकाबिला किया। यद्यपि अन्तमें जीत उन्हींकी हुई, लेकिन एक अंग्रेज कमांडरने इस विजयके बारेमें कहा था—“यदि इस तरहकी एक और विजय प्राप्त हुई, तो इंगलैंडके पास कोई सेना नहीं रह जायेगी।” सेवस्तापोलने ग्यारह महीनेतक बड़ा जबर्दस्त प्रतिरोध किया था। इसी समय फरवरी १८५५ ई०में निकोलाइ I मर गया। सेवस्तापोलके प्रतिरोधमें भाग लेनेवाले रूसी अफसरोंमें महान् साहित्यकार लेव ताल्स्त्वा (तालस्ताय) भी था, जिसने “सेवस्तापोलकी कथायें” को लिखकर इस समयकी रूसियोंकी वीरताका बड़ा सुंदर चित्र खींचा है। इसी समय दाशा सेवस्तापोल्स्कयाने दुनियामें पहिली बार युद्धके घायलोंमें नर्सका काम किया था। अंग्रेज इसका श्रेय फ्लोरेन्स नाइटिंगलको देते हैं। इसी प्रतिरोधमें अदमिरल नखीमोफ मारा गया। ३४९ दिन तक भारी मुकाबिला करनेके बाद सेवस्तापोलकी सभी चीजोंको नष्ट करते तथा अपने सभी पोतोंको डुबाते रूसियोंने सिर्फ खंडहरोंको शत्रुओंके हाथमें जाने दिया।

निकोलाइके मरनेके बाद १८५६ ई०में पेरिसमें संधि हुई। अंग्रेज और फ्रेंच विजयी हुये थे, लेकिन वहांके शासक भली प्रकार जानते थे, कि हमारे विरुद्ध होनेवाली जबर्दस्त क्रांतियोंमें जार ही हमारा सबसे बड़ा सहायक होता आया है, इसलिये वह कब पसंद करते, कि जारशाही रूसको अधिक निर्बल कर दिया जाय? तो भी रूसको कालासागरमें अपने जंगी बेड़े या तट-भूमिपर किले रखनेके अधिकारसे वंचित कर दिया गया। तुर्की साम्राज्यकी रक्षाकी जिम्मेवारी ले ली गई, और रूस और तुर्कीकी पुरानी सीमायें कायम रखी गईं। सविया, मोल्दाविया और वलाचियाको युरोपियन शक्तियोंके संरक्षणमें दे दिया गया। दरदानियल और कालासागरमें सभीको व्यापार करनेका समानाधिकार मिला। क्रिमियाके युद्धमें असफल होकर रूसने युरोपकी राजनीतिमें कायम की हुई अपनी प्रधानताको खो दिया, और अब उसका स्थान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमें वह नहीं रह गया, जो कि १८१५ ई०से १८५३ ई० तक था।

साइबेरिया में प्रसार—साइबेरियामें रूसी शक्तिके प्रधान प्रसारक और संस्थापक यर्मक और खबारोफके बारेमें हम पहले कह चुके हैं। मुरावेफ तीसरा और अन्तिम पुरुष था, जिसने साइबे-

रियामें जारशाहीकी शक्तिको बढ़ाने और मजबूत करनेमें काम किया। ६ सितम्बर १८४७ ई० को जार निकोलाइ तुलाकी ओर गया हुआ था, जहाँ उसने तरुण मुरावेफको साइबेरियाका राज्यपाल नियुक्त किया। इसके बादके कितने ही वर्षोंका साइबेरियाका इतिहास मुरावेफके कामोंका लेखा है। इस समय रूसी नौसेना-मंत्रालय अखोत्स्क समुद्रके दक्षिणी छोरपर तुंगरकी खाड़ीमें एक नया बंदर-गाह बनाना चाहता था। मुरावेफने उसे ठीक नहीं समझा और उसने सुझाव रक्खा, कि ऐसे बंदरकी स्थापनाके लिये नेवेल्स्कीके नेतृत्वमें आमूरकी खोज-पड़ताल की जानी चाहिये। १८४९ ई० में इसपर विचार करनेके लिये जारने एक समिति नियुक्त की, लेकिन इससे पहले ही छ हथियारबंद नौसैनिक, एक तोपके साथ एक नावपर आमूरकी जांच-पड़तालके लिये चल पड़े थे, जिन्होंने आमूरके मुहानेसे २५ वस्त (४ फर्सख) पर जारके नामसे निकोलायेव्स्क नामका एक बन्दरगाह स्थापित किया, और ६ अगस्त १८४९ ई०को पड़ोसके गिलियक लोगोंके सामने रूसी झंडा गाड़कर एक पौंड-वाली तोपका गोला दागा। नेवेल्स्कीने जल्दी-जल्दी स्वयं पहुंचकर इस बातकी सूचना मुरावेफको दी। मुरावेफने तुरंत इसकी खबर राजधानीमें भेजी। जब इस कामके लिये नियुक्त समितिके सामने यह बात आई, तो उसने बिना आज्ञाके ऐसा करनेका बहुत विरोध किया, और नेवेल्स्कीको कठोर दंड देनेपर जोर देते तुरंत वहांसे हट आनेकी सिफारिश की, लेकिन मुरावेफने इसका विरोध किया। जब यह बात जारके पास निर्णयके लिये पहुंची, तो उसने समितिकी बात माननेसे इन्कार कर दिया, और कहा—“जब एक बार रूसी झंडा गाड़ दिया गया, तो फिर उसे नीचे नहीं उतारा जा सकता।” युद्ध-मंत्रालय पसंद नहीं करता था, कि सुदूर-पूर्व साइबेरियामें बड़ी सेना रक्खी जाय। इस समस्याका हल मुरावेफने आसानीसे कर दिया। उसने नेचिन्स्कके रूसी किसानोंको कसाक सैनिकोंके रूपमें परिणत कर दिया, और इस प्रकार पूर्वी साइबेरियाके लिये एक सुसंगठित सेना मिल गई। यदि साइबेरियामें जंगल-जगह रूसियोंकी बस्तियां कायम न हुई होतीं, तो मुरावेफको यह सुभीता न मिलता।

नेवेल्स्कीको दंड क्यों मिलने लगा? वह फिर सुदूर-पूर्वमें अपना काम करने लगा। १८५२ ई० में प्रशान्त महासागरके भीतर सखालिन द्वीपकी उसने जांच-पड़ताल की, और सखालिनके देकास्त्री और किजी नामके द्वीपोंको अपनी जिम्मेवारीपर दखल कर लिया। ये दोनों द्वीप तारतारी खाड़ीके लिये बड़े सैनिक महत्वके थे। नेवेल्स्कीने पीयारकोफ या खबारोफकी नीतिको छोड़कर देशवासियोंको अपने अच्छे बर्तावसे जीतनेकी कोशिश की, जिसमें उसे बहुत सफलता मिली।

२२ अप्रैल १८५३ ई०को एक सम्मेलन हुआ, जिसमें मुरावेफने प्रस्ताव किया, कि आमूरके बारेमें चीनसे फैसला कर डालना चाहिये। अभी यह बात विचाराधीन ही थी, और इसमें मुरावेफके विरोधी कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन इसी बीचमें रूस और तुर्कीके बीच १८५३ ई०में क्रिमियाका युद्ध छिड़ गया, जिससे सरकारका सारा ध्यान उधर हो गया, और मुरावेफको पूर्वमें खुल खेलनेका मौका मिल गया। तुर्कीके साथके युद्धमें यूरोपमें रूसको बड़ी बुरी तरहसे हारना पड़ा, लेकिन इसी समय प्रशान्त महासागरके तटपर उसे भारी विजय प्राप्त हुई। इस सफलताकी खबर सुनकर निकोलाइ इतना प्रसन्न हुआ, कि ११ जून १८५४ ई०को उसने आदेश दिया, कि सुदूर-पूर्वके सीमांतके सबालोंके बारेमें मुरावेफ सीधे पेकिङ्ग सरकारसे बातचीत कर इन्हें हल करे। इस अधिकारको प्राप्त करके मुरावेफने अब फिर सुदूर-पूर्वमें अपने कामको नये जोशसे आरम्भ किया, जिसका ही परिणाम था, आमूरका प्रथम प्रसिद्ध अभियान। नावोंके बेड़ेको लेकर आगे बढ़नेसे पहले मुरावेफने पेकिङ्गको इस बातकी सूचना दे दी थी, और उसने कारण बतलाते हुये कहा था, कि यूरोपके युद्धके कारण प्रशान्त महासागरकी अपनी अधिकृत-भूमिकी रक्षाके लिये हमें ऐसा करना आवश्यक पड़ रहा है। १४ मई १८५४ ई० को मुरावेफ आठ सौ सैनिकोंकी एक बटालियन, कुछ कसाक सैनिक, एक पहाड़ी तोपखाना, पचहत्तर नावोंके बेड़ेके साथ नौसैनिक जहाज “अरगून” के साथ रवाना हुआ। अठ्ठाइसवें दिन मुरावेफ चीनियोंके दुर्गबद्ध नगर ऐगुनमें पहुंचा। यहां उसने स्थानीय चीनी अधिकारियोंसे यह पता लगानेके लिये अपने आदमी भेजे कि उनके पास पेकिङ्गसे कोई हुक्म आया है, या नहीं। वहां कोई हुक्म नहीं आया था, और न स्थानीय चीनी अधिकारीके पास इतनी शक्ति थी, कि मुरावेफको रोकता। मुरावेफ बिना किसी विरोधके आमूर नदीमें आगे बढ़ता प्रशान्त महासागरमें पहुंचा, फिर काम्स्वत्काके

पेत्रोपावलोव्स्कीमें पहुंचकर फ्रेंच और अंग्रेजी नौसनासे सुरक्षित रखनेके लिये उसकी किलाबंदी शुरू की। मुरावेफको इसमें सफलता हुई, और शत्रुओंको असफल लौट जाना पड़ा।

सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रगति—निकोलाइ जैसे अयोग्य और अल्पपठित अल्प-संस्कृत शासकके समय रूसको बड़ी-बड़ी प्रतिभाओंके पैदा करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी समय हेर्जन (१८१२-७० ई०), बेलिन्स्की (१८११-४८ ई०) जैसे विचारक, लोबाचेव्स्की (१७९३-१८५६ ई०) जैसे विज्ञानवेत्ता और रिलेयेफ, पुष्किन, ग्रिबोयदेफ, लेमन्तोफ (१८१४-४१), वेनेवितिनोफ, कोल्टसोफ, बेलिन्स्की, बरातिन्स्की जैसे प्रतिभाशाली कवि और साहित्यकार पैदा हुये, जिन्होंने उस पृष्ठभूमिको तैयार किया, जिसने रूसको बौद्धिक क्षेत्रमें महान् बनाया। यदि निकोलाइ क्रांतिको फूटी आंखों भी नहीं देखना चाहता था, तो उससे क्या, रूसकी इन प्रतिभाओंने क्रांतिके मार्गको साफ करनेका काम शुरू किया। जहां रूसी शिक्षामंत्री उबारोफ (१८३३-४९ ई०) इस बातका दावा कर रहा था, कि रूसी लोग स्वाभाविक तौरसे धार्मिक हैं, वह सदासे जारके भक्त रहते आये हैं और किसानोंकी अर्धदासताको वह बिल्कुल प्राकृतिक मानते हैं; वहां अलेक्सान्द्र इवान-पुत्र हेर्जन दूसरे ही विचारोंका प्रचार कर रहा था।

हेर्जन (१८१२-७० ई०)—हेर्जनने दिसम्बरी वीरोंकी कुर्बानीका प्रभाव अपने ऊपर स्वीकार करते हुये लिखा था—“पेस्तेल और उसके सहयोगियोंकी हत्याने अन्तमें अपनी बचपनकी नींदसे मेरी आत्माको जागृत किया।” हेर्जन १८१२ ई०में एक धनी रूसी जमींदारके घर पैदा हुआ था। उसके बापने एक जर्मन स्त्रीसे शादी की थी, लेकिन शादी वैधानिक नहीं हुई थी, इसलिये हेर्जनको बापका कुलनाम कोबलेफ नहीं प्राप्त हुआ और उसे एक साधारण-सा नाम हेर्जन (हेर्ज, जर्मनमें हृदय) मिला। हेर्जन मस्तिष्कके साथ बड़ा ही सहृदय पुरुष था। हेर्जनके पिताके पास फ्रेंच और जर्मन पुस्तकोंका बहुत अच्छा संग्रह था। उसने अपने फ्रेंच अध्यापकसे फ्रेंच क्रांति और गणराज्यके प्रति सम्मान करना सीखा। रिलेयेफकी कविता “ध्यान” से वह उसी वक्त प्रभावित हुआ था। वही रिलेयेफ जब फांसीपर लटका दिया गया, तो हेर्जनके ऊपर उसकी सदाके लिये अमिट छाप पड़ गई। हेर्जन अपने क्रांतिकारी विचारोंको लेकर ज्यादा दिनोंतक निकोलाइके राज्यमें नहीं रह सकता था। १८४७ ई०में वह देशसे बाहर गया, और क्रांतिकारी फ्रांस और इटालीको अपनी आंखों देखा। १८४८ ई०की क्रांतिके समय हेर्जन पेरिसमें था। पश्चिमी युरोपमें क्रांतिकी असफलताको देखकर हेर्जन निराश हुआ, और उसे आशा बंधी, कि शायद रूसी किसान क्रांतिको सफल बनायें। इस प्रकार उसने किसानोंके समाजवादका स्वप्न देखना शुरू किया। हेर्जन कार्ल मार्क्सका समकालीन था। मार्क्सकी तरह ही उसे भी अपनी जन्मभूमिसे भागकर मारा-मारा फिरना पड़ा, और अन्तमें उन्हींकी तरह उसने लंदनमें अपना डेरा डाला। १८५३ ई० में उसने वहां “स्वतंत्र रूसी प्रेस” की स्थापना की, जिससे अपनी क्रांतिकारी पत्रिका “पोल्यान्या ज्वेज्दा” (ध्रुवतारा) का प्रकाशन शुरू किया। इस पत्रिकाके मुख्य मुखपृष्ठपर दिसम्बरी शहीदोंकी तस्वीर रहती थी। १८५७ ई०से १८६७ ई०तक हेर्जनने “कोलोकोल” (कलकल) के नामसे एक और भी प्रसिद्ध पत्रिका प्रकाशित की। हेर्जनके विचारोंने रूसी तर्षणोंकी समकालीन पीढ़ीपर बहुत प्रभाव डाला, और उसी प्रभावमें आकर बोल्शेविकोंसे पहलेके क्रांतिकारियोंने किसानोंमें क्रांतिका संदेश पहुंचानेके लिये भगीरथ प्रयत्न किये।

व. ग. बेलिन्स्की (१८११-४८ ई०)—बेलिन्स्की हेर्जनका समकालीन था। वह साहित्य-समालोचकके तौरपर लोगोंमें नया भाव पैदा करनेमें सफल हुआ। उसकी आलोचनाओंने रूसी साहित्यमें यथार्थवादकी स्थापना की। उस समय जारशाही संसारके कारण कोई भी स्वतंत्रतापूर्वक कुछ लिख नहीं सकता था। बेलिन्स्कीने अपने मित्र प्रसिद्ध लेखक गोगलको लिखा था—“रूसकी मुक्ति उपदेश या प्रार्थनासे नहीं हो सकती, बल्कि वह अर्धदासताके उच्छेद तथा लोगोंमें मानवसम्मानके प्रति जागृति और सद्भाव स्थापित करनेसे हो सकती है। बेलिन्स्की अपनी लेखनीसे क्रांतिका प्रसार कर रहा था, लेकिन उसके रास्तेमें सभी जगह रुकावटें थीं। उसने अपनी इस विवशताको दिखलाते हुये लिखा था—“प्रकृतिने मुझे कुत्तेकी तरह भूंकने, सियारकी तरह हुआ-हुआं करनेके लिये मजबूर किया है। कभी-कभी परिस्थितियां बिल्लीकी तरह म्याउं-म्याउं करने और लोमड़ीकी तरह पूंछ हिलानेके

लिये भी मजबूर करती है।” लेकिन वह भविष्यके लिये बड़ा आशावादी था। उसने मरनेसे थोड़ा ही पहले लिखा था—“मुझे अपने उन पौत्रों और प्रपौत्रोंपर ईर्ष्या होती है, जो कि १९४० ई०में रूसको शिक्षित दुनियाका मुखिया बनते, विज्ञान और कलाके सिद्धांतोंको स्थापित करते, और ज्ञानवान् मानव-जातिसे सम्मानकी भेंट पाते देखेंगे।” बेलिन्स्कीका भविष्य-कथन सच निकला, इसमें क्या संदेह है? जारकी सरकार उसे जेलमें बंद करने ही जा रही थी, कि ३७ वर्ष की अवस्थामें १८४८ ई०में विसारियोन ग्रेगोरी-पुत्र बेलिन्स्की तपेदिकके हाथों मारा गया।

वैज्ञानिक—वासिली व्लादिमिर-पुत्र पेत्रोफ (१७६२-१८३४ ई०) प्रसिद्ध रूसी भौतिक शास्त्री था, जिसने दुनियामें सबसे पहले (१८०२-३ ई०में) आधुनिक विद्युत्-रसायनके आधारभूत एलेक्ट्रोलीसिसका आविष्कार किया। उसने डेवीसे पितने ही वर्ष पहले वोल्ताइक आर्क (प्रदीप) का आविष्कार किया। १८३२ ई०में पीतरबुर्गमें दुनियाका सबसे पहला तार शीलिंगने स्थापित करके संचार-मंत्रालय और हेमन्त-प्रासादके बीचमें संदेश भेजकर दिखलाया, लेकिन सामन्तशाही रूसने इन आविष्कारोंको आगे बढ़नेका मौका नहीं दिया। १८३८ ई०में याकोबी (१८०१-७४ ई०)ने बिजली बनानेका पहला इंजन तैयार किया, और उसकी बिजलीकी नावने नेवाके ऊपर यात्रियोंको ढोया। यह आविष्कार इंग्लैंडमें आधी शताब्दी बादमें हुआ, और दुनियाने याकोबीको भूलकर अंग्रेजको इसका आविष्कारक माना। आविष्कार और खोजके क्षेत्रमें रूसी प्रतिभायें इस प्रकार अपने चमत्कारको दिखानेके लिये तैयार थीं, लेकिन वहां अभी उनको सहारा देनेवाले नहीं थे।

साहित्यकार—निकोलाइके कालमें रूसी साहित्य-गगनमें बड़े-बड़े नक्षत्र उदित हुये, लेकिन उनमेंसे अधिकांश अकालमें ही कालकवलित हुये, जैसे—

रिलियेफ (कवि)—जारने १८२६ ई०में फांसी दिलवा दी।

पुश्किन (कवि)—१८३७ ई० में ३८ वर्षकी आयुमें द्वंद्व-युद्धमें मारा गया।

ग्रिबोयेदोफ (कवि)—तेहरानमें हत्यारेके हाथों मारा गया।

लेर्मन्तोफ (कवि)—द्वंद्व-युद्धमें २७ वर्षकी उम्रमें १८४१ ई० में मारा गया।

वेनेवितिनोफ (कवि)—२२ वर्षकी उम्रमें मारा गया।

कोल्त्सोफ (कवि)—३३ वर्षकी उम्रमें अपने परिवार द्वारा मारा गया।

बेलिन्स्की—३५ वर्षकी उम्रमें १८४८ ई०में भूख और गरीबीकी बलि चढ़ा।

अलेक्सान्द्र पुश्किन (१७९९-१८३७ ई०)—पुश्किन रूसी साहित्यका कालिदास है। वह “प्रतिभाशाली रूसका सबसे बड़ा कवि और विश्व-साहित्यका प्रतिभाशाली साहित्यकार रूसी यथार्थ-वादका संस्थापक, रूसी साहित्यिक भाषाका निर्माता, रूसी जनताका गर्व और कीर्ति” कहा जाता है। यद्यपि वह उच्चकुलमें पैदा हुआ था, किन्तु गोर्कीके अनुसार “उसके लिये कुलीन वर्गके हितसे ऊपर सारे राष्ट्रका हित था, और उसका व्यक्तिगत अनुभव कुलीनोंके अनुभवसे (कहीं) विस्तृत और गम्भीर था।” पुश्किन (अलेक्सान्द्र सरगेइ-पुत्र) १७९९ ई०में मास्कोमें एक समन्तवंशमें पैदा हुआ था, जिसकी आर्थिक अवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। कुलीन वर्गके लिये स्थापित जास्कोयसेलोके विशेष स्कूलमें वह भरती हुआ और १८१५ ई०में जब कि वह अभी सोलह वर्ष ही का था, उसने परतंत्रता और दासताके प्रति अपनी घृणा प्रकट की थी। १८१७ ई०में अठारह वर्षकी अवस्थामें उसने स्कूलकी पढ़ाई समाप्त की। जिस वर्गमें पैदा हुआ था, उसके अत्याचारोंसे वह कितना क्षुब्ध था, यह उसकी निम्न पंक्तियोंसे मालूम होगा—

ओ दुष्कर्मी, स्वेच्छाचारी, सुन मेरी घृणाको

जो कि तेरे, राजदंड और तेरे सिंहासनके प्रति है।

तेरे बच्चोंकी मौत, तेरे अपने काले भाग्यको देख

में पत्थर जैसे कड़े हृदयकी तरह हर्षित होता हूँ।

अपने उग्र विचारोंके लिये रूसी साहित्यके कालिदासको पहले दक्षिण (काकेशस) में निर्वासित किया गया, फिर किशिनोफ और अदेस्सामें निर्वासित करके रखा गया। अदेस्सासे उसे अपने पिताकी जमींदारी मिखाइलोव्स्कयो गांवमें भेज दिया गया और उसके बापको पुत्रपर निगाह रखनेके लिये हुकम

दिया गया। यहींपर पुश्किनने अपना महान् काव्य “यूगेनी-ओनेगिन” लिखा, और “बोरिस गद्दुनोफ” दुःखान्त नाटकको भी यहीं उसने रचा। कई सालोंतक जारने “बोरिस गद्दुनोफ” को निषिद्ध कर दिया था। पुश्किन दिसम्बरी क्रांतिकारियोंके साथ बड़ी सहानुभूति रखता था। दिसम्बरियोंको फ्रांसीपर चढ़ानेके थोड़े ही समय बाद जार निकोलाइ I ने पुश्किनको बुलाकर पूछा—“यदि तुम १४ दिसम्बरको पीतरबुर्गमें होते, तो क्या करते?” पुश्किनने साफ जवाब दिया—“मैं भी विद्रोहियोंमें शामिल हुआ होता।” इसके बादसे जारने पुश्किनकी रचनाओंके सेंसर करनेका भार अपने ऊपर लिया। जहांतक रूसी जाति का संबंध था, पुश्किन निराशावादी नहीं था, लेकिन अपने लिये उसे प्राणोंका जरा भी मोह नहीं था। उसके ऊपर अत्याचार करनेवालोंमें जार निकोलाइ I वैसे बहुत अल्प-पठित था, लेकिन तब भी शायद वह महान् कविकी अमरताको जानता था, और इसीलिये वह उसके खूनसे अपने हाथको रंगना नहीं चाहता था, लेकिन और तरहसे उसने और उसके दरबारियोंने पुश्किनके जीवनको दूभर कर दिया था। पुश्किन अड़तीस वर्षका था, जब कि अपमान करनेका बदला लेनेके लिये उसने एक सरकारी अफसरको द्वंद्वयुद्धके लिये ललकारा और घायल होकर १८३७ ई०में मरा। पुश्किनकी प्रतिभा सर्वतोमुखीन थी। उसके काव्य और नाटक उतने ही सम्मान और दिलचस्पीके साथ पढ़े जाते हैं, जैसे कालिदासके। उसके नाटक आज भी रंगमंचपर बहुत जनप्रिय हैं। उसने कहानियां और लघुउपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें भाषा और भावोंकी प्रौढ़ता, व्यंग, रसाप्लावन अद्वितीय है। उसके समयमें अभी फ्रांसीसी भाषा और साहित्यको रूसी लोग उसी दास-मनोवृत्तिसे अपनाये हुये थे, जैसे हमारे देशके नौकरशाह लोग। “कप्तानकी कन्या” में पुश्किनने उनकी खूब खबर ली है। वह अपनी रूसी जातिका परम भक्त था, लेकिन उस जातिको अपना जौहर पूरी तीरसे दिखानेमें जो बाधाये थीं, उनको साफ-साफ कहनेसे बाज नहीं आता था। साथ ही वह वर्ण और देशके भेदोंको माननेवाला नहीं था। भारतसे गये सिपानों (रोमनियों) पर उसकी मधुर कविता इसका प्रमाण है।

मिखाइल, यूरी-पुत्र लेर्मन्तोफ (१८१४-४१ ई०) पुश्किनका तरुण समकालीन और महान् कवि था, जिसने भी द्वंद्व-युद्धमें सत्ताईस वर्षकी उमरमें अपने जीवनको समाप्त किया। अपनी प्रभावशाली कविता “एक कविकी मृत्यु” में पुश्किनकी प्रशंसा और उसके हत्या करनेवाले वर्गकी घृणाको बड़े कठोर शब्दोंमें प्रकट करनेके लिये उसे काकेशसमें निर्वासित कर दिया गया। पुश्किनके बाद रूसी कवियोंमें लेर्मन्तोफका दर्जा है। निकोलाइ I ने उसकी मृत्युकी खबर सुन बहुत खुश होकर कहा—“कुत्ता, कुत्तेकी मौत मरा।”

निकोलाइके समयका दूसरा महान् अमर साहित्यकार निकोलाइ वासिली-पुत्र गोगल (१८०९-५२ ई०) है। उसके उपन्यास “इन्स्पेक्टर-जेनरल”, “मृत आत्माये” आदि विश्व-साहित्यके रत्न माने जाते हैं। “मृत आत्माये” को पढ़कर हेर्जनेके अनुसार सारा रूस कांप उठा। गोगल महान् कलाकार है। उसकी जैसी सशक्त लेखनी बहुत कम देखनेमें आती है। यह महान् साहित्यकार भी तैंतालीस वर्षकी उमरमें मर गया।

इस समयके महान् कलाकारोंमें क० फ० ब्रूलोफ, अ० अ० इवानोफ अद्वितीय हैं। इवानोफने अपनी महान् कलाकृति “ईसाका लोगोंमें प्रकट होना” को अपने जीवनके तीस वर्ष लगाकर बनाया। यथार्थवादके साथ आदर्शवाद या अध्यात्मवादका कितना सुन्दर सम्मिश्रण हो सकता है, इसका यह सुन्दर नमूना है। इस चित्रको बनानेके लिये इवानोफने कई साल ईसाकी जन्मभूमि फिलस्तीनमें बिताये।

अभी तक रूसका संगीत लम्बी नाकवालों और गंदे ग्रामीणोंकी कलाके रूपमें विभक्त था। उच्च वर्गके लोग पश्चिमी संगीतको संगीत मानते थे, और समझते थे, कि रूसकी भूमिने संगीतके लिये कोई देन नहीं छोड़ी है। इसी समय प्रतिभाशाली संगीतकार (उस्ताद) म० ई० गिलन्का (१८०९-५७ ई०) पैदा हुआ, जिसने पश्चिमी संगीतका पारंगत आचार्य होते भी रूसी जनसंगीतको अपनाया, और घोषित किया, कि हमारी राष्ट्रीय संगीत-कला किसीसे कम नहीं है। गिलन्का पहिले ही से प्रसिद्ध संगीतकार हो चुका था, इसलिये उसे तुच्छ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उसकी कलाको तुच्छ करनेके लिये सम्भ्रान्त वर्गने कोई कसर नहीं छोड़ा रखी। उसे “गाड़ीवानोंके गीत” का रचनेवाला कहते थे।

गिल्न्काने इसकी पर्वीह नहीं की। “इवान सुसानिन” जैसे देशके लिये मरनेवाले वीरको चुनकर उसने अपने ओपेरा (पद्यनाटक) को रचा, जिसने जन्दी ही लोगोंको अपनी तरफ खींच लिया। जिस तरह काव्य और साहित्यका पिता पुष्किन माना जाता है, वही स्थान संगीत और रंगमंचमें गिल्न्काका है। मास्कोका बल्शोइ तियात्र (महानाट्यशाला) यद्यपि १७८० ई०में स्थापित हुआ था, जब उसे पेत्रोफका तियात्र कहते थे। १८०५ ई०में नाट्यशाला आगसे नष्ट हो गई, और बीस साल बाद (१८२५ ई०) में उसे फिरसे बनाया गया। इसके बाद फिर एक बार आगसे नष्ट होनेपर १८५३ ई० में उसका पुनर्निर्माण हुआ, जब कि “इवान सुसानिन”के निर्माता गिल्न्काके मरनेमें चार सालकी देर थी। १८२४ ई० हीमें मास्कोमें “माली तियात्र” (लघु नाट्यशाला) की स्थापना हुई, और बड़ी जल्दी ही उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। पुष्किन, लेर्मन्तोफ, गोगल, इवानोफ और गिल्न्का जैसी प्रतिभाओंको पैदा करनेवाला १९ वीं सदीका पूर्वार्ध रूसकी कला और साहित्यका सुवर्ण-युग था, इसमें संदेह नहीं।

१६. अलेक्सान्द्र I, निकोलाइ I-पुत्र (१८५५-८१ ई०)

अलेक्सान्द्र जब अभी युवराज ही था, तभी उसने किसानोंकी अर्धदासताको कायम रखकर अमीरोंके हितको अक्षुण्ण करनेकी प्रतिज्ञा की थी, लेकिन अब रूस १९वीं सदीके मध्यको पार कर चुका था। औद्योगिक पूंजीवाद बड़े जोरसे अपने प्रभावको बढ़ा रहा था, इसलिये सामन्तवादका अक्षुण्ण रहना सम्भव नहीं था। उसे मजबूर होकर किसानोंकी अर्धदासताको खतम करते १८५६ ई० में कहना पड़ा—“भूमिके स्वामित्वकी वर्तमान प्रथा बिना बदले नहीं रह सकती। यह बेहतर है, कि किसानी अर्धदासताको नीचेसे अपने आप खतम होने देनेकी जगह ऊपर (सरकारी ओर) से खतम कर दिया जाय।” अलेक्सान्द्रने यद्यपि “१९ फरवरीके (१८६१ ई०) कानून” द्वारा अर्धदासता प्रथाको खतम किया, लेकिन जमींदारोंके हितोंका पूरी तौरसे ध्यान रखते। किसानोंको पीढ़ियोंसे अपने जोते खेतोंके लिये भारी रकम देनी पड़ी। किसानोंको जो जमीन मिली थी, उसका मूल्य पैंसठ करोड़ रूबल होता था, लेकिन उसके लिये उनसे नब्बे करोड़ दिलानेका निश्चय किया गया। यह रकम सरकारने देना स्वीकार किया, जिसे वह उन्चास सालकी किस्तोंमें किसानोंसे ले लेनेवाली थी। १९०५ ई०तक इस मदमें किसानोंसे दो अरब रूबल लिये गये। १९ फरवरी १८६१ ई०के भूमिसुधारके कानूनने बहुत मंहगे ढंगसे एक करोड़ किसानोंको जमींदारोंकी दासतासे मुक्त किया। किसानी अर्धदासताका खतम करना रूसमें पूंजीवादी व्यवस्थाके विजयकी घोषणा थी। लेकिन यह सुधार रूसके अधीन दूसरी जातिवाले प्रदेशोंमें नहीं स्वीकार किया गया। कल्मकोंके प्रदेशमें पुरानी अर्धदासता प्रथा १८९२ ई० तक रही, और मध्य-एशियामें तो वह बोल्शेविक-क्रांतिसे पहले खतम ही नहीं हुई।

इतनी बड़ी रकमको क्षतिपूर्तिमें चुपचाप किसान कैसे दे सकते थे ? इसके लिये किसानोंका संघर्ष होना ही था। किसानोंके पक्षको लेकर इसी समय एक खास आन्दोलन शुरू हो गया। चेर्नोशेव्स्कीने “सत्रेमेन्निक” (समकालीन)के नामसे एक पत्रिका निकाली, जो किसानोंके पक्षका बहुत जोरदार ढंगसे समर्थन करती थी। रूसी सिपाही किसानोंमेंसे ही आते थे, इसीलिये चेर्नोशेव्स्कीके मित्र और सहकारी न० ब० शोलगुनोफने “सिपाहियोंको” नामसे एक घोषणा लिखी थी। घोषणा छप नहीं पाई थी, कि उससे पहिले ही वह तृतीय विभाग (खुफिया विभाग) के हाथमें पड़ गई। लेकिन रूसी जनताको आगे बढ़नेसे रोका नहीं जा सका। १८६२ ई०के वसंतमें “तरुण रूस”के नामसे एक घोषणा मास्कोके क्रांतिकारी विद्यार्थी जाइच्नेव्स्कीने प्रकाशित कर हथियार लेकर उठ खड़े हो शासक-वर्गको नष्ट करनेका आह्वान किया। चेर्नोशेव्स्की इस कालके जन-आन्दोलनका सबसे बड़ा नेता था। उसकी कलममें अद्भुत ताकत थी। जारशाहीने उसे पकड़कर दो साल तक पीतरबुर्गके पीतर-पावल-दुर्गमें बंद रक्खा, फिर चौदह वर्षके लिये साइबेरिया-निवासन (कालापानी) का दंड देनेसे पहले १९ मई १८६४ ई० को सार्वजनिक तौरपर उसे नागरिक मृत्युका दंड दिया। फांसी देनेवालोंने उसे पीतरबुर्गके मिलिन्स्काया चौरस्ते पर ले जाकर फांसीवाले आदमीकी तरह उसे घुटने टिकवाया, और उसकी गर्दनपर एक तलवार रक्की। जिस समय फांसीकी टिकटीपर इस रसमको अदा करनेके बाद उसे ले जाया जा रहा था, उसी समय भीड़मेंसे एक लड़कीने उस पर कुछ फूल फेंके, जिसके लिये उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

चेर्नीशेव्स्कीको नेचिन्स्कके जेलखानेमें रक्खा गया, जहां उसके दंडकालको आधा कर दिया गया, लेकिन कैदकी अवधि पूरा होनेके साथ ही अलेक्सांद्र II ने उसे फिर सुदूर साइबेरियाके कस्बे विल्युइन्स्कमें बन्दी कर दिया। १८८३ ई०में वहांसे लाकर उसे अस्त्राखानमें रखा गया, और गिरफ्तारीके सत्ताइस वर्ष बाद १८८९ ई०में उसे अपने जन्मनगर सरातोफमें रहनेकी इजाजत मिली। अब वह साठ वर्षका हो चुका था। जेलमें उसका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया था। अक्टूबर १८८९ ई०में सरातोफमें उसने अपने प्राण छोड़े। चेर्नीशेव्स्कीकी तपस्या व्यर्थ गई, इसे कौन कह सकता है? आज उसका सम्मान रूसके घर-घरमें है, और सारे सोवियत संघके स्कूली विद्यार्थी पढ़ते हैं—“न० ग० चेर्नीशेव्स्की महान् रूसी देशभक्त था, जिसने अपने सारे जीवनको अपने देश और जनताके लिये कुर्बान किया।” अभी चेर्नीशेव्स्की जब तरुण ही था, तभी उसने लिखा था—“अपने देशके अनन्त, और सनातन यशके लिये तथा मानवताकी भलाईके लिये काम करनेसे बढ़कर और कौन-सी बड़ी और सुन्दर बात हो सकती है?”

चेर्नीशेव्स्की महान् जनतंत्रतावादी और महान् विद्वान् ही नहीं था, बल्कि वैज्ञानिक ज्ञानका वह अदम्य प्रचारक था। उसके अर्थशास्त्र संबंधी ग्रंथोंके बारेमें मार्क्स और एंगेल्सने लिखा था—“वह वस्तुतः रूसके लिये सम्मानकी चीज है।”

तुर्की-युद्ध (१८७७-७८ ई०)—क्रिमियाके युद्धमें हारकर रूसने युरोपमें अपने प्रभावको खो दिया था, इसे हम बतला चुके हैं, लेकिन रूसने अपने प्रभावको विशेषकर कालासागर और भूमध्य-सागर तटपर बढ़ानेकी कोशिश बराबर जारी रक्खी। अब रूसके हाथमें एक और हथियार आ गया था—बल्कानके लोग पिछली चार शताब्दियोंसे तुर्की-सुल्तानके स्वेच्छाचारी शासनके नीचे कराह रहे थे। उनमें जातीय स्वतंत्रता की लहर फैली हुई थी, और वह नहीं चाहते थे, कि एसियाई मुस्लिम सुल्तान उनकी जैसी युरोपीय जातियोंको अपना दास बनाकर रक्खें। इंग्लैंड और फ्रांस रूसके विरुद्ध तुर्कीकी पीठ टोकना अपने हितके लिये आवश्यक समझते थे, इसलिये बल्कानकी जातियोंमें नवजागरणमें वह कैसे सहायक हो सकते थे? संयोगसे बल्कानकी यह अधिकांश जातियां रूसियोंकी भांति स्लाव थीं, इसलिये वह अपने स्लाव-भाइयोंकी ओर आशाभरी दृष्टिसे देखती थीं। रूस भी उनका समर्थन कर रहा था। १८७५ ई० में बोसनिया और हेर्जेगोविना (आधुनिक युगोस्लाविया) में लोगोंने सुल्तानके खिलाफ आन्दोलन शुरू कर दिया। अगले साल बुल्गारियोंने विद्रोह कर दिया। तुर्कीने बड़ी कठोरता-पूर्वक विद्रोहोंको दमन किया, कहीं-कहीं तो उसने गांवके गांव निर्जन बना दिये। तुर्की अपनी पुरानी संधिके कारण समझता था, कि रूस लड़ाईके मैदानमें नहीं कूदेगा, लेकिन रूसने सर्बिया (बोसनिया), हेर्जेगोविनाके निवासियों और मोन्तेनिग्रोको तुर्कीके विरुद्ध युद्ध घोषित करनेके समय १८६७ ई०के ग्रीष्ममें सहायता देना शुरू किया। रूसमें सब जगह तुर्कीके खिलाफ आन्दोलन ही नहीं किया जाने लगा, बल्कि एक रूसी जेनरल चेर्यायेफ सर्बियन सेनाका संचालन करने लगा। रूसकी सहायता होनेपर भी अक्टूबर १८७६ ई०में सर्बियन सेनाकी हार हुई। मोन्तेनिग्रोके लोगोंने तब भी अपने संघर्षको अकेले जारी रक्खा। अंग्रेजोंकी शहके कारण तुर्कीके सुल्तानने स्लाव विद्रोहियोंके साथ किसी तरहका समझौता करनेसे इन्कार कर दिया। आस्ट्रियाने तटस्थताकी नीतिको स्वीकार किया था। अन्तमें १८७७ ई०के वसंतमें रूसने तुर्कीके विरुद्ध युद्ध-घोषणा की। रूस अब भी क्रिमियाके युद्धके समयके हथियारों और सैनिक विज्ञानसे लड़ रहा था, जब कि जर्मन कल-कारखानोंसे नये तरहके हथियार तुर्कीको मिल रहे थे। तो भी अपनी बहादुरीके कारण १८७७ ई० के ग्रीष्ममें रूसी सेना दन्यूब पार करनेमें सफल हुई। मुकाबिला कठिन था, लेकिन जब रूसी सेनाका कान्स्तान्तिनोपलमें पहुंचना निश्चितसा मालूम होने लगा, तो अंग्रेज अपने नौसैनिक बेड़ेको मारमोरा समुद्रमें लाकर युद्ध घोषित करनेकी धमकी देने लगे। आस्ट्रिया और जर्मनीने भी रूसके खिलाफ रुख लिया। बल्कानमें युद्ध जारी रखते हुये रूसी सेनाने काकेशससे भी तुर्कीके खिलाफ लड़ाई जारी की थी, जहांपर तुर्कीको बुरी तरहसे हराकर रूसियोंने अर्दहान और कर्सेके किलोंको ले लिया। अन्तमें फरवरी १८७८ ई०में सान्स्तेपानो (कान्स्तान्तिनोपलके नजदीक) की संधिके अनुसार लड़ाई बंद हुई, और दन्यूबका मुहाना रूसको मिला, बल्कानमें बुल्गारियाकी एक रियासत कायम की गई, तुर्कीको सर्बिया, मोन्तेनिग्रो और रूमानिया-

की स्वतंत्रता स्वीकार करनेके लिये मजबूर होना पड़ा। काकेशसमें अर्दहान, कर्स, बायजिद और बातूम के नगर रूसको मिले, साथ ही तुर्कीने एकतीस करोड़ रूबल रूसको क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया। इस प्रकार रूसने अपने खोये हुये प्रभावको फिर सान्स्तेफानो-संधिके अनुसार प्राप्त किया। अस्ट्रिया और इंग्लैंड इस संधिको पसंद नहीं करते थे, इसलिये १८७१ ई०में बर्लिन-कांग्रेसमें उन्होंने रूसकी जीर्ती हुई जगहोंमेंसे कितनोंको छोड़नेके लिये मजबूर किया। बुल्गारियाके दक्षिणी भागको तुर्कीके हाथमें लौटा देना पड़ा, और उत्तरी भागको भी मुल्तानके अधीन एक रियासतका रूप दिया गया।

राजनीतिक आन्दोलन—चेर्नीशेव्स्कीके किसान-आंदोलनके बारेमें पहले बतलाया जा चुका है। रूसमें मार्क्सवादके आनेसे पहले जिस राजनीतिक आन्दोलनने गरीब जनताके भीतर काम किया था, वह नरोद्निक (जनवादी) आन्दोलन था, जो कि इसी समय शुरू हुआ था। यह दल किसान और मजदूर दोनोंमें काम करता था, लेकिन वह मजदूरोंको उतना महत्त्व नहीं देता था। उसकी सबसे कमजोर बात यह थी, कि वह मार्क्सवादका विरोधी था। हमारे यहांके कितने ही वामपक्षियोंकी तरह नरोद्निक जोर देकर कहते थे, कि (१) रूसके लिये पूंजीवाद एक आकस्मिक घटना है, इसका यहां विकास नहीं होगा, इसलिये सर्वहारा यहां न बढ़ सकते न विकसित हो सकते हैं। (२) नरोद्निक मजूर-वर्गको क्रांतिका सबसे अग्रणी वर्ग नहीं मानते थे। वह विश्वास करते थे, कि बिना सर्वहाराकी सहायतासे ही समाजवाद स्थापित हो सकता है। वह मानते थे, कि बुद्धिजीवियोंके नेतृत्वमें किसान ही क्रांतिकारी शक्ति हैं, और किसानोंका पंचायती जीवन ही समाजवादका अंकुर तथा नींव होगा। नरोद्निक नहीं मानते थे कि किसानोंकी बिखरी शक्ति सेना और पुलिस द्वारा सुरक्षित और मजबूत शासन-यंत्रको नहीं उखाड़ फेंक सकती। नरोद्निक तरुण-तरुणी बड़ी कुर्बानीके साथ गांवमें किसान बनकर रहते अपने विचारोंका प्रचार करते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, कि किसानोंको भड़काकर जमींदारोंके खिलाफ खड़ा किया जाय, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हुये। १८७४ ई० में बहुतसे नरोद्निक किसानोंमें पहुंचे थे, लेकिन १८७६ ई० तक वह भारी संख्यामें पकड़ लिये गये, और बचे हुआंने “जेम्ला-इ-वोल्या” (भूमि और स्वतंत्रता) के नामसे एक गुप्त संगठन किया। इसके संस्थापक ग० व० प्लेखानोफ और उसके साथी थे। मार्क्सवादके विरुद्ध “जेम्ला-इ-वोल्या” संगठनने आगे चलकर बकुनिन (१८१४-७६ ई०) के अराजकतावादको अपनाया, जिसकी मांग थी—सब तरहकी सरकारको तुरंत बंद कर दो। नरोद्निकोंने वैयक्तिक हत्यापर भी बहुत जोर दिया, और रूसी जनतापर जुल्मके पहाड़ ढानेवाले जारको उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। लेकिन यह काम नरोद्निकोंके असफल होनेपर “नरोद्नया वोल्या” (जनता संकल्प) पार्टीने किया। वस्तुतः जारके खूनी अत्याचारोंने अब क्रांतिकारियोंके दिलमें भय नहीं रहने दिया था। “नरोद्नया वोल्या” ने जार अलेक्सान्द्र II की हत्याके लिये कई बार प्रयत्न किये। फरवरी १८८० ई०में हेमन्त प्रासादमें स्तेपान खलतुरिन नामक एक मजदूर-क्रांतिकारीने बम रक्खा, लेकिन उससे जारको कोई चोट नहीं पहुंची, और अब वह ज्यादा सावधान रहने लगा। हेमन्त प्रासादको भी खतरका स्थान समझकर वह वहां अधिक नहीं रहता था। अन्तमें १ मार्च १८८१ ई०को “नरोद्नया वोल्या”के सदस्योंने अलेक्सान्द्र II की हत्या करनेमें सफलता पाई, और इसी हत्यामें शामिल होनेके संदेहपर लेनिनके भाईको भी फांसीपर चढ़ना पड़ा।

मध्य-एशियामें प्रसार—निकोलाइ I के समयमें किस तरह अराल समुद्रसे अल्ताई तकके प्रदेशको रूस साम्राज्यमें मिला लिया गया, इसे हम बतला चुके हैं। खीवाके खानने जारको अपना प्रभु मान लिया था, लेकिन खोकन्द और बुखारा अभी जारशाही जूयके नीचे नहीं आये थे। १८६५ ई०में जनरल चेन्यारियफने खोकन्दके खानको हराया, और १८६५ ई०में ताशकन्द जैसे मध्य-एशियाके आर्थिक केंद्रको अपने हाथमें ले लिया। इसके बाद महाराज्यपाल काफमानने १८६८ ई०में बुखाराके विरुद्ध अभियान किया, और जारकी सेनाने अमीरको हराकर समरकन्दको ले लिया। इस पराजयके बाद अमीर-बुखारा अब जारका एक सामन्त भर रह गया। १८७३ ई०के वसंतमें रूसी सेनाको फिर खीवा के खानके विरुद्ध जाना पड़ा, लेकिन खानने बिना लड़ाईके ही जारके अधीन होना स्वीकार कर लिया। अमीरों और खानोंके ऐशोआराममें जारशाही उसी तरह कोई दखल नहीं देना चाहती थी, जैसे भारतके राजा और नवाबोंके मौज-मेलमें अंग्रेज बाधा नहीं डालते थे। लेकिन वहांकी जनता चुपचाप रूसियोंके

शासन और शोषणको बर्दाश्त करनेके लिये तैयार नहीं थी—रूसी मध्य-एशियाको कच्चे मालकी खान मानते थे। १८७५-७६ ई०में खोकन्दके मुल्लोंने रूसके विरुद्ध जहाद घोषित की, जिसे क्रूरतापूर्वक दबा देनेमें रूसियोंको देर नहीं लगी, और साथ ही उन्होंने खोकन्दके खानको खतम करके फर्गानाके नामसे उसे रूसका एक प्रदेश बना दिया। अलेक्सान्द्र II के शासनके अन्तिम कालमें तुर्कमानोंपर भी रूसने अपना हाथ फैलाना शुरू किया। १८८० ई०में जेनरल स्कोबेलेफने तेक्के तुर्कमानोंको अपने अधीन किया, और अगले साल उसने ग्योकतेपेपर अधिकार करके अश्काबादको ले लिया। १८८४ ई० में अलेक्सान्द्र III के शासनकालमें मेर्वको भी लेकर सारे तुर्कमानोंमें रूसियोंका शासन स्थापित हो गया, और १८८५ ई०में अफगानिस्तानके किले कुश्कको लेकर रूसने मध्य-एशियाके अपने सीमांतको पूरा कर दिया। इस विजयके बाद अब मध्य-एशियामें रूसी डाक्टर, शिक्षक, विज्ञानवेत्ता और बड़ी संख्यामें मजदूर भी जाने लगे, जिनका प्रभाव मध्य-एशियाके लोगोंपर पड़ने लगा।

साइबेरिया और चीन—आमूर-उपत्यकामें किस तरह मुरावेफने रूसी सीमाका विस्तार अपने प्रथम अभियान द्वारा किया, इसे हम बतला चुके हैं। निकोलाइ I मर चुका था, लेकिन मुरावेफने अगले जारके शासनकालमें भी अपने कामको जारी रक्खा। पहले अभियानसे भी बड़े पैमानेपर अगस्त १८५६ ई०में एक दूसरा अभियान आमूर नदीके साथ-साथ नीचेकी ओर भेजा गया, जिसमें स्वी-पुरुष सब मिलाकर आठ हजार आदमी थे। अभियानको तीन भागों में विभक्त करके अलग-अलग स्थानोंसे प्रयाण करने का प्रबंध किया गया था। चीनी समझने लगे कि अब रूसी निम्न आमूरको सदाके लिये अपने हाथमें कर लेना चाहते हैं, इसलिये उन्होंने ऐगुनमें आनेपर विरोध प्रकट किया। ९ सितम्बर को मरुस्कमें एक सम्मेलन किया गया। मुरावेफ बीमार होनेसे शामिल नहीं हो सका, और उसने अद्मिरल उवोइकोको अपने स्थानपर भेजा। रूसियोंका इसी बातपर बराबर जंर था, कि युरोपीय शत्रुओंसे प्रतिरक्षा करनेके लिये हमें आमूरके मुहानेकी अवश्यकता है, जिन स्थानोंको हमने लिया है, अब वह रूसकी सम्पत्ति हैं, और आमूरके बायें तटपर हमें रूसी बस्तियां बसानी हैं, जिसमें नदीका रास्ता सुरक्षित रहे। रूसी विदेश-विभागने चीनसे बातचीत करनेमें कुछ नरमीसे काम लेना चाहा था, यह बात मुरावेफको पसंद नहीं आई, और उसने स्वयं पीतरवुर्ग जाकर चीनके साथ नये संधिके बारेमें बातचीत करनेके लिये अपनेको राजप्रतिनिधि नियुक्त करवाया। मई १८६५ ई० के मध्यमें कोर्साकोफके नेतृत्वमें तीसरा अभियान रवाना हुआ। रूसी जहाजोंके आमूरमें आने-जानेपर चीनी कोई रुकावट डालना नहीं चाहते थे, लेकिन आमूरके बायें तटपर रूसी बस्तियोंका बसाना वह पसंद नहीं करते थे। उन्हें यह देखकर भी बहुत बुरा लगा, कि चीन-अधिकृत नगर ऐगुनके सामने दूसरे तटपर जेया नदीके संगमपर पांच सौ रूसी डेरा डाले पड़े हैं। तीसरे अभियानने भी बिना किसी रुकावटके अपनी यात्रा समाप्त की।

१८५७ ई० में नये अधिकार प्राप्त कर मुरावेफ फिर साइबेरिया लौट एक और बड़े अभियानकी तैयारी करने लगा। अबकी बार वह चाहता था, कि जगह-जगहपर रूसी बस्तियां बसा दी जायं, इसलिये वह अपने साथ अधिकसे अधिक प्रवासियोंको ले आया था। आदमियोंकी कमीको पूरा करनेके लिये उसने जेलोंसे एक हजार कैदियोंको मुक्त कर दिया, और वह नई बस्तियोंमें जाकर खेती करनेके लिये तैयार कर दिये गये। उनमेंसे जिनके पास बीबियां थीं, उन्हें उन्होंने अपने साथ ले लिया। जिनके पास बीबियां नहीं थीं, उन्हें मुरावेफने शादी कर लेनेके लिये कहा। एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्रत्यक्षदर्शी राजुल क्रोपत्किन ने इसके बारेमें अपने संस्मरणोंमें लिखा है—“मुरावेफने कठोर कैदमें पड़ी सभी कैदी स्त्रियोंको—जिनकी संख्या करीब एक सौ थी—मुक्त करके पुरुष चुननेके लिये कहा। समय बीता जा रहा था, और नदीका पानी कम होता जा रहा था, वेड़को जल्दी प्रस्थान करना था, इसलिये मुरावेफने उन्हें जोड़े-जोड़े तटपर खड़ा होनेके लिये कहा, और फिर यह कहते हुये आशीर्वाद दिया—“बच्चों, मैं तुम्हारा ध्याह कराता हूँ, एक दूसरेके साथ मेहरबानीसे बर्ताव करना। पुरुषों, तुम अपनी बीबियोंसे बुरा बर्ताव नहीं करना। जाओ आनन्दसे रहो।”

फ्रांस और इंग्लैंड इस समय रूसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे। वह पेचिङ (पेकिङ) में रूसके खिलाफ अपनी कार्रवाई निराबाध रूपसे करते जा रहे थे, इसलिये रूसको वहां अपने राजदूतके रखनेकी

अवश्यकता थी। जारने अद्मिरल पुतियातिनको चीन दरबारमें अपना दूत बनाकर भेजा। अंग्रेजोंकी तरह रूसियोंकी भी धारणा थी, कि पूर्वी लोग तड़क-भड़क से अधिक प्रभावित किये जा सकते हैं। मुरावेफने चीनियोंपर प्रभाव डालनेके लिये रूसी राजदूतके आनेपर क्याखतामें भारी स्वागतकी तैयारी की, नगरमें दीपमाला जलाई गई, रूसी सेनाने कवायद-परेड की। लेकिन चीनियोंपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पेकिङसे हुकम आनेका बहाना करके चीनियोंने राजदूतको आगे बढ़नेसे रोके रक्खा। पुतियातिनने इसपर आमूर द्वारा ऐगुन पहुंच और वहांसे पेकिङ जानेकी इजाजत मांगी, लेकिन वहां भी चीनियोंने रास्ता नहीं दिया। पुतियातिन जबर्दस्ती जाना चाहता था, लेकिन मास्कोकी आज्ञा बिना ऐसा करना मुरावेफको पसंद नहीं था। इसपर पुतियातिनने समुद्रके रास्ते पेकिङ जानेका निश्चय किया। आमूरके द्वारा २४ जलाई १८५७ ई० को वह उसके मुहानेपर पेइ हीमें पहुंचा। वहां भी पेकिङ जानेके लिये चीनी अधिकारियोंसे बहुत माथापन्ची की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहांसे फिर वह शांघाई पहुंचा, और ब्रिटिश और फ्रेंच नौसेनासे मिलकर उन्हें पेइ-होके मुहानेपर घेरा डालनेका परामर्श दिया। चीन अभी फ्रांस और इंगलैंडको अपने विरुद्ध करके उनकी तोपोंकी मार खा चुका था, इसलिये वह रूसको भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था।

११ मई १८५७ को मुरावेफ अपने मामूली अभियानोंके दौरानमें ऐगुनमें ठहरा। वहां उसन चीनी सेनापति राजकुमार शानसे भेंट करके अपनी मांग रक्खी। चीनियोंने कुछ आनाकानी करनेके बाद उसे मंजूर किया। छ दिनके भीतर ही बातचीत खत्म हो गई, और १६ मई १८५८ ई०को ऐगुन-संधिपर हस्ताक्षर भी हो गया। इस संधि द्वारा चीनने आमूरके वाम तटपर रूसके अधिकारको स्वीकार किया, और उसुरीके संगम तक दक्षिण तट चीनका माना गया। उसुरीके संगमसे आगे समुद्र तककी भूमिकी सीमाका निर्णय आगेके लिये छोड़ रक्खा गया। दोनोंने नदी द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार और यात्रा करनेके अधिकारको भी मंजूर किया। मुरावेफने कृपा दिखलाते हुये यह मंजूर किया, कि रूसी तटके ऊपर जेयाके पासमें रहनेवाले मंचू चीनकी प्रजा रहेंगे। इस बड़ी सेवाके लिये जार अलेक्सान्द्र II ने मुरावेफको "काउन्ट (ग्राफ) आमूर्स्की" की उपाधि प्रदान की। मुरावेफने रास्ता साफ कर दिया, इसलिये पुतियातिनको जून १८५८ ई०में तियान्त्सिनकी शांति-मित्रता-व्यापार नौचालन-संधि करनेमें कोई रुकावट नहीं हुई। लेकिन पुतियातिनको ऐगुन-संधिका पता नहीं था। तियान्त्सिनकी संधिने चीनके खुले बन्दरगाहोंमें रूसको व्यापार करनेकी इजाजत दी, और दूसरे राज्योंने जहां अपने वाणिज्य-दूत स्थापित किये हैं, वहां रूसियोंको भी वैसा करनेकी स्वीकृति दे दी। यदि कोई रूसी आदमी चीनमें रहते कोई अपराध करे, तो उसे सबसे समीपवाले रूसी वाणिज्य-दूतके पास या सीमांतके बाहर भेजनेकी बात मानी गई। इस संधिने रूसी ईसाई-मिशनरियों और उनके चीनी अनुयायियोंके लिये भी रक्षाका विशेष अधिकार प्रदान किया। संधिपत्र रूसी, मंचूरी और चीनी तीन भाषाओंमें लिखा गया था और माना गया था, कि यदि किसी वाक्यके बारेमें विवाद हो, तो मंचूरी भाषाका अभिलेख सर्वोपरि प्रमाण माना जायगा।

चीनको नोचनेके लिये इस समय पश्चिमी युरोपके राज्य गिद्धकी तरह चिमटे हुये थे, वह हर तरहसे उसे दबाना चाहते थे। २६ जून १८६० ई०में एक बहाना करके उन्होंने अपनी सेनायें भेज दीं, जो लड़ती हुई पेकिङतक पहुंच गई और वहांके कला और सौन्दर्यके सुन्दर संग्रहालय युवान-मिङ-युवानके प्रासादको लूट लिया। मालूम हो रहा था, पश्चिमी शक्तियाँ चीनसे मंचू-वंशको खतम करके छोड़ेंगी, लेकिन निरंकुश राजतंत्रको कायम रखना जारशाहीने अपना कर्तव्य मान लिया था। इसी समय रूसी दूत इग्नतियेफ मंचू-वंशका संरक्षक बनकर पेकिङ पहुंचा, जिसने पश्चिमी राज्यों और मंचू-वंशके बीचमें संधि करा दी। इग्नतियेफने पश्चिमी सेनाओंके पेकिङ जानेसे पहले ही फ्रेंच दूतसे तियान्त्सिनमें सुन लिया था, कि पश्चिमी शक्तियाँ पेकिङमें बराबरके लिये अपनी सेना नहीं रखना चाहतीं। उसने चीनके महामंत्री कुङकोसे यह बात छिपाकर बतलाया, कि मैं कोशिश करूंगा, कि अंग्रेज और फ्रेंच सेनायें पेकिङ छोड़कर चली जायें; लेकिन शर्त यह है, कि चीन ऐगुन-संधिको स्वीकार करे, और उसुरी-संगमसे समुद्र तकके भागको रूसको दे दे। पेकिङको शत्रु-सेनाओंसे मुक्त करानेके लिये चीन सब कुछ करनेको तैयार था। २४ अक्टूबरको इंगलैंडके साथ और २५ को फ्रांसके

साथ संधि करानेमें इग्नतियेफने तत्परता दिखलाई । ५ नवम्बरको पश्चिमी सेनायें पेकिङ छोड़कर चली गई । अब अपने इनामके रूपमें इग्नतियेफने १४ नवम्बरको हस्ताक्षरित होनेवाली चीन-रूस-संधिको करवाया, जिसके द्वारा प्रशान्त महासागरके तट तकका एक बहुत भारी भूभाग चीनके हाथसे निकल आया ।

येर्मक और खबारोफके साइबेरियामें उठाये हुये कामको इस प्रकार मुरावेफने पूरा किया । यही तीनों साइबेरियाके लिये जारशाही क्लाइव, हेस्टिंग्स और वेल्जली थे ।

१७. अलेक्सान्द्र III, अलेक्सान्द्र II-पुत्र (१८८१-९४ ई०)

बापकी हत्याके बाद अलेक्सान्द्र गद्दीपर बैठा । उसके समयमें घोर अत्याचारके मारे लोग कराहने लगे । अलेक्सान्द्रको हर वक्त मौतका डर लगा रहता था, इसलिये वह पीतरबुर्ग छोड़कर ग्निनामें रहता, जिससे उसके समसामयिक उसे "ग्निनाका बंदी" कहा करते थे । शिक्षित लोग सबसे अधिक जारके निरंकुश शासनके प्रति घृणा रखते थे, इसलिये सार्वजनिक शिक्षाका वह सबसे बड़ा विरोधी था । तोबोलके राज्यपालने जब उसे सूचित किया, कि साइबेरियामें बहुत कम शिक्षित लोग हैं, तो उसने जवाबमें कहा—“इसके लिये हमें भगवान्को धन्यवाद देना चाहिये ।” उसका कहना था—“गाड़ीवानों, कोचवानों, नौकरों, धोबियों, छोटे दूकानदारों आदिके बच्चोंको सिवाय विशेष प्रतिभाकी अवस्थाके उस स्थितिसे ऊंचे उठनेके लिये प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये, जिस स्थितिमें कि वह पैदा हुये ।” अभी तक रूसी विश्वविद्यालयोंको अपने कुलपति (रेक्टर) और प्रोफेसर निर्वाचित करनेका अधिकार था, लेकिन १८८४ ई०में नया कानून बनाकर जारने उससे यह अधिकार छीन लिया । अच्छे-अच्छे प्रोफेसर निकाल दिये गये, और स्त्रियोंके लिये उच्च-शिक्षा एक तरहसे वर्जित कर दी गई ।

रूस-भिन्न जातियोंका शोषण और कठोर शासन और बढ़ता गया । अलेक्सान्द्र III ने यहूदियोंको भूमि खरीदने और गांवमें बसनेका निषेध कर दिया । १८८७ ई०में माध्यमिक और उच्च-शिक्षण संस्थाओंमें यहूदी विद्यार्थियोंके लिये उसने संख्या निश्चित कर दी । उदमूर्त जैसी कितनी ही जातियोंको ईसाई बनानेके लिये मिशनरियोंको प्रोत्साहन दिया गया । जो उदमूर्त अपने बाप-दादोंके धर्मको छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्हें देवताओंके सामने नर-बलि करनेका अपराध लगाकर कठोर दंड दिया जाता था ।

जारशाहीका ध्यान अब मध्य-एसियाकी ओर विशेष तौरसे गया था । वहांसे कपासकी गांठें रूसके कारखानोंमें भेजी जाती थीं । पहले वह ऊंटोंपर लदकर आती थीं, अब उसके लिये रेलके बनानेकी आवश्यकता पड़ी । १८८० ई०के बाद समरकन्दको रेलद्वारा कास्पियन-तटसे मिला दिया गया । कास्पियनके दूसरे तटपर रूससे मिलानेवाली रेल इससे पहले ही तैयार हो गई थी । लेकिन रूस जिस तरह मध्य-एसियामें बढ़ रहा था, उसे अंग्रेज नहीं पसंद करते थे । रूस अब अफगानिस्तानका पड़ोसी था । हमें मालूम है, कि अंग्रेज सरकार रूसका ही डर बतलाकर भारतके वार्षिक बजटका बहुत भारी भाग पश्चिमोत्तर सीमांतकी सैनिक तैयारीपर खर्च करती थी । १८८५-८६ ई० में निश्चित मालूम हो रहा था, कि रूस और इंग्लैंडमें लड़ाई छिड़ जायेगी, लेकिन १८८७ ई०में रूस और ईरानकी सीमा, और १८९५ ई० में रूस और अफगानिस्तानकी सीमाको ठीक कर देनेसे युद्धकी सम्भावना कम हो गई ।

जिस वक्त इंग्लैंडके साथ रूसके संबंध बिगड़ रहे थे, उसी समय फ्रांसके साथ उसके संबंध अच्छे हो रहे थे, जिसके कारण फ्रांसीसी पूंजी बहुत भारी परिमाणमें रूसमें लग रही थी, और फ्रांसीसी सरकारने जारशाहीकी बात मानकर रूसी क्रांतिकारियोंके ऊपर अपने यहां देख-रेख रखनेका वचन दिया । जर्मनी बिस्मार्कके नेतृत्वमें बहुत एकताबद्ध और शक्तिशाली हो चुकी थी । १८७० ई०में एक बार विजयिनी जर्मन सेना पेरिसमें पहुंच चुकी थी, इसलिये फ्रांस रूसके साथ घनिष्ठता स्थापित करना चाहता था । १८९१-९३ ई० में फ्रांस और रूसके बीच कई संधियां हुईं, और जर्मनीके आक्रमण करनेपर आठ लाख सेना भेजनेका रूसने वचन दिया था ।

प्रथम मजदूर आन्दोलन—यद्यपि बकुनिन-जैसे बुद्धिजीवी क्रांतिकारी मार्क्सकी अपेक्षा स्वापिनिक (उटोपियन) समाजवादकी तरफ अधिक आकृष्ट हुये थे, लेकिन रूसके मजदूरोंमें मार्क्सके विचार पहले ही पटुं चूके थे, जैसा कि मार्च १८७० ई०में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय (इन्टर्नेशनल) महापिषद्में प्रवासी रूसी क्रांतिकारियोंके कार्ल मार्क्सको रूसका प्रतिनिधि बनानेसे मालूम होता है। मार्क्सने उनकी बातको स्वीकार करते हुये जवाबमें लिखा था—“रूसमें जारशाहीका विनाश सिर्फ रूसी जनताके लिये ही आवश्यक नहीं है, बल्कि यूरोपीय सर्वहाराकी मुक्ति भी उसीपर निर्भर करती है।” हम देख चुके हैं, कि यूरोपकी जन-क्रांतियोंको दबानेके लिये रूसी जार हमेशा खुलकर अपनी सेना और पैसा देनेके लिये तैयार थे। १८७१ ई०में फ्रांसपर जर्मनीके विजय होनेके बाद पेरिसके कमकरोने “पेरिस कमून”के नामसे विश्वमें प्रथम कम्युनिस्ट सरकार कायम की, रूसी कमकरोने उसके साथ अपनी सद्मति और सहानुभूति दिखलाई। १८७८ ई०में पेरिस कमूनके वार्षिकोत्सवके समय अदेस्साके मजदूरोंने अपनी सद्भावनाके संदेश भेजे। १८७० ई०के बाद नरोद्निकोंके कार्यक्रमके असफल होनेपर क्रांतिका स्रोत वहीं सूख नहीं गया, बल्कि अब मजदूरोंने क्रांतिके झंडेको अपने हाथमें लिया। मई १८७० ई० में पीतरबुर्गकी नेवा कपड़ा मिलमें मजदूरोंकी पहिली सबसे बड़ी हड़ताल हुई, जिसको तोड़ने और मजदूरोंको दबानेमें जारशाहीको काफी दिक्कत उठानी पड़ी। यह पेरिस-कमूनकी स्थापनाके एक साल पहिलेकी घटना है। १८७५ ई० में उक्रेनमें कारखानेके डेढ़ हजार मजदूरोंने हड़ताल की। १८७७ ई०में अदेस्साके रेलवे मजदूरोंने साढ़े तीन सप्ताह तक अपनी हड़तालको चलाया। मजदूरोंकी मांग थी—जुरमानोंका कम करना, बच्चोंसे कम घंटे काम लेना। इस तरह हम देखते हैं, कि १८७० ई० के बाद रूसके मजदूरोंमें सामूहिक वर्गचेतना प्रारम्भ हो गई थी। सबसे पहला मजदूर वासिली गेरासिमोफ था, जिसे सिपाहियों और मजदूरोंमें क्रांतिकारी प्रचारके अपराधमें नौ वर्षकी सजा हुई, और वह साइबेरिया (याकुत्स्क) में १८९२ ई०में मरा। उस समयका दूसरा मजदूर क्रांतिकारी प्योत्र अलेक्सियेफ था। वह स्मोलेन्स्कके एक किसान घरमें पैदा हुआ था, पीछे नरोद्निक दलका सदस्य बना। प्योत्र अपनी शिक्षा और अनुभवसे समझ गया, कि नरोद्निक कार्यक्रमसे सफल क्रांति नहीं हो सकती, इसलिये वह समाजवादी बन कारखानोंके मजदूरोंमें प्रचार करता रहा। मास्कोके मजदूर उसे बहुत प्यार करते थे, और अपने असाधारण स्नेहको दिखलानेके लिये उसे पिट्रुस्का कहकर पुकारते थे। प्योत्रको साइबेरिया (याकुतिया) में दस सालकी कालेपानीकी सजा हुई। १०-मार्च १८७७ ई०में अदालतमें भाषण देते हुये उसने कहा था—“मजबूत नसोंवाले लाखों मजदूरोंके हाथ उठेंगे, और सैनिकोंकी संगीनोंसे संरक्षित स्वेच्छाचारिताका जूआ चूर्ण-विचूर्ण हो जायेगा।” लेनिनने इसे “रूसी मजदूर क्रांतिकारीकी महान् भविष्यद्वाणी” कहा था। प्योत्र १९८१ ई०में साइबेरियामें डाकुओंके हाथों मारा गया।

प्रथम क्रांतिकारी मजदूर संगठन १८७५ ई०में अदेस्सामें “दक्षिणी रूसी मजदूर संघ” के नामसे युगेनी जास्लाव्स्की द्वारा स्थापित हुआ। इस संघने मार्क्सके प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय नियमोंको अपनाया था। इस संघके डेढ़-दो-सौ धातु-कमकर सदस्य बने थे। इसकी कई शाखायें खुलीं, और करीब साल भर तक जीवित रहकर जारशाही अत्याचारोंने इसे छिन्न-भिन्न कर दिया। जास्लाव्स्कीको दस सालकी सजा दी गई, और वह थोड़े दिनों बाद जेल हीमें मर गया।

दक्षिणके मजदूरोंके संगठनको देखकर पुलिसके हाथों वहांसे भागकर एक मिस्त्री (फिटर) विक्टर अबनोस्की उत्तरकी ओर आया, और उसने उस समयके एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्तेपान खल-तुरिनके साथ मिलकर १८७८ ई०में पीतरबुर्गमें “रूसी मजदूरोंका उत्तरी संघ” स्थापित किया। इस संघने हड़तालोंके संचालनका काम भी अपने हाथमें लिया। वह अपना गुप्त प्रेस खोलकर मजदूर क्रांतिकारी पत्रिका “रबोचया जार्या” (कमकरोंकी उषा) का प्रथम अंक निकालने जा रहा था, इसी समय पुलिसने आकर प्रेसको छीन लिया, और पत्रिका निकल नहीं सकी। १८८० ई०में पुलिसने उत्तरी संघको छिन्न-भिन्न कर दिया। विक्टर अबनोस्कीको दस सालकी सजा हुई, स्तेपान खलतुरिन इधरसे निराश होकर नरोद्निकोंके आतंकवादमें भाग लेने लगा, और १८८२ ई०में अलेक्सान्द्र II को मारनेके प्रयत्न करनेमें उसे फ्रांसीसपर चढ़ा दिया गया।

के बाद ही प्रकाशित होने लगे। अपने “युद्ध और शांति”, “अन्ना करेनिना” जैसे ग्रंथोंमें रूसी जीवनका उसने अनुपम चित्र खींचा है। “युद्ध और शांति” में १८१२ ई०में रूसियोंके वीरतापूर्ण संघर्षका बड़ा सजीव वर्णन है।

चित्रकला, नाट्यकला और संगीतकलामें भी इस कालमें चित्रकार ई० न० कराम्स्की (१८३७-८७ ई०), व० ग० पेरोफ (१८३३-८२ ई०), अद्भुत चित्रकार इलिया एफिम-पुत्र रेपिन (१८४४-१९३० ई०) हुये। संगीतकारोंमें म० अ० बलाकिरेफ (१८३६-१९१० ई०), व० व० स्तासोफ (१८२४-१९०६ ई०), अ० प० बोरोदिन (१८३३-८७ ई०) जैसे संगीतकार, और म० न० येर्मोलोवा, और ग० न० फेदोतोवा जैसी अभिनेत्रियां, और प० म० सदोव्स्की जैसे प्रति-भाशाली अभिनेता पैदा हुये।

मार्क्सवादका प्रचारारंभ—मार्क्सके महान् ग्रंथ “पूँजी” के प्रथम जिल्दका रूसी अनुवाद १८७२ ई० में प्रकाशित हुआ। उस समय अभी मजदूरोंमें वर्गचेतनाका आरम्भ ही हुआ था। पहला मार्क्सवादी संगठन “मजदूरोंकी मुक्ति” (श्रमिकमुक्ति) की स्थापना जनेवा (स्वीजर्लैंड) में १८८३ ई० में प्लेखानोफने की, जिसमें कितने ही रूसी क्रांतिकारी शामिल हुये थे। जार्ज वलेन्तिन-पुत्र प्लेखानोफ (१८५६-१९१८ ई०) पहले नरोद्निक क्रांतिकारी था, पीछे प्रथम मार्क्सवादी महालेखक हुआ। जारशाही अत्याचारोंने उसे देशसे बाहर जानेके लिये मजबूर किया, जहाँ उसने मार्क्सके ग्रंथोंको पढ़कर उसके सिद्धांतोंको स्वीकार किया। १८८३ ई०में उसने “समाजवाद और राजनीतिक संघर्ष” पुस्तक प्रकाशित की। दो साल बाद “हमारे मतभेद” को प्रकाशित किया। प्लेखानोफने अपनी लेखनी द्वारा अच्छी तरह साफ कर दिया, कि नरोद्निकवादसे कुछ होने-जानेवाला नहीं है। रूसमें पूँजीवाद आकस्मिक घटना नहीं है। रूसके विकासके लिये पूँजीवादी मार्ग छोड़ दूसरा रास्ता नहीं है, और पूँजीवादके विकासके साथ-साथ क्रांतिकारी सर्वहारा वर्गको भी विकसित होनेसे रोका नहीं जा सकता। “मजदूर मुक्ति” संगठनने रूसमें समाजवादी विचारोंको फैलानेका काम किया। इसीने मार्क्स और एंगेल्सके “कम्युनिस्ट घोषणा”, “श्रम-वेतन” और “पूँजी” आदि ग्रंथोंको प्रकाशित किया, जिनसे एक पीढ़ीके रूसी क्रांतिकारियोंको शिक्षा मिली। मजदूरोंमें भी अब इन विचारोंका प्रचार होने लगा। पूँजीवादके लिये समय-समयपर मालकी खपत कम हो जाने, मालकी उपज बढ़ जानेके कारण चीजोंका दाम घट जानेसे समय-समयपर आर्थिक संकटका आना स्वाभाविक है। आर्थिक संकटके समय पूँजीपति अपने कारखानोंको बंद करके लाखों मजदूरोंको बाटका भिखारी बना देते हैं। नफा उठानेके समय वह दोनों हाथोंसे लूटते हैं, लेकिन अब वह उनके लिये पैसा कमानेवाले मजदूरोंको भूखा मारनेसे बाज नहीं आते। पर मजदूर चुपचाप कैसे भूखे मरना बर्दाश्त कर सकते हैं? १८८० ई० के बाद जो आर्थिक संकट आया, उसमें और मिलोंकी तरह मोरोजोफ मिलने भी १८८२ ई० में अपने आठ हजार मजदूरोंका वेतन घटाना शुरू किया, और १८८४ ई० तक मिलमालिकोंने एकके बाद एक पांच बार मजूरी घटाई। इसके साथ-साथ मजदूरोंको जरा-जरा-सी बातपर जुरमाना करना अथवा उन्हें कामसे निकाल देना मामूली बात थी। इस समय मजदूरोंमें “उत्तरी संघ” द्वारा क्रांतिकारी विचारोंका प्रचार हो चला था। ७ जनवरी १८८५ ई०को सात बजे सबेरे ही पहले निश्चित संकेतके अनुसार चिल्लाकर कहा गया—“आज छुट्टी है, काम बंद करो, गैस रोक दो, स्त्रियो, बाहर चली जाओ।” उसी समय सारी मिल बंद हो गई। मजदूरोंने उत्तेजित किये जानेपर मिलकी कितनी ही चीजोंको तोड़-फोड़ दिया, मनेजरके मकानको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। इसपर जारशाही पुलिस और सेनाने धावा बोल दिया। वह वोल्कोफ आदि बहुतसे हड़ताली मजदूरोंको पकड़कर सीधे जारके सामने ले गये। अलेक्सान्द्र III ने पूछा—“क्या मैं सबके लिये हूँ, या तुम सब मेरे लिये हो?” मजदूरोंने जवाब दिया—“हर एक आदमी तुम्हारे लिये है।” लोगोंने कसाकोंसे वोल्कोफको छुड़ानेकी कोशिश की, बहुत भारी प्रदर्शन किया। इसके बाद मजदूरोंके संगठनको दबाने और उनकी हिम्मत तोड़नेके लिये जारने पूरी कोशिश की। इस समयके हड़ताली नेताओंमें एक मजदूर प० अ० मोइसेयको भी था, जिसे जार-शाही अदालतने छोड़ दिया था, लेकिन जार अलेक्सान्द्र III ने अपनी विशेष आज्ञासे उसे कालापानीका दंड दिया। मोइसेयकोने १९१७ ई०को बोल्शेविक क्रांतिमें भाग लिया, गृहयुद्ध-कालमें लाल प्रैतिक

बनकर लड़ा, और १९२३ ई० में मरा। १८९१ ई० में पीतरबुर्गमें मार्क्सवादियोंने मई-दिवसके बहानेसे प्रथम गुप्त क्रांतिकारी बैठक बुलाई। इसमें एक बुनकर मजदूर अफनासेयेफने उपस्थित मजदूरोंसे पुकारकर कहा—“साथियो, हम जरूर सीखेंगे, जरूर संगठित होंगे, और अपनेको एक मजबूत पार्टीके रूपमें संघबद्ध करेंगे।” लेनिनने पीतरबुर्गके मजदूरोंके इस पहले प्रयासके बारेमें लिखा था—“१८९१ ई०का साल शोलगुनोफकी इमशानयात्राके प्रदर्शनमें पीतरबुर्गके मजदूरोंके भाग लेनेके लिये विशेष तौरसे उल्लेखनीय है, और वह पीतरबुर्गमें मई-दिवस मनानेके समय दिये गये राजनीतिक व्याख्यानोंके लिये भी विशेष तौरसे उल्लेखनीय है।” न० व० शोलगुनोफ सारे जीवनभर मजदूरों और गरीबोंकी स्वतंत्रताके लिये काम करता रहा। मरनेके समय मजदूरोंने उसे अभिनन्दन-पत्र भेंट किया था।

अलेक्सान्द्र III के शासनकालमें पूंजीवादी उद्योगका विस्तार बहुत हुआ, रेलोंका भी प्रसार बढ़ा। लेकिन जारशाही कालमें रूसमें विदेशी पूंजी सबसे अधिक लगी हुई थी, जिसमें भी फ्रेंच और बेल्जियन पूंजीपतियोंका भाग अधिक था। किसानोंकी अर्धदासता खतम हो गई थी, लेकिन अब भी उनका शोषण कम नहीं हो रहा था।

१८. निकोलाइ II, अलेक्सान्द्र III-पुत्र (१८९४-१९१७ ई०)

रूसका यह अन्तिम जार बहुत कमजोर दिमागका, किंतु बड़ा ही घमंडी और क्रूर था। प्रगतिशील विचारोंके प्रति घृणा उसने अपने बाप-दादोंके खूनसे पाई थी। १८९६ ई०में सिंहासनारोहणके समय मास्कोमें एक महामेलेका प्रबंध किया गया था, जिसमें लाखों आदमी आये, किंतु सरकारकी ओरसे व्यवस्थाका कोई प्रबंध नहीं किया गया, जिससे हजारों नर-नारी और बच्चे पैरोंके नीचे दबकर मर गये। उस घटनाके दूसरे दिन सबेरे निकोलाइ II अपनी स्त्री और विदेशी अतिथियोंके साथ घटनास्थलपर आया। लाशोंको हटा लिया गया था और खूनके दागोंपर बालू डाला जा रहा था। इतनी बड़ी दुर्घटना हो जानेके बाद भी उस शामको निकोलाइ अपनी बीबी अलेक्सान्द्राके साथ मस्त होकर नाचता रहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। इसपर यदि रूसी जनता निकोलाइको “खूनी” की उपाधि दे, तो क्या आश्चर्य ?

मध्य-एसियापर रूसके पूंजीवादी विस्तारका खास तौरसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि रूसी कपड़ा मिलोंके लिये कपास वहींसे आती थी। खोकन्दके राज्यको अब फरगाना-उपत्यकाके नामसे कपासकी उपजका केंद्र बना दिया गया था। धनी खेत-मालिक अपने असामियोंसे खेती करवाकर नफा उड़ाते थे, और साधारण जनता भूखों मरती थी। ऊपरसे १८९० ई०के करीब सरकारी कर तिगुना बढ़ गया था। इन अत्याचारोंको बर्दाश्त करते-करते लोग तंग आ गये, और मई १८९० ई० में अन्दिजान नगरमें बलवा हो गया। इसके लिये ईशान (संत, मुल्ला) मुहम्मद अली जैसा एक प्रभावशाली धार्मिक नेता अगुवा बना था। फरगानासे बाहर भी भीतर ही भीतर आन्दोलन और संगठन किया गया था। हथियारोंका भी संग्रह हुआ था, जिसमें अंग्रेजी बन्दूकोंको अफगान व्यापारियोंने विद्रोहियोंके पास पहुंचाया था। १८ मई १८९८ ई० की रातको दो हजार हथियारबंद उज्बेक और किर्गिज अन्दिजानकी छावनीपर चढ़ आये, और उन्होंने नगरपर अधिकार करना चाहा। “गज्जवा” (जहाद) की घोषणा पहिले हीसे हो गई थी, इसलिये मध्य-एसियाकी मुस्लिम जनता जारशाहीकी विरोधी तथा विद्रोहियोंकी पक्षपाती थी। लेकिन रूसकी सैनिक शक्तके सामनेये थोड़े-से लोग क्या कर सकते थे? मुहम्मद अली और उसके उन्नीस साथी फांसीपर चढ़ा दिये गये, ३४८ उज्बेकोंको लम्बी-लम्बी सजायें हुईं। जारशाही पुलिसने लोगोंपर गजब ढाया, तीन उज्बेक गांवोंको उजाड़कर वहां रूसियोंको लाकर बसा दिया, दूसरे गांवोंपर भारी सामूहिक कर लगाये।

लेनिन—रूसकी इस राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमिमें व्लादिमिर इलिया-पुत्र उलियानोफका जन्म २२(१०) अप्रैल १८७० ई०को सिम्बिर्स्क (उलियानोव्स्क) नगरमें एक स्कूल-शिक्षकके घरमें हुआ। व्लादिमिर उलियानोफ लेनिनके नामसे सब समयके विश्वका महान् पुरुष स्वीकृत किया गया है। इलिया उलियानोफ प्रगतिशील विचारोंका बुद्धिजीवी पुरुष था।

उसके सभी बच्चोंने क्रांतिमें भाग लिया। लेनिनके सबसे बड़े भाई अलेक्सान्द्रको जार अलेक्सान्द्र III को १८८७ ई०में मारनेके प्रयत्नका संगठन करनेके लिये फांसीपर चढ़ा दिया गया। अपने प्रिय भाईकी हत्याका प्रभाव लेनिनके ऊपर सदाके लिये पड़ना ही चाहिये था, किन्तु उसकी पैनी बुद्धिने बतला दिया, कि नरोद्निकोंका आतंकवाद सफल क्रांतिका रास्ता नहीं है। बिना साधारण जनताके सहयोग और सहानुभूतिके मुट्ठी भर “वीर” दुनियाको नहीं बदल सकते। “नहीं, हम उस पथको नहीं लेंगे, वह जानका रास्ता नहीं है—” लेनिनने अपने १७ वर्षके भाई वोलोद्या उलियानोफके फांसीपर चढ़नेकी खबर सुनकर कहा था। १७ वर्षकी उमरमें लेनिन कजानके विश्वविद्यालयमें दाखिल हुआ, लेकिन विद्यार्थियोंके राजनीतिक प्रदर्शनमें भाग लेनेके कारण उसे पकड़कर एक गांवमें निर्वासित कर दिया गया। पकड़ते वक़्त पुलिस अफसरने लेनिनसे कहा था—“जवान, तुम क्यों विद्रोह कर रहे हो? देख नहीं रहे हो, तुम्हारे सामने एक दीवार खड़ी है?” व्लादिमिरने जवाब दिया—“दीवार, हां वह खड़ी है, लेकिन सड़ी हुई दीवार है, जरा-सा धक्का दो और यह गिर पड़ेगी।” अभी वह व्लादिमिर उलियानोफ ही था, पीछे अपने अन्तर्धान जीवनमें उसे लेनिनका छद्म नाम स्वीकार करना पड़ा। विश्वविद्यालयकी शिक्षासे यद्यपि लेनिन उस समय वंचित हो गया, लेकिन उसने अपने अध्ययनको जारी रक्खा, और जब उसे फिर गांव लौट आनेका मौका मिला, तो उसने मार्क्स और एंगेल्सके ग्रंथोंका बहुत गम्भीर अध्ययन किया। समारा जानेपर वहां उसने मार्क्सवादियोंका प्रथम अध्ययन-चक्र संगठित किया। १८९३ ई०की शरदमें वह पीतरबुर्ग गया, जहांके मार्क्सवादियोंने जल्दी ही उसे अपना नेता मान लिया। १८९४ ई०में लेनिनने कई व्याख्यान तैयार करके पढ़े, जो पीछे “जनताके मित्र कौन हैं और वह कैसे समाजवादी जनतांत्रिकोंसे लड़ते हैं?” के नामसे प्रकाशित हुये। इसे कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि इसमें लेनिनने नरोद्निकोंकी खबर ली थी। इस आरम्भिक पुस्तकमें ही लेनिनने भविष्यद्वाणी की थी—“जनतांत्रिक तत्त्वोंका मुखिया बनकर विद्रोह करके रूसी मजदूर स्वेच्छाचारिताका अन्त करेंगे और विजयी कम्युनिस्ट रूसी सर्वहाराको क्रांतिके लिये खुले क्रांतिकारी संघर्ष के सरल पथपर ले जायेंगे।”

नरोद्निकोंसे संघर्ष करते हुये पीतरबुर्गके मार्क्सवादियोंने “मजदूर वर्गकी मुक्तिके लिये संघर्ष का संघ” के नामसे एक संगठन स्थापित किया था। लेनिन इस संघका जल्दी ही नेता हो गया, जिसने उस समय मार्क्सवादी क्रांतिकारी विचारोंके प्रचारके लिये बहुत काम किया और प्रचारक्षेत्रको बढ़ाया। उसके कार्यमें बावुश्किन, शोलुनोफ और दूसरे कर्मी साथ दे रहे थे। १८९५ ई०की शरदसे पीतरबुर्गके “संघर्ष संघ”ने मजदूरोंको संगठित कर हड़तालोंका नेतृत्व करना शुरू किया। १८९६ ई० में राजधानीके तीस हजार जुलाहोंने जारके सिंहासनारोहणके महोत्सवके समय लेनिनद्वारा तैयार की हुई मांगोंके लिये हड़ताल कर दी। मजदूरोंके दबावके कारण जारशाही सरकारको कामके घंटोंको कम करनेका वचन देना पड़ा। रूसके मजदूरोंको अब क्रांतिका क्रियात्मक पाठ मिलने लगा, वह अपनी शक्ति अनुभव करने लगे। इससे पहले ही दिसम्बर १८९५ ई०में लेनिनको गिरफ्तार करके जेलमें बंद कर दिया गया था। लेकिन जेलकी दीवारों लेनिनके प्रभाव और नेतृत्वको रोक नहीं सकती थीं। १८९७ ई०में सरकारने लेनिनको तीन वर्षका कालापानी देकर पूर्वी साइबेरियामें (१८९७ ई०से १९०० ई०तक) येनिसेई गुर्बनिया (प्रदेश) के मिनूसिन्स्की उयेज्द (जिले) के शुशेन्स्कोये गांव में बंद कर दिया। इसी समय १८९९ ई०में उसने अपने महान् ग्रंथ “रूसमें पूंजीवादका विकास” को लिखकर समाप्त किया। जब लेनिन साइबेरियामें बंद था, उसी समय मार्च १८९८ ई० में “रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टी”की प्रथम कांग्रेस मिनस्क नगरमें हुई, जिसमें “रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टी”की स्थापना घोषित की गई। सरकारने जल्दी ही पार्टीकी केंद्रीय समितिके लोगों और कार्यमें भाग लेनेवालोंको पकड़ लिया, तो भी वह क्रांतिकारी आन्दोलनको बंद नहीं कर सकी। मार्क्सवादी विचारोंकी मजदूरों पर गहरी छाप पड़ती जा रही थी, और वह रूसी साम्राज्यके भिन्न-भिन्न प्रदेशोंमें भी फैलने लगे। २० वीं सदीके अन्ततक काकेशसको भी इसकी हवा लगी, जहां किसानोंके विद्रोह अक्सर हुआ करते थे। इसी समय योसेफ विसारियोनोविच जुग-श्विली मार्क्सवादी क्रांतिके प्रभावमें आया, जो कि २१ (९) दिसम्बर १८७९ ई०में गुर्जाके एक

छोटे-से कस्बे गोरीके एक जूते बनानेवालेके घरमें पैदा हुआ था। तरण योसेफ “होनहार बिरवानके होत चीकने पात” के अनुसार संघर्षमें भाग लेनेके लिये छटपटाने लगा। स्वयं अशिक्षित होते हुये भी योसेफके माता-पिताने उसे शिक्षा देनेकी कोशिश की, और चाहा कि वह ईसाई-धर्मका पुरोहित बनकर सम्मानका जीवन बिताये। लेकिन ईसाई-धर्मकी पाठशालाके वातावरणमें भी मार्क्सवादने घुसकर उसे अनीश्वरवादी बना दिया। १८९८ ई०में ही योसेफ तिफलिसके समाजवादी जनतांत्रिक संगठनमें सम्मिलित हो गया था, और इसी समय उसे लेनिनकी प्रथम पुस्तक पढ़नेका अवसर मिला। योसेफ जुमेशिविलीने अपने क्रांतिकारी जीवनमें स्तालिनका छद्म नाम स्वीकार किया था, जो कि उसके गुरुकी तरह ही उसका भी नाम बन गया।

संस्कृति, साहित्य और विज्ञान—१९ वीं सदीके अन्त और २० वीं सदीके आरम्भतक रूसी प्रतिभाका लोहा दुनियामें सर्वत्र माना जाने लगा, यद्यपि अंग्रेजोंके गुलाम भारतको रूस देशका तब तक पता नहीं लगा, जब तक कि १९१७ ई०की बोल्शेविक क्रांतिकी खबर बिजलीकी तरह दुनियामें दौड़ने लगी। इसी कालमें इलिया मेचनिकोफ (१८४५-१९१६ ई०) जैसा महान् प्राणिशास्त्री, इवान पीतर-पुत्र पावलोफ (१८४९-१९३६ ई०) जैसा अद्वितीय शरीरमनोविज्ञानशास्त्री हुये। बिजलीके प्रथम आर्क-लैम्पका आविष्कारक प० य० याब्लोचकोफ (१८४७-९४ ई०) भी इसी समय हुआ, जिसके बिजलीके लैम्पकी कदर देशमें नहीं हुई, तो वह पेरिस चला गया, जहां १८७६ ई०में उसने अपने आविष्कारको पेटेंट कराया, और पेरिसमें पहलेपहले उसकी बिजली-बत्ती जलाई गई। बाहरके लोग अभी भी नहीं जानते, कि बिजली-बत्तीका आविष्कारक अमेरिकन नहीं, एक रूसी था। एडिसनने बिजली-बत्तीके आविष्कारक होनेका दावा किया, लेकिन उससे पहले एक दूसरे रूसी आविष्कारक लादिगिनने उस तरह की बिजली-बत्ती तैयार कर दी थी, इसलिये अमेरिकन अदालतने एडिसनके दावेको मंजूर नहीं किया। हां, लादिगिनके आविष्कारकी कदर उसकी मातृभूमिमें नहीं हुई और उसका विकास अमेरिकनोंने किया। अलेक्सान्द्र स्तेपान-पुत्र पापोफ (१८५९-१९०५ ई०) ने १८९५ ई०में बेतारके तारका आविष्कार किया। बेतारके तारको इतालियन मार्कोनिका आविष्कार बतलाया जाता है, लेकिन उससे पहले रूसी पापोफ और भारतीय जगदीशचन्द्र बोस उसका आविष्कार कर चुके थे। इन दोनों देशोंकी सरकारोंकी जड़ता और पक्षपातके कारण उन्हें आगे बढ़नेका मौका नहीं मिला। पापोफने १८९५ ई०में युद्धमंत्रिके पास अपने प्रयोगोंके लिये एक हजार रूबल अनुदान करनेके लिये प्रार्थना की थी, जिसका जवाब मिला था—“मैं इस तरहके ख्याली पुलावके लिये पैसा देनेकी इजाजत नहीं दे सकता।”

साहित्य और कला—इस कालके साहित्य-गगनके महान् नक्षत्र हैं—अन्तोन पावल-पुत्र चेखॉफ (१८६०-१९०४ ई०), और अ० म० गोर्की (१८६८-१९३६ ई०)। इन दोनों महान् लेखकोंकी कितनी ही कृतियोंसे भारतीय पाठक भी परिचित हैं। इन दोनों ही को जारशाहीका कोपभाजन बनना पड़ा था। चेखोफ ४४ वर्षकी उमरमें तपेदिकसे मर गया, गोर्कीने नवीन रूसको अपने सामने फलते-फूलते देखा, और उसके निर्माणमें भाग लिया।

इस कालके चित्रकारोंमें रूसी ऐतिहासिक चित्रकलाका सर्वश्रेष्ठ आचार्य व० ई० सुरकोफ (१८४८-१९१६ ई०), छबि-चित्रकलाका महान् निर्माता व० अ० सेरोफ (१८६५-१९११ ई०), प्रकृतिचित्रणका जादूगर ई० ई० लेवितन (१८६१-१९०० ई०) हुये। संगीतके अद्भुत कलाकार प्योत्र इलिया-पुत्र चकोव्स्की (१८४०-९३ ई०) का समय भी यही है।

२० वीं सदीके आरम्भ होते-होते सामन्तवादी जमींदारों और उनके स्वार्थोंकी रक्षाकी कोशिश करते हुये भी रूस पूंजीवादी युगमें पूरी तौरसे प्रविष्ट हो गया। लेकिन उद्योगीकरणमें पश्चिमी यूरोप के पूंजीपतियोंका सबसे बड़ा हाथ था, फ्रांसीसी और जर्मन बंक इसमें खास तौरसे भाग ले रहे थे। वर्तमान शताब्दीके आरम्भमें पश्चिमी यूरोपीय पूंजीपतियोंका एक अरब सुवर्ण रूबल रूसके उद्योग-धंधोंमें लगा हुआ था। यह सब किसी पुण्यके लिये नहीं किया जा रहा था, इसे कहनेकी जरूरत नहीं। १८९५ ई०से १९०४ ई० तक अपने इस व्यवसायसे विदेशी पूंजीपतियोंने तिरासी करोड़ सुवर्ण

रूबल नफा कमाया, जो कि उतने समयमें लगाई गई पूंजीसे कहीं अधिक था। जारकी सरकारपर १९०३ ई०में तीन अरब सुवर्ण रूबलका विदेशी कर्ज था, जिसपर तेरह करोड़ रूबल प्रतिवर्ष सूद देना पड़ता था। रूसी सामन्त और जमींदार अपने पुराने स्वर्धोंको अक्षुण्ण रखनेमें इतने मस्त थे कि उन्हें अपनी पूंजीको इकट्ठा करके उद्योग-धंधोंमें लगानेकी उतनी फिक्र नहीं थी, जितनी कि पेरिस और दूसरी युरोपकी विलासपुरियोंमें गरीबोंके गाढ़की कमाईको उड़ानेमें।

लेकिन अब इस पुराने रूसको बदलनेके लिये एक ठोस क्रांतिकारी शक्ति पैदा हो गई थी। १९०० ई०के दिसम्बरमें “इस्क्रा” (चिनगारी) के नामसे लेनिनने अपना पत्र निकाला, जिसके सम्पादनमें प्लोखानोफ और दूसरे समाजवादी जननायिक भी सहायता करते थे। बाहर छपकर वह रूसमें गुप्त रीतिसे भेजा जाता था। अपने मुखपृष्ठपर छपे सूत्र “चिनगारी ज्वाला जलायेगी” के अनुसार सचमुच ही रूसमें ज्वाला जलानेमें उसने बहुत काम किया। पीतरबुर्गके एक जुलाहे पाठक ने इसके बारेमें लिखा था—“जब तुम इस पत्रको पढ़ते हो, तो तुम्हें मालूम होता है कि जारशाही सेना और पुलिस हम कमकरोँ और हमारे बुद्धिजीवी नेताओंसे क्यों इतना डरते हैं?पुराने समयमें प्रत्येक हड़ताल एक बड़ी घटना थी, किन्तु अब हरएक आदमी जानता है कि केवल हड़तालें कुछ नहीं हैं, हमें इनके लिये लड़ते हुये मुक्ति भी प्राप्त करनी है।” १९०० ई० और १९०१ ई०में भी प्रथम राजनीतिक प्रदर्शन होने लगे, जिनके द्वारा समाजवादी क्रांतिकारियोंके बढ़ते हुए प्रभावका पता लगने लगा। १९०० ई०के मई-दिवसमें खरकोफके मजदूरों और विद्यार्थियोंने लाल झंडेके साथ सड़कोंपर जलूस निकाला था, जिसमें वह नारा लगा रहे थे—“स्वेच्छाचारकी क्षय”। १९०१ ई० का मई-दिवस सारे देशमें हड़तालें और प्रदर्शनोंके साथ मनाया गया। १९०२ और १९०३ ई०में और भी राजनीतिक हड़तालें और प्रदर्शन हुये। १९०२ ई०में किसानोंके भी कई आन्दोलन हुये और उनके पथप्रदर्शनके लिये लेनिनने “गांवके गरीबोंसे” नामकी एक छोटी किन्तु बहुत ही प्रभावशाली पुस्तक लिखी। इस तरह क्रांतिकी शक्तियां बढ़ रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ इन शक्तियोंमें कमजोरी पैदा करने के लिये नरमदली क्रांतिकारी फूट भी पैदा करने लगे थे। गरमदल के क्रांतिकारी प्रोग्रामको लेनिन और उनके समर्थक मानते थे, जिनका समाजवादी जननायिक पार्टीमें बहुमत था। इसीलिये लेनिन और उसके अनुयायी बोल्शेविक (बहुमतीय) कहे जाने लगे। नरमदली अल्पमतमें होनेके कारण मन्शेविक (अल्पमतीय) कहे जाने लगे। १९०३ ई०की जुलाई और अगस्तमें ब्रसेल्स और पीछे लन्दनमें पार्टीकी जो द्वितीय कांग्रेस हुई थी, उसी समय उसके यह दो टुकड़े हो गये। अपनी सूझ, तत्परता और त्यागसे बोल्शेविक मजदूरों और दूसरी शोषित जनतामें अपने प्रभावको बढ़ाते गये, जब कि मन्शेविक बुद्धि-जीवियोंमें अपनी कलाबाजी दिखानेतक ही अपने कामकी इतिश्री समझते थे।

रूस-जापान-युद्ध (१९०४ ई०)—रूसका प्रसार जिस तरह प्रशान्त महासागर तक हुआ, इसे हम बतला आये हैं। अभी तक उसका प्रतिद्वंद्वी चीन था, जिसकी निर्बल और भ्रष्टाचारपूर्ण सरकार रूसके सामने बराबर दबती रही, अब पूर्वी एसियामें जापान-जैसी एक बड़ी शक्ति पैदा हो गई थी। १८९४-९५ ई० में जापानने चीनको हराकर अपनी शक्तिका परिचय दिया था, और क्षतिपूर्तिकी बहुत भारी रकम तथा कोरिया, पोर्ट आर्थर, ल्याउनुङ्ग-प्रायद्वीपके साथ मंचूरियाके सारे दक्षिणी समुद्रतटपर अपने अधिकारको चीनसे मनवाया था। “कंटकेनैव कंटकम्” की नीतिको अपनाते हुये चीन चाहता था, कि जापानको रूससे भिड़ा दिया जाय। १८९६ ई०में जारके वित्तमंत्रीने चीनी पूर्वी रेल बनवानेके लिये चीनके साथ एक संधि की। इससे पहले साइबेरियाकी रेलवे बन चुकी थी। इस रेलको बनाकर जारशाही रूस मंचूरिया और कोरियापर हाथ साफ करना चाहता था। १८९८ ई० में ल्याउनुङ्ग प्रायद्वीप और उसके पार्ट आर्थर बन्दरगाहको भी रूसने ठीकेपर ले लिया, और उसने जल्दी-जल्दी ह्विनसे पोर्टआर्थर तक रेल बनानेका काम शुरू कर दिया। इस समय गिद्धकी तरह पश्चिमी युरोपकी शक्तियां चीनमें बन्दरगाह टाँट कर रही थीं। जर्मन कैसरने क्याउ चाउके बन्दगाहको दखल कर लिया। इंग्लैंडने हांगकांगको तो आधी शताब्दी पहले ही ले लिया था, अब उसने वेई-हाइ-वेइ बन्दरगाहपर भी अधिकार कर लिया। फ्रांस क्यों पीछे रहने लगा? उसने भी अपने हिन्दचीन अधिकृत प्रदेशकी सीमाको चीनके भीतर बढ़ाया। संयुक्त राष्ट्र अमरीकाने सबके लिये “खुला दरवाजा”

मांग करके पूंजीपति घड़ियालोंको चीनमें खुल खेलेकी मांग रखी। पश्चिमी शक्तियोंकी इस लूटके कारण चीनी जनतामें बहुत असंतोष हुआ, और १९०० ई० में बक्सरका भयंकर विद्रोह हो गया, जिसके दबानेमें पश्चिमी शक्तियोंके साथ रूसने भी भाग लिया। निकोलाइ II की सरकारने कोरियाकी सीमांत नदी यालू-उपत्यकाके जंगलोंकी लकड़ीका ठेका एक रूसी कम्पनीको दिलवाया, जिसका अर्थ केवल यही था, कि उसके द्वारा रूसी सेनाको आसानीसे कोरियामें पहुंचाया जा सके। पोर्टआर्थरको भी रूसी नौसैनिक अड्डेके रूपमें परिणत कर दिया गया। जापान यह सब देखते हुये चुप नहीं रह सकता था और न रूसके प्रतिद्वंद्वी अंग्रेज ही मीकेसे चूकनेवाले थे। दूसरोंको लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करना अंग्रेजोंकी पुरानी नीति थी। उन्होंने १९०२ ई० में रूसके विरुद्ध जापानसे सैनिक-संधि की, जिससे जापानको बहुत बल मिला।

रूसमें अब भी सामन्ती मनोवृत्ति काम कर रही थी, उद्योग-धन्धोंको पश्चिमके पूंजीपतियोंके सहारे खड़ा किया गया था, जो इस बातका पूरा ध्यान रखते थे, कि औद्योगिक वस्तुओंके लिये रूस हमसे स्वतंत्र न होने पाये। और तो और, सैनिक हथियारोंमें भी रूस परमुखापेक्षी था। शासक वर्गकी अदूर-दर्शिता और अयोग्यताके कारण किसी क्षेत्रमें भी प्रतिभायें आगे नहीं बढ़ने पाती थीं। रूसी सेनापतियों और युद्ध-संचालकोंको चुस्ती किसे कहते हैं, यह मालूम ही नहीं था। सुवारोफ, कतुजोफके समयसे सैनिक प्रतिभाओंकी उपेक्षा करके खुशामदी एंरे-गैरे नत्थूखैरे सामन्त-पुत्रों और जारके कृपापात्रोंको आगे बढ़ाया जाता था। रूस अभी युद्धके लिये तैयार नहीं है, यह जापानियोंको पता था। सारे मंचूरियामें उसके गुप्तचर फैले हुये थे, जिनसे जापानियोंको सारे भेद मालूम थे। इसी समय २६ जनवरी १९०४ ई०की रातको बिना युद्ध घोषित किये जापानी ध्वंसक पोतोंने अंधेरेमें छिपकर पोर्ट-आर्थरपर आक्रमण कर दिया। इस समय मुख्य सेनापति अद्मिरल स्तार्ककी जयन्ती मनाते हुये रूसी नौसैनिक अफसर नाचमें मस्त थे। जापानियोंने रूसके सर्वश्रेष्ठ तीन युद्धपोतोंको डुबा दिया, और २७ के सवेरे बम-वर्षा करके उन्होंने चार और युद्धपोतोंको नुकसान पहुंचाया। आरम्भ रूसियोंके लिये बहुत बुरी तरह हुआ, और उसके बाद जारशाही सेना हारपर हार खाती गई। अपने हाथियारों और वीरताकी अपेक्षा ईसाकी मूर्तियोंपर मुख्य सेनापति जनरल कुरोपात्किनका अधिक विश्वास था। उसने गाड़ियोंमें भर-भरकर युद्ध-क्षेत्रमें ले जा इन मूर्तियोंको बंटवाया। रूसी नौसैनिकों और सैनिकोंने लड़नेमें अपनी आनुवंशिक बहादुरीको दिखलाया, लेकिन हथियारोंके अभाव और सेनापतियोंकी अयोग्यताके कारण वह जापानियोंके खिलाफ पासा नहीं पलट सके। फरवरी १९०४ ई० में रूसी ध्वंसक "स्तेरेगुशनीने" चार जापानी ध्वंसकों और क्रूजरोंका मुकाबिला किया, जिसमेंसे एकको उसने डुबा दिया। आत्मसमर्पण करनेके लिये कहनेपर रूसी नौसैनिकोंने साफ इन्कार कर दिया। और जब उन्होंने देखा, कि हमारा जहाज जापानियोंके हाथमें जाना चाहता है, तो गोलोंकी वर्षाके भीतर दो अज्ञात नौसैनिकोंने नीचे जाकर पानी आनेके रास्तेको खोल दिया, और इस प्रकार अपने जहाजके साथ समुद्रतलमें बैठकर उन्होंने अपनी वीरताका परिचय दिया। पोर्टआर्थरने कुछ समय तक जापानी घिरावेमें रहते हुये प्रतिरोध किया, लेकिन उसे अन्तमें आत्मसमर्पण करना पड़ा।

१९०५ ई०में जारशाही रूसने जापानके हाथों बुरी तौरसे हार खाई, लेकिन रूसकी सैनिक पराजयने क्रांतिके आरम्भ करानेका काम दिया।

१९०५ ई० की क्रांति—रूस जापान युद्धके कारण रूसकी आर्थिक अवस्था बहुत ही बिगड़ गई। खर्चकी सीमा नहीं थी। बड़े-बड़े सुदपर विदेशसे कर्ज लेना पड़ा, जिसके लिये कर बढ़ाना जरूरी था; इस प्रकार जीवनोपयोगी सभी चीजोंका दाम बढ़ गया। उधर भारी संख्यामें किसानोंकी सेनामें भरती करनेके कारण खेतीको भी बहुत नुकसान पहुंचा। कारखानोंमें पूंजीपतियोंने मजूरी कम करनी चाही, जिसका परिणाम हुआ हड़तालें। नवम्बर और दिसम्बर १९०४ ई०में ही पीतरबुर्ग, मास्को और दूसरे नगरोंमें बोल्शेविकोंने सड़कोंमें जलूस संगठित किये, जिनका नारा था "स्वेच्छाचारिताकी क्षय, युद्ध बंद करो।" लोगोंके असंतोषको शांत करनेके लिये १२ दिसम्बर १९०४ ई०को घोषणा निकालकर जारने कुछ हलके-से अधिकारोंको देनेका वचन दिया।

३ जनवरी १९०५ ई० को पुतिलोफ (आधुनिक किरोफ) कारखानेमें चार मजदूरोंको निकाल दिया गया, जिसका परिणाम हुआ अगले ही दिन बारह हजार मजदूरोंकी हड़ताल। पीतरबुर्गके दूसरे कारखानोंके मजदूरोंने भी उनकी सहानुभूतिमें हड़ताल की और ८ जनवरीको डेढ़ लाख मजदूरोंने काम छोड़कर उसे सार्वजनिक हड़तालका रूप दे दिया। इतनी बड़ी संख्यामें उत्तेजित और बेकार मजदूर कोई और बड़ा कदम न उठा लें, इसके लिये ईसाई पादरी गपोनने सलाह दी, कि मजदूरोंकी ओरसे जारके पास आवेदन-पत्र भेजा जाय। अभी भी जारके प्रति लोगोंकी सद्भावना बनी हुई थी, और वह इसके लिये तैयार हो गये। उधर गपोनने इसकी सूचना खुफिया पुलिसको दे दी थी, और जारशाहीने खुलकर गोली चलानेकी तैयारी कर रखी थी। आवेदन-पत्रके कुछ वाक्य थे—

“हम पीतरबुर्गके मजदूर, हमारी बीबियां, हमारे बच्चे और हमारे असहाय बूढ़े मां-बाप, हे प्रभु, तेरे पास सहायता और रक्षा पानेके लिये आये हैं। हम गरीबीसे पीड़ित, अत्याचारके मारे असह्य मेहनत के बोझसे दबे जा रहे हैं। हमें अपमान सहना पड़ता है। हमारे साथ मानवोचित बर्ताव नहीं होता। हमारा धैर्य टूट रहा है, हम गरीबीके दलदलमें और नीचे डूबते जा रहे हैं। हम अधिकार और ज्ञानसे वंचित हैं। स्वेच्छाचारिता और क्रूरताने हमारा गला घोट रक्खा है। हमारा धैर्य खतम हो रहा है। वह भयंकर घड़ी आ गई है, जब कि इस असह्य पीड़ाको और अधिक सहनेकी जगह मरना हमारे लिये अच्छा है।” इसमें कुछ आर्थिक और राजनीतिक मांगोंके साथ संविधान सभाके बुलानेके लिये मांग की गई थी। बोल्शेविकोंने बहुत समझाया, कि जारके पास प्रार्थनापत्र देनेसे स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, लेकिन अब भी बहुत-से मजदूर कह रहे थे—“हम तजर्बा करके देखेंगे। जार हमारी उचित मांगोंको अस्वीकार नहीं करेगा।”

२२ (९) जनवरी १९०५ ई० रविवारका दिन था, जब कि एक लाख चालीस हजार मजदूर जारके चित्र, झंडे और ईसाई मूर्तियां लिये प्रार्थनाके गीत गाते हेमन्त प्रासादकी ओर चले। जारकी सरकारको मजदूरोंका स्वागत गोलियों और संगीनोंसे करना था। हेमन्त प्रासादकी सड़कोंपर जगह-जगह पलटन तैनात थी, लेकिन तो भी बहुत-से मजदूर प्रासादके मैदानमें पहुंचनेमें सफल हुये। निहत्थी जनता पर गोलियोंकी वर्षा होने लगी, एक हजार मजदूर मारे गये, दो हजार से अधिक घायल हुये। बोल्शेविकोंने यद्यपि पहले मना करनेकी कोशिश की, लेकिन न माननेपर उन्होंने मजदूरोंका साथ नहीं छोड़ा, और वह भी साथमें जाकर गोलीके शिकार हुये। मजदूरोंने ९ जनवरीके दिनको “खूनी-रविवार” का नाम दिया, उनके हृदयसे आवाज निकलने लगी—“हमारा कोई जार नहीं है।” उन्होंने अपने घरोंमें टांगे हुये जारके चित्रोंको फाड़कर फेंक दिया, और उसके बाद जबतक बोल्शेविक क्रांति नहीं हुई, “खूनी रविवार” मजदूरोंके लिये शहीदोंका स्मारक पर्व-दिन बन गया। बोल्शेविकोंने पुस्तिकायें निकालकर कहा—“हथियार, साथियो।” इसपर मजदूर बन्दूककी दूकानों और मिस्त्री-खानोंपर टूट पड़े, वहांसे उन्होंने हथियार लेकर अपनेको हथियारबंद किया। उसी ९ जनवरीके अपराह्न में पीतरबुर्गके एक मुहल्ले वासिलियेव्स्की द्वीपमें लोगोंने लड़नेके लिये सड़कपर बाड़ें खड़ी कीं। चारों ओर “स्वेच्छाचारिताकी क्षय” की आवाज गूंजने लगी। सड़कोंपर कई जगह पुलिसके साथ जनताकी मुठभेड़ हुई। इस दिन जो पाठ रूसके मजदूरवर्गको पढ़ाया गया, उसके बारेमें लेनिनने लिखा था—“अपने महीनों और वर्षोंके दरिद्र, दुःखी और उदास जीवनमें जिसे नहीं सीख सकते थे, वैसी क्रांतिकी शिक्षा सर्वहाराोंने एक दिनमें पाई।” “खूनी रविवार” जारशाहीके लिये जलियानवाला बाग सिद्ध हुआ। हड़तालका जोर और बढ़ा। जनवरी ११ (२४) १९०५ ई०को मास्कोमें भी हड़ताल हुई, और इसके बाद पोलन्द, फिनलन्द, उक्रइन, काकेशस और साइबेरिया सभी जगह हड़तालोंका तूफान आ गया।

१९०५ ई०के ग्रीष्ममें सर्वहाराोंका क्रांतिकारी संघर्ष चारों ओर फैल गया। प्रथम मईके महोत्सव में दो लाख बीस हजार मजदूरोंने पीतरबुर्गमें काम छोड़ दिया। मजदूरोंके संघर्षने किसानोंपर भी प्रभाव डाला और गांवोंमें आन्दोलन बढ़ चला। रूसके केंद्रीय इलाकों, गुर्जी और बास्तिक प्रदेशोंमें एक ही साथ किसानोंने जबर्दस्त आन्दोलन शुरू किया। फरवरी १९०५ ई०में कितनी ही जगहोंपर किसानोंने जमींदारोंके खुदाकास्त खेतोंको छीनना शुरू किया, और उस सालके वसंततक रूसकी

देहातमें सर्वत्र किसान-संघर्ष शुरू हो गया। किसानोंने जमींदारोंके महलों और मकानोंको नष्ट कर दिया, उनके खेतों और चरागाहोंपर अधिकार करके मनमाना जोतना शुरू किया। इतने व्यापक पैमानेपर हो रहे विद्रोहको दबाना जारशाहीके लिये आसान काम नहीं था, पर अभी सेनामें उतना असंतोष नहीं था।

अब उसमें भी लक्षण दिखलाई देने लगे। १९०५ ई०में ही, जब कि अभी जापानसे लड़ाई चल रही थी, कालासागरके नौसैनिक बेड़ेमें असंतोष फैल गया, और १४ (२७) जून १९०५ ई०को युद्धपोत "पोतोस्किन" के नौसैनिकोंने विद्रोह कर दिया, जिसका तुरन्तका कारण था, सड़े-गले कीड़े पड़े हुये अधपके मांसको सिपाहियोंमें परोसना। नौसैनिकोंने उसे खानेसे इन्कार कर दिया। कमांडरने मुखियोंको गोली मारनेका हुक्म दिया, जिसके विरोधमें सारे जहाजके सिपाहियोंने विद्रोह कर दिया। यद्यपि बड़े नौसैनिक अफसरोंने विद्रोही नेता वकुलिन्चुकको मार दिया, लेकिन तुरन्त मख्युशेंको नामक दूसरे नाविकने नेतृत्वको संभाला। नाविकोंने बहुतसे अफसरोंको मारकर युद्धपोतको अपने हाथमें कर लिया। लाल झंडा उड़ाते हुये जब वह अदेस्सा शहरके सामने पहुँचे, तो वहाँके मजदूरोंमें बिजली दौड़ गई, लेकिन नरमदली समाजवादी मेन्शविकोंने उलटा समझा-बुझाकर लोगोंको रोका। "पोतस्किन" कितने ही दिनोंतक लाल झंडा उड़ाते हुये कालासागरमें इधरसे उधर घूमता रहा, लेकिन जब तटके किसी नगरसे सहायता नहीं मिली, और उधर गोला-बारूद भी कम होने लगा, तो रूमानियाके तटपर जाकर नाविकोंने आत्मसमर्पण कर दिया। रूमानियन सरकारने पीछे १९०६ ई० में क्रांतिकारियोंको जारकी सरकारके हाथमें दे दिया, जिसने उनमेंसे बहुतोंको फांसीपर चढ़ाया और बहुतोंको कालापानीकी सजा दी। यह पहली बार था, जब कि एक विशाल युद्धपोतके सारे सैनिकोंने जारके खिलाफ खुल्लमखुल्ला विद्रोह किया। इतिहासमें हम दूसरे तरहके विद्रोह देख चुके हैं। प्रभुवर्गमें ही किसी एक व्यक्ति या दलके विरुद्धने दूसरे दलका हथियार उठाना पहले भी देखा गया था, लेकिन यह विद्रोह बिल्कुल नये तरहका था, जिसमें दरिद्र और निरीह वर्ग सहस्राब्दियोंसे शासक दलके खिलाफ खुल्लमखुल्ला उठ खड़ा हुआ, मानो जिन ईंटोंसे प्रासाद बना था, वही अब प्रासाद को ढानेके लिये हिलने-डुलने लगीं।

जापानसे संधि—जारशाही सेनापतियोंकी अयोग्यता और रूसके पिछड़ेपनके कारण जापान हारपर हार दे रहा था। इसी बीच "खूनी रविवार" और मजदूरों, किसानों तथा नौसैनिकोंके विद्रोहों ने ऐसी हालत पैदा कर दी, कि जारशाहीके लिये और अधिक दिनतक जापानके साथ लड़नेका मतलब था घरमें ही तख्ता उलट जाना। चूशिमामाकी खाड़ीमें रूसी जंगी बेड़ेका जब जापानियोंने संहार कर दिया, तो विदेशी पूँजीवादियोंको भी भय लगने लगा, कि कहीं पेरिसकी आवृत्ति बड़े पैमानेपर रूसमें न होने लगे, इसीलिये उन्होंने जारकी सरकारपर युद्ध बंद करके जापानके साथ सुलह कर लेनेके लिये जोर देना शुरू किया, और यह भी कि जारको भीतरी शांति बनानेके लिये कुछ वैधानिक सुधार देकर लोगोंको अपनी तरफ खींचना चाहिये। उधर जापानकी भी भीतरी हालत अच्छी नहीं थी, क्योंकि युद्धमें अपार धन और जनका संहार हो रहा था, जिससे वहाँके लोगोंमें भी असंतोष फैलनेका डर था। जापानके कहनेपर संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाके राष्ट्रपति थ्योडोर रूजवेल्टने बीचमें पड़ना स्वीकार किया। जारशाही युद्धपरिषद्ने ६ जून (२४ मई) १९०५ ई०को जारकी अध्यक्षतामें बहुमतसे शांतिके पक्षमें फैसला किया, क्योंकि "हमारे लिये विजयसे भी अधिक महत्त्वकी चीज है घरेलू शांति हम असाधारण स्थितिमें आज पड़े हुये हैं। हमें रूसके भीतर शांतिको पुनः स्थापित करना है।" जारशाही ने सुलह करना स्वीकार किया। जापानकी शर्तें बहुत कड़ी थीं, लेकिन रूजवेल्टने भी दबाव डाला, और अन्तमें ५ सितम्बर (२३ अगस्त) १९०५ ई०को पोर्टस्मिथकी संधिपर हस्ताक्षर हुये। रूसने कोरियामें जापानके सैनिक, राजनीतिक तथा आर्थिक हितों और अधिकारोंको स्वीकार किया। पोर्ट-आर्थर और दलनीके अपने ठेकेवाले प्रदेशको उऽने जापानके हाथमें सौंप दिया, सखालिन द्वीपका दक्षिणार्ध और पासके द्वीपोंको भी जापानके हाथमें दे दिया, एवं पूर्वी चीनी रेलको केवल व्यापारिक दृष्टिसे चलाना स्वीकार किया।

जापानने जारशाही गर्वको चूर-चूर कर दिया। इस युद्धमें रूसके चार लाख आदमी हत, आहत

या बंदी हुये और तीन अरब रूबल धनका नाश हुआ। रूसी जनतापर इसका बुरा प्रभाव पड़ना ही चाहिये था, लेकिन जारशाही अब पूरवके झगड़ेसे छुट्टी पाकर क्रांतिको कुचलनेमें समर्थ थी, तो भी संधिपर हस्ताक्षर होनेके सप्ताईस दिन बाद २ अक्टूबर (१९ सितम्बर) १९०५ ई०में मास्कोके प्रेसकर्मियोंने आम हड़ताल कर दी, जिनका साथ वहाँके रोटी बनानेवालों, तम्बाकू-मजदूरों तथा दूसरे कमकरोंने दिया। पुलिस और कसाक सैनिकोंने उनके प्रदर्शनोंको बलपूर्वक छिन्न-भिन्न करना चाहा, इसपर मजदूरोंने भी पुलिसके ऊपर तमंचे चलाये। छ दिन बाद २५ सितम्बर (पुराना पंचांग) को मास्को की एक सड़कपर मजदूरों और जारके कसाकोंमें बाकायदा लड़ाई हुई। दो मजदूर मारे गये, आठ घायल हुये और १९२ गिरफ्तार हुये। ७ अक्टूबरको मास्को-कजान्स्कया रेलवेके मजदूरोंने हड़ताल कर दी, जिनका साथ ८ अक्टूबरको दूसरी रेलोंके मजदूरोंने भी दिया। ११ अक्टूबरको रेलवे हड़तालने सारे राष्ट्रमें आम हड़तालका रूप लिया, जिसमें स्कूलके अध्यापक, आफिसोंके कर्मचारी, कानूनपेशा लोग, इंजीनियर और विद्यार्थी भी सम्मिलित हुये। उन्होंने संविधान-सभाके बुलानेकी मांग की। जारने बहुत चाहा, कि गोलियोंकी वर्षासे विद्रोहको दबा दिया जाय, लेकिन वह उसमें आसानीसे सफल कैसे हो सकता था? अक्टूबर महीनेकी इन हड़तालोंने सरकारी शासन-यंत्रको अकर्मण्य बना दिया था।

इसी समय विद्रोहियोंने अपने संगठन, संघर्ष और शासनको चलानेके लिये एक नये यंत्रका आविष्कार किया, जिसने १९०५-६ ई०की क्रांतिमें ही बहुत काम नहीं किया, बल्कि १९१७ ई०की बोल्शेविक-क्रांतिकी सफलतामें भी उसका बहुत बड़ा हाथ था। यह संगठन था मजदूर-प्रतिनिधियोंकी सोवियत। सोवियत शब्दका वही अर्थ है, जो हमारे यहां पंचायतका, लेकिन शासन और सैनिक अधिकारोंके भी हाथमें लेनेसे सोवियतको मामूली पंचायत नहीं कहा जा सकता। १३ (२६) अक्टूबरको, जब कि हड़ताल चल रही थी, पीतरवुर्गके कमकरोंने अपने कारखानोंमें सभायें कीं, और हड़तालका नेतृत्व करनेके लिये मजदूर-प्रतिनिधियोंकी सोवियतके लिये अपने आदमी चुने। यद्यपि इसका आरम्भ हड़तालकी संयुक्त समितिके रूपमें हुआ था, लेकिन क्रांतिने जल्दी ही उसे शक्तिको संभालनेके लिये मजदूर किया। पीतरवुर्गके मजदूरोंकी देखादेखी रूसके सभी बड़े-बड़े नगरोंमें मजदूर-प्रतिनिधि सोवियतें १९०५ ई० के अक्टूबरमें दिसम्बर तक कायम होती रहीं। मास्को सोवियत बोल्शेविकों के प्रभावमें थी, इसलिये वह हथियारबंद विद्रोहकी तैयारीका संगठन बन गई। काकेशस, लतविया और त्वेर एवं मास्को गुर्वानिया जैसे कितने ही केंद्रीय रूसके इलाकोंमें सैनिक प्रतिनिधि भी सोवियतके सदस्य बने।

रूसके भिन्न-भिन्न जगहोंमें क्रांति और विद्रोहकी जो लहर फैली हुई थी, उसका प्रभाव वोल्गा-प्रदेश तथा दूसरे इलाकोंकी एसियाई जातियोंपर भी पड़े बिना नहीं रहा। वोल्गासे अल्ताइ और अफगानिस्तानतक जारकी हुकूमत मुसलमानोंके ऊपर थी। वहां अभी राजनीतिक जागृति इतनी नहीं हुई थी, कि वहाँके लोग धर्म और साम्प्रदायिकतासे ऊपर उठते। वोल्गा-प्रदेश और बाशकिरियामें राष्ट्रीयतावादी मध्यमवर्गने मुस्लिम लीग कायम की। लीगने धीरे-धीरे मध्य-एसिया और काकेशस के मुसलमानोंको भी प्रभावित करना शुरू किया। साम्प्रदायिकतापर निर्भर आन्दोलन और संगठनका नेतृत्व मुल्लोंके हाथमें जाना जरूरी था, और मुल्ला रूसियोंके खिलाफ जहाद करनेका ही तरीका पसंद कर सकते थे, लेकिन बहुतसे एसियाई इलाकोंमें रूसी उनके पड़ोसी किसान और मजदूर बनकर बस गये थे, जो विशाल दृष्टिपूर्वक संचलित राष्ट्रीय आन्दोलनमें एसियाई जातियोंके स्वतंत्रताके युद्धमें सहायक बन सकते थे। लेकिन अभी यह काम बारह साल बाद होनेवाला था। १९०५ ई०के अन्तमें तारतार मध्यमवर्गीय राजनीतिक नेताओंने कजानमें प्रथम मुस्लिम कांग्रेस बुलाई, जिसने हमारे यहां के पुराने कांग्रेसियों की तरह जारसे भक्तिपूर्वक प्रार्थना की, कि मुसलमानोंको भी वही अधिकार मिलने चाहिये, जो कि बादशाहकी रूसी प्रजाको प्राप्य हैं। १९०५ ई०में चुवाशोंमें भी राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू हुआ, लेकिन वह शुद्ध किसान आन्दोलन था, जो चाहता था, कि किसानोंको धरती और मुक्ति मिले। चुवाश और मारी लोगोंके भीतर हो रहे किसान आन्दोलनको अखिल रूसी किसान संघके सदस्योंने संचालित किया था। किसानोंने जमींदारोंसे जमीन छीनने और अपनी भाषामें स्कूलोंके खोलनेकी मांग की। साइबेरियाके दूरियत मंगोल भी जारशाही अफसरोंके अत्याचारसे तंग आ गये थे, उन्होंने

साइबेरिय जातियोंकी लीग स्थापित की। १९०५ ई० ही में याकूतोमें भी जागृत हुई, और उन्होंने याकूत लीग कायम की, जिसे जारशाहीने जल्दी ही दबा दिया।

दिसम्बरका विद्रोह—रूसी कमकर समझने लगे थे, कि केवल राजनीतिक हड़तालोंसे काम नहीं चल सकता। अक्टूबरकी हड़तालके बाद सबसे पहले हथियारबंद विद्रोह करनेवाले थे क्रोन्स्तात् नौसैनिक अड़के नाविक और तोपची। २६ और २७ अक्टूबर (पुराना पंचांग) के दो दिन और दो रातोंतक रूसका यह भयङ्कर नौसैनिक अड़का विद्रोहियोंके हाथोंमें रहा, लेकिन अभी उनका भीतर-बाहरका संगठन इतना मजबूत नहीं था, इसलिये २८ अक्टूबरको जारशाही सेनाने उसे दबा दिया। दो सौ विद्रोहियों तथा उनके नेताओंको फौजी अदालतद्वारा कड़े दंड दिये गये।

इस समय रूस-अधिकृत पोलन्डमें फौजी कानून घोषित किया गया था। उसके उठा लेने तथा क्रोन्स्तातके नाविकोंको मुक्त करानेके लिये १४ (१) नवम्बर १९०५ ई०को पीतरबुगकी मजदूर-प्रति-निधि-सोवियतने एक आम हड़ताल घोषित की। जारकी सरकारको मजबूर होकर उनकी मांगोंको स्वीकार करना पड़ा, पोलन्डसे मार्शल-ला (फौजी कानून) उठा दिया गया, और क्रोन्स्तातके नाविकों पर फौजी अदालतमें कोर्ट मार्शल द्वारा फांसीका दंड दिलानेकी जगह साधारण सैनिक अदालतमें मुकदमा चलाया गया, जिसने ८३ विद्रोहियोंको छोड़ दिया, १२३ को जेलकी और केवल नौ को कालापानीकी सजा दी। इसमें शक नहीं, पीतरबुगके कमकरोंकी हड़तालने क्रोन्स्तातके बहुतसे विद्रोहियोंके प्राणोंकी रक्षा की। क्रांतिकी इस दूसरी लहरने कालासागरके नौसैनिकोंको प्रभावित किया। २७ (१४) नवम्बरको कूजर "ओचाकोफ" के नाविकोंने विद्रोह किया। "पोतेम्किन"के नाविकोंकी जो गति हुई थी, उससे ये नाविक हताश नहीं हुये थे। २८ (१५) नवम्बरको दूसरे सैनिक पोतों और सेवस्तापोलके दुर्गमें काम करनेवाले सैनिकों और कमकरोंने ओचाकोफके विद्रोहियोंका साथ दिया। "पोतेम्किन" का नाम "पतेलेइमोन" रखकर जारशाहीने उसे सुरक्षित समझा था, लेकिन पोतेम्किनके ऊपर फिर लाल झंडा फहराने लगा। अभी भी दूसरे युद्धपोत और सैनिक जारशाहीके भक्त थे। २८ (१५) नवम्बर को ही तट और जहाजकी तोपोंने "ओचाकोफ" पर गोलाबारी शुरू की, जिससे उसमें आग लग गई। नाविकोंने समुद्रमें कूदकर बचनेकी कोशिश की, लेकिन उन्हें मशीनगनोंकी गोलियोंसे भून दिया गया। विद्रोहियोंका नेता लफटेनेट स्मिथ और दूसरे नेताओंको कोर्टमार्शल करके गोलीसे उड़ा दिया गया। इस प्रकार कालासागरका विद्रोह दबा दिया गया।

नवम्बर और दिसम्बरके महीनोंमें अबकी किसानोंके विद्रोहने और भी जोर पकड़ा। युरोपीय रूसके एक तिहाईसे अधिक इलाकोंमें किसान जमींदारोंको भगाकर उनसे खेतोंको छीन रहे थे, उनके मकानों और महलोंको लूटते बरबाद कर रहे थे।

क्रांतिकी प्रगतिको लेनिन अपने निर्वासित स्थान (जेनेवा)से गम्भीरतापूर्वक बराबर देख रहे थे। नवम्बर (१९०५ ई०)में क्रांतिकारी संघर्षका नेतृत्व करनेके लिये उन्होंने रूसमें आना जरूरी समझा। दिसम्बर १९०५ ई०में फिनलैंडमें तम्मेरफोर्स नगरमें बोल्शेविकोंका एक सम्मेलन हुआ। यहींपर स्तालिनको लेनिनको देखनेका सर्वप्रथम सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेनिनके सुझावपर सम्मेलनने सदस्योंको अपने-अपने इलाकेमें विद्रोह-संचालन करनेका आदेश दिया। लेकिन दिसम्बरके आरम्भ तक जारशाहीने अपनी शक्तिको पहलेसे अधिक दृढ़ कर लिया था। मंचूरियाके युद्धक्षेत्रसे कितनी ही सेनायें लौटकर युरोपीय रूसमें पहुंच गई थीं। अबकी मास्कोका नम्बर पहला था। वहाँकी सोवियतके नेता बोल्शेविक थे। उन्होंने हथियारबंद विद्रोहकी तैयारी बड़े जोर-शोरसे शुरू की। उनके प्रयत्नसे मास्कोकी छावनीमें भी विद्रोहकी लहर फैल गई, जिसमें रस्तोफ रेजिमेंट पहिले रही। १५ (२) दिसम्बरको सिपाहियोंने अपने अफसरोंको गिरफ्तार कर लिया, और रेजिमेंटके कामके संचालनके लिये सिपाहियोंकी एक समिति निर्वाचित की। लेकिन मास्कोकी दूसरी रेजिमेंटोंने उनका अनुसरण नहीं किया, इसलिये १७ (४) दिसम्बरको इन सैनिकोंको दबा दिया गया। अगले दिन मास्कोके बोल्शेविकोंने एक सम्मेलनमें मास्को सोवियतपर जोर दिया, कि वह हथियारबंद विद्रोहको बढ़ानेके लिये आम हड़ताल घोषित करे। २० (७) दिसम्बरके सबरे आम हड़ताल शुरू हुई। बन्दूकें-पिस्तौल पर्याप्त नहीं थे, इसलिए मजदूरोंने अपने मिस्त्रीखानोंमें कामचलाऊ हथियार बनाये। दो हजार मजदूर-जिनमें करीब आधे

बोल्शेविक थे—लड़नेवाले दलमें शामिल हुये। सड़कोंमें प्रदर्शन हुये, और मजदूर मुहल्लोंमें पुलिसके साथ मुठभेड़ हुई। सारी अस्त्राखानी रेजिमेंट अपने पूरे सामानके साथ विद्रोहियोंकी मददके लिये तैयार हो गई, लेकिन जारभक्त कसाकोंने उन्हें घेरकर अपनी बारकोंमें लौटनेके लिये मजबूर किया। दूसरी कितनी ही संदिग्ध रेजिमेंटोंको भी अपनी बारकोंमें ही रखा गया। सचमुच मास्को-स्थित उस समयके पन्द्रह हजार सिपाहियोंमें तेरह सौ नब्बे ही ऐसे थे, जिनपर जारशाही विश्वास कर सकती थी। मास्कोके महाराज्यपालने राजधानीमें सेना भेजनेके लिये संदेशपर संदेश भेजे थे। लेकिन क्रांतिकारी इस स्थितिसे पूरा फायदा नहीं उठा सके। २२ (९) दिसम्बरको सरकारी सेनाका पल्ला भारी हो गया, और उन्होंने जगह-जगह आक्रमण करके विद्रोहियोंको दबाना शुरू किया। स्थितिको प्रतिकूल देखकर मास्कोकी पार्टी कमीटी और मजदूर-प्रतिनिधि सोवियतने ३१ (१८) दिसम्बरकी रातको विद्रोहको बंद करनेका निश्चय किया। सब जगह विद्रोहियोंने लड़ाई बंद कर दी। क्रांतिकारियोंको मौतसे कैसे बचाया जाय, इसका भार उखतोम्स्की नामक इंजन-ड्राइवरने अपने ऊपर लिया, और ट्रेनमें क्रांतिकारियोंको बैठाकर वह मशीनगनों और राइफलोंकी गोलियोंकी वर्षाके बीचसे ट्रेनको बड़े वेगसे भगा ले गया। इस प्रकार उसने कितने ही क्रांतिकारियोंको फांसी पानेसे बचा लिया। जारकी सेनाने मजदूरों और उनके परिवारके ऊपर भयंकर अत्याचार किये, सैकड़ोंको बिना मुकदमा चलाये ही गोलियोंसे ठंडा कर दिया।

मास्कोके बाहर दूसरे कितने ही शहरोंमें भी हथियारबंद विद्रोह हुये। दक्षिणमें गोरलोकामें विद्रोहियोंने जारके राज्यको खतम करके मजदूर-प्रतिनिधियों का शासन आरम्भ कर दिया। मजदूरोंके पास अपने हाथकी बनाई तलवारों, छुरों तथा थोड़ेसे तमचोंके सिवा और हथियार नहीं थे, तो भी चार हजार क्रांतिकारियोंने जारके कसाकोंके साथ पांच घंटे तक बड़ी बहादुरीसे लड़ाई की, जिसमें उनके तीन सौ आदमी काम आये। दोनेत्स-उपत्यकामें सभी जगह पुलिस और सेनाके साथ विद्रोहियोंकी लड़ाई हुई। लुगान्स्कमें सशस्त्र विद्रोह और हड़तालका नेतृत्व क० ई० बोरोशिलोफने किया। १९०५ ई० के ग्रीष्ममें बोरोशिलोफको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दिसम्बरमें हजारों मजदूरोंने जाकर “अपने लाल जेनरल” को जेलसे छुड़ा लिया। बोरोशिलोफकी संगठन शक्ति और सैनिक सूझ-बूझको देखकर एक सभामें एक मजदूरने कहा—“हम तुम्हें अपना लाल जेनरल नियुक्त करते हैं।” जिसका जवाब बोरोशिलोफने हंसते हुये दिया—“तुम बहुत दूरकी बातकर रहे हो, मुझे सैनिक विद्याका कुछ भी पता नहीं है।” उस समय सचमुच ही किसको पता था, कि बोल्शेविक-क्रांतिके समय वह अपनी सैनिक प्रतिभाका सुन्दर परिचय देगा, और अन्तमें रूस-जैसी दुनिया की एक शक्तिशाली सेनाका फील्ड-मार्शल और आज सोवियत संघ का राष्ट्रपति बनेगा।”

इसी प्रकार नवोरोसिस्कमें भी मजदूर-प्रतिनिधियोंकी सोवियतने शासन अपने हाथमें संभाल लिया। कालासागर-तटवर्ती नगर सोचीमें भी यही बात हुई। साइबेरियाके क्रान्तोयास्क और चीता नगरोंकी सेना विद्रोही मजदूरोंसे मिल गई और यहां सिपाहियोंके भी प्रतिनिधियोंने मजदूर-प्रतिनिधियोंकी सोवियतोंमें शामिल होकर विद्रोहका संचालन किया।

१९०५ ई०का विद्रोह खूनी हाथोंसे दबा दिया गया। प्लेखानोफ अब नरमदली समाजवादी हो गया था। उसका कहना था—“उन्हें हथियार उठाना नहीं चाहिये था।” जिसका जवाब लेनिनने दिया—“इसके विरुद्ध हमें सारी शक्तके साथ और दृढ़तापूर्वक आक्रमणात्मक रूपमें हथियार उठाना चाहिये था।” दिसम्बरकी क्रांतिके असफल होनेके कारण थे—किसानोंसे मदद नहीं मिलना, सेनाके भी अधिक भागका जारशाहीके साथ होना, विद्रोहियोंका अच्छी तरह संगठित न होना और एक साथ उठनेकी जगह विद्रोह का भिन्न-भिन्न जगहोंमें भिन्न-भिन्न समयोंमें आरम्भ होना। विद्रोहियोंके पास काफी हथियार नहीं थे, उन्होंने आक्रमण करनेकी जगह प्रतिरोध करना पसंद किया, तो भी इस क्रांतिके असफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रांतिकारियोंने जो भूलें इस समय की थीं, अपनेमें जो कमियां पाई थीं, उन्हें हटानेमें सफल होकर ही वह १९१७ ई०की क्रांतिमें विजयी हुये। इसीलिये इस क्रांतिके १९१७ ई० की क्रांतिकारिहर्षल कहा जाना बिलकुल ठीक है।

शासन-मुधार—जारशाहीने क्रांतिके दबा दिया, लेकिन वह जानती थी, कि लोगोंको संतुष्ट

करने या धोखेमें रखनेके लिये कुछ सुधार देना भी जरूरी है। ११ सितम्बर १९०५ ई०को इसीलिये राज्यदूमा (संसद)के चुनावकी घोषणा की गई। लेकिन यह पहिले ही निश्चय कर लिया गया, कि निर्वाचनमें राजभक्तोंका ही पलड़ा भारी रहे, इसीलिये जहां जमींदारोंको दो हजार मतदाताओं पर एक प्रतिनिधि और नगरोंके सम्पत्तिवालोंको सात हजार वोटरोंपर एक प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दिया गया था, वहां तीस हजार किसान और नब्बे हजार मजदूर वोटरोंपर एक प्रतिनिधि भेजनेका नियम बनाया गया था। निर्वाचन भी सीधा नहीं था। प्रत्येक गांवके वोटर वोलोस्त (जिले) के लिये निर्वाचक चुनते। ये निर्वाचक हरएक जिलेसे दो प्रतिनिधियोंको कमिश्नरीके लिये चुनते। कमिश्नरियोंके चुने हुये निर्वाचक गुबनियों (प्रदेशों) के लिये निर्वाचक चुनते, और गुबनियोंके ये निर्वाचक दूमा (संसद) के लिये प्रतिनिधि चुनते। वोट भी गुप्त नहीं देने थे। जारकी सरकारने इस प्रकार समझ लिया था, कि हम ऐसे आदमियोंको ही संसदमें आने देंगे, जो कि हमारी हांमें हां मिलयें। मार्च और अप्रैल १९०६ ई०में राज्यदूमाके लिये निर्वाचन हुये। उस समय पुलिसके अत्याचारोंसे सब जगह त्राहि-त्राहि मची हुई थी। बोल्शेविकोंने निर्वाचनके बायकाट करनेका निश्चय किया था। इसी समय १९०६ अप्रैलमें स्टाकहोममें समाजवादी जनतांत्रिकोंकी कांग्रेस हुई। जारशाही अत्याचारोंसे सबका सीखकर बोल्शेविक और मेन्शेविक दोनों इस कांग्रेसमें सम्मिलित हुये, और समाजवादी जनतांत्रिक पार्टीके भीतर अलग अलग दो गुटोंको रखते हुये भी वह एक हो गये।

नवनिर्वाचित दूमाके उद्घाटनसे तीन दिन पहले अप्रैल १९०६ ई०के अन्तमें जारशाहीने "आधारिक राज्यविधान" प्रकाशित किये, जिसके द्वारा "सभी रूसोंके सम्राट्में सर्वोच्च परमस्वतंत्र राज्यशक्ति निहित है" को घोषित किया गया। साथ ही दूमापर अंकुश रखनेके लिये एक राज्य-परिषद् बनाई गई, जिसकी स्वीकृतिके बिना कोई भी कानून दूमा द्वारा पास होकर जारके पास भेजा नहीं जा सकता था। परिषद्में आधे सरकारी उच्च अधिकारी थे, जिनकी नियुक्ति जार करता, बाकी आधेमें स्थानीय बोर्डों (जेम्स्वों), अमीरों, पादरियों और विश्वविद्यालयोंके प्रतिनिधि लिये जानेवाले थे।

इतने छंद-बंदके बाद निर्वाचित दूमा भी पूरी तौरसे जारशाहीके अनुकूल सिद्ध नहीं हुई। उसके ५२४ सदस्योंमें २०४ किसान थे, जोकि वैसे किसान नहीं थे, जिन्हें जारका सलाहकार प्रधान-मंत्री काउंट विते चाहता था। समाजवादी जनतांत्रिक समूहके अठारह प्रतिनिधि दूमामें पहुँचे थे। वैधानिक जनतांत्रिक या नरमदलियोंकी संख्या १७९ थी।

यद्यपि विद्रोहका वेग दब गया था, लेकिन वह बिल्कुल खतम नहीं हुआ था। १९०६ ई०में मईसे अगस्ततक देशके आधे भागमें किसानोंके आन्दोलन और बलवे चलते रहे। दूमा जनताके हितके लिये नहीं बनाई गई थी, इसलिये वह लोगोंको शांत करनेमें कैसे समर्थ होती? जब भूमि-संबंधी समस्याके बारेमें किसान-प्रतिनिधियोंने अपने अनुकूल प्रस्ताव पास करना चाहा, तो घबड़ाकर सरकारने ८ जुलाई १९०६ ई०को दूमाको खतम कर दिया।

उसी साल दूसरी दूमाका निर्वाचन हुआ। प्रथम दूमाका बोल्शेविकोंने बायकाट किया था, लेकिन प्रथम दूमाके तजर्से उन्हें पता लग गया, कि दूमाको अपने विचारोंके प्रचारके लिये एक अच्छा प्रभावशाली भाषणमंच बनाया जा सकता है, इसीलिये लेनिनके परामर्शके अनुसार बोल्शेविकोंने अबके निर्वाचनमें भाग लेनेका निश्चय किया। वामपक्षी दलने भी भाग लिया, जिसके कारण द्वितीय दूमा जारशाहीके लिये प्रथमसे भी अधिक कड़वी साबित हुई। नरमदली संबैधानिक जनतांत्रिक पहिलेकी अपेक्षा आधे ही (१७९ : ९८) आ पाये। किसान गुट तथा नरम समाजवादी क्रांतिकारी जहां पहली दूमामें ९४ थे, वहां अब उनकी संख्या बढ़कर १५७ हो गई। समाजवादी जनतांत्रिक अब अठारहकी जगह पैसठ थे। यद्यपि द्वितीय दूमामें प्रगतिशील विचारोंका प्रतिनिधि बज्यादा था, लेकिन अब क्रांतिका वेग उतारपर था, इसलिये वह जनताके किसी भी हितको करनेमें असमर्थ थी, ३ जून १९०७ ई०को प्रतिगामी जारके पिट्टुओंने कानूनके दिखावेको भी छोड़कर चारों ओर अत्याचार करना शुरू किया। उसी साल १५९ मजदूर सभाओंको भंग कर दिया गया, १९०८ ई०में नौ और १९०९ ई०में छानवे मजदूर-संगठन निषिद्ध कर दिये गये। द्वितीय दूमाको

खतम कर देनेके बाद भी निकोलाइ II अपनेमें इतनी शक्ति नहीं पाता था, कि दूमाके बिना ही शासनको जारी रखे, इसीलिये वह तृतीय दूमाके निर्वाचन करनेकी घोषणा करनेके लिये मजबूर हुआ। अबकी बार जारशाहीने चुनावके नियम और भी अनुकूल बनाये : जमींदार २३० वोटरोपर एक, बूज्वा (पूजीवादी) हजारपर एक, किसान साठ हजारपर एक और मजदूर सवा लाखपर एक प्रतिनिधि भेज सकते थे। रूसी प्रजाको जहां दूमामें अपना प्रतिनिधि भेजनेका इस प्रकार अधिकार प्राप्त था, वहां मध्य-एसियाके लोगोंको एक भी प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार नहीं दिया गया था—यूरोपीय रूसके जहां ४०३ थे, वहां सीमांती इलाकोंके ३९ ही लिये जानेवाले थे, जिनमें बाहरह रूसी-पोलैंडके प्रतिनिधि थे। इस नियमके अनुसार जो निर्वाचन हुआ, उसमें २०२ अथवा ४६ प्रतिशत सदस्य जमींदारोंके थे। वामपक्षी दलोंको केवल ७ प्रतिशत जगहें मिली थीं, लेकिन जारशाही तो दूमाको केवल दिखावेकी चीज रखना चाहती थी। वह दूसरी तरहसे भी विरोधी शक्तियोंको कुचलनेके लिये तैयार थी। विद्रोही किसानोंकी शक्तिको सर्वथा नष्ट कर देनेके लिये उसने यह तरीका निकाला था—गांवकी पंचायती सत्ताका नष्ट कर देना, देहातमें भूमिपर सामूहिक अधिकार रखनेकी जगह किसानोंको वैयक्तिक तौरसे खेतोंपर अधिकार देना, एवं किसानोंको विद्रोही गांवों और इलाकोंसे ले जाकर दूसरी जगह बसाना। इसकी वजहसे वह कुछ समयके लिये किसानोंकी शक्तिको तोड़नेमें सफल हुई। गांवकी जमीनपर सामूहिक अधिकार होनेपर धनी और गरीब किसानोंके बीच भारी भेद नहीं कायम किया जा सकता था, लेकिन अब गांवोंमें कुलक (धनी किसान) पैदा होने लगे।

जारशाही सङ्गने लगी थी, कि लेनिनके रूपमें उसे एक बड़े शत्रुसे मुकाबला पड़ा है। १९०७ ई०के जाइमें सरकारने लेनिनकी गिरफ्तारीका हुक्म निकाला। लेनिन फिनलैंडमें गुप्त रीतिसे रहते थे। पार्टीकी सलाहपर लेनिनको देश छोड़ जाना पड़ा। गुप्त रीतिसे जिस जहाज द्वारा उन्हें बाहर जाना था, उसे पकड़नेके लिये पुलिसकी आंख बचाकर फिनलैंडकी बर्फ जमी खाड़ीके ऊपरसे चलना पड़ा। एक जगह कमजोर बर्फके कारण लेनिन मौतसे बाल-बाल बचे। आखिर वह जहाज द्वारा देश छोड़कर प्रायः दस सालके लिये विदेशमें जीवन बिताने चले गये। क्रांतिके असफल होनेका एक प्रभाव यह हुआ, कि क्रांतिके साथ सहानुभूति रखनेवाले बुद्धिजीवियोंमें निराशा और उसीके कारण विचारोंमें गड़बड़ी पैदा हो गई। लेकिन तब भी बोल्शेविकोंने अपनी पार्टीको नष्ट होनेसे बचानेके लिये पूरी कोशिश की। जनवरी १९१२ ई०में बोल्शेविकोंने स्वतंत्र बोल्शेविक पार्टी स्थापित करनेके लिये प्राहा (चेकोस्लोवाकिया) में अपना सम्मेलन किया, जिसका बहुत भारी ऐतिहासिक महत्त्व है, क्योंकि इसीके निर्णय द्वारा स्थापित बोल्शेविक पार्टीने पांच वर्ष बाद रूसमें सफल क्रांति की। इस वक्त जो केंद्रीय समिति नियुक्त की गई थी, उसमें लेनिन, स्तालिन और य० म० स्वेर्द्लोफ मुख्य थे। इसी समयसे पार्टीके पुराने नाम “रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टी”के साथ-साथ ब्रंकेटमें “बोल्शेविक” भी लिखा जाने लगा। इसी सम्मेलनके समय से बोल्शेविक नेताओंने दृढ़तापूर्वक कार्य आरम्भ किया। इन नेताओंमें लेनिन सर्वोपरि थे। उनके सहायकोंमें याकोब मिखाइल-पुत्र स्वेर्द्लोफ भी एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता था, जिसने कजान और उरालमें बहुत काम किया और पीछे साइबेरियामें निर्वासित कर दिया गया था। सोवियत शासनकी स्थापनाके बाद यही रूसका प्रथम राष्ट्रपति हुआ। मिखाइल वासिली-पुत्र फ्रुंजे दूसरा जबर्दस्त बोल्शेविक क्रांतिकारी था, जिसने बोल्शेविक क्रांतिके समय अपनी सैनिक सूत्र और संगठनका बहुत अच्छा परिचय दिया। आज मध्य एसियाके किर्गिजस्तान गणराज्यकी राजधानी फ्रुंजेके नामपर मशहूर है। सेर्गेई मीरन-पुत्र किरोफ १८ वर्षकी उमरमें बोल्शेविक पार्टीमें शामिल हुआ, और १९०५ ई०की क्रांतिमें उसने जबर्दस्त भाग लिया। क्रांतिके सफल होनेके बाद उसने बहुत-से जवाबदेह पदोंको संभाला, और द्वितीय पंचवार्षिक योजनाके समय दुश्मनकी गोलीका शिकार हुआ। स्तालिनकी जन्मभूमि गुर्जिका ग्रिगोरी कान्स्तन्तिनो-पुत्र ओर्जोनीकिद्जे १९०३ ई०में बोल्शेविक पार्टीमें शामिल हुआ। १९०५ ई० की क्रांतिमें इसने बड़ी तत्परतासे भाग लिया। जब क्रांतिके असफल होनेपर गिरफ्तारियां होने लगीं, तो वह विदेशमें भाग जानेमें सफल हुआ। १९०९ ई०में वह ईरानमें था, और वहांकी क्रांतिमें भी

उसने भाग लिया था। पीछे ईरानमें रहना असम्भव देखकर वह लेनिनके पास पेरिस चला गया। प्राहा (प्राग)के सम्मेलनके बाद वह फिर गुप्त रीतिसे रूसमें लौटकर काम करने लगा। व्याचिस्लाव मिखाइल-पुत्र मोलोतोफ १९०६ ई०में पार्टीमें सम्मिलित हुआ, जब कि अभी वह १६ वर्षका विद्यार्थी था और कालेजकी पढ़ाई समाप्त नहीं कर पाया था। इसी समय १९ वर्षकी उमरमें उसे बलोगदामें भेजकर नजरबन्द कर दिया गया, लेकिन तो भी उसने अपने कार्यको जारी रक्खा।

प्रथम क्रान्तिके असफल होनेके बाद चारों ओर राजनीतिके शिथिलता छा गई। उस समय गुप्त रहकर क्रान्तिकारी आन्दोलनको जारी रखनेवालोंमें मिखाइल इवान-पुत्र कलिनिन और क्लिमेंती एफरेम-पुत्र बोरोशिलोफ भी थे। कलिनिनने कई साल जारशाही जेलोंमें बिताये, और वह कई सालोंतक सोवियतका राष्ट्रपति रहकर मरा। वह एक मामूली किसानका लड़का था, जो चरवाही, साईतीके जीवनसे मजदूर और फिर क्रान्तिकारी बना। बोरोशिलोफके बारेमें हम बतला चुके हैं। वह १९०३ ई०में पार्टीमें शामिल हुआ, और १९०५ ई०में लुगान्स्कके विद्रोहका "लाल जनरल" बना। उसे पकड़कर १९०७ ई०में तीन सालके लिये साइबेरियामें निर्वासित कर दिया गया, लेकिन वह वहांसे तीन बार निकल भागनेमें सफल हो अपने काममें जा डटा।

वैदेशिक संबंध—उत्पादनके बेहतर साधनोंके कारण पूंजीवादी व्यवस्था सामन्तवादी व्यवस्थासे कहीं अधिक समृद्धि और शक्तिकी वाहक है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम २० वीं सदीके आरम्भमें इंग्लैण्ड और फ्रांसका रूससे मुकाबिला करके देख सकते हैं। रूस यद्यपि जनसंख्या और प्राकृतिक स्रोतोंमें पश्चिमी युरोपके इन दोनों देशोंके सम्मिलित साधनोंसे भी कहीं बेहतर स्थितिमें था, लेकिन पूंजीवादी प्रगति अतएव उद्योग-धंधोंके विकासमें पिछड़ा होनेके कारण वह परमुखापेक्षी था। इसीके कारण जापानके साथ उसे बुरी तौरसे हारना पड़ा। लेकिन इस समय पश्चिमी युरोपमें जर्मनी-आस्ट्रिया और इंग्लैण्ड-फ्रांसके दो प्रतिद्वंद्वी पैदा हो चुके थे। जबतक जर्मनी छिन्न-भिन्न अवस्थामें था, तबतक फ्रांस और इंग्लैण्ड अपने उपनिवेशिक स्वार्थोंके कारण एक दूसरेके शत्रु बने रहे, लेकिन १८७० ई०में संयुक्त जर्मनीकी सेनायें पेरिसमें घुसकर फ्रांसको यह समझानेमें सफल हुईं, कि अब उसे खतरा ब्रिटिश चैनल पार पश्चिमसे नहीं, बल्कि पूरबसे है। इसका निश्चय होते ही अब फ्रांस और इंग्लैण्ड एक दूसरेके नजदीक हो गये। उद्योग-धंधों तथा दूसरे खर्चोंके लिये जारशाहीको इंग्लैण्ड और फ्रांसका मुंह देखना पड़ रहा था। यदि पश्चिमी युरोपके इन दोनों देशों और जारशाही रूसमें मेल न होने देनेका कोई कारण हो सकता था, तो वह था तुर्की और ईरानके भीतर उनका स्वार्थ। लेकिन समझौता करना जरूरी था। बिस्मार्क जर्मनीकी एकता स्थापित करनेके बाद हट गया और अब हिटलरका पूर्ववर्ती कैसर विल्हेल्म II सारे विश्वपर नजर दौड़ाने लगा। जिस वक्त पश्चिमी युरोपकी दोनों शक्तियां दुनियाके बाजारों और राजनीतिक प्रभुत्वको आपसमें बांट रही थीं, उस समय जर्मनी सोता रहा। सैनिकवाद जर्मनीकी पुरानी परम्परासे चला आया था। सैनिक दृष्टि से मजबूत होनेके लिये भी उद्योग-धंधोंके बढ़ानेकी बड़ी आवश्यकता थी, इसलिये जर्मनीने बड़ी तेजीके साथ अपने कल-कारखानों और वैज्ञानिक खोजोंको आगे बढ़ाया। लेकिन जर्मनीके कल-कारखानोंकी चीजोंको दुनियाके बाजारोंमें भेजकर नफा कमानेमें फ्रांस और इंग्लैण्ड पग-पगपर बाधक थे, इसलिये अब उसे अपना रास्ता निकालनेके लिये तलवार छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं रह गया था। कैसर विल्हेल्मने देखा, कि रूसका पश्चिमी गुटमें शामिल होना हमारे लिये अच्छा नहीं है। उधर निकोलोइ II भी देख रहा था, कि जर्मनीसे समझौता हो जानेपर तुर्की और ईरानमें हमारे लिये रास्ता खुल जायेगा। जार और कैसरने ब्योर्कमें एक गुप्त संधिपत्रपर हस्ताक्षर भी किया, लेकिन संधिपत्रपर अमल करनेपर फ्रांस और इंग्लैण्डसे वित्तीय सहायता बन्द हो जाती। फ्रांस और इंग्लैण्डने १९०६ ई०में टाई अरब फ्राँकका ऋण देकर जापानी युद्धके परिणामस्वरूप दिवालिया बननेसे जारशाहीको बचा लिया था। उन्होंने पोर्ट्स-समौथ संधिमें भी शर्तोंको रूसके अनुकूल बनवानेमें सहायता दी थी। फ्रांसका ईरान और तुर्कीके बारेमें भी रूससे समझौता हो गया। ईरानको इंग्लैण्ड और रूसने अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्रोंमें बांट लिया—उत्तरी ईरानको रूसके प्रभावमें रखा गया और पेट्रोलवाले दक्षिणी क्षेत्रको

इंग्लैण्डने अपने हाथमें रक्खा, बीचके थोड़ेसे भूभागको तटस्थ क्षेत्रके तौरपर रहने दिया गया। इंग्लैण्ड और रूसके साथ समझौता हो जानेपर फ्रांस और रूसके बीचमें भी समझौता होना आसान था। वस्तुतः यह त्रिगुट समझौता १९०४ ई० ही में हो गया था, जिसके अनुसार इंग्लैण्ड, फ्रांस और रूस जर्मनीके विरुद्ध एक होकर तैयार थे। अपने पिछड़ेपनके कारण रूस फ्रांस और इंग्लैण्डके लग्भगकी स्थिति रखता था। उसके पश्चिमी दोस्तों अब भी रूसी नौसेनाको बासफोरस और दरदानियाल द्वारा जाने-आनेकी स्वतंत्रता नहीं दी थी। १९०८ की मई और जूनमें जार और इंग्लैण्डके राजा एडवर्ड सप्तमने रेवेलमें मुलाकात कर जर्मनीके विरुद्ध मिलकर तैयारी करनेका समझौता किया। उन्होंने मकदूनियाको तुर्किसि अलग करनेकी बातकी भी मान लिया, लेकिन दरदानियालके रास्तेको रूसी नौसेनाके लिये मुक्त करनेपर अभी भी समझौता नहीं हो पाया। उधर जर्मनी भी आस्ट्रियाको अपने साथ मिलाकर अपने शत्रुओंकी चालोंको व्यर्थ करनेके लिये तैयार था; जिसके लिये सबसे पहले बल्कानमें अपनी स्थितिको मजबूत करना जरूरी था। मई-जूनकी मुलाकात रूसको निश्चित तौरसे पश्चिमी गुटके साथ मिलानेमें सफल नहीं हो पाई थी, इसीलिये रूस अभी दूसरे पक्षकी ओर भी हाथ बढ़ानेकी कोशिशमें था। १९०८ ई० के वसंतमें आस्ट्रिया और रूसके विदेश-मंत्रियोंने आपसमें बातचीत करके निश्चय किया, कि आस्ट्रियाके बोसनिया और हेजेगोविनाके अधिकारपर जारशाही कोई आपत्ति नहीं करेगी, जिन्हें कि बर्लिन कांग्रेसके समय (१८७८ ई०)से ही आस्ट्रियाने तुर्किसि छीनकर अपने हाथमें कर लिया था। बदलेमें आस्ट्रियाने दरदानियालसे रूसी युद्धपोतोंके स्वतंत्रतापूर्वक आने-जानेके दावेको मंजूर किया। लेकिन इस बातको इंग्लैण्ड माननेके लिए तैयार नहीं था। आस्ट्रियाने उधर अपने वचनको बिना पूरा किये ही बोसनिया और हेजेगोविनाके सर्वोंको अपने राज्यमें मिलानेकी घोषणा कर दी। जारशाही बल्कानके स्लावोंको अपने प्रभावक्षेत्रमें मानती थी, जिसके लिये बहुत समयसे बृहत्तर स्लाववादको प्रोत्साहन दे रही थी। १९०८-९ ई०में आस्ट्रियाके इस कामसे युद्ध घोषित होनेमें कोई कसर नहीं थी, लेकिन जापानसे हार खानेके बाद अभी रूस इस स्थितिमें नहीं था, कि युद्ध छेड़कर आस्ट्रियाको जवाब देता।

जापानसे रूसके हारनेपर एशियाकी परतंत्र जातियोंमें स्वतंत्रताकी भावना बहुत बढ़ गई, और एक एशियाई जाति द्वारा युरोपके सबसे शक्तिशाली साम्राज्यके पराजित किये जानेके बाद वह यह माननेके लिये तैयार नहीं थी, कि युरोपकी जातियोंको काली जातियोंपर शासन करनेका अधिकार भगवान्की ओरसे मिला है। उधर १९०५-७ ई०में रूसमें क्रांतिकी जो प्रचंड आंधी आई थी, उसके कारण भी उसकी धाक ईरानके ऊपरसे हट गई। स्वतंत्रता-प्रेमी ईरानी देख रहे थे, कि जब तक पुराने शाही शासनमें सुधार नहीं किया जाता, तबतक हम अपने देशको अंग्रेजों और रूसियोंके चंगुलसे नहीं निकाल सकते। २० वीं सदीके आरंभमें ईरानमें जो राष्ट्रीयताकी लहर फैली, उसका परिणाम १९०६ ई०की ईरानी क्रांति थी। शाहने पहले गोलियों और जंजीरोंद्वारा स्वतंत्रताकी भावनाओंको दबाना चाहा, लेकिन अन्तमें उसमें असफल हो जनताकी संसद (मजलिस) को स्थापित करनेकी मांगको स्वीकार किया। लेकिन जारशाही इसे कब पसंद कर सकती थी? १९०८ ई०के ग्रीष्ममें कर्नल ल्याखोफने कसाकोंके ब्रिगेडको लेकर तेहरानमें पहुंच मजलिसपर तोपके गोले बरसाये, और शाहको मजलिस तोड़ देनेके लिये मजबूर किया। नवस्थापित मजलिसके कितने ही सदस्योंको फांसी दी गई, और कितनोंको जेलमें डाल दिया गया। इससे भी शाह लोगोंको दबा नहीं सका, और एक बच्चेको सिंहासनका अधिकारी बना रूसमें भाग गया। क्रांतिकारी ईरानको आगे न बढ़ने देनेके लिये इंग्लैण्ड और रूसने मिलकर उसके चारों ओर आर्थिक घिरावा डाल दिया। दूसरी ओर ईरानी प्रतिगामियोंको सहायता और प्रोत्साहन दे १९११ ई०में प्रति-क्रांतिके सफल होनेमें मदद दी। ईरानी क्रांति समाप्त कर दबा दी गई, और उत्तरी ईरानमें रूस और दक्षिणी ईरानमें इंग्लैण्डने अपनी-अपनी सेना रखनेके अधिकारको बनाये रक्खा।

ईरानमें जिस समय वहांके मध्यवर्गी राष्ट्रीयतावादी देशको नवजीवन देना चाहते थे, उसी समय पहलेसे चली आती राष्ट्रीय भावनाके प्रसार द्वारा अपनेको मजबूत देख तरुण तुर्कोंने १९०८ ई०में क्रांतिक विद्रोह द्वारा तुर्कीमें सफलता प्राप्त की। इस सफलताके फलस्वरूप तुर्कीकी सरकारमें वैधानिक

सुधार किये गये, जिन्हें विफल करनेके लिये पहला प्रहार था, आस्ट्रियाका बोसनिया और हेर्जेगोविनाको अपन राज्यमें मिलानेकी घोषणा। तरुण तुर्कोंके प्रयत्नोंसे तुर्की शक्तिशाली बन जाय, इसे रूस भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि तब तो दरेदानियालके लिये उसकी आशाओंपर सदाके लिये पानी फिर जाता। रूसकी शह पा १९०९ ई०में अफ्रीकाके तुर्कोंके दो प्रदेशों—सेरेनेइका और त्रिपोलितानियाको इतालीने अपने अधिकारमें कर लिया। रूसने फ्रांस और इंग्लैण्डके अरबीभाषी अफ्रीकी प्रदेशोंपर हाथ साफ करनेका भी समर्थन किया। इतनेसे भी तरुण तुर्कोंकी शक्तिको कमजोर न होते देख तुर्कोंसे लड़नेके लिये रूसके नेतृत्वम बल्कान-लीगकी स्थापना हुई। इन परिस्थितियोंमें तरुण तुर्कोंके लिये जर्मन साम्राज्यवादकी ओर मुंह करनेके सिवा और कोई रास्ता नहीं रह गया। यह भी याद रखनेकी बात है, कि जिस वक्त पूर्वी युरोपमें यह घटनायें घट रही थीं, उसी समय १९११ ई० में चीनकी महाक्रांति हुई—चीनी सामन्तवादी शासकोंने पश्चिमी युरोपके साम्राज्यवादियोंकी नाँच-खसोटसे देशको बचानेमें असफल होकर अपनेको अयोग्य साबित कर दिया था, इसलिये वहाँके मध्यमवर्गने राष्ट्रीय मुक्तिके लिये पुराने शासकोंको हटाना जरूरी समझा। भला इतनी बड़ी बातको पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियाँ कैसे सह सकती थीं? उन्होंने चीनका वित्तीय बायकाट कर क्रांतिको निर्बल बना प्रति-क्रांतिकारी राष्ट्रपति युवान-शि-काईको क्रांतिका गला घोटनेमें सहायता दी—इस काममें इंग्लैण्ड, फ्रांस, रूस, जर्मनी और युक्त राष्ट्र अमेरिकाके साथ जापान भी शामिल था।

आपसमें कहीं मेल और कहीं बिगाड़के साथ ऐसी घटनायें हो ही रही थीं। दुनियाके सबसे बड़े साम्राज्यवादी देश इंग्लैण्ड और फ्रांस देख रहे थे, कि अन्तमें हमें जर्मनीसे निबटना है, जिसके लिये रूसका हमारे साथ रहना आवश्यक है। १९११ ई०में इन तीनों शक्तियोंके मुख्य सेना-संचालकोंका सम्मेलन हुआ, जिसमें फ्रांसके प्रतिनिधिने कहा—“रूसी सेनाओंका लक्ष्य यही होना चाहिये, कि जर्मनी अपनी सेनाके सबसे बड़े भागको पूर्वी मोर्चेमें फंसा रखनेके लिये मजबूर हो।” इसके लिये रूसी सेनाको उसी समय जर्मनीपर आक्रमण कर देना चाहिये, जिस वक्त कि इंग्लैण्ड और फ्रांसकी सेनायें पश्चिममें आक्रमण शुरू करें। इतनेसे भी संतुष्ट न होकर १९१२ ई०में तीनों शक्तियोंके सेना-संचालकोंका जो सम्मेलन हुआ, उसमें फ्रांसने मांग की, कि आठ लाखसे कम रूसी सैनिक आस्ट्रिया और जर्मनीके सीमांतपर नहीं होने चाहिये, और पश्चिममें स्थिति चाहे जैसी भी हो, सेना-चालनके सोलहवें दिन, रूसको आस्ट्रिया और जर्मनीपर आक्रमण कर देना चाहिये। इसके लिये सैनिक रेलोंको बहुत भारी परिमाणमें बढ़ानेकी आवश्यकता थी, जिसके लिये जारशाहीको कर्जा और सामग्री देनेके वास्ते पश्चिमी राष्ट्र तैयार थे। स्टालिनके शब्दोंमें—“जारशाही रूस पश्चिमी साम्राज्यवादके लिये अपरिमित संरक्षित शक्ति थी, यही नहीं, कि वहाँ विदेशी पूंजी लगानेका स्वतंत्र अवसर मिला था, जिसके कारण रूसके आधुनिक उद्योग-धंधों तथा राष्ट्रीय अर्थनीतिपर साम्राज्यवादियोंका नियंत्रण हो गया था—उदाहरणार्थ कोयला, तेल और धातुके उद्योग—बल्कि यह भी कि रूस अपने लाखों सैनिकों द्वारा पश्चिमी साम्राज्यवादियों को मदद कर सकता था।”

औद्योगिक प्रगति—यद्यपि रूसी सामन्त अपने पुराने ढांचेको बनाये रखना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल उलटी गंगा तो बहाई नहीं जा सकती। उद्योग-धंधोंको बढ़ाये बिना सैनिक तीरसे जारशाही मजबूत कैसे हो सकती थी? जापानसे हारकर उसने देख लिया था, कि कमसे कम सैनिक उद्योग-धंधोंको आगे बढ़ाना अनिवार्य है। इससे पूंजीपतियोंको सबसे अधिक लाभ था—सेनाके ठेके बहती गंगामें हाथ धोना था, नफा नहीं लूट थी, जिसे हर एक उच्च अधिकारी अपनोंमें बांटना चाहता था। १९०५-१३ ई० के बीच ढाई अरब रूबलका सैनिक ठेका दिया गया, और दो सालके भीतर साढ़े तीन हजार किलोमीटर रेलवे लाइनों तथा इंजनों और डब्बोंके बनानेका ठेका भी पूंजीपतियोंको मिला। इस तरह बड़े-बड़े नफेके साथ बड़े-बड़े ठेके मिले, जिन्हें कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये इजारादारीवाले बड़े पूंजीपति संगठनोंकी आवश्यकता हुई, जिसके फलस्वरूप १९००-१० ई० के बीच पूंजीपतियोंकी कुछ सेंडीकेटोंने खान और धातु-उद्योग अपने हाथमें कर लिये। बारहसे पंद्रह बड़े-बड़े धातु-कारखानोंने मिलकर प्रोदमेतके नामसे अपनी सेंडीकेट कायम की, जिसने देशके सम्पूर्ण धातु-उद्योगका दो-तिहाई अपने हाथमें कर लिया। १९०६ ई०में प्रोदुगोल नामसे संगठित

सेंडीकेटने दोनेत्स-उपत्यकाकी साठ सैकड़ा कोयलेकी खानोंको अपने हाथमें कर लिया । १९०८ई० में स्थापित प्रोद्रुद सेंडीकेटके हाथमें दक्षिणी रूसकी खनिज धूनोंका अस्सी सैकड़ा था । इसी तरह कपड़ेके कारखानोंवालोंकी एक सेंडीकेट १९०८ ई०में मास्कोमें कायम हुई, जिसके हाथमें सैतालीस कपड़ा मिलें थीं । इन सेंडीकेटोंने उद्योग-धंधोंके अधिक भागको अपने हाथमें ले आपसी प्रतियोगिताको इतना कम कर दिया, कि वह चीजोंके दामको मनमाना रख सकती थीं । जिस समय सेंडीकेटें प्रबल रूप धारण कर रही थीं, और नफेके कारण उनके द्वारा उद्योग-धंधेको बढ़ावा मिल रहा था, उसी समय बंकोंकी शक्तिका बढ़ना स्वाभाविक था, जिन्होंने बहुतसे औद्योगिक कारखानोंको अपने हाथमें कर लिया । सेंडीकेटोंने अपने मत्स्य-न्यायसे जिस तरह छोटी कंपनियोंके अस्तित्वको खतरेमें डाल दिया, उसी तरह अब छोटे बंकोंको निगलकर बड़े बैंकोंने अपनी प्रधानता स्थापित की और दिवालिया बननेके डरसे छोटे-छोटे बंक बड़े-बड़े बंकोंके पेटमें चले गये । १९०८ ई०में पीतरबुर्ग-अजोफ-ओरेल और दक्षिणी बंकोंने मिलकर संयुक्त बंकका रूप लिया । १९१० ई०में उत्तरी बंक रूसी-चीनी और रूसी-एसियाई बंकोंसे मिलकर एक हो गया । अब सात बड़े बंकोंके पास रूसकी बंकमें लगी अधिकांश पूंजी चली आई । लेकिन सेंडीकेटों और महाबंकोंका शक्तिशाली होना केवल रूसी पूंजीपतियोंके लाभकी ही बात नहीं थी, इनकी पूंजीका बहुत अधिक भाग विदेशियोंका था । १९१४ ई०में रूसके अठारह प्रधान बंकोंमें ३३५५ लाख रूबलकी पूंजी लगी हुई थी, जिसमें ४२ प्रतिशत (१८५५ लाख रूबल) विदेशी पूंजी थी । विदेशी पूंजीमें भी फ्रांसकी २१.९ प्रतिशत, जर्मनीकी १७ प्रतिशत, और अंग्रेजोंकी ३ प्रतिशत थी । इंग्लैण्ड और फ्रांस दोनोंकी सम्मिलित पूंजी विदेशी पूंजीमें सबसे अधिक थी । पूंजीके अनुसार ही रूसमें उनका प्रभाव भी होना आवश्यक था ।

१९०५-७ ई०की क्रांतिके देशमें असफल हो जानेपर घरके भीतर जारशाहीके लिये कोई भयंकर खतरा नहीं था । पूंजीके विस्तार और उद्योग-धंधोंके प्रसारद्वारा पूंजीपतियोंकी पांचों घीमें थी, चाहे उसके कारण प्रथम विश्वयुद्धके पहले रूसका राष्ट्रीय ऋण ८८ अरब रूबल हो गया था, जिसमें सबसे अधिक वह फ्रांसका कर्जदार था । अभी भी बिजली, इंजीनियरी, तर्वाइन-निर्माण, मशीन-टूल-निर्माण, भारी इंजीनियरी, मोटर-उद्योग और भारी रसायन-उद्योग जैसे आधारभूत उद्योगोंका रूसमें अभाव था, और इन चीजोंके लिये उसे पश्चिमका मुंह देखना पड़ता था । तेल-उद्योग अवश्य आगे बढ़ा था, लेकिन उसपर भी विदेशी पूंजीका नियंत्रण था । रूस बड़ी तेजीसे प्रथम विश्वयुद्धकी ओर बढ़ता चला जा रहा था । रूसके राजनीतिक आकाशमें इस समय कोई राजनीतिक परिवर्तनके लिये बड़ी घटना घटनेकी संभावना नहीं थी, चारों ओर राजनीतिक अकर्मण्यता और उदासी छाई हुई थी । इसी समय चार ४ अप्रैल १९१२ ई० में लेनाकी सोनेकी खानोंके मजदूरोंपर गोलियां चलाई गईं, जिसके बारेमें स्तालिनने "उवेज्दा" (तारा) नामक बोल्शेविक पत्रमें १९१२ ई० में लिखा था— "लेना-गोलीकांडने मौन रूपी बर्फको तोड़ दिया, और जनताके आन्दोलनकी नदी फिरसे बहने लगी ।"

लेनाकी सोनेकी खानें एक कंपनीके हाथमें थीं, जिसकी स्थापना १९०८ ई०में हुई थी, और जिसमें तीन-चौथाई पूंजी अंग्रेजोंकी थी । कंपनीको इस खानसे प्रतिवर्ष सत्तर लाख रूबलका फायदा होता था, और साइबेरियाके ध्रुवीय कक्षाके भीतर दूरके इस भूभागके मजदूरोंका बहुत क्रूरतापूर्वक शोषण होता था । यह सोनेकी खानें रेलसे डेढ़ हजार मील (१७०० किलोमीटर) दूर अवस्थित थीं । ध्रुवीय कक्षाके भीतर होनेके कारण यहांकी नदियां सालके अधिक भागमें बर्फ बनी रहतीं, जिससे याता-यात थोड़े-से महीनोंके लिये खुलता, जब कि लेना नदी मुक्त-प्रवाह होती । मजदूर एक मर्तबे वहां जा अत्याचारोंके मारे यदि भागना चाहते, तो आसानीसे भाग नहीं सकते थे । उनसे दससे साढ़े ग्यारह घंटा रोज काम लिया जाता । लेना सुवर्ण-क्षेत्र कंपनीकी तानाशाहीके मारे उनका नाकों दम था । कंपनीका मैनेजर वेलोज़ेरोफ लेनाका बिना मुकुटका राजा माना जाता था । अत्याचारोंसे तंग आकर फरवरी १९१२ ई०के अन्तमें खानके एक भागमें हड़ताल हो गई । इसकी खबरसे प्रोत्साहित हो १ मार्च तक और कितने ही भागोंमें हड़ताल फैल गई, और सारे सुवर्ण-क्षेत्रमें आम हड़ताल संगठित कर ली गई । केंद्रीय हड़ताल कमेटीने कंपनीके प्रबंध-विभागसे बातचीत शुरू

की। कंपनीके स्थानीय इंजीनियर तुलचिन्स्कीने बड़ी अच्छी तरह बातचीत करके मेन्शेविक प्रतिनिधियोंको हड़ताल उठा लेनेपर राजी किया, लेकिन हड़ताल कमेटीके बोल्शेविक विचार रखनेवाले सदस्योंने हड़तालके पक्षमें प्रचार जारी रखना चाहा। इसपर तै हुआ, कि हड़तालके बारेमें गुप्त मतदान द्वारा कमकरोसे राय ली जाय। २५ मार्चके सबेरे दो बड़े-बड़े पीपे हरएक क्षेत्रमें रख दिये गये, जिनमेंसे एकपर लिखा था—“कामपर लौट जायेंगे”, और दूसरेपर “कामपर नहीं लौटेंगे।” मजदूरोंको एक-एक कंकड़ अपने मतको प्रकट करनेके लिये पीपोंमें डालना था। जल्दी ही “काम पर नहीं लौटेंगे” वाला पीपा पत्थरोंसे भर गया, जब कि दूसरे पीपेमें केवल सत्रह पत्थर मिले। इसपर २७ मार्चको छ हजार कमकरोने आम हड़ताल कर दी।

१७ (४) अप्रैलको हड़ताली प्रदर्शन करते हुये जब नदेज्दिन्स्क सुवर्ण-क्षेत्रके पास पहुंचे, तो सेनाने रास्ता रोक दिया। इंजीनियर तुलचिन्स्कीने कमकरोको बिखर जानेके लिये कहा, जिसपर कुछ लोग रुक गये, लेकिन दूसरे एक छोटे रास्तेसे आगे बढ़े। इसी समय धड़ाधड़ गोलियां चलने लगीं। दो सौ पचास कमकर निहत्त हुये और दो सौ सत्तर आहत। यहां भी “खूनी रविवार” की तरह जारशाही अत्याचारने मजदूरोंमें भारी विद्रोहकी भावना पैदा कर दी, और सचमुच ही लेनाके गोलीकांडने अकर्मण्यताके बर्फको तोड़ दिया।

लेनाके गोलीकांडकी खबर सारे देशमें फैल गई। बोल्शेविकोंने फिर अपनी तत्परता दिखलानी शुरू की। इसी समय बोल्शेविकोंने अपने दैनिक “प्राव्दा” (अधिकार, सत्य) के निकालनेकी तैयारी की। “प्राव्दा” रूसी मजदूरोंका पत्र था। उसमें उन्हींकी भाषामें सरल लेख होते थे। यह कुछ मध्यमवर्गके शिक्षितोंके लिये पराई भाषामें कठिन शब्दोंके साथ अपनी मार्क्सवादकी पंडिताई दिखलानेके लिये नहीं निकाला गया था। १९१२ ई०के जनवरीमें “प्राव्दा” के लिये चन्दा होने लगा, जिसमें रूसके सभी भागोंके मजदूरोंने पैसा भेजे। चंदेमें इतनी सफलता हुई, कि लेनिनने उसके बारेमें लिखा—“प्राव्दाका निर्माण रूसी कमकरोकी एकता, वर्गचेतना और शक्तिका सबसे बड़ा प्रमाण है।” “प्राव्दा”का प्रथम अंक स्तालिनके सम्पादकत्वमें ५ मई (२२ अप्रैल) १९१२ ई० को निकला, इसीलिये आज भी रूसमें ५ मईको कमकर-प्रेस-दिवस मनाया जाता है।

चतुर्थ दूमाका चुनाव—१९१२ ई० में तृतीय राज्यदूमाका कार्यकाल समाप्त होनेपर उसे तोड़ दिया गया, और चतुर्थ दूमाके निर्वाचनका निश्चय हुआ। कई सालोंसे स्तोल्पिनके हाथमें रूसी राज्यकी बागडोर थी। वह अपने अत्याचारोंके कारण लोगोंकी भारी घृणाका पात्र था। १९११ ई०में उसकी हत्या हो जानेपर फिर सभी जगह पुलिस अत्यचार होने लगा। दूमाका निर्वाचन ऐसे ही बातावरणमें हो रहा था। बोल्शेविकोंने दूमाके भाषणमंचके फायदेको अच्छी तरह समझ लिया था, इसलिये उन्होंने निर्वाचनका बायकाट नहीं किया। लेनिन उस समय पेरिसमें रहते रूसके भीतर राजनीतिक कार्यका संचालन कर रहे थे। उनको और नजदीक आनेकी जरूरत महसूस हुई, इसलिये १९१२ ई०के ग्रीष्ममें पेरिस छोड़कर वह पोलन्दके नगर क्राकोमें चले आये। निर्वाचनके बाद १९१२ ई०के अन्तमें चतुर्थ राज्यदूमाकी पहली बैठक हुई। इसमें प्रतिगामियोंकी संख्या और बल अधिक था—४१० सदस्योंमें १७० दक्षिणपंथी थे, अक्तूबरियोंकी संख्या सौ थी, जो दक्षिणपंथके अनुयायी थे। कादेतोंकी संख्या पचास थी, इनमें और अक्तूबरियोंमें इतना ही अन्तर था, कि कादेत वामपक्षकी बातोंको इस्तेमाल करते थे, यद्यपि दूमाके भीतर उनका गठजोड़ा अक्तूबरियोंसे था। निम्न मध्यमवर्गके सदस्योंमें दस त्रुदोविकी और सात मेन्शेविक थे। मेन्शेविकोंने बोल्शेविकोंके साथ दूमाके भीतर एकता रखनेका प्रयत्न किया, लेकिन बोल्शेविक छ थे, इसलिये अपने एकके बहुमतका फायदा उठाकर मेन्शेविक बोल्शेविकोंको दूमामें बोलनेसे रोक कर रहे थे, इसपर बोल्शेविक अलग हो गये। ४१० सदस्योंमें ६ की संख्या नगण्य है, लेकिन बोल्शेविक जनताके हितोंके पक्षपाती तथा जारशाही क्रूरताको नंगा करनेके लिये वहां पहुंचे थे, इसलिये उनके भाषणोंका असर लोगोंपर बहुत पड़ता था। अपने प्रचारका यहां बहुत अच्छा अवसर था, और क्रांतिसे पहलेके वर्षोंमें लेनिनके दलने इसका खूब फायदा उठाते जनताके भीतर जारशाहीके विरुद्ध भारी घृणा पैदा करनेमें सफलता पाई। बोल्शेविक अपनी

क्रांतिको केवल रूसियोंके ही लाभके लिये नहीं चाहते थे, बल्कि उनका लक्ष्य था रूसके भीतर रहनेवाले सभी लोगोंको शोषण और उत्पीड़नसे मुक्त करना। ऐसी हालतमें अ-रूसी जातियोंके बारेमें अपने हकको स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी था, इसीलिये १९१३ ई० में दो महत्वपूर्ण कृतियां प्रकाशित हुई—लेनिनका “राष्ट्रीय प्रश्नपर समालोचनात्मक टिप्पणियां” और स्तालिनका “माक्सवाद और राष्ट्रीय प्रश्न”। इन दो ग्रंथोंने सारी जनताके सामने साफ कर दिया, कि साग्यवादी रूसमें “सभी जातियोंको आत्मनिर्णयका पूरा अधिकार होगा, और वह अपनी इच्छानुसार चाहें तो रूसी संघसे बाहर भी जा सकेंगी।”

विश्व-युद्धकी तैयारी—आनेवाले विश्व-युद्धमें रूसको अपनी ओर शामिल करनेके लिये पश्चिमी युरोपके दोनों गुटोंने किस तरह कोशिश की, इसके बारेमें हम बतला चुके हैं। युद्ध कैसर विलियम (विल्हेल्म)की सनकके कारण नहीं हुआ, बल्कि उसका ठोस कारण परस्पर-विरोधी साम्राज्यवादी आर्थिक स्वार्थ थे। जर्मन साम्राज्यवादाने तुर्कीकी ओर बढ़ना चाहा। जर्मन-बंकरने रेलों द्वारा जर्मनीको तुर्कीसे मिलाना चाहा। जर्मन सैनिक अफसर तुर्की सेनाको संगठित और शिक्षित करके उसे रूस और इंग्लैण्डके विरुद्ध तैयार कर रहे थे। जर्मनीके पास नाममात्रके थोड़ेसे उपनिवेश (अफ्रीकामें) थे। जर्मनीकी सामरिक शक्तसे भयभीत इंग्लैण्ड नहीं चाहता था, कि उसके उपनिवेशोंके बीचमें जर्मनीको कहीं भी पैर रखनेको मिले। वह चाहता था, कि जर्मनीकी नीसेना और व्यापारिक बेड़ेको नष्ट कर जर्मन उपनिवेशको अपने हाथमें कर ले। तुर्कीको मसोपोतामिया (इराक) और फिलस्तीनसे वंचित करके मिस्रपर अधिकार करनेके लिये भी वह उतारू था। फ्रांस जर्मनीकी सैनिक शक्तको दबाकर अलसस्-लोरेन प्रदेशको जर्मनीसे छीनकर राइन नदीके बायें तटपर अधिकार करना चाहता था, और तुर्की-साम्राज्यकी बंदरबांटमें इंग्लैण्डका सहभागी भी होना चाहता था। जारशाही रूसकी योजना थी बासफोरस और दरैदानियालपर अधिकार, तुर्कीके भीतरकी अर्मेनियापर हाथ साफ करना, तथा आस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्यको छिन्न-भिन्न करते हुये बल्कान प्रायद्वीपपर अपने प्रभावको स्थापित करना। जापान भी चीनम अपनी मनमानी करनेके लिये एक ऐसे बड़े मोकेकी खोजमें था। लेकिन विश्वयुद्धका पहले एक छोटै-से युद्धमें रिहर्सल हुआ, यह था बल्कान-युद्ध।

बल्कान-युद्ध (१९१२-१३ ई०)—बोस्निया और हेर्जेगोविनामें आगे बढ़कर आस्ट्रियाने रूसको बहुत क्रुद्ध कर दिया था। जारशाही सर्बिया, बुल्गारिया, मोन्टेनिग्रो और ग्रीसको बल्कान-संघके रूपमें एकताबद्ध करके उन्हें तुर्कीके विरुद्ध तैयार करना चाहती थी। फ्रांस भी इसमें उसका पृष्ठपोषक था, क्योंकि पश्चिमी देशोंके सामने सबसे बड़ी समस्या थी जनबल या सिपाहियोंकी संख्या। वह समझता था, कि इस प्रकार बल्कानकी दस लाख संगीनें हमें आसानीसे मिल जायेंगी। जर्मनी और आस्ट्रिया तुर्कीकी पीठपर थे। प्रथम बल्कान-युद्ध १९१२ ई०के शरदमें आरम्भ हुआ। १९११ ई०से ही इटालीके साथ तुर्कीकी लड़ाई छिड़ी हुई थी, इसलिये बल्कान-संघ उसीको आगे बढ़ाते हुये युद्धमें कूदा। तुर्क नये हथियारोंसे सुसज्जित नवसंगठित पूर्वी युरोपके सिपाहियोंके सामने जल्दी ही परास्त हो गये, लेकिन फिर विजेताओंमें आपसमें झगड़ा खड़ा हो गया, जिसके कारण अगले साल १९१३ ई०के ग्रीष्ममें दूसरा बल्कान-युद्ध विजेताओंके भीतर हो गया। बुल्गारियाने सर्बियापर आक्रमण कर दिया, जिससे नाराज होकर दूसरे बल्कान राज्य बुल्गारियाके विरुद्ध हो गये। फलतः बुल्गारियाकी हार हुई, और उसे अगस्त १९१३ ई० में बुखारेस्त-संधिपर हस्ताक्षर करनेके लिये मजबूर होना पड़ा। इस संधिके अनुसार बुल्गारियाके अपने कितने इलाके पड़ोसियोंको देने पड़े, और अद्रियानोपोल बुल्गारियाके हाथसे निकलकर फिरसे तुर्कीके हाथमें चला गया। इसी युद्धमें सर्बियाने अल्बानियापर अधिकार कर लिया, लेकिन जब आस्ट्रियाने मैदानमें आनेकी धमकी दी, तो उसे छोड़ना पड़ा।

इन युद्धोंने बल्कानके स्लावोंको तुर्कीकी अधीनतासे मुक्ति प्रदान की, लेकिन अब युरोपकी बड़ी शक्तियां उनपर प्रभाव डालनेके लिये कशमकश कर रही थीं। बर्लिन-बगदाद रेलवेके लिये जर्मन और फ्रेंच दोनों पूंजी लगा रहे थे, और इन विरोधी स्वार्थोंके संघर्षने बल्कानको सचमुच ही

बारूदका ढेर बना दिया था, जिसमें एक चिनगारी पड़ जानेसे भीषण विस्फोटक हो जानेका भय था। सभी यूरोपीय शक्तियां हथियार बढ़ानेपर आंख मूंदकर खर्च कर रही थीं। जारशाहीने १९१४ ई०में साढ़े सत्तानबे करोड़ स्वर्ण रूबल सेनाके लिये रक्खा था। १९०७ ई० से १९१३ ई० तक उसने इस मदमें चार अरब रूबल खर्च किये। इंग्लैण्ड भी अपनी शक्तिको इसी तरह बढ़ानेमें लगा हुआ था। अपने नौसैनिक बलको बढ़ानेके लिये १९०६ ई०में उसने प्रकांड ड्रेडनाट युद्धपोत बनाया, जिसका अनुकरण करते जर्मनी और फ्रांसने भी अपने-अपने ड्रेडनाट बनाने शुरू किये। फ्रांसीसी पूंजीकी मददसे जारशाहीने भी नौसैनिक निर्माणके लिये बहुत बड़ा प्रोग्राम रक्खा, लेकिन उसकी मंद गतिके कारण अभी एक भी युद्धपोत तैयार नहीं हुआ था, जब कि १९१४ ई०का विश्वयुद्ध छिड़ गया। प्रोफेसर न० ई० जूकोव्स्की पहला आदमी था, जिसने विमान-विद्याका आविष्कार किया, लेकिन जारशाहीने उससे लाभ नहीं उठाया। प० न० नेस्तोरोफने पहिली बार कलैया मारकर अपने हवाई जहाजको उड़ाया, लेकिन जारशाही इसके महत्त्वको नहीं समझ पाई। यही नहीं, वैसा करनेमें एक छोटे-से पुर्जेके खो जानेके लिये नेस्तोरोफको “अनुशासनहीनता” के लिये जुरमानेका दंड दिया गया।

जैसे-जैसे युद्ध-घोषणाके दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे ही वैसे रूसके भीतर जनतामें असंतोष भी फैलता जा रहा था। १९१४ ई० के आरम्भमें सर्वहाराके क्रांतिकारी संघर्ष जगह-जगह होने लगे। ९ जनवरीको “खूनी रविवार”के बाष्किकोत्सवको ढाई लाख मजदूरोंने हड़ताल करके मनाया। १९१४ ई० के पूर्वार्धमें पंद्रह लाख मजदूरोंने हड़ताल की। १९१४ ई० के ग्रीष्ममें बाकूके तैल क्षेत्रमें भी एक बड़ी राजनीतिक हड़ताल हुई, जिसे तोड़नेकी जारशाहीने बहुत कोशिश की। बोल्शेविकोंके अपील करनेपर बाकूके हड़तालियोंकी सहानुभूतिमें पीतरबुर्गके नब्बे हजार कमकरोनें काम छोड़ दिया, और ११ जुलाई को तो राजधानीके दो लाख मजदूरोंने हड़ताल करके अपनी सभाओंमें नारा लगाया—“बाकूके साथियो, हम तुम्हारे साथ हैं।” “बाकूके कमकरोनेंकी विजय हमारी विजय है।”

प्रथम विश्वयुद्ध (१९१४-१८ ई०)—बल्कानका बारूदका ढेर तैयार ही था। एक ओर जर्मनी और आस्ट्रिया, दूसरी ओर इंग्लैण्ड, फ्रांस और रूस नखसे शिखतक हथियारोंसे लैस होकर खड़े थे। सेराजिवामें आस्ट्रियाके युवराजकी हत्याने बारूदमें चिनगारी डालनेका काम किया, और जुलाई १९१४ ई० में जर्मनीके भड़कनेपर महायुद्ध छिड़ गया। इस युद्धके दो दलोंमें एक था चतुर्दलीय पक्ष, जिसमें जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की शामिल थे, दूसरा त्रिदलीय पक्ष, जिसमें इंग्लैण्ड, फ्रांस और रूसके साथ सर्बिया और बेल्जियम भी सम्मिलित थे। १९१४ ई० में ही जापान भी त्रिदलीय गुटमें शामिल हो गया, इताली १९१५ ई०में युद्धमें कूदा, और अन्तमें १९१७ ई०में युक्त राष्ट्र अमेरिकाने भी शामिल हो इसे विश्वयुद्ध बना दिया। प्रथम विश्वयुद्धमें छोटे-बड़े तैंतीस देश शामिल हुये, ७४० लाख सैनिक युद्धके लिये चालित किये गये, जिनमें तीन करोड़ प्राणोंकी हानि हुई—इनमें लाखों भारतीय भी थे। पैसेके रूपमें इसमें तीन अरब रूबल धन स्वाहा हुआ।

त्रिदलीय गुटमें पहले ही निश्चय हो गया था, कि युद्ध छिड़ते ही रूसको पूर्वसे आस्ट्रिया और जर्मनीपर आक्रमण करना होगा। युद्धके आरम्भ होते ही यूरोपमें तीन मोर्चे बन गये। पश्चिमी मोर्चा उत्तर समुद्रसे स्वीजलैण्ड तक फैला हुआ था, जिसपर इंग्लैण्ड और फ्रांसकी सेनायें जर्मन सेनाओंका मुकाबिला कर रही थीं। पूर्वी मोर्चा वस्तुतः रूसी मोर्चा था, जो बाल्तिक समुद्रसे रुमानिया तक फैला हुआ था। इनके अतिरिक्त एक बल्कान-मोर्चा था, जो दन्यूब नदीके किनारे-किनारे चला गया था। रूसी मोर्चा उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी दो भागोंमें विभक्त था। उत्तर-पश्चिमी मोर्चा बाल्तिक समुद्रसे बुग नदीके निम्न भागतक चला गया था, और दक्षिणी-पश्चिमी मोर्चा रूस-आस्ट्रियाके सीमांतको लेते रुमानिया तक फैला हुआ था। इन्हीं दोनों मोर्चोंमें रूसको आक्रमण करना था। बल्कान-मोर्चेपर आस्ट्रियाकी सेनाका मुकाबिला सर्बियाकी सेनाको करना था। जर्मनीने अपने सुभीतेको देखकर फ्रांसकी राजधानी पेरिसकी ओर जल्दी बढ़नेके लिये बेल्जियमकी तटस्थता भंग कर दी, और इसके कारण फ्रांस और इंग्लैण्डकी सेनाके लिये मुकाबिला बहुत जबरदस्त हो गया।

रूसी सेनाने जर्मन सेनाओंको पश्चिमकी ओर बढ़नेसे रोकनेके लिये उसके पूर्वी सीमांतपर आक्रमण किया। पश्चिममें प्रगति जारी रखते हुये जर्मनोंने इसी समय जेनेरल समसानोफकी रूसी सेनाको मसूरी झीलों—दलदली भूमिमें घेर लिया। लाखों रूसी मारे गये। समसानोफने लज्जाके मारे आत्म-हत्या कर ली। जारशाहीके लिये यह कोई अच्छा सगुन नहीं था। समसानोफकी सेनाको हरानेके बाद जर्मनोंने रेतनकाम्फकी अधीनतामें लड़ती रूसी सेनापर आक्रमण किया, और वह भी एक लाख दस हजार आदमियोंको खोकर पीछे हटी। रूसियोंने इतनी भारी क्षति उठाई, लेकिन इसके लिये जर्मनीको अपनी सेनाका काफी भाग पूर्वकी ओर भेजना पड़ा, जिसके कारण पेरिस बच गई। पश्चिमी साम्राज्यवादियोंकी मनोकामना पूरी हुई, रूसने सारी चोटें अपने ऊपर लेकर फ्रांसको पराजित होनेसे बचा दिया।

उत्तर-पश्चिमी मोर्चेपर रूसी सेनाके असफल आक्रमण करते समय ही अगस्त १९१४ ई० में चार रूसी अक्षोहिणियोंने दक्षिण-पश्चिमी मोर्चेपर आस्ट्रियाके विरुद्ध आक्रमण किया। यहां सफलता मिली, और शत्रुओंको हराकर उन्होंने ल्वोफ और गोर्लिचपर अधिकार कर लिया, करीब करीब सारी गलिसिया रूसी सेनाके हाथमें आ गई, लेकिन सितम्बरके अन्तमें जर्मन सेनायें आ धमकीं, जिससे दिसम्बर १९१४ ई० के मध्य तक रूसी सेनाओंकी प्रगति रुक गई। अब दोनों ही पक्ष एक दूसरेको ढकेलनेमें असमर्थ थे। लेकिन १९१४ ई०के शरदमें काकेशसका एक नया मोर्चा तैयार हो गया था। दो जर्मन युद्धपोत “गोयेबेन” और “ब्रेस्ला” भूमध्यसागरसे कालासागरमें घुस आये। तुर्क जर्मनीके पक्षमें थे, इसलिये उन्हें दरेदानियाल पार होनेमें कोई अड़चन नहीं हुई। तुर्कोंने रूसके विरुद्ध जर्मनीसे संधि की थी, इसलिये उसने रूसके विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी। “गोयेबेन” और “ब्रेस्ला”ने अदेस्सा और फ्यादोसियापर बमवर्षा की, तुर्क सेनाने भी अपना प्रभुत्व दिखलाना चाहा, लेकिन दिसम्बर १९१४ ई०में सरिकाभिश्के युद्धक्षेत्रमें उसे रूसियोंने बुरी तरह हराया। दक्षिण-पश्चिमी मोर्चेपर कितने ही समय तक दोनों पक्षोंकी प्रगति रुके रहनेके बाद १९१५ ई०के अप्रैलके अन्त और मईके आरम्भमें एक जर्मन सेना गोर्लिच और तरनोफके बीच रूसी मोर्चेका भेदन करनेमें सफल हुई, जिसके कारण रूसी सेना जल्दीसे पीछे हटनेके लिये मजबूर हुई। अब सारे रूसी मोर्चेपर जर्मन छा गये। आस्ट्रियन सेनाने पर्जेमिसल और ल्वोफको ले लिया, जुलाईमें एक जर्मन सेनाने इवानगोरदके किलेपर अधिकार किया, जुलाईके अन्तमें वारसा (वरसावा) और ब्रेस्त-लितोव्स्क जर्मनोंके हाथमें चले गये, फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने प्रोदनो और विलनोस्पर अधिकार किया। १९१५ ई०के शरदमें इस प्रकार पोलन्द, लिथु-वानिया और बाल्टिक प्रदेशोंके कितने ही भाग जर्मन और आस्ट्रियन सेनाके हाथमें चले गये। १९१५ ई०के मईसे अक्टूबरके छ महीनेमें डेढ़ लाख रूसी सैनिक मारे गये, और दस लाख आहत या बंदी हुये। इस प्रकार १९१४-१५ ई०में पूर्वी मोर्चेपर रूसी सेनाकी भारी हार हुई। रूसके लिये अब कोई आशा नहीं थी। लोगोंमें युद्धके भीषण संहार, पराजय तथा जारशाही शासनके अत्याचारोंके विरुद्ध भारी असंतोषकी आग भड़क उठी। बोल्शेविक पहलेसे ही युद्धके विरोधी थे। जिस वक्त युद्ध छिड़ा, उस वक्त लेनिन आस्ट्रियामें थे। आस्ट्रियनोंने लेनिनको पकड़कर अपने देश से निकाल दिया, और वह स्वीजर्लैण्ड चले गये। बोल्शेविक इस युद्धको अनुचित युद्ध कहते थे, क्योंकि वह परतंत्र देशोंकी मुक्ति या स्वतंत्र देशोंकी प्रतिरक्षाके लिये नहीं लड़ा जा रहा था, बल्कि रुसका उद्देश्य था विदेशी राज्यों और जातियोंको जीतकर गुलाम बनाना।

रूसमें चारों ओर आर्थिक अव्यवस्था फैली हुई थी। उसकी पिछड़ी हुई आर्थिक-व्यवस्था तथा उद्योग-धंधोंकी निर्बलताके कारण जर्मनोंसे हारनेके सिवा रूसकी सेनाओंके लिये और कोई रास्ता नहीं था। युद्धके कारण कोयलेका अभाव-सा हो गया, जिससे फ़ैक्टरियों और मिलोंने कामको कम कर दिया। १९१६ ई०में धौकू भट्टोंने लोहा तैयार करना बन्द कर दिया—फौलादके कारखाने देशके लिये आवश्यक धातुका आधा ही पैदा करते थे। रेलें युद्ध-कालीन यातायातकी ठीकसे कायम नहीं रख सकीं। सेनायें ऐसी अस्त-व्यस्त अवस्थामें पीछे हटीं, जिसके कारण बहुतसे इंजन और गाड़ियां दुस्मनोंके हाथोंमें जानेसे नहीं बचाई जा सकीं। सैनिकोंके सेनामें भर्ती होनेके कारण

कृषिकी उपज भी पहलेसे बहुत कम हो गई, वयस्क पुरुषोंमेंसे ४७ प्रतिशत (१४० लाख) सेनामें भर्ती किये गये थे। खेतीके लिये उपयोगी धोड़ोंमें पचास लाखकी कमी हो गई थी, फिर कृषिकी उपज क्यों न कम होती? १९१६ ई०म १९०९ ई०की अपेक्षा पचासी प्रतिशत ही खेत बोये गये। लड़ाईके लिये सामान खरीदनेके वास्ते इंग्लैण्ड, फ्रांस और युक्त राष्ट्र अमेरिकाको ७७६९० लाख रूबल देना था, यह चोट सबसे भयंकर थी। युद्धक्षेत्रमें घोर पराजय और देशके भीतर आर्थिक प्रलय दोनोंने मिलकर रूसी शासकों और पूंजीपतियोंका होश बिगाड़ दिया। रूसी सैनिकोंके खूनकी गिनती न करके जारशाहीके मित्र अपने कर्जोंको जल्दी उगाहना चाहते थे। इंग्लैण्डका तीन अरब रूबल कर्जा हो गया था, जिसके बदलेमें उसने जारशाही सरकारसे उसकी संरक्षित सुवर्ण-निधिको लंदन भेजनेके लिये मांग की, और साथ ही वह इसपर जोर दे रहा था, कि रूस और भी ताजी सेनायें युद्धक्षेत्रमें भेजे। १९१६ ई०में फ्रांसने अपने प्रतिनिधि भेज चार लाख रूसी सेना फ्रांसके भीतर लड़नेके लिये मांगी। यदि क्रांति न हो गई होती, तो जारशाही रूस फ्रांसकी मांगको ठुकरा नहीं सकता था।

इस तरहकी आर्थिक अराजकता और संकटको बर्दाश्त करना जनताकी शक्तके बाहर था। जनताके सबसे जागरूक भाग मजदूरोंने अपने मनोभावको १९१५ ई०के बसंतसे ही जगह-जगह हड़ताल करके प्रकट करना शुरू कर दिया था। ९ जनवरी १९१६ ई०का “खूनी रविवार” उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक हड़तालके रूपमें मनाया। अक्टूबर १९१६ ई०में ऐसी हड़ताल और प्रदर्शन बड़े जोरदार होने लगे, और कमकरोने नारा लगाना शुरू किया—“युद्ध बन्द करो”, “स्वेच्छाचारिता की क्षय।”

सेनाका मनोभाव कैसा था, इसका पता सिपाहियोंके अपने घरोंमें भेजे पत्रों द्वारा मिलता था। एक सिपाहीने लिखा था—“आजके सिपाही वह सिपाही नहीं हैं, जो कि जापानी-युद्धके समय थे। दासताभरी आज्ञाकारिताके बाहरी परदेके भीतर उनके दिलोंमें भारी गुस्सेकी आग धधक रही है, एक छोटी-सी दियासलाई जलाने भरकी देर है, और वह भड़क उठेगी।” और दियासलाई जलानेका काम बोल्शेविक बड़ी तत्परतासे कर रहे थे। उनमेंसे कितने ही सेनामें काम कर रहे थे। म० व० फ्रुंजे जैसा युद्धकौशल पटु क्रांतिकारी १९१५ ई०में जेलसे भाग निकला था। उसने मिन्स्क नगरमें एक बोल्शेविक संगठन कायम करके पश्चिमी मोर्चेके सिपाहियोंके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। अ० अ० ज्दानोफ सेनाके लिये चालित किया गया था। वहां जाकर उसने सेनामें बोल्शेविक प्रचार शुरू किया। व० व० विवबिशियेफ और स० म० किरोफ काकेशस और समारामें विद्रोह फैला रहे थे। ल० म० कगानोविच पहले क्रियेफ और बादमें एकातेरिनोस्लावमें मजदूरों और सैनिकोंके बीचमें प्रचार कर रहा था। इस प्रकार मालूम होगा, कि बोल्शेविक इस स्थितिसे फायदा उठानेके लिये तैयार थे।

मध्य-एसियामें युद्धका प्रभाव—युद्धके कारण जो आर्थिक कठिनाइयां युरोपीय रूसमें पैदा हुई थीं। मध्य-एसिया उसके प्रभावसे मुक्त कैसे रह सकता था? चीजोंके दाम मंहगे हो गये थे, करके भारसे लोग बैसे ही दबे हुए थे, और अब युद्धके कारण उसे और बढ़ा दिया गया था। रूसी पूंजीपतियोंको कपासकी जरूरत थी, इसलिये मध्य-एसियाकी कृषि-भूमिमें कहीं-कहीं आधेसे ज्यादाको कपासके खेतोंमें परिणत कर दिया गया था, जिसके कारण पर्याप्त अनाज पैदा नहीं हो सकता था, और देशमें अन्नका अकाल फैला हुआ था। रूसी सरकार और उसके गोरे अफसर किर्गिज और कजाक घुमस्तुओंको उनकी चरागाहोंसे वंचित करके वहां रूसी किसानोंको बसा रहे थे। १९१५ ई०में पेंतालीस लाख एकड़ बढ़िया जमीन कजाकों और किर्गिजोंसे छीनकर रूसी जमींदारों, सरकारी अफसरों और कुलकों (धनी किसानों) को दे दी गई। युद्धके लिये रिसालोंके वास्ते धोड़ों और खानेके लिये पशुओंको छीन-छीनकर मध्य-एसिया और कजाकस्तानके चरवाहोंकी अवस्थाको और भी बुरा बना दिया गया। लोग पहले हीसे “त्राहि मां, त्राहि मां” कर रहे थे। इसपर जून १९१६ ई०में राजाज्ञा निकली, कि १९ से ४३ वर्षके उमरवाले पुरुषोंको फौजमें भर्ती होना पड़ेगा, और उन्हें युद्धक्षेत्रमें खाइयां खोदने तथा दूसरे कामोंमें लगाया जायेगा। रूसके कानूनके अनुसार रूस-भिन्न जातियोंसे सैनिक सेवा नहीं ली जा सकती थी। भला जारशाही द्वारा शोषित और

अत्युद्धित उज्वेक, कजाक, किर्गिज, तुर्कमान क्यों सैनिक सेवा करनेके लिये तैयार होते ? सो भी ऐसे समयमें, जब कि खेतमें फसल काटनेके लिये तैयार थी। उज्वेक और कजाक विद्रोह करनेमें पहले थे। ताशकन्द और समरकन्द जिलेके गांवों और कस्बोंमें उज्वेकोंने सरकारी कचहरियों और दफ्तरोंपर आक्रमण किया, और सैनिक भरतीकी सूचीको जला दिया। जुलाई १९१६ ई० के मध्यमें विद्रोह सारे फरगानामें फैल गया। समरकन्द जिलेमें जीजकके पास जारशाही सेनाके साथ बाकायदा लड़ाई हुई, जिसमें रूसी सेनाने तोपोंका इस्तेमाल किया। विद्रोहियोंने वेर्नी (आधुनिक अल्माअता) और ताशकन्दके बीचके यातायातको काट दिया, और अपने विरुद्ध भेजी गई हथियारोंकी ट्रेन लूट ली। इन हथियारोंसे हथियारबन्द होकर किसान रूसी सेनासे लड़नेके लिये तैयार हो गये, और अक्टूबरसे, पहले जारशाही उनके विद्रोहको दबा नहीं सकी। तुरगाई (आधुनिक अकत्यूबिन्स्क) जिलेके कजाकोंका विद्रोह सितम्बर १९१६ ई० में शुरू हुआ। उसके दवानेमें जारशाहीको काफी कठिनाई उठानी पड़ी। इस विद्रोहका नेता अमनगेल्दी ईमानोफ था। जब जिलेके कजाकोंने सेनामें भरती होनेसे इन्कार कर दिया, तो रूसी राज्यपालने स्वयं जाकर उन्हें समझाना चाहा, इसपर अमनगेल्दीने उससे पूछ दिया—“इजाजत दीजिये सरकार, एक प्रश्न पूछनेकी। अपने अज्ञानके कारण हमें समझमें नहीं आता, कि इस युद्धमें शामिल हो हम किसकी प्रतिरक्षा करेंगे ?” राज्यपालने अमनगेल्दीको गिरफ्तार करनेका हुक्म दिया, लेकिन वह वहांसे अन्तर्धान हो गया, और थोड़े ही समयमें उसने काफी संख्यामें विद्रोहियोंको संगठित कर जारशाही सेनाका मुकाबला पहलेपहल किजिलकुल (लाल सरोवर) में किया। लड़ाई सारे दिन होती रही, सेनाको पीछे हटना पड़ा। अक्टूबर १९१६ ई०के अन्तमें अमनगेल्दी और उसके साथियोंने तुरगाई नगरको घेर लिया, लेकिन वह उसके ऊपर अधिकार नहीं कर सका। वहांसे हटकर अमनगेल्दीने बतबकरा गांवमें किलेबन्दी करके उसे अपना केंद्र बनाया। वहां उसने हथियारोंके बनानेके लिये एक मिस्त्रीखाना स्थापित किया, जिसमें कारीगर रात-दिन लगकर तलवार और दूसरे हथियार बनाने लगे। उसने कजाकोंको बन्दूक चलाना और फौजी कवायद सिखाना भी शुरू किया। फरवरी १९१७ ई०के मध्यमें एक काफी बड़ी सेना अमनगेल्दीके विरुद्ध भेजी गई, जिसने बतबकरापर अधिकार कर लिया, लेकिन विद्रोहियोंको उनके बाप-दादोंका दश (निर्जन भूमि) शरण देनेके लिये तैयार था। बोल्शेविक-क्रांतिके अब आठ ही महीने रह गये थे। उतने दिनों तक किसी तरह लड़ते और आत्मरक्षा करते अमनगेल्दी और उसके आदमियोंने बिताया। बोल्शेविक-क्रांतिके समय अमनगेल्दी बोल्शेविकोंमें शामिल हो गया, और बोल्शेविक पार्टीका सदस्य बन क्रांतिके लिये लड़ते हुये उसने वीरगति प्राप्त की।

तुर्कमानोंमें भी संघर्ष देरतक रहा। तुर्कमान प्रायः सारे घुमन्तू थे, इसलिये अपने विरुद्ध भेजी सेनासे आसानीसे बचते हुये वह तुर्कमानिस्तानकी विस्तृत तथा बहुत कुछ निर्जन और रेगिस्तानी भूमिमें घूमते रहे, और कहीं-कहीं विद्रोही ईरानकी सीमाके भीतर भी चले गये। जारशाही सैनिकोंने जहां भी मौका मिला, तुर्कमानोंके डेरोंको जला दिया, उनकी सम्पत्ति और पशुओंको छीन लिया। इस अत्याचारके कारण कितने ही इलाकोंमें जनसंख्या आधी रह गई। महाराज्यपाल कुरोपत्किनने ३४७ विद्रोहियोंपर मुकदमा चला ५१ को फांसी दिलवा दी। जारशाहीने इस तरह अपने अन्तिम दिनोंमें मध्य-एशियाके लोगोंपर भीषण अत्याचार किये। जहां दक्षिणवाले अपने परिवारों और पशुओंको लेकर ईरान और अफगानिस्तानमें भागनेके लिये मजबूर हुये, वहां कितने ही हजार किर्गिज और कजाक चीनी तुर्किस्तानके भीतर भाग गये। सोवियत शासनके स्थापित होनेके बाद उनमेंसे अधिकांश फिर अपनी जन्मभूमिमें लौट आये।

फरवरी-क्रान्ति—अन्तिम दिनोंमें जारशाही शासन सचमुच ही जिन्दा सड़ी लाश था। ऊपरसे नीचेतक सारे शासक आकंठ भ्रष्टाचार और अत्याचारमें मग्न थे। मिथ्या विश्वासकी यह हालत थी, कि एक ढोंगी बदमाश प्रेगोरी रस्पुतिन जारका गृह बन गया। रस्पुतिन साइबेरियाका एक किसान तथा भूतपूर्व घोड़ाचोर था। ईसाई साधु बनकर मठोंमें इधर-उधर घूमते उसने देख लिया, कि लोगोंकी अंधश्रद्धासे बहुत फायदा उठाया जा सकता है, इसीलिये वह त्रिकालज्ञ महात्मा बन गया।

देहातसे उसकी प्रसिद्धि जल्दी ही राजधानीमें पहुंची। जारिना संतों और सिद्धोंकी बड़ी भक्तिन थी। उसके इकलौते पुत्रको डाक्टरोंने असाध्य रोगी बतला दिया था, इसलिये वह किसी संतकी करामातसे अपने पुत्रकी रक्षा कराना चाहती थी। रस्पुतिनके किसी गणने जारिनाके पास उसकी लम्बी-चौड़ी तारीफ की। जारिनाने उसे राजमहलमें बुला लिया, और घोड़ाचोरने ऐसा जादू चलाया, कि जारिना इस ढोंगीको दूसरा ईसा मसीह समझने लगी। घरके काममें ही नहीं, बल्कि राजके कारबारमें भी रस्पुतिनकी राय ली जाती। उसकी कृपाके बलपर कितने ही लोग बड़े-बड़े दर्जोंपर पहुंचे। इस निरक्षरप्राय ढोंगीके कहनेपर जार मंत्रियों तकको नियुक्त और बर्खास्त करता था, जैसा अभी हाल ही में पंजाबके एक मुख्यमंत्रीके यहां देखा गया। जिस वक्त युद्धक्षेत्रमें रूसी सेनायें हारपर हार खा रही थीं, उस समय जार-परिवार रस्पुतिनकी भविष्यद्-वाणियोंका तिनकेका सहारा ले रहा था। उसके हृदसे ज्यादा बड़े हुये प्रभावको देखकर जारवंशी महाराजुल तथा उच्चकुलीन लोग भी रस्पुतिनको खतरेकी चीज समझने लगे। उनके ख्यालमें सारी बुराइयों और विपदाओंका कारण वही बदमाश था। उसके विरुद्ध षड्यंत्र करके जारके अपने संबंधियों तथा दूसरोंने १७ दिसम्बर १९१६ ई०को रस्पुतिनको मार डाला, और उसे बर्फ जमी हुई नेवा नदीमें छेद करके बहती धारामें डाल दिया। लेकिन जारशाहीके राजनीतिक और सैनिक ढांचोंको निर्बल करनेका कारण रस्पुतिन नहीं था, और न उसकी वजहसे मजदूरों और किसानोंमें देशव्यापी असंतोष फैला था। पिछड़ा हुआ रूस एक आधुनिक महायुद्धके भारको उठाने योग्य नहीं था। बहुसंख्यक सैनिक बिना बन्दूकोंके थे। वह कैसे लड़ते? रेलोंका यातायात बन्द-सा हो गया था, कारखानोंको कच्चा माल और ईंधन नहीं मिलता था। आहार मिलना मुश्किल हो गया था, फिर लोग क्यों न विद्रोह करनेके लिये तैयार होते, और उस अवस्थामें, जब कि सुसंगठित क्रांतिकारी व्यापक रूपसे उनमें प्रचार करते मुक्तिका रास्ता दिखला रहे थे? ९ जनवरी १९१७ ई० को "खूनी रविवार"का पर्व-दिन पड़ा। उस दिन राजधानी पेत्रोग्रादमें युद्धके विरुद्ध भारी प्रदर्शन हुआ। मास्को, बाकू, निजनी-नवोगोरद तथा दूसरे नगरोंमें भी लोगोंने अपने विरोधी भावोंको "खूनी रविवार"के विशाल जलूसोंद्वारा प्रकट किया। मास्कोमें लाल झंडा लेकर "युद्ध बन्द करो" का नारा लगाते हजारों कमकर सड़कोंपर निकल पड़े, जिन्हें सवार-पुलिसने जबरदस्ती तितर-बितर कर दिया। कितने ही नगरोंमें हड़तालें हुईं। मेन्शेविक और समाजवादी क्रांतिकारी शासनमें परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन इस समय युद्धके पक्षमें होना वह अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानते थे। १४ फरवरी १९१७ ई० को दूमाके उद्घाटनके दिन बोल्शेविकोंकी प्रेरणासे भारी संख्यामें मजदूर सड़कोंमें "स्वेच्छाचारिताकी क्षय", "युद्ध बन्द करो" के नारे लगाते निकल आये। फरवरीके उत्तरार्धमें पेत्रोग्रादमें क्रांतिकारी आन्दोलन बड़ी तेजीसे बढ़ा। १८ फरवरीको पुतिलोफके कारखानेमें तीस हजार मजदूरोंने हड़ताल कर दी, और २३ फरवरीके सबेरे जब उन्होंने अपना जलूस निकाला, तो दूसरे कारखानोंके भी बहुतसे मजदूर शामिल हो गये।


पेत्रोग्रादकी बोल्शेविक पार्टीकी कमीटीने लोगोंसे कहा, कि ८ मार्च (२३ फरवरी)को अन्तर्राष्ट्रीय मजदूरियोंका दिवस राजनीतिक हड़ताल और प्रदर्शनोंके साथ मनाना चाहिये। उस दिन ९०००० स्त्री-पुरुषोंने काम छोड़ दिया। अगले दिन ९ मार्च (२४ फरवरी) को दो लाख मजदूरोंने हड़ताल कर दी, और नगरके सभी भागोंमें क्रांतिकारी सभायें होने लगीं। पुलिसने सावधानी करते हुये नेवा नदीके सभी पुलोंपर अधिकार कर रक्खा, लेकिन नेवा उस वक्त बर्फ बनी हुई थी, इसलिये मजदूरोंको शहरमें आनेके लिये पुलोंकी अवश्यकता नहीं थी। १० मार्च (२५ फरवरी) को राजनीतिक हड़तालने सार्वजनिक हड़तालका रूप ले लिया। पेत्रोग्रादके सेनापतिको जारने हुक्म भेजा—“मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, कि कलसे पहले ही राजधानीकी दुर्व्यवस्थाका अन्त कर दो।” इसपर पुलिसने प्रदर्शनकारियोंको छतोंपर रखी मशीनगनोंकी गोलियोंसे भूनना शुरू किया। सड़कों और चौरस्तोंमें नगरके केन्द्रीय भागके सभी जगहोंमें सैनिक बैठे हुये थे। मजदूरों और बोल्शेविकोंको पकड़-पकड़कर अंधाधुन्ध जेलोंमें बन्द किया जा रहा था। पेत्रोग्रादकी बोल्शेविक कमीटीके सदस्य जेलोंमें बन्द कर दिये गये थे। इस समय मोलोटोफके

नेतृत्वमें केन्द्रीय कमीटीका ब्यूरो विद्रोहका संचालन कर रहा था। यहाँ यह याद रखना चाहिये, कि अभी तक रूसमें पुराना पंचांग चल रहा था, जिसकी तारीख तेरह दिन बाद पड़ती थी—२३ फरवरी वस्तुतः ८ मार्च थी। प्रथम क्रांति मार्चमें हुई थी, लेकिन पुराने पंचांगके अनुसार उसे फरवरी-क्रांति कहा जाता है। इसी तरह आठ मास बाद होनेवाली बोल्शेविक-क्रांति वस्तुतः नवम्बरमें हुई थी, लेकिन पुराने पंचांगके अनुसार अक्तूबरमें होनेसे उसे तबसे आजतक अक्तूबर-क्रांति कहा जाता है।

२७ फरवरी (१२ मार्च) को पेत्रोग्रादमें सेनापर क्रांतिका प्रभाव पड़ने लगा, सैनिक समझने लगे, कि उनका हित जारशाहीके साथ रहनेमें नहीं, बल्कि विद्रोहियोंका साथ देनेमें है। इसी दिन दो रेजीमेंटोंने बीब्रोगं मुहल्लेमें कमकरोंका साथ दिया। मजदूरोंने एक हथियारखानेपर अधिकार करके वहाँसे चालीस हजार बन्दूकें और दूसरे हथियार लेकर अपनेको हथियारबन्द किया। उन्होंने जेलोंसे राजनीतिक बंदियोंको छुड़ा लिया। इसी दिन जेनरल खबारोफने राजधानीमें मार्शल-ला घोषित कर दिया। लेकिन जब सेनामें ही विद्रोह फैल रहा हो, तो मार्शल-ला क्या कर सकता था? उस समय जारनगरसे बाहर डेरा डाले हुये थे, और जारिना राजधानीमें बैठी अपने पतिके पास बराबर आशापूर्ण संदेश भेज रही थी। उसने अपने एक पत्रमें लिखा—“यह गुण्डोंका आन्दोलन है। तरुण लड़के-लड़कियां चारों ओर चिल्लाते फिर रहे हैं, कि रोटी नहीं है—यह केवल लोगोंको भड़कानेके लिये।” जारने युद्धक्षेत्रपर हुकम भेजकर सेनाको पेत्रोग्राद भेजनेके लिए कहा। एक सेना भरी हुई ट्रेन जेनरल इवानोफके नेतृत्वमें मुस्किलसे जास्कोयोसेलो (पेत्रोग्रादके पास जारग्राम) में पहुँची भी, किंतु सैनिकोंने क्रांतिकारी सिपाहियोंसे मेल-मिलाप बढ़ाकर अपने जेनरलको पकड़वाना चाहा। जारने अब जास्कोयोसेलोको भी अरक्षित देखकर पेत्रोग्रादके लिये ट्रेनपर प्रस्थान किया, लेकिन वहाँ भी उसे खतरा मालूम हुआ, और ट्रेनको प्स्कोफकी ओर मोड़ दिया गया। सभी जगह सेना क्रांतिकी ओर हो रही थी।

१९०५ ई०की क्रांतिमें हम देख चुके हैं, कि किस तरह अपने आप मजदूरोंने संगठित रूपसे जारशाहीका मुकाबिला करनेके लिये कमकर-प्रतिनिधि-सोवियतें संगठित कीं। अब इस क्रांतिमें भी उस तजबेसे फायदा उठाकर मजदूर सिपाही-प्रतिनिधियोंकी सोवियतें कायम हुईं, जिनमें सबसे पहले कायम हुई थी पेत्रोग्राद-सोवियत। २७ फरवरी (१२ मार्च) को क्रांतिकी विजय हुई। हथियारबन्द मजदूरों और सैनिकोंने राजनीतिक बंदियोंको जेलोंसे छुड़ा लिया। इस प्रकार हम देखते हैं, कि जारशाही शासनयंत्रका स्थान लेनेके लिये सोवियतका पहला तजर्बा तुरन्त काममें आया। अभी सड़कोंमें गोलियां चल रहीं थीं, इस वक्त भी करखानोंके मजदूर सोवियतके लिये अपने सदस्य निर्वाचित कर रहे थे। फरवरी १९१७ ई० की सोवियतें केवल मजदूरों ही नहीं, बल्कि सैनिकोंके प्रतिनिधियों द्वारा भी संगठित की गई थीं। २७ फरवरी (१२ मार्च) तक निर्वाचन हो गया था, उसी शामको पेत्रोग्राद सोवियतकी प्रथम बैठक हुई। पेत्रोग्रादमें क्रांतिके सफल होनेकी खबर मिलते ही सारे देशमें क्रांति फैल गई। २७ फरवरी (१२ मार्च) को ही मास्कोकी बोल्शेविक पार्टीके संगठनोंने वहाँके मजदूरों और सैनिकोंसे पेत्रोग्रादकी क्रांतिका समर्थन करनेकी अपील की। अगले दिन बड़े-बड़े कारखानोंके मजदूर हड़ताल करके सड़कोंपर निकल आये, और वहींपर मास्को छावनीके सैनिक उनमें आ मिले। १ मार्च (१४ मार्च) को मजदूरोंने बोल्शेविक बंदियोंको मुक्त किया, जिनमें प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा पीछे गृहमंत्री फ० ई० जेजिन्स्की भी था। निजनी-नवोग्राद (आधुनिक गोर्की) में भी क्रांतिकी विजय हुई। २ (१५) मार्च को तुलाके हथियारके कारखानोंके मजदूरोंने विद्रोह कर दिया, और वहाँके जारशाही अफसरोंको पकड़कर अपनी सोवियत (पंचायत) स्थापित की। यद्यपि क्रांति सफल हुई थी मजदूरों और सिपाहियोंकी कुर्बानी और बलपर, लेकिन उससे प्रथम लाभ उठानेवाले थे अवसरवादी समाजवादी-क्रांतिकारी और मेन्शेविक। १ मार्चकी रातको उन्होंने बोल्शेविकोंसे बिना पूछे ही दूमाके प्रतिगामी सदस्योंके साथ समझौता करके सरकार बनानेके लिये समझौता कर लिया। २ मार्चके सबैरे राजुल ल्वोफके नेतृत्वमें अस्थायी सरकार घोषित कर दी गई। यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि अस्थायी सरकारके सभी सदस्य

पुरानी व्यवस्थाके समर्थक थे। त्वांफ बहुत बड़ा जमींदार था। मिल्यूकोफको विदेश-मंत्री बनाया गया। गुचकोफ अक्टूबरी दलका नेता तथा मिलमालिक और बैकर था, जिसे युद्ध-उद्योग-समितिका युद्ध-मंत्री बनाया गया था। प्रगतिशील पार्टीका सदस्य तथा कपड़ामिलका मालिक कोनोक्लोफ व्यापार-उद्योग-मंत्री बनाया गया, और चीनी कारखानोंका मालिक करोडपति तेरेस्वेंको वित्त-मंत्री नियुक्त किया गया। ग्यारह मंत्रियोंमें केवल एक जनसमाजवादी दल (पीछे समाजवादी क्रांतिकारी दल) का सदस्य वकील केरेन्स्की था, जिसे न्याय-मंत्री बनाकर टरका दिया



१९. (२।४।११)
 जास्साही प्रसार
 (१८९९-०५ ई०)

गया। इस मंत्रिमंडलके बारेमें लेनिनने अपने एक पत्रमें लिखा था—“हितकारी व्यक्तियोंका समूह नहीं है यह सरकार। यह रूसमें राजनीतिक शक्ति हथियानेमें सफलता पानेवाले एक नये वर्गके प्रतिनिधि हैं। यह पूंजीपति जमींदारों और पूंजीवादियों (बूर्जा वर्ग) के प्रतिनिधि हैं, जो कि लम्बे अर्सेसे हमारे देशका आर्थिक तौरसे शासन कर रहे थे।”

अस्थायी सरकारका पहला प्रयत्न यह हुआ, कि राजमुकुटकी रक्षा कैसे की जाय ? जार पहले ही अधिकार वंचित होकर प्स्कोफमें बंठा हुआ था। गुचकोफ और श्लुगिनने अस्थायी सरकार के नामसे वहां पहुंचकर जारपर जोर दिया, कि वह अपने पुत्र अलेक्सीके पक्षमें सिंहासन त्याग दे। लेकिन जारने अपने भाई मिखाइलके पक्षमें सिंहासन-त्याग करना स्वीकार किया। पेत्रोग्राद लौटनेपर दूमा सदस्य गुचकोफने मजदूरोंके सामने भाषण देते हुये निकोलाइ II के सिंहासन-त्यागको घोषित करते हुये अन्तमें “सम्राट् मिखाइल जिंदाबाद” के साथ अपने व्याख्यानको समाप्त किया। इसपर मजदूरोंने तुरन्त गुचकोफके गिरफ्तार करनेकी मांग पेश की। अस्थायी सरकारने बहुत जल्दी देख लिया, कि राजवंशकी रक्षा नहीं की जा सकती, और उसने एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर मिखाइल रोमानोफसे सिंहासन त्यागकर सारी शक्ति अस्थायी सरकारके हाथमें दे देनेकी प्रार्थना की। ३ मार्च को मिखाइल रोमानोफने भी सिंहासनसे इस्तीफा देनेके पत्रपर हस्ताक्षर किया, और लोगोंको अस्थायी सरकारकी आज्ञा माननेके लिये कहा।

इस प्रकार रूसका अंतिम राजवंश खतम हो गया, लेकिन क्रांतिसे फायदा उठाकर प्रजाके नामसे जिस गुटने शासन अपने हाथमें लिया, वह साधारण जनताके हितोंकी पक्षपाती नहीं, बल्कि उसने पश्चिमी युरोपकी तरह सम्पत्तिशाली पूंजीवादी वर्गके लिये शासनयंत्रको अपने हाथमें संभाला था। लेकिन हिन्दीकी पुरानी कहावत क्या झूठी हो सकती है—“जो शालिग्रामको भूतकर खा गया, उसे बैंगन भूनकर खाते कितनी देर लगेगी ?” जिन कारणोंने जारशाही जैसे शक्तिशाली शासन-यंत्रको उखाड़कर फेंक दिया, वह अब भी मौजूद थे।

स्रोत ग्रन्थ

१. आजियात्स्कया रोस्सिया (अ. क्रुवेर आदि मास्को १९१०)
२. पो गरामि पुस्तिन्याम् स्नेदनेइ आजिइ (न. म. फेदोरोव्स्की, मास्को १९३७ ई०)
३. पुतेशेस्तिव्ये व् ज़ापदनीइ किताइ (ग. ये. और म. ये. ग्रुझिमाइलो, पेत्रेबुर्ग १९०१)
४. इस्तोरिया दिप्लोमातिइ (३ जिल्द, व. प. पोतेम्किन्, लेनिनग्राद १९४५)
५. यज़ीकोज़नानिये इ इस्तोरिया लितेरातुरी (स. ग. विलिन्स्की आदि मास्को १९१४)
६. इस्तोरिया रोस्सिइ (२९ स. सोलोवियेफ्, पेत्रेबुर्ग, १८७९-८५)
७. तुर्कैस्तान्स्कओ वोयेन्नओ ओक्रुग् (३ जिल्द १८८०)
८. History of U. S. S. R. (A. M. Pankratova)
९. Heart of Asia (E. D. Ross)
१०. Manuel historique de politique etrengere (E. Boureois, Paris 1927)
११. La rivalite anglo-russe on xix siecle on Asie (A. M. F. Roure, Paris 1908)
१२. Europe and China (G. F. Hundson London 1931)
१३. Russo-Chinese Diplomacy (Ken Shen-Feigh, Shanghai 1928)
१४. Histoire de Russie (N. Brian-Chaninov Paris 1929)

खोकन्दके खान

(१७४७-१८७६ ई०)

अस्त्राखानियोंके शासनके निर्बल होनेपर उत्तरके कजाकोंने नोच-खसोट शुरू कर दी। इससे पहले जुंगर-कल्मक अपने प्रभुत्वको बढ़ाते चले आये थे। १७४० ई० तक ताशकन्द और तुर्किस्तान शहरके इलाकोंपर कजाकोंका पूरा अधिकार हो गया था, और पलासीके युद्धके समय (१७५७ ई०) चीनने जब जुंगरोंकी शक्तको खत्म कर दिया, उसी समय अन्तर्वेदमें शक्तियोंका फिर बंटवारा हुआ—मंगितोंने बुखारा और अन्तर्वेदकी भूमिको अपने हाथमें किया, फरगाना और ताशकन्दपर एक नये वंशकी स्थापना हुई। इस इलाकेके नगरोंमें प्रभावशाली खोजा (सैयद) शासन कर रहे थे, जिन्होंने केंद्रके निर्बल होनेपर अपनेको स्वतंत्र शासक बना लिया। फरगानाका शासक यादगार खोजा भी ऐसा ही था, जिसकी लड़कीसे शाह्रुख बेकने शादी की, जिसके वंशमें निम्न खान हुये थे—

१. शाह्रुख बेक, यादगार खोजा-दामाद	१७४७ ई०
२. रहीम बेक, शाह्रुख-पुत्र	
३. अब्दुलकरीम बेक, शाह्रुख-पुत्र	
४. एर्दनी बेक, अब्दुलकरीम-पुत्र	
५. नरबुले, नरबुते, अब्दुलकरीम-दौहित्र	—१७७० "
६. आलम खान, नरबुले-पुत्र	१७७०-१८०० "
७. उमर, नरबुले-पुत्र	१८००-९ "
८. मुहम्मद अली, मदली, उमर-पुत्र	१८०९-२२ "
९. शेरअली, हाजिबी-पुत्र	१८४२ "
१०. मुराद, आलिम-पुत्र	१८४२ "
११. खुदायार, शेरअली-पुत्र	१८४२-५७ "
१२. मुल्ला, शेरअली-पुत्र	१८५७-५९ "
१३. शाहमुराद, सरिसक-पुत्र खुदायार (पुनः)	१८५९ "
१४. सैयद सुल्तान, मुल्ला-पुत्र खुदायार (पुनः)	१८५९-६५ "
	१८६५-७५ "

१. शाह्रुख बेक, यादगार खोजा-दामाद (१७४७ ई०)

जैसा कि कहा, अस्त्राखानियोंकी निर्बलतासे फायदा उठाकर इसने अपना वंश स्थापित किया। वोलाके पास रहनेवाले तुर्कोंके किसी कबीलेका यह एक अमीर किंतु राजवंशी नहीं था। १८ वीं सदीके आरंभमें यह वोला-तटसे फरगाना पहुंचा, और खुर्रमसरायके शासक यादगार खोजाने इसे अपनी लड़की दे दी। वह अपने अनुयायियोंके साथ खोकन्दसे बारह मील पश्चिम, गूरगान (कूरकान) स्थानमें बस गया। शायद शाह्रुख मंगीती था और खोकन्दमें प्रधानता रखनेवाली शाखासे संबंध रखता था। शाह्रुखने ससुरको मारकर उसके राज्यको हाथमें कर उसे आगे बढ़ाया। चाहे वह छिड़-गिस् वंशका न भी रहा हो, लेकिन अपनी धाक जमानेके

लिये छिड़-गिस्के खूनका दावा करना फायदेकी बात थी, जैसा कि उससे एक सौ वर्ष पहले बाबर और उसके वंशजोंने भारतमें किया था।

२. रहीम बेक, शाहरुख-पुत्र

बापके मरनेपर बेटा उत्तराधिकारी हुआ, लेकिन अभी राज्य छोटा होनेसे वह खान न होकर बेक (अमीर) ही रहा।

३. अब्दुलकरीम बेक, शाहरुख-पुत्र

रहीम बेकके मरनेपर उसका भाई अब्दुलकरीम गद्दीपर बैठा, जिसके समयसे खोकन्दका प्रताप बढ़ने लगा। इसीने वर्तमान खोकन्द नगरको आबाद करके उसे अपनी राजधानी बनाई।

४. एर्दनी बेक, अब्दुलकरीम-पुत्र (-१७७० ई०)

नहीं कहा जा सकता, एर्दनी बेक अब्दुलकरीमका पुत्र था या भाई। इसने फरगानाके सभी बेकोंको अपने अधीन किया। १७५८ ई०में ताशकन्द चीनके हाथमें चला गया था। चीनी जनरल चाउ-हो-येइ ने खोजी जानका पीछा करते अपनी एक सैनिक टुकड़ीको बुस्तों (करा किर्गिजों) को दवानेके लिये भी भेजा। एर्दनी बेकने मांस और शराबसे उनका सत्कार किया, और लौटते वक्त उनके साथ गया। उसने अपने एक अफसरको सम्राट् च्यान्-लुङ्ग (काउ-चुङ्ग १७३७-१७९५ ई०) के दरबारमें अधीनता स्वीकार करनेके लिये भेजा। अन्दिजानके शासक तुक्तू मुहम्मद, मरगिलानके इलास पिङ्ग लीने भी बाज और दूसरी भेंटोंके साथ चीन-दरबारमें अपने दूत भेजे। १७६० ई०में तोकतू मुहम्मद स्वयं पेकिङ्गमें उपस्थित हुआ। एर्दनीने ओश (अजीबी) के इलाकेपर आक्रमण किया, लेकिन चीनी जनरलके हुक्मपर उसे लौट जाना पड़ा। १७६३ ई० में बुस्तोंकी भूमिपर चीनियोंने दूसरी बार आक्रमण किया। इस तरह १७७० ई० में जब एर्दनी मरा, उस समय चीनका प्रभाव मध्य-एसियामें जोरोंपर था और उसकी इच्छाके विरुद्ध स्थानीय शासकोंको मनमानी करनेकी हिम्मत नहीं थी।

५. नरबुते, नरबुले, अब्दुलकरीम-दौहित्र (१७७०-१८०० ई०)

अब्दुलकरीम बेककी लड़की अर्थात् एर्दनी बेककी बहिनको बाबर-वंशज अब्दुरहीम बेकने शादी की थी, जिससे नरबुते बी पैदा हुआ। इस प्रकार वह बाबरके प्रतापी वंशका उत्तराधिकारी होनेका भी दावा कर सकता था, यद्यपि इस समय भारतमें इस वंशकी भी दशा बहुत बुरी थी। नरबुतेके गद्दीपर बैठनेसे पहले सुलेमान बेक और शाहरुख बेक बारी-बारीसे कुछ महीनों तक खोकन्दकी गद्दीपर बैठ चुके थे। नरबुलेका बाप अब्दुरहीम बातिर (बहादुर) उज्बेकोंके मिंग-कबीलेका और इसफाराके इलाकेका शासक था। दूसरी परम्परा यह भी है, कि यह यामच बी (बाबर)का वंशज था। इसफारा लेनेके लिये एर्दनीने अब्दुरहमान (अब्दुरहीम) को धोखा देकर मार डाला, लेकिन उसके पुत्र नरबुतेको बच्चा समझकर छोड़ दिया। एर्दनीके उत्तराधिकारियोंके भी विच्छिन्न या भाग जानेपर खोकन्दियोंने नरबुतेको लाकर गद्दीपर बैठाया। यह बुखाराके अमीर शाह-मुरादका समकालीन था, और शायद उसकी अधीनता भी स्वीकार करता था। नरबुतेके पास पचास हजार सेना थी। चीन-सम्राट्ने उसे "पुत्र" की उपाधि प्रदान की थी। हर दूसरे साल घोड़ों, समूरी खालों आदिकी भेंट लेकर खोकन्दका दूत चीन जाता था, और बदलेमें लाखों रुपयोंकी बहुमूल्य चीजें इनाम मिलती थीं। उस समय चीनी सीमांतसे आगे सवारीके लिये संदुकनुमा घोड़ागाड़ी चढ़नेको मिलती, जिसमें दो घोड़े जुते। खाना-पीना सारा सामान इसी गाड़ीमें रक्खा जाता। जगह-जगह मुसाफिरोंके लिये पड़ाव बने हुये थे, जहाँ पांच सौ चीनी सैनिक रहते थे, यात्री इन्हीं पड़ावोंमें रातको ठहरते। रास्ता ऐसे इलकोंसे जाता था, जहाँ आबादी बहुत कम थी। चीनकी सीमासे एक मासके करीब पेकिङ्ग था। चीनी दरबारके अपने कायदे थे। दूतको काउ-ताउं

(दंडवत्) करनी पड़ती, फिर प्रतिहार चीनी-तुर्कीमें कुछ बोलता, जिसका अर्थ था “सम्राट् श्रीमुख से पूछ रहे हैं, कि मेरा पुत्र नरबुते स्वस्थ और प्रसन्न तो है?” दूत फिर दंडवत् करता, और पहलेसे सिखलाये हुये वाक्योंमें उत्तर देता—“नरबुतेको इसके सिवा और कोई इच्छा नहीं है, कि परमभट्टारककी आज्ञाका पालन करें।” भेंट-मुजरेके बाद सम्राट्ने दस लाख मूल्यका इनाम उसे दिया, जिसे घोड़ागाड़ियों में रख दिया गया। अफगान राजदूतने नरबुतेके बारेमें लिखा था—“नरबुतेने अपने लिये एक बड़ा ही सुन्दर महल बनाया है, जिसकी दीवारें चमकीली प्रोसलीन (चीनी मिट्टी)से ढंकी हैं। वह दस हजार सिपाहियोंके साथ शुक्रवारकी नमाज पढ़ता है।” उसके भोजनमें चावल भी सम्मिलित था। अफगान दूत मासूम खोजाके अनुसार नरबुतेने खोजन्द छोड़ सारे फरगानाको जीत लिया था, अन्दिजान, नमंगान, ओश आदिके नगर उसके हाथमें थे। खोजन्दके शासक फाजिल बी और तत्पुत्र तथा उरातिप्पाके राज्यपाल खुदायारसे उसका झगड़ा रहता था। उसने अमीर बुखारासे मिलकर उरातिप्पापर अधिकार करना चाहा, लेकिन खुदायारने बुरी तरहसे हराकर भगा दिया। १७९९ ई०में नरबुतेने ताशकन्दके शासक मूनस खोजापर आक्रमण किया। कजाकोंके खान एलबर्सके मारे जानेके बाद १७४० ई०में ताशकन्द जंगर कल्मकोंके हाथमें चला गया था, जिनकी ओरसे कुसियक बी १७४९ ई० तक शासन करता रहा। जंगर साम्राज्यको नष्ट करके १७५० ई० में चीनियोंने ताशकन्दपर अधिकार कर लिया। कुछ दिनों छोटे छोटे अमीर जहां-तहां राज्य करते रहे, फिर खलीफा अबूबकरके वंशज यूनस खोजाने ताशकन्दको अपने हाथमें कर लिया, और इसने आसपासके इलाकेको दबाकर १७९८ ई०में महाओर्दूके कजाकोंको भारी दंड दिया। इसी यूनससे १७९७ ई०में नरबुतेकी पहली भिड़ंत हुई। १८०० ई० में नरबुतेको यूनसने पकड़कर मार डाला।

६. आलम खान, नरबुते-पुत्र (१८००-९ ई०)

नरबुतेके मारे जानेके बाद उसके बड़े बेटे आलमने अपने भाई रस्तम बेक और दूसरे संबंधियोंको मारकर गद्दी संभाली। खोजन्दके खानोंमें पहलेपहल इसीने खानकी पदवी धारण की, और अपने नामका खतवा तथा सिक्का चलाया। यूनस खोजा कजाकोंके साथ खोजन्दपर चढ़ा, खुदायार-पुत्र बेक मुराद भी उसका सहायक था। सिर-दरियाके आर-पारसे दोनों सेनाओंने गोलावारी की, किन्तु अन्तमें यूनसको खाली हाथ लौट जाना पड़ा। १८०३ या १८०५ ई०में आलम खानने ताशकन्दको एक बार सर किया, लेकिन अन्तिम विजय उसके भाई उमर खानके हाथों हुई, जिसने यूनसके पुत्रको वहांसे भगा दिया। आलमने कजाकोंको हराकर बुखारासे उरातिप्पाको छीननेकी पहली बार असफल कोशिश की, दूसरी बार उसे सफलता मिली। तो भी खुदायारके भतीजे खानने उरातिप्पाको फिर लौटा लिया।

चीनियोंके पूर्वी तुकिस्तानके अल्ती शहरपर विजय प्राप्त करनेपर वहांका शासक खोजा सेरिसक बुखारा भाग गया। उसे काश्गर न लौटने देनेके लिये चीनने खोजन्दको हिदायत दे रखी थी, जिसके लिये खोजन्दको कुछ वार्षिक रुपये भी मिलते थे, जिसे खानके लिये हर दूसरे-तीसरे साल चीनमें खोजन्दसे दूत जाता था। एक बार चीनने कारणवश रुपये नहीं दिया, जिसपर आलमने खोजन्दसे काश्गरकी ओर जानेवाले बुखाराके कारवांको रोक दिया। इसकी खबर मिलने-पर चीनने पेंशनकी बाकी रकमको भी देकर फिर खोजन्दको राजी कर लिया। आलम खान बड़ा ही स्वेच्छाचारी और दुराचारी था। अपनी प्रजाकी लड़कियां उसके मारे सुरक्षित नहीं थीं। निरपराध लोगोंको भी मरवा डालनेका उसे व्यसन हो गया था। एक बार उसने अपने भाई उमरबेक और मामा तुगाईके संचालनमें भारी सेना देकर हुक्म दिया—कजाकोंके देशको जाकर बरबाद कर दो। हुक्मको न पूरा करना खानके क्रोधका भाजन होना था। मौसिम प्रतिकूल था, लेकिन तो भी खानके हुक्मको पूरा किया गया। कजाकोंने अधीनता स्वीकार की, और उमरने भाईको सूचना दी, कि मैंने कुछ कजाकोंको मार डाला और बाकियोंने अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसी दया दिखलानेके लिये आलम खानने उसे गाली देकर फिर बड़ी क्रूरतासे नरसंहार करनेके लिये लौटा दिया। उमरने

जाकर देखा, कि उसके पास दस हजार सेना है, जो इतने बड़े कामके लिये पर्याप्त होगी, इसमें संदेह था। उसने तुगाई तथा दूसरे अफसरोंसे सलाह ली। सबने कहा, कि हमारे घोड़े लौटकर ताशकन्द जानेकी शक्ति नहीं रखते, ऊपरसे मौसिम भी बहुत खराब है, साथ ही कजाक मुसलमान और निरपराध हैं, उनका कत्ल-आम करना ठीक नहीं है, रेगिस्तानमें बिखरे हुये कजाकोंको पकड़ पाना भी संभव नहीं है। उमरने पूछा—“फिर क्या करना चाहिये?” इसपर मामाने जवाब दिया—“उमरबेकको खान बनना होगा। हम आलम खान-जैसे अत्याचारीकी आज्ञा नहीं मान सकते।” वहीं उसने उमरके लिये राजभक्तिकी शपथ ली। सेनाने खोकन्दके भीतर पहुंचकर उमरको खान घोषित किया। आलमके साथ तीन सौ आदमी रह गये थे। उसने अपने अनुयायियोंमें खूब इनाम बांटे, और अपने खजाने, हरम, अन्तःपुर, पुत्र शाहखके साथ ताशकन्दसे खोकन्दके लिये प्रस्थान किया। रास्तेमें एक किलेमें घिर गया, और आत्मसमर्पण करनेसे भी इन्कार कर दिया। रातको वहीं मुकाम रहा। सबेरे उठकर देखा, तो उसके तीन सौ अनुयायी भी साथ छोड़कर खोकन्द चले गये थे। आंखोंमें आंसू भरकर आलमने अपने पुत्रको हजार तिला (पांच सौ गिन्नी) दे अमीर हैदरके पास बुखारा भेज दिया। अपनी बेगमों तथा खजानोंको गांवके एक मुखियाके हाथमें सौंप वीस सवारों तथा अपने दीवानबेगी (वजीर) के साथ दर्राकोह चला गया। इस दर्रा (पहाड़ी डांडे) से खोकन्द नगर दिखलाई पड़ता था। दीवानबेगीने खानको खोकन्द चलनेकी सलाह दी, जहांपर चार हजार खोकन्दी सैनिक रहते थे। लेकिन आलम खान अब भी अपनी राजधानीमें जानेका हठ कर रहा था। इसपर उसके और भी साथी हट गये और सिर्फ तीन आदमियोंके साथ वह चला। शत्रु सैनिकोंने उसका पीछा किया, और खानका घोड़ा दलदलमें फंस गया। उसने दीवानबेगीसे घोड़ा मांगा, किन्तु उसने उसे न दे स्वयं दौड़ाते शहरका रास्ता लिया। उमरके सिपाहियोंमेंसे किसीने खानकी पीठमें गोली मारकर रातमें दफना दिया। यह १२२४ हि० (१६ II १८०९-७ I १८१० ई०) की बात है। पहले उमरने दीवानबेगी मुहम्मद जहूरका स्वागत किया, पीछे उससे सारा धन छीन लिया। जहूरका अन्तिम समय भक्ति-पूजामें बीता।

मध्य-एशियाके शासकोंमें एक बड़ी कमजोरी यह थी, कि वह शेखों-खोजोंके बड़े भक्त होते थे, उनकी दिव्य शक्तिपर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन आलम इसे नहीं मानता था। खोकन्दमें एक बहुत बड़ा शेख रहता था, जिसके बहुत-से मुरीद (चेले) थे, और जिसकी दिव्य शक्तिकी बड़ी प्रसिद्धि थी। आलमने एक बार उस शेखको बुलाया, और तालाबके किनारे रस्सी तानकर कहा—“ओ शेख, क्यामतके दिन निश्चय ही तुम अपने चेलोंको पुलेसिरात (स्वर्ग और नर्कके बीचकी पतली दीवार) को पार कराओगे, मैं चाहता हूं, कि इस रस्सीसे जरा तुम इस तालाबको पार हो जाओ।” शेखने बहुत कहा, कि कुरानमें दिव्य शक्ति दिखलाना मना है। आखिर शेखको जबदेस्ती रस्सीपर चढ़ाया गया। गिरना तो था ही, इसपर लोगोंने डंडे मार-मारकर उस ढोंगीके प्राण ले लिये। उसने बहुत-से दरवेशों और साधुओंको पकड़कर ऊंटबानी करनेके लिये मजबूर किया था। आलम खानके जारी किये हुये सिक्के चांदी मिले हुये कांसेके थे।

७. उमर खान, नरबुते-पुत्र (१८०९-२२ ई०)

आलम खानने अपने बेटे शाहखको बुखारा भेजा था, लेकिन वह वहां न जाकर ताशकन्द चला गया। पहले वहांके कुशबेगी (सेनापति) ने खानजादेका स्वागत किया, लेकिन आलम खानके मरनेकी खबर पाकर उसने उसे खोकन्द रवाना कर दिया, और चचाके पास पहुंचनेसे पहले ही वह रास्तेमें मार डाला गया। उमर कमजोर दिलो-दिमागका आदमी था। शासन वस्तुतः मामा मुहम्मद रजाबके तुगाईके हाथमें था। उमरके शासनकालमें खोकन्द एक बहुत बड़ा व्यापार-केंद्र बन गया। इसीके समय उरातिप्पा भी खोकन्दके हाथमें चला आया। यही नहीं, तुकिस्तान-शहरको भी उसने छीन लिया और वहांके अन्तिम कजाक खान तोगाईने बुखारामें भागकर शरण ली, और वहीं मारा गया। मुहम्मद रजब कराराजा बुखारामें भागकर ठहरा हुआ था। आलम खानके बाद वह खोकन्द लौटा। उस समय मामा मुहम्मद रजाबके और उसके मित्र सेनापति कितकी कराकल्पक

में वैमनस्य हो उठा। एक दिन महलमें भोजनके लिये निर्मंत्रित मुहम्मद रजाको पकड़कर जेल में डालकर मार डाला गया। इसपर कितकीको भी बोटी-बोटी करके मरवाकर उसकी संपत्ति जन्त कर ली। मुहम्मद रजब कराजा अब खोकन्दका राज्यपाल तथा दरबारमें बहुत प्रभावशाली अमीर बन गया।

उमरने अपने दूत भेजकर रूसियोंको खोकन्दमें अपने कारवां भेजनेके लिये कहा, और यह भी वचन दिया, कि यदि हमारी ओरके आधे रास्तेमें कारवांको लूटा गया, तो मैं व्यापारियोंकी क्षतिपूर्ति दूंगा। इसपर कारवां आने-जाने लगा। किजिलजारमें एक खोकन्दी दूतका रूसी सैनिकसे झगड़ा हो गया, जिसे रूसी सिपाहीने मार डाला। रूसियोंने एक हजार तिला (पांच हजार गिन्नी) जुरमानाके रूपमें दूतके मारे जानेके लिये दिया। १८१३-१४ ई० में कर्नल नजारोफने खोकन्दकी यात्रा की, और रूसी सीमांतपर खोकन्दी दूतके मारे जानेके लिये अपसोस करते हुये बहुत समझाया। नजारोफ रक्षक सैनिकों और बीस हजार रुबलके मालके साथ गया था। उसे महलके बगीचेमें ठहराया गया, आदमियों के लिये सफेद रोटी, चावल, चाय, खरबूजा आदि खानकी ओरसे मुफ्त दिया जाता था, और जानवरोंको घास-चारा भी। बारह दिनकी प्रतीक्षाके बाद नजारोफसे खानने मुलाकात की। नजारोफ घोड़ेपर सवार था, लेकिन उसके कसाक पैदल थे। महलके पास जाकर नजारोफ घोड़ेसे उतर गया। रूसियोंको देखनेके लिये सड़कों और मकानोंकी छतोंपर तमाशबीनोंकी भीड़ थी। खान दर्शन देनेके लिये झरोखेपर बैठा था। नजारोफसे कहा गया, कि जैसे अपने बादशाहको सलाम करते हो, वैसे ही यहां भी करो। इसपर नजारोफने अपने सिरको नंगा कर दिया, और सिरपर जारके पत्रको रखकर खानको प्रदान किया। खानकी ओरसे रूसी दूतको एक भोज दिया गया, जिसमें गुलाबी रंगका चावल और घोड़ेका मांस भी सम्मिलित था। नजारोफने घोड़ेके मांसको धर्म-विरुद्ध कहकर नहीं खाया। उसके साथी कसाकोंको खलअत और इनाम देकर लौटा दिया गया, लेकिन नजारोफको रोककर उससे मांग की गई—या तो हमारे दूतकी मीतका हरजाना दो, या मुसलमान बनो, नहीं तो तुम्हें फांसीपर चढ़ाया जायगा। यह धमकी वस्तुतः दिखावटी थी। नजारोफके साथ खानका बरताव बहुत अच्छा था, कितने ही भोजनोंमें निर्मंत्रित कर उसकी नाच-गानेसे खातिर की जाती थी। सिर्फ यही खयाल रक्खा जाता था, कि वह भागने न पाये। खान उसे अपने साथ शिकारमें मरगिलान ले गया, जहांपर काफिर होनेके कारण नजारोफको मुसलमानोंने पत्थर भी मारा। कुछ समय बाद खानने नजारोफको छोड़ दिया, क्योंकि रूसका व्यापार बड़े नफे की चीज थी। उमर १८२२ ई० में अपनी मीत मरा, या शायद भाई मुहम्मद अलीने उसे मार डाला। उसके सिक्कोंपर, “सैयद मुहम्मद उमर सुल्तान” और “मुहम्मद खान सैयद उमर” अंकित रहता है।

८. मुहम्मदअली, मदली खान, उमर-पुत्र (१८२२-४२ ई०)

उमरके उत्तराधिकारी मदलीके बारेमें नहीं कहा जा सकता, कि वह उसका भाई था या बेटा। इसने अपने कई संबंधियोंको देशसे निकाल दिया, जिसमें उसके एक भाई महमूद सुल्तानने शहरसब्ज (किश) जाकर वहांकी राजकुमारीसे शादी की, पीछे बुखाराके अमीर नसरुल्लाका कृपापात्र बन खोजन्द और कुरमीतानका राज्यपाल भी रहा। शायद महमूदको शरण देनेके लिये बुखारासे मदलीका १८२५ ई० में झगड़ा हो गया, और उसी समय जीजकको बुखारियोंने ले लिया। १८२६ ई० में काश्गर-राजवंशके जहांगीर खोजाने चीनियोंके विरुद्ध असफल विद्रोह कर दिया, फिर किगिजोंसे भी झगड़ा कर लिया और अन्तमें भागकर मदलीके हाथमें पड़ा। मदलीने उसे कुछ दिनोंतक नजरबन्द-सा रक्खा, फिर वह भागकर किगिजोंमें चला गया। जहांगीरने उन्हें चीनपर आक्रमण करनेके लिये राजी किया। चीनी काफिरोंका जूआ मुसलमानों के ऊपर रहे, इसे पूर्वी-तुकिस्तानके अमीर, जहांगीर खोजा और खुद मदली कैसे पसंद करते? मदलीने मुसलमानोंके साथ बुरे बरताव करनेका बहाना लेकर एकाएक आक्रमण करके बहुतसे चीनियोंको मार डाला। जहांगीर खोजा काश्गरपर चढ़ा और मदली खानने सारे चीनी-तुकिस्तानको

दवा लिया। मदली गाजीका झंडा अब यारकन्द, अक्सू और खोतनपर फहराने लगा। जहांगीर खोजा इसे क्यों पसंद करने लगा? लेकिन इसी बीच चीनी सेना आ गई, मदली भाग गया, और जहांगीर खोजा पकड़कर पेकिङ्ग भेजा गया, जहां उसे फांसी मिली। चीनियोंने मदलीसे सुलह करके उसे यह अधिकार दिया, कि उसका प्रतिनिधि काश्गरके मुसलमानोंके धर्मकी देख-भाल और चीनको वहांके शासनमें सहायता करेगा।

१८२८-२९ ई० में इतिहासकार मिर्जा शम्स खोकन्दमें था, जब कि जहांगीर खोजाका भाई यूसुफ खोजा भी वहींपर रहता था। यूसुफ खोजाके मांगनेपर मदलीने शाही खलअत और पच्चीस हजार आदमी देकर उसे काश्गरके लिये रवाना किया। वह खुद भी ओश तक साथ-साथ गया। ओशसे बीस दिनके रास्तेपर चीनी सीमांतकी फौजी चौकी थी, जिसमें एक सौ पचास सैनिक रहते थे। लेकिन खोजाको भी विकट आदमियोंसे मुकाबिला पड़ा था। चीनियोंको निष्ठुर शत्रुओंसे दयाकी आज्ञा कहां हो सकती थी? उन्होंने बढ़ियासे बढ़िया कपड़े पहन, खूब शराब पी और इसके बाद बारूदकी मोगजीनमें आग लगा दी। खोजन्दियोंने पीछे वहां पचास साठ जली हुई लाशें पाईं। केवल पंद्रह जीते बंदी मिले, जिन्हें खोजाने मदलीके पास भेज दिया। पंद्रह वर्स्त (२३ फर्सख) और आगे बढ़नेपर पांच सौ चीनी सैनिकोंकी छावनी मिली, जिसके पास ही ७८०० सेना पड़ी थी। उनके साथ लड़ाई हुई, जिसमें खोकन्दी जीते। चीनी सैनिकोंमेंसे एक-एक या तो मारे गये, या उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब यूसुफ खोजा मूसी और लियांगरके रास्ते काश्गरसे दस वर्स्त (१३ फर्सख) पर पहुंचा। वहांपर उस समय काले और सफेद खोजोंका झगड़ा चल रहा था। सफेद खोजे यूसुफके पक्षपाती थे और काले चीनियोंके। सफेद खोजोंने शहरसे निकलकर गाजियोंका विजयीके तौरपर स्वागत करके बाजे-गाजेसे शहरके भीतर प्रवेश कराया। इस समय काले खोजोंका नेता इसहाक बेक अपने तेरह सौ साथियोंके साथ गुलबागके किलेमें था। यूसुफ स्वयं एक सौ पचास वर्स्त (८३ फर्सख) आगे बढ़कर यंगीहिसार पहुंचा, फिर वहांसे यारकन्द जा अपने पुत्र मिर्जा शम्सको शासक बना काश्गर भी छोड़कर लौट गया। राजधानी काश्गर छोड़नेके चार महीने बाद खबर आई, कि लाखों चीनी सेना फैजाबाद पहुंच गई है। इसपर मिर्जा शम्स अपने बहुमूल्य खजानेको साठ संदूकोंमें बन्द करके भागना चाहा, लेकिन काले खोजोंने उसे लूट लिया, खोकन्दी चीनी-बादके सामने बड़ी तेजीसे भागने लगे। उनके साथ उनके पक्षपाती सफेद खोजा भी भगे, जिनकी संख्या पचाससे साठ हजार तक बतलाई जाती है—स्त्री-पुरुष-बच्चे सभी पैदल, घोड़ों और गदहोंपर सवार होकर खोकन्दकी ओर भाग रहे थे। उस समय मौसिम बहुत ठंडा था, त्यान्शानके पहाड़ोंमें बर्फ और सर्दिके मारे उनमेंसे बहुत तो रास्तेमें मर गये। पांच महीने बाद यूसुफ भी खोकन्दमें मर गया। पूर्वी-तुर्किस्तानसे भागे मुसलमान शरणार्थियोंके लिये मदली खानने शेन्नीखाना नगर बसाया, तथा खोकन्दके नीचे सिर-दरियापर भी उनके बसनेका प्रबन्ध किर दिया।

खोकन्द बहुत दिनों तक चीनको नाराज नहीं रख सकता था। रूस अभी उसकी सीमासे बहुत दूर था, इसलिये उसकी अधीनता स्वीकार करके चीनको टरकाया नहीं जा सकता था। १८३१ ई० में खोकन्द और चीनके बीच संधि हुई, जिसके अनुसार “खोकन्दको अक्सू, ओश, तुफान, काश्गर, यंगी हिसार, यारकन्द और खोतनमें आयात किये जानेवाले सभी विदेशी मालपर कर पानेका अधिकार मिला, और कर उगाहनेके लिये इन सभी नगरोंमें अकसकाल (शब्दार्थ श्वेत दाढ़ी, अफसर) रखने तथा मुसलमानोंकी रक्षा करनेका दायित्व मिला। इसके बदलेमें खोकन्दको चीनकी ओरसे यह सेवा करनी थी, कि खोजा राज्यको छोड़ने न पाये, और यदि कोई छोड़ना चाहे, तो उसे दंड दे।” इससे मालूम होगा, कि १९ वीं शताब्दीके पूर्वार्धके समाप्त होते समय काश्गरपर खोकन्दियोंका काफी प्रभाव था।

उत्तरके कजाक विशेषकर महा-ओर्दूवाले अधिक संख्यामें इसी समय खोकन्दके भीतर भागे। इसपर सीमाके लिये रूसियोंके साथ खोकन्दका झगड़ा हो गया।

रूसियोंसे झगड़ा—आपसी झगड़ेकी बातचीतसे तै करनेके लिये १८२७ या १८२८ ई०में ओरेनबुर्गसे रूसी दूत भेजे गये, जो अपने साथ खानके लिये भेदके तौरपर कितने ही बड़े-बड़े

दर्पण, एक भारी घड़ी, कुछ बंदूकें और पिस्तौल ले आये थे। बातचीतके बाद निश्चय हुआ, कि कोक्सू नदी सीमा रहे, जिसके उत्तरकी भूमि रूसियोंकी और दक्षिणकी खोकन्दकी। सीमाकी पहिचानके लिये वहां चिह्न खड़े किये गये, लेकिन रूसियोंने इस समझौतेको देरतक नहीं माना, और अपनी सीमासे दक्षिणमें भी किले बनाये। इसके विरोधमें खानने एक हाथी तथा कुछ चीनी गुलामोंकी भेंटके साथ अपना दूत सीधे राजधानी पीतरवुर्गमें भेजा।

यह ऐसा समय था, जिस वक्त अंग्रेजों और रूसियोंके संबंध अच्छे नहीं थे, और मध्य-एशियामें अपने प्रभाव को बढ़ानेके लिये अंग्रेज हर तरहकी कोशिश कर रहे थे। इसके लिये उन्होंने कर्नल स्टुअर्टको बुखारा भेजा और कप्तान कोनोली खीवाके खानके पास पहुंचा। कोनोलीको हुकम दिया गया था, कि खीवासे वह खोकन्द जाये और दोनों राज्योंके रास्तेकी जांच-पड़ताल करे। कोनोली अल्तून-कला, अकमस्जिद, अचकियान हो छ सप्ताहके बाद खोकन्द पहुंचा। रूसकी जबर्दस्तीसे मदली जला-भुना बैठा था, इसलिये उसे अपनी तरफ करना कोनोलीके लिये मुश्किल नहीं हुआ। कोनोली बहुत मूल्यवान् बन्दूकें और दूसरे हथियार कश्मीरी दुशाले तथा कीमती भेंटें, खान और प्रभावशाली दरबारियोंमें बांटीं। अपने दबदबेको दिखलानेके लिये वह अस्ती नौकरोंके साथ यात्रा कर रहा था, और उसके पास बहुत भारी परिमाणमें असबाब था। जिस-जिस इलाकेसे वह गुजरा, वहांके मुखियों और सरकारी अफसरोंको उसने दिल खोलकर इनाम और भेंटें दीं। यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि यह सारा "परमुंडे फलाहार" भारतके मत्थे हो रहा था। कोनोलीकी इस मुक्तहस्तताके कारण खोकन्दमें उसके बहुतसे समर्थक हो गये थे। लौटते वक्त अमीरने उसे मार्ग-पत्र दिया। लेकिन जीजक में बुखाराका अमीर कोनोलीसे बड़े रूखे तौरसे पेश आया, जिससे उसे पता लग गया होगा, कि खीवा और खोकन्दकी सफलताके बाद आगे उसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे।

१८३९ ई०में रूसियों और चीनियोंके दबावके कारण मदलीने बुखाराके प्रभुत्वको स्वीकार कर लिया था, लेकिन कोनोलीकी चाटुकारितासे उसका दिमाग आसमानपर पहुंच गया और उसने बुखारासे झगड़ा कर लिया। कोनोलीने दोनों खानोंमें थोड़े दिनोंके लिये समझौता करानेमें सफलता पाई। अंग्रेज रूसके प्रभावको आगे बढ़नेसे रोकनेके लिये यही चाहते थे, कि खीवा-बुखारा-खोकन्द मेलसे रहें। कोनोलीको खोकन्दके मित्रोंने बुखारा जानसे मना किया, लेकिन हिंदुस्तानके मालिकोंका हुकम था, इसलिये वह बुखारा गया, और वहां कर्नल स्टुअर्टके साथ कैसे उसे अपने प्राणोंको खोना पड़ा, यह आगे बतलायेंगे।

अपनी तरुणाईके जमानेमें मदली सैनिक-जीवनको अधिक पसंद करता था। उसने कोहिस्तानकी ओर अपनी सीमाको बढ़ाया—करातगिन जीता, कूल्याब, दरवाज और शुगनानने उसकी अधीनता स्वीकार की। लेकिन १८४० ई०के करीब उसके स्वभावमें भारी परिवर्तन हुआ। अब वह मदिरा और मदिरेशुष्णके सेवनमें दिन-रात डूबा रहने लगा, जिसके कारण शासन-केंद्र कमजोर हो चला। ताशकन्दके कुशबेगी-लश्कर काजी कलियां, महासेनापति ईसा खोजा आदिने खानके खिलाफ षड्यंत्र शुरू किया और चाहा, कि उसको हटाकर आलम-पुत्र शेरअली, या नरबुतेके भाई हाजी बी पुत्र, मुराद बीको गद्दीपर बैठायें। शेरअली बहुत समयसे भागकर किपचक-कजाकोंमें रहता था, और मुरादबी खीवामें, जहां अल्ला कुल्लीखाने उसे अपनी लड़की ब्याह दी थीं। षड्यंत्रकारियोंने मदलीके विरुद्ध बुखाराके अमीर नसरुल्लाको बुलाया। दूसरी बारके निमंत्रणपर अप्रैल १८४२ ई० में वह अठारह हजार सेना ले खोकन्दसे पंद्रह-सोलह मीलपर पहुंचा। डरके मारे मदलीने अपने पुत्र मोहम्मद अमीन और कुशबेगी लश्कर (सेनापति) काजी कलियानको भेजकर अधीनता स्वीकार करते हुये नसरुल्लाके नामसे खुतवा और सिक्का चलाना मंजूर किया। नसरुल्लाने मदलीके पुत्र और काजी कलियानको लौटाकर कुशबेगीसे एकांतमें पूछा, तो मालूम हुआ, कि खोकन्दके लोग आत्म-समर्पण करनेके लिये तैयार हैं। इसपर नसरुल्लाके पास जानेका क्या परिणाम होता, यह मदलीको मालूम था, इसलिये उसने बहुमूल्य वस्तुओं और खजानेको सौ गाड़ियोंपर लदवाकर हजार आदमियोंके साथ नमगानका रास्ता लिया। राजधानीके बड़ों द्वारा निमंत्रित हो नसरुल्ला बड़े सज-धजके साथ खोकन्द नगरमें प्रविष्ट हुआ और नागरिकोंमें भय संचार तथा अपने सैनिकोंको संतुष्ट करनेके लिये नगरको चार घंटे लूटनेकी

आज्ञा दी। मुल्लोंकी किताब तक भी लुटे बिना नहीं रहीं, बच्चों और स्त्रियोंपर अमानुषिक अत्याचार हुये। सोना-चांदी छोड़कर बाकी लुटे मालको दूसरे दिन खोकन्दके नागरिकोंमें बँच दिया गया।

उधर मदलीकी गाड़ियोंको लेकर उसके अनुयायी चम्पत हो गये, और उसके पास सिर्फ तीन सेवक रह गये। मां, बीबियों, बेटों और भाईके साथ आत्म-समर्पण करनेके लिये वह आ रहा था, इसी समय रास्तेमें पकड़ लिया गया। चालीस गाड़ियोंपर उसके हरम (अन्तःपुर) को सवार कर बुखारा रवाना कर नसहल्ला अब मदलीके मरवानेकी सोच रहा था। इतना सब हो जानेके बाद कुशबेगी, काजीकलां और एरन्दिचकी आखें खुलीं और उन्होंने खोकन्द-वंशके किसी राजकुमारको अपने हाथकी कठपुतली बना अमीर नियुक्त करनेके लिये नसहल्लासे कहा। इसपर बुखाराके काजीकलांने विरोध करते हुये कहा—“मदलीने अपनी सास या नानी (उमर खानकी विधवा) को शरीयतके विरुद्ध व्याहा, इसलिये इस काफिरको उसके परिवारके साथ मृत्युदंड मिलना चाहिये।” नसहल्लाने मदली, उसकी मां, भाई तथा ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद अमीनको परिषद्के सामने उपस्थित करके कल्ल करवाया। खोकन्दी अमीर और प्रभावशाली मुखिया षड्यंत्र करनेके लिये न रह जायें, इसलिये परिवार सहित उनमेंसे ढाई सौ आदमियोंको पकड़कर बुखारा भेज दिया गया। खोकन्दके सारे राज्यमें नसहल्लाके विजयकी घोषणा की गई। अमीर-बुखाराने छ सौ सैनिकोंके साथ समरकन्दके राज्यपाल इब्राहीम दादखांको अपनी ओरसे खोकन्दका उपराज नियुक्त किया।

९. शेरअली, हाजी बी-पुत्र (१८४२ ई०)

बुखारियोंकी विजय देरतक नहीं रही। तीन ही महीने बाद खोकन्दियोंने विद्रोह कर दिया, और शेरअलीको तख्तपर बैठानेके लिये किपचक-कजाकोंकी बुलाया, जिन्होंने बुखारी-सैनिकोंको मार डाला। इब्राहीम जान लेकर भागा, जिसपर नाराज होकर नसहल्ला ने उसे मरवा दिया। अब शेरअली खोकन्दकी गद्दीपर बैठा। नसहल्ला फिर बीस हजार सेनाके साथ खोकन्दपर चढ़ा। नसहल्लाके हाथमें पड़े खोकन्दियोंमें मुसलमानकुल चूलाक (लुंज) नामक एक व्यक्ति नसहल्लाका विश्वासपात्र बन गया था। उसे खोकन्दके सैनिकोंको समझानेके लिये भेजा गया, लेकिन वहाँ उसने उन्हें भड़काना शुरू किया और बुखारी अमीरोंके नामसे जाली चिट्ठी भेजी, जिसे पढ़कर नसहल्ला अपने अमीरोंसे नाराज हो गया। इसी समय खीवावालोंने बुखारापर चढ़ाई की। नसहल्लाको खबर मिली, कि वह हमारे बहुत-से आदमियोंको पकड़ ले गये। इसपर नसहल्ला दूसरे जाभिनोंको भी छोड़कर बुखारा लौट गया।

शेरअलीने मदलीकी लाशको निकलवाकर उसे बड़े सम्मानके साथ दफनाया, मुल्लोंने शवक्रिया कराई। शेरअलीको किपचक-कजाकोंकी सहायतासे तख्त मिला था। इससे पहले खोकन्दमें सर्त (फारसी-भाषी, ताजिक) बड़ा प्रभाव रखते थे। अब वहाँ किपचकोंकी तूती बोलने लगी। उनका नेता यूसुफ भिंगवाशी खोकन्दका हाकिम (राज्यपाल) बना और मुसलमानकुल चूलाक अन्दिजानका। किपचकों और सर्तोंका झगड़ा उठ खड़ा हुआ। सर्तोंका मुखिया शादी था, जिसपर खानका विश्वास था। उसने यूसुफ भिंगवाशीको मरवाकर उसके अनुयायियोंको खत्म करनेका हुक्म दिलवाया। फिर मुसलमानकुलको खोकन्द आनेके लिये संदेश भेजा। मुसलमानकुलने यूसुफ भिंगवाशीके आदमियोंको अपने पास जमा किया। शादीने कुछ हत्यारे भेजकर अन्दिजानमें चूलाकका काम खतम कराना चाहा, लेकिन चूलाक बहुत चालाक निकला। उसने शादीके आदमियोंको पकड़कर मरवा दिया। इसके बाद किपचकों (तुर्कों) और सर्तोंका खुला युद्ध हुआ। सर्तोंको हार खानी पड़ी। शादी मारा गया और उसका पृष्ठपोषक शेरअली खान किपचकोंके हाथमें बन्दी बना। लेकिन किपचकोंको तख्तके लिये दूसरा आदमी न मिला, इसलिये उन्होंने शेरअलीको ही खान रहने दिया। यूसुफ भिंगवाशी और शादीके पदको भी मुसलमानकुलने अपने हाथमें रक्खा। चारों ओर किपचकोंकी तूती बोलने लगी। सर्तोंके दो नेता रहमतुल्ला और मुहम्मद करीमने शहरसब्ज जा आलम खांके पुत्र मुरादको तख्तके लिये तैयार किया। बुखाराने भी सेनाकी सहायता दी। १८४५ ई० में जब मुसलमानकुल सेना-सहित किर्गिजोंमें कर उगाहने गया हुआ था, उसी समय सर्तोंने चढ़ाई कर दी और उन्हें खोकन्द

शहरपर अधिकार करनेमें बहुत दिक्कत नहीं हुई। मुरादने अपनेको बुखाराके उपराज घोषित किया।

१०. मुराद, आलम-पुत्र (१८४२ ई०)

मुरादका शासन भी दृढ़ नहीं हो पाया, क्योंकि अमीर नसहल्लाके अत्याचारोंके कारण खोकन्दी उससे बहुत घृणा करते थे। इसीलिये मुसलमानकुलने फिर बड़ी आसानीसे खोकन्दपर अधिकार कर लिया। मुराद शायद मारा गया या भाग गया।

शेरअलीके पांच पुत्र थे, जिनमें सिरम्सक किपचक-खान तोस्तानजरकी पुत्री जारकिनका बेटा बाईस सालका था। उसका दूसरा पुत्र खुदायार मर्गिलानका बेटा तथा मुसलमानकुलका दामाद था। मुसलमानकुल सिरम्सकको पसंद नहीं करता था और उसे खुदायारकी मुहरसे पत्र भेज बुलाकर मरवा डाला। फिर अपने सोलह सालके दामादको खोकन्दकी गद्दीपर बैठाया। इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं, कि राज्यकी सारी शक्ति चूलाकके हाथमें थी। इसी समय किपचक-दलके भीतर भी झगड़ा उठ खड़ा हुआ। खासकर ताशकन्दका राज्यपाल नूर मुहम्मद मुसलमान कुलसे ईर्ष्या करने लगा था। चूलाकके विरुद्ध १८५१ ई०में किया गया पहला षड्यंत्र विफल रहा। इसी समय खजानेसे भारी रकम गायब हो गई। खजांचीने उसे अपने मित्रों और नूर मुहम्मदमें भी बांटा था। जब मिंगबाशी (वजीर) मुसलमानकुलने जवाब तलब किया, तो अपराधी अफसरोंने तलवार निकाल ली, फिर वह ताशकन्द भाग गये। मिंगबाशीने ताशकन्दके राज्यपाल नूर मुहम्मदको उन्हें समर्पण करने तथा खुद आनेके लिये लिखा। उसके इन्कार करनेपर मुसलमानकुल चालीस हजार सेना ले ताशकन्दके ऊपर चढ़ा, लेकिन मर्गिलानके बेटके विश्वासघात करनेसे उसे सफलता नहीं मिली। जून १८५२ ई० में उसने तीस हजार सेनाके साथ फिर चढ़ाई की। उधर नूर मुहम्मदने भी पूरी तैयारी कर रक्खी थी, और आसपास के नगरोंमें अपने हाकिम नियुक्त कर दिये थे। इसलिये मिंगबाशी मुसलमानकुलको नूर मुहम्मद नहीं, बल्कि औरोंसे भी लोहा लेना था। ताशकन्दपर जल्दी अधिकार न होते देख कुछ सेना वहां छोड़ मिंगबाशी, ने तुर्किस्तानपर सेना भेजी, और स्वयं कुछ सेनाके साथ चिरची नदीके उद्गमके पास बने नियाजबेग किलेको सर करने गया। उसकी मनशा थी, कि नियाजबेगको लेकर ताशकन्दकी ओर पानी लाने-वाली नहरको तोड़ दिया जाय। नहर तोड़नेमें सफल हो उसने ताशकन्दके उत्तर चिमकन्तके किलेको जाकर भी देखल कर लिया। इसी बीच ताशकन्दियोंने छापा मारकर नियाजबेगमें छोड़ी सेनाको हरा नहरको फिर जारी कर दिया। वह ताशकन्दियोंसे भिड़नेके लिये लौट पड़ा, लेकिन युद्धके आरम्भमें ही खुदायारखां उसका साथ छोड़ दुश्मनोंमें जा मिला। खानके इस तरह हट जानेपर सेनामें भगदड़ मच गई। उनमेंसे कितने ही मारे गये, कितने ही चिरचिक नदीमें डूब मरे। मुसलमानकुल बड़ी मुश्किलसे भागकर करार्किर्गिजोंमें पहुंचा—उसकी मां करार्किर्गिजोंकी लड़की थी।

इस समय खोकन्दमें तीन राजनीतिक दल थे, जो शक्ति हथियानेके लिये दूसरेसे मिलकर या अलग ही बराबर प्रयत्न करते रहते थे। किपचकोंमें मुसलमानकुल और नूर मुहम्मदकी दो पार्टियां थीं, तीसरी पार्टी थी सतोंकी। उक्त घटनाके दो महीने बाद सतोंने किपचकोंके विरुद्ध एक सफल षड्यंत्र किया। उतेनबी और दूसरे कितने ही किपचक नेता मारे गये, और उनका स्थान सतोंने लिया। खानने अपने भाई मुल्लाबेकको नूर मुहम्मदकी जगह ताशकन्दका हाकिम (राज्यपाल) नियुक्त किया। खुदायारने किपचकोंको बहुत नाराज कर लिया था, इसलिये उसे हमेशा उनसे डर लगा रहता था। उसने अपने राज्यमें अकमस्जिद (पेरोव्की बन्दर)से खोकन्द और काझगरको अलग करने-वाले पहाड़ोंतक सभी जगह किपचकोंको कलआम करनेका हुक्म दे दिया। किपचिक जहां भी, बाजारों, सड़कों, गांवों या मैदानोंमें मिले, मारे गये। १८५३ ई०में बीस हजार किपचकोंको इस तरह तलवारके घाट उतारा गया। खुदायारकी मां स्वयं किपचकानी थी, लेकिन उससे क्या? अपने किपचक मुख्य-सेनापति सफर बीको और भी सासत देकर मरवाया—पहले उसके हाथ-पैर तोड़ डाले गये, फिर उसके सरपर सीसेका इतना भारी भार रक्खा गया, कि आंखें अपने गोलकसे बाहर निकल आईं। फिर उसके शरीरपर लेई लपेटी गई, और ऊपरसे कड़कड़ाता हुआ तेल डाला गया। अन्तमें उसकी बोटी-बोटी

काट गई। इसके बाद मुसलमानकुल भी गिरफ्तार करके खोकन्द लाया गया। एक खुली जगहमें सिरपर लंबी टोपी पहिना उसे जंजीरोंमें जकड़-बन्द करके लकड़ीके ऊंचे चबूतरेपर रक्खा गया। तीन दिन तक उसी जगह रखकर उसके सामने छ सौ कपचक जबह किये गये, फिर उसे फांसी दे दी गई। खोकन्दको दो बार बुखारियोंसे बचानेवाले इस नीतिकुशल प्रसिद्ध उज्बेकके जीवनका इस प्रकार अन्त हुआ।

कपचकों (उज्बेकों) को इस तरह दबा देनेके बाद अब सर्तों और उसके नेता कासिम तथा मिर्जा अहमदका बोलाबाला हुआ। उनका मल्लाबेकसे झगडा हो गया। इसपर उससे ताशकन्दकी राज्यपालता छीन ली गई, और उसका पद मिर्जा अहमदको मिला। मल्ला भागकर बुखारा चला गया।

१८५७ ई० में नये राज्यपाल मिर्जा अहमदने चिमकन्द और औलियाआताके कजाकोंको अपना दुश्मन बना लिया, लेकिन पीछे अपनी कमजोरी देखकर उसने उनकी मांगोंको पूरा करके सुलह कर ली। उधर मल्लाने भी खोकन्दमें लौटकर कपचकों (कजाकों) और करार्किर्गिजोंको मिलाकर अपनी पार्टी बनाई। उज्बेक-नेता आलमकुल उसका सहायक था।

१२. मल्ला खान, शेरअली-पुत्र (१८५७-५९ ई०)

विद्रोहियोंने आक्रमण किया। समंचीके युद्धमें हारकर खुदायार बुखारा भाग गया और उसकी जगह मल्ला खान घोषित किया गया।

रूसी अभियान-१८१४ ई०में खोकन्दियोंने जब तुर्किस्तान शहरको जीता, तबसे वह इस इलाकेके कजाकोंसे कर मांगने लगे। लेकिन निम्न सिर-दरियाके कजाक अपनेको रूसकी प्रजा कहते थे, इसलिये रूसने खोकन्दियोंका विरोध किया। खोकन्दियोंने अपनेको मजबूत करनेके लिये तुर्किस्तान-शहरसे नीचे यानी कुर्गान, जूलेक, कूनिशकुर्गान, ताशकुर्गान, चिमकुर्गान आदि कई स्थानोंमें अपने गढ़ बनाये, जिनमेंसे सबसे महत्वका था अकमस्जिदका गढ़, जिसे खोकन्दियोंने १८१७ ई०में पहलेपहल सिरनदीके बायें तटपर बनाया था, लेकिन अगले ही साल उसे दाहिने तटपर परिवर्तित कर दिया। अकमस्जिदमें खोकन्दियोंका बेक (बड़ा हाकिम) रहता था, जिसके अधीन निम्न-सिरके दूसरे किले भी थे। बेक स्वयं ताशकन्दके उपराजके अधीन माना जाता था। गढ़ोंको बना मजबूत हो खोकन्दियोंने कजाकोंपर भारी कर लगाये। प्रति किवित्का (तम्बू या परिवार) सालाना चार भेड़ें, जिसका तिहाई कर उगाहनेवाले (जकातची) को देना पड़ता। इसके अतिरिक्त लंकड़ी-कोयले-भुसपर भी प्रति किवित्का चौबीस बोरा कोयला, चार बैल सखसौल (फरास ईधन), हजार पूला नरकट देना पड़ता था। प्रत्येक किवित्काका एक आदमी अपने खर्चपर बेगार करनेके लिये जाता था। ये बेगारू खोकन्दियोंके बगीचोंमें काम करते, किलेकी मरम्मत या भीतरके अस्तबलोंकी सफाई आदि करनेके लिये सालमें एक बार जाते। लड़नेके समय हरएक हट्टे-कट्टे कजाकको अपने घोड़े और हथियारके साथ सिपाही बनना पड़ता था। खोकन्दी कजाकोंपर सचमुच ही बहुत पाशविक अत्याचार करते थे—बिना कलीम (भेंट) दिये वह कजाक औलों (गांवों) से औरतें ले जाते, और शरीयतके विरुद्ध उनकी बेइज्जती करते।

निम्न सिर-दरियापर खोकन्दियोंके बहुत सैनिक नहीं थे, लेकिन तब भी उनकी धाक जमी हुई थी। अकमस्जिदमें सबसे बड़ा किला था, जहांपर पचास सिपाही रहते थे। उनके अतिरिक्त वहां सौ बुखारी और खोकन्दी व्यापारी बसे हुये थे। कूनिशकुर्गानके गढ़में पचीस सिपाही, खोशकुर्गानमें चार, जूलेक (१८५३ ई०) में चालीस, और यानीकुर्गानकी आयताकार चार-पांच फुट ऊंची दीवारोंके भीतर दो या तीन खोकन्दी सैनिक रहते थे।

अपनी प्रजा कजाकोंके साथ ऐसा बरताव होते रूसी देख नहीं सकते थे। इसलिये १८४६ ई० में कप्तान शूलजको सिरके मुहानेकी पड़तालकर वहां किला बनानेके लिये भेजा गया। अराल्स्क के नामसे मशहूर राइम्स्क किलेकी नींव अगले साल पड़ी। १८५० ई० में कजाकोंका मन बिगड़ते देख खोकन्दियोंने उन पर आक्रमण कर दिया, और पहली बार वह उनके छब्बीस हजार तथा दूसरी बार तीस हजार पशु और १८५१ ई० में पचहत्तर हजार पशु छीन ले गये। इसपर अराल्स्कके

कर दिया था, इसलिये खोकन्दी नहीं आये। उन्होंने खीवाको भी अपनी ओर मिलानेकी कोशिश की, लेकिन काफिरोंकी चपतपर चपत खाकर भी मध्य-एशियाके खानोंको होश नहीं आया था, कि वह एक हो जायें।

यह मालूम ही है, कि मल्ला खानके गद्दी संभालते समय खुदायार खान भागकर बुखारा चला गया था। अमीर नसहल्लाने पहले उसे समरकन्दमें फिर जीजकमें रक्खा। खुदायारको अपना खर्च चलानेके लिये मांके भेजे पैसेसे व्यापार करना पड़ता था। दो सालके शासनके बाद उज्बेक (किपचक) अमीरोंने मल्ला खानको मार डाला। बड़ा प्रभावशाली अमीर आलमकुल अन्दिजानका बेग नियुक्त हुआ था। उसकी अनुपस्थितिका फायदा उठाकर षड्यंत्रियोंने महलमें घुसकर मल्ला खानको सोतेमें मार डाला—षड्यंत्रियोंका नेता शादमान खोजा था।

१३. शाह मुराद, सरिन्सक-पुत्र (१८५९ ई०)

खुदायारको भगा षड्यंत्रियोंने पंद्रह सालके लड़के शाह मुरादको गद्दीपर सिंघाया। निहत मल्ला खानका यह भतीजा था। मल्लाखान का पुत्र सैयद मुल्तान भागकर अन्दिजानके स्वामी आलमकुलकी शरणमें गया, और ऊपरसे शाहमुरादकी भक्तिका दिखावा किया। खोकन्दके भीतर पार्टियोंका संघर्ष चल रहा ही था। तुर्किस्तानके बेग खनायत शाहने खुदायार खांको जीजकसे बुलाया। ताशकन्द उसके हाथमें चला गया। शाहमुराद सेनाके साथ आया, लेकिन एकतीस दिनके मुहासिरेके बाद खाली हाथ लौट रहा था, इसी बीच आलमकुलने अन्दिजानसे आकर चार षड्यंत्रियोंको मरवा डाला। खुदायार फिर गद्दीपर बिठाया गया, और आलमकुल उसका अभिभावक बना। खुदायारने भागती हुई सेनाका पीछा करके पहले खोजन्द (आधुनिक लेनिनाबाद) और फिर खोकन्द ले लिया। आलमकुल मर्गिलानके पीछेके पहाड़ोंमें भाग गया। खुदायारने शाहमुरादको मार डाला।

खुदायार पुनः (१८५९ ई०)

इस समय खोकन्दमें दो दलोंमें खूनी संघर्ष चल रहा था। सत और नगरनिवासी खुदायार के समर्थक थे और किपचक (उज्बेक और कराकल्पक) आलमकुलके दोनों दलोंमें सेना ही नहीं, बल्कि नागरिक भी मांका पाते एक दूसरेके ऊपर टूट पड़ते। उज्बेक दल अपने तीन उम्मीदवारों—शाहरुख, सादिक बेग और हाजीबेगमें बंटा हुआ था। आलमकुलने तीनोंको पकड़कर ओश नगरमें कत्ल करवा डाला, जहां ही तख्त-सुलेमान पहाड़की बगलमें तीनोंकी कब्रें हैं। इसके बाद आलमकुलने मुल्तान सईदको खान घोषित किया। मर्गिलान और अन्दिजानपर नये खानका अधिकार रहा। खुदायारकी सेना वहां दो बार हारी, इसपर खुदायारने बुखाराके अमीर मुजफ्फर खांसे मदद मांगी। मुजफ्फरके आनेपर आलमकुल कराकुलजाकी पहाड़ियोंमें हट गया। इसी बीच खुदायारसे मुजफ्फरका झगड़ा हो गया। आलमकुलको खुश करनेके लिये सोना मढ़ी छड़ी, एक टोपी, एक सुनहला कमरबन्द और एक बहुत ही सुन्दर हस्तलिखित कुरान भेजकर वह बुखारा लौट गया। बुखाराके पीठपर न रहनेपर खुदायार कमजोर हो गया। आलमकुलने आकर खोकन्दपर आसानीसे अधिकार कर लिया और खुदायार फिर अन्तर्वेदकी ओर भागा।

१४. सैयद मुल्तान, मल्ला-पुत्र (१८५९-६५ ई०)

यह नाम का ही खान था, सारी ताकत आलमकुलके हाथमें थी। अपने विरोधियोंपर आलमकुलने खूब हाथ साफ किया, और चार हजार आदमियोंको मरवा डाला। लोगोंमें असंतोष पैदा होना ही था, अब उनकी नजर जीजकमें बैठे खुदायारपर थी।

रूसियोंसे छेड़छाड़—१८५९ ई० में ओरेनबुर्गके राज्यपालकी रायमें पेरौव्स्कीका किला सुरक्षित नहीं था, इसलिये रूसियोंने जूलेक किलेपर अधिकार करके दो साल बाद १८५१ ई० में वहां एक मजबूत किला बनाया। उन्होंने यानीकुर्गानके किलेको भी ध्वस्त कर दिया। निम्न सिर-दरियाके कजाक रूसी प्रजा थे, किन्तु मध्य-सिरके कजाक खोकन्दियोंके हाथमें थे। रूसियोंने आगे

बढ़ते खोकन्दियोंके तोकमक, पिशपेक आदि किलोंपर अधिकार कर लिया। अब उन्होंने खोकन्दकी भूमिपर दो तरफसे प्रहारकी योजना बनाई। एक सेना औलियाआता या तलसपर उत्तरकी ओरसे चढ़ी और दूसरी पश्चिमसे तुर्किस्तान शहर (यस्सी) पर। इसी समय पोलैण्डमें विद्रोह हो गया और पश्चिमी युरोपमें युद्धकी आशंका बढ़ गई थी, इसलिये खोकन्दपर चढ़ाईकी योजना १८६४ ई० में स्थगित कर दी गई। तो भी कराताउ और बोरोलदाईताउकी पहाड़ियोंके खोकन्दी किले एकके बाद एक रूसी लेते गये। तुर्किस्तान शहर और औलियाआताके रास्तेपर अवस्थित चिमकन्दके किलेको खोकन्दी मजबूत करने लगे, जिसकी खबर पाकर निम्न-सिरका रूसी कमांडर जनरल चेर्नोयेफ सितम्बर १८६४ ई०में रवाना हुआ। चन्द दिनोंके मुहासिरेके बाद चिमकन्दपर उसने अधिकार कर लिया। दस हजार युद्धबंदी और बहुत सा लूटका माल हाथ आया। चिमकन्दके हाथमें आ जानेपर अकमस्जिदसे वेर्नोये (अल्माआता) का रास्ता साफ हो गया, और खोकन्दका एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका—चू-उपत्यका—खानके हाथसे निकल गया।

खोकन्दी चुप कैसे रह सकते थे? ९ मई १८६५ ई० को ताशकन्दके पास जनरल चेर्नोयेफकी सेनासे लड़ते हुए आलमकुल घायल हुआ। डाक्टर असदुल्ला उसकी चिकित्सा कर रहा था। डाक्टर आलमकुलकी पोशाकको एकके बाद एक उतरवा रहा था, जिसमें कि मरणासन्न आहत पुरुषको कुछ स्वच्छ हवा मिले। उधर उत्तारे कपड़ोंको उज्वेक लेकर चम्पत हो रहे थे। अलीकुलको बिल्कुल नंगा देख दूसरा कपड़ा न होनेसे डाक्टरने अपनी खलतसे उसे ढांक दिया।

ताशकन्द प्राचीनकालसे ही भारी व्यापारिक महत्वका नगर था। यहींपर बुखारा, खीवा, खोकन्द और रूसके कारवां-पथ मिलते थे। अब वह अधिक देर तक रूसियोंके हाथसे बाहर नहीं रह सकता था। रोज-रोजके खूनी संघर्ष और अशांतिसे परेशान हो वहाँके धनी व्यापारियोंने रूसके दृढ़ शासनको ही पसंद किया। अगस्त १८६५ ई० में शहरके रईसों और मुल्लाओंने चांदीकी तश्तरीमें नमक-रोटीकी भेंट जनरल चेर्नोयेफके सामने रखकर अभिनन्दनपत्र देते हुये अपनेको जारकी प्रजा घोषित किया—“तुम एक समुद्रको दो समुद्रमें नहीं विभक्त कर सकते, और न एक राज्यके भीतर दूसरा राज्य ही बना सकते।” रूसियोंने तुर्किस्तानका एक नया प्रदेश (गुर्बर्निया) बना दिया, जिसका शासन-केंद्र ताशकन्द बना।

खुदायार खान पुनः (१८६५-७५ ई०)

अभी भी खोकन्दका कितना ही भाग रूसियोंके हाथमें नहीं था। खुदायार ताकमें था। ताशकन्दमें रूसियोंके जम जानेपर उसने बुखारी सेना ले खोजन्दको जीतते खोकन्द पहुंचकर अपनी गद्दी संभाल ली। बुखारियोंने अपनी सेवाओंके बदलेमें १८६५ ई० में खोजन्दको अपने अधिकारमें कर लिया। यही नहीं, बुखारी अमीर मुजफ्फरने रूसियोंको हुक्म दिया, कि खोकन्दी इलाकेसे हट जाओ, नहीं तो हम जहाद घोषित करेंगे। और भी आगे बढ़ते हुये मुजफ्फरने बुखारामें रूसी व्यापारियोंकी सम्पत्ति जब्त कर ली, जिसके बदले रूसियोंने ओरेनबुर्गमें बुखारी व्यापारियोंके साथ भी वैसा ही किया, और मुजफ्फरके दूतको ओरेनबुर्गमें रोककर उसे पीतरबुर्ग नहीं जाने दिया। सीमाके झगड़ोंके निर्णयके लिये मुजफ्फर खानके बुलानेपर जो रूसी अफसर स्त्रूबे तथा कितने ही इंजीनियर आये थे, उन्हें अमीर-बुखाराने गिरफ्तार कर लिया। इस अपमानको रूसी कैसे बर्दाश्त करते? मुजफ्फरकी गोशमालीके लिये ११ फरवरी १८६६ ई०को दो हजार सेना ले जनरल चेर्नोयेफ सिर पार हो सीधे समरकन्दकी ओर बढ़ा। रेगिस्तानके रास्ते सात मंजिलें पारकर वह जीजक पहुंच गया, लेकिन बुखारियोंके सैनिक संख्याबलको देखकर उसने लौट जाना ही पसंद किया। बुखारी इसे अपनी विजय समझकर रूसियोंका पीछा करते हुए सिर दरिया पार कर गये। इसपर मेजर जनरल रोमानोव्स्कीने आक्रमण कर ८ अप्रैलको बुखारियोंको हरा खोजन्दकी ओर भगा दिया। अब सिरपर रूसी स्टीमर सेना और रसद ढो रहे थे। मुजफ्फरने सारे अन्तर्वेदमें रूसियोंके विरुद्ध जहाद घोषित करके धार्मिक जोश पैदा कर दिया था, इसलिये गाजियोंकी कमी नहीं थी। वह चालीस हजार सेना ले ताशकन्दपर आक्रमण करने गया, जब कि वहां रूसियोंकी संख्या

३६०० थी। खोजन्दसे उत्तर-पश्चिम कुछ ही मीलोंपर सिर-तटपर इरजामें २२ मईको भयंकर युद्ध हुआ। आधुनिक हथियारोंसे लैस रूसियोंने बुखारियोंको घास-मूलीकी तरह काट डाला, और अमीर मुजफ्फर एक हजार सरबाजों (सैनिकों) के साथ प्राण लेकर भागा। उसके डेरेमें "चूल्हेपर रक्खे खानेसे भाप निकल रही थी, और हुक्का पीनेके लिये तैयार था।" अमीरका डेरा, उसकी कितनी ही तीपें, बहुत भारी परिमाणमें गोलाबारूद और रसद रूसियोंके हाथ आई। खुदायारने मनमें घृणा रखते हुये भी विजयके लिये रूसियोंको बधाई दी।

बुखाराकी यह जबर्दस्त हार थी, और मध्य-एसियाकी उस समय बुखारा ही सबसे बड़ी शक्ति थी। रूस जैसे जबर्दस्त साम्राज्य के सिरपर पहुंच जानेपर भी खुदायारकी अकल ठिकाने नहीं हुई। वह अपनी प्रजापर अत्याचार करता, मनमाना कर लगाता, या ऐसे ही उनकी सम्पत्तिको जब्त कर लेता। घुमन्तू कजाकों और किपचकोंके ऊपर उसने पहलेपहल खास कर लगाये। इस समयकी अवस्थाका वर्णन एक मध्य-एसियाई लेखकने निम्न शब्दोंमें किया था—

‘सड़कोंकी भरममत्त, राजमहलोंके निर्माण, खानके बागोंके जोतने-खोदने और नहरोंकी सफाईके लिये सारे देशसे आदमियोंको पकड़कर जबर्दस्ती काममें लगाया जा रहा है। मजूरी क्या उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता। साथ ही यदि गांवके आधे लोगोंको कामपर लगाया गया है, तो दूसरे आधे से दो तंका (बारह आना) जबर्दस्ती कर उगाहा जा रहा है। कामसे भागने या इन्कार करनेपर कोड़ोंसे खबर ली जाती है। कभी-कभी कोड़ोंसे मार-मारकर लोगोंके प्राण ले लिये जाते हैं, और कितनोंको प्राण रहते ही कामकी जगहमें ही दबा दिया जाता है। ऐसी बेगार पहले खानोंके समय में भी ली जाती थी, लेकिन उन्हें खाना तो मिल जाता था। पहले खानको बिना कर दिये लोग घास, नरकट और ईंधनकी लकड़ी जमा कर सकते थे, लेकिन अब उसमेंसे आधी खानको देनी पड़ती है, जिसे सरकार निश्चित दामपर बेच देती है। इसके साथ ही ईंधन या सरकंडेकी गाड़ी जब शहरके फाटकपर पहुंचती है, तो आधा तंका वहां और फिर एक तंका बाजारमें महसूल देना पड़ता है। पहले झाड़ियोंकी लकड़ी (लीच) कर-मुक्त थी, लेकिन अब खानने प्रत्येक पर चार चेका (दो पैसा) चुंगी देनेके लिये मजबूर किया है। चुंगीवाले जोंकोके तालाबके पास रहते हैं। पशुओंके बेचनेपर साधारण जकात (शुल्क) के अतिरिक्त खानके लिये प्रति ढोर एक तंका, प्रति भेड़ आधा तंका, प्रति ऊंट दो तंका और प्रति घोड़ा-गदहा एक तंका महसूल देना पड़ता है—उस समय खोकन्दी सिक्का सोनेका तिला, जिसमें साठ चांदीका तंका होता और तंकेमें चौवालीस चेका या तांबेके पैसे होते। आयात मालपर मूल्यका चालीसवां भाग जकात और ऊपरसे बीसवां भाग और खानके लिये अमीनियाना देना पड़ता था। निर्यातके मालोंमें रेशम और रूईपर प्रति ऊंट दस तंका देना पड़ता। बाजारमें बिकनेवाली स्त्री-पुरुषोंकी पोशाक, तोशक, रेशमी कपड़ों तथा दूसरी मूल्यवान् चीजोंपर एक तंका एक थान, और कम कीमती मालपर आठवेंसे चौथाई तंका कर देना पड़ता। दूकानोंकी हिफाजतके लिये पहरा देनेके लिये रातको सिपाही आते। उनके खर्चके लिये भी हर दूकानको हर चौथे महीने दोसे दस तंका देना पड़ता। बाजारोंमें बिकनेवाले अनाजपर प्रति चारयक (दो मन दस सेर) पर चार चेका देना पड़ता। सब्जी, खरबूजा और अनाजपर प्रति बोझ एकसे तीन तंका तक कर है, जिसे तेकजाई (बाजारमें बेचनेका हक) कहा जाता है। इनके अतिरिक्त खराज और तनाव (भूकर) अलग है। दूध, खट्टी मलाई आदिपर प्रति प्याला दो चेका कर है। बत्तक या तालकी चिड़ियोंमें हर जोड़ेमें एक खानका होता, और पालतू मुर्ग-मुर्गियोंमें प्रत्येकपर दो चेका, दस अंडेपर एक चेका देना पड़ता।

भारतीय सिरकीवालोंने शताब्दियों पहले भारतकी पश्चिमी सीमासे बाहर अपना घुमन्तू-जीवन बिताता शुरू किया, और धीरे-धीरे पश्चिमकी ओर मध्य-एसिया ही नहीं, यूरोप तक फैल गये। इन्हें अंग्रेजोंमें जिप्सी, रूसोंमें सिगान और उनकी अपनी भाषामें रोमनी या रोम कहा जाता है। विद्वानोंने निश्चित किया है, कि रोम वस्तुतः हमारे डोम शब्दका ही अपभ्रंश है। रोमनी लोगोंकी भाषाको देखनेसे इसमें संदेह नहीं रह जाता, कि वह भारतीय है। ईरान और मध्य-एसियामें

रोमनी लोगोंको लोली या ल्यूली कहते हैं। बहुत पुराने समयसे यह भारतके मदारियोंकी तरह बन्दर, भालू और बकरे लिये नगरों और गांवोंमें तमाशा दिखलाते अपनी जीविका करते थे। “खुदायारने इन गरीबोंको भी चैनसे नहीं रहने दिया। उसने उनके ऊपर भी अपने कारिन्दे नियुक्त किये, जिन्होंने उनके जानवरोंकी संख्या बढ़ाकर बतलाई। हर बाजारके दिन और बड़े शहरोंमें सप्ताहमें तीन बार लोली अपने पालतू भालुओं, भेड़ियों, बन्दरों, बकरियों, लोमड़ियों और सूअरोंके साथ बाजार होकर निकलते, और प्रत्येक दूकानको चार चेका उन्हें देना पड़ता। खानके विदूषक भी बाजारमें फिरते, और उन्हें भी दूकानदारोंको पैसा देना पड़ता। यह पैसा खानके रसोईखानेके खर्चके लिये जाता। मजिस्दका इमाम नियुक्त करते वक्त उसे खानको दस तंका देना पड़ता, सूफी (मुअज्जिन) को पांच तंका। यदि खानको मालूम हो जाय, कि किसी परिवारमें दावत, शादी या खतना है, तो वह अपने गायकोंको भेज देता। गृहपतिको उनमेंसे हरएकको एक चोगा, और दोस पांच तिला (अशर्फी) तक खानके लिये देना पड़ता। प्रति वसंत खोकन्द शहरसे बाहर दरवेश-खानाका भारी मेला लगा करता। उस समय हर एक पेशेवालेको खानके सामने अपनी क्षमता के अनुसार नजर भेंट करनी पड़ती, जो सौसे हजार तिला तक होती। अगर इसमें जरा भी गफलत होती, तो पंच लोग पीटे जाते। अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमीसे जमीन या बगीचा लेना चाहता, तो खान उसे उसको मूल कीमतपर ही बेचनेके लिये मजबूर करता, और इसका जरा भी ध्यान नहीं रखता, कि नये मालिकने उसमें मेहनत और खाद-पानीसे कितनी तरक्की की है। खान अपने लिये सभी चीजें सस्तेमें लेना चाहता है। राज्यसे बाहर अगर कोई जाना चाहता, तो दो तंकाके साथ आवेदनपत्र देना पड़ता। यह पत्र फिर महरम (एक अफसर) के सामने रक्खा जाता, जो उसके लिये एक तंका लेता। जानेवालेकी जान इतनेसे ही नहीं बचती, उसे सड़ककी हर मंजिलपर अलग कर देना पड़ता। घास, ईंधनके कर, प्रतिपशु प्रतिमास बारह चेका है। चराईका ठेका खानने सिदीक कुइचीको बीस हजार तिला सलानापर दे रक्खा है। खराज या फसलके महसूलके रूपमें दो लाख चारयक (एक चारयक=दो मन दस सेर) अनाज मिलता, जिसे बेंच दिया जाता। इसके प्रबंधके लिये हर किलेमें विशेष अफसर नियुक्त है। शरिकाणा जिलेसे नौ हजार चारयक अनाज मिलता है, बालीकिचीसे एक लाख, सोखसे चौदह हजार, मेरकेन्दसे बारह हजार चारयक। बगीचों और भेवाके बागोंके करको तनाब कहते हैं, जिससे साठ हजार तिला आता। बालीकिची और चिल महरमके बीचमें सिर नदीपर चुंगी कर लगता। विवाहकी लिखाई-पढ़ाईपर भी कर था, जो कि आधा तिला तक होता है। वरासत (उत्तराधिकार) पर सम्पत्तिका चालीसवां हिस्सा मृत्यु-करके रूपमें खान लेता है। नमक बनानेके लिये करसे खानको बीस हजार तिला प्राप्त होता। देहाती लोगों और घुमन्तू कबीलोंपर अलग जकातका कर लगा, जिसका ठेका ग्यारह हजार तिलापर चेर्चीबाशीको दिया गया। व्यापारियोंसे जकात उगाहनेवाला मेहतर पैंतीस हजार तिला, खानकी कारवांसरायों और हजार दूकानोंका ठेकेदार ईसाइया तीस हजार तिला देता है। कपास-कर और दलाली-करसे दस हजार तिला राजकोषमें जाता। तेलके कोल्हू, अनाजमंडी, रेशम बाजार, घासहट्टा, दूधहाटसे प्रति वर्ष पांच हजार तिला, व्याह और मुल्ला आदिकी नियुक्तिसे भी पांच हजार तिला प्रति वर्ष मिलता है।”

लेकिन डंडेके सामने खानकी अकल ठीक रहती, इसलिये रूसियोंको व्यापार करनेमें कोई बाधा नहीं दी जाती थी। इतने भारी करके बोझसे कराहते लोग कब तक चुपचाप रहते? १८७१ ई० में लोगोंने विद्रोह कर दिया, लेकिन उसे जल्द ही दबा दिया गया। काले किर्गिजोंपर प्रति परिवार एककी जगह तीन भेड़ें तथा पहाड़पर जोते उनके खेतोंपर खानने नया कर लगाना चाहा। किर्गिजोंने कर देनेसे इन्कार कर दिया और खानके तहसीलदारोंको पीट भी दिया। सेनाके आनेपर वह पहाड़ोंपर भाग गये। इसी समय मुसलमानकुलका बेटा तथा खानका साला आफताबचा अब्दुर्रहमान हाजी मक्काकी हज करके खलीफाके नगर कान्स्तन्तिनोपल (कसतुन्तुनिया) होते लौटा था। वह स्वयं भी किर्गिज था, लेकिन खानका संबंधी होनेके कारण दूसरे वर्गसे संबंध रखता था। खानने उसे सेना देकर किर्गिजोंको दबानेके लिये भेजा। उसने किर्गिजोंसे कहा—अपनी

तकलीफको कहनेके लिये खानके पास अपने पचास प्रतिनिधि भेजो, हम उन्हें बिना नुकसान पहुंचाये जामिनके तौरपर रखेंगे। लेकिन वहां आनेपर खुदायारने बड़ी क्रूरताके साथ किर्गिज प्रतिनिधियोंको मरवा डाला। आफताबचाको इसके लिये बड़ी शर्म आई और वह किर्गिजोंकी भूमि छोड़कर खोकन्द लौट गया। किर्गिजोंने बदला लेनेके लिये हथियार उठाया और उजकन्द तथा सुकको ले लिया—सुकमें एक छोटा-सा किला था, जिसमें खानका खजाना रहता था। पहाड़ी इलाकोंमें सफल होते ही मैदानी इलाकेमें जानेपर किर्गिज आक्रमणमें असफल रहे, उनके बहुत-से आदमी खानके हाथमें बंदी बने, जिनमेंसे पांच सौको खोकन्दकी बाजारोंमें फांसीपर चढ़ा दिया गया। किर्गिजोंने मदलीखानके पुत्र मुजफ्फरको अपना खान बनाया था। खुदायारने उसकी जिंदा खाल खिंचवा ली। लेकिन विद्रोहियोंकी शक्ति बढ़ती गई, और उसकी क्षीण। इसपर खानने रूसियोंसे मदद चाही, लेकिन वह इस नरराक्षसको क्यों मदद देने लगे? लोगोंकी भी सहानुभूति विद्रोहियोंके साथ थी। खुदायारको अपने बेटे तथा अन्दिजानके बेक (राज्यपाल) नासिरुद्दीनपर भी संदेह हुआ। चारों तरफसे आशाकी एक भी झलक न देखकर खुदायारने खजाने और परिवारको लेकर अपने पदको छोड़ दिया। विद्रोहियोंने बहुत जल्दी ही ओश, अन्दिजान, सूजक, उचकुर्गान और बालिकचीको अपने हाथमें कर लिया। बालिकचीके बेगने विरोध करना चाहा, इसपर मुंहके रास्ते डंडा घुसेड़कर उसे जमीनमें गाड़ दिया गया। खानके बहुतसे सिपाही विद्रोहियोंकी ओर मिल गये और उनके कमांडर तथा खानके साले आफताबचाने नमंगानके पास तुराकुर्गानके किलेमें अपनेको बंद कर आगे कोई भी कार्रवाई करनेसे इन्कार कर दिया। १८७३ ई० के जूलाईमें विद्रोहियोंकी शक्ति कुछ निर्बल हुई, और कुछ शहर फिर खुदायारको मिल गये, लेकिन १८७४ ई० के वसंतमें खुदायार पुत्र अमीनको आगे करके विद्रोहियोंने फिर बगावतका झंडा उठाया। अमीनकी बहुत अधिक बात करनेके स्वभावने परदा फाश कर दिया। उसके चचा बातिरखान तुरा सोलह और षड्यंत्रियोंके साथ राजमहलमें बुलाये गये, जहांसे वह फिर नहीं लौटे। तरुण खानजादेको निगरानीमें रक्खा गया। मेहतर मुल्ला कामिलने सूचना देकर सावधान नहीं किया था, इसलिये खुदायारने उसे जहर देकर मरवाया। इसके बाद फिर दूसरा षड्यंत्र खुदायारके चचा फाजिलबेगके पौत्र अब्दुल करीम बेकको खान बनानेके लिये किया गया। रूसियोंने अब्दुल करीमको पकड़कर ताशकन्दमें और उसके मुख्य सलाहकार अब्दुल करीमको चिमकन्दमें रख दिया। खानको अब हर एक आदमीपर संदेह होने लगा। उसे आंखोंके सामने मौत नाचती दिखाई पड़ती थी; इसलिये वह काफी समय तक महलसे बाहर नहीं निकला। हवशी गुलाम नसीम तोगा खानका बड़ा ही विश्वासपात्र सेवक था, जो हर वक्त महलके द्वारकी रक्षा करता। उसे भी अपने बीबी-बच्चोंको भीतर न आने देनेका हुक्म था। जब शंका और संदेहका इतना बाजार गर्म हो, तो हर जगह गुप्तचरोंका जाल बिछना स्वाभाविक था।

रूसी खोकन्दकी सारी हालत बड़े गौरसे देख रहे थे। १८७५ ई०में तुर्किस्तान-प्रदेशका शासक जेनरल काफमान था। उसने खोकन्द होते रूसी सैनिक टुकड़ीको काश्गर भेजनेके लिये सहमत लेनेके वास्ते अब्दुल करीमको खोकन्द भेज दिया। इधर आफताबचा भी अपने पिता मुसलमान-कुलकी हत्याका बदला लेना चाहता था, इसलिये खुदायारके खिलाफ नये विद्रोहका अगुवा बना। सारी सेना उसकी तरफ हो गई। खुदायारके भाई और पुत्र भी उससे आ मिले। खान अपनी बेगमों और दस लाख गिन्नी खजाना लेकर ताशकन्द भागा। रूसियोंने उसे बड़ी खुशीसे आश्रय दे नजरबन्द कर दिया। फिर थोड़े समय बाद उसे ओरेनबुर्गमें रहनेके लिये भेज दिया।

१५. नासिरुद्दीन, खुदायार-पुत्र (१८७५ ई०)

खुदायारके भाग जानेपर विद्रोहियोंने उसके पुत्र नासिरुद्दीनको खान घोषित किया। अब्दुर्रहमान आफताबचा मुखिया था—आफताबचाका अर्थ है हाथ धोनेके आफताबा या गडवेका उठानेवाला। मुल्ला ईसा औलिया और हाकिम नजर परमांचीने जेनरल काफमानके पास अनुनय-विनयके पत्र भेजे, और खुदायारकी गलतियोंको दुरुस्त करनेका वचन देते हुये काफमानकी ओर मित्रताका हाथ

बढ़ाया। काफमानने इस शर्तपर बात स्वीकार की, कि नासिरुद्दीन बापकी की हुई संधियोंकी स्वीकार करे, रूसी प्रजाके नुकसानोंकी क्षतिपूर्ति दे। नये खानसे रूसी बहुत आशा करतेथे, क्योंकि वह रूसियोंकी चाल-ढालको पसंद करता और रूसी जातीय पेय वोद्का (शराब) का बहुत प्रेमी था।

लेकिन खान अकेला क्या करता ? खोकन्दी मुसलमान काफिर रूसियोंके विरुद्ध जहाद करनेकी तैयारी कर चुके थे। उन्होंने राजधानीमें घोषणा की, कि सभी रूसी मुसलमान हो जायं, नहीं तो इसका नतीजा उनके लिये बुरा होगा। लेकिन यह कब होनेवाला था ? अन्तमें विद्रोह उठ खड़ा हुआ। ताशकन्द और खोजन्दके बीचके तीन और खोजन्द तथा समरकन्दके बीचके कई रूसियोंके डाक-स्टेशन लूटकर जला दिये गये। डाकमास्टर और मेल ढोनेवाले मारे या बन्दी बनाये गये। यात्रियोंकी भी वही दशा हुई। कुछ समय तक खोजन्दके लिये भी भारी खतरा पैदा हो गया।

रूसियोंके लिये इससे सुनहला मौका और कब मिल सकता था ? काफमानने भारी तैयारी की, और जेनरल गलवाचेफके नेतृत्वमें एक सेना भेजी, जिसने विद्रोहियोंको हराकर कुरामा जिलेको उनसे मुक्त कर लिया। ३१ अगस्तको वह खोजन्द पहुंचा। विद्रोही वहांसे हट चुके थे। रूसी सीमांत और खोकन्दके बीचमें महरमका बड़ा किला था, जहां विद्रोहियोंसे मुकाबला हुआ। एक घंटासे कम हीमें किला सर हो गया। ग्यारह सौ गाजियोंकी लाशें वहीं गाड़ी गईं। इस इलाके को भी रूसके तुकिस्तान-प्रदेशमें मिला लिया गया। ७ सितंबरको रूसी सेनाने खोकन्दकी ओर कूच किया। नासिरुद्दीनने मुल्ला ईसा औलियाको भेजकर क्षमा मांगनी चाही। रूसियोंने उसे पकड़कर अपनी विजययात्रा जारी रखी। सर्वत्र रूसी सेनापतिके सामने लोग रोटी-नमक पेश करते अधीनता स्वीकार करते जा रहे थे। खानने अब एक दूसरा दूतमंडल भेजा, जिसके साथ भेंटके अतिरिक्त डाक-स्टेशनोंमें पकड़े बंदी भी थे। उन्होंने बतलाया कि हमारे सिरको मुड़ा दिया गया, लेकिन और तरहसे कोई बुरा बर्ताव नहीं किया गया। रूसी स्त्रियों और बच्चोंको खानके अन्तःपुरमें रखा गया था। बिना प्रतिरोध किये ही अन्तमें खोकन्दने रूसियोंके हाथमें आत्मसमर्पण किया। खान स्वयं जेनरल काफमानसे मिलने के लिये आया। जेनरल काफमान अपने स्टाफके साथ कुछ दूर तक जाकर खानके साथ अपने डेरेमें लौट आया। रूसियोंने कुछ समयके लिये वहां डेरा डाल दिया। लोगोंपर धाक जमानेके लिये नगरमें बराबर रूसी सेनाका प्रदर्शन होता रहा। जेनरलने दूसरे स्थानोंको भी आत्म-समर्पण करनेके लिये घोषणा निकाली। आफताबचाने मर्गिलानमें काफी सेना जमा कर रक्खी थी। यह सुनकर १७ सितम्बरको काफमान मर्गिलान पहुंचा। आफताबचा किपचकों (उज्बेकों) के साथ वहांसे खिसक गया और मर्गिलानने अधीनता स्वीकार की। आफताबचाक पीछा करते स्कोवेलेफ ओश तक गया—अन्दिजान, बलिकची, सरीखाना और ओशने उसके हाथमें आत्म-समर्पण किया, विद्रोहियोंके तीन नेताओंमेंसे एक खालिक नजरने भी प्रतिरोधको बेकार समझकर आत्मसमर्पण कर दिया। नासिरुद्दीनको संधि करनेके लिये काफमानने मर्गिलान बुलाया। समझौतेके अनुसार सिर नदीसे उत्तरका इलाका नमंगान रूसियोंके हाथमें चला गया, साथ ही नासिरुद्दीनने छ सालमें तीस लाख रूबल (चार लाख दस हजार पाँड) हरजाना देना स्वीकार किया। और लोगोंको क्षमादान कर दिया गया, लेकिन विद्रोहियोंके जबर्दस्त नेताओं—ईसा औलिया, जुल्फेकार बी और मुहम्मदखान तुरा—को साइबेरियामें निर्वासित कर दिया गया।

लौटते समय नमंगानकी नई बनी रूसी प्रजाने जेनरल काफमानके स्वागतार्थ एक बड़ा तम्बू गाड़कर एक सौ बीस गाड़ी रसद और चालीस हजार रोटियोंकी भेंट पेश की। नदीसे तम्बू तक जेनरलके चलनेके लिये रेशमी पांवड़े बिछाये गये, और उसके ऊपर चांदीके सिक्के बरसाये गये।


लेकिन यह अधीनता स्थायी नहीं रही। थोड़े दिनों बाद फिर विद्रोह हो गया और आठ तोपोंके साथ चौदह हजार आदमी विद्रोह दबानेके लिये अन्दिजान भेजे गये, जहां साठ-सत्तर हजार आदमियोंको आफताबचाने जमा कर रक्खा था। किर्गिजोंने भी पूलादबेकको खान घोषित कर अपने पंद्रह हजार योद्धा जमा किये थे। रूसियोंको जबर्दस्ती नगरपर अधिकार करना पड़ा, और उनकी गोलाबारीमें बाजार और बहुत से मकानोंमें आग लग गई। शत्रुओंकी संख्या अधिक होनेके कारण रूसी रास्तेके

गांवोंको जलाते नमंगान लौटे । शत्रु उनका पीछा कर रहे थे । यद्यपि असफल होकर ही जनरल त्रोत्स्कीको लौटना पड़ा था, लेकिन फिर भी जारशाहीने उसे सम्मानित किया ।

खान नासिरुद्दीनने रूसियोंकी कड़ी शर्तोंको मानकर अपनी प्रजाको जल्दी ही असंतुष्ट कर दिया और उसे उनके क्रोधके मारे भागना पड़ा । पूलादके समर्थक तथा उरातिप्याके भूतपूर्व बेकने राजधानी (खोकन्द) पर अधिकार कर लिया । खोकन्दियोंका पलड़ा भारी होते देख नमंगानवालोंने भी रूसियोंके खिलाफ विद्रोहका झंडा उठाया, और उसपर भी किपचकों (उज्बेकों) क. अधिकार हो गया । इस विद्रोहको दबानेके लिये जनरल स्कोबेलेफने बड़ी निष्ठुरताका परिचय देते अंधाधुंध तोपोंसे गोलाबारी की । खोकन्द राज्यमें इस वक्त चारों ओर अराजकता फैली हुई थी, लेकिन रूसके विरुद्ध सभी एक थे । इस्लामके नामपर वह सर्वस्व-त्यागके लिये बेकरार थे । रूसी सेनाके खूनी अत्याचारोंसे उनकी हिम्मत नहीं टूटी थी । सिर और नरिन नदियोंके बीचमें उस समय लड़ाकू किपचक रहा करते थे । स्कोबेलेफको हुकम हुआ, कि इस इलाकेको उजाड़ दे । जनवरी १८७६ ई०में उसने प्रस्थान किया । जाड़ेके कारण किपचक घुमन्तू इस समय अपने हेमन्त निवासोंमें जमा थे । सिरके उत्तरी तटसे बढ़ते हुये रूसियोंने किपचकोंकी मुख्य बस्ती पैताको नष्ट किया, और हराकर उन्हें भागनेके लिये मजबूर किया । आगे सरखाबा तक हर चीजको जलाते बरबाद करते रूसी बढ़े । शत्रुको भयंकर हत्या और हानि पहुंचाकर अन्दिजान सर किया गया । दूसरी विजय थी अस्साकीकी, जहां शहरेखान और मंगिलानके लोगोंने अधीनता स्वीकार की । अन्तमें पहली फरवरीको आफताबखाने भी बिना शर्तके आत्म-समर्पण कर दिया । उसके साथ बातिर तूरा, इसफन्दियार और दूसरे सरदार भी थे ।

रूसमें विलयन—खोकन्दवाले पूलादबेकसे उकता गये थे । उन्होंने खोजन्दसे नासिरुद्दीनको बुला भेजा था । लेकिन पूलादके समर्थकोंने उसपर आक्रमण कर दिया, और बड़ी मुश्किलसे नासिरुद्दीन जान बचाकर महरम भाग सका । फिर प्रहार करनेपर पूलादबेकने भागकर उच-कुर्गानके पास अलई पहाड़में जाकर शरण ली, उसके बहुत-से आदमी पकड़े गये और नासिरुद्दीन अभियानमें सफल हो खोकन्द लौटा । लेकिन रूसी देख चुके थे, कि कैसे खान और मुल्ला आसानीसे लोगोंमें जहादका प्रचारकर विद्रोह खड़ा कर सकते हैं, इसलिये अब और खानको कायम रखना वह अच्छा नहीं समझते थे । जनरल स्कोबेलेफको हुकम हुआ और उसने २० फरवरी १८७६ ई०को खोकन्दपर अधिकार कर लिया । नासिरुद्दीन, आफताबखा और दूसरे नेता बन्दी बनाकर ताशकन्द भज दिये गये । जारने अपने सिंहासनारोहणके वार्षिकोत्सवके समय २ मार्च १८७६ ई० को एक उकाजे (राजादेश) निकाला, जिसके अनुसार खोकन्दके राज्यको फरगानाके प्रदेशके नामसे रूसी साम्राज्यमें मिला लिया गया । पूलादबेक भागा-भागा फिरता रहा । उसे भी किर्गिजोंने पकड़कर दे दिया और बारह रूसी सिपाहियोंकी हत्याके अपराधमें उसे मंगिलानमें फांसीपर चढ़ा दिया गया । इस प्रकार बाबरकी प्रिय जन्मभूमि फरगाना जारके राज्यकी अंग बन गई, और वहांकी प्रजा प्रायः आधी शताब्दीके लिये निरीह बना दी गई ।

४. (२ खोकन्द खान-वंशवृक्ष)
(१७४७-१८७६ ई०)



स्रोत ग्रन्थ

१. इस्तोरिया सससर (अ. म. ४ जिल्द, व. इ. रब्दोनिकस्)
२. History of U. S. S. R. (Ed. A. M. Pankratova, Moscow 1947)
३. Heart of Asia (E. D. Ross)
४. History of Mongol (H. H. Howorth)
५. ओचेर्क पो इस्तोरिइ क्लोजिजात्सिइ सिविर (मास्को १९४६)
६. इस्तोरिया रोस्सिइ (चित्रमय)
७. इस्तोरिया रोस्सिइ (स. सोलोवियेफ्, पेत्रेर्बुर्ग १८७९-८५)
८. आजियात्स्कया रोस्सिया (अ. क्वेरेर आदि, मास्को १९१०, पृ० २४९-५८)

बुखाराके अमीर

(१७४७-१९२० ई०)

अस्त्राखानी-वंशका स्थान किस तरह अतालीकवंशी मंगीतोंने लिया, इसका वर्णन हम पहले* कर चुके हैं। खुदायार अतालीकके पुत्र मुहम्मद रहीम और दानियाल बी थे। रहीम बी अस्त्राखानी अमीर सैयद अब्दुलफैजका दामाद था। सैयद अब्दुलफैजकी लड़की शम्सवान् आइम दानियाल बीके लड़के शाहमुराद (अमीर मासूम बेगीखान) की बीबी थी, जिससे सैयद अमीर हैदर पैदा हुआ था। यद्यपि अब्दुरहीम बीके समयसे ही राज्यशासन नये खानदान (मंगीत-वंश) के हाथमें चला गया था, लेकिन अमीर हैदरके समय तक अस्त्राखानी-वंशके खानको खतम नहीं किया गया। मंगीती-वंश बुखाराका अन्तिम राजवंश था, जिसका उच्छेद बोल्शेविक-क्रांतिकी सफलताके बाद १९२० ई० में हुआ।

राजावली—इस वंशमें निम्न अमीर हुये—

१. मुहम्मद रहीम बहादुर, अतालीक खुदायार-पौत्र	१७४७ ई०
२. दानियाल बी, खुदायार-पुत्र	—१७७० "
३. शाहमुराद, अमीर मासूम, दानियाल-पुत्र	१७७०-९९ "
४. हैदर, शाहमुराद-पुत्र	१७९९-१८२६ "
५. हुसैन, हैदर-पुत्र	१८२६ "
६. उमर, हैदर-पुत्र	१८२६ "
७. नसहल्ला, हैदर-पुत्र	१८२६-६० "
८. मुजफ्फरुद्दीन, नसहल्ला-पुत्र	१८६०-६७ "
९. अब्दुल अहद, मुजफ्फर-पुत्र	—१८९४ "
१०. मीर आलम, अहद-पुत्र	—१९२० "

१. मुहम्मद रहीम बहादुर, अतालीक खुदायार-पौत्र (१७४७ ई०)

मंगीत-कबीलोंको छिड़-गि! खानने मंगोलियाके उत्तर-पूर्वसे लाकर वक्षुके मुहाने और बुखारासे एक सौ चालीस मील दक्षिण-पूर्व करशीमें बसा दिया था। मूलतः यह चाहे मंगोलोंके बंधु-बांधव रहे हों, लेकिन आगे तुर्कोंमें मिलकर ये उज्बेकोंके मुखिया बन गये। अस्त्राखानियोंकी प्रभुताके समय ये उनके बड़े भक्त थे। अब्दुरहीम उज्बेकोंके मंगीत-कबीलका मुखिया था। इसके दादा खुदायारने अतालीक (मुख्य परामर्शक) होकर अपनी शक्तको बहुत बढ़ा लिया था, लेकिन प्रभुताको पूरी तौरसे अपने हाथमें करनेमें उसके पोते मुहम्मद रहीमबीने ही सफलता पाई। इसने अपने चचा दानियालको समरकन्दका शासक बनाया। अस्त्राखानियोंकी कमजोरीके कारण शहरसब्ज, हिसार (ताजिकिस्तान) और ताशकंद बुखारियोंके हाथसे निकल गये थे। अपने पक्षको मजबूत करनेके लिये रहीमकी अफगान अहमदशाह अब्दालीसे मदद लेनेकी जरूरत पड़ी, जो दिल्ली तककी लूट-मार करके काफी प्रसिद्ध हो चुका था। इस मददके बदले उसे वक्षुके दक्षिणके

* यहीं जिल्द २।५।१३

भूभागको गिलजइयों (अफगानों) के हाथमें देना पड़ा। अब्दुरहीमने अस्त्राखानी खानको मारकर ही संतोष नहीं किया, बल्कि उसके तरुण पुत्र तथा अपने दामाद अब्दुल मोमिनको एक महफिलमें दावत करके मनोरंजनके लिये कुंएके गहरे जलको देखते वक्त ढकेलकर मार दिया। अब्दुरहीम बुढ़ापेमें ईरानी गुलाम तथा अपने वजीर दौलत बीके हाथमें खेलता रहा, जो अपने दुःशासनके लिये बदनाम था। रहीम इस वक्त बहुत विचित्र स्वभावका हो गया था। एक दिन वह दर्वेश बन संसारकी असारतापर व्याख्यान देता, और दूसरे दिन मौज-मेलेमें अपनेको भुलाना चाहता। इसी तरहके जीवनमें वह बीमार होकर मर गया। उसके कोई पुत्र नहीं, बल्कि दो लड़कियां थीं। मरते समय उसने अपने चचा दानियाल बीको अपना उत्तराधिकारी बनाया।

२. दानियाल बी खुदायार-पुत्र (-१७७० ई०)

रहीमके मरनेपर उसकी इच्छानुसार वजीर दौलतबीने दानियालको सिंहासन संभालने के लिये बुलाया। दानियालने स्वयं खान न बन अतालीक ही रहना चाहा, और गद्दीपर उसने अस्त्राखानी अबुलगाजीको खान बनाकर बैठाया। दौलत बी अब भी राजकाज चलानेमें सर्वेसर्वा था। यही समय है, जब कि बुखाराके बाजारोंमें कलियान (हुक्के) और तम्बाकूका प्रचार बढ़ा, साथ ही काफिर-रवातमें रंडीखाने खुले। दानियालका ज्येष्ठ पुत्र शाहमुराद इनके लिये बहुत अफसोस करता था, क्योंकि वह कष्टर इस्लामका प्रचार करना चाहता था। उसने शाह सफर नामक एक सूफीके यहां जाकर शिक्षा लेनी चाही। शेखने उसे फटकारते हुये कहा—“अत्याचारीका पुत्र कैसे भले काम कर सकता है?” फिर परीक्षा लेनेके लिये उसने कहा—“जाकर पल्लेदारी करते बोझ ढो।” मुराद गंदे कपड़े पहिनकर तुरन्त बाजारमें चला गया, और अपने गुरुकी आज्ञाके अनुसार कितने ही महीनों तक पल्लेदारी करता रहा। बापके टोकनेपर मुरादने जवाब दिया—“इल्म और धर्मकी खान बुखारा आज अन्याय और दुराचारमें कितना डूबा हुआ है? जहां तुम्हारे पुत्र व्यसनमें पड़े हुये हैं, जब कि दौलत कुशबेगी जैसा एक दास देशका स्वामी बन बैठा है।” यह कहते हुये मुरादने कहा, कि मैं तो दर्वेश (साधु) बनूंगा। एक साल तक हम्माली (पल्लेदारी) करनेके बाद शेख सफरने मुरादको अपना मुरीद (चेला) बनाया। अब वह अपना सारा समय आलिमों और दर्वेशोंकी सेवामें बिताने लगा। लेकिन साथ ही खोकन्दके दूतकी स्वागतकी तैयारीके लिये उसने कुशबेगीको बुला चुपचाप जल्लादोंको भेजकर उसका काम तमाम किया, और उसकी धन-सम्पत्तिको जब्त कर लिया। अब मुरादकी चलने लगी। उसने एक काजीको हुक्का पीनेके अपराधमें चाल सुधारनेके लिये साल भरका समय देकर उसे मरवा डाला। उसके डरके मारे भाइयोंने भी अपनी चाल बदली। बुरे साथियोंको मारनेमें उसने जरा भी आनाकानी नहीं की, और रंडीखानेको भी जल्दी ही बन्द करवा दिया। बुखारा फिर “स्वर्ग” बन गया। दानियाल बीने शाह मुरादके आगे बढ़नेमें कोई रुकावट नहीं पैदा की, और बेटा भी अपने बापकी बड़ी इज्जत करता था। मृत्युके समय दानियालने शाह मुरादसे प्रतिज्ञा करवाई—“भाइयोंको न मारना न निर्वासित करना, मेरी विधवाओंको ब्याह करनेके लिये मजबूर न करना, ख्वाजासरा खोजा सादिकके साथ अच्छा बर्ताव करना, भाइयों-बहनोंको काफी धन देना और मुझे शाह नक़्शबंदकी कब्रके पास दफन करना।”

दानियालका शासन इस प्रकार बहुत कुछ उसके बेटे शाह मुरादका शासन था। उसने उरगंज (खीवा), खोकन्द और मेर्वके शासकोंके साथ मित्रता रक्खी। सिक्का और खुतबा उसने अपना नहीं चलाया। दानियालके मरनेके बाद भी अभी तख्तपर अबुलगाजी अस्त्राखानी ही रहा, यद्यपि शाह मुरादको यह पसंद नहीं था।

३. शाह मुराद, अमीर मासूम बेगीखान, दानियाल-पुत्र (१७७०-९९ ई०)

शाह मुराद बड़ा ही ढोंगी था। वह अपनेको संत सूफी प्रकट करना चाहता था। बापके मरनेपर वह बुखाराके लोगोंसे पिताके दुष्कर्मी तथा कसूरोंके लिये क्षमा मांगता फिरता रहा। बापकी

वरासतमें मिली सम्पत्तिको उसने स्वयं न लेकर खैरातके कामोंमें दे दिया। पहलेसे ही वह अपने पल्लेदारीके जीवन तथा दूसरे विचित्र कामोंके कारण कट्टर मुसलमानोंमें सर्वप्रिय हो चुका था, लेकिन उसका अपना भाई तस्तामिश उससे सख्त घृणा करता था, और चाहता था कि किसी तरह गद्दी अपने हाथमें ले लें। उसने शाह मुरादकी हत्याके लिये फरीदून नामक एक आदमी को नियुक्त किया। फरीदूनने शयनकक्षमें जाकर तलवार चलाई, जिससे मुहसे कानतक घाव लग गई, लेकिन इसी समय जागकर शाह मुरादने हत्यारेकी दाढ़ी पकड़ ली, पर वह किसी तरह जान छुड़ाकर भागनेमें सफल हुआ। सबेरे उसी तरह घावपर पट्टी बांधे शाह मुराद दरबारमें आया। फरीदूनको मृत्युदंड हुआ, भाईको उसके कसूरके लिये देशनिकाला मिला। बापको दिये हुये वचनपर ख्याल करके मुरादने उसको और कोई कठोर दंड नहीं दिया। जब उसके दूसरे भाई सुल्तान मुराद— जो कि कर्मिनियाका हाकिम था—ने विद्रोह किया, तो उसे भी बन्दी बनाकर बुखारामें रख दिया।

मेव इस समय ईरानी काजार-वंशके संस्थापक बहराम अली खांके हाथमें था, जिसने १७८१ ई०में इस महत्वपूर्ण प्राचीन नगरको लेकर उसे अपनी राजधानी बना पुराने मेवके ध्वंसावशेषपर एक किला बनाया। बहराम स्वयं भी तुर्कमान था, इसलिये तुर्कमानोंपर सत्ता जमानेमें उसे बहुत कठिनाई नहीं हुई। शीया होनेसे धर्मांध शाह मुराद मेवपर काजार-शासनको फूटी आंखों नहीं देख सकता था। उसके लिये यह धर्मयुद्धका अच्छा मौका था। दानियाल बीके मरनेपर बहराम अलीने अपनी भक्ति दिखाते हुये यद्यपि कुरान-पाठ करके दान-खैरात दी थी, लेकिन इसका सुन्नी दवेश शाह मुरादपर कोई असर नहीं हुआ। १७८५ ई०में शाह मुराद छ हजार सवारों के साथ मेवकी ओर चला। छापा मारकर पहले ही हल्लेमें उसने बहराम अलीको मार डाला। लेकिन उसकी राजधानी आत्म-समर्पण करनेके लिये तैयार नहीं थी। बहराम अलीने सुल्तान संजर सल्जूकी द्वारा बनवाये मुर्गाब नदीके बांध—जोकि मेवसे तीस मील ऊपर था—की सुरक्षाके लिये उसपर बने किलेको तोड़ दिया। बांधका हाकिम अपनी स्त्रीके लिये बहराम अलीके पुत्र मुहम्मद खानसे नाराज था। इसी कारण उसने किलाबन्द महलको शाह मुरादको अर्पित कर दिया। शाह मुरादने बन्दको तोड़कर दुनियामें अत्यन्त उर्वर मेवकी हरितावली और नहरोंको खराब करके बरबाद कर दिया। इससे भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण मर्वेवाले आत्मसमर्पणके लिये मजबूर हुये। अधिकांश निवासियों—तेरह हजार परिवार—को गुलाम बनाकर शाह मुराद बुखारा ले गया। इसके बाद उसने खुरासानपर धावा करके लूटमार मचाई। शीया ईरानियोंको मारना या गुलाम बनाना सुन्नी धर्मांध शाह मुरादके लिये पुण्यार्जनका सबसे अच्छा उपाय था। तारीफ यह कि इसपर भी इस समय क्रूरकर्मा शासकको अमीर मासूम (निष्पाप शासक) कहा जाता था। अपने सुन्नी धर्म-भाइयोंकी दृष्टिमें वह ऐसी खून-खराबी और लाखों आदमियोंको गुलाम बनाकर कोई पाप नहीं कर रहा था। उसके सालाना हमलोंके कारण खुरासानके गांव और नगर उजड़ गये। ईरानी गुलामोंकी अधिकताके कारण बुखाराकी बाजारोंमें गुलामोंका दाम गिर गया।

मेव शहरको बहरामअलीके पुत्र मुहम्मद करीम खाने बड़ी बहादुरीसे बचाया था। उसके बाद उसके भाई मुहम्मद कुल्ली खाने भी शाह मुरादसे मेवकी रक्षा की थी। बांधके संरक्षकने एक वेश्याके प्रेममें अंधे धोखा दिया। हुसेन खां मेवका राज्यपाल था, उसने जबदस्ती उसकी वेश्याको पकड़ मंगवाया था।

अफगानिस्तानके अहमद शाह अब्दालीसे शाह मुरादके बापका अच्छा संबंध था। सुन्नी होनेसे वह शाह मुरादकी सहायता करनेके लिये कुछ करना पुण्यकी बात समझता था। इस समय अहमदशाह अब्दालीका पुत्र तेमूरशाह काबुलकी गद्दीपर था। उसने लश्करीशाहके साथ एक सेना शाह मुरादकी सहायताके लिये भेजी। लश्करीशाहका पुत्र खंजर खां मेवके राज्यपालकी बहिनके प्रेममें फंस गया। हुसेन खाने उसे पकड़कर धायल किया, और वह उसी घावसे मर गया। फिर उसने अपनी बहिनको भी मरवा दिया। लश्करीशाह दो हजार परिवारोंके साथ अपनी सेना ले हिरात लौट गया। हुसेनने दूत भेजकर बुखारासे शांति-भिक्षा मांगी, और बादमें स्वयं बुखारा गया। उसे चहारबागमें बड़ी अच्छी तरह ठहराया गया। उसके बाद उसका भाई मुहम्मद करीम खां भी मशहदसे शाह मुरादके

दरबारमें गया। करीम खांके परिवार तथा मेर्वसे लाये सत्रह हजार परिवारोंमेंसे बहुतोंको हुसेन खां, लौटा ले जानेमें सफल हुआ। अन्तमें मेर्वके तीन हजार सुन्नी और दो हजार शीया-परिवार बुखारामें रह गये। शाह मुरादकी उस चोटके बाद मेर्व तब तक नहीं संभल सका, जब तक कि बोलशेविक-क्रांतिने उसे एक आधुनिक ढंगके उद्योगप्रधान नगरमें परिणत नहीं कर दिया।

१७५१-५२ ई०से ही वक्षु (आमू-दरिया)के दक्षिणवाले इलाकेके स्वामी अफगान बन गये—यह वही इलाका है, जहां बलख, कुंडुज जैसे महत्वपूर्ण नगर हैं, और जिसे पहले वाह्लीक, फिर दक्षिण तुखारदेश कहा जाता था और १८ वीं सदीसे आजतक जहां के रहनेवाले अधिकतर उज्बेक हैं। शाह मुरादके बापने अपनी निर्बलताके कारण इस इलाकेको अफगानोंके हाथमें दिया, लेकिन शाह मुरादको यह पसंद नहीं था। अहमदशाह अब्दालीका पुत्र शाह तेमूर १७८६ ई०में सिंधके अभियानमें फंसा हुआ था। इसी समय उज्बेक सरदारोंने लोगोंको भड़काकर बलख और अक्सी में विद्रोह कर दिया। शाह मुरादने भी सहायताके लिये सेना भेजी और इस इलाकेसे अफगान हाकिमोंको मार भगाया गया। तेमूर अब्दालीने शाह मुरादको सख्त पत्र लिखकर कहा—“बाहरसे नम्रता दिखलाते हुये तुम इस तरह आक्रमण करते हो? मेर्वमें हमसे यह कहकर सहायता ली, कि हम शीयोंको सच्चे धर्ममें लायेंगे, और कहा था, कि मेर्वके शीयोंको असली मुसलमान बनानेकी जिम्मेवारी हम ले लेंगे और इस प्रकार हिन्दुस्तानको हिन्दुओं, यहूदियों, ईसाइयों और दूसरे काफिरोंसे मुक्त करनेके लिये अफगान स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन, तुमने शहरसब्ज, खोजन्दके सुन्नियोंको तंग किया। अब हम तुर्किस्तानके लिये कूच करनेका निश्चय कर चुके हैं। हिम्मत हो, तो तुम मैदानमें आओ।

तेमूरशाह अब्दाली १७८९ ई०में एक लाख सेनाके साथ काबुलसे रवाना हुआ। हिन्दूकुश पार हो पहले उसने कुंडुजपर अधिकार किया। फिर अक्सी गया। शाह मुराद भी तीस हजार सेनाके साथ किलिफमें वक्षु पार हुआ। लेकिन तेमूरशाहकी सेनाके सामने अपनी शक्तिको निर्बल देखकर उसने नम्रताकी नीतिसे काम लेना चाहा। मुल्ला बीचमें पड़े और उन्होंने कहा, कि दो सुन्नी बादशाहोंको आपसमें लड़कर अपनी शक्तिको बरबाद नहीं करना चाहिये। शाह मुरादने अपने पुत्रको तेमूरके डेरेमें भेजा और किसी तरह तेमूरशाहकी मृत्यु तकके लिये शांति स्थापित हो गई।

१७९६ ई०में तुर्कमान सरदार आगा मुहम्मदने मशहदको नादिरशाहके पौत्र अंधे शाहख से छीन लिया। काजार-वंशका—जिसने ईरानपर २० वीं सदीके प्रथमपाद तक शासन किया—वास्तविक संस्थापक आगा मुहम्मद था। यह हिजड़ा था। मशहदसे वंचित हो जानेपर शाहखका बड़ा बेटा नादिर काबुल-दरबारमें गया और उसने अपने भाइयों तथा सरदारोंको मदद मांगनेके लिये बुखारा भेजा। अबुलफैजने अस्त्राखानीकी लड़कीके संबंध और रहीमपर दिखलाई अपनी दया, तथा सुन्नी धर्मके नामपर सेना मांगी। उसने शाह मुरादसे यह भी कहा, कि सफलता प्राप्त करनेपर हम बुखारके अमीरके नामका खुतबा पढ़वायेंगे। १२ मार्च तक प्रतीक्षा करके कोई सफलता न देखकर वह हिरातकी ओर लौटे। नदीमें धोखेसे डुबानेके लिये पुरानी नावपर चढ़ाया गया था, लेकिन राजकुमार किसी तरह नदी तैरकर चारजूई पहुंच गये। असफल होनेपर ख्वारेज्मके एल्बर्स खानके पौत्र तुरा कजाकको नादिरके दामादके मारनेका बदला लेनेके लिये भेजा गया। तुरा कजाक चारजूईके हाकिमके घर ठहरा। बात खुल गई, तो उसने बहुत गिड़गिड़ाकर कहा, कि हम सुन्नी हैं, और तुम्हारे मेहमान हैं। लेकिन उनको क्षमा न करके तुरा कजाकने नादिरशाही राजकुमारोंको मार डाला।

अबुलगाजीके जीवन भर उसीके नामका खुतबा और सिक्का बुखारामें जारी रहा। शाह मुरादने खानकी गद्दीपर बैठ अपनेको केवल “नवाब” या “वली-निअम” ही बनाकर रक्खा। शाह मुराद बड़े ही नाटकीय ढंगसे अपने त्याग और तपस्याको दिखलाता था। दरबारमें कितने ही बकरीके छाले रक्खे रहते थे, वह उन्हींमेंसे किसीपर बैठ जाता और अपनेको दूसरोंसे बड़ा नहीं समझता था। छोटे-से-छोटे कामोंको भी वह अपने हाथसे करनेमें नहीं हिचकिचाता था। उसके रसोईघरमें एक लकड़ीका कटोरा, एक लोहे की कड़ाही और कुछ मिट्टीके वर्तन थे। वह स्वयं बाजारसे चीजें खरीद लाता और अपने हाथसे खाना पकाता। मेहमानोंका हाथ धुलानेके लिये स्वयं पानी डालता

और उनके जूठे कटोरोंमें खाता। एक बहुत सस्ते गदहेपर बिना चारजामाके ही बैठकर बुखाराके बाजारोंमें चलता। वह अपनेको फकीर कहता था। अपने खर्चके लिये राजकोषसे प्रतिदिन एक तंका लेता। अपने बावर्ची, चाकर और मुल्लाके लिये भी एक-एक तंका देता। बीबी शाही खानदान की थी, इसलिये उसे प्रतिदिन तीन तंका दे, ऊपरसे शिक्षा देता—“खातून थोड़ेसे संतोष करो, जिसमें कि अल्ला तुमपर संतुष्ट हो।” लेकिन जब खातूनको पुत्र पैदा हुआ, तो खुश होकर मां-बेटेके लिये पांच तिला (अशर्फी) प्रतिदिन देने लगा। दूसरे दो पुत्रोंके पैदा होनेपर उतना ही और देता रहा। इस प्रकार अपने परिवारको यद्यपि उसने सुखपूर्वक रक्खा, लेकिन स्वयं एक बिल्कुल बिना सजाई छोटी-सी कोठरीमें रहता, जहांपर हर वर्गके आदमी उसके पास हर समय जा सकते थे। फकीरोंकी तरह उसकी पोशाक बड़ी मोटी-झोटी होती। न्यायालयमें उसने चालीस मुल्ला रक्खे थे, जिनका अध्यक्ष स्वयं था। डाका डालनेके अपराधके लिये मृत्युदंड, चोरीके लिये हाथ काटना, शराबीको खुलेआम कोड़े लगाना, तमाकू पीनेके लिये भी कड़ी सजा होती थी। लोगोंको नमाजमें भेजनेके लिये पुलिस डंडा लिये तैयार रहती। विद्यार्थियोंको राजकोषसे खर्च मिलता, जिससे बुखाराके मदरसोंमें एक समय तीस हजार विद्यार्थी रहते थे। विदेशी मालपर छोड़कर और किसी तरहका शुल्क नहीं था। गैर-मुस्लिमोंसे इस्लामी शरीयतके अनुसार जजिया ली जाती थी, और सिपाही शीयोंको लूटकर जो माल लाते, उसका पंचमांश शाही खजानेमें देते।

उज्बेक उसे सचमुच ही अल्लाका वली मानते। जब वह जहादियोंकी सेना लेकर खुरासानपर लूटके लिये जाते, तो भारी रसदके सामानको कई मंजिल पीछे छोड़ देते, हरावलमें केवल सवार-सैनिक होते। गाजियोंकी सेना इलाकेमें छा जाती, और लूटमार तथा लोगोंको बंदी बनानेका काम शुरू कर देती। हर एक जहादी (धर्मयोद्धा) को अपने और अपने घोड़ेके लिये सात दिनका आहार साथ ले जाना पड़ता। अभ्यासके साथ शाह मुरादके मुजाहिद (धर्मयोद्धा) इतने अभ्यस्त हो गये थे, कि बे-रोक-टोक एकाएक किसी किले, प्राकारबद्ध गांव, नगर या काफिलेपर टूट पड़ते। बंदी बनाये हुये आदमियोंके लिये मुक्ति-धन मांगते, जिसके न मिलनेपर उन्हें दास बनाकर बेच देते। शाह मुराद ईरानियोंके विरुद्ध धर्म-युद्धोंमें स्वयं अपने आदमियोंके आगे-आगे रहता। फकीरोंकी पोशाक पहने एक छोटे-से टट्टूपर बैठा वह गाजियोंका संचालन करता। उसके अनुशासन बड़े कड़े थे। नमाज, रोजा आदि धार्मिक कर्तव्योंकी बड़ी कड़ाईसे पालन कराता। सभी इस्लामी देशोंमें “रईस शरीयत” (धर्माधिकारी) पदको उठे बहुत दिन हो गये थे, लेकिन शाह मुरादने बुखारामें फिरसे इस पदकी स्थापना की। चोरों और वेस्त्रियोंको वह सीधे जल्लादके हाथमें दे देता, लेकिन इन सारी धार्मिक कड़ाइयोंका परिणाम बुखारावालोंके लिये उलटा ही पड़ा।

चिन्नरनके सरदार मएश खानने शाह मुरादके बहनोई तथा जीजकके हाकिम ईशान मखदूम-पुत्र ईशान नकीबके नाम चिट्ठी देकर दूत भेजा। दूतने अपने कामका इस प्रकार वर्णन लिखा है—“मुझे ईशान नकीबके सामने पेश किया गया। वह एक बड़े ही सुंदर तम्बूके दूसरे छोरपर बैठा था। अभी हमें बैठे देर नहीं हुई थी, कि एक अफसर तम्बूमें आया और उसने ईशान नकीबको कहा, कि बेगीजान (शाह मुराद)की इच्छा है, कि आप अपने मेहमानके साथ आवें।... हम खड़े हो गये और अपने-अपने घोड़ोंपर चढ़कर ईशान नकीबके साथ चले। कुछ दूर जानेके बाद हमें एक बांसका तम्बू मिला, जिसकी शकल-सूरत और फटी हालतको देखकर मैंने समझा, कि किसी बावर्ची या भिस्तीका तम्बू होगा। एक बूढ़ा आदमी धूपसे बचनेके लिये उसीकी छायामें घासपर बैठा हुआ था। सब घोड़ेसे उतर पड़े और हरे तथा अत्यन्त गंदे कपड़े पहने हुये बूढ़े आदमीकी तरफ बढ़े। उसके पास जाकर खड़े हो सबने अपने दीनों हाथोंको छातीपर रखकर आदरके साथ सलाम किया। उसने हर एक आदमीको सलामका जवाब दिया, और अपने सामने बैठनेके लिये कहा। वह ईशान नकीबके लिये बहुत मेहरबानी दिखलाता मालूम होता था; और उसे अपनी बातचीतमें उतखुर सूफीके नामसे संबोधित करता था।... मैंने अपना पत्र ईशान नकीबके हाथमें दिया। उसने उसे हरे कपड़ेवाले बूढ़ेके हाथमें थमा दिया, जिसके बारेमें अब मुझे पता लगा, कि वह बेगीजान (शाह मुराद) है। उसने चिट्ठीको खोलकर पढ़ा और फिर अपनी जेबमें डाल लिया।

...हमारी बातचीत होने लगी। इसी बीच बहुत-से दरबारी अमीर आये और मैं उनके असाधारण भड़कीले, तथा मूल्यवान् हथियारों तथा पोशाकको देखता रहा।उनके आनेके थोड़ी देर बाद उनका सरदार (शाह मुराद) एक गहरे ध्यानमें डूब गया और जब तक कि शामके नमाजकी घोषणा नहीं हुई, तब तक वह उसी ध्यानमें लीन रहा। दूसरे दिन बिदाईकी बात होते समय उसका रसोइया कमजोर आंखोंवाला एक नाटा आदमी तम्बूके भीतर आया। बेगीजानने कहा—“क्यों नहीं तुम खानेका प्रबंध करते हो? जल्दी ही नमाजका समय होनेवाला है।” नाटा रसोइया तुरन्त एक बड़ा काला बर्तन लाया और पत्थरोंको रखकर चूल्हा बना उसने चार-पांच तरहके अनाज और थोड़ासा सूखा मांस डालकर उसे चूल्हेपर चढ़ा बर्तनको पानीसे गले तक भरकर, आग जला उसे पकनेके लिये रख दिया। फिर वह तश्तरियां ठीक करने लगा। यह लकड़ीकी तश्तरियां वैसी ही थीं, जैसी कि अत्यन्त गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। उसने तीन तश्तरी रखकर पकी हुई चीजको उसमें उड़ेल दिया। बेगीजान रसोइयेकी ओर नजर लगाये हुये था। उसकी नजर के संकेतसे रसोइया जानता था, कि कितना कमबेसी तश्तरीमें डालना चाहिये। जब सब ठीक हो गया। उसने एक गंदे कपड़ेको लेकर फैला दिया, फिर उसके ऊपर एक पुरानी जौकी रोटीका टुकड़ा रख दिया, अल्लाही जानता होगा, कि हिजरीके कौनसे सनमें उसे पकाया गया था। बेगीजान ने रोटीको पानीके प्यालेमें भिगोया। पहली तश्तरी उज्बेकोंके शासक (शाह मुराद) को दी गई, दूसरी तश्तरी मेरे और ईशान नकीबके बीचमें रखी गई, और तीसरीको रसोइया ले अपने स्वामीके सामने खानेके लिये बैठ गया। मैं पहले ही खा चुका था, इसलिये अपने सामने रखी चीजको सिर्फ चख भर लिया। बड़ी ही दुस्स्वादु थी, गोस्त तो करीब-करीब सड़ा हुआ था, लेकिन तो भी भीतर आये बहुत-से अमीरोंने हमारे छोड़े हुये खानेको खाकर खतम कर दिया, उनके देखनेसे मालूम होता था, कि वह भोजन उन्हें बहुत पसंद आया, लेकिन शायद वह अपने पवित्र नेताको प्रसन्न करनेके लिये ही ऐसा कर रहे थे।

४. हैदर, शाह मुराद-पुत्र (१७९९-१८२६ ई०)

अब हम उस समयमें आ गये, जब कि अंग्रेज कंपनीका शासन भारतमें दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो चुका था और १९ वीं सदीका आरम्भ होनेवाला था। शाह मुरादने रहीम खानकी विधवा तथा अस्त्राखानी अबुलफैजकी लड़की शैम्सबानू आयमसे ब्याह किया था। इसीसे शाह मुरादका सबसे बड़ा बेटा हैदर तुरा (कुमार हैदर) पैदा हुआ। मुरादके मरनेपर तश्तके लिये उमर बी, फाजिल बी, महमूद बीके बीच झगड़ा हुआ, लेकिन नागरिक अपने औलिया फकीर बादशाहके अंधभक्त थे, वह क्यों चाहते लगे, कि तश्तसे औलियाके बेटेको वंचित करके चचा शासन करें। बुखारावाले उमरके लोगोंपर टूट पड़े। उमर किसी तरह जान लेकर भागा, लेकिन लोगोंने उसके घरको लूट लिया, बीबी-बच्चोंको कपड़ा छीन नंगा करके छोड़ दिया। शाह मुरादकी ल.श तीन दिनसे महलमें पड़ी हुई थी। हैदर बड़ी तड़क-भड़कवाले अनुचरोंके साथ गद्दीपर बैठा। पीछे बच्चों सहित उमर बी और फाजिल बी भी पकड़कर मार डाले गये। महमूद बी भागकर खोकन्द चला गया। अभी सिंहासनपर बैठे देर नहीं हुई थी, कि भाई मुहम्मद हुसेनपर भी षड्यंत्रमें शामिल होनेका संदेह हुआ। इसपर समरकन्द छीनकर ईरानी दौलतकुश बेगीको वहांका हाकिम बना, भाईको पेंशन दे नजरबन्द कर दिया। इसके बाद हैदरकी निगाह मेर्वके हाकिम हाजी मुहम्मद खां तथा उसके संबंधी करीम खां और बहरामअली खांपर पड़ी, और इन बारह राजकुमारोंको पकड़कर भेड़-बकरियों की तरह मरवा डाला। उनकी वीबियों और बच्चोंको भेंटके रूपमें लोगोंमें बांट दिया। किस कसूरपर उन्हें यह दंड मिला, इसे कोई नहीं जानता। हैदरकी हत्याओंसे डरकर उसका भाई नासिहदीन परिवार-सहित मेर्वसे मशहद भाग गया।

अब हैदरने अपनी दिग्विजयोंको शुरू किया। १८०४ ई०तक उरातिप्पा, खोजन्द और ताशकन्दको उसने ले लिया। इसी साल हैदरने अपना दूत रूसी ज़ारके पास पीतरबुर्ग भेजा, जो मास्को, अस्त्राखान, खीवा और उरगंजके रास्ते लौटा। खीवाके खान इल्तजारने बुखाराके इलाकेमें आकर

लूट-मार की, जिसपर नियाज बीके नेतृत्वमें तीस हजार बुखारी-सेनाने जाकर इल्तजारको हराया, और वधु पार हो जान बचानेके प्रयत्नमें डूबकर इल्तजारने अपने प्राण खोये। लूटके मालमें खीवावालोंका बहुत-सा खजाना बुखारियोंके हाथमें आया, जिसके साथ एक तुर्क (घोड़ेकी पूँछ वाला) झंडा भी था। सेना बंदियोंके साथ लूटका माल लिये बुखारा लौटी। हैदरने हथियार छीनकर बंदियोंको छोड़ दिया और अफसरोंको खलअत भी दी। इल्बसकी जगहपर उसके भाई कुतलीमुराद बेकको ईनककी पदवी देकर हैदरने खीवाका हाकिम नियुक्त किया, लेकिन वहां पहुंचनेसे पहले ही उसके छोटे भाईको लोग खान बना चुके थे।

हैदरने यद्यपि आरम्भमें अपने संबंधियों, और जिससे भी खतरेका डर मालूम हुआ, उसे बुरी तरहसे मारा और बरबाद किया, किन्तु पीछेके जीवनमें वह नरम स्वभावका, उदार, न्यायप्रिय आदमी बन गया। उसकी भी इस्लाम-भक्ति बापकी तरह धर्मान्धता तक पहुंच गई थी। यद्यपि बापके इतना नहीं, तो भी वह सादगीसे रहता था। उसके कपड़े सीधे-सादे तथा प्रायः सफेद रंगके होते थे। रोटी और सब्जी यही उसका भोजन था। अपने खर्चके लिये वह यहूदियोंपर लगाये करको इस्तेमाल करता था। उसका दरबार किसी दर्वेश या मुल्लाका दरबार था। वह मेम्बरपर खड़ा हो व्याख्यान देना बहुत पसंद करता था। वह लम्बा और सुन्दर था, उसका रंग कुछ पीला लिये हुये अधिक गोरा था। मुंहपर भरी हुई दाढ़ी थी। अपनेको सदाचारी दिखलानेका बहुत शौक था और इस्लामी शरीयतके अनुसार चारसे अधिक बीबियां नहीं रखता था। हां, यदि दूसरी कोई सुन्दरीको बीबी बनाना चाहता, तो एकको घर और पेंशन दे तलाक दे देता था। दासियोंकी संख्यापर शरीयतने कोई प्रतिबंध नहीं रक्खा है, इसलिये हर महीने कोई न कोई सुन्दरी दासी उसके हरममें दाखिल होती रहती। अपनी दासियोंकी कन्याओंको वह मुल्लाओं या सैनिकोंको प्रदान करता।

शासन-प्रबंध—बुखाराका राज्य उस समय सात तुमानोंमें बंटा हुआ था। हरएक तुमानका हाकिम नकीम और उसका सहायक वजीर होता, जिन्हें अमीर नियुक्त करता। हर तुमानमें बहुत-से गांव होते, जिनके लिये ग्रामकी जनता अपना अक्सकाल (श्वेत दाढ़ी) नामक ग्रामपति निर्वाचित करती। अक्सकाल एक मर्तबे निर्वाचित होकर, यदि किसी अपराधके कारण हटाया न जाय, तो जिन्दगीभर अपने पदपर रहता, बल्कि अक्सर उसका पद पैतृक हो जाता। अक्सकालका काम था—आपसी झगड़े तै करना, कर उगाहना और राज्यके लिये सिपाही देना। गांवमें हर ब्याहमें कुछ भेंट और भोजमें उसे निमंत्रण मिलता, साथ ही फसलके अनाजमें भी उसका हिस्सा बंधा था। जमीनपर कर दहयक (दशांश), गल्लेपर चालीसवां हिस्सा, और सौदेपर भी चालीसवां हिस्सा देना पड़ता। नायब नकीमके सहायक होते, जो अधिकतर मुल्ला थे। गांवोंके शासनमें उनका भी अधिकार था। धनी और प्रभावशाली उज्बेकोंको बेग या बाय कहा जाता। बुखाराके पास चालीस हजार सेना थी, जिसे आवश्यकता पड़नेपर नये रंगरूटोंका भर्ती करके बढ़ाया जा सकता था। सैनिकोंके पास भाला, ढाल-तरवारके अतिरिक्त थोड़ी संख्यामें पलीतेवाली बन्दूकें भी थीं।

वैदेशिक संबंध—१८२० ई०में रूसका एक दूतमंडल बुखारा आया। इसका नेता नैगरी था, जिसके साथ बोरोन मेयेदोर्फ भी था। १८१६ ई० और १८२० ई०में बुखाराके दूत दो बार जारके दरबारमें जा चुके थे, उसीके जवाबमें यह रूसी दूतमंडल आया था। दूतमंडलके साथ कुछ कसाक सैनिक भी थे। कई सौ ऊंटोंपर रसद और सामान ले दूतमंडलने १० अक्टूबर १८२० ई० को ओरेनबुर्ग छोड़ा। दक्षत-कजाक (दक्षते किप्चक) पार हो अगतमामें पहुंचा। बुखाराकी सीमापर उसका बड़ा स्वागत हुआ। वस्तियोंमें उन्होंने बुखारियोंके बीचमें सफेद पगड़ीवाले रूसी गुलामोंको भी अपनी आंखों देखा। दूतमंडल २० दिसम्बरको बुखारा नगरमें दाखिल हुआ। वह अमीरकी भेंटके लिये अपने साथ समूरी छाल, चीनी बर्तन, बड़िया कांचके बर्तन, घड़ियां और बन्दूकें लाये थे। शहरके एक दरवाजेसे सैनिक ढंगसे दाखिल हो महलके पास पहुंच रूसी घोड़ोंसे उतर पड़े। वहां करीब चार सौ सैनिक बन्दूक लिये दो पांतियोंमें खड़े थे, जिनके बीचसे

दूतमंडल आगे बढ़ा। एक महलके आंगनमें तीन-चार सौ सफेद पगड़ीवाले बुखारी स्वागतके लिये खड़े थे। अन्तमें वह दरबार-हाल में पहुँचे। खान वहाँ एक सुनहली किनारेवाली लाल गद्दीपर बैठे थे। उसकी बाईं ओर उसके दो पुत्र थे, जिनमें बड़ा पंद्रह सालका था, दाहिनी ओर कुशबेगी (प्रधानसेनापति) था। रूसियोंने अपना प्रमाणपत्र पेश किया। इसके बाद अमीरने कसाक सैनिकोंको देखना चाहा। जब कसाक हालमें लाये गये, तो अमीर हैदर बच्चोंकी तरह खिलखिलाकर हँसा।

बुखारामें यहूदी काफी संख्यामें रहते थे, लेकिन वह सिर्फ तीन महल्लोंमें ही बस सकते थे। अधिकतर उनमें दस्तकार, रंगरेज और कुछ रेशमके व्यापारी थे। उनसे जजियाके रूपमें प्रतिवर्ष अस्सी हजार रूबल वसूल किया जाता। नगरके भीतर कोई यहूदी न घोड़ेपर चढ़कर निकल सकता था, न रेशमी पोशाक पहन सकता था। अपना परिचय देनेके लिये एक खास तरहकी चौड़ी टोपी काले मेमनेके चमड़ेकी पट्टी लगाकर उन्हें पहिननी पड़ती। वह अपने लिये नया मंदिर नहीं बनवा सकते थे। बुखारा और रूसका व्यापार पुराने जमानेसे चला आता था। पहले इसके लिये एक बहुत भारी मेला मकरियेफमें लगता था, जिसे १८१८ ई०में निज्नीनवोगोरोद (आधुनिक गोर्की) में बदल दिया गया। ओरेनबुर्ग और त्रोइत्स्कमें बुखारी व्यापारके लिये जाते, जिन्हें रास्तेमें कजाक अक्सर लूट लिया करते थे। रूसियोंने अपनी यात्राका जो वर्णन लिख छोड़ा है, उससे मालूम होता है, कि वहाँ चारों तरफ लूट-खसूटका बाजार गर्म था, और कोई अपनी सम्पत्तिका दिखावा करनेसे डरता था। शौकीनी, और विलासिताके जीवनका भी आकर्षण काफी था, यद्यपि बाहरसे अपनेको बड़ा सदाचारी दिखलाया जाता। खान अपने निजी जीवनमें किसी तरहकी पाबन्दी नहीं रखता था। उसको डर था, कि कहीं कोई विष न दे दे, इसलिये उसके खानेको पहले बावर्ची चखता, फिर कुशबेगी भी चखकर उसे ढाँककर अपनी मुहर लगा देता। शहर छोड़ते समय वह पुत्रको भी छोड़ जाता। रूसियोंके कथनानुसार हैदरके हरममें दो प्रकारकी स्त्रियाँ थीं, जिनमें चार ब्याही थीं—हिसारी, समरकन्दखोजाकी पुत्री, अफगानके शाहजमाकी पुत्री ••।

हैदरका पुत्र नसरुल्ला करशीमें रहता था। १८२६ ई० में वह बेटेके पास गया, जहाँसे लौटते समय बीमार हो बुखारामें पहुँच ६ अक्टूबर १८२६ ई० को मर गया।

इन दो पीढ़ियोंमें लाठीके जोरसे लोगोंको जो सदाचारी बनानेका प्रयत्न किया गया था, उसका परिणाम अब अप्राकृतिक व्यभिचारके रूपमें बहुत बुरी तौरसे फैला। शराब और तम्बाकू वर्जित कर दिये गये थे, लेकिन उनका स्थान अब अफीम और भंगने ले लिया था।

५ हुसेन, हैदर-पुत्र (१८२६ ई०)

पिताके मरनेपर हुसेन बुखारामें था, इसलिये वह झट गद्दीपर बैठ गया, लेकिन तीन मास बाद ही वह मर गया। फिर उसके भाई मीर उमरने गद्दी संभाली।

६. उमर, हैदर-पुत्र (१८२६ ई०)

मीर उमरने गद्दी संभाली, लेकिन नसरुल्ला ताकमें था। उसने २४ अप्रैल १८२७ ई० को आकर बुखारा ले लिया।

७. नसरुल्ला, हैदर-पुत्र (१८२६-६० ई०)

अपने शासनके आरम्भक कालमें नसरुल्ला नेक और न्यायप्रिय था। उसे "अमीरुल् मोमिनीन" (मुसलमानोंका अमीर), "हजरत" और "इस्लामके खलीफा (तुर्किकी सुल्तान) का धनुर्धर" कहा जाता। लेकिन पांच-छ वर्षसे अधिक वह इस जीवनको नहीं बिता सका। इसी समय १८३२ ई०के आस पास तब्रेजमें पैदा हुआ अब्दुसमद खां नामक ईरानी बुखारा दरबारमें पहुँचा। उसने जेनरल कोर्ट (एक अंग्रेज अफसर) के नीचे रहकर कुछ पश्चिमी सैनिक-विद्या सीखी थी। मुहम्मदअली

मिजाने उसे कुछ समय किरमानशाहका हाकिम बनाया था, जहाँ किसी कसूरमें उसके कान काटे गये। फिर भारत और पेशावरमें कितने ही समय रहकर वह काबुलके अमीर दोस्त मुहम्मद खांकी सेवामें रहा। तब अंग्रेजोंके प्रति भारी घृणा लेकर वह बुखारा पहुंचा। कुशबेगी हाकिमबेग अब्दुस्समदसे बहुत प्रसन्न हुआ, और उसे अपना नायब बना सेनाको फिरसे संगठित करनेके काममें लगा दिया। अब्दुस्समद बुखारामें अंग्रेजोंकी कोई बात चलने नहीं देता था।

उबेज्क कहावतके अनुसार “राजा उस युगका दर्पण होता है” मान लिया जाय, तो नसरुल्लाके रूपमें बुखारा दुराचार और अत्याचारमें अपनी पराकाष्ठामें पहुंचा था। नसरुल्ला हैदरका पुत्र था, लेकिन अपनी कुटिल नीतिमें अपने दूसरे भाइयोंसे कहीं आगे बढ़ा हुआ था। कुशबेगी (सेनापति) हाकिम बी और ससुर आयाज तोपची वाशी (तोपखानाका जेनरल अयाज) उसके पक्षमें थे। जब हैदरके मरनेपर बड़ा भाई हुसेनखां गद्दीपर बैठा, तो नसरुल्लाने अपनी बड़ी गर्मा-गर्म वफादारी दिखलाई, लेकिन साथ ही करशीसे वह आगेके लिये तैयारी भी करता रहा, जिसमें उसका प्रधान-सहायक मीर अमीन बेग दादखा था। तीन ही महीनेके शासनके बाद भाई मर गया—कहा जाता है कुशबेगीन उसे जहर दे दिया। करशीके प्रधान काजीने नसरुल्लाके पक्षमें अपना फैसला दे समरकन्दके काजीको भी वैसा ही करनेके लिये कहा, लेकिन इसी बीच दूसरे भाई उमरखाने बुखारापर अधिकारकर समरकंद को किसी हालतमें भी न देनेके लिये हुक्म दिया। लेकिन नसरुल्लाके आनेपर दरवाजा खोल दिया गया, क्योंकि समरकन्दके मुल्ला उसके पक्षमें थे। कोकताश (नील-पाषाण) के ऊपर तेमूरके जमानेसे ही गद्दी देनेकी रसम पूरी की जाती थी। वहीं नसरुल्लाके सिरपर ताज रक्खा गया। कत्ताकुर्गान, करमीना आदि नगरोंने उसका शासन स्वीकार किया, फिर बुखाराको उसने घेर लिया। घेरावेके कारण लोगोंकी हालत बुरी हो गई। आध सेर मांस चांदीके सात तंकेमें बिकने लगा। बाहरसे कोई खानेकी चीज आने नहीं पाती थी। उन्हें लोग लाशोंके साथ जनाजेमें छिपाकर लाते। नहरके पानीमें भी असह्य सड़ांध आने लगी थी। भीतरसे कुशबेगी और ससुर अयाज नसरुल्लाके पक्षमें थे ही। उनको बहाना मिल गया। बड़ी तोपको दागकर फोड़ दिया गया था। नसरुल्लाने २२ मार्च १८२६ ई० को दो तरफसे शहरपर आक्रमण कर दिया। चारों ओर विश्वासघात देखकर उमर जान लेकर भाग गया, लेकिन उसके तीन भाइयों और बहुत-से अनुयायियोंको पकड़कर नसरुल्लाने मरवा डाला। अपनेको काफी मजबूत कर लेनेपर अपने सहायक कुशबेगीको पहले करशी और फिर समरकन्दमें निर्वासित कर दिया। अपने ससुर तोपची वाशीको बुलाकर सुन्दर घोड़ेपर सवार कर समरकन्दका हाकिम बनाकर भेजा, लेकिन तुरन्त ही बुखारा लौटनेका हुक्म देकर उसे जेलमें कुशबेगीके साथ बन्द कर दिया। फिर जिनके विश्वासघातके बलपर उसे गद्दी मिली थी, उन दोनोंको उसने १८४० ई०में कल्ल करवा दिया। सैनिक अफसरोंमेंसे भी उसने चुन-चुनकर बिना मुकदमा किये कितनोंको मरवाया और कितनोंको निर्वासित कर दिया। अन्तमें मुल्लोंके ऊपर पड़ा और उन्हें हर तरहसे दबाकर शरीयतकी जगह अपने हुक्मको सर्वोपरि बनाया।

कुशबेगी तोपची वाशीको १८४० ई०के वसंतमें मरवानेके बाद अब नसरुल्लाके सामने कोई बाधा देनेवाला नहीं रह गया। तुर्कमान रहीमवर्दी माजूमको हथियार बनाकर वह अपना काम लेता था। किसी समकालीन लेखकने उसके शासनके बारेमें लिखा है—“नमाज पढ़नेके लिये लोगोंको डंडोंसे पीटा जाता, सिपाही जबह किये जाते या जान बचाकर भागनेके लिये मजबूर होते।”

लेकिन कुशबेगी और तोपची वाशीके मरनेसे पहले ही १८३९ ई०में माजूम तुर्कमानका समय बीत चुका था। अब सभी पदोंको अमीरने अपने हाथमें रखना चाहा। वजीरके लिये कोई चाहिये, तो वह अपने प्रिय छोकरोमेंसे किसीको तीन-चार सालके लिये बैठा देता, उसके बाद फिर किसी दूसरेको लाता—हटाते वक्त उनके सारे धनको छीन लेता।

ऐसे अत्याचारी, क्रूर और पतित आदमीको सब जगहसे भय होना जरूरी था। इसके लिये उसने नगर, बाजारों, मदरसों, मस्जिदों, हम्मामोंको अपने गुप्तचरोंसे भर रक्खा था।

पिशागरमें किलेको न ढानेसे नाराज होकर वह खोजन्दके खान बेगलर बेकके विरुद्ध

चढ़ा। तीन सौ सरबार्जों और नायब समदकी ढाली कुछ तोपोंके साथ जा अगस्त १८४० ई० में खोकन्दियोंको हराया। १८४१ ई०की शरदमें खोकन्दियोंकी लूट-मारका बदला लेनेके लिये वह फिर हजार सरबार्जों (सिपाहियों), ग्यारह तोपों और दो मारतोलोंके साथ गया। २१ सितम्बर को याम, और २७ को जमीनपर अधिकारकर वह उरातिप्पाको लूटते ८ अक्टूबरको खोजन्द नगरमें दाखिल हुआ। खोकन्दके खानने मजबूर होकर सुल्ह की और भारी हर्जानेके साथ खोजन्द तकका प्रदेश नसहल्लाको देकर नसहल्लासे सुल्ह की, साथ ही अधीनता स्वीकार करते उसके नामका खुतबा और सिक्का चलाया। नसहल्ला खोकन्दके खानके भाई तथा प्रतिद्वंद्वी सुल्तान महमूदको खोजन्दका हाकिम बनाकर बुखारा लौट गया। लेकिन उसके लौटते ही सुल्तान महमूदने अपने भाईसे मेल कर लिया। जब इसकी खबर नसहल्लाको लगी, तो वह फिर दंड देनेके लिये आया, और २ अप्रैल १८४२ ई०को खोजन्दको हाथमें करके राजधानी खोकन्दको भी आसानीसे सर कर लिया। खोकन्दी खान मदली दस दिन बाद मर्गिलानमें पकड़ा गया, और अपनी खास माँके साथ व्यभिचार करनेका अपराध लगाकर उसे, उसके भाई, स्त्री तथा दो पुत्रोंके साथ मरवा डाला गया—मदलीकी गभिणी स्त्रीके भी प्राणोंको नहीं छोड़ा गया।

अंग्रेजोंकी चालें—१७ वीं सदीमें पीतर I के समयसे ही रूसने बुखाराके साथ अपना संबंध स्थापित किया था, और तबसे जब-तब दूतमंडल आते-जाते रहे। १८३४ ई०में डाक्टर देमेसोन मुल्ला बनकर बुखारा गया। १८३५ ई०में विल्कोविच कजाकका भेष बनाकर पहुंचा। १८ वीं सदीमें ही पहला अंग्रेज कप्तान बानिस बुखारा गया। ओरेनबुर्ग बुखारी व्यापारियोंके लिये एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नगर था, जिसके जरिये १९ वीं सदीके पूर्वार्धसे रूस और बुखारामें व्यापार होने लगा था। उस समय खीवावालोंसे रूसका संबंध जितना बिगड़ा हुआ था, उतना बुखारियोंसे नहीं। १८३४ ई०में ओरेनबुर्गके राज्यपालने अमीर नसहल्लाके पास पत्र लिखकर शिकायत की, कि खीवावाले रूसियोंके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, और उन्होंने कितने ही रूसियोंको दास बना रक्खा है, खीवावाले रूसी प्रजा कजाकोंपर लूटमार करते हैं, इसीलिये जारने हुक्म दिया है, कि जबतक खीवावाले रूसी प्रजाको नहीं छोड़ते, तबतक खीवाके व्यापारियोंको रोक रक्खा जाय। १८३६ ई०में ही कुर्बान बेक अशुरबेक अमीर-बुखाराका वकील बनकर ओस्कर् होते पीतरबुर्ग पहुंचा।

बुखारामें अपनी कार्रवाई शुरू करनेसे पहले कितने ही सालोंसे ईरानी दरबारमें अंग्रेज और रूसी अपने दांव-पेंच चला रहे थे। अंग्रेजी राजदूतने बुखारासे संबंध पैदा करनेके लिये १८३८ ई०में कर्नल स्टोडर्टको भेजा। इसी समय बुखाराके दूतमंडलने बीस आदमियोंके साथ एक हाथी, कश्मीरी शाल और कुछ रूसी बन्दियोंको छोड़ाकर साथ लिये ओस्कर् होते हुये पीतरबुर्ग पहुंच जाकर दरबारमें कहा—“मेरे स्वामी रूसियोंके साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अंग्रेजोंने बुखारामें अपने एजेंट भेजकर व्यापार करनेकी कोशिश की है। रणजीतसिंहके खतरेसे परेशान हो काबुलके अमीरने भी हमारे मालिकसे संधि करनेका प्रस्ताव किया है।”

इस प्रकार उसने जारकी मित्रता और सदिच्छा प्राप्त करनेकी कोशिश करते हुये सोना तथा दूसरे मूल्यवान् धातुओंका पता लगानेके लिये अपने यहां एक इंजीनियर अफसरको भेजनेके लिये प्रार्थना की। बुखाराके राजदूतको लौटते वक्त जारकी ओरसे बहुत-सी भेंट मिली। अप्रैल १८३९ ई०में अमीरके बुलावेके अनुसार धातु-इंजीनियर कप्तान कोवालेव्स्की और कप्तान हेर्नगियोस, एक दुभाषिया, एक मुख्य खनक, चार कसाक सैनिकों तथा कुछ और आदमियोंके साथ बुखाराकी ओर रवाना हुये। उनको यह भी भार दिया गया था, कि अमीरसे बुखारामें एक रूसी कौंसल रखनेके लिये बातचीत करे। यद्यपि अभी पंजाबपर रणजीतसिंहका अधिकार था, लेकिन सिंध अंग्रेजोंके हाथमें था, जहांसे वह काबुलमें अपने प्रभावको बढ़ानेकी कोशिश कर रहे थे। रूस भी वहां अपने प्रभावको बढ़ाना चाहता था। इस प्रकार अफगानिस्तानमें दोनों साम्राज्योंकी जोरकी प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। दिसम्बर १८३७ ई० में विल्कोविच काबुल पहुंचा। अंग्रेजोंके मनमें संदेह बैठ गया, कि अमीर दोस्त मुहम्मदको रूसियोंने अपनी ओर मिला लिया है। अंग्रेजोंने दोस्त मुहम्मदके विरुद्ध उसके प्रतिद्वंद्वी शाह शुजाकी पीठ ठोंकी, और रणजीतसिंहको भी

काबुल तक चढ़ दौड़नेके लिये उभाड़ा। इतनेसे भी संतुष्ट न हो काबुलसे रूसियोंके प्रभावको बिल्कुल खतम करनेके लिये १८३९ ई०के वसंतमें अंग्रेजी सेना अफगानिस्तानकी सीमामें दाखिल हुई, और ७ अगस्तको काबुलमें पहुंचकर शाह शुजाको गद्दीपर बैठानेमें सफल हुई। दोस्त मुहम्मद अपने परिवार तथा तीन सौ पचास परिचारकोंके साथ भागकर बुखारामें नसरुल्लाके पास चला गया। नसरुल्लाने पहले उसका बड़ा स्वागत किया, लेकिन जब उस पतितने दोस्त मुहम्मदके सुन्दर पुत्र सुल्तान जानको अपनी कामुकताका शिकार बनाया, तो मनमुंटाव हो गया। अब नसरुल्ला अंग्रेजोंसे मेल करना चाहता था, और शाह शुजासे भी मिलकर उसके भाई तथा अपने मेहमान दोस्त मुहम्मदको खतम करना चाहता था। इसपर दोस्त मुहम्मदकी ओरसे ईरानके शाहने धमकी दी, जिसके डरके मारे नसरुल्लाने दोस्त मुहम्मदको मक्का जानेकी इजाजत दे दी, साथ ही चुपके-चुपके मल्लाहोंको भी हुक्म दे दिया, कि वक्षुमें नावको डुबा देना। इसकी खबर पहले ही लग गई, इसलिये स्त्री-भेसमें दोस्त मुहम्मद पहले शहरसब्ज फिर खुल्म और अन्तमें काबुल लौट गया।

कर्नल स्टोर्डट हिरातके हाकिमके परिचय-पत्रके साथ रमजानके आरम्भ होनेसे दो दिन पहले बुखारा पहुंचा। अफगानोंसे अच्छा संबंध न होनेके कारण पत्रने संदेहको और बढ़ानेका काम किया। कर्नलको पैदल जाकर रेगिस्तान नामक मैदानमें अमीरसे भेंट करनेके लिये कहा गया, लेकिन उसने घोड़ेपर चढ़कर जानेकी जिद्द की। बुखारामें मुसलमान छोड़कर कोई घोड़ेपर चढ़कर निकल नहीं सकता था, फिर इस ईसाईको कैसे बैसे करने दिया जाता? और रेगिस्तानके मैदानमें तो सिर्फ अमीर ही घोड़ेकी सवारी कर सकता था। कर्नल घोड़ेपर चढ़कर वहां पहुंचा और अमीरके आनेपर भी उसने घोड़ेपर चढ़े ही सैनिक सलाम दिया। अमीरने इसे अपना अपमान समझा। उसे महलमें बुलाया गया। प्रतिहारने "अर्ज बंदेगान" (सेवकोंका निवेदन) जब कहा, तो कर्नलने इसका भी विरोध करते कहा: "परमभट्टारक" सिर्फ भगवान्के लिये कहा जाता है। "आपका अत्यन्त नम्र सेवक" कहनेपर भी उसने आपत्ति की। दरबारी प्रथाके अनुसार दो आदमियोंको बगलमें सहारा देकर चलनेसे भी इन्कार कर दिया। जब हथियारकी पड़ताल करनेकी रसम अदा करने के लिये दरबारी अफसर आये, तो उन्हें भी कर्नलने मुक्का मारकर गिरा दिया। चुपचाप अर्ज करनेकी जगह स्टोर्डटने बड़े ऊंचे स्वरसे फारसी भाषामें भगवान्के लिये प्रार्थना करनी शुरू की। अमीर उस समय अपने तख्तपर बैठा इस ठीठ विदेशीके प्रति अपार घृणासे जलता-भुनता दाढ़ीपर हाथ फेर रहा था। अमीरने प्रमाणपत्र मांगा, तो उसने अंग्रेज राजदूत जान मेकनेलका पत्र दिया, जिसमें रूसियोंके भीतर न आने देनेपर ईस्ट इंडिया कंपनीकी ओरसे सहायतार्थ धन देनेका वचन दिया गया था। अमीरने उत्तरमें कहा—"बहुत खूब, मैं जानता हूं, तुम लोग मुझे अपना गुलाम बनागा चाहते हो। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा;" और उठकर चला गया

इसके दो दिन बाद कर्नलको वजीरके घरमें बुलवा कुछ आदमियोंने पकड़कर उसके हाथ-पैर बांध दिये, फिर वजीरने उसकी गर्दनपर तलवार रखकर कहा—"अभागो भेदिया, काफिर कुत्ते, तू अपने अंग्रेज-स्वामियोंकी ओरसे आकर बुखाराको भी उसी तरह खरीदना चाहता है, जैसे कि काबुलको खरीदा? लेकिन यहां तुम सफल नहीं हो सकते। मैं तुझे मार डालूंगा।" इसके बाद वजीरके आदमी अमीरके समूची चौंगेके साथ लाशकी तरह स्टोर्डटको लिये शहरकी सुनसान सड़कोंमेंसे गुजरे, और उन्होंने एक अंधेरे घरमें उसे ले जाकर बन्द कर दिया। नौकर साथमें रोशनी लिये थे। उनकी आंखें भर खुली थीं। "यदि ऐसा ही करना था, तो मुझे बुखारा न आने देना चाहिये था, अब मुझे जाने दो" —कर्नलने मीरशब (कोतवाल)से जब यह कहा, तो उसने इतना ही जवाब दिया, कि मैं अमीरसे कहूंगा। कर्नलके सारे कागजोंको लेकर उसके सामने जला दिया गया। उसके घोड़ेको भी बेंच दिया गया। इसके बाद उसे स्याहचाह (अंधकूप) नामक एक उन्नीस फुट गहरे गंदे गड्ढेमें रस्सीके सहारे डाल दिया गया। इसी कुएंमें दो चोर और एक हत्यारा भी बन्द थे। कुएंमें छिपकलियां, खटमल, पिस्सू भरे हुए थे। उसमें स्टोर्डट दो महीने रहा। खानेके लिये रस्सीसे रोटियां लटका दी जाती थीं। इसके बाद उसे निकालकर कहा गया, कि अगर जान

बचाना चाहता है, तो मुसलमान हो जा। अक्खड़ कर्नलने अपने सारे गर्व और अभिमानको ताकपर रखकर भारी भीड़के सामने कलमा पढ़ा और एक चौरस्तेपर ले जाकर उसका खतना किया गया।

रूसियोंने कर्नलको मुक्त करानेकी बड़ी कोशिश की। अफगानिस्तानमें जब अंग्रेजोंकी सफलता हुई, तो कर्नलने हिम्मत करके इस्लामको छोड़ दिया, और अमीरसे भी कहा, कि तुम्हें अपनी भलाईके लिये मुझे अपने पास रखना चाहिये, जैसा कि रणजीतसिंहने कितने ही अंग्रेजोंको अपने पास रक्खा है। अमीरकी ओरसे कर्नलको कहा गया, कि रूसी दूतमंडलके साथ तुम पीतरबुर्ग चले जाओ, लेकिन उस बेवकूफने जानेसे इन्कार करते हुए कहा कि हमारी सरकारका हुक्म है, कि मैं बुखारासे न जाऊं। इससे संदेह और बढ़ गया। इसी समय कर्नलने कुछ पत्र लिखकर खुरासानियों, कुर्दों, ईरानियों और यहूदियोंके हाथ भेजे। इसके बाद फिर उसे बन्दीखानेमें बन्द कर दिया गया। तुर्कोंके सुल्तान, खीवाके खान और जारने भी उसे छोड़नेके लिये अमीरको बहुत लिखा। एक अंग्रेज लेखकने कर्नल स्टोडर्टके बारेमें लिखा है—“वह अपनी शिक्षा और स्वभावसे किसी भी दौत्यकार्यके लिये बिल्कुल अयोग्य था। उसके रूखे और ढिठाई भरे हुये व्यवहारने अमीरको बहुत ही अपमानित और कुपित कर दिया।” स्टोडर्टको दुबारा जेलमें बन्द करके उसे बहुत-बहुत यातनायें दी जाने लगीं। १८४० ई०में कप्तान आर्थर कोनोली खीवा और खोकन्द होते बुखारा पहुंचा। उसने बुखाराके अमीरको रूसके विरुद्ध हो अंग्रेजोंके साथ मैत्री करनेके लिये उभाड़ा। नसरुल्लाने कोनोलीको भी पकड़कर उसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली, और बन्दी बना स्टोडर्टके पास भेज दिया। इसी बीचमें नसरुल्लाको अपनी ओर करनेके लिये १८५० ई०में रूसने मेजर बतानियेफको व्यापार-मैत्री संधिके लिये भेजा। इससे पहले १८२० ई० में प्रथम रूसी दूत रेगनी गया था, और अंग्रेज बार्नेसके जवाबमें १८३४ ई०में बिल्कोविच पहुंचा था। मेजर बतानियेफ का अमीरकी ओरसे बड़ा गर्वार्थक स्वागत हुआ। जारने बहुमूल्य मेंट भेजी थी, उसने भी प्रभाव डाला, लेकिन संधिकी बात करनेपर अमीरने टाल-मटोल कर दिया। इस प्रकार १८४१ ई०में बतानियेफको खाली हाथ लौटना पड़ा।

प्रथम अफगान-युद्धके समय जनवरी १८४२ ई०में १६५०० अंग्रेजी सेना काबुल पहुंची थी, जिनमें अधिकांश हिन्दुस्तानी थे। लेकिन काबुलमें अफगानोंने उन्हें घेरकर खतम कर दिया और सिर्फ उनका एक आदमी किसी तरह जान बचाकर खबर देनेके लिये जलालाबाद पहुंच सका। अंग्रेजोंकी इस जबरदस्त हारसे नसरुल्लाकी हिम्मत बढ़ी। उसके हुक्मसे १७ जून १८४२ ई०को स्टोडर्ट और कोनोलीको कैदखानेसे निकालकर बाहर लाया गया। स्टोडर्ट प्राण बचानेके लिये मुसलमान बन चुका था, लेकिन उसकी गर्दन पहले काटी गई, फिर कोनोलीको मुसलमान बन प्राण बचानेके लिये कहा गया, लेकिन उसने इन्कार कर दिया और उसे भी मार डाला गया। इसके बाद सात और अंग्रेज कत्ल किये गये, लेकिन इनका बदला अंग्रेज कभी न ले सके।

१८४४ ई० में दोनों अंग्रेज बन्दियोंका हाल जाननेके लिये डाक्टर वॉल्फ बड़ी कोशिशके बाद बुखारा गया। तब तक दोनों अंग्रेज मारे जा चुके थे। वॉल्फको भी लौटनेमें बड़ी मुश्किलका सामना करना पड़ा। उसने एक चिट्ठीमें लिखा था—“बदनाम नायब अब्दुस्समद खांके बगीचेमें उसके लुटेरे डाकुओंसे घिरा तथा मजबूर होकर छ हजार तिला देनेके लिये आपको यह नोट लिख रहा हूं।”

पामीरसे लगे हुये पहाड़ोंमें केश (शहरसब्ज) का एक छोटा-सा राज्य बहुत दिनोंसे अपनी स्वतंत्रताको कायम रखे हुये था—यह वही शहरसब्ज था, जहां तेमूर लंग पैदा हुआ। जब कभी भी बुखारावाले शहरसब्जपर आक्रमण करते, तो वहांवाले बहादुरीसे लड़ते साथ-साथ बंधोंको तोड़कर आसपासकी भूमिको जलमग्न कर देते। बुखाराके पड़ोसी राज्य खोकन्दका शासक बाबरकी बेटीकी संतानोंमेंसे था। खोकन्दी खान मदलीको नसरुल्लाने किस तरह मरवाया, इसके बारेमें हम अभी कह चुके हैं। नसरुल्लाका सबसे बड़ा सलाहकार अब्दुस्समद था।

नसरुल्लाका संबंध खीवासे भी बहुत बुरा था। जब रूसी जनरल पेट्रोव्स्कीने खीवापर अभियान किया, तो नसरुल्लाने भी उसपर हमला बोल दिया। अपने राज्यकी सीमाको बढ़ानेके लिये

नसरुल्लाने बहुत हाथ-पैर मारे, लेकिन बलख, अन्दखूय और मेमनाकी छोटी-छोटी रियासतों-पर कितनी ही बार आक्रमण करनेके बाद वह सफल हुआ और मरते वक्त ही १८२६ ई०में उसे खबर मिली, कि शहरसब्जपर बुखारियोंका अधिकार हो गया। उसने उसी समय वहाँके अमीर तथा अपने सालेकी स्त्री-बच्चों सहित अपने सामने कत्ल कर देनेको हुक्म दिया।

नसरुल्ला इन्सानियतसे गिरा हुआ निरा पशु था, तो भी उसकी धाक बुखारामें इतनी थी, कि जब वह अपने महलसे निकलता, तो पासमें कोई शरीर-रक्षक नहीं होता। बाजारोंमें हफ्तेमें दो-तीन बार दर्वेशका कपड़ा पहने, केवल एक नौकरके साथ उसे घूमते देखा जा सकता था। उसने बनियोंको कह रक्खा था, कि ऐसे समय कोई उसके लिये सम्मान प्रदर्शित न करे, और उसे एक साधारण आदमी-सा जाने। इसीलिये कोई उसके लिये रास्तेसे हटता भी नहीं था। वह एक दूकानसे दूसरी दूकानमें जा अनाज या दूसरे सौदेके भावके बारेमें पूछता और जहाँ-तहाँ कोई चीज भी खरीदता।

८. सैयद मुजफ्फरुद्दीन, नसरुल्ला-पुत्र (१८६० ई०)

मुजफ्फरुद्दीनकी जवानी करशीमें बीती थी। अपने बापसे वह अधिकतर अलग ही रहा। वह एक ईरानी दासीका पुत्र था। उसे चौदह सालकी उमरमें ही नसरुल्लाने करशीका हाकिम और अपना युवराज बना दिया। अड़तीस सालकी उमरमें मुजफ्फर अमीर हुआ। बापके सारे दुर्गुण इसमें भी मौजूद थे। उसने पहले मुत्लोंको हाथमें करनेका प्रयत्न किया।

नसरुल्लाके मरते समय यद्यपि शहरसब्ज सर हो गया था, लेकिन इस दुर्गम पहाड़ी इलाकेके लोग अब भी बगावत किये हुये थे, इसलिये मुजफ्फरका ध्यान उधर जाना जरूरी था। उसके बाद उसने खोकन्दपर चढ़ाई की, जहाँका खान इस समय मदलीका पीत्र खुदायार था, और जिसकी सारी शिक्षा-दीक्षा नसरुल्लाके दरबारमें हुई थी। उसने १८५३ ई०में अकमस्जिद (सफेद मस्जिद) पर, तथा ग्यारह साल बाद तुर्किस्तान और चिमकन्दपर भी अधिकार कर लिया। १८६४ ई०में ताशकन्दमें असफल होनेपर उसका बढ़ाव रुका। खुदायारने चाहा, कि तुर्किस्तान शहरको भी लौटा ले, लेकिन उसमें विफल होकर उसे राजधानी लौटना पड़ा। किपचकोंने वहाँ उसके छोटे भाई मुल्लाखोंको गद्दीपर बैठा दिया था, इसपर अमीर खुदायार मदद लेने मुजफ्फरके पास आया। मुल्लाको कत्ल करवा मुजफ्फरने खोकन्दमें जा खुदायारको स्वयं तख्तपर बिठाया। किपचक (उज्बेक) अब भी फरगानामें विरोध करते रहे, और उन्होंने खुदायारके आधे राज्यको छीन भी लिया; लेकिन, रुमियोंने इसी समय उनके नेताको ताशकन्दमें मार डाला, जिसके कारण मुजफ्फरको १८६५ ई०में अपने आक्रमणके वक्त बहुत मुभीता हुआ। चेरिन्येफ ताशकन्दको ले चुका था, खोकन्द भी उसकी दयापर था। मुजफ्फर जहादके नामपर सारे मध्य-एसियाको शत्रु बनाकर एक करना चाहता था। खोकन्द, बुखारा और खीवाको राजनीतिक तौरसे एकताबद्ध करनेका यह अच्छा मौका था, क्योंकि तीनों ही राज्य अपनेको रूसी राहुके मुसमें देख रहे थे। मुजफ्फर गमअना था, कि धर्मान्ध मुल्ला मध्य-एसियाकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। वह रूसके सबसे जबर्दस्त शत्रु भी थे, इसलिये मुजफ्फरने उनके ही हाथोंमें खेलना पसंद किया। तीनों राज्योंके शहरों और बाजारोंमें जहादका धुआंधार प्रचार हो रहा था। इससे मुजफ्फरको एक भारी सेना तैयार करने में देर न हुई। उसके बलपर मुजफ्फरने अभियान करके समरकन्दसे उत्तर-पूर्व तथा रूसी तुर्किस्तानकी राजधानी ताशकन्दसे सिर्फ सौ मीलपर अवस्थित खोजन्द (आधुनिक लेनिनाबाद) को दखल कर जनरल चेरिन्येफको ताशकन्द खाली करनेके लिये अल्टीमेटम दे दिया।

रूससे युद्ध—चेरिन्येफ चौदह पैदल कंपनी, छ कसाक स. वाइज़ेन और सोलह तोपोंके साथ समरकन्द से साठ मीलपर अवस्थित जीजकके किलेपर चढ़ आया। प्रतिरोध जबर्दस्त हुआ और रसदकी भी कमी थी, इसलिये उसे लौटनेके लिये मजबूर होना पड़ा। इस सफलतासे प्रोत्साहित हो चालीस हजार सेना ले मुजफ्फर ताशकन्दपर चढ़ा। चेरिन्येफने रूसी सरकारके हुक्मके बिना ही ताशकन्दको

ले लिया था, इसलिये उसे हटा युद्ध बन्द करनेका हुक्म देकर जेनरल रोमानोव्स्कीको भेजा गया, लेकिन सैनिक परिस्थितिने उसे भी सरकारी हुक्मके विरुद्ध जानेके लिये मजबूर किया। ताशकन्दसे सिर्फ़ तीनी मंजिलपर बुखारी सेना रह गई थी, और सत्तर हजार आबादीका नगर रुसियोंको फूठी आंखों भी नहीं देखना चाहता था। रोमानोव्स्की चौदह पैदल कंपनी, पांच कसाक स्ववाङ्मन और बीस तोपोंके साथ सिर नदीके बांये तटसे होते आगे बढ़ा। जैसा कि पहले बतला चुके हैं, जीजक और खोजन्दके बीच इर्ज़ामें २० मई १८६६ ई०को मध्य-एशियाकी पलासीकी लड़ाई हुई, और ३६०० रुसियोंने बुखारियोंकी पांच हजार पैदल, ३५०० सवार और दो तोपोंवाली सेनाको बुरी तरहसे हराया। हारी हुई सेना अस्त-व्यस्त होकर भगी। आठ दिनके मुहासिरके बाद ६ जूनको खोजन्द भी रुसियोंके हाथमें चला गया। रुसी अल्टीमेटमकी पर्वाह न करके मुजपफरने युद्धकी तैयारी जारी रखी, जिससे रुसियोंको फिर आगे बढ़नेके लिये मजबूर होना पड़ा। अक्तुबर तक वह उरातिप्पा और जीजक ले जरफ़शां-उपत्यकाके ऊपरी भागके स्वामी बन गये। १८६७ ई०के वसंतमें यानीकुर्गानपर भी रुसियोंका अधिकार हो गया, जिसे लौटानेके लिये ४५ हजार बुखारी सेनाने दो बार कोशिश की। इस प्रकार १८६७ ई० के मध्य तक सिर और जरफ़शांकी उपत्यकायें जारके साम्राज्यमें चली गईं। ओरेनबुर्ग शासन-केंद्र बहुत दूर पड़ता था, इसलिये २३ (११) जुलाई १८६७ ई०के उकाञ्जे (राजादेश) के अनुसार तुर्किस्तानका एक अलग प्रदेश बना दिया गया, और ताशकन्दको तुर्किस्तानके महाराज्यपालकी राजधानी बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। तुर्किस्तान-सूबा (गुर्बानिया)में सिर-दरिया, सप्तनद (सेमीरेचिन्स्क अर्थात् इस्सिकुल और बल्काशकी द्रोणियां) तथा जरफ़शांके इलाके थे। जेनरल काफ़मान प्रथम महाराज्यपाल नियुक्त हुआ। बुखारा अब भी जब-तब रुसी सीमांत-चौकियोंसे छेड़छाड़ करता था। काफ़मानने मुजपफरके सामने सुलहके लिये निम्न शर्तें पेश कीं—मौजूदा सीमांतकी स्वीकार किया जाय, व्यापारमें रुसी और बुखारी प्रजाके समान अधिकार हों, युद्धके हरजानास्वरूप सवा लाख तिला (पांच लाख रूबल या तिरपन हजार गिन्नी) रूसको मिले। मुजपफरने इसके जवाबमें खीवाकी ओरसे अपनी सेनाको बुलाकर जीजकपर आक्रमण करनेके लिये तैयारी की। रूसी अब समरकन्द लेनेके लिये तैयार हो गये। ३६०० सेनाके साथ १७ मई १८६८ ई०को उन्होंने खीवा और बुखाराकी चालीस हजार सम्मिलित सेनापर धावा बोल दिया, और उथली नदी पार हो समरकन्दसे पन्द्रह मीलपर जरफ़शांके बायें किनारेकी ऊंचाईपर एकत्रित शत्रु-सेनापर आक्रमण कर दिया। बुखारियोंकी भीषण पराजय हुई। अगले ही दिन समरकन्दने आत्मसमर्पण कर दिया, और नगरके सरतों (ताजिकों) ने विजेताओंका खूब स्वागत किया—आखिर उज्बेकोंके जूयेको वह प्रसन्नतापूर्वक नहीं ढो रहे थे। यहूदियोंने रुसियोंका और भी अधिक विश्वास प्राप्त किया, और उन्होंने सरतोंसे सजग रहनेकी सलाह दी। जेनरल काफ़मानने अपने घायलोंको नगरके बीचमें अवस्थित किलेमें साठ-बासठ गारदके साथ छोड़ शत्रुका पीछा किया। रुसियोंके कुछ ही दूर जानेपर शहरसब्जवाले बीस हजार सैनिक चुपकेसे भीतर घुस गये, उन्होंने किलेको घेर लिया। एक सौ नवासी रूसी प्रतिरक्षक हताहत हुये और किला भारी विपद्में पड़ गया। काफ़मान शत्रुको फिर करारी हार दे चुका था, जब कि उसे समरकन्दकी खबर मिली, और उसने लौटकर बड़ी बुरी तरहसे नागरिकोंके साथ बदला लिया। एक अंग्रेज लेखकके अनुसार—“जैसे गिलेस्पीने वेल्लोरके विद्रोहियोंके साथ बदला लिया था। उनके चूतड़ों और जांघोंपर कोड़े लगवाये, हजारोंको बड़ी निष्ठुरताके साथ मरवाया। सरतोंके विश्वासघातका बदला आत्मसमर्पणके बाद सेना द्वारा नगरको लगातार तीन दिन तक लुटवाकर लिया।”

मुजपफरका सारा अभिमान अब चूर-चूर हो चुका था। उसने रूसी जेनरलसे तख्त छोड़कर भक्का जानेकी इजाजत मांगी, लेकिन रूसी उसे अपनी गुड़िया बनाकर बुखाराकी गद्दीपर रखना चाहते थे। आखिर वह रूसी लोहेको देख चुका था, और अपने जीवन भर फिर सिर उठानेकी हिम्मत नहीं रखता था। दूसरा अमीर उसकी जगहपर शायद फिर नया तजर्बा करना चाहता। रुसियोंने उसीकी अमीर स्वीकृत किया, समरकन्दको तुर्किस्तानमें मिला वहांपर

उपराज्यपाल बनाकर अब्रामोफको भेजा । मुजफफरके बाद १७ सालके युवराज अब्दुल् अहदने बापसे बगावत करके करकीके किलेपर अधिकार कर लिया, लेकिन जनरल अब्रामोफने विद्रोहको आसानीसे दबा दिया । यही नहीं, उसने मंगीत-राजवंशके मूल-स्थान करशीको भी ले लिया और करकीपर गोलाबारी की । युवराज बुखारा राज्यकी मध्य पहाड़ियोंमें भागा, जहांसे भी उसे समरकन्दके पश्चिमी छोरपर भागनेके लिये मजबूर होना पड़ा । विद्रोहोंमें सफलताकी तो आशा नहीं थी, ऊपरसे प्रजाको सारी आफत सहनी पड़ रही थी, इसलिये कोई आश्चर्य नहीं, यदि एक किसानने अहदको पकड़वा दिया । मुजफफरके पास लाये जानेपर उसने उसके सिरको काटकर महलके दरवाजेपर लटकानेका हुकम दिया । इस विद्रोहके समय अब्रामोफने पीड़ियोंसे स्वतंत्रताकी लड़ाई लड़नेके अभ्यस्त शहरसब्जवालोंको भी अपने अधीन कर लिया । मुजफफर अब परम जारभक्त था । हिन्दुस्तानमें रहते अंग्रेज इसके लिये अफसोस कर रहे थे, कि मुजफफरने अपने पूर्वजोंके भव्य दायभागको इतना जल्दी खो दिया । लेकिन मुजफफरने दस-दस पंद्रह-पंद्रह गुनी अधिक सेनाके साथ भी लड़कर देख लिया था, कि आधुनिक हथियारोंके सामने उसके जहादियोंकी भीड़ टिक नहीं सकती । जरफ़शाकी ऊपरी उपत्यका और ऐतिहासिक नगर समरकन्द रूसियोंके हाथमें होनेसे बुखारा उनकी दयापर निर्भर करता था । रूसी जरफ़शाके पानीसे किसी समय भी बंचित कर बिना एक गोली खर्च किये ही बुखारियोंको मरनेके लिये मजबूर कर सकते थे । अपने जीवनभर मुजफफरको मौज करनेमें कोई बाधा नहीं थी, और हमारे रियासती राजाओंकी तरह वह अपनी प्रजाके साथ चाहे जो भी कर सकता था ।

९. अब्दुल अहद, मुजफफर-पुत्र (—१८९४ ई०)

मुजफफरके उत्तराधिकारी अहदने भी अपने बापका पदानुसरण किया । शरीरमें वह लंबा हड्डा-कट्टा और बहुत सुन्दर था । हर साल वह काकेशसके गर्म चरमोंमें बिहारके लिये जाता और अक्सर जाड़े भी उसके क्रिमियामें बीतते थे, अर्थात् उसके जीवनका ढंग और विलास-प्रेम वैसा ही था, जैसा कि हमारे यहां पिछली पीढ़ीके राजा-नवाबोंका ।

१०. मीर आलम, अहद-पुत्र (—१९२० ई०)


युवराजकी अवस्थामें इसे शिक्षाके लिये पीतरवुर्ग भेजा गया, जहां रहते अपनी शिक्षा-दीक्षासे वह बिल्कुल यूरोपीय बन चुका था, लेकिन दुराचारमें वह अपने परदादा नसरुल्लाका भी कान काटता था । जबतक जारशाही मजबूत रही, तबतक वह उसका अनन्य भक्त बना रहा, और अपना काम केवल विलासमय जीवन बिताना समझता था, लेकिन बोलशेविक-क्रांतिके समय सब जगह अशांति मची देख एक बार फिर उसने बुखारामें अपनी तानाशाही शुरू की । शासन-सुधार चाहनेवाले अपने यहां के सुधारवादी जदीदों (नवीनतावादियों) के खूनसे इसने अपने हाथोंको खूब रंगा, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, क्रांतिके सामने इसे देश छोड़कर अफगानिस्तान भागना पड़ा । मुजफफरहदीनके समयसे बुखारा एक देशी रियासतके रूपमें चला आया था । क्रांतिने उसे मिटाकर मध्य-एशियाकी जातियोंको उनकी सीमाओंके अनुसार उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कजाकस्तान, किर्गिजस्तान और ताजिकिस्तानके गणराज्योंमें परिणत कर दिया ।

शासन-प्रबंध—बुखारा समुद्रतलसे १२०० फुट ऊपर मेर्वसे १४० मीलपर अवस्थित है । १९ वीं सदीके चतुर्थ पाद हीमें रेल द्वारा इसका संबंध हो गया था, यह हम आगे बतलायेंगे । बुखारा मुसलमानोंके आनेसे पहले ही एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगर बन चुका था । सामानी बादशाहोंके जमानेमें इसकी बहुत तरक्की हुई । इसकी जामा मस्जिदका २१० फुट ऊंचा मीनार (मीनारकलां) बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी गोलाई नीचे छत्तीस फुट है ।

बुखाराके शासकोंमें सूबा (प्रदेश) के अधिकारीको बेक कहा जाता था, जिसके नीचे जिलेके अफसर होते थे, जिन्हें अमलाकदार कहते थे । किसानोंसे दशांश (दहयक) कर लिया जाता था, जिसे भिल्की-खराज कहते थे । कितने ही गांव मस्जिदों और मदरसोंकी देवोत्तर-सम्पत्ति (वक्फ)

थे। फसल तैयार होनेपर अमीरके अफसर खेतोंमें जाकर भूकरके लिये हरएक खेतका अलग-अलग कूत करते थे। बुखाराका काजी (न्यायाधीश) काजीकलां था, जिसके दो नायब होते थे। अदालतकी मुहर मुफतीके हाथमें होती थी। धार्मिक बातोंका अधिकारी रईस था।

४. (३. बुखारा अमीर-वंशवृक्ष)
(१७४७-१९२० ई०)



स्रोत ग्रन्थ

१. पो स्नेदनेइ आज्रिइ (ल. ये. द्मित्रियेफ-कव्काज्स्की, पेत्रेर्बुर्ग १८९४)
२. ना ग्रानित्साख् स्नेदनेइ आज्रिइ (द. न. लोगोफेत्, पेत्रेर्बुर्ग १९०९)
३. इस्कुस्स्वो स्नेदनेइ आज्रिइ (व. व. वेइमार्न, मास्को, १९४०)
४. रेगिस्तान इ येओ मेद्रेसे (म. य. मरसोन्, ताशकन्द १९२६)
५. आज्रियात्स्कया रोस्सिया (अ. क्रूवेर आदि, मास्को १९१०, पृष्ठ १७७-२२६, २९३-९९)
६. History of U. S. S. R. (Moscow 1947)
७. Heart of Asia (E. D. Ross, London 1899)
८. History of Mongol (3 Vols. H. H. Howorth, London 1876-88)
९. History of Bokhara (A. Vambery, London 1873)

छोटे-छोटे राज्य

१. उरातिप्पा और जीजक

उरातिप्पा—अस्त्राखानी-वंशकी समाप्तिपर बुखारामें बहुत-सी छोटी-बड़ी रियासतें अस्तित्वमें आईं, जिनमें उरातिप्पा भी था, जो समरकन्द, खोजन्द और खोकन्दके रास्तोंके संगम तथा जीजक, समरकन्द और ताशकन्दके रास्तेपर था। उज्बेकोंके उज कबीलेके लोग जीजकमें अपने डेरे डाला करते थे। फजल बी नामक उज-सरदारने १८ वीं सदीमें उसपर अधिकार कर लिया। खोकन्दके नरबुते और बुखाराके रहीम बीने बहुत कोशिश की, लेकिन फजल बीने उन्हें सफल नहीं होने दिया, और शत्रुओंके सिरोंको काटकर उनका मीनार चुनवाया।

फजल बीके बाद उसका लड़का खुदायार बी स्वामी हुआ, वह १७९४ ई०में एक लाख परिवारोंका शासक था। बुखाराके अमीर शाह मुरादने जब उसकी ओर कदम बढ़ाया, तो खुदायार बीने उसे बुखाराके फाटकों तक खदेड़ा। वह दिन भर सोता और रातको जाग कर काम करता। शरीरसे पूरा देव था, और एक पूरी भेड़ अकेले ही खा जाता था, तब भी कहता कि भूख अभी पूरी तरह नहीं गई। उसका भाला इतना भारी था, कि किसी दूसरेके लिये उठाना भी मुश्किल था। लड़ाईमें बड़ा बहादुर होनेसे घुमन्तू-कबीलोंका वह आदर्श नेता था।

बाबा बेक, बेकमुराद—खुदायार बीके मरनेपर उसका भाई बाबा उरातिप्पापर और बेटा बेकमुराद खोजन्दपर शासन करने लगे। उमरखान खोकन्दीकी मददसे बाबाने अपने भतीजेको खोजन्दसे भगा पीछे उसे मरवा डाला। बापका बदला लेते हुये बाबाबेकके लड़केने समरकन्दमें मुरादकी मार डाला और कुछ समयके लिये उरातिप्पा बुखारामें रहा। फिर खोकन्दके अमीर आलम खाने कुछ समय तक उसपर अधिकार रक्खा, लेकिन जल्दी ही खुदायार बेकके भान्जे तथा प्रसिद्ध खोजा हिरातके वंशज खोजा महमूद खाने खोकन्दी हाकिमको भगा उरातिप्पाको बुखाराके नामसे अपने हाथमें कर लिया। १८१२ ई०में खोजा महमूद उरातिप्पाका शासक था। उमर खाने आक्रमण करके महमूदको पकड़ लिया, लेकिन तीन महीने बाद उसने फिर भागकर अपने संघर्षको जारी रक्खा। इसी समय जीजक बुखारामें और उरातिप्पा खोकन्दमें शामिल कर लिये गये, और इस प्रकार उरातिप्पाकी स्वतंत्र सत्ता खतम हो गई। महमूदका पुत्र तुराबेक यिरुवाकी खोकन्द-दरबारके अमीरोंसे था। जिस समय उरातिप्पाने अपनी स्वतंत्रता खोई, उस समय यहांके उज कबीलेके बहुत-से लोग दक्षिणकी पहाड़ी काफिरनिहां-उपत्यकामें जाकर बस गये।

२. शहरसब्ज

किश या शहरसब्ज तेमूर लंगकी जन्मभूमि थी। बुखारासे जानेपर रास्तेमें दुर्लभ्य रेगिस्तान पड़ता था, और समरकन्दसे दुर्गम पहाड़ी, इस प्रकार उसे प्रकृतिने प्रतिरक्षाके सुन्दर साधन दे रक्खे थे। १८ वीं सदीमें मंगीत रहीम बी (१७४७ ई०) ने शहरसब्जपर अधिकार किया, लेकिन पांच ही साल तकके लिये। भारी लड़ाकू कैरोसली उज्बेक-कबीलेके डेरे इस इलाकेमें रहा करते थे। उनके सरदारने रहीम बीसे शहरसब्जको मुक्त करा लिया।

(१) **बानियाल अतालीक** (१८११-३६ ई०)—शहरसब्जके शासकोंमें यह बड़ा शक्तिशाली था। इसने अमीर हूंदर और उसके पुत्र नसरुल्लाके सारे प्रयत्नोंको निष्फल कर दिया।

दानियालने “वलीनिअम” की पदवी धारण की थी। उसके दो पुत्रोंमें खोजाकुल शहरसब्जमें और बाबा दादखाह किताबमें शासन करते थे।

(२) खोजाकुल (१८३६-४६ ई०)—बापके मरनेपर दोनों भाई आपसमें झगड़ पड़े, जिससे अमीर नसरुल्लाने फायदा उठाकर आक्रमण कर दिया। लेकिन नसरुल्लाने पहुंचनेसे पहले ही खोजाकुलने अपने भाईको मार भगाया, इसलिये बुखारी सेनासे लड़नेके लिये वह स्वतंत्र था। उसने नसरुल्लाने की सेनाको बुरी तरहसे हराया। नसरुल्लाने अजेय शहरसब्जकी भूमिपर हथियारसे विजय पानेकी आशा नहीं देखी। इसके बाद वह सालमें दो बार वहांकी भूमिको तबाह करने लगा। सुलह क्षणिक ही हो पाती थी। अपनी मृत्युके समय (१८४६ ई०) तक खोजाकुल बुखारियोंसे लड़ता रहा। उसने अपने भाई इस्कन्दरको किताब देकर संतुष्ट करना चाहा था।

(३) अशुर बेक (१८४६ ई०)—खोजाकुलके पुत्र अशुरबेकको बापकी गद्दीपर अधिक दिनोत्तक बैठनेका अवसर नहीं मिला, और चचाने भतीजेको खदेड़कर गद्दी संभाल ली।

(४) इस्कन्दर (१८४६-५६ ई०)—इस्कन्दर “वली-निअम” की उपाधि धारण कर, दस साल तक धराबर नसरुल्लानेसे लड़ता रहा, लेकिन अन्तमें धिरावा डाल तथा खेतों और गांवोंको बरबाद करके भूखा मारकर नसरुल्लाने शहरसब्जको सर किया। इस्कन्दरने किताबमें जाकर अपना प्रतिरोध जारी रखा, और अन्तमें अनुकूल शर्तोंके साथ बुखाराकी अधीनता स्वीकार कर वह बुखारा चला गया, जहां करकुलकी सारी आमदनी उसे जागीरमें मिली। इस्कन्दरकी बहिन केनिगेज आइम अपने सौंदर्यके लिये बहुत मशहूर थी। वह ब्याही हुई थी। उसपर नसरुल्लाने नजर पड़ गई। उसने पतिको चारजूइ भेज आइमको अपने हरममें डाल लिया और शहरसब्जके मुख्य-मुख्य खानदानोंको ले जाकर चारजूइ, करशी आदिमें बसा दिया। नसरुल्लाने मरनेसे पहले इस्कन्दर और उसकी बहिनके खूनसे अपने हाथको रंगा। एक प्रत्यक्षदर्शीने इस घटनाके बारेमें लिखा है—

“इस्कन्दर और उसका भाई चूमचू खान रोज एक बार अमीरको सलाम करने जाते थे। उनके जानेके बाद अमीरने मुझे उन्हें बुला लानेके लिये कहा।.....लाकर उन्हें अलग कमरोंमें बैठाया गया। उन्होंने कहा—‘बुखारामें किसीको पता नहीं, कल क्या होनेवाला है। आज तुम जिन्दा हो और कल तुम्हारा सिर कटा दिखाई पड़े।’.... कुछ प्रतीक्षाके बाद एक बादाचा आया, जिसमें इस्कन्दर और वहां आनेवाली स्त्रीका गर्दन काट लेनेका हुकुमनामा लिखा हुआ था। बादाचा बादाके आकारकी एक मुहर हुआ करती थी। मृत्युदंडका हुक्म देते समय अमीर इसी मुहरका इस्तेमाल करता था। दूसरे कामोंके लिये इस्तेमाल होनेवाली मुहर बड़ी होती थी। जैसे ही हमने हुकुमनामा पाया, तुरन्त इस्कन्दरको वधस्थानपर लानेको कहा। अमीरके किलेमें एक क्यूँ जैसी गहरी तथा तख्तोंसे ढंकी जगह है। काटनेके बाद लाश इसी कुएंमें फेंक दी जाती है। वहां बहुत-सी लाशें पड़ी थीं। वधिक हमारी प्रतीक्षामें था। हमारे आते ही उसने तुरन्त इस्कन्दरको जमीनपर पटक दिया। इस्कन्दरके दाढ़ी नहीं थी। वधिकने अपनी अंगुलियोंको उसके नथुनोंमें डाल सिरको पकड़े गलेको काट दिया। इसके बाद लोग एक औरतको लाये। जैसे ही उसने इस्कन्दरके मृत शरीरको देखा, वह अमीरको बुरा-भला कहते रोने लगी। तब हमें मालूम हुआ, कि वह इस्कन्दरकी बहिन तथा अमीरकी बीबी आइम केनिगेज है। वह केनिगेज-परिवारकी लड़की थी, इसीलिये सभी उसे “मेरी केनिगेज चांद” कहते थे। जल्लादने उसके हाथोंको बांध दिया, फिर पिस्तौलसे सिरके पीछेसे गोली चलाई—हमारे लोगोंमें स्त्रियोंका गला नहीं काटते, बल्कि उन्हें गोली मार देते हैं। एक ही गोलीमें वह उसे नहीं मार सका। वह गिरकर कुछ देर तक छटपटाती रही। वधिकने उसके स्तनों और पीठपर बारह बार ठोकर लगाई, तब वह मरी।”

(५) बाबा बेक—केनिगेज-परिवारका यह सरदार अमीरकी अरदलीमें था। नसरुल्लानेके मरते समय वह शहरसब्ज लौटा। छ महीने बाद अमीर मुजफ्फर शहरसब्ज आया।

उसी समय उसने बाबा बेक से उसकी बहिन मांगी, जो कि पहले ही उसके वापकी कामुकताको तृप्त कर चुकी थी। मुजफ्फरके ऐसी मांग करनेपर बड़ा हल्ला मचा, और उसने बुखारा लौटकर बहुत बड़े-बड़े आदमियोंको जेलमें डाल दिया। लेकिन लोगोंने उन्हें बन्दीखानेसे मुक्त करके बाबा बेकको शहरसब्जका और जरा बेकको किताबका शासक नियुक्त किया। बुखाराके अफसर वहाँसे मार भगाये गये। मुजफ्फरने चढ़ाई की, किंतु खोकन्दके झगड़ेके कारण मुहासिरा उठा लेना पड़ा। पीछे बाबा बेकने वार्षिक भेंट और सैनिक सहायता देकर मुजफ्फरकी अधीनता स्वीकार की, पर राज्यके भीतरी मामलोंमें वह स्वतंत्र था।

१८६६ ई०में रूसियों द्वारा मुजफ्फरके हराये जानेपर बुखारामें दो दल हो गये। मुजफ्फरका पुत्र केत्तात्युरा विरोधी और मुजफ्फरका भतीजा सईद खान समर्थक था। समर्थकोंका मुखिया जुरा बेक था, जो अमीरके रूसियोंपर चढ़ाई करके हारनेके बाद शहरसब्ज भाग गया। रूसियोंने समरकन्दको लेकर अमीरसे बदला लिया। जब अमीर दुबारा रूसियोंका विरोधी बना, तो उसकी सहायतार्थ शहरसब्जके बेकोंने तीस हजार सेना लेकर समरकन्दपर चढ़ाई की। इससे पहले वह जेनरल कॉफमानसे अलग समझौता करनेकी बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब जेनरलने उन्हें मुलाकातके लिये बुलाया, तो उनके मनमें संदेह होने लगा, और मुजफ्फरकी ओर होकर लड़नेके लिये तैयार हो गये। अमीरने विवादास्पद नगर चिरागचीको देनेका वचन दिया था, इसलिये भी शहरसब्जवाले उसके पक्षमें हुए। रूसी सैनिकोंको समरकन्दके किलेके भीतर घेरकर शहरसब्जवालोंने बड़ी विपदमें डाल दिया था, लेकिन इसी समय जुरा बेकको कॉफमानके आनेकी झूठी खबर लगी, और उसके एक अफसरने अपने आदमियोंको हटा लिया। इसी सहायता देनेके लिये अमीर मुजफ्फरने जुरा बेकको "दादखाह"की उपाधि तथा दस हजार तंका इनाम दिया था।

१८७० ई०में जेनरल अन्नामोफ इस्कन्दरकुलके खिलाफ चढ़ा था। उस वक्त कर उगाहनेके लिये गये राजुल उरुसोफको कुछ विद्रोहियोंने मार भगाया। ये आदमी जुरा बेकके पक्षपाती हैदरखोजाके अनुयायी बतलाये जाते थे। जुरा बेकको हैदरको समर्पण करनेका हुक्म हुआ, लेकिन उसने कहा कि हैदर कहीं दूसरी जगह है। इसपर जेनरल कॉफमानने शहरसब्जको खतम करनेका निश्चय कर लिया। जेनरल अन्नामोफने किताबको आक्रमण करके ले लिया, फिर शहरसब्जको आत्मसमर्पण करनेके लिये मजबूर किया। बेक भागकर खोकन्द चला गया। रूसियोंने शहरसब्जके इलाकेको अमीर-बुखाराके हाथमें दे दिया। विश्वासघाती कहकर खोकन्दके खानने शहरसब्जवाले बेकोंको रूसियोंके हाथमें दे दिया। कुछ समयतक वह ताशकन्दमें नजरबंद रहे, फिर बुखारासे दो हजार रूबल पेंशन मिलने लगी। जुरा बेक इसके बाद रूसियोंका बहुत जबरदस्त पक्षपाती हो गया और वह उसे बहादुर, ईमानदार और निष्कपट कह कर तारीफ करते थे।

३. कोहिस्तान

समरकन्दसे पूर्वका पहाड़ी इलाका अर्थात् जरफशांकी ऊपरी उपत्यका कोहिस्तानके नामसे प्रसिद्ध थी। १८७० ई०में वहाँ फाराब, मागियान, कस्तुत, फान, यग्नान, माचा और फलगर-के छोटे-छोटे सात शासक (बेक) थे। ये पहाड़ी बेक (ठाकुर) कुछ गांवोंके शासक थे, और बुखाराको थोड़ा-सा कर दे अपने लोगोंके ऊपर मनमाना शासन करते थे।

उरगुत—उरगुतका बेक खानदानी राजा था। मागियान, कस्तुत और फाराबके बेक अपनेको इसके अधीन मानते थे। १९वीं शताब्दीके आरंभमें अमीर हैदर उरगुतको जीतकर उसके बेक युल्दाश परमांचीको बंदी बना बुखारा ले आया। बाकी तीनों बेकोंने बुखाराकी अधीनता स्वीकार की, लेकिन कुछ समय बाद युल्दाशके पुत्र कत्ता बेकने उरगुतको फिर अपने हाथमें कर लिया, और दूसरे बेकोंसे नाराज होकर उसने अपने भाई सुल्तान बेकको मागियान और कस्तुतका शासक बनाया। अब बुखारासे झगड़ा छिड़ गया। पहाड़ियोंने समरकन्दको खतरा पैदा कर दिया। लेकिन अमीर-बुखाराके सामने तलवार उठाकर खड़े रहनेमें बहुत दिनों

तक लाभ नहीं था, इसलिय उरगुतका बेक नसरुल्लाखानको अपनी बेटी दे बुखाराके सरदारके तौरपर उरगुतोंका शासक बना रहा। कत्ता बेकके मरनेके बाद उसके पुत्र आदिल परमांची उरगुतपर और उसका भाई अलायार दादखाह मागियानपर शासन करने लगे। मरनेसे थोड़े ही समय पहले अमीर नसरुल्लाने उन्हें बुखारा बुलाकर सपरिवार चारजूयमें निर्वासित कर दिया। रूसियोंके समरकन्द ले लेनेपर अमीर द्वारा नियुक्त अफसर उरगुत छोड़कर भाग गया। इसपर चारजूयमें निर्वासित कुमारोंमेंसे एक हुसेन बेकने खोकन्द होते वहाँ पहुंचकर उरगुतको ले लिया। रूसियोंने जब वहाँसे भगाया, तो वह स्वयं मागियानमें और अपने छोटे भाई शादीको कस्तुत और चचेरे भाई सईदको फाराबपर नियुक्त करके शासन करने लगा। इन छोटी-छोटी पहाड़ी रियासतोंका बुखारी कर उगाहनेवालोंसे बराबर लड़ाई-झगड़ा होता रहता था। १९वीं सदीके आरंभमें ही फलगरके बेक अब्दुशकूर दादखाहने सारे पहाड़ी इलाकेको अपने अधीन कर कितने ही दुर्गम पहाड़ी स्थानोंको सुगम बनानेके लिये रास्ते और पुल बनवाये। अमीर हैदर (१७९९-१८२६ ई०) के समय इन इलाकोंमें बुखाराने अपने बेक नियुक्त किये और किले बनवाये। यही हालत नसरुल्लाके शासनके अन्ततक रही।

समरकन्दके रूसियोंके हाथमें जानेपर वहाँसे बुखारी बेक (हाकिम) भाग गया। उसी समय बेक अब्दुल गफ्फारने उरातिप्पाके पूर्व उर्मितानको ले अपनेको फलगरका बेक घोषित किया, लेकिन माचाके लोगोंने शासक मुजफ्फरशाहकी अधीनता स्वीकार की, जिसने अपने भतीजे रहीमखानको अपनी ओरसे शासक नियुक्त किया। रहीमखानने फलगरसे अब्दुल गफ्फारको मार भगाया और उसकी सहायताके लिये आये कस्तुतके शादीबेकको भी हराया। इसने यग्नान और फानको भी जीत हिसारपर चढ़ाई की। रास्तेमें सेना बिगड़ गई, और उसने रहीमको भगाकर पाचा खोजाको अपना नेता बनाया। ये पहाड़ी लोग बहुत पिछड़े हुये थे, लेकिन फलगरवाले अपनेको माचावालोंसे अधिक संस्कृत समझते थे। उन्होंने फिर अब्दुल गफ्फारको अपने यहां बुलाया, किन्तु उसने हार खाकर समरकन्दमें जा रूसियोंकी अधीनता स्वीकार की। इस अशांतिसे लाभ उठा मई १८७० ई०में जेनरल अब्रामोफ एक छोटी-सी सेना ले पहाड़ोंके भीतर घुसा। १२ मईको उसने उर्मितान ले लिया, २१ को बरसामिनार भी उसके हाथमें चला गया। यह दोनों जगहें फलगरके बेकके अधीन थीं। माचाका बेक पाचा खोजा बहुत जनप्रिय था। वह धमकीके पत्र लिखता रहा। अब्रामोफने माचाकी ओर बढ़कर २८ मईको आबुर्दनको ले लिया। पाचा खोजा भाग निकला। रूसियोंने फलगरके किलेको तोड़ दिया, जिसे कि बुखारियोंने पहाड़ी लोगोंको दबा रखनेके लिये बनाया था। अब्रामोफ आगे बढ़ते-बढ़ते अलई पर्वतमालाकी उस हिमानीके पास पहुंचा, जो कि जरफशां (प्राचीन सोगद) नदीका उद्गम है। लौटकर उसने फान नदीपर अवस्थित सर्वदा, फिर यग्नान-उपत्यकाको जीतते इस्कन्दरकुल (महासरोवर) तक गया। वहाँसे पश्चिमी कोहिस्तानकी ओर घूमकर उसने दस हजार फुट ऊंचे कस्तुतके डांडेको पार किया, जिसके पश्चिमी पहाड़ियोंमें एक जबर्दस्त संघर्ष हुआ। कस्तुतको अपने हाथमें करके अब्रामोफ पंजकन्द होते समरकन्द लौट गया।

शहरसब्जकी विजयके बाद रूसियोंकी एक टुकड़ी कश्क-उपत्यकासे हो फाराब और मागियानपर पड़ी। इन दोनों इलाकोंके बेक रूसके विद्रोहियोंके साथ हो गये थे। रूसियोंने यहांके दोनों किलोंको तोड़ दिया और वहाँके बेकों—सईद और शादीबेक—ने आत्मसमर्पण किया। मागियानका बेक हुसेन कुछ महीनेतक हाथ नहीं आया। रूसियोंने फाराब और मागियानको उरगुत जिलेमें मिला लिया। कितने ही समयतक बाकी पहाड़ी लोग रूसियोंके साथ विद्रोही बने रहे, लेकिन कब तक इतनी बड़ी शक्तिका मुकाबला करते ?

४. हिसारके इलाके

आजकल यह पहाड़ी इलाका ताजिकिस्तान गणराज्यका एक बड़ा भाग है। ऊपरी जरफशां-उपत्यकाकी तरह यहांपर भी उस समय कितने ही छोटे-छोटे राजा थे, जैसे:—

(१) करातगिन—वधु नदीकी मुख्य पहाड़ी शाखा सुरखाव करातगिनके इलाकेसे बहती है। यहांके शासक अपनेको ऐतिहासिक ग्रीक सम्राट् अलिकसुन्दरका वंशज बतलाते थे। कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, यदि ग्रीक या शक-शासनके पतनके बाद वहांके कुछ राजकुमारोंने इन दुर्गम पहाड़ियोंमें शरण लेकर अपने लिये स्थान बनाया हो। लेकिन यह साबित करना मुश्किल है, कि सचमुच ही ये छोटे-छोटे शाह और बेक यूनानी सम्राटोंके वंशज थे। दरबाजवालोंने कुछ समयतक करातगिनको जीतकर उसे अपने हाथमें रक्खा, लेकिन जल्दी ही वह फिर स्वतंत्र हो गया। १८३९ ई०में खोकन्दने करातगिनको जीतकर अपने अधीन कर लिया।

(२) दरबाज—करातगिनसे दक्षिणमें यह छोटा पहाड़ी राज्य था, जिसके शासक भी अपनेको सिकन्दरवंशी कहते थे—यह उज्बेक नहीं ताजिक थे। खोकन्दके मदली खानने १८३९ ई०में करातगिनके साथ इसे भी अपने अधीन बना लिया था।

(३) कुल्याब, (४) शगनान—यह भी दो छोटी-छोटी पहाड़ी रियासतें थीं, जो कि पीछे तबतक खोकन्दका अंग बनकर रहीं, जबतक खोकन्दको रूसियोंने हजम नहीं कर लिया।

(५) हिसार—करातगिन, दरबाज और शगनानकी पहाड़ी रियासतोंके पश्चिममें हिसार और कुल्याबके इलाके हैं, जिनमें उज्बेकोंके कबीले कंकुरत और कतगन रहते थे। उन्होंने इन इलाकोंको अपने हाथमें करके बहुत-से पुराने बार्शिदों—ताजिकों—को भगा दिया था। बुखारावाले उस समय हिसारके इलाकेको उज्बेकिस्तान कहते थे। जान पड़ता है, १८वीं सदीके मध्यमें हिसारका इलाका बुखाराके हाथसे निकल गया था।

हिसार और कुल्याबके पड़ोसमें कई और छोटे-छोटे उज्बेक राजा थे, जिनमें कुरगानका अल्लाबर्दी जौज १८वीं सदीके अन्तमें पड़ोसियोंके लिये काल बन गया था। उसने हिसारको घेरा था, जब कि बेक अल्लायार और करशीके राजुलने उसे मारकर हिसार और कुरगानपर अधिकार कर लिया। तब भी प्राचीन वंशका शासक सईद हिसारका बेक, यदि कामके लिये नहीं तो नामके लिये, माना जाता था। बुखाराके अमीरने सईद बेककी लड़कीसे ब्याह किया था, और इस प्रकार वह अमीरका कृपापात्र था। कुरगानको हिसारमें मिला लिया गया था। इज्ज-तुल्लाके समय हिसारमें सईद बेक और कुरगानमें अल्लायार बेकका शासन था। पड़ोसी कबादियान इलाकेके बेक थे दोस्त मुहम्मद और मुराद अली। इन छोटी-छोटी रियासतोंको हिसारने हजम कर लिया। १९वीं सदीके उत्तरार्धमें कुल्याब हिसारका शासक कतगन अमीर सरीखान था, जिसके डरके मारे करातगिनके शासकको १८६९ ई०में खोकन्दकी शरण लेनी पड़ी थी, लेकिन इसी समय बुखाराने उसे अपने अधीन कर लिया। १८७२ ई०में हिसारमें सात जिले थे, जिनके अपने-अपने बेक थे, कुल्याबमें भी दो जिले थे। ये सभी बेक बुखारा द्वारा नियुक्त होते थे। इन जिलोंके नाम थे—शेराबाद, वाइसून, देहनौ, युर्ची, हिसार (कुरगानत्यूबे, कबादियान), बलजुवान और कूल्याब। इनके अतिरिक्त दरबन्द, सरेजूय और फेजावादपर अमीरका शासन स्थानीय बेकों द्वारा नहीं बल्कि सीधे बुखारासे होता था।

५. तुखारिस्तान

प्राग्-मुस्लिम तुर्कोंके शासनकाल तथा स्वेन्-चाङ्की यात्राके समय पहाड़ोंसे उतरकर पश्चिमी-भिमुख बहनेवाली पहाड़ोंतक फैली वधुके दोनों तटकी समतल-सी मैदानी भूमिको तुषार या तुखार कहा जाता था। पीछे यह उज्बेकोंकी भूमि हो आजतक है। यहांके निवासी अधिकतर उज्बेक हैं। वधुके उत्तरवाला तुखारिस्तान अब सोवियत उज्बेकिस्तानका अंग है, पर दक्षिणी तुखारिस्तान उज्बेक होते हुये भी काबुलके शासनमें है। १८वीं सदीके मध्यमें ही, जब कि अफगानोंका सितारा ऊंचा होने लगा था, दक्षिण तुखारिस्तानमें कितनी ही छोटी-छोटी रियासतें थीं :—

(१) खुल्म—१७५१-५२ ई०में अफगानोंने दक्षिणी वधु-उपत्यकाको बुखारासे छीन लिया।

१७८६ ई०में अमीर शाहमुरादने उसे लौटानेकी बहुत कोशिश की, किन्तु सफल नहीं हो सका। पीछे यहांपर खिलिच अलीने अपनी प्रभुता जमाई।

खिलिच अली (—१८१७ ई०)—खुल्म बलखसे उत्तर-पूर्वमें है। यहांके उज-कबीलेका सरदार खिलिच अली धीरे-धीरे बहुत शक्तिशाली हो गया, और उसने अपने पड़ोसी इलाकों ऐबक, गोरी, माजूर, दर्रागूजको अपने अधीन कर लिया, तथा कुरगानतेप्पाके उज्बेक सरदार अल्लाबर्दी तौजको हजरत-इमामसे मार भगाया। कुन्दुजका उज्बेक सरदार खिलिच अलीका ससुर था, जिससे उसने मित्रता स्थापित की। काबुलमें भी उसका प्रभाव बढ़ा और वहांसे उसे “अता-लीक”की उपाधि मिली। बलखके अफगान राज्यपाल हुकूमतखान-पुत्र सरदार नजीबुल्ला खानपर भी उसका काफी रोब था। तालिकान छोड़कर बाकी सभी जगहोंपर अफगान राज्यपाल नहीं, बल्कि खिलिच अलीकी तूती बोल रही थी। यहांके तीस हजार रुपयाके करमेंसे एक तिहाई काबुल जाता, बाकी पुराने नौकरों, मुल्लों और शासकोंके खर्चमें आता। खिलिच अपने प्रभावको बढ़ा लेनेके बाद अफगानोंका भक्त रहा। उसके पास बारह हजार सवार सैनिक थे, जिनमेंसे दो हजारका वेतन वह खुद देता, बाकीको उनकी सेवाओंके लिये भूमि और जागीर मिली हुई थी। कुन्दुजवाले भी उसे पांच सौ सैनिक दिया करते थे। सेनाका खर्च करनेके बाद उसकी आमदनी उन्नीस हजार गिन्नीके बराबर थी। खिलिच अलीके ज्येष्ठ पुत्रको नौ हजार गिन्नी वार्षिक वृत्ति मिलती। उसे काबुलसे “बलखका बली” (बलख-राज्यपाल)की उपाधि मिली हुई थी। खिलिच अलीका रहन-सहन बहुत सीधा-सादा था। वह १८१७ ई० के करीब मरा। इसके बाद उसके पुत्रोंमें झगड़ा हो गया, जिसमें कुन्दुजके मुराद बीने आगमें घी डालनेका काम किया। खिलिचके दो पुत्रोंमें एकको खुल्म और दूसरेको ऐबक मिला। बलख भी ऐबकवालेके हाथमें था, लेकिन अब दोनों भाई कुन्दुजके अधीन अमीरमात्र रह गये थे।

(२) कुन्दुज (क) मुराद बी (१८१२-४० ई०)—उज्बेकोंके कतगन कबीलेका कुन्दुज प्रधान नगर था। चिङ्ग-गिस् खानके समयमें भी नगरका यही नाम था। १८वीं सदीके अन्तमें कतगन-अमीर खोकन्द बेक शक्तिशाली होकर बहुत कुछ स्वतंत्र हो गया और उसने अपने पूर्वी इलाके बदख्शांको लूटमारकर उजाड़ दिया। उसके बाद उसका पुत्र मुराद बी उत्तराधिकारी बना। अपने समयमें यह मध्य-एसियाके बहुत शक्तिशाली शासकोंमें था। इतिहासकार इज्जतुल्लाके समय यह कुन्दुजपर शासन करता था। खिलिचके जिन्दा रहनेतक यह अपनी शक्तिको बहुत आगे नहीं बढ़ा सका, लेकिन इसके बाद बड़ी तेजीसे अपने राज्यको बढ़ाया। अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्टने अपनी यात्राके प्रबन्धके लिये कुछ आदमी भेजे थे, जिनपर वहांवालोंने गुप्तचर होनेका संदेह किया—“अंग्रेज एसियाके किसी भागमें इसके सिवा और किसी मतलबसे प्रवेश नहीं करते, कि अन्तमें वह वहांके स्वामी बन जायं।” पीछे मूरक्राफ्ट स्वयं वहां गया। उस समय मुराद बी खुल्म, कुन्दुज, तालिकान, अन्दराब, बदख्शां और हजरत-इमामका स्वामी था। मूरक्राफ्टने ऐबकसे आगे पहाड़ोंके भीतर बहुत-से कस्बे उजड़े देखे थे, जिसका कारण मुराद बी था। वहांके निवासियोंको वह गुलाम बनाकर ले गया था। मुराद बीका वजीर आत्माराम दीवानबेगी मूलतः पेशावरका निवासी था। आमतौरसे हिन्दुओंको वहां बहुत नीची निगाहसे देखा जाता था, लेकिन आत्मारामने अपनी योग्यतासे मुराद बीका कृपापात्र बनकर ऐसे ऊंचे पदको प्राप्त किया। उसके पास बहुत सम्पत्ति और चार सौके करीब दास-दासी थे।

मुराद बी बड़ा ही कर्मठ आदमी था। वह स्वयं अपनी सेनाका संचालन करता और बलख तथा हजाराके शीयोंके ऊपर आक्रमण करके उन्हें दास बनाकर बँच देता था। चित्रालका मेहतर भी डरके मारे मुराद बीको करके रूपमें गुलाम देता। हिन्दूकुशाकी पहाड़ियोंमें सियापोश काफिर आज भी कुछ मुसलमान न बन अपने बाप-दादोंके धर्मको मानते चले आ रहे हैं। मुराद बीने १८३० ई०में दास-दासी बनाकर बेचनेके ख्यालसे उनपर आक्रमण किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, काफिरोंने उसे आगे बढ़नेसे रोक दिया। इसी समय बर्फीनी आंधी आई, जिससे फायदा उठाकर सियापोशोंने आक्रमण कर दिया, और बीके चार हजार सवार काम

आये। मुराद बीके कोपका भारी शिकार बदखशांकी सुन्दर भूमि हुई, जहाँके अधिकांश लोगोंको पकड़कर वह कुन्दुज ले गया, और वहाँके सिकन्दर-वंशी शासनको राज्यसे वंचित कर दिया। १८२३ ई०में किला-अफगानमें मीरयार बेग खानने मुराद बीके दस हजार सवारोंसे नौ हजार सेनाके साथ मुकाबिला किया, लेकिन उसे हार खानी पड़ी। १८२९ ई०में यहाँके बाशिन्दोंको भी उसने कुन्दुज भेज दिया। वूड अपने यात्रा-ग्रंथ (१८३८ ई०)में लिखता है—“इस प्रकार इस अस्वास्थ्यकर दलदली भूमिमें १८३० ई०से लेकर आज (१८३८ ई०) तक उज्बेकोंने करीब-करीब पच्चीस हजार परिवार या प्रायः एक लाख विदेशियोंको लाकर बसा दिया है, इसमें सन्देह है, कि १८३८ ई०में उनमेंसे छ हजार परिवार भी जिन्दा हैं। इन पिछले आठ वर्षोंमें उनमेंसे बहुतेरे मर गये। कहावत है—‘अगर तुम मरना चाहते हो, तो कुन्दुज जाओ।’ हमारे वहाँ पहुंचनेसे बारह महीने पहले कुल्याबके निवासी बहुत भारी संख्यामें अपने पहाड़ी इलाकेसे लाकर हजरत इमाममें बसाये गये। डाक्टर लार्ड और मैं उस भूमिसे गुजरे, जहाँपर कि उनके घर थे, जिनमेंसे कुछ अब भी खड़े थे, लेकिन चारों ओर नीरवता छाई हुई थी, और चारों ओर फैली बहुसंख्यक कब्रें उनके बहुसंख्यक निवासियोंकी आपबीती बतला रही थीं।” वक्षुके उत्तर कुल्याबसे लेकर दक्षिणमें सिगान (हिन्दूकुशके दो डांडोंके परे तथा बामियानसे तीस मील भीतर) तक और बखान भी मुराद बीका था। मुराद बी १८४० ई०के आसपास मरा।

(ख) मुहम्मद अमीन, खिलिच-पुत्र, खुलम (१८४०-४५ ई०)—मुराद बीके बाद उसका स्थान खिलिच अलीके पुत्र मुहम्मद अमीनने लिया, जिसको “मीरवली”की उपाधि मिली थी। वह १८४५ ई०में शासन कर रहा था। उसका पुत्र गजअलीबेग बदखशांका शासक था। कुन्दुजमें मुराद बीका पुत्र मीर रस्तम खान शासन करता था, किन्तु वह मुहम्मद मीरवलीके अधीन था। मीरवली बुखारा और काबुल दोनोंको खुश रखता था। उसने अन्दखुदको भी अपने अधीन कर लिया था। १८४५ ई०में ऐबकमें उज्बेकोंका कंगली कबीला रहता था। मीरवलीका शासन सरीपुल, अन्दखुद, कुल्याब और बखानसे हिन्दूकुश और बलखतक फैला हुआ था। खिलिच अलीके समय ही तुखारिस्तानमें काबुलका नाममात्रका प्रभाव था, लेकिन अफगानोंकी आंखें इस ओर लगी हुई थीं, जिसमें उन्हें १८५० ई०में जाकर सफलता प्राप्त हुई। काबुलके अमीर दोस्त मुहम्मदने बुखाराके अमीर नसरुल्लाके विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी। मीरवलीको दोस्त मुहम्मदने राह देनेके लिये कहा, लेकिन मीरवलीके इजाजत देने या न देनेकी कोई बात नहीं थी। दोस्त मुहम्मदका पुत्र अकबर खान निर्वासित होकर खुलममें रहता था, जहाँसे वह मीरवलीकी एक दासीपर मुग्ध होकर उसे काबुल भगा ले गया। दासी किसी तरह भागकर खुलम पहुंच गई। काबुलसे भागकर आनेपर मीरवलीने उसे देनेसे इनकार कर दिया। इस प्रकार दोस्त मुहम्मदके लिये आक्रमण करनेका अच्छा बहाना मिल गया। १८४५ ई०में अफगानोंने चढ़ाई की, लेकिन लड़ाईमें तुरन्त सफलता नहीं मिली, जिसमें सबसे बड़ी बाधा हिन्दूकोह (हिन्दूकुश)की दुर्गम पहाड़ियां थीं। १८५० ई०में अफगानोंने हिन्दूकुश पार करके बलखको जीत लिया। १८५९ ई०में कुन्दुजको भी लेकर वह दक्षिणी तुखारिस्तानपर अधिकार करके अपनी आजकी सीमाको स्थापित करनेमें सफल हुये—अफगान अपने इस इलाकेको तुखारिस्तान नहीं तुकिस्तान कहते हैं।

दोस्त मुहम्मदके बाद उसके पुत्र अफजलखाने—जो बलखका राज्यपाल था—१८५४ ई०में अपने भाई शेरअलीके विरुद्ध असफल विद्रोह किया। १८६४ ई०में फिर उसे अपने पदपर बहाल कर दिया गया। अफजलके पुत्रने बुखारा भागकर अमीरकी लड़कीसे ब्याह किया। फिर वह अपने समुरकी सहायता तथा दूसरोंकी मददसे विद्रोह करके १८६६ ई०में शेरअलीको हटा खुद काबुलकी गद्दीपर बैठा। शेरअलीका तब भी कन्दहार और हिरातपर अधिकार रहा। शेरअलीने फिर १८६८ ई०में तैयारी करके मुकाबिला किया, और अन्तमें सिंहासन पानेमें सफल हुआ। अफजल-पुत्र अमीर अब्दुर्रहमान मशहद भागा, जहाँसे मार्च १८७० ई०में ताशकन्दमें रूसियोंके पास गया। उन्होंने उसे पचीस हजार रूबल वार्षिक पेंशन दे समरकन्दमें रख दिया।

अफगानिस्तान ब्रिटिश और जारशाही साम्राज्यके बीचमें था। उसपर दोनों महाशक्तियां अपना प्रभाव डालनेकी कोशिश करती थीं, इसलिये रुसियोंका अब्दुर्रहमानको समरकन्दमें या अंग्रेजोंका अमीर याकूबको लाकर मसूरी (१८८३ ई०)में रखना कोई व्यर्थका सिर-दर्द नहीं था। अफगानोंने दक्षिणी तुखारिस्तानपर अधिकार करके बदख्शांमें फिर एक स्थानीय शासकको नियुक्त किया।

(३) बदख्शां—१३वीं सदीमें प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलो बदख्शांके रास्ते चीन गया था। उस समय वहांका शासक अपनेको ग्रीक-सम्राट् अलिकसुन्दरका वंशज बतलाता था। बाबरके समय भी उनके बारेमें यही ख्याति थी। कोई आश्चर्य नहीं, यदि ग्रीक-बाख्तरी साम्राज्यके नष्ट होनेपर कोई राजकुमार वहां जाकर शासक बना हो, या कोई कुषाणवंशी राजकुमार जाकर रहने लगा हो, जिसके उत्तराधिकारी ग्रीकों और शकोंमें भेद करना भूल गये हों। उज्बेकोंने बदख्शांको जीतकर बुखाराके अधीन कर लिया था। बुखाराके शासनके निर्बल होनेपर १८वीं सदीमें बदख्शां स्वतंत्र हो गया। अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट १८३२ ई०में इधरसे गुजरा था, उस समय तत्कालीन राजवंशको स्थापित हुये सौ साल हो चुके थे।

सुल्तानशाह बदख्शांके राजवंशका संस्थापक था, जिसकी राजधानी फैजाबादको भी उसीने बसाया था।

(क) सुल्तानशाह (१७६५ ई०)—जिस साल चीनन वहांके शासक खान खोजासे काशगरको जीता, उस समय बदख्शांका शासक सुल्तानशाह था। खान खोजाने भागकर चालीस हजार आदमियों के साथ बदख्शांमें शरण ली थी। उसके धन और बेगमोंके लोभसे सुल्तान शाहने उसपर आक्रमण कर दिया। खान खोजाने हार खाते समय शाप दिया, कि बदख्शां तीन बार निर्जन बनेगा, और वहां एक कुत्ता भी जिन्दा नहीं रह जायगा। कुछ साल बाद १७६५ ई०में अफगान अमीर अहमदने बदख्शां जीत लिया, जिसमें सुल्तानशाह मारा गया। उस समय बदख्शांमें पैगम्बर मुहम्मदका कुर्ता बड़ी पवित्रताकी चीज समझा जाता था, जिसे अफगान फैजाबादसे काबुल ले गये।

(ख) मीर मुहम्मद शाह (१७६५-१८१२ ई०)—सुल्तानकी जगहपर उसके पुत्र मीर मुहम्मदको बैठाया गया। १८१२ ई०में जब इज्जतुल्ला इधरसे गुजरा, तो यही बदख्शांका शासक था।

(ग) मीर यारबेक खान (१८२३ ई०)—मुराद बीने इसे १८२३ ई०में किला-अफगानमें हराया, और १८२९ ई०में बदख्शां बिलकुल मुराद बीके हाथमें चला गया। वह यहांके बाशिन्दोंको कुन्दुज ले गया। मीरयारबेकका भाई मीर मुहम्मद रजाबेक तालिकानमें भाग गया।

(घ) जहांदारशाह (१८५९-६१ ई०)—अफगानोंने बदख्शांपर अधिकार करके १८५९ ई० में पुराने वंशके जहांदारशाहको फिर अपनी ओरसे गद्दीपर बैठाया। चित्रालके मेहतरने इन्कीस दास-दासियोंको भेजकर अपनी लड़कीका व्याह जहांदारके लड़केके साथ किया। १८६१ ई०में इसे गद्दीसे हटा दिया गया।

(ङ) महमूदशाह (१८६१ ई०)—जहांदार अमीर शेरअलीके प्रतिद्वंद्वीका पक्षपाती था, इसीलिये उसे हटाकर उसके भतीजे महमूदशाहको गद्दीपर बैठाया गया। इस समय बदख्शां कई इलाकोंमें बंटा हुआ था, जिनमें फैजाबाद और गर्म सीधे महमूदशाहके शासनमें थे, और दराइम, शहरसब्ज (दक्षिणी), गुम्बज, फराखर, किरम, रूस्तक, इशकासिन, वखान, जेबक, मिन्जान, राग, दौग और आसियाबीमें खानदानी अमीर महमूदशाहकी अधीनतामें शासन करते थे।

तुखारिस्तानके पश्चिमी भागमें कई और छोटे-छोटे राज्य थे, जो अन्तमें अफगानिस्तानके हाथमें चले गये थे।

(४) मेमना—नादिरशाहकी मृत्युके बाद वहांके राज्यपाल हाजीखानने अपनेको स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके बाद उसका छोटा लड़का अहमद १७९८ से १८०९ई० तक शासन करता रहा। फिर उसका चचेरा भाई अलायार खां १८१० से १८२६ ई०तक मेमनाका स्वामी रहा। इसके बाद मिजराब खान गद्दीपर बैठा, जिसे उसकी एक बीबीने जहर दे दिया। उसके पुत्रोंमें उत्तराधिकारके लिये झगड़े शुरू हो गये, जिसका फैसला हिरातके अफगान-राज्यपाल यारमुहम्मदने किया—बनियों और किसानोंका शासक उकमेत और किलेकी सेनाका कमांडर शेरखांको

बनाया गया। शेरखां १८५३ ई० तक शासक रहा। उकमेत खानको उसके भाई मिर्जा याकूबने किलेकी दीवारसे गिराकर मार दिया, जिसके बाद उकमेतका पुत्र हुसेन खां गद्दीपर बैठा, किन्तु सारी शक्ति उसके चचा याकूबके हाथमें थी। याकूब जुरमानाकी जगह आदमियोंको बुखारामें गुलाम बना बेंचनेके लिये भेज देता था। हुसेन खां काबुलका नहीं, बल्कि बुखाराका पक्षपाती था। उसने लम्बे केशोंवाली अफगानोंकी तीन सौ खोपड़ियोंसे अपने किलेके दरवाजेको सजाया था, और १८६३ ई०में काबुलपर चढ़ाई करनेकी सोच रहा था, लेकिन इसके बाद ही उसके संरक्षक अमीर-बुखाराको भी रूसियोंकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी।

(५) अन्दखुद (अन्वखोइ)—यह बुखारा और हिंरातके बीचमें खुरासानका एक भाग है जो देरतक अफगानिस्तानके हाथमें रहा। यहाँ अहमदशाह अब्दालीके पुत्र तेमूरशाहके नामका खुतबा और सिक्का चलता रहा। तेमूरशाहकी ओरसे अफशार कबीलेका सरदार रहमतुल्ला यहाँका शासन करता था। बुखाराके अमीर शाह मुरादसे लड़ते वक्त वह मारा गया। इसके बाद इल्दुज खान शासक था। १८४० ई०में अन्दखुदको बुखाराने ले लिया। यहाँके बाशिन्दे मुख्यतः तुर्कमान हैं। अन्दखुदको वास्तविक नर्क कहा जाता था—यहाँका पानी खारा और कड़ुवा है, रेगिस्तानमें बालू तपती है, और जहरीली मक्खियाँ और बिच्छू यहाँ बहुत मिलते थे। लेकिन अब तो वह कलका नर्क सोवियत तुर्कमानिस्तानका भाग बनकर वास्तविक स्वर्ग बननेके रास्तेमें है।

(६) साबिरगान—१८१२ ई०में यहाँ इरज खान फिर गस्तम खान शासक रहा। १८५३ ई० में इसे अफगानोंने ले लिया, और तबसे अफगानिस्तानमें है।

(७) सरीपुल—महमूद खान यहाँका शासक था, लेकिन काबुलके अमीर दोस्त मुहम्मदने १८५३ ई०में जब साबिरगानको लिया, उमी समयसे सरीपुल भी काबुलके हाथमें चला गया।

१९वीं शताब्दीके उत्तरार्धमें एक अंग्रेज लेखकने अफगानी तुर्किस्तानके बारेमें लिखा था—“इन उज्बेक रियासतोंका अधिकांश, चाहे नामके लिये ही हो, अब अफगानोंकी प्रजा हैं, लेकिन अभी हाल हीमें अफगानोंने इन्हें जीता है, और वह अफगानी जूयको खुशीसे उठानेके लिये तैयार नहीं हैं। यह अंग्रेजोंके लिये कहाँतक बुद्धिमानीकी बात है, जो कि वह आजतक इन रियासतोंको अफगानिस्तानका अभिन्न अंग माननेपर जोर दे रहे हैं। अंग्रेजोंका ऐसा करना राजनीतिक बात हो सकती है, लेकिन नृवंश और इतिहासकी वह बात नहीं है। इसे असंदिग्ध रूपसे कहा जा सकता है, कि नसल और इतिहास दोनोंकी दृष्टिसे याँके मंत्रमें अधिक निवामी काबुल नहीं बुखारासे संबंध रखते हैं।”

अंग्रेजोंके बलपर अफगानोंने इग शुद्ध उज्बेक हलाकेको अपने हाथमें बनाये रखा। पहले तो अमीरों-अमीरोंका सवाल था, लेकिन अब वक्षु नदीके उत्तरमें मध्य-एसियाके बहुत शक्तिशाली, तथा विद्या और उद्योग-धंधेमें आगे बढ़ी उज्बेक जातिका अपना गणराज्य है। वक्षुके दक्षिण तटके उज्बेक परले पार नेमिज नगरीको गानको हजारों बिजलीके चिरागोंसे जगमगाते और दिनको कारखानोंकी चिमनियोंसे धुआ उगलते देवदार ठंडी आग लेकर कहते हैं—“कबतक हम अपने उत्तरी भाइयोंसे अलग रखे जायंगे ?”

स्रोत-ग्रन्थ

१. आजियात्स्कया रोस्सिया (अ. क्रूवर आदि, १९१० ई० पृष्ठ २३६-४८)
२. इस्तोरिया सससर (अ. म. र. दोनिकन् ४ जिल्द)
३. तुर्कस्तान्स्को बोयेन्नओ ओक्रुग् (३ जिल्द, १८८०)
४. ओत्चेत् ओ कोमेन्दरोव्के व् तुर्कस्ताने (व. व. वेर्तोल्द, “इजूवेस्तिया रोस्सिइस्कोइ अकदमिइ इस्तोरिइ मतेरिअल्नोइ कुल्तुरी, जिल्द १. पृष्ठ १-२२)
५. La rivalite anglo-russie on XIX siecle en Asie (A.M.F. Rouire, Paris 1908)
६. History of Mongol (H. H. Howorth, London (1876-88))

खीवाके खान (१७००—१८८१ ई०)

खीवा अर्थात् प्राचीन ख्वारेज्ममें किस तरह उज्बेकोंके खान शासन करन लगे, इसके बारेमें हम पहले बतला चुके हैं। १८वीं सदीके आरम्भमें पहला उज्बेक-वंश खतम हो गया, लेकिन मध्य-एशियामें अब भी चिङ्ग-गिस् खानवाले राजकुमारोंकी बड़ी मांग थी, इसलिये उन्हें ढूँढ़-ढूँढ़कर लाकर खान बनाया जाता था। ऐसे ही बाहरसे लाये हुये खानोंने प्रायः सौ सालोंके लिये खीवाको अपने हाथमें रखा, जिसके बाद अन्तिम कंकुरत-वंशने शासन किया।

§१. बाहरी वंश (१७००—१८०४ ई०)

अधिकारच्युत वंशके राजकुमार अब भी ढूँढ़नेसे मिल जाते, लेकिन अन्तिम खानोंके अत्याचरोंसे तंग आकर खीवाके प्रभावशाली आदमियोंने उन्हें लेना पसंद नहीं किया, और बुखाराके राजवंश एवं कजाकों और कलमकोंमें दूत भेजकर किसी राजकुमारको ढूँढ़ना चाहा। इस समय पुराने राजवंशके कितने ही लोग अरालके एक द्वीपमें रहते थे। पहला खान अरंक बनाया गया, जो कराकल्पकके खानोंसे संबंध रखता था।

१. अरंक, एवरंक, अवरंग खान

बादशाह औरंगजेबका ही नाम इस खानका भी था, और शायद यह औरंगजेबका अन्तिम समकालीन था। लेकिन यह या इसके वंशने बहुत दिनोंतक शासन नहीं किया और लोगोंने इसके बाद शेरगाजीको खान बनाया।

२. शेरगाजी (—१७१३ ई०)

खीवाका खान बननेसे पहले शेरगाजी बुखारामें रहता था, वहीसे इसे लाया गया। १७१३ ई०में तुर्कमान सरदार खोजा नफस अस्त्राखान गया था। वहां वह राजुल समानोफसे मिला। समानोफ गेलानका निवासी था, लेकिन पीछे रूसमें ईसाई बनकर बस गया था। खोजाने उसे समझाया, कि तुर्कमानोंको मिलाकर निम्न-वक्षुके जिलोंको रूसियोंको ले लेना चाहिये, वहां बहुत सोना है। उसने यह भी बतलाया, कि उज्बेक-शासकोंने रूसियोंके भयसे ही बांध बांधकर वक्षुको कास्पियनसे हटा अराल समुद्रमें डाल दिया, उसे फिर कास्पियनमें डाला जा सकता है, उसके बाद आसानीसे वोल्गाके जहाज कास्पियन होकर वक्षुके भीतर जा सकेंगे। खोजाकी यह बात यद्यपि अब २०वीं शताब्दीके उत्तरार्द्धमें सच्ची होने जा रही है, लेकिन उस समय उसने इसे रूसियोंको लोभमें डालनेके लिये कहा था। इसी समय राजुल गागरिनसे पीतर I को पता लगा, कि यारकन्दके पास सोनेकी खानें हैं। पीतरको अपने युद्धोंके लिये सोनेकी बड़ी अवश्यकता थी। ऐसे समय कितने ही शासक कीमियांगरोंके जालमें पड़ते देखे गये हैं, इसलिये यदि सोनेकी खानोंकी ओर पीतर असाधारण रूपसे आकृष्ट हुआ हो, तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। खोजाको अपने साथ ले राजुल समानोफ राजधानी पीतरबुर्ग गया। उस समय गारद-कप्तान तथा मुसलमानसे ईसाई बना राजुल बेकोविच चेर्कास्की सम्राट्का बहुत प्रिय दरबारी था। उसने दोनोंको जारसे मिलाया। पीतरबुर्गमें रहते खीवाके दूत अशुरबेक (१७१३—१५ ई०)

ने उनकी बातका समर्थन करते हुये कहा, कि रूसियोंको वक्षुके कास्पियनमें गिरनेके पुराने स्थान (शायद क्रासिनोवोद्स्क)को दस हजार सैनिकोंके रखने लायक बनाना चाहिये। यदि रूसी वक्षुको उसकी पुरानी धारमें डालना चाहेंगे, तो हमारा खान (शेरगाजी) विरोध नहीं करेगा। अशुरबेक बहुत-सा भेंट-उपहार पाकर १७१५ ई०में अपने खानके पास लौटा, लेकिन अरंग और शेरगाजीके सिंहासनारोहणके समय हुई गड़बड़ीके कारण वह अस्त्राखानमें रुक गया। इसी समय पीतरने अशुरबेकको भारत जा वहांसे तोता और चीता लानेके लिये कहा। राजुल बेकोविच चेर्कास्की (चेरकास-राजकुमार) ने ईरानके शाह हुसेनके शासनकी गड़बड़ियोंके समय रूसमें शरण ली थी। उसक मरनेपर उसके पुत्र अलकसान्द्रने ईसाई बन राजुल बोरिस अलकसान्द्र-पुत्र गालितजिनकी लड़कीसे ब्याह किया, और पीतरका गारद-अफसर बना। इसी अलकसान्द्रके नतत्वम पीतरने खीवाके लिये एक अभियान भेजा। उसके जिम्मे काम दिया गया था—वक्षुकी पुरानी धाराकी सर्वे करना, ख्वारेज्मके खानसे रूसकी अधीनता स्वीकार कराना, और उपयुक्त स्थानोंपर किले बनवाना। यह सब काम कर लेने पर बुखारा के अमीरसे बातचीत करना, फिर लेफ्टिनेंट कोजिनको भेजकर स्थलमार्गसे भारत जानेके रास्तेका पता लगाना, और एक दूसरे आदमीको यारकन्दक सोनेकी खानोंके बारेमें जाननेके लिये भेजना।

पीतरने उज्बेक-खानों और दिल्लीके बादशाहके लिये चिट्ठियां दी थीं। १७१६ ई०की गर्मियोंमें राजुल बेकोविच चार हजार आदमियोंके साथ रवाना हुआ। उसने कास्पियन तटपर करागन, अलकसान्द्रोवयेस्क और क्रासिनोवोद्स्कके किले बनाये, जिनमें अन्तिम उसी जगह बनाया गया, जहांपर पहले वक्षु कास्पियनमें गिरती थी। इन किलोंमें सैनिकोंको रखकर बेकोविचने खीवाके खानको अपने आनेकी खबर देनेके लिये किरियक (ग्रीक) वोरानिनको भेजा। वोरानिन अस्त्राखानम बसे ग्रीकोंमेंसे था। राजुल स्वयं वोल्गाके तटपर लौट आया। कजानसे पांच सौ स्वीड युद्धबंदियोंको भर्ती करके मेजर फ्रांकेनबर्गको उनका अफसर बना बेकोविचने फिर वोल्गातटसे १ जुलाई १७१७ ई०को प्रस्थान किया। अबकी उसने प्रेबेन्स्कके रूसी कसाकों और नोगाइयोंके इलाकेमें होते स्थलमार्गसे यात्रा की। बेकोविचके साथ अस्त्राखानके रहनेवाले तीन सौ तारतार, कितने ही और बुखारी कारीगर आदि भी थे। गुरियेफमें पहुंचनेपर उरालके पंद्रह सौ कसाक आ मिले। दो दिन बाद यम्बा नदीके तटपर पहुंच बेडोंका पुल बना उसे पार किया। बेकोविचने भारतका रास्ता ढूंढनेके लिये मिर्जा तौकेलेफको भेजा, लेकिन उसे ईरानियोंने अस्त्राबादमें रोक लिया, जहांसे पीछे उसे अस्त्राखान भेज दिया गया। यद्यपि उस समय अस्त्राखान, बाकू, बुखारा, समरकन्द आदिमें काफी संख्यामें भारतीय ब्यापारी रहते थे, जिनसे भारतका रास्ता आसानीसे मालूम हो सकता था, लेकिन पीतर सैनिक दृष्टिसे भी सुभीतेका कोई रास्ता ढूंढना चाहता था।

यहां बेकोविचको कलमक थैची आयुका और पहले भेजे दूत वोरानिनने बतलाया, कि खीवावाले अभियानका विरोध करेंगे। यम्बा तटसे दो दिन चलनेके बाद वह बगवतोफ और पांच दिन और चलकर इरकित्श-गिर (उस्तुर्त या चिक) पहुंचा। उस्तुर्तकी ऊंची अधित्यकाको पार करके वह अराल समुद्रके तटपर गया। अब वह ऐसी भूमिमें थे, जहां इतने आदमियोंके लिये पानी मिलना आसान नहीं था। इसके लिये उन्हें जगह-जगह नये कुएं खोदने पड़े, और कितने ही पुराने कुओंकी मरम्मत करनी पड़ी। इस प्रकार पानीका प्रबंध करके वह सात सप्ताह तक चलते गये। जब खीवा चार दिन रह गया, तो खानके दूत घोड़ों, चोगों आदिकी भेंट ले बेकोविचके पास आये। यद्यपि उन्होंने एक ओर बाहर से इस तरह शिष्टाचार दिखलाया, दूसरी ओर खीवाके घुड़सवार बेकोविचके ऊपर आक्रमण करते रहे। बेकोविचके आदमियोंने भी अपने बारूदी हथियारोंसे मुकाबला किया, जिसपर लीग अपने कस्बों और गांवोंको छोड़कर खीवाकी ओर भागने लगे। खानने शत्रुकी शक्तिका अंदाजा लगा चाल चलते हुये कहा—“गलतीके लिये हम क्षमा मांगते हुये आपका स्वागत करते

हैं, लेकिन आपकी सेनासे लोग भयभीत हैं। सेनाको वहीं रखकर आप मामूली आदमियोंके साथ पधारिये।” इसपर पांच सौ आदमियोंको साथ ले बेकोविच खीवा शहरमें पहुंचा। खानने पीछे छोड़े सैनिकोंके नाम बेकोविचसे जबर्दस्ती या जाली चिट्ठी लिखवाई, जिसमें कहा गया था कि अपने हथियारोंको खानके अफसरको दे दो और एक नगरमें जाकर डेरा डालो। रूसियोंको क्या पता था? उन्होंने चिट्ठीको सच्ची मानकर हथियार दे दिये, और भिन्न-भिन्न जगहोंमें जाकर डेरा डाला। इसी समय खीवावालोंने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। जो मारे जानेसे बचे उन्हें उन्होंने दास बना लिया। कुछ रूसी सैनिक और तोपखानेके आदमी डरके मारे खानकी सेनामें भी भर्ती हो गये। बेकोविचको लाल कपड़ा पहनाकर खानके तम्बूके सामने ला उसे सिज्दा करनेके लिये हुक्म दिया गया। इन्कार करनेपर पहले उसके पैर काट डाले गये, फिर बड़ी क्रूरतासे उसके प्राण लिये गये। उसकी खालमें भूसा भरकर बुखाराके खानके पास भेज दिया गया, लेकिन उसने उसे लेनेसे इन्कार कर दिया, और खीवाके दूतको यह कहकर भगा दिया, कि तुम मनुष्यका खून पीनेवाले नरभक्षक हो। राजुल समानोफ और दूसरे प्रमुख व्यक्तियोंके सिरोंको काटकर खीवाके दरवाजोंपर भालेसे लटका दिया गया, जो बहुत सालों तक वैसे ही लटकते रहे। तुर्कमानोंने उस समय उज्बेकोंसे खरीदे दो रूसी गुलामोंको हेन्वे नामक एक युरोपीय सरदारको बेचना चाहा। कहते हैं, बेकोविचके बच्चे और बीबी वोल्गामें डूब मरे थे, जिसके कारण भी उसका दिमाग ठीकसे काम नहीं कर रहा था, और वह इतनी बड़ी गलती कर बैठा।

पीतरने फिर भी मध्य-एसियाको छोड़ा नहीं। उसने तुर्की-फारसी जाननेवाले अपने एक इतालियन नौकर फ्लोरियो बेनेवेनीको भेजा, जो ईरानके रास्ते नवम्बर १७२१ ई०में बुखारा पहुंचकर वहां चार साल रहा। अबुल्फैज मुहम्मद खाने बेनेवेनीकी बहुत खातिर की थी।

शेरगाजीको पहिले कितने ही उज्बेक बुखाराके तख्तपर बैठाना चाहते थे, लेकिन उसमें सफल न हो वह जब खीवाकी गद्दीपर बैठा, तो उसके आदमी बुखारामें लूटमार करने लगे। इसपर बुखारियोंने खीवाके पुराने वंश अरालियोंका पक्ष लेना चाहा। उन्होंने १७०७ ई०में अबुलगाजीके वंशज तेमूर सुल्तानको शेरगाजीका प्रतिद्वंद्वी खड़ा किया—वह मूसाखानका पुत्र था, जो बापके मरनेपर बुखारामें रहता था। तेमूरका बड़ा भाई बलखका राज्यपाल था। बड़े भाईको अरालियोंने अपना खान चुना था। बुखारियोंकी मददसे तेमूर सुल्तानने दो बार खीवापर आक्रमण किया। शेरगाजीको बुखारा और तेमूरसे ही मुकाबिला नहीं करना था, बल्कि उसे रूसियोंसे भी बहुत भय था। उसने पीतरको प्रसन्न करनेके लिए रूसी बंदियोंको छोड़ दिया और बेनेवेनीको खीवा आनेके लिये बहुत आग्रह किया। इस समय बुखारामें बड़ी अराजकता फैली हुई थी। वहाके खान अबुल्फैजके खिलाफ यह भी इल्जाम लगाया जाता था, कि उसने एक काफिर (बेनेवेनी) को अपने पास रख रक्खा है। पीतरने ईरानपर जो सफल अभियान किया था, उसकी खबर पा उज्बेकोंका दिमाग कुछ ठंडा हुआ, लेकिन शेरगाजीकी परेशानी कम नहीं हुई। १६ मार्च १७२५ ई० को बेनेवेनीने अपनी सरकारके पास पत्र लिखा था, कि बुखाराकी हालत बहुत डांवाडोल है; सारे रास्ते लुटेरोंके हाथमें हैं। बलखके पुराने शासकने तेमूरके भाईसे उस इलाकेको छीनकर उसे मार डाला। शेरगाजीके लिये दो साल बहुत मुसीबतके थे। तेमूर सुल्तान और उसके सहायक अरालियों और कराकल्पकियोंने दो बार खीवापर चढ़ाई की। रजीम खानके समरकन्दसे आकर बुखारापर चढ़ाई करनेकी खबर आई, जिससे लोगोंमें बड़ी घबराहट मच गई। जिस समय बुखाराकी यह हालत थी, उसी समय बेनेवेनीने मशहदका रास्ता लेना चाहा। तब खीवाका पल्ला भारी हो गया था। १० फरवरी १७२५ ई०को बेनेवेनी चुपकेसे निकल पड़ा और किसी तरह तुर्कमानोंके खतरेसे बचते खीवा पहुंचा। लोग कहीं गुप्तचर न समझ लें, इसलिये उसने युरोपीय छोड़ एसियाई पोशाक पहिन दाढ़ी रख ली थी। खीवा-खानने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया, और गुलाम रूसियोंके छोड़ देनेका वचन दिया। बेनेवेनीके खीवा पहुंचनेसे पहले ही तेमूर सुल्तान खीवापर आक्रमण करनेकी तैयारी कर रहा था, इसलिये भी शेरगाजी बहुत परेशान था। पीतरका दूत खीवाके राजदूत सुभानकुल्लीको ले वहांसे अगस्तमें रवाना हुआ,

और रूसकी सीमामें सुरक्षित पहुंच गया। इस समय ख्वारेज्म मध्य-एशियामें गुलामोंका सबसे बड़ा बाजार था। वहां दस हजार रूसी और ईरानी गुलाम खेतों और नहरोंपर काम करते थे। रूसी तो ईसाई होनेके कारण काफिर थे ही, ईरानियोंको शीया होनेकी वजहसे मुल्लोंने काफिर होनेका फतवा दे दिया था, इसलिये उनके बेचने-खरीदनेमें कोई रुकावट नहीं थी। खीवाकी बाजारसे इन अभागों गुलामोंको कजाक, तुर्कमान और कल्मक खरीद ले जाते थे। १७२८ ई०में रूसी और ईरानी गुलामोंने शेरगाजीको मारकर तेमूर सुल्तानको खान बनानेकी योजना बनाई थी, लेकिन पहिले ही भंडाफोड़ हो गया। बहुतसे षड्यंत्रकारी मार डाले गये, और अरालके खानको दो दिन बाद आकर खाली हाथ लौटना पड़ा।

१७३१ ई०में रूसकी शासिका रानी अन्ना (१७३०-४० ई०) थी। उसने कर्नल एर्दबर्गको दूत बनाकर खीवा भेजा, लेकिन रास्तेमें ही डाकू उसपर टूट पड़े, और सब माल गंवाकर उसे पीछे लौटनेके लिये मजबूर होना पड़ा।

३. इलबर्स (—१७४० ई०)

शेरगाजीके तुरन्त ही या कुछ साल बाद इलबर्स खीवाका खान बना। यह कजाकोंके खानवंशका था। १७३९ ई०में दिल्लीकी सड़कोंपर खूनकी नदियां बहा नादिरशाह जब लौटा, तो बुखाराके अमीर अबुल्फैजने उसे स्वागतका न्यौता दिया। उसने इलबर्सको भी इसकी खबर दी, जिसपर उसने जवाब दिया—“एक पापी आत्माको जबर्दस्ती तुम स्वर्गमें नहीं प्रविष्ट करा सकते।” नादिर जिस वक्त भारतमें लूटमार करनेके लिये गया था, उसी समय मैदान खाली पाकर इलबर्सने खुरासानको लूटा। भारतसे लौटनेपर चारबेकरसे नादिरने इलबर्सको अपने पास आनेके लिये संदेश भेजा, लेकिन जाकर नादिरके सामने कोनिश करनेकी जगह इलबर्सके तीन हजार यामूद चारजूयपर चढ़ आये, जिन्हें नादिरके हाथों पिटना पड़ा। अबुल्फैजने बीचमें पड़कर क्षमादान दिलानेका प्रयत्न किया, और इसके लिये अपने तीन दूत इलबर्सके पास भेजे। इलबर्सने दो दूतोंको मरवा दिया और तीसरेको नाक-कान काटकर लौटाया। नादिर भला खीवाके खानकी इस गुस्ताखीको कैसे सह सकता था? उसने अपनी सेनाको दो भागोंमें बांटकर खीवापर चढ़ाई की। एक सेना वक्षुके बायें तटसे बढ़ी, और दूसरी दाहिनेसे। साथमें बहुतसी नावोंका बेड़ा भी चल रहा था। नादिरकी सेना जल्दी ही हजारारूप पहुंच गई। इलबर्स भी तैयार था। नादिरने हजारारूपसे आगे बढ़कर एक सेनाको खानकाह जानेका हुक्म दिया—इलबर्स उस समय खानकाहमें था। नादिरने आत्म-समर्पण करनेके लिये तीन दिनकी मुहलत दी। इसपर इलबर्स गर्दनमें तलवार और रस्सी बांधे नादिरके सामने आया, जिसने उसे माफ कर दिया। लेकिन इलबर्सने किसी खोजा (सैयद)का सिर कटवा लिया था। खोजाके पुत्रोंने खूनका बदला लेनेकी मांग की, जिसपर नादिरके हुक्मसे इलबर्स और उसके बीस अफसर मारे गये। खीवा छोड़ ख्वारेज्मके बाकी शहरोंने नादिरके सामने आत्म-समर्पण किया। इस संघर्षके समय इलबर्सने लघु-ओर्दुके प्रसिद्ध खान अबुल्खैरसे सहायता मांगी थी, और उसने आकर खीवापर अधिकार कर लिया था। इसी समय अबुल्खैरके बुलानेपर रूसी सैनिक इंजीनियर ग्लादिशोफ, मुराविन और नजिमोर सिर-दरियाके मुहानेपर रूसी किला बनाने आये थे। वह दस्ते-कजाककी सर्वे कर चुके थे। खानको उसके डेरेमें न पा वह भी खीवा गये। अबुल्खैरने कुछ सुल्तानोंके साथ मुराविनको नादिरके पास भेजा, जिसने उनका अच्छा स्वागत किया। उसने अबुल्खैरको बुला भेजा, लेकिन वह नादिरपर क्यों विश्वास करने लगा? नादिरकी कृपासे खीवाको हाथमें रखनेकी जगह अबुल्खैरने देश लौट जाना ही अच्छा समझा। खीवाके नागरिकोंने चार दिनतक नादिरके आक्रमणको विफल करनेकी कोशिश की, लेकिन अन्तमें आत्म-समर्पण करना पड़ा। नादिरने चार हजार तरुण उज्बेकोंको अपनी सेनामें भर्ती करके खुरासान, और बारह हजार रूसी तथा ईरानी गुलामोंको मुक्त करके अपने घर भेज दिया। उन्हींके बसनेके लिये नादिरने अबीवर्दके पास एक नया शहर बसाया।

१७७० ई०में वोल्गा तटके तोरगूत मंगोलोंके प्रस्थानके समय उसने उनपर आक्रमण करके "गाजी" (धर्मयोद्धा)का नाम पाया। पीछे १७८६ ई०में लघु-ओर्दूके एक कबीलेने उसे अपना खान भी चुना। काइपने अमीर-बुखारा अबुल्फैज खांकी लड़की व्याही थी। उसकी मृत्यु १७९१ ई०के आसपास हुई।

८. अबुलगाजी III (—१७५५ ई०)

खीवामें अब वास्तविक शक्ति ईनकों (प्रधान-मंत्रियों)के हाथमें थी। उज्बेकोंमें कंकुरत (कूनगरद) कबीलेका प्रभाव छिड़-गिस् (चिंगिस) खानके समयसे ही बहुत था, यह हम पहले बतला आये हैं। मूलतः यह मंगोल कबीला था, जो पीछे तुर्क बन गया। कंकुरतोंके बी (बेग या अमीर) वंशानुवंश क्रमसे ईनक (वजीर) तथा हजारासपके राज्यपाल होते आये थे। १८वीं सदीमें बुखारा और खीवा दोनोंमें हालके नेपाल और पिछली सदी तकके जापानकी तरह दो राजा हुआ करते थे। खानको बस अच्छा-अच्छा खाना और सुनहला जामा पहनकर मौज करनेकी छुट्टी थी। उसके दरबारमें सलाम करनेके लिये प्रति दिन ईनक और बड़े-बड़े दरबारी जाते थे। राज्यका सारा काम ईनकके हाथमें था। प्रत्येक शुक्रवारको दरबारी महलमें जाते, जहां खानके पास ईनक बैठता। जब नमाजका वक्त आता, तो ईनक खानको उठनेमें सहारा देता, उसे मस्जिद ले जाता, और नमाजके बाद लौटा लाता। खीवाके खान इसी तरहके गुड़िया खान थे, जिनका काम था ईनकोंके हाथमें नाचना। इसी गुड़िया-खानकी जगह लेनेके लिये कजाकों या कराकल्पकोंमेंसे किसी छिड़-गिस्-वंशीको लाया जाता, और जबतक पसंद आता, रखकर उसे निर्वासितकर किसी दूसरेको खान बनाया जाता। इशमद बी सबसे पुराने ईनकोंमेंसे था। पता लगता है, कि उसके बाद उसका पुत्र मुहम्मद अमीन १७५५ ई०में ईनक बन सत्रह साल-तक शासन करता रहा। इसके शासनकालमें खीवाकी समृद्धि बढ़ी। उस समय खीवाका अपना कोई सिक्का नहीं था, ईरान और बुखाराके सिक्के ही वहां भी चलते थे। शुक्रवारकी नमाजके खतबेमें गुड़िया-खानका नाम लिया जाता था। मुहम्मद अमीनकी मुहरपर खुदा हुआ था—“अल्लाह और पैगम्बरकी मेहरबानी, खानका एक दास, जिसपर वह विश्वास कर सकता है।” जिस तरह खीवामें ईनकोंकी चलती थी, उसी तरह बुखारामें इसी समय अतालीकोंकी चल रही थी। बुखाराका अतालीक दानियाल बी ईनक मुहम्मद अमीनका गहरा दोस्त था, जिसने हाथसे निकल गये अधिकारको पानेमें अमीनकी मदद की थी। मुहम्मद अमीनके बाद उसका पुत्र एवज ईनक बना। यह बड़ा ही समझदार और सादगीसे रहनेवाला आदमी था। इसके समय यामूदों (तुर्कमानों), मंगिशलकों (तुर्कमानों) और कजाकोंने विद्रोह किया, जिसमें उसके अपने संबंधी तथा अरालके कंकुरतोंके नेता तुरासूफीने भी विद्रोहियोंका साथ दिया।

अक्टूबर १७९३ ई०में रूसी डाक्टर मेजर ब्लांकेन्नागेल खीवा पहुंचा। गुप्तचर समझकर उसे शहरके नजदीक एक घरमें नजरबन्द करके मारना चाहते थे; किन्तु ईनकके भाई, बुढापेके कारण अंधे फाजिल बीको डाक्टरकी दवासे फायदा हुआ, जिससे उसका मान बढ़ गया। डाक्टरने बहुत समझाया, कि खीवावालोंको मंगिशलकमें जा रूसियोंके साथ व्यापार करनेसे बहुत फायदा होगा, लेकिन आम एसियाइयोंकी तरह खीवावाले भी यूरोपियोंपर विश्वास नहीं करते थे। डाक्टरके लिखे-अनुसार उस समय खीवाके राज्यमें एक लाखसे अधिक आदमी नहीं थे, जिनमें उज्बेक ४१ प्रतिशत, सर्त (फारसीभाषी) १५ प्रतिशत, कराकल्पक १० प्रतिशत, यामूद ५ या ६ प्रतिशत थे। बाकी १८ या १९ प्रतिशत दास थे। खीवाकी सेनामें बारह या पंद्रह हजार सिपाही थे, जिनमेंसे दो हजारके पास ही बन्दूकें थीं, बाकी तलवार, भाला, तीर, कमानवाले थे। यामूद और कराकल्पक सबसे अच्छे सिपाही माने जाते थे, जिनके बाद उज्बेकोंका नम्बर आता था। उस समय काइपका पुत्र अबुलगाजी खान था, जो एकांतमें रक्खा जाता, और साल भरमें तीन बार ही प्रजाके सामने आने पाता था।

१८०४ ई०में ईनक एवज मर गया। भाइयों और दूसरे अभीरांतने कुथमुराद बेकको ईनक

बनाया, लेकिन उसने अपने भाई इल्तजारके लिये पदको लेनेसे इन्कार कर दिया। इल्तजारने छ महीनेतक ईनकके तौरपर काम किया। वह रोज खान (कजाक)के पास मुजरा करने जाता। एक रात उसने अपने भाई कुतुलुक मुरादको बुलाकर कहा—“तेमूर लंग, नादिरशाह और बुखारा-अमीर मुहम्मद रहीम कौनसे छिड़-गिस्-वंशके खानोंके पुत्र थे, उन्होंने अपन भाग्यको अपने आप बनाया। अल्लाहकी मेहरबानी है, कि मेरे पास निर्णय करनेकी शक्ति, साहस और सिपाही हैं। कबतक मैं इस गुड़ियाको सम्हाले बैठा रहूंगा? मैं स्वयं खान बनना चाहता हूँ। इसके बारेमें तुम्हारी क्या सलाह है? मैं कजाक खानको कुछ पैसा देकर उसे उसके घर भेज दूंगा, और फिर यामूदोंसे पिंड छुड़ाऊंगा।” भाईने उसकी बातका समर्थन करते हुये फातेहा पढ़ा। दूसरे दिन इल्तजारने गुड़िया-खानको किलेसे निकालकर कजाकोंमें भेज दिया और फिर अपने गद्दीपर बैठते हुये कंकुरत राजवंशकी स्थापना की।

§२. कंकुरत-वंश (१८०४-८१ ई०)

इस वंशमें निम्न खान हुये:—

१. इल्तजार, ईरज-पुत्र, एवज-पुत्र	१८०४-६ ई०
२. मुहम्मद रहीम, इल्तजार-पुत्र	१८०६-२५ ”
३. अल्लाकुल, मुहम्मद रहीम-पुत्र	१८२५-४२ ”
४. रहीमकुल, अल्लाकुल-पुत्र	१८४२-४५ ”
५. मुहम्मद अमीन, अल्लाकुल-पुत्र	१८४५-५५ ”
६. अब्दुल्ला, इबादुल्ला-पुत्र	१८५५ ”
७. कुतुलुक मुराद, इबादुल्ला-पुत्र	१८५५ ”
८. सैयद मुहम्मद, मुहम्मद रहीम-पुत्र (मुहम्मद फना, तुरासूफी-भतीजा)	१८५५-६५ ” १८६५ ”
९. सैयद मुहम्मद रहीम, मुहम्मद-पुत्र	१८६५ ”

१. इल्तजार, इराज-पुत्र, एवज-पुत्र (१८०४-६ ई०)

जानेवाले खानसे इल्तजारने कहा था—मैं दूसरे खानको बुला रहा हूँ। उसने अपनी सेना बढ़ा दस हजार उज्बेकोंको कवचबद्ध किया, फिर मौलवियों, दूसरे धार्मिक नेताओं, अतालीकों, ईनकोंको बुलाकर कहा, कि दूसरे कजाक-खानके बुलानेकी जरूरत नहीं। उद्गुर अतालीक बेक फुलाद सहमत नहीं हुआ, बाकी सबने फातेहा पढ़कर दुआ मांगी। इल्तजार उस समय चुप रहा। बड़े दरबारियों, आलिमों और कबीलोंके अकसकालों (ज्येष्ठों)में उसने खलअत और इनाम बांटे, उसके नामसे खुतबा पढ़ा गया। यामूदोंको छोड़ उज्बेकों, कराकल्पकों और तुर्कमानोंने नये खानको बधाई दी। इल्तजार जानता था, कि अन्तमें मेरे भाग्यका फैसला तलवार द्वारा होगा, इसलिये उसने अपना सारा ध्यान सेनाको बढ़ाने और मजबूत करनेमें लगाया। तैयारी हो जानेपर वह सरकश यामूदोंके ऊपर पड़ा, जो कि उस समय अस्त्राबाद (ईरान) और गूरगानके इलाकोंमें रहते थे। उसने उनसे मांग की—लूटपाटके जीवनको छोड़ दो, ऊंट-भेड़-फसलपर कर दो, नहीं तो हमारे राज्यसे निकल जाओ। उज्बेकोंको लूटनेवाली यामूदोंकी एक टोलीके मुखियाकी नाकमें रस्सी डालकर बाजारमें घुमाया गया, लेकिन यामूद घुमन्तुओंका लूटना तो पीढ़ियोंसे व्यवसाय था, उसे वह भला कैसे छोड़ते? इल्तजार भी निश्चय कर चुका था। उसने एक बार आक्रमण करके पांच सौ यामूदोंको मारा, पांच सौको कैदी बनाया, बाकी प्राण लेकर रेगिस्तानमें भाग गये। अराल द्वीपवाले भी लूट-मारसे तंग कर रहे थे, इसलिये इल्तजार उनके नेता तुरासूफीके ऊपर पड़ा, पर उसे असफल होकर ही खीवा लौटना पड़ा। उसने बुखारामें लूट-मार करके धन जमा करना चाहा, लेकिन बेक पुलादने इसे बुद्धिमानीकी बात नहीं कही। इसपर वह पुलादसे नाराज हो गया, और दरबार छोड़ते समय उसे मरवा दिया। पुलादके

परिवार तथा कबीले (उइगुर)ने विद्रोह किया, इसपर इल्तजारने उइगुर-उज्बेकोंका भीषण हत्याकांड किया। जो कल्ल होनेसे बचे, वे भाग गये, बाकियोंने 'भेड़िये द्वारा जबर्दस्ती लादी शांति'के सामने सिर नवाया। इल्तजारने अपने राज्यकी सीमाको बढ़ानेकी कोशिश की। उस समय उरगंजमें एक बड़ा पुराना खानदानी सैयद अख्तेखोजा रहता था। इल्तजारने बिना बापकी मर्जीके उसकी लड़की ब्याह ली। इसपर खोजाने बुखारा भाग गये यामूदोंको लूटका प्रलोभन देकर बुलाया, और उरगंजमें उन्हें रहनेके लिये जमीन दी। अब खान लोगोंपर पहलेसे भी ज्यादा खुलकर अत्याचार करने लगा। बाहर अब भी इल्तजारके अभियान चलते रहे। १८०५ ई०में वह बुखाराके ऊपर चढ़ा। उस समय अमीर-बुखाराका दूत अब्दुल करीम जारके दरबारमें जात हुये उरगंज आया था। उसे जल्दी ही करशी पहुंचकर राज्यपाल बननेका प्रलोभन दे तैयारी करनेके लिये कहा। महीने बाद इल्तजारने बुखाराके इलाकेमें घुसकर लूट-मार की, और वहांसे पचास हजार भेड़ें तथा हजारों ऊंट लूट लाया। अमीर-बुखाराने तैयारी करके मुहम्मद नियाज बीको तीस हजार सेना देकर रवाना किया। इधर इल्तजार भी तैयार, यामूद, सलार, चन्दोर, अमीरअली, बूजेजी, कंकूरत, कंकली, मंगित आदि तुर्कमान और उज्बेक कबीलोंके बारह हजार जवानोंको लिये वक्षुके किनारे-किनारे चला। उसने बुखाराकी पहली टुकड़ीपर अकस्मात आक्रमण कर बुखारी दादखाहके पुत्रको खतमकर पांच सौ आदमियोंको मारा या पकड़ लिया। बंदी रस्सीमें बंधे इल्तजारके तम्बूपर लाये गये। खीवाकी सेनाने बुखारियोंके लौटनेके रास्तेको भी काट दिया था, अतः बुखारियोंके लिये लड़ने-मरनेके सिवा कोई रास्ता नहीं था। वह खूब लड़े। खीवावाले हार गये। उनके बहुतसे आदमी भागते वक्त नदीमें डूब गये। इल्तजारने नावमें बैठकर भागना चाहा। उसके बहुतसे साथी भी प्राण बचानेके लिये उसी नावपर सवार हो गये, और बोझके मारे नाव डूब गई—बहुतसे आदमियोंके साथ इल्तजार भी वक्षुमें डूब मरा। उसके भाई हसनमुराद और जानमुराद भी डूब मरे। मुहम्मद रहीम बुखारियोंके हाथमें बन्दी बना और सिर्फ कुतुलुक मुराद बच बचकर खीवा पहुंचा। यह घटना १८०६ ई०की है।

२. मुहम्मद रहीम, इल्तजार-पुत्र (१८०६—२५ ई०)

बुखारामें उस समय अमीर हैदरका शासन था। खीवावालोंसे निर्दयतापूर्वक व्यवहार करके खूनी झगड़ेको और बढ़ाना उसने पसंद नहीं किया, और बंदियोंको क्षमा करके उन्हें खलअत और इनाम दे मुक्त कर दिया। इस दयाके लिये कुतुलुक मुरादने अपने भावोंको प्रकट करते हुये कहा—“मैं अमीर हैदरका कुत्ता, दास हूँ, उसका हुक्म माननेके लिये तैयार हूँ।” कुतुलुक मुरादको इनकी पदवी देकर अमीर हैदरने खीवाका राज्यपाल नियुक्त किया था, लेकिन उसके आनेसे पहले ही ख्वारेजियोंने उसके छोटे भाई मुहम्मद रहीमको खान बना दिया था। कुतुलुकने भी उसे स्वीकार किया, और बुखाराके अमीरके पास लिखकर अपनी मजबूरी प्रकट की। अरालियोंने इसी समय उज्बेकोंको लूट-मारा। नये खानके चचा मुहम्मद रजाबेकने उइगुरोंके विद्रोहके समय उनका साथ दिया था। उसने अब भी विद्रोह करना चाहा, लेकिन उसे हारना पड़ा। कजाकोंके कई साल लूट-मार करनेका जवाब खानकी ओरसे था, जाड़ोंमें रजाबेकका चेकली, तुर्त-कारा (शेरगाजी), चूमेके, जलैर (बुल्की-मुल्तान)के कजाकोंको लूटने जाना। कजाकोंने मजबूर होकर सौ भेड़ोंपर एक भेड़ खानको देना मंजूर किया। शेरगाजी स्वयं १८१९ ई०में खीवा-दरबारमें आया, और वहीं मरा। उसके बाद रहीम खानने अपने बेटेको उसके स्थानपर नियुक्त किया, जिसे कजाकोंने भी मान लिया। अगले साल तुर्तकारा और ओई कजाकोंके ऊपर भी बैसी ही बीती। जाड़ोंमें सरकश कंकुरतोंके अरालद्वीपपर बर्फके ऊपरसे चढ़ाई की, लेकिन आक्रमण उतना सफल नहीं रहा, तो भी खीवाके एक शरणार्थी और उसके पुत्रने तुरासूफी मुरादके सिरको काटकर बोरेमें ला खानके सामने पेश किया। मुहम्मद रहीमने खुश होकर बाप-बेटको नीकर रख लिया। जब अराली कंकुरतोंको अपने नेताके मारे जानेकी खबर लगी, तो

उन्होंने खीवाके सुल्तानकी अधीनता स्वीकार की। तुरामुरादके परिवार और खजानेको ले खानने खीवा लौटकर मुरादकी लड़कीसे ब्याह किया। पुराने खानके वंशसे ब्याह करनेके कारण अब वंशका सम्मान बढ़ गया। रहीमने इल्तजारकी सैयद-पुत्री विधवाकी भी ब्याहा। अब्दुल्करीमने अब्दुरहीमको क्रूरतामें शैतान लिखा है। उसने गर्भिणी अराली स्त्रियोंको पेट चीर गर्भके बच्चोंको टुकड़े-टुकड़े करके अपनी पशुताका परिचय दिया था। रहीमने अपने विरोधियोंको एक-एक करके मार डाला, या उन्हें देशसे बाहर निर्वासित कर दिया। उसके कठोर शासनके कारण यह फायदा जरूर हुआ, कि अब लूट-मार बन्द हो गई, और व्यापारी कारवासे कबीलोंने मनमाना कर लेना छोड़ दिया। उसने कर की दर निश्चित कर दी, और कर उगाहनेके कस्टम (आयातकर) घर बनवाये। अपनी टकसाल स्थापित करके उसने खीवामें चाँदी-सोनेके सिक्के ढलवाये।

ईरान शीया था। मध्य-एसियाके सुन्नी मुसलमान शीयोंको काफिरसे भी बदतर समझ उनके ऊपर लूट-मार करना पुण्य कार्य समझते थे। १८१३ ई०में खीवावालोंने खुरासानपर आक्रमण किया, लेकिन ईरानी सेनाने भी मुकाबिला किया, और चार दिनकी झड़पके बाद दोनों सेनायें पीछे हटीं। लौटते समय रहीम खान गोकलान तुर्कमानोंके ऊपर पड़ा, और उनमेंसे बहुतेरे बंदी बनाये। फिर तेक्के तुर्कमानोंके ऊपर धावा बोल उनके जीते हुये खेतोंको छीनकर दक्षिणके नंगे पहाड़ोंमें खदेड़ दिया। इनमेंसे कुछ पीछे जाकर नहरके किनारेवाले इलाकेमें बस गये। रहीमने मंगिशलकके इलाकेमें डेरा रखनेवाले चन्दोर तुर्कमानोंको भी अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया। रहीमने तलवारके बलपर शांति स्थापित की। इससे खीवा और रूसके बीच कारवाका आना-जाना सुगम हो गया, और पूर्व तथा पश्चिमम व्यापार खूब बढ़ा। रहीमको बिना लड़े चैन नहीं आता था। १८२० ई०में उसने बुखारापर चढ़ाई की, और जाकर चारजूयको एक महीनेतक घेरे रक्खा। इसी बीच उसके सैनिक पड़ोसमें घुमक्कड़ी करनेवाले तेक्के तुर्कमानोंको भी लूटते रहे। खीवावालोंके पास रूसके साथ संबंध होनेके कारण तोप भी थी, जिसने मदद अवश्य की, किन्तु बिना फँसलेके ही दोनों सेनाओंको लौट जाना पड़ा। रहीमका समकालीन अमीर हैदर भी बहुत मजबूत शासक था। अगले साल वह खुद सेनाके साथ आया। खीवाके नावोंके बेड़ेको उसकी तोपोंने रोक लिया। नदीमें पानी कम था, इसलिये दूर हटकर निकल भागनेका मौका नहीं मिला। रहीम खानके भाई कुतुलुक मुरादको हैदरने हराया। उसकी बहुत्सी नावें नष्ट हो गयीं, और खीवा-सेना पराजित हो पीछे लौटी। लेकिन १८२२ ई०में फिर कुतुलुक मुरादने बुखाराके राज्यमें कराकुलतक लूट-मार की। मरते वक्त कुतुलुकने मुसलमान भाइयोंपर वार करनेके लिये अमीर-बुखारासे क्षमा मांगी—“सचमुच गाजीके लिये यह शोभा नहीं देता था।”

१९वीं सदीके आरम्भमें काकेशसमें जारका शासन स्थापित हो चुका था, और अब पश्चिमी तटसे ही संतुष्ट न हो वह कास्पियनके पूर्वी तटपर भी अधिकार करनेके लिये व्यग्र था। उधर रहीम खानने पूर्वी तटपर रहनेवाले तुर्कमानोंको बुरी तरहसे दबा रक्खा था, इसलिये रूस उससे फायदा उठाना चाहता था। १८१९ ई०में गुर्जी (जार्जिया)के राज्यपालने पूर्वी कास्पियनके तटपर रहनेवाले तुर्कमानों तथा खीवासे भी संबंध स्थापित करनेके लिये मुरावेफको दूत बनाकर भेजा। मुरावेफ १९ सितम्बरको क्रास्नोवोद्स्कमें जहाजसे उतरा, और ६ अक्टूबरको खीवाके पास पहुँचा। उस समय खान शिकारमें गया हुआ था। उसके आदमियोंने मुरावेफको गुप्तचर समझ नजरबन्द कर खानने मुरावेफको मेहतर (वित्त-मंत्री) आगा यूसुफके घरमें ठहरा दिया। फिर किसी तरह मुरावेफ खानके दरबारमें उपस्थित होनेमें सफल हुआ। मुरावेफने खानके बारेमें लिखा था—“वह अपने सफेद रंगमें उज्वेकोंसे अधिक रूसी-सा मालूम होता था।” मुरावेफने राज्यपालका संदेश देते हुए कहा—“मंगिशलककी जगह क्रास्नोवोद्स्क द्वारा व्यापार-संबंध स्थापित करनेपर तीसकी जगह सत्रह दिनमें ही कारवां समुद्रतक पहुँचने लगेंगे। लेकिन क्रास्नोवोद्स्कका इलाका उस वक्त ईरानी काजार-वंशके हाथमें था, जब कि मंगिशलक

खीवाका था, इसलिये खान कारवां-पथको कैसे बदल सकता था? मुरावेफके लिखनेसे पता लगता है, कि उस समय खीवामें एक शासन-परिषद् थी, जिसका अध्यक्ष मेहतर यूसुफ आगा था। यूसुफ सर्त अर्थात् फारसी-भाषी ताजिक व्यापारीवर्गका प्रतिनिधि था। द्वितीय वजीर कुशबेगी उज्बेक, तीसरा खोजेश मेहरम खानके गुलामका पुत्र था, जो कस्टमका उच्चाधिकारी भी था। परिषद्के सबसे अधिक प्रभावशाली सदस्य थे—खानका भाई कुतुलुक मुराद और काजी (धर्माधिकारी)। परिषद्में चार प्रधान उज्बेक कबीलोंके सरदार भी सम्मिलित थे।

यह बतला आये हैं, कि खीवा उस वक्त गुलामोंका बहुत भारी बाजार था, जिसमें रूसी गुलामोंकी कीमत ज्यादा थी, लेकिन रूसी औरतोंकी अपेक्षा ईरानी औरतें ज्यादा महंगी बिकती थीं।

मुहम्मद रहीम १२४१ हि०* में मरा।

३. अल्लाकुल, रहीम-पुत्र (१८२५-४२ ई०)

रहीमके मरनेपर उसका बड़ा बेटा गद्दीपर बैठा। इसने बापके जमा किये हुये खजानेको बरबाद करना शुरू किया। १८३२ ई०में मेर्गपर चढ़ाई करके तेक्का तुर्कमानोंपर कर लगाया, जिसके लिये खीवासे रेगिस्तान (कराकुम)के बीचसे मेर्ग जाते रास्तेपर हर पड़ावपर कुआं खोदना पड़ा। सरखशके सलोरोपर भी जबरदस्ती कर लगाया। कर उगाहनेके लिये दोनों जगह कस्टम-गृह बनवाये। सरखशसे लौटते समय अलमान्सके साथ बारनेस वहां आया था। उसने लिखा है—“नगरसे चंद मीलपर लूटके मालको गिना गया—एक सौ पंद्रह आदमी, दो सौ ऊंट और उतन ही डोर थे। उन्होंने पहले ही लूटके मालको बांट लिया था, लेकिन पांचवां हिस्सा उरगंजके खानको भी दिया।” उस समय किजिलबासों (ईरानी शीयों)के ऊपर लूटकरना धर्मयुद्ध माना जाता था, जसा कि स्पेनवाले मेक्सिको और पेरुमें अपने हाथोंको खूनसे रंगनको समझते थे, वह भी अपने लूटके मालका पांचवां हिस्सा स्पेनके राजाके पास भजते थे। इस प्रकार उससे कुछ ही शताब्दियों पहले स्पेनके युरोपीय भी उसी सिद्धांतको मानते थे, जिसे १९वीं सदीके आरम्भमें खीवाके सुन्नी मुसलमान।

बापके समयसे ही लूटपाटके बन्द होनेके कारण ख्वारेज्ममें व्यापार चमक उठा था, और बुखारा उरगंज-मंगिशलकके बीच स्थलसे, फिर अस्त्राखानतक समुद्र-मार्गसे बराबर व्यापारिक कारवां आते-जाते रहते थे। अराल समुद्रके पूर्वी तटसे एक नया व्यापारमार्ग खोलनेके लिये रहीम खानके समय १८२० ई०में रूसियोंने इस इलाकेकी सर्वे की। फिर पांच सौ सिपाहियों और दो तोपोंके साथ एक रूसी कारवां चला। खीवावाले क्यों पसंद करते, कि उत्तरका मार्ग खुल जाय, जिससे उरगंज और मंगिशलकका समृद्ध वणिक्पथ उजड़ जाय। उनकी शहर तुर्कमानोंने रूसी काफिलेपर प्रहार किया, लेकिन उन्हें हारकर भागना पड़ा। तो भी काफिलेको अपने सौदेको जलाकर खाली हाथ पीछे लौटना पड़ा।

पहली बार असफल होनेके बाद अब अल्लाकुलके शासनकालमें १८३५ ई०में रूसियोंने मंगिशलकके बन्दरगाहके पास अपना किला बना खीवावालोंको डराना चाहा, लेकिन खानने उसकी परवाह नहीं की। इसी समय १२० रूसी इलाकेकी जांच-पड़ताल कर रहे थे, जिन्हें पकड़कर खीवावालोंने बुखाराके बाजारमें बेच दिया। इसपर १८३६ ई०में जार निकोलाइ I के हुकमसे ओरेनबुर्ग और अस्त्राखानमें खीवावाले व्यापारियोंको पकड़ लिया गया। उसी साल अगस्तमें निजनीनवोगोरदके मेलेसे लौटते खीवाके छियालीस व्यापारियोंको भी जेलमें डाल दिया गया। यह स्मरण रहना चाहिये, कि बोल्शेविक-क्रांतिसे पहलेतक निजनीनवोगोरदका मेला दुनियाका सबसे बड़ा व्यापारिक मेला था। हमारे सोनपुर मेलेका नम्बर उसके बाद आता था। ओरेनबुर्गके रूसी राज्यपाल जेनरल पेरोव्स्कीने खानको कड़े शब्दोंमें लिखा—“तुम्हारी कार्रवाई बुरी है। बुरे बीजका बुरा फल पैदा होता है। तुम्हें चाहिये, कि रूसी बंदियोंको लौटा दो, और कजाकोंके भीतर दखल देने और लूट-मारको बन्द करो। ऐसा करनेसे रूसियोंके साथ

* १६ VIII १८२५-७ VII १८२६ ई०

तुम्हारा-जैसा व्यवहार होगा, वैसी ही सुविधायें खीवावालोंको रूसमें मिलेंगी।" लिखा-पढ़ी चलती रही, और दो सालमें सौ रूसी बंदी लौटाये गये, लेकिन दूसरी ओर १८३९ ई०में ही खीवावाले दो सौ रूसी मछुओंको कास्पियनसे पकड़ ले गये।

असफल रूसी अभियान (१८३९ ई०)—खीवाके खानकी गुस्ताखियोंको शक्तिशाली रूस भला कबतक बर्दाश्त करता ? और यह तो वह समय था, जब कि युरोपमें भी रूसकी धाक जमी हुई थी। जनरल पेरोव्स्कीने २६ नवम्बर १८३९ ई०के जाइमें छ हजार पैदल सेनाके साथ दस हजार ऊंटोंके ऊपर रसद ले ओरेनबुर्गसे प्रस्थान किया, लेकिन रास्तेमें उसे हिमबिन्दुसे ४० डिग्री नीचेकी सर्दीका सामना करना पड़ा—नीचे बर्फकी ऊंची ढेर थी, ऊपरसे भयंकर हवा चलने लगी। हजारों सिपाहियोंने हिम-आहत हो अपनी अंगुलियों, पैरों और हाथोंको गंवाया, बहुतसे सर्दियोंमें मर गये। इस स्थितिका मुकाबिला करते हुये जैसे-तैसे रूसी खीवाकी सीमा पर अकबुलाकमें पहुंचे। खीवाका कुशबेगी (प्रधान-सेनापति) भी रूसियोंके मुकाबिलेके लिये तैयार था। बर्फ आठ फुट मोटी थी। कजाकोंने घोड़ोंके झुंडको दौड़ाकर बर्फमें रास्ता बनाया, जिसके दोनों तरफ बर्फकी दीवार खड़ी थी। सब कोशिश करनेपर भी आगे बढ़ना सर्वनाशके मुंहमें पड़ना समझ पेरोव्स्की लौट गया।

रूसियोंको मध्य-एसियाकी ओर—अर्थात् भारतके सीमांतके पास—पहुंचनेकी कोशिश करते देख अंग्रेज कैसे चुप रह सकते थे ? मेजर टाड अंग्रेजोंके लिये अफगानिस्तान और बुखारामें अपना जाल बिछा रहा था। उसने हेरातसे काजी मुहम्मद हसनको दूत बनाकर बुखाराके अमीरके पास भेजा। अमीरने मिलकर काजीको बहुत फटकारा, कि वह इस्लामकी भूमिमें काफिरोंको घुसाना चाहता ह। इसपर काजीने कहा—“अपने हथियारों, अनाज, सोना, खून और अपनी बुद्धिके साथ मुहम्मद शाहके हथियारोंसे ध्वस्त होते प्राचीरकी रक्षा करने अंग्रेज आये। उन्होंने काफिरोंसे सच्चे मुसलमानोंकी रक्षा की।” और फिर अमीर बुखारासे पूछा—“काफिर कौन हैं ? ईरानी किजिलवास हैं, जिनकी कि आपने रक्षा की, या अंग्रेज जिन्होंने कि सच्चे मोसिननोंकी रक्षा की ? बहुत समय नहीं बीतेगा, कि रूसके आक्रमणको रोकनेके लिये भी उनकी सहायताकी अवश्यकता होगी।” काजीने रूसका भय दिखलाकर बुखाराके अमीरको प्रभावित किया, और सफलताकी सूचना देत ज़रीके रेशमी थैलेके भीतर मेजर टाडके पास अपना पत्र भेजा।

बुखारामें सफलताकी आशा देखकर टाडने कप्तान एबटको खीवाके सुल्तानके पास भेजा। उसके हुकमके मुताबिक एबटन खानको रूसी कैदियोंके छोड़ देने तथा स्वयं अस्त्राखानमें जा वहां पकड़े गये खीवाके व्यापारियोंको छुड़ानेकी कोशिश की। एबट १८४० ई०के बसंतमें चला था, जब कि अभी-अभी जनरल पेरोव्स्कीका अभियान भयंकर आफतमें पड़नेके बाद नष्टप्राय होकर लौटा था। उस समय खान एक काले तम्बूमें बैठा था, जब कि एबट उससे मिलने गया। एबटने जूता निकाल परदा उठाकर भीतर प्रवेश किया, फिर अपने हाथोंको अदबसे छातीपर रखकर “सलाम् अलेकुम्” कहकर बातचीत की। खानने उसके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया। उसके आनेकी खबर सुनकर स्वागत करनेके लिये पहले ही सैनिक भेजे थे। नगरके बाहर वजीरके एक महलमें एबटको टिकाया गया था। एबटने पहलेसे खीवामें बन्दी अंग्रेज गुप्तचर कर्नल स्टोडर्टको छोड़ देनेपर जोर दिया। एबटने यह भी कहा, कि खीवा यदि अंग्रेजोंसे मदद पाना चाहता ह, तो रूसी बंदियोंको छोड़ना जरूरी है। स्टोडर्ट बुखाराके अमीरके बंदीखानेमें था। खीवा-खानने उसे छोड़नेके लिये अपना दूत बुखारा भेजा। कास्पियन और ओरेनबुर्गकी ओरसे जिस तरह रूसका फौलादी पंजा मध्य-एसियाकी ओर बढ़ता आ रहा था, और जिस तरह हिन्दुस्तानमें मुस्लिम बादशाहतको खतम करके अंग्रेजोंने अपना राज्य कायम किया था, उसे देखते हुये मध्य-एसियाके शासकोंकी नींद हराम हो गई थी। अंग्रेजों और रूसियोंको वह एक तरफ आग और दूसरी तरफ खड्ड-सा देखते थे, इसलिये किसी निश्चय पर पहुंचना उनके लिये आसान नहीं था। तो भी रूसका खतरा बिलकुल सामने था—पेरोव्स्की यद्यपि इस साल सफल नहीं हुआ था, लेकिन एक बारकी असफलतासे खीवावाले कैसे अपनेको सुरक्षित समझ लेते ? इसीलिये अल्लाकुल

समझा-बुझाकर कर्नल स्टोडर्टको छोड़ देनेके लिये बुखाराके अमीरको तैयार करना चाहता था। एबटने अपनी एक मुलाकातमें फारसी अक्षरोंमें लिखे एक नक्शेको अल्लाकुलके सामने रखकर बतलाया, कि इंगलैंडका स्वार्थ इसीमें है कि मध्य-एसिया रूसके हाथमें न जाय। हम मध्य-एसियाके राज्योंको स्वतंत्र और तटस्थ देखना चाहते हैं, और रूसके मनसूबेको असफल करनेमें सहायता देनेके लिये तैयार हैं। लेकिन खान रूसकी शक्तको ज्यादा अच्छी तरह जानता था, इसलिये उससे बहुत भयभीत था। उसने चांदीकी तरह सफेद चमकत तीन पौंडके एक तोपके गोलेको दिखलाकर एबटको बतलाना चाहा, कि रूसी बहुत जबरदस्त शक्ति रखते हैं। एबटने साफ देखा कि जबतक रूसी तोपका यह सफेद गोला खानके तम्बूमें रहेगा, तबतक उसे कुछ भी साहस नहीं होगा, और मुझे अपने काममें सफलता नहीं मिलेगी।

एबटके काममें सबसे बाधक मेहतर था, जो रूसी बंदियोंके छोड़ देनेपर जोर देनेके कारण एबटको रूसियोंका गुप्तचर समझता था। एबटके बहुत कहनेपर मेहतरने कहा—अगर हमारे भाग्यमें यही लिखा होगा, तो फिर क्या चारा? इसपर एबटने कहा—तो इसका अर्थ है खीवाको रूसियोंके हाथमें दे देना। मेहतरने गुस्सेमें आकर कहा—“आह! अगर हम काफिरोंसे लड़ते मारे गये, तो सीधे स्वर्गमें जायेंगे।” इसपर एबटने जवाब दिया—“और तुम्हारी औरतें? तुम्हारी बीबियां और लड़कियां रूसी सिपाहियोंकी गोदमें जाकर किस तरहके स्वर्गको प्राप्त करेंगी?” ईरानसे आये हुये दूतने जब ईरानी गुलामोंको छोड़नेके लिए कहा, तो अल्लाकुलने जवाब दिया—“मुहम्मदशाहको कहो, कि अभी वह बच्चा है, अभी उसे दाढ़ी भी नहीं आई है। वह क्यों नहीं पहले रूसियोंको ईरानसे निकालता?” दरअसल खीवा ऐसी परिस्थितिमें था, कि उसके लिये इस समय कुछ भी निश्चय करना बहुत मुश्किल मालूम होता था। प्रस्थान करते वक्त एबटने खानसे कहा था—बड़ी सावधानीसे काम करनेकी जरूरत है। खानने जवाब दिया—“यह बहुत मुश्किल है। दुनिया भरमें मेरे राज्यको छोड़कर रूसियोंको कोई दूसरा युद्धक्षेत्र नहीं मिलता।”

एबट सुरक्षित तौरसे कास्पियनके तटपर गुयेदिकके बन्दरगाहमें पहुंचा, लेकिन जले-भुने वजीरने ऐसी चाल चली, कि बन्दरगाहपर एबटको जहाज नहीं मिला। फिर वह वहांसे चार दिनके रास्तेपर दक्षिणमें अवस्थित रूसियोंकी फौजी चौकी दाशकलाकी ओर रवाना हुआ। चौकीपर पहुंचनेमें दस घंटेका रास्ता रह गया था, जब कि उज्बेकोंने उसे लूट लिया। एबटको दो अंगुलियां टूटीं, और सिर भी फूटा। फिर उन्होंने उसे ले जाकर घुमन्तुओंके डेरेम रखकर बहुत बुरा बर्ताव किया। टांडने अखुन्दजादा नामक अफगानको भेजा, जिसने एबटको छुड़ाकर रूसकी ओर रवाना किया। हेरातमें टांडके पास एबटके मरनेकी खबर पहुंची। जिसपर उसने लेफ्टिनेंट शेक्सपियरको खीवाके साथ फिर बातचीत करनेके लिये भेजा। लेकिन खानने उसकी बातोंपर अविश्वास प्रकट करते हुये कहा—“यह क्या बात है, जो हमारेसे इतनी दूर रहनेवाला तुम्हारा देश हमारे देशके साथ मित्रता करनेके लिये इतना उतावला है?” शेक्सपियरने जवाब दिया—“हमारे पास भारत-जैसा एक विशाल उद्यान है, कहीं कोई उसपर टूट न पड़े, इसलिये हम अपने बगीचेके चारों ओर दीवारें खड़ी करना चाहते हैं, और वे दीवारें हैं—खीवा, बुखारा, हिरात और काबुल।” याकूब मेहतरने काफिर कहकर जब ताभा मारा, तो उसका जवाब शेक्सपियरने दिया—“हममेंसे कौन काफिर है? तुम, जो कि कभी न बुझनेवाली ईर्ष्याके कारण रोज गुलामोंको सासत देते हो, बापसे लड़कियोंको, पतिसे पत्नीको जबरदस्ती छीनकर अपनी बाजारोंमें सबसे अधिक दाम देनेवालोंके हाथ बँच देते हो। या हम जो कहते हैं—ये अभागे लोग मुक्त कर दिये जायें। इन्हें इनके देश और परिवारमें भेजनेकी कोशिश करते हैं।”

शेक्सपियर कुछ सफलताके साथ बिदा हुआ। ४२० रूसी बंदियोंको मुक्त करा पुराने उरांजसे रवाना हो वहां समुद्र तटपर पहुंचा, फिर वहांसे नाव पकड़कर अस्त्राखान, आगे राजधानी पीतरबुर्गमें गया। जारने उसकी सेवाओंके लिये बहुत सम्मान करते, उसे रूसी ‘सर’की उपाधि प्रदान की।

जुलाई १८४० ई०में अल्लाकुललीने समझ लिया, कि रूसियोंके साथ झगड़ा मोल लेना अच्छा नहीं है। उसने घोषणा करके रूसी दासोंके व्यापारको बंद कर दिया, और रूसके राज्यमें लूटपाट मचानेकी मनाही कर दी। लेकिन इसी समय ईरानी गुलामोंको छोड़नेके लिये जोर देनेसे झगड़ा

बढ़नेकी सम्भावना देख ईरानी शाहने अंग्रेज कप्तान कोनोलीको खीवा भेजा । खानने ईरानी गुलामोंको छोड़नेसे इन्कार कर दिया । कोनोली खीवामें चार महीना रहा । इसी समय हिरातके राज्यपाल यार मुहम्मदने मेजर टाडके षड्यंत्रोंसे परेशान होकर उसे हिरातसे निकाल दिया, और खीवाको भी लिखा, कि अंग्रेज गुप्तचरको अपने पास न रखें । किन्तु खानने यार मुहम्मदकी बात न मान कोनोलीको खलअत दी, और उससे कहा—खीवाको अपना देश समझिये और इस महलको अपना घर । लेकिन याकूब मेहतरने कोनोलीको पंसद नहीं किया । धीरे-धीरे उसने खानपर प्रभाव डाला, और अन्तमें कोनोलीको उसने कहा—“तुम हमारे रास्तेमें बाधक हो । अगर तुम यहांसे बिदा हो जाओ, तो मुझे इसके लिये दुःख नहीं होगा ।” खीवामें असफल हो कोनोली खोकन्दपर अंग्रेजोंका डोरा डालने गया, जहांसे बुखारा जानेपर उसने अपने प्राण गंवाये, यह हम बतला चुके हैं ।

रूस भी मध्य-एशियाके खानको हर तरहसे अपनी ओर करनेकी कोशिश करता रहा । १८४० ई०में लेफ्टिनेंट आइतोफ मध्य-एशियाकी यात्रासे पीतरबुर्ग लौटा, फिर कप्तान निकिफोरोफ १८४२ ई०में खीवा भजा गया, जिसने रूस और खीवाके बीच पहली संधि करवानेमें सफलता पाई । अभी वह खीवा हीमें था, जब कि अल्लाकुल मर गया ।

४. रहीमकुल, अल्लाकुल-पुत्र (१८४२-४५ ई०)

रहीमकुलके गद्दीपर बैठते ही जमशेदियोंने विद्रोह कर दिया । जमशेदी ईरानी कबीला था, जो मुरागाबनदीके बायें तटपर रहते थे । उनमेंसे दस हजारको जबर्दस्ती ले जाकर ख्वारेज्मके इलाकेमें वधुतटपर किलिजबेके पास बसा दिया गया था । जमशेदियोंके विद्रोहसे प्रोत्साहित होकर मेर्वके पास डेरा रखनेवाले सारिक तुर्कमान भी बिगड़ उठे । रहीम खानने अपने छोटे भाई मुहम्मद अमीनको पंद्रह हजार सेनाके साथ तुर्कमानोंको दबानेके लिए भेजा, लेकिन रेगिस्तानमें उसको बहुत क्षति उठानी पड़ी । उधर अमीर-बुखाराने हजारास्पका मुहासिरा कर रक्खा था । खानके भाईने अमीरकी सेनापर टूटकर उसे हराके संधि की । तीन साल शासन करनेके बाद रहीमकुल मर गया ।

५. अमीन, अल्लाकुल-पुत्र (१८४५-५५ ई०)

रहीमके मरनेके बाद उसका भाई गद्दीपर बैठा, जो कि वाम्बेरीके अनुसार आधुनिक कालके ख्वारेज्मके खानोंमें सबसे बड़ा था । अमीनने तख्तपर बैठते ही सारिकोंको सर करनेके लिये अभियान किया, लेकिन वह छ चढ़ाइयोंके बाद काबूमें आये । मेर्वके किले तथा पासके योलोतेन किलेको भी उसने ले लिया । उसके लौटेनेपर सारिकोंने खान द्वारा नियुक्त राज्यपाल और छावनीकी सेनाको मार डाला । लड़ाई फिर शुरू हो गई । अबकी बार सारिकोंके पुराने दुश्मन जमशेदी और उनका नेता पीर मुहम्मद भी अमीनके साथ थे । विजय करनेके बाद अमीनने बड़ी तड़क-भड़कके साथ खीवामें प्रवेश किया । उसने तेक्कोंके विद्रोहको भी दबानेमें सफलता पाई । निम्न सिर-उपत्यकामें कजाक डेरा डाले रहते थे, वह खोकन्दकी प्रजा थे । उनके लिये खोकन्दसे खीवाका झगड़ा हो गया । १८४६ ई०म खीवाने सीमांतपर खोजा नियाज बी किला बनवाया । लेकिन कजाकोंको खोकन्दका खान ही नहीं बल्कि रूसी भी अपनी प्रजा मानते थे, इसलिये दशते-कजाक पूरी तौरसे अपने हाथमें करनेके लिये १८४७ ई०में रूसियोंन दशतमें कितने ही किले बनाये । इसी साल अराल समुद्रपर राइम्स्क या अरालस्क नामक रूसी किला बना । खीवावाले कजाकोंको दबाना चाहते थे । उनके दो हजार सैनिकोंने आक्रमण करके हजारसे अधिक कजाक-परिवारोंको पकड़ लिया, जिसके लिये रूसियोंने आक्रमणकर कजाकोंको छुड़ा खीवा-वालोंको दंड दिया । १८४८ ई०में इस इलाकेमें कई बार लूट-मार होती रही । निम्न-सिरमें अब खोकन्द, खीवा और रूस तीनोंका झगड़ा चल रहा था । १८५३ ई०में जेनरल पेरोव्स्कीने आक्रमण करके निम्न-सिरपर बनाये गये खोकन्दियोंके किलोंको तोड़ दिया ।

दक्षिणमें तुर्कमान-भूमि अभी भी खीवाके लिये कांटा बनी हुई थी । १८५५ ई०में अमीनने सररूशके विरुद्ध अभियान भेजा, लेकिन उधर ईरानी शाह भी निर्बल नहीं था । मशहदके राज्यपाल फरीदून मिर्जाने हमला किया । हारकर अमीन लौट रहा था, इसी समय धोखेसे पकड़ लिया गया । उसके साथके दो सौ ख्वारेज्मियोंमेंसे कितने ही मारे गये और कितने ही भग गये । खानको वहीं काट

दिया गया, और उसके तथा २६९ दूसरे मुंडोंको शाहके पास तेहरान भेज दिया गया। इन सिरोंके ऊपर पहले एक रौजा बनाया गया, लेकिन इमामजादाकी संतान होनेसे वहां पूजा चल निकली, जिसके डरके मारे ईरानियोंने उसे तोड़ दिया। हम देख चुके हैं, कि अमीन और उसका वंश सैयद-जादियोंकी संतान था।

६. अबदुल्ला, इबादुल्ला-पुत्र (१८५५ई०)

ईरानियोंके सामने भागकर लौटी सेनाने खाली गद्दीपर कुतुलुक मुरादके पौत्र तथा इबादुल्लाके पुत्र अब्दुल्लाको बैठाया। गद्दीके लिये आपसमें झगड़ा हो गया। इस गड़बड़ीसे फायदा उठा पंद्रह हजार यामूद तुर्कमानोंने आक्रमण कर दिया। खान मुकाबिलेके लिये सेना लेकर गया। किजिलतेकेरमें लड़ाई हुई। खीवावाले बुरी तरहसे पिटे और उनका खान अबदुल्ला मारा गया।

७. कुतुलुक मुराद, इबादुल्ला-पुत्र (१८५५ई०)

मृत खानकी जगहपर उसका १८ वर्षका भाई २० जिल्हिजा १२७१ हि० (३ सितम्बर १८५५ ई०)को गद्दीपर बैठाया गया, जो हालके युद्धमें घायल हुआ था। यामूदोंका विद्रोह चल रहा था। सारे राज्यमें अशांति फैली हुई थी। इसी समय उत्तरके कराकल्पकोंने यारलिक तुराको अपना खान बनाकर विद्रोह कर दिया। कुतुलुकने सारे तुर्कमानोंको मार डालनेका हुक्म दिया, लेकिन यामूदोंका समर्थक नियाज बी मौजूद था, जिसने मुजरा करनेका बहाना करके महलमें जा खान और उसके सात वजीरोंको मार डाला। मेहतरने किलेकी दीवारसे खबर दी, जिसपर तुर्कमानोंका भी कत्लेआम शुरू हुआ, और बहुत कम तुर्कमान उज्वेकोंकी तलवारसे बच पाये। खीवाकी सड़कॉपर इतनी लाशें पड़ी थीं, कि उन्हें हटानेमें छ दिन लगे।

अमीन खानके बाद बहुत जल्दी-जल्दी दो खान हो गये। इस सारे समयमें खीवा राज्यमें विद्रोह और अशांति फैली हुई थी। यामूद, तुर्कमानोंका सबसे शक्तिशाली कबीला था, जो खीवाके खान-वंशके साथ सर्वस्वकी बाजी लगाकर लड़ रहा था। १८५५-५६ ई०में उत्तरके कराकल्पकोंने भी विद्रोह कर दिया था। यामूदोंने दक्षिणमें और कराकल्पकोंने उत्तरमें खानके विरुद्ध बगावत करके उसकी स्थितिको बहुत खतरनाक बना दिया था। लेकिन, १२ दिसम्बर १८५५ ई० (८ रवि १२७२ हि०)को खीवावाले कराकल्पकोंको हराकर बहुतसे लूटके मालके साथ राजधानी लौटे, जिसमें बहुतसे स्त्री-बच्चे भी थे।

८. सैयद मुहम्मद, रहीम-पुत्र (१८५५-६५ई०)

कुतुलुकके मरनेपर रहीमखानके बड़े पुत्र सैयद महमूदको गद्दी दी गई, लेकिन अशांत खीवाके इस तीसरे खानको भी अफीमची होनेके कारण गद्दीसे हटना पड़ा, और उसके छोटे भाई सैयद मुहम्मदने तीस वर्षकी अवस्थामें गद्दी सम्हाली। यामूद तुर्कमानों और कराकल्पकोंके विद्रोह अब भी चल रहे थे। कराकल्पक यारलिकके साथ कुहना-उरगंज (प्राचीन उरगंज) पर चढ़े। मुहम्मद खानने उन्हें हराकर उनके उम्मीदवार यारलिकको मार डाला। अब कराकल्पकोंका एक कबीला बुखाराकी प्रजा बन गया। गृहयुद्धने भयंकर रूप लिया था—गांव उजाड़ दिये गये, कस्बों और नगरोंका सत्यानाश हो गया। एक ओर यामूद और उज्वेक आपसमें कट-मर रहे थे, दूसरी ओर मुरगाबसे बढ़ते जमशेदियोंने कित्तूसे फितनियेक तकके इलाकेको लूटा। लूटके मालके साथ वह दो हजार ईरानी गुलामोंको भी छुड़ाकर ले गये। सीमांती किलेके राज्यपाल खोजा नियाजकी जगह उसका पुत्र इरजान बनाया गया था। वह १८५६ ई०में अपनी छावनीके ४० सिपाहियोंके साथ खीवा गया। कजाकोंने अफसरोंको मार भगाया, और भयंकर अत्याचार करते हुये खीवाकी बहुत-सी सम्पत्ति लूट ली। कजाकोंने खीवाके भीतरकी ही लूटसे संतोष नहीं किया, बल्कि उन्होंने रूसी सीमांतके भीतर भी गड़बड़ी मचाई। निम्न-सिर-उपत्यकामें खोकन्दी अपने किलोंके लिये दावा कर रहे थे, और पिछले दस सालोंमें उन्होंने आक्रमण करके उनपर दो बार अधिकार भी कर लिया था। पिछली बार अकमस्जिदके राज्यपालने भारी संख्यामें

पशु देकर खीवियोंको बिदा किया। तीनों शक्तियोंका संघर्ष निम्न-सिर भूमिके लिये चल रहा था। अब निम्न-सिरके खोकन्दी इलाकेपर रूसियोंका दृढ़ अधिकार हो गया। खोकन्दीयोंने अपने किलोंको लौटानेके लिये कहा। इन्कार करनेपर उन्होंने सैनिक टुकड़ी भेजी, लेकिन वहां ईंधन-पानी आदिकी बड़ी कठिनाई थी, इसलिये किलोंको तोड़-फोड़कर खोकन्दी सेना लौट गई।

खीवा राज्यमें भारी गड़बड़ी मची हुई थी, जिसके कारण वहां अकाल पड़ गया फिर १८५७ ई०में हैजा भी फैल गया। इसी साल खानने अपने राज्यारोहणकी खबर देते, जार निकोलाइ I की मृत्युके लिये शोक-प्रकाशन करने तथा जार अलेक्सान्द्रके गद्दीपर बैठनेके समय बधाई देने के लिये शेखुल-इस्लाम फाजिल खोजाको दूत बना पीतरबुर्ग भेजा।

मई १८५८ ई०में जेनरल इम्नातियेफने भी एक दूतमंडल खीवा भेजा, जो ईलक येम्बा और अराल तटसे ऐबुगिरकी खाड़ी, उर्गा अन्तरीप तथा करालियोंकी पुरानी राजधानी कुंग्रद होते फिर नावसे दस मील प्रति दिनकी चालसे चलते खीवाकी राजधानीकी ओर बढ़ा। गांवों और शहरके लोग रूसियोंके आनेकी खबर सुनकर बड़े भयभीत थे। रूसियोंने देखा, कि वक्षु नदीके दोनों तरफके गांव और शहर उजड़े पड़े हैं। करकल्पकोंके औलों (डेरों)में सिर्फ बूढ़े-बच्चे रह गये हैं, बाकियोंको पकड़कर खीवा या ईरानी सीमापर ले जाकर बेंच डाला गया था। करकल्पकोंसे किपचकों और खोजे-इली कबीलोंकी हालत बेहतर नहीं थी। रूसी दूतमंडल जब नवीन उरगंजमें पहुंचा, जो कि खीवाका दूसरा सबसे बड़ा शहर था, तो एक वजीरने आकर स्वागत किया। दूतमंडलको शहरसे बाहर एक बागमें ठहराया गया। पहले मेहतरने स्वागत किया, राजमहलमें मेहतरके लिये अपना एक खास निवास-स्थान था। रूसी खानके पास पहुंचाये गये। खान एक ऊंची गद्दी पर बैठा था। उसके सामने छुरा और पिस्तौल रक्खा था और पीछेकी ओर राजकीय झंडा फहरा रहा था। प्रधान-सेनापति (कुश-बेगी), वित्तमंत्री (मेहतर) और दीवानबेगी (प्रधान वजीर) खानके सामने बैठे हुये थे, और महा-प्रतिहार द्वारपर खड़ा था।

रूसी दूतमंडलने खीवाकी हालतका अच्छी तरह अध्ययन किया, और समझा-बुझाकर खानको अपनी ओर करनेकी कोशिश की।

उस समय खीवाके अपने सिक्के चल रहे थे। दो तरहके सोनेके सिक्के (तिला) थे, जिनमें से एकका मूल्य अंग्रेजी गिन्नीसे थोड़ा कम और दूसरा उससे आधा था। चांदीके सिक्केको 'तंगा' कहा जाता था, जो अठन्नीके बराबर था। उससे आधेसे कमका चांदीका सिक्का 'शाही' था। तांबेके सिक्केको पूल या करापुल कहते थे, जो एक तंकेमें अड़तालीस होता था।

रूसी मिशनके खीवासे बिदा होते ही करकल्पकों और कुंग्रदोंने तुर्कमान-सरदार अतामुरादके साथ मेल कर कुतुलुक मुरादको उसके कितने ही आदमियोंके साथ मार डाला।

मुहम्मद खानके समयमें ही १८६३ ई०में पर्यटक वाम्बेरी कितने ही हाजियोंके साथ खीवा पहुंचा था। उस समय चन्दोर तुर्कमान खुला विद्रोह किये हुये थे। उसने खीवाको बहुत सुंदर नगर पाया। शहरके दरवाजेपर जय घोष करते तथा हाजियोंके दामनको चूमते, सूखे मेवे और रोटीकी भेंटके साथ लोगोंने स्वागत किया। लेकिन कारवांसरायमें टिकानेके बाद बड़े रुखेपनसे उनकी तलाशी ली गई। समझते थे, कि ये फिरंगियों (अंग्रेजों) या उरुसों (रूसियों)के जनसीज (गुप्तचर) हैं। वाम्बेरी यद्यपि एसियाई पोशाकमें हाजी बना हुआ था, लेकिन उसकी यूरोपीय शकल-सूरत छिप नहीं सकती थी। तत्कालीन खानका दूत शुकरल्ला बी कान्स्तन्तिनोपलमें इस्लामके खलीफाके दरबारमें हो आया था। वाम्बेरी उससे मिला। तुर्की भाषापर अधिकार होनेके कारण वाम्बेरीको इस्ताम्बुलके आफन्दी (मुल्ला) बन जानेमें सफलता मिली। उसने बतलाया, कि अपने पीर (गुरु)के हुक्मसे मैं बुखारा-शरीफकी तीर्थयात्राके लिये जा रहा हूं। शुकरल्ला बीने विश्वास करके उसका स्वागत किया। उसने कान्स्तन्तिनोपलके अपने परिचितोंके बारेमें पूछा, जिसका जवाब वाम्बेरीने संतोषजनक दिया। दूसरे दिन खानके बुलानेपर शुकरल्ला बी वाम्बेरीको साथ लिये दरबारमें गया। वाम्बेरीने वहां सब उमर और सब तरहके बहुतसे आदमियोंकी भीड़ देखी, जो कि खानके सामने अपना आवेदनपत्र

देनेके लिये आये थे। भी ने जब सुना, कि एक बड़ा दर्वेश (साधु) हमारे खानको दुआ देने आया है, तो उसने वाम्बेरीके लिये रास्ता दे दिया। मेहतरसे बातचीत करनेसे पहले उसने फातेहा पढ़ा। वहाँके दरबारी श्रोताओंने 'आमीन' कहकर अपनी दाढ़ियोंपर हाथ फेरा। फिर वाम्बेरीने सुल्तानकी मुहर लगे अपन छपे हुये पासपोर्टको पेश किया। मेहतरने इस्लामके खलीफाके प्रति सम्मान दिखलाते हुये मुहरको चूमकर अपने सिरसे लगाया, और उठकर उसे खानके हाथमें दिया। लौटकर फिर वह दर्वेशको दरबार हालमें ले गया। खान ऊंची मखमलकी गद्दीपर रेशमी मसनदके सहारे बैठा था। उसके हाथमें एक छोटा-सा सोनेका राजचिन्ह था। वाम्बेरीने उसकी शकलको बिलकुल निस्तेज और सब तरहसे एक बर्बर अत्याचारी खूसट-जैसी बतलाया है। दर्वेशने सलाम करनेके लिये अपना हाथ उठाया, जिसका जवाब वैसा ही करके खान और उसके दरबारियोंने भी दिया। इसके बाद दर्वेशने कुरानके एक छोटे सूरा (अध्याय)का पाठ किया, और 'अल्लाहुम्मा रब्बेना' कहते अन्तमें जोर-की आवाजमें आमीन कहने हुये पाठको समाप्त किया। इसपर चारों ओर 'आमीन' कहकर लोग अपनी-अपनी दाढ़ियोंपर हाथ फेरने लगे। अमीन खान अपनी दाढ़ीपर हाथ फेर ही रहा था, कि प्रत्येक दरबारीने 'कबूल बोलगुय' (तुम्हारी दुआ स्वीकृत हो)की आवाज लगाई। खानने वाम्बेरीसे यात्राके कुशल-मंगलके बारेमें पूछा। दर्वेशने अपना नाम जमाल बतलाया। हजरत जमालको देखकर सब लोग अपनेको कृतकृत्य समझ रहे थे। खानने उसके साथ मुसाफा (हाथ मिलाने)के द्वारा अपनेको धन्य-धन्य समझा। दर्वेशके लिये लोगोंने एक सौ सत्तर साल जीनेकी कामना प्रकट की। वाम्बेरीने खानसे खीवाके सुन्नी संतोंकी दरगाहोंकी जियारत करके जल्दी बुखारा शरीफ जानेकी इजाजत मांगी। खानने पैसा देना चाहा, तो दर्वेशने उसे लेनेसे इन्कार कर दिया, किन्तु तीर्थयात्राके लिये सफेद गदहा लेना स्वीकार किया। रास्तेमें भीड़के स्वागत-घोषके साथ वाम्बेरी अपने डेरेपर लौटा। उसने अपनी यात्रामें साथी दर्वेशके बारेमें लिखा है—“उनमेंसे हरएकने सेर-सेर भर चावल, दुम्बेकी पूंछकी आध सेर चर्बीके अतिरिक्त रोटियाँ, मूली, गाजर चट किये और पंद्रहसे बीस बड़े-बड़े शोरवाके प्यारलोंको गलेके नीचे उतारा। प्यालोंमें हरी चाय डाली जा रही थी।” वाम्बेरीके पास जिज्ञा-सुओंकी भीड़ लगी रहती थी। लोग इस्लामकी राजधानी इस्ताम्बुल (कान्स्तान्तिनोपल)के संतोंके बारेमें जानना चाहते थे। कभी-कभी लोग बीमारीसे छूटनेके लिये झाड़फूंक करानेके लिये भी आते थे। वाम्बेरीने अपनी आंखों देखा—खानसे इनाम पानेके लिये बहादुर लोग कटे हुये सिरोंकी बोरोंमें भरे ले आते थे, जो कभी-कभी आलुओंकी तरह रास्तेमें गिर पड़ते थे। हरएक आदमीको मुंडोंकी संख्याके अनुसार इनाम मिलता था। खीवा छोड़नेसे पहले एक बार फिर वाम्बेरीने जाकर खानको आशीर्वाद दिया।

(मुहम्मद फना, तूरासूफी-भतीजा, १८६५ ई०)

मुहम्मद खानको मारकर विद्रोहियोंने मृत तूरासूफीके भतीजे मुहम्मद फनाको गद्दीपर बैठाया। लेकिन अरालियोंकी यह सफलता देरतक नहीं चली। फनाको रूसियोंका समर्थन प्राप्त होनेपर भी साल भर हीमें मार डाला गया, और अरालियोंको खीवाकी अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर होना पड़ा। फनाने ख्वारेज्मका खान बनकर अपना सिक्का चलाया था।

९. सैयद मुहम्मद रहीम, मुहम्मद-पुत्र (१८६५ ई०)

गद्दीपर बैठते समय सैयद मुहम्मद बीस सालका तरुण था। उसे शासनसे भी ज्यादा बाघके शिकारका शौक था। पैतृक सिंहासनके साथ-साथ उसे लूटमारसे बाजार गर्मवाला राज्य मिला था, और ऊपरसे रूस-जैसी शक्ति सिरपर पहुंच गई थी। १८६७ ई०में काँफमान तुर्किस्तानका राज्यपाल बनकर आया। उसने आते ही अपनी नियुक्तिकी सूचना देते हुये खानको लिखा—सिर-दरियाके पार लूटेरे हमारी भूमिमें बड़ी गड़बड़ी मचा रहे हैं, इसलिये उनके विशुद्ध हम

अपनी सेना भेजनेका अधिकार रखते हैं। खानने जवाब दिया—सिर-दरियाके दोनों तट हमारे हैं। लेकिन जबानी दावेको कौन मानता है? उधर रूसी-प्रजा घुमन्तु कजाक जाड़ोंमें बहुत भारी संख्यामें सिरके दक्षिणमें तथा कुवान और याची-दरियामें अपने डेरे डालते थे। खानकी पर्वाह न करके रूसी सैनिक सिर पार हो डाकुओंको दंड देने लगे। एक ओर इधर सिरसे दक्षिणकी ओर उन्होंने पैर बढ़ाना शुरू किया, और दूसरी ओर कास्पियनके पूर्व तटपर भी रूसी अपने प्रभावको बढ़ाते जा रहे थे। नवम्बर १८६९ ई०में एक रूसी सैनिक टुकड़ी क्रान्स्नोवोद्स्कमें उतरकर वहां किला बनाने लगी। उसके बाद उन्होंने दूसरा किला चिकिस्लरमें बनाया। इसी समय वोल्गाकी उपत्यका और उरालभूमिमें दोनकसाकों, कलमकों तथा कजाकोंके विद्रोह और उनका घोर दमन हो रहा था। भयके मारे लोग अपने गांवोंको छोड़कर भाग रहे थे, जिसके कारण १८७० ई०की गर्मियोंतक कोई व्यापारी कारवां नहीं गया। रूसी सेना जब दंड देने आई, तो पता लगा कि इस विद्रोहमें खीवाके खानका हाथ था। क्रान्स्नोवोद्स्क किला बनानेके विरुद्ध खानने कुओंमें मुर्दे कुत्तोंको फेंककर पानीको विषैला बनाना चाहा था। खीवावाले जानते थे, कि उनकी इस कार्रवाईका जवाब रूसी किस तरह देंगे, इसलिये राजधानी खीवाकी किलाबन्दी कर प्राकारपर बीस तोपें लगा दी गईं। खीवाने तलदिक धाराको रोककर वक्षुके प्रवाहको कई धाराओंमें बदल दिया, जिसमें कि उथली हो जानेके कारण रूसी जहाज अराल समुद्रसे वक्षु दरियाके भीतर होकर आगे न बढ़ सकें।

१८७० ई०में जेनरल काँफमानने कड़ा पत्र लिखकर धमकी दी, कि अगर बात ठीक-ठाक नहीं की गई, तो हम कड़ी कार्रवाई करनेके लिये मजबूर हैं। खीवाके कुशबेगी (प्रधान-सेनापति) और दीवानबेगी (वजीर)ने उत्तरमें लिखा—“जहां भी उसकी प्रजा है, वहां रूसी सम्राट्का शासन; इसलिये यानी-दरिया अकचाक् झीलतक—जहांपर कि रूसी कजाक घूमते हैं—सम्राट्का है, साथ ही बुकान पहाड़, और किजिलकुमसे इर्किबई तकके यानी-दरियाके ऊपरका सारा रास्ता बुखाराके साथ की गई संधिके अनुसार सदासे रूसका माना गया है।” लेकिन इस जवाबसे रूसी क्यों संतुष्ट होनेवाले थे? उन्हें तो आगे बढ़ना था, जिसके लिये खीवावाले अपने लूटपाटकी आदतसे मौका देनेको तैयार थे। दस्त (स्तेपी)के विद्रोहको दबानेके लिये रूसियोंने उस्तउर्तमें अपनी सेना भेजी, और तुर्किस्तानके बड़े अभियानके लिये सैनिक तैयारी होने लगी। खीवाने रूसियोंको कड़ा देखकर बुखाराके साथ मिलानेके लिये दूत भेजा, जिसे अमीर-बुखाराने रूसियोंके इशारेपर जेलमें डाल दिया। खीवाके आदमियोंको भी अमीर-बुखाराने बहुत समझाया, कि रूसी बंदियोंको छोड़ दो, लूट-मार बंद करो और जेनरल काँफमानके साथ बातचीत करनेके लिये अपने प्रतिनिधि ताशकन्द भेजो। लेकिन, तरुण खान और दरबारी अपनी अकड़में थे। उन्होंने अमीर-बुखाराकी सीख नहीं मानी।

रूसी अभियान (१८७२ ई०)—१८७२ ई०के वसंतमें कर्नल मर्कोजोफके नेतृत्वमें एक मजबूत सैनिक टुकड़ी कास्पियनमें गिरनेवाली वक्षुकी पुरानी धार—उज्वोइ—की जांच-पड़ताल करनेके लिये क्रान्स्नोवोद्स्क बंदरगाहसे रवाना हुई। वह आगे बढ़ते हुए बल्खान पर्वतके तीन सौ वेस्त पूर्वमें अवस्थित ओर्तकू चश्मेपर पहुंची। फिर वहांसे दक्षिणकी ओर मुंह करके उशामला इलाकेके सर्कस-तुर्कमानोंको दंड देते किजिल-अर्वत किलेपर पहुंची। तुर्कमान घुमन्तुओंने आक्रमण किया, लेकिन इससे रूसी सेनाको कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। इतनी जांच-पड़तालके बाद रूसी पीछे लौट गये। जिस वक्त रूसी सेना कास्पियन तटसे जाकर कराकुम रेगिस्तानके एक भागपर खोज-पड़ताल कर रही थी, इसी समय वक्षु और सिर-दरियाके बीचवाले महान् रेगिस्तान—किजिलकुम—की भी जांच-पड़ताल करनेके लिये एक रूसी सेना तुर्किस्तान-शहरसे भेजी गई थी, जिसने मिगबुलाक और बुकान पर्वतोंकी सर्वे की। दोनों तरफसे रूसियोंकी इस कार्रवाईको देखकर सैयद मुहम्मद घबड़ा उठा। उसने महाराज्यपाल काँफमानकी उपेक्षा करते अपना एक दूत ओरेनबुर्गके महाराज्यपाल और दूसरा तिफलिसके महाराज्यपालके पास भेजा, साथ ही महाराजुल मिखाइलको भी लिखा—“कई रूसी अभियान मेरे देशपर चढ़ाई कर रहे हैं। मेरे पास ग्यारह रूसी बंदी हैं, जिन्हें मैं

भेजनेके लिये तैयार हूँ। यदि यह काररवाई रोकी न गई, तो मैं न बंदियोंको भेजूंगा, न लूट-म्वर बंद होगी। अगर ये बंदी तुम्हारे लिये मेरे विरुद्ध युद्ध करनेका बहानामात्र हैं, और तुम अपने राज्यको बढ़ानेपर तुले हुए हो, तो अल्लाहकी जो मर्जी होगी, वही होगा।” खीवाके दूतोंको बंद करके रूसी राज्यपालोंने कहा, कि हम कोई चिट्ठी नहीं लेंगे, जबतक कि रूसी बंदी नहीं छोड़े जाते, और दूतको ताशकन्दके महाराज्यपालके पास नहीं भेजा जाता। रूसियोंसे इस प्रकार निराश होनेके बाद खीवाके खानने अंग्रेजोंकी ओर हाथ बढ़ाया और अपने एक प्रतिनिधिको भारतके उप-राज नार्थबुकके पास भेजकर रूसके विरुद्ध सैनिक सहायता मांगी। लेकिन अंग्रेज क्या भांग खाये हुए थे, कि खीवाकी रक्षाके लिये एक महायुद्ध सिरपर लाते। उपराज (वाइसराय)का जवाब था— “रूसके साथ शांति करो, उनकी मांगोंको पूरा करो, और उन्हें नाराज होनेका मौका मत दो।”

यद्यपि इस प्रकार खीवाका कोई धनी-धोरी नहीं था, और केवल अपने बलपर वह रूसियोंका मुकाबिला नहीं कर सकता था, लेकिन खीवा (ख्वारेज्म) इतिहासके आरम्भक कालसे ही अपने पड़ोसके दो महान् रेगिस्तानों किजिलकुम और करकुम, तथा निर्जन अधित्यका उस्तुर्त एवं उत्तरके जनशून्य दशत-किपचकके कारण बड़े-बड़े विजेताओंके मनोरथको अनेक बार भंग करता आया था। अभी भी रूसके लिये अभियान भेजनेमें सबसे कठिनाई इन्हीं रेगिस्तानों और निर्जन भूमियोंके कारण थी। वस्तुतः ख्वारेज्म एक विशाल रेगिस्तानसे घिरी हुई हरितावली है। ताशकन्दसे ६०० मील, ओरेनबुर्गसे ९३० मील और क्रास्नोवोदस्कसे ५०० मीलकी यात्रा तै करके खीवा कैसे पहुंचा जाय, रूसियोंके लिये यह सबसे बड़ी कठिनाई थी। यद्यपि अरालमें रूसियोंने अपने जहाज तैरा दिये थे, लेकिन उनका बेड़ा काफी शक्तिशाली नहीं था, और वक्षकी धार भी उथली थी, जिसमें जहाज नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन खीवाको दंड देना आवश्यक था। रूसियोंने तीन सेना-स्तम्भ भेजनेका निश्चय किया— (१) प्रधान स्तम्भ तुर्किस्तान शहरसे जनरल काँफमानके संचालनमें अपने साथ ३४२० पैदल, ११५० सवार, ६७७ तोपची, बीस तोपें, दो हलकी तोपें, आठ राकेट लिये भेजा गया। इसके दो विभाग थे, जिनमेंसे एक विभागका संचालक जनरल गोलोवात्सोफ जीजकसे चला, और दूसरा विभाग कर्नल गोलोफके नेतृत्वमें कजालिन्स्कसे रवाना हुआ। रसद ढोनेके लिये आठ हजार ऊंट—ऊंटके मालिकों कजाकोंको एक ऊंटके मरनेपर पचास रूबल देना तै हुआ था, चार स्टीमर भी और इसी सेनाकी सहायता करनेके लिये लकड़ीके बेड़ोंके साथ वक्षुके ऊपरकी ओर बढ़ रहे थे।

(२) दूसरा सेना-स्तम्भ कसाक जनरल आतमन वेरेफकिनके अधीन ओरेनबुर्ग रवाना हुआ, जो यम्बा पहुंचकर अराल समुद्रके पश्चिमी तटपर गया। इस स्तम्भमें ३४६१ सैनिक, १७९९ घोड़े, और सात तोपें थीं।

(३) तृतीय सेना-स्तम्भके तीन विभाग थे, जिसमेंसे एक विभागको कर्नल लोमाकिनके नेतृत्व में मंगिशलकसे बीशअक्ति, इल्तेइजे, तबिनसू होते अइवुगिरकी खाड़ीमें पहुंच ओरेनबुर्गवाले स्तम्भसे मिलना था। बाकी दो विभागोंके दो हजार सैनिक कर्नल मार्कोजोफके संचालनमें क्रास्नो-वोदस्क और चिकिस्लरसे रवाना हुए थे।

कजालिन्स्कवाला स्तम्भ पहले रवाना हुआ, जो बारह दिनमें यानी-दरियापर अवस्थित ईर्कबइमें पहुंचा। रास्तेमें इसके कुछ ऊंटोंको नुकसान हुआ। वहांपर यह सेना व्लागोवेश्चेन्स्क किलेको बना फिर तीन दिन चलकर किजिलकाकमें पहुंची। मौसम खराब हो गया, दोपहरको सूर्यने बरफको गला दिया, जिससे ऊंटोंके लिये चलना मुश्किल हो गया। इस वनस्पतिहीन निर्जन भूमिमें ईधनका कहीं पता नहीं था। इस मुसीबतमें दो दिन और दक्षिणकी ओर बढ़नेपर सेना बुकन्दकी पहाड़ियोंमें जा, आगे युसकुदुक कोकपताश, कोपकन्ताश और मिंगबुलाक होते तम्दी जा पहुंची।

जीजकसे चला प्रधान सेनांग उचमा, फरिश, सिन्ताब, तिभुरकबुक, बंल्लासलदिर चश्मा हो बुखारा सीमापर कराताउ पर्वतश्रेणीकी ओरसे नूरताउ पहाड़ीके उत्तरसे प्रदक्षिणा करते आगे बढ़ा। सर्दी बहुत तेज थी, जिससे इस सेनाके भी कितने ही ऊंट रास्तेमें मर गये। पानीकी कमीके कारण तेमूरबेकसे जीजकवाली सेनाको दो भागोंमें बांटकर आगे बढ़नेके लिये हुक्म हुआ, इनमेंसे एक भाग बिशचगन, यानीकसगन और किदेरीके चश्मोंसे होते आगे बढ़ा, और दूसरे भागने कोशबैगी,

बैमनतंती, मस्ची और अरिस्तनबेल कुदुकका रास्ता लिया। १२ अप्रैलको कुदुकमें दोनों सेनायें मिल गयीं। खानने घबड़ाकर इक्कीस रूसी गुलामोंके साथ पत्र लिखकर कजाला भेजा, लेकिन अब तो 'चिड़ियां चुग गईं खेत' वाली बात थी। इतने खर्च और परिश्रमके साथ भेजा गया महाभियान बातों-बातोंसे कैसे लौट सकता था? रूसी गुलामोंसे पता लगा, कि उनसे बगीचेमें काम लिया जाता और ईरानी गुलामों-जैसा बर्ताव किया जाता था। खानके लिये उन्हें फल-चावल और कभी-कभी गोश्त और चर्बी भी मिल जाती थी। मिगबुलाक और शूरखानासे अच्छा और छोटा समझ सेनाने खलता और उच्चकका रास्ता पकड़ा। लेकिन आगे अरिस्तान-बेलकुदुकमें एक पखवारा रुकना पड़ा। यहीं रूसियोंने ईस्टरके त्योहारको मनाया। किजिलकुमके कजाकोंने ८०० नये ऊंट दिये, फिर रवाना होकर ६ मईको सेना खलता पहुंची। यहीं कजालासे आनेवाली सेना भी मिल गई। रास्तेमें टूटे-फूटे बुखारी किलोंकी मरम्मत करके उसका नाम संत-जार्ज किला रक्खा गया।

खलता और आमूके बीच ८० मीलका फासला था, लेकिन रास्ता अच्छा नहीं था। १२० मील-तक फैली हुई हवाके झोंकेपर इधरसे उधर चलनेवाली बालू सबसे कड़ी समस्या थी, और पानी भी केवल आदमकिलान (मनुष्यमार) कूओंका था, जो खलतासे २४ मीलपर थे। चारों ओर रेगिस्तान-ही-रेगिस्तान था, जिसमें कहीं वनस्पतिका नाम नहीं था—लाल रंग-जैसी बालू थी, जिसके कारण इस रेगिस्तानका नाम किजिलकुम (लाल बालू) पड़ा। रास्तेमें एकाध ही सो भी बुरे कुएं थ, जिनसे सेना और उसके पशुओंका काम नहीं चल सकता था। पौने सात घंटेके कूचके बाद प्रत्येकको आमू-दरियाके ऊपर उच्चकमें भोजनेका निश्चय किया गया। लेकिन बालूमें चलना भारी परिश्रमका काम था। ऊपरसे असह्य धूप पड़ रही थी, इसलिये हरावल सेना १३ मीलसे आगे नहीं बढ़ सकी, और उसके लिये आदमकिलानसे मीठा पानी भोजना पड़ा। एक रूसी लेखकके अनुसार "अवस्था बहुत भयंकर हो गई। आगे बढ़ना असम्भव मालूम होता था, और पीछे लौटना भारी शरमकी बात होती। आदमकिलानमें पानी थोड़ा था, और मशकोंमें भरकर साथ लाया पानी खतम हो चुका था।" अन्तमें सुरक्षाकी एकमात्र आशा वह चिथड़ाधारी किर्गिज दिखलाई पड़ा जो कि ईकबइसे कजालाकी वाहिनीके साथ हो लिया था, और जिसके महत्त्व और गुणका पता जनरल निकोलस और कर्नल ब्रेश्चेर्नेने पहलेपहल लगाया। किर्गिजने बतलाया, कि रास्तेसे कुछ ही मील दाहिने अल्तीकुदुकके कुएं हैं। जनरल कॉफमानने अपनी जेबी पानीकी कुप्पी देकर कहा, कि यदि इसमें पानी भर लाओ, तो तुम्हें सौ रूबल इनाम दिया जायगा। किर्गिजने वैसा कर दिखलाया, और सेनाकी एक टुकड़ी अल्तीकुदुक भेजी गई। कुओंकी संख्या कम थी, वह बहुत गहरे नहीं थे, लेकिन उनमें काफी पानी था। पानी निकालकर घोड़ों और ऊंटोंको पिलाया गया, सेनाने भी प्यास बुझाई, फिर कई दिनोंतक यहां डेरा डाल दिया गया, और छोटी-छोटी टुकड़ियोंमें दो की जगह ग्यारह दिनमें कॉफमानकी वाहिनी २३ मईको वक्षु (आमू-दरिया)के तटपर पहुंची। यात्राकी भीषणताका पता इसीसे लगेगा, कि दस हजार ऊंटोंमें सिर्फ बारह सौ बच रहे। खलतासे आगे सारे रास्तेमें रसदकी चीजें, अफसरोंके असबाब, और गोलाबारूदका सामान बिखरा हुआ था। कई जगहोंपर युद्ध-सामग्रीको इस आशासे बालूके नीचे दबा दिया गया था, कि अवश्यकता पड़नेपर सैनिकोंको लानेके लिये भेज दिया जायगा। कुछ सप्ताह बाद एक रूसी अफसर इस रास्ते गुजरा, जिसने इसके बारेमें लिखा था—“सारे रास्ते भर ऊंटों और घोड़ोंकी कंकाल तथा सड़ते हुए शरीर फैले थे। दुर्गन्धसे नाक फटी जाती थी। पड़े हुये सामानोंके देखनेसे मालूम होता था कि कोई बाजार लगी हुई है।”

खीवावालोंने भी लड़नेकी तैयारी की थी, और जबदस्ती लोगोंकी भर्ती करके सैनिकोंकी संख्या बढ़ाई थी। इस सेनाका एक भाग कुंआदकी ओर उर्गा खाड़ीके पास यानीकलामें गया, जिसका काम था, उस्तउर्तसे आनेवाली रूसी सेनाका प्रतिरोध करना। छ-सात हजार सैनिक अरालके पूर्वी तटसे आनेवाली सेनाके मुकाबिलेके लिये दौकरामें थे। खीवावालोंने इन्हीं दो जगहोंसे खतरेकी सम्भावना समझी थी। जनरल कॉफमानके आ जानेकी खबर पा ३५०० तुर्कमानों और कजाकोंको उच्चकमें भेजा गया, जिनमेंसे पंद्रह सौका कमांडर दीवानबेगी मुहम्मद नियाज था, और दो हजारका

दीवानबेगी मुहम्मद दुराद । यह सेनायें उच्चकसे पूर्वमें सरदाबाकुल(झील)के परे जाकर जम गयीं, लेकिन पहली ही झड़पमें थोड़ेसे गोले-गोलियोंकी बौछारसे इनके पैर उखड़ गये । शूरखानसे वक्षुके दाहिने तटसे रूसी सेना चली, और चौथे दिन अककामिश पहुंची । वक्षुपार शेखआरिक किलापर थोड़ेसे गोलोंके छोड़नेकी जरूरत पड़ी, और शत्रु वहांसे भी भाग गया । नदी उथली थी, केवल छाती भर पानी था । कितने लोग पैदल ही नदीमें घुसकर पार हो गये, और कुछने दुश्मनसे पकड़ी नावोंसे या साथ लाये बेड़ेको बांधकर परले पार जा खीवावालोंके डेरेपर अधिकार कर लिया । वहां उन्हें चावल और नमक भर मिल पाया । रूसियोंके केवल दो घोड़े मारे गये, जिन्हें भूखे सिपाहियोंने तुरन्त पकाकर खा लिया ।

२८ मईको शूरखानाके आदमियोंके एक प्रतिनिधि-मंडलने रूसी सेनापतिसे मिलकर तुर्कमानों और खीवावालोंके अत्याचारकी शिकायत की । व्यवस्था कायम करनेके लिये कसाक सैनिकोंकी एक टुकड़ी भेजी गई, जो वहां चार दिनतक रही । रूसियोंने अभयदानकी घोषणा करके निवासियोंमें ऐसा विश्वास पैदा कर दिया, कि लोग सेनाके खानेके लिए ढोर, अंगूर आदि फल, तथा जानवरोंके लिये चारा लाने लगे ।

आगे शेखआरिकमें थोड़ीसी झड़प हुई । यहींपर खानका पत्र मिला, जिसमें कहा गया था, कि मैं जेनरलकी आज्ञा-पालन करनेके लिए तैयार हूं । लेकिन जेनरल काँफमानने कहा, कि अब बात खीवामें ही होगी । ५ जूनको फिर सेना आगे रवाना हुई, और शेखआरिकसे चन्द घंटा चलनेपर हजारास्प पहुंच गई । यहां भी कुछ गोले छोड़ने पड़े, और खीवावाले सैनिक भाग खड़े हुये । खीवाका यह सबसे मजबूत किला था । इतिहास बतलाता है, कि हजारास्प (सहस्राश्व) ने कितने ही विश्वविजयी शत्रुओंके दांत खट्टे कर कितनी ही बार ख्वारेज्मको बचाया था । लेकिन अब हम बारूदके युगमें आ गये थे, जब कि हजारास्प अपनी करामातकी तीर-धनुषके युग हीमें दिखला सकता था । खीवाके छोटेसे राज्यके हाथमें शक्तिशाली आधुनिक हथियार नहीं थे, इसलिये वह रूसियोंका कैसे मुकाबिला करता ? हजारास्पके किलेके तीन तरफ पानीसे भरी गहरी खाई थी, और एक तरफ तीन फैदम (३ × ६ = १८ फुट) मोटी दीवार । यहां अवश्य कड़ा प्रतिरोध किया जा सकता था, लेकिन नागरिकोंने सर्वनाशके डरसे किलेको समर्पण कर दिया । रूसियोंने वहां कांसे-पीतलकी चार अच्छी तोपें, कुछ गाड़ियां, गोला-बारूदके एक बड़े ढेरके साथ हजार पूद (४०० मन) गेहूं, ६०० पूद (२७२ मन) चावल और घोड़ोंके लिये ८०० पूद (३२० मन) बाजरा पाया ।*

६ जूनको जेनरल काँफमानकी खबर मिली, कि ओरेनबुर्गकी वाहिनी भी आ गई । अगले दिन अमीर-बुखाराने काँफमानके पास वधाई भेजी । ९ जूनको फिर सेना कूचकर अगले दिन यंगीआरिक झीलके तटपर पहुंच गई ।

कर्नल मार्कोजोफको बुगदौली और ऐदिनके रास्ते उज्बोइ (कास्पियनकी ओर जानेवाली वक्षुकी सूखी धार)से होते तोपियातान, इगदी, ओर्ताकुया, दंदुरसे आनेपर जामुकशिरका ध्वस्त किला मिला, जो कि खीवासे चालीस मील पश्चिम है । यहां पहुंचकर मार्कोजोफको तुर्किस्तानसे आनेवाले सेना-स्तम्भकी प्रतीक्षा करनी थी । कर्नल मार्कोजोफकी सेना करीब आधे रास्तेपर इगदी-तक सुरक्षित पहुंची, और तेक्के-तुर्कमानोंको हराकर उसे बहुतसा लूटका सामान मिला । लेकिन इगदी और ओर्ताकुयाके बीचमें भयंकर बालुकाराशिसे मुकाबिला पड़ा । इस दुर्गम रास्तेसे गुजरकर सबसे पहले पहुंच खीवा जीतनेकी जल्दी थी, जिसका श्रेय काकेशसकी सेनाको मिला, जो कि कास्पियनके पूर्वी किनारेकी बन्दरगाहोंसे रवाना हुई थी । लेकिन बीचकी रेगिस्तानी भूमिकी भयंकर धूप और जलके अभावने सेनाके बढ़ावको रोक दिया । ओर्ताकुयासे आगेके रेगिस्तानकी भीषणताको जानकर सेनाको क्रास्नोवोद्स्क लौटनेके लिये मजबूर होना पड़ा । उस समय सैनिक भारी संख्यामें बीमार होकर अंटोंपर ढोये जा रहे थे, और उधर तेक्के-तुर्कमानोंने हमला शुरू कर दिया । सारे सैनिक किसी-न-किसी बीमारीमें फंसे थे, जिनमें साठ तो लूखे मर गये । सेना

* २११ पूद = १ मन

बिना हथियारके समुद्र तटपर लौटी। अंटोंको तुर्कमान लूट ले गये, और रसदका बोझा हलका करनेके लिये रेगिस्तानमें फेंक दिया गया था। काकेशसकी सेनाकी क्या दशा हुई थी, यह इसीसे मालूम होगा, कि एक स्टाफ-अफसरने अपने सारे चांदीके प्लेटोंके सेटको फेंक दिया था। कुछ तोपोंको बालूके नीचे गाड़ दिया गया। बन्दूकोंमेंसे कितनी ही पीछे कजाकों और तुर्कमानोंने लौटाईं। यद्यपि यह अभियान असफल रहा, लेकिन बुखाराकी सेनापर अपनी धाक जमाकर इसने उसे खीवाकी मददके लिये जानेसे रोक दिया।

कास्पियन तटसे कर्नल लोमाकिनने उस्तउर्तके रास्ते कूच किया। यह सेना कास्पियन तटपर अवस्थित किद्रेली किलेसे तीन भागमें बंटकर आगे-पीछे २७, २८ और २९ अप्रैलको रवाना हुई। धूप और पानीकी इसे और भी तकलीफ हुई। इसका रास्ता कौनदी, सेनेकसे, बिशअक्ति, कामिस्ती, करस्तूचिक, सइकुयु, बुस्साग, कराकिन, किनिर, अल्पइमास, अकमेचेत, इल्टेइजी, बाइलियर, किजिलअगिर, बैचगिर, मेन्दली, अलान, इलिबइ (ऐबुगिर खाड़ीके दक्षिण-पश्चिम)से था। बिशअक्तिमें कजाकोंको आक्रमण करके पिटना पड़ा। अलानके पास सेना राजुल बेकोविचके बनवाये किलेके ध्वंसावशेषके पाससे गुजरी। जेनरल बेरेन्किन ओरेनबुर्गसे अपनी सेना लेकर आ रहा था। उससे बातचीत करके ऐबुगिरसे आगे बढ़ कुंघ्राद पहुंची, और चन्द घंटों बाद ओरेनबुर्गकी सेना आ मिली। इस सेनाको उस्तउर्तकी चार सौ मील लम्बी रेगिस्तानी अधित्यकाको रसद-पानीकी कमीके साथ पार करना पड़ा, लेकिन उन्तीस दिनोंमें उसने यह यात्रा पूरी कर ली।

ओरेनबुर्गकी वाहिनी ११ अप्रैलको वहांसे रवाना हुई थी। ओरेनबुर्गसे अराल-समुद्र तकका रास्ता अब रूसियोंकी भूमिमें होनेके कारण सुपरिचित था, इसलिए इस सेनाको अपनी यात्रा पूरी करनेमें कम तकलीफ हुई। पहले यह पूर्वकी ओर बढ़ती बरसुककी बालुकाराशितक गई, फिर वहांसे मुड़कर अरालके पश्चिम उर्गाकी खाड़ीपर पहुंची। जेनरल बेरेन्किनने घोषणा निकाल दी थी, कि कराकल्पक और तुर्कमान घुमन्तू अपन-अपने डेरों और घरोंमें रहें, तथा सेनाके साथ केवल रूसी कसाक शरणार्थी ही चलें। कबीलोंके कितने ही सरदार रूसी सेनाके साथ आ मिले थे, जिन्होंने यात्रामें बड़ी सहायता की। जेनरल बेरेन्किनकी सेना ऐबुगिर पार होयानीकलाको सर और ध्वस्तकर कुंघ्रादमें पहुंची। यहां खीवावालोंकी काफी सेना थी, लेकिन रूसियोंके आते ही वह भाग खड़ी हुई, और शहरपर निर्विरोध अधिकार हो गया। शहरके प्राकार और घर पहले हीके संघर्षमें ध्वस्त हो चुके थे। रूसी जेनरलने खानके प्रासाद और जेसाउल मामितके घरको तुड़वा दिया। शहरमें सिर्फ एक हजार पूद (४०० मन) चावल और ज्वारकी रोटियां मिलीं। लोग पहले ही भाग गये थे, लेकिन रूसियोंके अच्छे बर्तावकी खबर पाकर वह जल्दी ही लौट आये।

यहींपर जेनरलको रूसी बेड़ेके बारेमें बुरी खबर मिली। २९ अप्रैलको बेड़ेने सिरके मुहानेको छोड़ दो दिन बाद तकमकअता द्वीपके आगे ऐबुगी खाड़ीमें पहुंच लंगर डाला। कुछ दिन ठहरनेके बाद ९ मईको वह उलकुम-दरियाकी पश्चिमी शाखा किचकिन-दरियामें घुसा, और अककला नामक एक छोटेसे किलेके सामने आया। जहाजी तोपोंने बमवर्षा करके किलेके भीतर रहनेवाली सेनाको भगा दिया। फिर बेड़ा उलकुम-दरियामें होकर ऊपरकी ओर चला। कुंघ्राद नगर ५० वेस्त (८७ फर्सख) के करीब था, किन्तु नदीमें पर्याप्त पानी नहीं था, इसलिए वहीं लंगर डालना पड़ा। कुछ आदमी जहाजोंसे उतरकर आसपासकी भूमिके बारेमें पता लगानेके लिये भेजे गये, जिन्हें दुश्मनोंने धोखेसे पकड़कर मार दिया। इनकी लाशें पीछे कुंघ्रादमें दफनाई गयीं। अब फिर बेड़ा आगे चला। कुंघ्रादसे ३० वेस्त पहले ही खोजेइलीमें खीवाके चार-पांच हजार सैनिकोंके साथ मामूली झड़प हुई। आगे मंगितसे पहले यामूद तुर्कमानोंसे लड़ाई हुई। रूसी शहरपर अधिकार करके शत्रुओंको पीछा करते ही रहे। एक टुकड़ी किताई (करागोसकी नहर)की ओर बढ़ी, और दूसरीने कर्नल स्कोबेलेफके नेतृत्वमें किलिज-नियाजबीकी ओर पीछा किया। आगे बढ़नेपर गुरलान आया। यहीं खानकी मुख्य

सेना थी, जिसपर खीवावालोंकी सारी आशायें केंद्रित थीं। लेकिन इस सेनाने भी रूसियोंका नाममात्र ही प्रतिरोध किया। खानने जेनरल बेरेव्किनके पास चिट्ठी भेजकर तीन-चार दिनकी विराम-संधिकी बात करते हुये कहा, कि हमने जेनरल कॉफमानके पास भी इसके बारेमें निवेदन किया है। लेकिन जेनरलने अपने बढ़ावको जारी रक्खा। कात और काशकुपिरके रास्ते वह आगे बढ़ा। वहां कितनी ही बार दुश्मनसे झड़प करते बहुत-सी नहरोंको पार करना पड़ा। रूसियोंने चौबीस घंटेके भीतर किलिज नियाजबी नहरपर १८९ फुटका बेड़ेवाला पुल तैयार किया। ७ जूनको खीवा तीन मीलसे भी कम रह गया था। वहां खानके बागमें जेनरल बेरेव्किनने डेरा डाला। किलेसे तोपें दगने लगीं। एक फटे गोलेसे जेनरलके सिरमें भारी चोट आई। रूसी तोपखानेने भी जवाब दिया। नागरिकोंका प्रतिनिधिमंडल रूसी सेनापतिसे मिलने आया। उसने बतलाया, कि खान भाग गया है, नगरमें बड़ी बदअमनी फैली हुई है। बेरेव्किनने तुरन्त गोलाबारी बन्द कर दी, तथा दूतमंडलको कहा, कि जेनरल कॉफमान ही शांति दे सकते हैं, उन्हींके पास जाओ। साथ ही यह भी धमकी दी, कि किलेकी तोपोंको बन्द करो, नहीं तो दो घंटेके भीतर हम नगरपर गोलाबारी करने लोंगे। दूसरे नागरिक-मंडलने आकर कहा, कि तुर्कमान सैनिक हमारी बात माननेके लिये तैयार नहीं हैं। दस बजे राततक गोलाबारी होती रही। उधर कॉफमानका पत्र आया, कि हम खीवासे सिर्फ १६ वेर्स्ट (२७ फर्सख) पर यंगीआरिकपर हैं, पूर्वद्वारसे तीन मीलपर अवस्थित पुलपर आकर मिलो।

जेनरल कॉफमानने ६ जूनको ही ओरेनबुर्गकी सेनाके आनेकी खबर सुन ली थी। यंगीआरिकमें उसके पास खानका चचेरा भाई ईनक इरताश अली खानका पत्र लेकर आया, जिसमें कहा गया था, कि मैं जारकी प्रजा हूं, यामूद मेरे हाथमें नहीं है, कल मैं स्वयं सेवामें आ रहा हूं।

शहरमें सचमुच ही अराजकता फैली हुई थी। प्रतिरोध और समर्पणके लिये तैयार लोगोंके दो दल हो गये थे, जिनके बीच भीषण संघर्ष हो रहा था। ईनकके लौटकर आनेसे पहले ही खान राजधानी छोड़कर भाग गया था। दीवानबेगी मतमुराद प्रतिरोध-पार्टीका अगुवा था। खानका भाई अताजान तिमूर, जो सात महीनेसे बंदीखानेमें पड़ा था, अब खान बनाया गया था। उसका चचा सैयद अमीरुलउमरा संयुक्त शासकके तौरपर काम कर रहा था। दोनों चचा-भतीजे समर्पण-पक्षपातियोंके मुखिया थे। अगले दिन सबेरे ईनक इर्तसली और दूसरे अमीरोंने जेनरल कॉफमानके पास जाकर अधीनता स्वीकार की।

जेनरल बेरेव्किनने अपनी सेनाके एक बड़े भागको तुर्किस्तानी सेनासे मिल जानेके लिये भेजा, बाकियोंके ऊपर किलेसे गोलाबारी होने लगी। रूसियोंने भी तोपोंको छोड़कर उसका जवाब दिया। वह खीवाके उत्तरी दरवाजे शाहबादको तोड़कर नगरके भीतर घुस गये। कर्नल स्कोबेलेफ सड़कसे महलकी ओर चला। उधर जेनरल कॉफमानने हजारास्प दरवाजेपर पहुंचकर विजयीके तौरपर नगरमें प्रवेश किया। उस समय नगरमें झंडे-पताके फहरा रहे थे, बाजे बज रहे थे। खानके अन्तःपुर (हरम) और सम्पत्तिकी रक्षाके लिये रूसियोंने गारद नियुक्त कर दिया और सैनिकोंने नगर-प्राकारपर अधिकार कर लिया। जेनरलके हुक्मपर लोगोंके हथियार छीने जाने लग। नगरके बड़े मैदानमें रूसी सेनाने जमा होकर सत्राटके लिये दुआ और धन्यवादकी रसम अदा की। कॉफमान खानके दरबार-हालमें पहुंचा, जहां नागरिकोंके कितने ही प्रतिनिधि बधाई देनेके लिये आये। सैयद मुहम्मद खान भागकर यामूदोंमें चला गया था, इसलिये रूसी जेनरलने अताजान त्युराको अस्थायी खान बनाया। उसने सैयद मुहम्मदके पास संदेश भेजा, कि मैं तुम्हें खान पदपर पुनः स्थापित करनेके लिये तैयार हूं, इसपर चन्द घंटों बाद खान आ मौजूद हुआ।

खान जड़ाऊ जीन लगे घोड़ेपर चढ़कर अपने महलके बगिचेतक आ जेनरल कॉफमानके तम्बूकी ओर जानेवाले रास्तेके छोरपर उतर पड़ा। फिर अपनी टोपी उतार पासमें पहुंचकर उसने कॉफमानके सामन घुटने टेक दिये। कॉफमान उस वक्त एक कुर्सीपर बैठा रहा। उसने अपने पराजित शत्रुके साथ वीरोचित बर्ताव नहीं किया। खान घुटना टेके कालीनपर बैठ गया। वह तीस वर्षका

तरुण था। उसका चेहरा असुन्दर नहीं था। चौड़े चेहरेपर मंगोलायित आंखें कुछ तिर्छी थीं, लेकिन नाक तोते-जैसी थी। बड़ मुखपर छोटी पतलीसी काली दाढ़ी-मूँछ थी। कदमें वह छ फुटका लम्बा-तगड़ा जवान था। उसके सीधे-सादे-जीवनका बुखाराके अमीरसे मुकाबिला करनेपर आश्चर्य होता था। उसका सबसे बड़ा शौक था—सुन्दर तुर्कमान घोड़ोंसे अपने अस्तबलको भरे रखना, और कभी-कभी नई बीबी लाना। एक सौ रखेलियोंके अतिरिक्त इस्लामी शरीयतके अनुसार उसकी चार बीबियां राज्यकी चारों जातियोंकी थीं। खानके राज्यकी आमदनी उस समय नब्बे हजार रूबल (पैंतालीस लाख पाँड) थी। किजिलकुमके घुमन्तुओंको छोड़कर उसके राज्यमें पांच लाख आदमी बसते थे। उसे पढ़ने-लिखनेका भी शौक था, और उसके पुस्तकालयमें तीन सौ जिल्द हस्तलिखित ग्रंथोंके थे, जिनमेंसे अधिक इतिहासपर, सो भी फारसीसे तुर्कीमें अनुवादित थे।

जेनरल कॉफमानने खानकी सहायताके लिये एक शासन-परिषद् कायम कर दी, जिसमें तीन रूसी (लेफ्टिनेंट-कर्नल इवानोफ, लेफ्टिनेंट-कर्नल पोशारोफ, लेफ्टिनेंट-कर्नल खोरोशिन) और तीन खीवावाले सदस्य (दीवानबेगी मतनियाज, ईनक इर्तसअली और मेहतर अब्दुल्ला बी) थे। मतनियाज इनमें सबसे योग्य था। इस परिषद्का अध्यक्ष तामके लिये खान था, नहीं तो असली अध्यक्ष कर्नल इवानोफ था। इस्लामी शरीयत और स्थानीय राज्यपालोंकी नियुक्तिका अधिकार खानको दिया गया था। रूस-विरोधी मतमुराद और रहमतुल्लाको बंदी बनाकर पहले कजाला, फिर रूस भेज दिया गया। अताजान रूसी सेनामें शामिल हो गया।

रूसियोंने खीवापर विजय प्राप्त करके वहाँके तीस हजार गुलामोंको मुक्त कर दिया। उन्हें पांच-छ सौके दलमें क्रान्स्नोवोदस्क भेजकर वहाँसे जहाजोंपर ईरान भेज दिया जाता। पहले जो दो दल भेजे गये थे, उनमेंसे एकपर तुर्कमानोंने प्रहार करके कितनों हीको मारा और कितनोंको पकड़कर फिर गुलाम बना लिया। रूसियोंके खीवा छोड़नेपर मुक्त होकर वहाँ रहते सैकड़ों गुलाम मार डाले गये।

अन्तमें खीवाने संधिपत्रपर हस्ताक्षर किया, जिसमें खानने अपनेको जारका वफादार सेवक रहनेका वचन दिया और यह भी स्वीकार किया, कि मैं किसी भी दूसरी विदेशी-शक्तिसे व्यापार आदिकी संधि नहीं करूंगा, न रूसियोंकी स्वीकृति या जानकारीके बिना कोई सैनिक अभियान संगठित करूंगा।

राज्यकी सीमा निर्धारित हुई थी—अराल समुद्रतक वक्षुकी सबसे पश्चिमी धारा। अरालके तटसे होते उर्गा अन्तरीप तथा उस्तउर्तके उत्तरी छोरतक—वक्षुकी पुरानी धारासे दाहिने तटकी सारी भूमि रूसको मिली, जिसके कुछ भागको इच्छा होनेपर रूस बुखाराको दे सकता था। वक्षुमें नौसंचालनका अधिकार सिर्फ रूसको था, व्यापार और कारखाना बनानेकी भी उसे पूरी स्वतंत्रता थी। रूससे भागे हुये अपराधीको लौटा देना खीवाने स्वीकार किया। दासता-प्रथा बन्द कर दी गई। हरजानेमें बाईस लाख रूबल (दो लाख चौहत्तर हजार पाँड) देना तै हुआ, जिसमें पहले दो सालोंतक लाख-लाख रूबल, फिर १८८१ ई०तक क्रमशः बढ़ते हुये दो लाख सालाना अदा करना था।

खीवाके साथ जो संधि हुई थी, उसे पीतरबुर्गमें प्रकाशित होनेसे पहले ही जेनरल कॉफमानने “तुकिस्तान गजेत” में प्रकाशित कर दिया था। इससे मालूम होगा, कि रूसके दूर-दूरके महाराज्यपालोंको कितने विशेष अधिकार प्राप्त थे।

इस प्रकार १८७२ ई०में खीवाकी स्वतंत्रता समाप्त हुई। खीवाके राज्यमें सर्त, उज्बेक, कराकल्पक और तुर्कमान चार जातियां रहती थीं, जिनमेंसे सर्त (फारसीभाषी) अधिकतर व्यापारजीवी थे, और सैनिक तौरसे उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं था। बाकी तीन जातियां लड़ाकू और बहुत कुछ घुमन्तू थीं। वहीं उज्बेक यहाँ भी थे, जो कि बुखारा और खोन्दके राज्योंमें रहते थे। कराकल्पक निम्न-वक्षु-उपत्यकामें अराल समुद्रतक फैले हुये थे। बोल्शेविक-क्रांतिके बाद जब जातियोंके अनुसार राजनीतिक इकाइयां बनने लगीं, तो सभी उज्बेकोंकी भूमिको मिलाकर उज्बेकिस्तान गणराज्य बना दिया गया, जिसकी राजधानी ताशकन्द हुई। कराकल्पकोंकी संख्या

तुर्कमान

१ तुर्कमान-भूमि

१८७३ ई०में खीवाने जारकी अधीनता स्वीकार कर ली, इससे चार साल पहले १८६९ ई०में कास्पियनके पूर्वी तटपर क्रास्नोवोद्स्कका प्रसिद्ध बन्दर स्थापित हुआ था। जारशाहीने क्रास्नोवोद्स्कसे मंगिशलक प्रायद्वीपतक बीच-बीचमें रूसियोंकी बस्तियां और किलेबंदियां कायम कर दी थीं। खीवाके पतनके बाद मध्य-एशियामें रूसी साम्राज्यकी सीमा वक्षुकी धाराके साथ-साथ थी। लेकिन कास्पियन और वक्षुके बीचकी भूमिपर अभी भी रूसियोंका अधिकार नहीं हुआ था। वहां अधिकतर घूमन्तू-जीवन बितानेवाले तुर्कमान रहते थे। यह भूमि एक त्रिकोणकी शकलमें है, जिसके सिरेपर खीवा है, और दो भुजाओंमें एक कास्पियन तट और दूसरी वक्षुकी धारा। इस त्रिकोणका आधार बलखसे दक्षिण-पश्चिमसे लेकर कास्पियनके कोनेतक चला गया है। यह सारी भूमि दो लाख चालीस हजार वर्गमील होनेके कारण बहुत विशाल है, लेकिन इसके उत्तरी भागकी सबसे अधिक धरती कराकुमका रेगिस्तान है। यद्यपि इस भूमिको बिलकुल बालूकी भूमि नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं-कहींपर इसकी वज्र-जैसी भूमिपर घोड़ोंकी टाप पड़नेपर जोरकी आवाज सुनाई देती है, हां दूसरी जगहोंपर केवल बालू-ही-बालू है, जिसका कराकुम या कालाबालू नाम रंगकी समानताकी वजहसे पड़ा। बसंतमें वर्षा होनेपर इस भूमिमें जगह-जगह हरियाली, लम्बी घास तथा तरह-तरहके फूल दिखाई पड़ते हैं। इस भूमिको इस अवस्थामें केवल पानीके अभावने पहुंचाया है। यदि पानी होता, तो यहां की चरागाहोंमें असंख्य भेड़ें और दूसरे जानवर पल सकते थे। यह रेगिस्तान किसी समय मध्य-एशियाके विशाल समुद्रके भीतर था। उस समय आसपासके पहाड़ोंसे निकलनेवाली नदियां इस महासागरमें गिरती थीं, लेकिन अब वह हमारी पुरानी सरस्वतीकी तरह सूखे बालूमें विलीन हो जाती हैं। मुग़ाब और ताजन्दकी नदियां अफगानिस्तानके पहाड़ोंसे निकलकर उत्तरकी ओर बहते कराकुमके रेगिस्तानमें गायब हो जाती हैं। कितनी ही और भी छोटी-छोटी नदियां इसी तरह अपने अस्तित्वको खोती हैं। पुराने समयमें इस मरुभूमिके पश्चिमी भागको वक्षुकी धारा सिंचित करती थी, जब कि वह कास्पियनकी मिखाइलोव्स्की खाड़ीमें गिरती थी। हम जानते हैं, चिङ्गिस् के हमलेके समय १३वीं सदीमें वक्षुकी एक शाखा कास्पियनमें गिरने लगी। बसंतके थोड़ेसे समयको छोड़कर यह सारी भूमि प्रायः वनस्पतिहीन हो जाती है, और केवल थोड़ेसे कंटीले वृक्ष, ऊंटोंके खाने लायक कुछ छोटी-छोटी झाड़ियां और फरास (झाऊ)के कितने ही वृक्ष जहां-तहां दिखलाई पड़ते हैं। जंगली जानवरोंमें यहां क्यांग (जंगली गदहे), कई तरहके हरिन, जिनमें कुछ भेड़ोंके बराबर छोटे-छोटे मिलते हैं।

रेगिस्तानमें कारवांके रास्तोंपर जहां-तहां कुयें हैं, या यों कहिये कि कुओंके जलके सुभीतेके कारण उधरसे कारवां पथ जाता है। ऐसे ही पानीके स्थानोंपर कितने ही पक्षी उड़ते और चहचहाते मिलते हैं, नहीं तो चारों ओर असह्य नीरवता छाई रहती है। बालूके न उड़ते समय आकाश शुद्ध रहता है, और दूरका क्षितिज नजदीक दिखलाई पड़ता है। गर्मीमें मृगतृष्णाकी हिलती हुई लहरें पथिकको मृत्युकी ओर आह्वान करती हैं। कराकुममें दिसम्बर और जनवरीमें सख्त सर्दी पड़ती है, जब कि तापमान हिमविन्दुसे ५०° से० नीचे चला जाता है। गर्मी भी वहां हद

दर्जकी होती है—लू आदिमियोंकी जान ले लेती है, और बालूके अंधड़में पड़नेपर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस मरुभूमिमें मनुष्यके लिये बहुत प्राचीन कालसे जीवनका रास्ता रुका हुआ है। यदि इससे कोई फायदा था, तो यही, कि ख्वारेज्म बहुत दिनोंतक बाहरी शत्रुओंके आक्रमणसे बचा रहा। लेकिन जान पड़ता है, अब कराकुममें बिराजती मृत्युकी नीरवता अधिक दिनोंतक नहीं रह सकेगी। खीवाके पास वक्षुसे उजबोई होते कास्पियनमें मिलनेवाली नहरके बनानेमें आधुनिकतम यंत्रोंका उपयोग किया जा रहा है, और कुछ ही वर्षोंमें वक्षुका बहुतसा पानी कराकुमके एक बहुत बड़े भागको सरसब्ज बनानेमें सफल होगा। लेकिन सोवियत रूस इतने हीसे संतुष्ट नहीं है, बल्कि जैसा कि पहले हम बतला चुके हैं, वह चार सौ फुट ऊंचे बांधको बना कर ओब और येनिसेइके अधिकांश पानीको ध्रुवीयमहासागरमें जानेसे रोककर कजाकस्तान और कास्पियन तटतक फैले एक समुद्रके रूपमें बदलना चाहता है। बलकाश, और अराल समुद्रको अपने गर्भमें लेते यह महासमुद्र कास्पियनतक जब फैल जायगा, तो मध्य-एसियाके विशाल रेगिस्तानोंका पता भी नहीं रहेगा। इस योजना से पहले ही सोवियत कालमें कराकुमके कुछ भागोंको अच्छी चरागाहोंमें बदल दिया गया। जाड़ेके महीनोंमें तापमानका हिमबिन्दुसे दर्जनों डिग्री नीचे जाना इसमें सहायक हुआ। कराकुमके रेगिस्तानमें जहां-तहां उगनेवाले वनस्पति और घासों बतलाती हैं, कि धरतीके नीचे वहां पानी भी है। लेकिन पानी अधिकतर बहुत खारा है, जिसे पशु और प्राणी पी नहीं सकते। रूसी वैज्ञानिकोंने इस खारे पानीको मीठे पानीमें बदलनेके लिये जगह-जगह कूओंपर सीमेंट किये हुये बड़े-बड़े तालाब बनाये, और जाड़ोंमें बर्फ जमा कर मीठे पानीको नमकसे अलग करके पशुओं और प्राणियोंके लिये जमीनदोज तालाब स्थापित किये, इस प्रकार वहां लाखों पशु पलने लगे।

लेकिन, तुर्कमानोंकी भूमिका कुछ दक्षिणी भाग ऐसा भी है, जहां रेगिस्तान नहीं है। कास्पियनके दक्षिण-पूर्वमें गूरगान और अतरक नदियों द्वारा सिंचित भूमि है, जो यद्यपि समुद्रके पास दलदली है, लेकिन ऊपरकी ओर बड़ी सुन्दर उपत्यकायें हैं। एक पश्चिमी यात्रीने इस भूमिमें चलते हुये लिखा था—“हमारा मार्ग हरे-भरे खेतों और सुन्दर स्वाभाविक चरागाहोंके भीतरसे था, जिनकी पहाड़ियोंमें बड़े कोमल रंगके बांज (ओक)के किसलय शोभा दे रहे थे। जहां-तहां हरा मखमली फर्शसा बिछा मालूम होता था।” कराकुमकी नीरव और निर्जीव भूमिके अतिरिक्त ऐसी भूमि भी थी, जिसमें तुर्कमान घूमा करते थे। ईरान और तुर्कमानिस्तानकी सीमापर कोपेकदाग पर्वतमाला है, जिससे निकलनेवाली नदियोंने किजिल अरबतसे लेकर गियाउर-तककी एक सौ सत्तासी मील लम्बी और पंद्रहसे पच्चीस मील चौड़ी भूमिको बहुत ही उर्वर बना दिया है। इस प्रदेशको अक्कलकी हरितावल (ओसी) कहा जाता है। जहांसे मुर्गाब पहाड़ोंको छोड़कर रेगिस्तान ओर बढ़ती है, वहींपर मेर्वकी प्रसिद्ध हरितावल है, जिसे दुनियाकी अत्यन्त उर्वर भूमियोंमें माना जाता है। ऐतिहासिक कालमें मेर्वके महस्वको हम देख चुके हैं। बुखाराके अमीर मुरादकी सेनाने १७८४ ई०में जब आक्रमण करके मेर्वके इलाकेको बरबाद कर दिया, तबसे इस उजड़ी भूमिके स्वामी तुर्कमान हो गये। मेर्व-हरितावल ईरानकी उत्तरी सीमासे बहुत थोड़ी ही दूरपर है, दोनोंके बीचमें एक छोटी-सी पर्वत शृंखला है, जिसको पार करनेमें कभी किसी आक्रमणकारीको रुकावट नहीं हुई। इस पहाड़की चढ़ाई इतनी धीरे-धीरे है, कि आदमीको ऊपर पहुंचनेमें वह नहीं-सी मालूम होती।

२. तुर्कमान कबीले

पीछे हम बतला चुके हैं, कि तुर्कमानोंके मूल पुरुष गूज या आगूज बहुत पुराने समयमें अल्ताईकी तरफसे अराल और कास्पियन समुद्रकी ओर आये थे। सल्जूकियोंके नेतृत्वमें इनका प्रभाव बहुत बढ़ा और ये उत्तरी ईरान तथा मेर्वसे कास्पियनतक फैल गये। १९वीं सदीके आरम्भमें भी इनमेंसे अधिकांश अभी घुमन्तू ही थे। करा और येली इन्हीं तुर्कमानोंके पूर्वज थे, जिन्होंने सुल्तान संजरको ११५३ ई०में अन्धखूय और मेमनामें हराकर बन्दी बनाया

था। पिछली शताब्दियोंमें इनके कुछ कबीले मंगिशालक प्रायद्वीपमें घूमा करते थे। अपने घुमन्तू और लड़ाकू जीवनके कारण ये बाहरी प्रभावसे बहुत कम प्रभावित हुये। कभी इन्होंने ईरानी शाहोंकी अधीनता स्वीकार की, और कभी खीवाके खानोंकी। शाह अब्बास (१५८५-१६२६ ई०) ने इन्हें कोपेतदागकी उर्वर उपत्यकासे भगाकर वहां पंद्रह हजार लड़ाकू कुर्दोंको ला बसाया, जिसमें कि वह तुर्कमानोंको घुसने न दें। लेकिन तुर्कमान अपने स्वभावसे लाचार थे। नादिरशाह खूनसे स्वयं तुर्कमान था। २०वीं सदीके आरम्भतक चले आये ईरानके काजार राजवंशका संस्थापक आगा मुहम्मद (१७९६ ई०) स्वयं तुर्कमान था। उसने समयताके महत्त्वको समझकर तुर्कमानोंको भी उस रास्ते ले जाना चाहा, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ। उसके उत्तराधिकारी फतेहअलीने १८१३ ई०में जब उन्हें दबाना चाहा, तो तुर्कमानोंने रूसकी अधीनता स्वीकार करनी चाही, लेकिन नेपोलियनके आक्रमणसे रूसको कहां होश था, कि इस अधीनता-स्वीकृतिसे लाभ उठाता। १८३१ ई०में अंग्रेज यात्री बार्नेस मध्य-एशियामें गया था। उसने अपनी पुस्तक "बुखाराकी यात्रायें"में तुर्कमानोंका जिक्र किया है। बार्नेसके समय सबसे अधिक संख्या उनमें तेक्के कबीलेकी थी, यद्यपि अभी तुर्कमानोंमें उसको प्रधानता नहीं मिली थी। अपने इतिहासके आरम्भमें तेक्के लोग कास्पियनके पूर्वी तटपर मंगिशालक प्रायद्वीपमें रहते थे। १७१८ ई०में जब कल्मक-मंगोलोंका इनपर बार-बार आक्रमण हुआ, तो तेक्कोंने किजिल अरबतसे यामूदों और कोपेतदागकी उर्वर उपत्यकावाली अक्कल हरितावलीसे कुर्दों और येलियोंको भगाकर वहां अपना अधिकार जमाया। तेक्केका अर्थ तुर्कमानी भाषामें है पहाड़ी बकरी, जो कि सिद्धहस्त पहाड़ी घुड़सवार होनेके कारण इनके लिये उपयुक्त नाम था। खीवाके खानको यह मानते थे और प्रत्येक ग्राम (तम्बुओंका झुंड) सालमें एक ऊंट कर देता था। नादिरशाहने भी इन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया था। जबतक इनकी संख्या बहुत बढ़ी नहीं थी, तबतक ये किजिल अरबत और अक्कलमें रहते रहे। संख्या बढ़नेपर १८३० ई०में इनके दस हजार परिवार पूर्वकी ओर जा ताजन्द-उपत्यकामें बस गये, और वहांपर अपने सरदारके नामसे इन्होंने अराज खानकला बनाया। बार्नेसके समय (१८३१ ई०में) तेक्कोंके चालीस हजार परिवार (तम्बू) थे। इस समय ऊपरी मध्य-वक्षुपर सारिकोंके बीस हजार तम्बू थे, जो कि मेर्वपर हाल हीमें अधिकार करनेवाले खीवियोंसे लड़ रहे थे। संख्यामें उन्हींके बराबर यामूद कबीला खीवा और अस्त्राबादके बीच चरवाही जीवन बिताता था। गोखलान तुर्कमानोंकी एक शाखा थी, जो कि अतरक और गुरगानके बीच ईरानी प्रजा होकर रहती थी। सलोर कबीला भी लड़नेमें बहुत बहादुर था, किन्तु उसकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक नहीं थी। सलोर सररूशके नजदीक ऊपरी ताजन्द-उपत्यकामें रहते थे। इनकी बार-बारके लूट-मारसे तंग आकर ईरानी शाह फतेहअलीके पुत्र अब्बास मिर्जाने भारी सेनाके साथ १८३२ ई०में इनपर आक्रमण किया। बहुत खून-खराबीके बाद सररूशपर ईरानियोंने अधिकार कर लिया, और मारे जानेसे बचे हुये सलोर भागकर मेर्वके दक्षिण योलेतानकी हरितावली में बस गये।

ताजन्दके ऊपरी भागमें बसे हुये तेक्के उत्तरी-ईरानमें बराबर लूट-मार किया करते थे ईरान बराबर प्रतिरोध करता था, लेकिन कास्पियनसे हिरातके पासतक फैली अपनी सारी उत्तरी सीमाको तुर्कमानोंसे सुरक्षित रखना सम्भव नहीं हुआ। १८४८ ई०में खुरासानके ईरानी राज्यपाल आस-फुद्दौलाने तेक्कोंके ऊपर आक्रमण करके उन्हें बरबाद कर दिया, किन्तु घुमन्तुओंका इतनी जल्दी सर्वनाश नहीं किया जा सकता। बचे-खुचे तेक्कोंने अपने भाई-बन्दोंके पास अक्कलकी हरितावलीमें शरण लेनी चाही, लेकिन वहां पहले हीसे जनसंख्या अधिक थी, इसलिये जगह न मिली और फिर वह आसफुद्दौलाकी शरणमें गये, जिसने उन्हें सररूशके उजड़े हुये इलाकेमें रहनेकी इजाजत दी। यह इलाका तेरह साल पहले सलोरोंके हाथसे निकलकर वीरान हो गया था। अब तेक्के खीवाके इलाकेमें लूट-मार करने लगे, इसलिये खीवाके खान मुहम्मद अमीनने सररूशको जीत वहां राज्यपाल नियुक्त कर छावनी बैठा दी। लेकिन खानके हटते ही तेक्कोंने उन्हें तलवारके घाट उतार दिया। खानने फिर लौटकर चढ़ाई की, लेकिन एक टेकरीपर तुर्कमानोंने घेरकर उसका काम तमाम करके

उसके मुडको काटकर ईरानी शाहके पास भेज दिया, केवल धड़ ले जाकर खीवामें दफनाया गया। तेक्कोंने अब ईरानके भीतर भी लूट-मार शुरू की। जिस खुरासान-राज्यपालने इन्हें इस भूमिमें बसाया था, उसीने सरखशको जलाकर तेक्कोंको उत्तरमें मेर्वकी ओर भगा दिया। १७८४ ई०के पहलेसे मेर्वमें सारिक कबीला रहता आया था। अब सारिकों और तेक्कोंका खूनी संघर्ष चला। सारिकोंने अपने पक्षको कमजोर देखकर खुरासानके ईरानी राज्यपालको बुलाया, जो अठारह बटालियन पैदल और सात हजार सवार सेनाके साथ आया। तेक्कोंने अन्तमें ईरानकी अधीनता स्वीकार करके राज्यपालको बहुत मूल्यवान् भेटें दीं। फिर वह अपने शत्रु सारिकोंके ऊपर टूट पड़े, और उन्हें मेर्वकी हरितावलीसे निकालकर ऊपरी मुर्गाब-उपत्यकामें योलेतान और पंजदेहकी ओर खदेड़ दिया, जहांसे जाकर उन्होंने ईरानके हुकमसे हरीरूद नदीके बायें तटपर जराबादसे सलोरोको बेदखल किया।

कई शताब्दियों बाद मुर्गाबकी उर्वर उपत्यकाके स्वामी अब सारिक थे। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी, कि इन्होंने खीवाकी सेनाको हरा दिया। तेक्कोंने खेतीके फायदेको भी समझकर उसके प्रचारकी कोशिश की, लेकिन सिंचाई यहांकी सबसे बड़ी समस्या थी। इसके लिये पुराने समयमें बड़े-बड़े बांध बना जल-निधियां स्थापित की गई थीं, जो कि लड़ाइयोंमें बनती-बिगड़ती रहीं। मेर्वके स्वामी बनकर तेक्कोंने मेर्व नगरसे पचीस मील ऊपर एक ऊबड़-खाबड़-सा बांध बना। पचीस मील लम्बी नहर खोदी, जिसके सहारे अड़तालीस हजार परिवार खेती करने लगे। बांध और नहरकी मरम्मतके लिये हर पचीस परिवार एक आदमी देता। १८८० ई०में अंग्रेज यात्री ओडोनोवेन इधरसे गुजरा था। उसने इस बांधके बारेमें लिखा था—“नदी-तटके दोनों तरफ बीस गजतक बड़े-बड़े नरकटोंकी घनी पंक्ति है। पानीकी धाराके लिये मुश्किलसे दस फुट चौड़ी जगह छोड़ी गई है। इस संकरे मार्गसे पानी जोरसे आवाज करता बहता है। पचास गजतक यह पानीका रास्ता चला जाता है। इस दूरीमें भी नरकटोंके बांधको और समेटकर पानीको रोकनेकी कोशिश की गई है।”* लेकिन कृषि-जीवनके लिये जैसी शांतिकी आवश्यकता थी, अभी वह तेक्कोंमें नहीं आ पाई थी। दक्षिणमें सारा खुरासान उनके शिकारकी जगह बना हुआ था, फिर वह क्यों लूट-मारसे हाथ खींचते? वह मशहदसे साढ़े चार सौ मील दक्षिणतक धावा मारते। उनसे प्रतिरोध करनेके लिये १८६० ई०में ईरानने नवीन सरखशमें एक किला बनाया, फिर अगले साल ईरानी मुख्य-सेनापतिने बारह हजार पैदल, दस हजार घुड़सवार सेना तथा तैंतीस तोपोंके साथ चढ़ाई की। तेक्कोंने सुलह करनी चाही, लेकिन इन लड़ाकुओंकी सुलहकी बातपर कौन विश्वास करता? तेक्के भी जानपर खेलकर लड़े, और सारी ईरानी पैदल-सेना मारी या उनके हाथमें बंदी बनी, केवल सवार अपने कायर सेनापतिके साथ भागनेमें सफल हुये। इस लड़ाईमें इतने अधिक ईरानी गुलाम तेक्कोंके हाथ आये, कि मध्य-एसियाके बाजारोंमें गुलामोंकी कीमत एक गिन्नी कम हो गई। तेक्कोंको अपने अधीन बनानेका ईरानका यह अन्तिम प्रयास था। अपनी इस सफलताके बाद तेक्के अक्कल और मेर्वमें जम गये, जहांसे वह बराबर ईरानमें लूट-मार किया करते। मेर्व हरितावलके पूर्वी भागमें तेक्कोंकी तोकतामिश-शाखा रहती और पश्चिममें ओतामिश पूर्वी छोरपर बेक रहते। इन शाखाओंके अतिरिक्त उनके कुछ और भी छोटे-छोटे विभाग थे।

३. तेक्कोंका शासन

तेक्के घुमन्तू कबीलेशाही अवस्थामें थे, इसलिये उनका शासन जन-सत्ताको छोड़ और हो ही क्या सकता था? अंग्रेज यात्री वोल्फने × इनके बारेमें लिखा है—“इन लुटेरे कबीलोंमें रहनेके बाद मैं इस निश्चयपर पहुंचा हूं, कि भीड़की इतनी बुरी स्वेच्छा-चारिता कहीं नहीं हो सकती। इससे बढ़कर बुरी बात क्या हो सकती है, कि अपने पागलानके ही कारण यह अशिक्षित और असभ्य भीड़ अपनी शान दिखलाती है।” लेकिन वोल्फक यह

* मेर्वकी कहानी। × बुखारा

एकतरफा फैसला था। राजकाजकी बातोंपर निर्णय करनेके लिये सारी जनताकी सभामें वह बहस करते। इन्हीं सभाओंमें वह अपना खान चुनते, जो कि शासनका उच्च पदाधिकारी होता। लेकिन जबतक जनता उसे स्वीकार करती, तभीतक वह खान रहता। इस पदके लिये कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि खानको शिष्टाचार और सम्मान पानेके अतिरिक्त कोई लाभ या अधिकार नहीं था। उसके पास चालीस जिगित (बहादुर) रहते, जो सरकारी आज्ञाको पालन करवाते, लेकिन खजाना खानके हाथमें नहीं था। कोई विशेष काम आनेपर कबीला इस्तियार नामक एक विशेष प्रतिनिधि चुनता। सम्मतिदाता कबीलेके सारे लोग होते। १८८१ ई०में ओडोनोवेनके मेर्वमें जानेपर उसे वहां एक 'इस्तियार' मिला था, जिसे तेहरानमें शाहके पास मुल्हकी बातचीतके लिये भेजा गया था। ओडोनोवेनके अनुसार पिछले कुछ समयसे तेक्के अब एक साधारण राज्यपद्धतिकी ओर बढ़ रहे थे, जिसमें जनतंत्रताका स्थान खानदानी राजतंत्र लेने जा रहा था। यह परिवर्तन नूरबदी खानके समयसे होने लगा, जो कि खीवा, ईरान और सारिकोंके युद्धोंकी विजयोंमें नेता रहा—सफल नेता राजा बन जाता है। उसने अपने पुत्र मखदूम कुलीको अक्कलके तेक्कोका मुखिया बनाया, और वह स्वयं मेर्वका खान रहा। उसे इतना आगे बढ़नेमें रूसकी ओरसे पैदा हुये खतरेने भी सहायता की। अगर इतना भय न होता, तो शायद घुमन्तू इतनी एकतंत्रताके लिये भी तैयार न होते। तेक्के खीवामें रूसकी प्रभुता स्थापित होते देख चुके थे, उन्हें अपने भविष्यके लिये डर मालूम होने लगा था।

सभी तुर्कमानोंकी तरह तेक्के सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन वह धर्ममें कट्टर नहीं थे, और न मुल्लोंकी पर्वाह करते थे। वोल्फके समय (१८४३ ई०में) खलीफा अब्दुरहमान नामक मुल्लाकी बड़ी इज्जत थी। अपनी बहादुरी और बुद्धिके लिये प्रसिद्ध आदमियोंके हाथमें सैनिक जिम्मेवारी दी जाती थी। वह ऐसे आदमीको अपना सरदार (सेनापति) बनाते, जिसे कि आक्रमण की जानेवाली धरतीका सूक्ष्म ज्ञान होता। इस लूटमें उन्हें जहां माल हाथ आता, वहां बहुतसे नर-नारी भी मिलते। यदि मुक्ति-धन चुकानेके लिये कोई तैयार होता, तो तुर्कमान अपने बंदियोंको छोड़ देते, नहीं तो खीवा या बुखाराके बाजारोंमें उन्हें गुलाम बनाकर बेच देते। तुर्कमान बहादुर होनेके लिये तीन बातोंकी अवश्यकता थी—अच्छा घोड़ा, हथियार और मृत्युसे निर्भयता। कहावत मशहूर थी—“जिसने अपनी तलवारकी मुट्ठीपर हाथ रख दिया, उसे और किसी तर्ककी अवश्यकता नहीं।” और “घोड़ेकी पीठपर सवार तेक्का न बापको समझता, न मांको।” युद्धका निश्चय हो जानेपर स्वाभाविक नेता अपने किवित्का (तम्बू)के सामने झंडा गाड़ता, और अल्ला और रसूलके नामपर भले मुसलमानोंको शीया काफिरोंके ऊपर हमला करनेके लिये बुलाता। थोड़े ही समयमें उसके तम्बूके चारों ओर सैकड़ों योद्धा जमा हो जाते, जो अपने सरदारके हुक्मपर आगमें कूदनेके लिये तैयार रहते। निश्चित दिनपर अनुचर सुशिक्षित घोड़ेपर सवार हो रसद लिये सरदारके पास पहुंचते। यदि अभियान खुरासानकी ओर करना होता, तो कोपेतदाग पर्वत श्रेणीके तीन डांडोंमेंसे किसी एकसे पार होते। पहाड़ पार करके दूसरी ओरके पर्वतसानुपर चन्द सवारोंकी रक्षामें रसदको छोड़, गाजी (धर्मयोद्धा) सारे दिन आगेकी तैयारीमें लगे रहते। दूर उपत्यकामें ईरानके शांत गांव बसे हुये हैं: शाम नजदीक आ रही है। दरख्तोंके बीच सफेद घरोंसे चूल्हेका धुआ निकलकर आकाशमें मंडरा रहा है। बूढ़े गप कर रहे हैं, तरणियां चरागाहोंसे अपने पशुओंको ला रही हैं। यह समय है, तेक्कोके शिकारका। चन्द मिनटोंमें ही गांवकी गलियोंमें तुर्कमान छा जाते। वे अपने धनुष-बाणों और तलवारोंको आंख मूंदकर दाहिने-बायें चलाते; कितनोंको मारते और सारे गांवको भयभीत कर देते। फिर बचे-खुचे लोगों, उनके ढोरों और कीमती चीजोंको इकट्ठा करके जितनी जल्दी आये थे, उतनी ही जल्दी अन्तर्धान हो जाते। यदि पीछा किये जानेका डर होता, तो बिना लगामको रोके सौ-सवा-सौ मीलतक भागते चला जाना उनके लिये साधारणसी बात थी। लड़के और बच्चे ज्यादा कीमती समझे जाते, जिन्हें सवार चारजामोंसे बांधकर दूसरे घोड़ोंपर लाद लेते। ये घोड़े तुर्कमान सवारके घोड़ेसे बंधे होते, इसलिये पीछे-पीछे भगते जाते। दौड़ सकनेवाले आदमियोंको कभी-कभी जंजीरोंसे बांधकर घोड़ोंके साथ भगाया जाता। यदि वह थककर

न चल पाते, तो तुर्कमानकी तलवार उनके दुःखोंका अन्त करनेके लिये तैयार थी। कारवांपर जब आक्रमण करना होता, तो वह किसी रेगिस्तानी कुयोंके आसपास छिपे रहते, और जब कारवां विश्राम करने लगता, तो चारों ओरसे उसके ऊपर टूट पड़ते। यदि तुर्कमान अपनी संख्या पर्याप्त नहीं देखते, तो यात्रामें पीछे रह गये अंटोंपर हमला करते। तुर्कमानोंकी सफलताकी कुंजी थी, उनके तेज और मजबूत घोड़े, तथा यकायक फुर्तिसि आक्रमण।

कितनी ही बार अपने दासों और दासियोंको बेचनेके लिये तेक्के स्वयं खीवा और बुखारा जाते। लेकिन इसकी उन्हें इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि गुलामोंके सौदागर उनकी बस्तियोंमें आकर गुलामोंको थोक दरपर खरीद ले जाते। रूसियोंने जबतक मध्य-एसियामें अपना प्रभुत्व नहीं जमाया, तबतक वहां गुलामोंकी यह लूट और बेच ऐन इस्लामी शरीयतके अनुसार मानी जाती थी। पीतर I को इतालियन यात्री फ्लोरियो ब्रेनेवेनीने सूचित किया था, कि बुखारामें तीन हजार रूसी गुलाम हैं, और उतने ही खीवामें भी। अंग्रेज-यात्री वॉल्फके अनुसार बुखारामें दो लाख ईरानी गुलाम थे, और उसी समय गये मेजर एबटके अनुसार खीवामें सात लाख थे, जिनमें बच्चों और तरुण लड़कियोंका मूल्य स्थानोंसे दुगुना था।

तेक्के अपने घोड़ेका महत्त्व सरदारसे भी बढ़कर मानते थे। उनके घोड़े बहुत समयसे अच्छी जातिके माने जाते थे। कहा जाता है, तेमूर लंगने पांच हजार अरब घोड़ोंको लेकर तेक्के घोड़ोंकी नसलको बढ़िया बनाया था। शाह नासिरुद्दीनने पिछली शताब्दीमें पांच सौ अरब घोड़े तेक्कोंके पास भेजे। लेकिन जान पड़ता है, तुर्कमान घोड़ोंके लिए अरबी प्रभावकी आवश्यकता नहीं थी, और न वह अपने रूप और ढांचेमें अरब घोड़ों-जैसे होते हैं। वह कदमें बड़े, लंबे पैर, संकरी छाती, और लम्बे सिरवाले होते हैं। प्रशिक्षित तथा खास चारेपर रखे तुर्कमान घोड़े एक दिनमें साठ मीलका रास्ता तै करते, इस तरहकी यात्रा वह बहुत दिनोंतक जारी रख सकते थे। तेक्के-सवारोंको भी इतना अभ्यास था, कि वह चौबीस घंटा घोड़ेकी पीठपर बिता सकते थे। तेक्कोंके घोड़ोंका चारजामा वही था, जो कि चीनी दीवारके उत्तरके मंगोल घुमन्तुओंमें पाया जाता है। तुर्कमान अपने घोड़ोंसे इतना प्यार करते, कि वह अपने पीनेके पानी, या जौकी आखिरी रोटीको भी घोड़ेको दिये बिना नहीं खाते। उनके हाथोंमें चाबुक केवल शोभाके लिए रहता, नहीं तो घोड़ोंके लिये लगामका इशारा काफी था। सोवियत शासनने तुर्कमान घोड़ोंकी इस बढ़िया नसलको सुरक्षित रखते हुये उसको बहुत बढ़ाया, और अश्काबादसे मास्कोतककी दौड़ करके देख लिया, कि उनकी प्रसिद्धि झूठ नहीं है। तेक्कोंके ईरानमें जा लोगोंको लूटकर गुलाम बनानेका बड़ा ही सजीव चित्रण मध्य-एसियाके महान् उपन्यासकार सदरुद्दीन एलीने अपने ग्रंथ 'गुलामानमें' किया है।*

१९वीं सदीके उत्तरार्धमें तुर्कमानोंमें बस्तीवासी भी काफी हो गये। बस्तीवासियोंको 'चरवा' और घुमन्तुओंको 'चोमरी' कहा जाता था। चोमरी तीन दिनसे अधिक शायद ही कभी एक जगह रहते। उनका धन केवल पशु थे। चोमरी-तुर्कमान सालके कुछ भागमें 'कला' (दुर्ग)में एक स्थान पर रहते, लेकिन इस किलेका साधारण किलेसे कोई संबंध नहीं। एक खुली जगहमें तुर्कमानोंके तम्बू खड़े होते, जिसके चारों तरफ कच्ची मिट्टीकी दीवार होती, जिसमें खतरेके देखनेके लिए संतरीके वास्ते मीनार बने होते। 'चरवा'के अपने औल (ग्राम) होते, जिनकी चारों ओर गांव-वालोंके खेत और बाग रहते। वहां जौ, ज्वार और चावलकी खेती ही ज्यादा थी। फलोंमें अंगूर, सेब और सबसे अधिक तरबूज होते। तुर्कमानोंके 'कला'में सिर्फ एक दरवाजा होता। पश्चिमके किजिल अरबतसे पूर्वमें अश्काबादतकके औलोंमें प्रसिद्ध 'कला' ग्योक-तेप्पेकी उपत्यकाके सबसे चौड़े भागमें अश्काबाद था, जिसमें आठ औल सम्मिलित थे।

४. पोशाक और रूपरेखा

तुर्कमान शरीरमें मझोले कदके होते। उनका रंग गेहुआ तथा गालकी हड्डी मंगोलायितोंकी तरह उभड़ी हुई होती। आंखें भी उसी तरह बादामी, नाक चौड़ी—जो सिर-

*"जो दास थे" (राहुल)

पर उठी, होंठ मोटा, मूँछ-दाढ़ी नाममात्र, कान बहुत बड़े—इस प्रकार पता लगेगा कि तुर्कमानोंने शताब्दियोंसे मध्य-एसियामें रहके भी अपने मंगोलायित-खूनको बहुत कुछ शुद्ध रक्खा। ईरानकी लूटी हुई गुलाम स्त्रियोंको अपने पास रखनेकी जगह वह बेंच देना ही ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन तो भी पिछली शताब्दियोंके यात्रियोंका कहना था, कि तुर्कमान स्त्रियोंकी रूपरेखा मंगोलायित कम होती है। उनके बाल छोटे, मोटे और रूखे होते हैं। तहणाईमें वह लम्बी और सुगठित दीख पड़ती हैं। मोजेरने लिखा था—“मध्य-एसियामें तेक्के ही ऐसी स्त्री है, जो कि जानती है कि कैसे चलना चाहिये। जब कोई तेक्के-लडकी पानी भरनेके लिये अपने कंधेपर पानीका कूजा लिये कुयेंपर जा रही हो, तो उससे सुन्दर दृश्य देखनेको नहीं मिलेगा।” तहणाईमें इनके गाल गुलाबी होते हैं, लेकिन मध्यवयके शुरू होते ही मुंहपर झुर्रियां पड़ जाती हैं।

तुर्कमान पुरुषोंके सिरपर एक बहुत ऊंची और देखनेमें भारी काली भेड़के खालकी टोपी (कल्पक) होती है। टोपीके नीचे आधा सिर ढका होता है। देखनेसे तो मालूम होता है, कि कल्पक पांच सेरसे कमकी न होगी, लेकिन वह बहुत हलकी होती है। लाल रंगका पायजामा और ऊपरसे एड़ी-तक लटका हुआ काले रंगका जन्बा (चोगा) तुर्कमानोंकी पोशाक है। गर्मियोंमें वह सूती कपड़ेका व्यवहार करते और जाड़ोंमें ऊंटके ऊनके बने हुये कपड़ोंका। पैर जूते और मोजेसे ढका रहता। औरतोंकी पोशाक लम्बे-चौड़े घांघरेकी होती, जिसका रंग लाल या नीला और कपड़ा कभी-कभी रेशमका भी होता। उनकी छातीपर चांदीके सिक्कों या दूसरी चीजोंका हमेल पड़ा रहता। व्याहता स्त्रियां जूड़ा बांधतीं, कुमारियोंके बाल कंधेपर लटकते रहते। मुंह ढांकनेके लिये बरंजक वह बहुत कम इस्तेमाल करतीं। तुर्कमानियां अपरिचित आदमीसे भी बातचीत करतीं। उनके हाथका बनाया कालीन बहुत प्रसिद्ध था। बहु-विवाह यद्यपि विहितथा, लेकिन व्यवहारमें बहुत थोड़े ही आदमी अनेक बीबियां रखते। तुर्कमान वैसे लुटेरे थे, लेकिन अपने पूर्वजोंके वक्तसे चले आते अतिथि-सेवाधर्मको वह बहुत मानते थे। कोई भी परदेशी तेक्केके धुर्यें भरे किवित्कामें पहुंचने-पर तन्दूरी रोटी, मट्ठा, चाय, हुक्का, पनीर, मट्ठेमें पके चावलमें भागीदार बन जाता। स्वागतके बाद फिर वह शतरंज और बांसुरीसे मनोरंजन कर सकता। तेक्के डाकू थे, लेकिन चोर नहीं। वह गाली देना नहीं जानते थे, उनके यहां सबसे बड़ी गाली थी ‘कायर’ कहना।

५ रूससे युद्ध

खीवाको रूस दबा चुका था, लेकिन तुर्कमान घुमन्तू अपनी शानमें मस्त थे। १८७३ ई०में जब रूसी सेनायें खीवामें आईं, तो यामूद-तुर्कमानोंने रूसियोंका जबर्दस्त मुकाबिला किया था, इसे हम देख आये हैं। काँफमानने यामूदोंको पाठ पढ़ाना चाहा, और इसके लिये सारी दक्षिणी मरुभूमिमें सर्वनाशका युद्ध छेड़ दिया, क्रूरतामें जारशाही घुमन्तूओंको भी मार करने लगी। ईरानी राज्यपालने १८६९ ई०में अतरक नदीकी उपत्यकामें रहनेवाले गोखलान-तुर्कमानोंको दबाना चाहा। कास्पियन समुद्रमें नावों और जहाजोंको लूटनेवाले गोखलानोंको रूसी नौसेनाने दबा दिया। खीवा-विजयके बाद १८७६ ई०में कास्पियनका पूर्वी तट काकेशसके महाराज्यपालके अधीन रहा, जिसकी सेना यहां रक्षाका काम करती थी। तेक्कोंने अपनी उत्तर-पूर्वी सीमांतमें इस प्रकार रूसियोंकी जबर्दस्त दीवार देखी। यही हालत पूर्व दिशामें भी थी। खीवा और बुखाराने संधि करके रूसकी बातको मान अपने यहां दासताको निषिद्ध कर दिया था, इसलिये तेक्कोंके लाये गुलामोंके बेचनेके लिये अब मध्य-एसियाके बाजार बन्द हो गये थे। उन्होंने रूसियोंसे भी छेड़खानी जारी रक्खी। १८७५ ई०में एक रूसी-कारवां क्रान्तोवोद्स्कसे खीवाकी ओर जा रहा था, जिसे उन्होंने बीचमें लूट लिया। इसी तरह १८७७ ई०में अतरकके उत्तरमें भी एक कारवांको लूटा। रूसी इसका बड़ी कठोरतासे जवाब देने लगे। तेक्कोंको मालूम होने लंगा, कि अब हमारी भी वही हालत होनेवाली है, जो कि खीवाकी चार साल पहले हुई। १८७७ ई०में उन्होंने ईरानकी अधीनता स्वीकार करनी चाही, लेकिन अब रूस उसकी इजाजत नहीं दे सकता था। तुर्कमानोंकी लूटमारके कारण इधर तुर्कमान-मरुभूमिसे खीवा-बुखाराका

व्यापार बन्द हो गया, और सुरक्षित समझकर ओरेनबुर्गके बहुत फेरवाले रास्तेसे कारवां जाने लगे। पीतरके समयसे ही रूसियोंके दिमागमें समाया था, कि वक्षुको कास्पियनमें मिलाकर वोल्गा-उपत्यकासे जलमार्ग द्वारा व्यापार करें, लेकिन यह काम जारशाही नहीं कर सकी।

स्त्रीवाके विजयके बादके तीन-चार वर्षोंमें तेक्कोंने अपनी लूट-मारसे रूसियोंको बहानेका रास्ता दे दिया, और १८७७ ई०में जेनरल लोमाकिनको हुकम हुआ, कि तेक्कोंके किले किजिल अरबतपर अधिकार कर लो। किजिलअरबत कास्पियन तटपर अवस्थित फ्रास्नोवोव्स्क बन्दरगाहसे दो सौ मील पूर्व था। जेनरल लोमाकिन १२ अप्रैलको नौ कंपनी पैदल, दो स्क्वाड्रेन कसाक और आठ तोपें लेकर रवाना हुआ। भला आधुनिक हथियारोंके सामने तेक्के कैसे डटते? वह पहली ही मुठभेड़में भाग गये। इसके बाद अक्कर-उपत्यकाके प्रत्येक औल (गांव)के प्रतिनिधि रूसकी अधीनता स्वीकार करनेके लिये आये, लेकिन लोमाकिन इससे पहले ही डरकर पीछे हट गया था। इसी बीच तुर्कीसे सका युद्ध (१८७७—७८ ई०) छिड़ गया, जिसके कारण तुर्कमानोंके साथ युद्धकों स्थगित करना पड़ा। १८७८ ई०में तुर्कीके युद्धके खतम होते ही फिर जारशाहीने तेक्कोंकी ओर ध्यान दिया। १८७८ ई०में एक रूसी सेना अतरक नदीके मुहानेके पास अवस्थित चिकिस्ल्यरसे चली। बेन्देसेन डांडेसे कोपेतदाग पर्वतश्रेणीको पारकर ९ सितम्बरको उसने दंगिल-तेपेपर आक्रमण किया। वहां पंद्रह हजार तेक्के योद्धा अपने पांच हजार स्त्री-बच्चोंके साथ मिट्टीकी दीवारसे घिरे स्थानमें लड़नेके लिये तैयार थे। तोपके सामने यह मिट्टीकी दीवारें क्या बचाव करतीं? वह प्राण बचाकर भाग निकले। रूसी सवार उन्हें पीछे पड़कर घेरने लगे। चारों ओरसे उन्हें मौत-ही-मौत दिखलाई पड़ रही थी। अपने स्त्री-बच्चोंको दुश्मनके हाथमें पड़ते देख "मरता क्या न करता" पर उतर आये, और उन्होंने शैतानकी तरह लड़ाई लड़ी। लोमाकिनका मनोरथ भंग हुआ, साढ़े चार सौ रूसी हताहत हुये, और बाकी सेनाको लेकर उसे चिकिस्ल्यर लौट जाना पड़ा। इस विजयकी खबरसे सारे मध्य-एसियामें आशाकी किरण दौड़ पड़ी। अब और भी लूट-मार होने लगी। १८८० ई०में तीन हजार तुर्कमानोंने वक्षु-तटपर बुखाराकी भूमिमें अवस्थित चारजूय-किलेके पासतकके कितने ही गांवोंको लूटा। मध्य-एसियासे जारका रोव उठते देखकर जेनरल स्कोबेलेफने पीतरबुर्ग लिखा था—“यदि हम अपनी पिछले पांच सालकी स्थितिपर विचार करते हैं, तो सामने भयंकर खतरा दिखलाई दिये बिना नहीं रहता, क्योंकि वह साम्राज्यकी आर्थिक और राजनीतिक स्थितिको अस्त-व्यस्त कर सकता है। अंग्रेजोंने एसिया-इयोंको विश्वास दिलाना चाहा है, कि उन्होंने कान्स्तन्तिनोपलके सामने रूसियोंको रोक दिया, और उन्हें बल्कान प्रायद्वीप छोड़नेके लिये मजबूर किया। बर्लिनकी संधि जो हमारे अनुकूल नहीं हुई, उसकी भी खबर उन्होंने सारे एसियामें फैलाई है।”

जनवरी १८८० ई०में जार अलेक्सान्द्र II ने पीतरबुर्गमें युद्ध-परिषद्की। सबसे कठिन समस्या थी यातायातकी। और देरतक सका नहीं जा सकता था, इसलिए उसी साल तेक्कों (तुर्कमानों)के विरुद्ध अभियान भेजा गया। बारह हजार ऊंट रसद ढोनेके लिये रक्खे गये, जिनमें हजारों रास्तेमें मर गये। रेगिस्तानमें रसद पहुंचाना बहुत मुश्किल था, इसीलिये ग्योक-तेपेका मुहासिरा हटाना पड़ा था, लेकिन अब रेलोंके प्रचारसे यातायातकी समस्या उतनी मुश्किल नहीं थी, यद्यपि उसपर खर्च बहुत पड़ता था। रूसियोंने रेलवे लाइन बनानेके लिये एक खास बटालियन संगठित की, और १८८० ई०के अन्ततक कास्पियनके पूर्व उजुनअदासे मुल्लाकारीतक तेरह मीलकी रेलकी सड़क बना दी। काकेशसके सेनानायकके अधीन जेनरल स्कोबेलेफ अभियानका मुख्य-संचालक था। दंगिल-तेपेके तजबेसे मालूम हो चुका था, कि तुर्कमानोंके नमदेके तम्बुओंपर आग जल्दी असर नहीं करती। इसके लिये स्कोबेलेफने पेट्रोल भरे गोले तैयार किये। फ्रास्नोवोव्स्कमें यद्यपि पासमें समुद्र लहरें मार रहा था, लेकिन उसके खारे समुद्रपर पशु-प्राणी गुजारा नहीं कर सकते थे। इसके लिये वहांपर एक बहुत बड़ा कारखाना बनाया गया, जिसका काम था पानीको भाप बना फिर जलके रूपमें परिणत करके प्रतिदिन साढ़े सात लाख गैलनके भीठा पानी देना। स्कोबेलेफ

मई १८८० ई०में ही क्रान्सीवोव्स्क पहुंचकर तैयारी करने लगा। काकेशससे बारह हजार सेना और सौ तोपें आयीं। सितम्बर १८८० ई०के आरम्भतक तैयारी प्रायः पूरी हो गई।

रूसियोंने १८ दिसम्बरको बामिर, एगमनबातिर (समुस्कर्) पर अधिकार किया। पता लगा, कि शत्रुका मुख्य जमाव दंगिल-तेप्पामें है। दंगिल-तेप्पा प्रायः एक वर्गमीलमें फैली आयताकार भूमि थी, जिसके चारों ओर अठारह फुट मोटी और दस फुट ऊंची दीवार थी, जो बाहरसे दस फुट होते हुये भी भीतरसे पंद्रह फुट ऊंची थी। दीवारके बाहर चार फुट गहरी खाई थी। तेप्पेके पश्चिमोत्तरमें गोल टीला था, जिसे तुर्की भाषामें “दंगिल-तेप्पा” कहते हैं, उसीके कारण इस स्थानका यह नाम पड़ा। इसी गोल टीलेपर ईरानियोंसे पकड़ी पुराने ढंगकी एक तोप रक्खी हुई थी। तीस हजार तेक्के योद्धा अपनी स्वतंत्रताके लिये प्राण देनेको तैयार थे। पानीका यहां कोई दुख नहीं था, क्योंकि पाससे एक नदी बहती थी। रूसी पानीकी धारको चाहत, तो बदल सकते थे, लेकिन तब उन्हें इतनी भारी संख्यामें शिकार एक जगह नहीं मिलता। एक सप्ताहतक आगे बढ़ना रोककर २४ दिसम्बरको रूसियोंने जांच-पड़ताल भर की। १८८१ ई०के नववर्षके दिन यंगीकलापर भीषण आक्रमण शुरू हुआ। कला एक पहाड़ीकी जड़में था। आठ हजार रूसी सैनिक तीन स्तम्भोंमें विभक्त हो बावन तोपों और म्यारह मशीनगनोंको लिये आगे बढ़े। दक्षिणवाले स्तम्भने पीछे और सामने दो ओरसे भयंकर गोलाबारी की, जिससे तेक्के यंगीकला छोड़ दंगिल-तेप्पेकी सेनामें जाकर मिलनेके लिये मजबूर हुये। उन्होंने रातको फिर यंगीकलाको लेनेका प्रयत्न किया, लेकिन रूसी तोपोंने उन्हें मार भगाया। ३ जनवरीको रूसियोंने अपने कैम्पको यगमनबातिरसे यंगीकलामें परिवर्तित कर दिया। अगले दिन शत्रुओंके सामने आठ सौ गजपर रूसियोंकी पंक्ति खड़ी थी। रूसियोंके घिरावेको तोड़नेके लिये मेवसे पांच हजार और तुर्कमान आये, जिन्होंने रूसियोंकी पंक्तिपर छापा मारा। पागलकी तरह वह रूसी सनिकोंपर पड़े और गोलियोंसे जलते-भुनते भी कितनोंने एक हाथसे रूसी सैनिकोंकी बन्दूकोंको पकड़ा और दूसरे हाथसे अपनी तेज तलवारों द्वारा शत्रुओंकी गर्दनें काटीं। सारी भूमि लोगोंके मुंडों और कटे हुये अंगोंसे ढक गई। चारों तरफ “अल्लाह”की आवाज या रूसियोंका “उरा” सुनाई पड़ता था। रूसियोंके दाहिने पक्षपर तीन सौ तेक्के बहादुरोंकी लाशें पड़ी थीं। लेकिन, आधुनिक हथियारोंके सामने अल्ला या यह वीरता क्या कर सकती थी ?

४ जनवरी १८८१ ई०को दूसरी पंक्ति तैयार की गई, जिसमें छब्बीस सौ सैनिक थे। संध्याके समय तेक्कोंने छापा मारा तथा बाहरी खाइयोंपर अधिकार कर लिया, और तोपचियोंको काटकर चार पहाड़ी तोपें, और रेजिमेंटके तीन झंडे भी अपने साथ ले गये। लेकिन, तुरन्त ही यंगीकलासे कुमक आ गई, और तोप छोड़ बाकी चीजोंपर फिर रूसियोंने अधिकार कर लिया। झड़प इसी तरह चलती रही। १० जनवरीको रूसी सेना तेक्कोंकी बाहरी चौकियोंपर अधिकार करनेमें सफल हुई। लेकिन आध घंटे बाद ही तेक्कोंने जबर्दस्त प्रत्याक्रमण किया। तोपचियोंकी एक कंपनीके टुकड़े-टुकड़े करके वह दो तोपोंको खाइयोंकी ओर खींच ले गये। रूसियोंने भी नई कुमक पाकर उनके आक्रमणको निष्फल कर दिया। रातके अंधेरेमें तेक्के रूसियोंपर आक्रमण करते। १६ जनवरीकी रातको उन्होंने अपना अन्तिम जबर्दस्त आक्रमण किया, जिसे रूसियोंने बेकार कर दिया। १६ जनवरीको अपनी किलाबन्दीके पूर्वी छोरपर चौबीस गजके पासतक तेक्के ढकेल दिये गये। २० जनवरीसे उनका किला तोड़ा जाने लगा। किलेके भीतर नमदेके क्विबितकोंपर पेट्रोलके गोले फेंके जा रहे थे। इन्हीं तम्बुओंमें सात हजार बच्चे और स्त्रियां थीं। तब भी बहादुर तेक्के तीन सप्ताहतक डटकर लड़ते रहे। अन्तिम आक्रमणके दिन जेनरल स्कोबेलेफने अपने सैनिकोंको आदेश देते हुये कहा था—“हमें एक बड़े ही बहादुर और भारी आत्मसम्मानवाले लोगोंसे मुकाबिला करना पड़ रहा है।” अन्तिम प्रहारके समय रूसियोंने औरतों और बच्चोंको हटानेके लिये कहा। तेक्कोंने संमझा, ये हमारी स्त्रियों और बच्चोंको अपने लिये लेना चाहते हैं; इसलिये उनका जवाब था—“अगर तुम हमारी स्त्रियों और बच्चोंको लेना चाहते हो, तो हमारी लाशोंपरसे होकर ही उन्हें पा सकते हो।” २४ जनवरीके ७ बजे

सबरे किलेपर चारों तरफसे टूट पड़नेके लिये रूसियोंके चार सेना-स्तम्भ बनाये गये। संकेत पाते ही एक भारी धड़ाका हुआ, और तीन सौ फुटकी दीवार गिर गई। अब तेक्कोंको पता लग गया, कि प्रतिरोध करना असम्भव है। दूसरे ही क्षण सेना-स्तम्भ भी उनपर टूट पड़े और जरा ही देरमें भागते हुए घोड़ोंके टापोंकी धूल दिखलाई पड़ने लगी, जिनके पीछे-पीछे कुछ दूसरे भी शरणार्थी जा रहे थे। रूसियोंकी आठ हजार सेनामेंसे बारह सौ मारे गये, लेकिन दंगिल-तेप्पेपर जार-शाही झंडा गड़ गया। रूसी सवारोंने दस मीलतक तेक्कोंका पीछा किया। तीस हजार तेक्कोंमेंसे दस हजार काम आये। बच्चों और स्त्रियोंपर रूसियोंने हाथ नहीं छोड़ा। रूसी जेनरल जिन तेक्कोंको बहादुर और भारी आत्मसम्मानि जाति मानता था, उन्हींके बारेमें एक पेंशन प्राप्त आई० सी० एस० अंग्रेज एफ० एच० स्क्रीन लिखता है—“अलावके पास बैठके राजनीति बधारनेवाले लोग ग्योक-तेप्पेकी खून-खराबी और ओम्दुर्मानके घायल शत्रुओंके कत्लको सभ्यताके खिलाफ कहेंगे, लेकिन एसियाइयोंके स्वभावका यदि थोड़ा भी परिचय हो, तो उन्हें मानना पड़ेगा, कि एसियाई बर्बरता और धर्मान्धताकी शक्तियोंके ऊपर प्रहारका सबसे अच्छा उपाय क्रूरताकी नीति है।”

ग्योक-तेप्पामें मध्य-एसियाकी स्वतंत्रताकी अन्तिम लड़ाई लड़ी गई। उसकी विजयके साथ मध्य-एसियापर जारशाहीका अखंड शासन और शोषण स्थापित हुआ, जिसका अन्त बोल्शेविक-क्रांतिके साथ हुआ, और उसके बाद तेक्के और दूसरे तुर्कमान अपने स्वतंत्र तुर्कमानिस्तान गणराज्यके स्वामी बनकर एक आधुनिक सुसंस्कृत जातिके रूपमें अपने समाज और देशका नव-निर्माण करते हुये आगे बढ़ने लगे।

तुर्कमानोंके संघर्षके बाद ईरानके शाहकी आंखें खुलीं, और उसने रूसियोंको हटानेकी कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ अतरक नदीके बायें तट और मेर्वसे हाथ धोना।

६. अंग्रेजोंसे तनातनी

ग्योक-तेप्पेकी लड़ाईके बाद रूसियोंको फिर हथियार इस्तेमाल करनेकी जरूरत नहीं पड़ी। दिसम्बर १८८६में उन्होंने एक सैनिक प्रदर्शन किया। ३१ जनवरी १८८४ ई०को मेर्वकी भिन्न-भिन्न बस्तियोंके एक सौ चौबीस प्रतिनिधियोंने अपने चार कबीलोंके चार सरदारोंकी प्रधानतामें एकत्रित हो महाराज्यपाल कमारोफके सामने जारके प्रति भक्तिकी शपथ ली। एक अफगान साहसीने तुर्कमानोंमें विद्रोह फैलाना चाहा, जिसे ३ मार्चको रूसियोंने दवा दिया। अगली मईमें काकेशसके महाराज्यपालने जीते हुये इलाकेका निरीक्षण किया। फिर थोड़े ही दिनों बाद मेर्वसे ३६ मील दक्षिण योलतन-उपरत्यकाके पचास हजार सारिकोंने अधीनता स्वीकर की और उसके बाद गयाउर और सरख्शके बीचके कबीले भी रूसी-प्रजा बन गये। रूसकी दक्षिणी सीमा इस तरह आगे बढ़ अफगानिस्तानसे मिल गई। हिरातमें अंग्रेजोंने अफगानोंको एक मजबूत किला बनानेमें मदद दी थी। वह कैसे रूसके इस बढ़ावको पसंद करते? एक अंग्रेजी लेखकने रूस और इंग्लैण्डके इस समयके संघर्षके बारेमें लिखा है*—

“भारतीय प्रायद्वीपकी ऐसी भौगोलिक स्थिति है, कि कोई भी युरोपीय शक्ति तबतक इसपर अधिकार नहीं कर सकती, जबतक वह समुद्रपर प्रभुत्वन रखे। . . . हमारी प्रतिष्ठाके लिये यह जरूरी है, कि हम ऐसे साम्राज्यपर अधिकार रखें, जो दुनियाके लिये आश्चर्य और ईर्ष्याकी चीज है। उसपर अधिकार करके हम नफा भी खूब उठा रहे हैं, हमारे कारखानोंके लिये वहां बाजार है, और हमारे मध्यवर्गीकी बेकार शक्तिके लिये वहां काम रक्खा है।

‘इंग्लैण्डने रूसके कान्स्तान्तिनोपलके रास्तेको रोका। १८८४ ई०में दुनियाकी कुंजी दरे-दानियालको तुर्कोंके हाथोंमें रखनेके लिये इंग्लैण्डने रूसके खिलाफ तलवार उठाई और उसके एक-चौथाई शताब्दी बाद, जब कि रूसियोंके हाथमें यह भव्य शिकार जाने ही वाला था, जारकी विजयिनी सेनाको इंग्लैण्डने पीछे हटा दिया। . . . मानवता (?) का हरएक मित्र ‘इंग्लैण्ड और रूस’की दो शक्तियोंके बीचमें विरोधकी भारी खाईको देखकर अफसोस किये बिना नहीं रहेगा।

*“जार और इंग्लैण्ड: मित्र या शत्रु”

यदि दोनों एक हो जायं, तो वह एसियाको सभ्यता और दुनियाको शांति प्रदान कर सकते हैं।

“एसियाके लोग कास्पियनसे चीनतक, और साइबेरियासे ईरान तथा अफगानिस्तानकी सीमा-तक उससे कहीं अधिक सुख और स्वतंत्रताको भोग रहे हैं, जितना कि भारतीय राज्यके किसी भागके लोग। . . . लेकिन वहां (रूसी एसियामें) अब भी २०वीं सदीके आरम्भमें, भारी रक्षात्मक आयकर, अंग्रेजी व्यापारकी रक्षाके लिये वाणिज्य-दूतोंकी नियुक्ति, तथा युरोपियनोंके आने-जानेके ऊपर भारी रूकावट मौजूद है। . . . सिवाय संगीनोंके बलपर हम सदा भारतके स्वामी नहीं रह सकते हैं, उसीपर हमारा सिंहासन खड़ा है। हमारा राज्य यहां (भारतमें) कभी गहरी जड़ नहीं जमा सकता। संगीनोंके बिना हमारे पूर्वगामियोंकी तरह हमारा भी शासन खतम हुये बिना नहीं रहेगा। लेकिन मध्य-एसिया उतना घना नहीं बसा है, और वहांके लोगोंका जीवनतल भारतकी अपेक्षा अधिक ऊंचा है।

“हमें विश्वास है, कि यदि ‘हमारे इंगलैण्ड और रूस’—एसियाकी दोनों महाशक्तियों—के बीच खुले दिलसे कोई समझौता हो जाय, तो इससे सभ्यताको आगे बढ़नेमें सहायता मिलेगी।”

इन उद्धरणोंसे मालूम होगा, कि अंग्रेज रूसियोंके दक्षिणी बढ़ावको पसंद नहीं करते थे, लेकिन साथ ही वह जानत थे, कि दोनोंके संघर्षके कारण एसियामें कहीं युरोपियनोंका शासन खतम न हो जाय, इसीलिये सीमाके निश्चित करनेके लिये दोनोंकी ओरसे जुलाई १८८४ ई०में एक संयुक्त कमीशन नियुक्त हुआ। रूसियोंने पंचदेहेके सारिकोंके रूसी-अधीनता स्वीकार करनेका हवाला दे मांग पेश की, कि तुर्क जातिकी सीमा हमारी सीमा है, और अफगान-बस्तियोंसे अंग्रेजोंका प्रभावक्षेत्र माना जाय। लेकिन अंग्रेज इसे माननेके लिये तैयार नहीं थे। अपने दावेको मजबूत करनेके लिए अंग्रेजोंके शहर इसी बीच अफगानोंने आक्रमण करके बालामुर्गाब और पंचदेह दोनों वादियों (उपत्यकाओं)को दखल कर लिया। इसके जवाबमें जनरल कमारोफने पुले-खातून, जुल्फिकार डांडा और अक-रबातपर रूसी झंडा गाड़ दिया, और फरवरी १८८५ ई०में पंचदेह-वादीके छोरपर पुले-कश्तीको भी ले लिया। इंगलैण्डमें इसपर बड़ा गस्सा प्रकट किया जाने लगा, और हिरातके किले-को मजबूत करनेके लिये अंग्रेज इंजीनियर भेजे गये, अफगानिस्तानमें हथियार और गोला-बारूद बढ़े परिमाणमें भेजा जाने लगा, और भारतके पश्चिमोत्तर सीमांतपर जनरल राबर्टकी अधीनतामें भारी सेना जमा की गई। पार्लियामेंटने एक करोड़ दस लाख पाँड सैनिक तैयारीके लिए मंजूर किये। उधर रूसने भी एक भारी नौ-सेना जमा की, और चाहा कि भूमध्यसागरके अंग्रेजी-व्यापार-मार्गको नष्ट कर दे। लेकिन दोनों साम्राज्योंको यह समझनेमें देर नहीं लगी, कि आपसकी लड़ाई-से अंतमें भारी क्षति उठानी पड़ेगी। अंग्रेजोंने अफगानिस्तानको रोका, और अप्रैल १८८६ ई०में दोनों देशोंके प्रतिनिधि पीतरबुर्गमें जमा हुए। रूसियोंको हरीरूदका दाहिना किनारा जुल्फिकार डांडेतक और पंचदेहसे दक्षिण बागी-उपत्यका, जिसमें पंचदेह हरितावली भी शामिल थी, मिली। इस प्रकार रूसी सीमा हिरातसे ५३ मीलपर पहुंच गई, जिसके और हिरातके बीचमें कोई प्राकृतिक बाधा नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ रूसको अमीर-बुखाराके हाथसे वक्षुके बायें तटपर अवस्थित खाजासालेके दक्षिणके सुन्दर चरागाहोंको अफगानिस्तानको दिलवाना पड़ा। संयुक्त कमीशनने जितनी सफलतापूर्वक अपना काम किया था, उससे उत्साहित होकर १८९५ ई०में दूसरा सीमांत-कमीशन नियुक्त किया गया, जिसने पामीरमें अंग्रेजी और रूसी प्रभावक्षेत्रोंकी सीमा निर्धारित की। यह सीमा विक्टोरिया (जोर कुल) झीलके दक्षिणी किनारेसे शुरू होकर सरिकौल पर्वत-मालाके मेरूदण्डपर होते चीनी सीमांततक पहुंच सारिकौल पर्वतमालाकी एक ऊभड़-खाभड़ और दुर्गम बाहीसे ६ मीलपर सनातन हिमवाले प्रदेशमें जाती है, जहांपर कि कई पर्वतश्रेणियां आकर मिलती हैं। “इसी निर्जन एकांत स्थानमें समुद्र तटसे बीस हजार फुटके ऊपर मनुष्योंकी पहुंचसे बिल्कुल बाहर तीन साम्राज्य—भारत (अंग्रेजी), चीन और रूस मिलते हैं।”

२५ नवम्बर १८९७ ई०में जनरल क्रोपत्किनने अश्काबादमें अंग्रेज यात्रियोंके सामने भाषण करते हुए कहा था—“भीतरी लड़ाई-झगड़ेकी संभावनाको खतम करनेके लिए हमने देशियोंको बिना हथियारकर उन्हें शांतिपूर्ण जीवन स्वीकार करनेके लिए मजबूर करनेमें कोई

कसर नहीं उठा रक्खी है।.....अब एक अकेला यात्री भी कास्पियन तटसे साइबेरियाके सीमांततक, बिना जरा भी भयके यात्रा कर सकता है।.....(यहांका) व्यापारीवर्ग सरकारका सबसे बड़ा समर्थक है, जिसके बाद कृषक है।....विरोध अब मुल्लाओंके षड्यंत्र हीका रह गया है।”

७. रेल-निर्माण

तेक्कोंके साथ युद्ध करनेके लिए तेरह मीलकी रेलवे लाइन बनकर कास्पियन तटसे रेलोंका जाल शुरू हुआ। रेल-निर्माणके लिए खास तौरमे संगठित बटालियनने १८८३ ई०के अंततक उसे कास्पियनसे १३५ मीलपर किजिल अरबततक बना दिया। मेर्वके ऊपर अधिकार हो जानेपर रेल बनानेमें और भी उत्साह हुआ, और अप्रैल १८८५ ई०के उकाजे (राजादेश) द्वारा रेलको आगे बढ़ानेकी स्वीकृति दी गई। ३० जूनको काम शुरू हुआ। इस रेलवे लाइनके बनानेमें बाईस हजार तेक्के मजदूर काम करते रहे, और चौदह महीनेके भीतर रेल किजिल अरबतसे ३५२ मील मेर्वतक पहुंच गई। मेर्वसे चारजूयकी लाइनपर काम अगस्त १८८६ ई०में आरंभ हुआ। इस लाइनको साठ मील रेगिस्तानमेंसे जाना था। चार मासमें यह एक सौ एकतालीस मील लंबी रेल भी तैयार हो गई। कास्पियन तटसे वक्षुके वायें किनारेपर अवस्थित चारजूय-तक अब ६६४ मील लंबी रेल बनकर तैयार हो गई। वक्षु हमारी गंगाकी तरह एक बड़ी नदी है, जिसका पाट चारजूयमें सवा मीलका है। नदीमे थोड़ा ही हटकर दोनों किनारोंपर रेगिस्तान है, जो कि कराकुम और किजिलकुमके महान् रेगिस्तानके भाग हैं। आमू (वक्षु)पर पुल बनानेके लिए लकड़ियोंके ३३३० बेड़े रूससे लाये गये। पहला पाया जून १८८७ ई०में बैठाया गया और काम इतनी तत्परतासे हुआ, कि छ महीनेके बाद जनवरी १८८८ ई०में वक्षुका पुल यातायातके लिये खोल दिया गया। यह पुल ४६०० गज लंबा था, जिससे २२७० गज चौड़ी जल-धारा बहती थी। सितंबर १८८७ ई०में वक्षु तटमे २१६ मीलपर अवस्थित समरकंदतककी लाइन-पर काम शुरू हो गया, जिसे २८ मीलका रेगिस्तान पार करके कराकुलमें जरफशा-सिंचित उपत्यका में पहुंचना था। अंतमें मई १८८८ ई०में कास्पियनमे समरकंदतक ८७९ मीलकी रेल तैयार हो गई। इस रेलवे लाइनपर प्रति मील औसत खर्च ६१४४ पाँड (अस्सी हजार रुपया) आया था, जब कि हिंदुस्तानमें अंग्रेजी कंपनियोंने रेलोपर प्रति मील अठारहसे बीस हजार पाँड खर्च किये। १८९५ ई०में समरकन्द और ताशकंदके बीच रेल बननी शुरू हुई। उसके बाद अंदिजान (फरगाना)की लाइन भी तैयार की गई। मेर्वसे अफगानिस्तानकी सीमाके पास कुश्क तक १९२ मीलकी रेल बनी। कुश्कसे हिरात, गोरिष्क, कंधार और चमन होते मध्य-एशियाकी रेलोंको क्वेटामें पाकिस्तानी रेलोंसे आसानीसे मिलाया जा सकता था, इस रास्ते कुश्क और चमनके बीच सिर्फ ४५० मीलकी लाइन बनानी थी। इस सारे रास्तेमें कोई दुर्लभ बाधा नहीं है। सिर्फ खुम्दान (चश्मेसब्ज) डांडेको पार करते लाइनको समुद्र तलसे ३४०० फुट ऊपर उठना पड़ता। चश्मेसब्जके डांडेस तीस मीलपर ही सञ्जवार है।

८. अशकाबाद

कास्पियन तटपर अवस्थित क्रास्नोवोदस्कसे ३२२.२५ मीलपर अवस्थित अशकाबादको रूसियोंने अपना शासन-केंद्र बनाया, जिसकी स्थापना १८८३ ई०में अक्कल हिरितावलीके सबसे चौड़े तथा कोपेतदाग पर्वतमालाके सानुपर है। १८९९ ई०में इसकी जनसंख्या सोलह हजार थी, जिसमें दस हजार सैनिक थे। अशकाबादमे नातिदूर कोपेतदागके पहाड़ोंमें २४०० फुटकी ऊंचाईपर फीरोजा और ३००० फुटकी ऊंचाईपर खैराबाद मंसूरी-शिमला-जैसे ठंडे पहाड़ी नगर हैं, जहांपर रूसी अफसर अपनी गर्मियां बिताया करते थे। अशकाबादका अर्थ आंसुओंकी नगरी या इशकाबादसे प्रेमनगरी भी हो सकता है।

९. मेर्व

यद्यपि यह ऐतिहासिक नगरी, ध्वंसावशेषके रूपमें ही सही, मौजूद थी, लेकिन इसके पहले ही इश्काबादको शासन-केंद्र बनाया जा चुका था, इसलिये मेर्व एक छोटा-सा कस्बा ही रह गया, और उसे बोल्शेविक-क्रांतिके बाद ही आगे बढ़नेका मौका मिला ।

स्रोत-ग्रन्थ

१. ओचेर्क इस्तोरिइ तुर्कमान्स्कओ नरोदा (व. व. बर्तोल्द, १९२८)
२. आजियात्स्कया रोस्सिया (अ. क्रूवेर आदि, मास्को १९१०, पृष्ठ १७२-७७)
३. तुर्कमानिया इ येये कुरोत् नया बगात्स्वा (व. अ. अलेक्सन्द्रोफ, मास्को, १९१०)
४. Heart of Asia (E. D. Ross, London, 1899)
५. History of Mongol (H. H. Howorth, London, 1876-88)
६. La rivalite anglo-russie en xxi siecle en Asie (A. M. F. Rouire, Paris, 1908)

भाग ५

बोलशेविक-क्रांति

रूसमें क्रांति

१. लेनिन रूसमें (१९१७ई०)

यद्यपि जार अब तख्तसे उतार दिया गया था, और लोग बड़ी-बड़ी आशा कर रहे थे, लेकिन फर्वरी-क्रांतिके परिणामस्वरूप जिन लोगोंके हाथमें शासन गया, वह अब पुराने स्वार्थोंको उसी तरह सुरक्षित रखना चाहते थे, जिस तरह जारशाही करती आ रही थी। औद्योगिक पूंजीवादकी स्थापनाके बाद भी रूसमें अभीतक सामन्तशाही स्वार्थोंके हाथमें ही सैनिक और असैनिक शक्ति थी। फर्वरी-क्रांतिने पूंजीपतियों और मध्यवर्गको ऊपर आनेका मौका दिया, जो पश्चिमी युरोपकी तरह शुद्ध पूंजीका शासन मजबूत करना चाहते थे। लड़ाईने लोगोंकी जैसी आर्थिक अवस्था कर डाली थी, और किसानों और मजदूरोंके संघर्षोंने जो भावनायें पैदा कर दी थीं, उनके लिये अस्थायी सरकारने कुछ नहीं किया। लेनिनके अनुसार अस्थायी सरकार “रूसके लोगोंको न शांति दे सकी, न रोटी, न पूर्ण स्वतंत्रता”, बल्कि जारशाहीके हट जानेसे पश्चिमी दोस्त कहीं कोई दूसरा अर्थ न लगाने लगे, इसलिये अस्थायी सरकारने युद्धको पहले हीकी तरह सरगर्मीके साथ चालू रखनेका विश्वास दिलाया। यही नहीं, बल्कि उसीके लिये छ अरब रूबलके ‘स्वतंत्रता-ऋण’के उठानेका प्रयत्न किया। भूमि अब भी जमींदारोंके हाथमें अछूती रही, पूंजीपतियोंके हाथसे कारखानोंको जरा भी इधर-उधर करनेकी कोशिश नहीं की गई। कुर्स मोगिलेफ और पेर्मकी गुबर्नियों (प्रदेशों)में किसानोंने कुछ करना चाहा, तो मार्चमें उनके ऊपर सेना भेजी गई। जारशाही अफसर और पुराना शासन-यंत्र वैसा ही अक्षुण्ण रक्खा गया, जिस तरह भारतसे अंग्रेजोंके जानेके बाद हिन्दुस्तानमें। बड़े-बड़े जमींदार और पक्के राजभक्त अब भी सर्वेसर्वा थे; समाजवादी क्रांतिकारी दलका वकील करेन्स्की न्यायमंत्री बना था। उसने जारशाही समयके सरकारी वकीलोंको अपनी जगहपर कायम रक्खा। और तो और, पुरानी उपाधियों—राजा, कौण्ट, बारोन आदि—को भी जैसे-का-तैसा ही बनाये रक्खा। नई सरकारने जारके परिवारको सुरक्षित रखनेके लिये उसे इंग्लैंड भेजनेकी कोशिश की, लेकिन जबदस्त विरोध देख वैसा नहीं कर पायी। फर्वरी-क्रांतिके बाद जो मूर्तियां सामने आईं और उन्होंने जो रवैया अख्तियार किया, उसने बतला दिया, कि इनसे साधारण जनताका कोई हित नहीं हो सकता।

लेनिनको जैसे ही फर्वरी-क्रांतिकी खबर मिली, वैसे ही वह रूस पहुंचनेके लिये बेकरार हो गये। लेकिन उनका नाम मित्रशक्तियोंके खुफिया-विभागकी काली-सूचीमें दर्ज था। अंग्रेज अपने प्रदेशसे होकर जानेकी आज्ञा देनेके लिये तैयार नहीं थे। सोवियतोंकी मांगसे मजबूर होकर अस्थायी सरकारके वैदेशिक विभागने सभी निर्वाचित रूसियोंको देश लौटनेके लिये मित्रशक्तियोंको लिखा, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया, कि अन्तर्राष्ट्रीयतावादियोंको न आने दिया जाय। इस प्रकार लेनिनका लौटनेका रास्ता बन्द था। वह लौटनेका कोई उपाय सोच रहे थे। उनको यह भी ख्याल आया, कि स्वीडनका पासपोर्ट लेकर जर्मनीके रास्ते जाय, लेकिन उन्हें स्वीडिश भाषाका एक शब्द भी मालूम नहीं था। तब उन्होंने गूंगा बननेकी भी सोची। सब देखकर अन्तमें उन्हें यह साफ मालूम होने लगा, कि जर्मनीके रास्तेसे ही लौटा जा सकता है। रूसी निर्वासितों—विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीयतावादी समाजवादियों

—के रूसमें लौटनेसे जर्मन अपना नुकसान नहीं समझते थे। इसीलिये स्वीजरलैंडके समाजवादी प्लातेनके बहुत लिखा-पढ़ी करनेपर जर्मनीने इस शर्तपर अपने देशके भीतरसे लेनिनको जानेकी आज्ञा दी, कि वह उसी खास ट्रेनमें जायं, जिससे दूसरे निर्वासित रूसी जायेंगे। वह न रास्तेमें उतरें, और न किसीसे बातचीत करें। लेनिनको तो रूसमें पहुंचनेसे मतलब था, उन्होंने इस शर्तको स्वीकार कर लिया और मूहरबन्द ट्रेनपर बैठ गये। जब फिनलैंड और रूसकी सीमापर उनकी ट्रेन पहुंची, तो बोल्शेविक नेताओंने उन्हें देशकी परिस्थिति समझाई। पेत्रोग्रादके पास बेलोअस्त्रोफ स्टेशनपर १६ (३) अप्रैल १९१७ ई०को उन्हें उनके साथियोंने देशकी परिस्थिति समझाई। जब वह पेत्रोग्रादके फिनलैंड रेलवे स्टेशनपर पहुंचे, तो हजारों फौजी सिपाही अपने प्रिय नेताके स्वागतके लिये पांतीसे खड़े सलामी दे रहे थे, सैकड़ों लाल झंडे फहरा रहे थे। पताकोंपर बड़े-बड़े अक्षरोंमें “स्वागत लेनिन” लिखा था। एक हथियारबन्द गाड़ीपर खड़े होकर लेनिनने एक छोटा-सा भाषण दिया, जिसको समाप्त करते हुये “समाजवादी क्रांति जिन्दाबाद”का नारा लगाया। १७ (४) अप्रैलको बोल्शेविकोंकी एक बैठकमें लेनिनने अपने प्रसिद्ध निबन्ध “वर्तमान क्रांतिमें सर्वहारोंके सामने काम” को रक्खा, जिसमें लेनिनने बतलाया, कि यह संक्रांतिकी अवस्था है, जिसके द्वारा शक्ति पूंजीवादियोंके हाथमें चली गई है। अब शक्तिको सर्वहारों और गरीब किसानोंके हाथमें करते क्रांतिकी दूसरी सीढ़ीको पार करना है। लेनिनने यह भी कहा, कि लड़ाईसे हमें अपना हाथ एकदम हटा लेना चाहिये। इसे उनके सहयोगियोंमेंसे भी कितनोंने पसन्द नहीं किया। उनका कहना था—तब तो जर्मन बेधड़क सारे रूसको दखल कर लेंगे और हम जारशाहीके फंदेसे निकलकर जर्मनशाहीके हाथमें चले जायेंगे। लेकिन लेनिन अपने निश्चयपर दृढ़ थे—“अब जब कि रूसमें भाषण और लेखनकी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, तो हमारा सबसे पहला काम है, शासनको कमकरो और गरीब किसानोंके हाथमें लानेकी कोशिश करना। अस्थायी सरकारको हमें कोई मदद नहीं करनी चाहिये। यह पूंजीवादियोंकी सरकार साम्राज्यवादी छोड़ और हो ही क्या सकती है? . . . सोवियतोंको भी कमकरो और किसानोंके हाथमें होना चाहिये। जमींदारोंकी जमींदारीको छीनकर किसानोंको दे देना चाहिये। अलग-अलग बैंकोंका मिलाकर एक राष्ट्रीय बैंक बना देना चाहिये। यद्यपि समाजवादकी स्थापना तुरन्त नहीं हो सकती, लेकिन राष्ट्रकी उपज और उसके वितरणके साधनोंको सोवियतों (पंचायतों)के हाथमें होना चाहिये। जनतांत्रिक समाजवादी (बोल्शेविक) पार्टीका नाम कम्युनिस्ट (साम्यवादी) कर देना चाहिये, जिससे मालूम हो कि हम पैरिसकम्यून (साम्यवादी समाज)के नमूनेपर साम्यवादी राष्ट्रकी स्थापना करना चाहते हैं।” लेनिनके यह विचार रूसके तत्कालीन राजनीतिज्ञोंके ऊपर बमकी तरह पड़े। बोल्शेविक नेता भी घबड़ा उठे—“यह शेखचिल्लीका महल है। वास्तविकतासे इसका कोई संबंध नहीं है। लेनिन दस साल-तक रूसको नहीं देख पाये, इसीलिये वह इस तरहकी ऊल-जलूल बातें करते हैं।”

लेकिन लेनिनकी बातें ऊल-जलूल नहीं थीं, और न वह रूसी जनताकी नब्ज पहचाननेमें गलती कर सकते थे। उन्हें जितना ही अधिक जनतासे मिलनेका मौका मिल रहा था, उतना ही वह उन्हें अच्छी तरह समझानेमें सफल हो रहे थे। उस समय बोल्शेविक पार्टीका केन्द्र क्रशेन्स्की भवनमें था, जिसकी सामनेकी सड़कपर लेनिन रोज व्याख्यान देते थे। तीन महीनेतक लगातार उनकी कलम और जबान चलती रही। कुछ ही समयमें लेनिन अपनी बातोंको मनवानेमें समर्थ हुये। पेत्रोग्रादके कमकर तो पहले हीसे उनपर अद्भुत विश्वास रखते थे, अब बोल्शेविक पार्टीके नेता भी उनसे सहमत हुये। वह देख रहे थे, कि अस्थायी सरकारके जोर देनेपर भी सैनिक मैदान छोड़कर भागते जा रहे हैं, जर्मन फौजें आगे बढ़ती आ रही हैं। ऐसी अवस्थामें अच्छी शर्तोंपर जर्मनीसे सुलह कर लेना ही अच्छा है। अप्रैलमें बोल्शेविक पार्टीकी सातवीं अखिल रूसी कांग्रेस हुई, जिसमें भी एक प्रस्ताव पास करके मांग की गई, कि जमींदारोंसे जमीन छीनकर किसान-कमेटियोंके हाथमें दे दी

जानी चाहिये। इसी कांफ्रेंसमें स्तालिनने जातियोंकी समस्यापर प्रकाश डालते हुए कहा था, कि सभी जातियोंको आत्म-निर्णयका अधिकार मिलना चाहिये, यदि वह रूससे अलग होना चाहें, तो उसके लिये भी उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। ३ और ४ मई (२० और २१ अप्रैल)को अस्थायी सरकारकी साम्राज्यवादी नीतिके विरुद्ध पेत्रोग्रादमें एक लाख आदिमियोंने प्रदर्शन किया। इसके विरुद्ध पूंजीवादियोंने सैनिक अफसरों, विद्यार्थियों, दूकानदारोंका जलूस निकाला, जिसका नारा था “अस्थायी सरकारमें विश्वास”। पेत्रोग्राद सैनिक क्षेत्रके कमांडर जनरल कोर्निलोफने हुकम दिया था, कि मजदूरोंके प्रदर्शन पर सेना गोली चलाये, लेकिन सिपाहियोंने वैसा करनेसे साफ इन्कार कर दिया।

२. करेन्स्की सरकार

१५ (२) मईको अस्थायी सरकारमें कुछ परिवर्तन हुआ, और अब मंत्रिमंडलमें मेन्शेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियोंकी प्रधानता थी। समाजवादी क्रांतिकारी नेता करेन्स्की अब युद्धमंत्री था। उसने जर्मनीके खिलाफ युद्धको और भी जोरसे चलानेका प्रयत्न किया, लेकिन रूसी जनता इसके लिये तैयार नहीं थी, प्राचीनपंथी अत्याचारी जारशाही गुलामोंकी बातोंमें पड़कर वह और लड़नेके लिये सन्नद्ध नहीं थे। बोल्शेविक इस वक्त वही कर रहे थे, जिसे रूसी जनता चाहती थी। अबतक बोल्शेविकोंका प्रभाव पेत्रोग्रादके मजदूर-संगठनोंमें बहुत बढ़ गया था। इसका परिणाम यह हुआ, कि मजदूरोंने सोवियतोंके नये चुनावमें मेन्शेविकों और समाजवादी क्रांतिकारी प्रतिनिधियोंको हटाकर बोल्शेविकोंको निर्वाचित किया। सोवियतोंमें ही नहीं, मजदूर समाजोंमें भी, विशेषकर फैक्ट्री कमेटियोंमें, बोल्शेविकोंकी प्रधानता हो गई। १२ जून (३० मई) को पेत्रोग्रादमें फैक्ट्री कमेटियोंकी पहली कांग्रेस हुई, जिसके तीन चौथाई प्रतिनिधियोंने बोल्शेविकोंके पक्षमें अपनी राय दी। गांवों और शहरोंसे लेनिन और बोल्शेविक पत्रिका ‘प्रावदा’के पास हजारों पत्र आते रहते थे। सिपाहियोंने अपने एक पत्रमें लिखा था—“साथी, मित्र लेनिन, याद रखो, कि हममेंसे एक-एक आदमी जहां है, वहां तुम्हारा अनुगमन करनेके लिये तैयार है। तुम्हारे विचार ठीक किसानों और मजदूरोंके संकल्पको प्रकट करते हैं। सोवियतोंकी प्रथम अखिल रूसी कांग्रेस जून १७ में हुई, जिसके हजार प्रतिनिधियोंमें एक सौ पांच ही बोल्शेविक थे, लेकिन अब वह इतने प्रभावित हो गये थे, कि उन्होंने बोल्शेविकोंकी नीतिका समर्थन किया। जिस समय कांग्रेस हो रही थी, इसी समय बोल्शेविक पेत्रोग्रादके मजदूरों और सैनिकोंके एक भारी प्रदर्शनकी तैयारी कर रहे थे। इसके नारे थे—“सभी शक्ति सोवियतोंको”, “पूंजीवादी दसो मंत्री मुर्दाबाद”, “रोटी, शांति और स्वतंत्रता”। मेन्शेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियोंको भय लगा, कि इससे बोल्शेविकोंका प्रभाव और भी बढ़ जायगा, इसलिये उन्होंने तीन दिनतक सभी तरहके प्रदर्शनोंको बंद रखनेका प्रस्ताव पास कराया, साथ ही पेत्रोग्राद सोवियतकी कार्यकारिणी समितिने १ जुलाई (१८ जून) को एक साधारण प्रदर्शन करनेका प्रस्ताव पास किया, जिसके द्वारा वह “अस्थायी सरकारमें विश्वास”का नारा लगवाना चाहते थे। बोल्शेविकोंने प्रदर्शन करना मंजूर किया, लेकिन उसमें उन्होंने अपने नारे लगवाये। उस दिनके प्रदर्शनमें चार लाखसे अधिक कमकरोने भाग लिया। मेन्शेविक और समाजवादी-क्रांतिकारी जो चाहते थे, वह नहीं हुआ और प्रदर्शनने अस्थायी सरकारमें अविश्वासके जलूसका रूप ले लिया।

अप्रैल १९१७ ई०में युक्त राष्ट्र अमेरिका भी युद्धमें शामिल हो गया था, लेकिन तबतक इंग्लैंड और अमेरिकाकी हालत बुरी हो गई थी। यदि पूर्वी मोर्चेपर रूसी भी प्रतिरोध बन्द कर देते, तो वह कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिये वह करेन्स्कीपर जोर दे रहे थे। जुलाईमें मंत्रिमंडलमें परिवर्तन होकर करेन्स्की प्रधान-मंत्री बन गया। करेन्स्कीने जोर देकर आक्रमण करवाया, लेकिन रूसी सेनाको तानोपोलमें बुरी तरहसे हारकर जल्दी ही हटनेके लिये मजबूर होना पड़ा। दस दिनके आक्रमणमें साठ हजार रूसी हताहत हुये। लेकिन इससे क्या? रूसी पूंजीवादी अपने पश्चिमी भाई-बन्धोंके दामनको पकड़े रहना चाहते थे। अभीतक अस्थायी

जाय। बोल्शेविक भी कच्चे गुंडे नहीं थे। मारको बोल्शेविक पार्टीकी केन्द्रीय समितिने उसी दिन चार लाख मजदूरोंका प्रदर्शन संगठित किया, सभी जगह मजदूरोंने हड़ताल कर दी। राज्यपरिषद्को बिजलीकी रोशनी बिना अपनी बैठक करनी पड़ी। अगले दिन जनरल कोर्निलोफ मास्कोमें आया। वहाँके पूँजीपतियोंने उसका सरकारी तौरसे स्वागत करनेका प्रबन्ध किया, लेकिन राज्यपरिषद्वालोंने खतरेको समझ लिया, इसलिये सैनिक अधिनायकत्वकी घोषणा करनेकी उन्हें हिम्मत नहीं हुई, और कोर्निलोफको खाली ही हाथ लौट जाना पड़ा।

रूसकी इस स्थितिको देखकर मित्रशक्तियाँ धबरा रही थीं। वह कभी करेन्स्कीकी पीठ ठोकतीं, और कभी प्रधान-सेनापति कोर्निलोफकी। उन्होंने कोर्निलोफको पाँच अरब रूबल कर्ज देनेका वचन इस शर्त पर दिया, कि रूसमें एक मजबूत सरकार कायम हो जाय। लेकिन मजबूत सरकार कायम करना कोर्निलोफके बसकी बात नहीं थी। कोर्निलोफने जब पेत्रोग्रादको हाथसे बाहर जाते देखा, तो १ सितम्बर (१९ अगस्त)को उसने रीगाको जर्मनोंके हाथमें समर्पण कर दिया, जिसमें कि उनकी सेनायें सीधे पेत्रोग्राद पहुँच जायें। करेन्स्कीसे कोर्निलोफने यह भी मांग की, कि सारी सैनिक और असैनिक शक्ति हमारे हाथमें दे दो, फिर हम पेत्रोग्रादके कमकरोँको ठीक कर लेंगे। करेन्स्कीको अब जनताके गुस्सेका भी ख्याल करके और अपने लिये उपस्थित डरकी वजहसे भी कोर्निलोफको प्रधान-सेनापतिके पदसे हटाना पड़ा, लेकिन कोर्निलोफने आज्ञा माननेसे इन्कार कर दिया और ७ सितम्बर (२५ अगस्त)को उसने पेत्रोग्रादके विरुद्ध एक सेना जनरल क्रीमोफकी अधीनतामें भेजी। अब धबराये हुये करेन्स्की और उसके सहयोगियोंको बोल्शेविकोंके सामने सहायताके लिये हाथ पसारनेके सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया। बोल्शेविकोंने इस वक्त अपनी सूझ और संगठनका परिचय दिया, जिसके कारण कोर्निलोफकी बुरी हार हुई। जनरल क्रीमोफने आत्म-हत्या कर ली। कोर्निलोफ, दिनकित और कितने ही दूसरे जनरल गिरफ्तार कर लिये गये, लेकिन करेन्स्की बोल्शेविकोंसे और भी ज्यादा डरता था, इसलिये इन देशद्रोही जनरलोंके भाग जानेमें कोई दिक्कत नहीं हुई। कोर्निलोफके पराजयके बाद बोल्शेविकोंका लोहा शत्रु, मित्र और उदासीन सभी मानने लगे। मजदूरों और गरीबोंमें उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया। सोवियतोंके संगठन उनके हाथमें आने लगे। १३ सितम्बर (३१ अगस्त)को पेत्रोग्रादके कमकरोँ और सैनिकोंके प्रतिनिधियोंकी सोवियतने बहुमतके साथ बोल्शेविक प्रस्तावको पास किया। १८ (५) सितम्बरको मास्कोकी सोवियतने भी वैसा ही किया। इस प्रकार राजनीतिक राजधानी पेत्रोग्राद और औद्योगिक राजधानी मास्को दोनोंकी सोवियतें बोल्शेविकोंके हाथमें आ गईं। सितम्बर-अक्तूबरके बीचमें सदस्योंकी संख्या और प्रभाव दोनोंमें लेनिनकी पार्टी दिन-दूनी रात-चौगुनी जनताके विश्वासको पाती गई। अप्रैल १९१७ ई०में जहाँ उसके सदस्योंकी संख्या अस्सी हजार थी, वहाँ अगस्तके अन्तमें वह ढाई लाख और अक्तूबरके मध्यमें चार लाख हो गई। कहीं भी हड़ताल करा देना या बड़े-बड़े प्रदर्शन निकाल देना उनके बायें हाथका खेल था। देशमें जो क्रांति मची हुई थी, उसमें सैनिक भी शामिल थे। वह अपने गाँवोंमें संबंधियोंको उसके बारेमें चिटठी लिखते, जिससे किसानोंने जमींदारीके खेतोंको छीनना शुरू कर दिया। करेन्स्कीकी सरकारने जमींदारोंकी रक्षाके लिए अपने कमजोर हाथोंको बढ़ाते हुये किसान-समितियोंके सदस्योंको गिरफ्तार करनेकी कोशिश की, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति कहाँ थी?

विद्रोहकी तैयारियाँ—सितम्बरमें लेनिन हेलसिंकी (फिनलैंड)में छिपकर रहे थे, जहाँसे वह बराबर बोल्शेविक पार्टीकी केन्द्रीय समितिके पास अपने सुझाव भेजा करते थे। २५ (१२) और २७ (१४) सितम्बरको लेनिनने केन्द्रीय समितिको दो बड़े ही महत्वपूर्ण पत्र भेजे थे—“बोल्शेविकोंको अवश्य अधिकार हाथमें लेना चाहिये” और “मार्क्सवाद और विद्रोह”। पहले पत्रमें लेनिनने बतलाया था, कि पेत्रोग्राद और मास्कोकी सोवियतोंमें अपना बहुमत

स्थापित हो जानेपर बोल्शेविकोंके लिये अधिकार हाथमें लेना मुश्किल नहीं है। “पार्टीके कर्तव्यको अच्छी तरह साफ कर देना चाहिये। पेत्रोग्राद और मास्कोमें सशस्त्र विद्रोह, अधिकारको हाथमें लेना, और सरकारको निकाल बाहर करना—यह काम आजका हमारा प्रोग्राम होना चाहिये।” लेकिन अभी भी बोल्शेविक नेताओंमें कुछ ऐसे लोग थे, जो इतने बड़े कदमको उठानेमें भारी खतरा समझते थे। लेकिन खतरा लिये बिना क्या कभी कोई बड़ा काम किया जा सकता है? केन्द्रीय समितिने सशस्त्र विद्रोहकी तैयारियां बड़ी तेजीसे शुरू कर दीं। पेत्रोग्राद-सोवियतकी एक क्रांतिकारी सैनिक समिति स्थापित की गई, जो विद्रोहका संचालन-केन्द्र थी। पेत्रोग्रादमें उस समय बारह हजार हथियारबन्द लाल गारद मौजूद थे। निश्चय हुआ, कि उनकी सहायताके लिये हेलसिंकीसे बाल्तिक नौसैनिक बेड़ेके नाविकोंको भी बुलाया जाय। सिर्फ पेत्रोग्राद हीमें नहीं, दूसरी जगहोंपर भी विद्रोहकी तैयारियां करना जरूरी समझा गया। दोनेत्स-उपत्यकामें बोरोशिलोफ, खाकोंफमें अत्योम सेगेंथफ, वोल्गा-प्रदेशमें कुइविसियेफ, उरालमें उदानोफ, पोलेसिये इलाकेमें कगानोविच, इवानोवो-वोर्जेनेसेन्स्कमें म० व० फ्रुंजे, उत्तरी काकेशसमें स० म० किरोफ सशस्त्र विद्रोहके संचालक-नियुक्त हुये।

जिस समय इस तरह जबर्दस्त तैयारी की जा रही थी, उसी समय त्रोत्स्की और कुछ दूसरे डिलमिलयकीन बोल्शेविक-नेताओंने अस्थायी सरकारको यह जाननेका मौका दे दिया, कि ७ नवम्बर (२५ अक्टूबर) १९१७ ई०को—जिस दिन कि सोवियतोंकी दूसरी कांग्रेस शुरू होनेवाली थी—विद्रोह शुरू होनेवाला है। करेत्स्की सरकारने उसे दबा देनेका निश्चय किया। बोल्शेविक पार्टीकी केन्द्रीय समितिका केन्द्र स्मोल्नी प्रतिष्ठान था। प्रतिक्रांतिके संचालकोंने योजना बनाई, कि स्मोल्नीपर अधिकार करके बोल्शेविक नेताओंको पकड़ लिया जाय।

३. राजधानीपर अधिकार

६ नवम्बर (२४ अक्टूबर)को एक खुली मोटर लारीपर सरकारपक्षी कादतोंकी टुकड़ी ‘रबोची-पुत’ (कमकरपथ)की नई कापीको ज्वत करनेके लिये उसके आफिसमें पहुंची—‘प्रावदा’ इस समय इसी नामसे निकल रही थी। खबर लगते ही क्रांतिकारी सैनिक एक सशस्त्र कारमें वहां पहुंच गये, और उन्होंने कादतोंको भागनेके लिये मजबूर किया। ‘रबोची-पुतमें’ उस दिन “हमें क्या चाहिये”के हेडिंगसे स्तालिनका एक लेख छपा था, जिसमें कहा गया था—“अब वह समय आ गया है, जब कि और देरी करना क्रांतिके लिये खतरनाक होगा। जमींदारों और पूंजीपतियोंकी वर्तमान सरकारकी जगह हमें मजदूरों और किसानोंकी सरकारको अवश्य कायम करना है।” अगले दिन सोवियतोंकी कांग्रेसके उद्घाटनके शुरू होते ही कार्रवाई करनेका निश्चय करके क्रांतिकारी सैनिकोंको तुरन्त विद्रोह करनेकी हिदायत दी गई। ६ नवम्बर (२४ अक्टूबर)के सबेरे क्रांतिकारी सैनिक समितिने अपनी सैनिक टुकड़ियोंको कार्रवाईकी तैयारीके लिये आज्ञा दे दी, और यह भी, कि राजधानीकी ओर आनेवाली हर एक सैनिक टुकड़ीपर निगाह रखी जाय। उसने बाल्तिक नौसैनिक बेड़ेके युद्धपोतों और नौसैनिकोंको मददके लिये बुलानेका भी निश्चय कर लिया, और हेलसिंकीमें बाल्तिक नौसैनिक बेड़ेकी सोवियतोंकी केन्द्रीय समितियोंको पुराने संकेतके अनुसार तार दे दिया—“नियमोंको भेजो”, जिसका अर्थ था विद्रोह आरम्भ हो गया, पोतों और आदमियोंको भेजो। ६ नवम्बरको ही एक और भी जबर्दस्त सैनिक शक्ति क्रांतिकी सहायताके लिये राजधानीके भीतर प्रविष्ट हुई, जब कि लेनिन मजदूरके भेसमें चेहरा बांधे, एक साथीके साथ स्मोल्नीमें पहुंचे। स्मोल्नीकी रक्षाके लिये पूरा इन्तिजाम कर लिया गया था, क्योंकि वही क्रांतिका प्रधान संचालकमंडल, क्रांतिके दिमागका केन्द्र था।

उसी दिन पीतर-और-पालके किलेके हथियारखानेसे हथियार लेकर कितने ही सैनिक बोल्शे-

विकोंकी तरफ चले आये थे। आधी रातसे थोड़ी देर बाद केन्द्रीय टेलीफोन-आफिस, राज्यबैंक, बड़ा डाकखाना, सभी रेलवे-स्टेशन और मुख्य सरकारी कार्यालय बोल्शेविक क्रांतिकारियोंके हाथमें थे। क्रांतिकारी सैनिक समितिने आज्ञा दी, कि सैनिकपोत (कूजर) आरोरा नेवामें ऊपरकी ओर बढ़कर हेमन्त-प्रासादके पास जाये। आरोराके कमांडरने यह कहकर हुक्म माननेसे इन्कार किया, कि नेवा नदीमें पानी पर्याप्त नहीं है। इसपर नौसैनिकोंने थाह लिया, तो पानी काफी गहरा देखा। उन्होंने कमांडरको गिरपतार कर लिया और वह युद्धपोतको अस्थायी सरकारके अंतिम शरण-स्थान जारके भव्य महल हेमन्त-प्रासादके पास ले गये। आरोराकी तोपें अब उस प्रासादकी ओर मुंह किये तैयार थीं। विद्रोह पहलेसे बनाई हुई सूक्ष्म योजनाके अनुसार चल रहा था। ७ नवम्बर (२५ अक्टूबर)के ९ बजे सबेरे विद्रोही पलटनोंने हेमन्त प्रासादकी ओर जानेवाले सभी रास्तोंपर अधिकार कर लिया। अस्थायी सरकारका मन्त्रिमंडल उस वकत प्रासादमें अपनी बैठक कर रहा था। अब साफ मालूम हो गया, कि अस्थायी सरकारकी मददके लिये एक भी सैनिक टुकड़ी नहीं है। करेत्स्कीको कसाकोंने सहायता देनेका वचन दिया, किन्तु वह रेडक्रासकी नर्सका भेस बना उसी दिन सबेरे युवत-राष्ट्र अमेरिकाकी झंडेवाली एक मोटरपर बैठकर राजधानीसे भाग गया।

७ नवम्बर (२५ अक्टूबर)के १० बजे क्रांतिकारी सैनिक समितिने अस्थायी सरकारके उलट देनेकी घोषणा की। यह घोषणा लेनिनने तैयार की थी, जिसमें लिखा था—

“अस्थायी सरकार उलट दी गई। राज्यशक्ति पेत्रोग्रादके कमकर-सैनिक-प्रतिनिधियोंकी सोवियत और क्रांतिकारी सैनिक समितिके हाथमें चली गई। वही पेत्रोग्रादके सर्वहारों और सैनिकोंकी मुखिया है।

“जनताके इस संघर्षके उद्देश्य निम्न हैं—तुरन्त ही जनतांत्रिक-संधिका प्रस्ताव रखना, जमींदारीको खतम करना, उत्पादनपर कमकरोका अंकुश स्थापित करना और सोवियत सरकारका निर्माण करना।

“मजदूरों, सिपाहियों और किसानोंकी क्रांति जिन्दाबाद।”

उसी दिन पेत्रोग्राद सोवियतकी एक खास बैठक हुई, जिसमें लेनिन भी उपस्थित थे। लोगोंने बड़ी गर्मागर्म तालियां बजाकर अपने नेताका स्वागत किया। लेनिनने इस बैठकमें भाषण देते हुए कहा—“साथियो! बोल्शेविक जिसकी अवश्यकताके बारेमें बराबर कहते थे, वह मजदूरों और किसानोंकी क्रांति हो गई। अबसे रूसके इतिहासमें एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह क्रांति, तीसरी रूसी क्रांति, अन्तमें समाजवादके विजयकी ओर ले जायगी।”

पेत्रोग्राद सोवियतने प्रस्ताव पासकर क्रांतिका स्वागत किया। इस समयतक हेमन्त प्रासाद छोड़कर सारा पेत्रोग्राद-नगर बोल्शेविकोंके हाथमें था। आज ही सोवियतोंकी कांग्रेस शुरू होनेवाली थी, लेकिन उसके शुरू होनेसे पहले ही हेमन्त-प्रासाद पर अधिकार करनेके लिए लेनिनने हुक्म दिया था। अस्थायी सरकारको तुरंत आत्मसमर्पण करनेके लिए अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन उसने ऐसा करनेसे इन्कार कर दिया। इसपर ९ बजे शामको हेमन्त-प्रासादपर आक्रमण शुरू कर दिया गया। पूर्व संकेतके अनुसार पीतर-और-पाल किलेसे एक तोप दागी गई। आरोराने कुछ गोले चलाये। इसके बाद बोल्शेविकोंके नेतृत्वमें नौसैनिकों और सैनिकोंने जारोंके हेमन्त-प्रासादपर हल्ला बोल दिया। अस्थायी सरकारको बाहरसे मदद मिलनेकी आशा थी; लेकिन वह कहां आनेवाली थी?

सोवियतोंकी द्वितीय कांग्रेस स्मोलनीमें उस दिन (७ नवम्बर) पौने ११ बजे रातको शुरू हुई। हेमन्त-प्रासादके ऊपर इस वकत भी हमला हो रहा था। कांग्रेसमें भाग लेनेवाले कितने ही प्रतिनिधि संघर्षमें भाग लेकर यहां आये थे। कांग्रेस शुरू होते समय मेन्शेविकों, दक्षिणपक्षी समाजवादी क्रांतिकारियों और कुछ दूसरे प्रतिनिधियोंने कहा, कि सैनिक और बिना पार्टीवाले प्रतिनिधि कांग्रेस छोड़कर चले चलें, लेकिन उनका साथ देनेवाले मुट्ठीभर आदमी थे। उनके हाल छोड़नेके समय रोप प्रकट करते हुए प्रतिनिधियोंने चिल्लाकर कहा—‘कोनिलोफी’, ‘भगोडे’। बारहवीं सेनाके एक प्रतिनिधिने उठकर

कहा—“हमें अधिकार अपने हाथमें लेना है। जाने दो इन्हें। सेना उनके साथ नहीं है।” रातके २ बजकर १० मिनटपर हेमन्त प्रासादको बोलशेविकोंने दखल कर लिया और अस्थायी सरकारके मंत्रियोंको गिरफ्तार करके पीतर-और-पालके किलेमें बंद कर दिया।

आधी रातके बाद (अब ८ नवम्बरकी तारीख ही गई थी) ५ बजे सोवियतोंकी कांग्रेसने घोषित किया, कि सारी शक्ति सोवियतोंके हाथमें आ गई। तेरह दिन पीछे होनेके कारण पुराने रूसी पंचांगके अनुसार उस दिन २५ अक्तूबरका महीना था, इसलिए इसे अक्टूबर-क्रांति कहते हैं। ८ नवम्बरकी शामको ८ बजकर ४० मिनटपर कांग्रेसकी दूसरी बैठक हुई, जिसमें लेनिनने शांति-घोषणा, भूमि-घोषणा पढ़ी। शांतिकी घोषणामें कहा गया था—युद्धमें पड़ी सभी जनता और उनकी सरकारें न्यायोचित जनतांत्रिक सुलहनामा करें, न किसीकी जमीन छीनी जाय, न किसीसे हरजाना मांगा जाय, और सभी उत्पीड़ित जातियोंको आत्म-निर्णयका अधिकार मिले। भूमिकी घोषणा द्वारा किसानोंको पंद्रह करोड़ हेक्टर (प्रायः चालीस करोड़ एकड़) जमीन दी गई और पचास करोड़ सुवर्ण-रुबल वार्षिक मालगुजारीसे मुक्त कर दिया गया। इस घोषणाने किसानोंको बतलाया, “गांवोंमें अब कोई जमींदार नहीं रह गया।” उसी दिन ढाई बजे सबेरे कांग्रेसने प्रथम सोवियत सरकार जन-कमीसरोकी परिषद्के कायम होनेकी सूचना दी, जिसके अध्यक्ष व्लादिमिर इलिच (उलियानोफ) लेनिन बनाये गये और जातियोंके जनकमीसर (मंत्री) का पद योसेफ विसारियीन-पुत्र स्तालिन हुए। सोवियतमें दूसरे विश्वयुद्धके कुछ समय बादतक भी मंत्रियोंको जनकमीसर कहा जाता था। पहली सोवियत सरकारके सभी सदस्य बोलशेविक थे, दूसरोंको अभी उतना साहस भी नहीं था, कि उसमें शामिल हों, लेकिन पीछे वामपक्षी समाजवादी क्रांतिकारी भी मंत्रिमंडलमें सम्मिलित हुए। ९ नवम्बर (२७ अक्तूबर) को ५ बजे सबेरे कांग्रेसकी बैठक समाप्त हुई, और लोगोंने “क्रांति चिरंजीव”, “समाजवाद चिरंजीव”के गगनभेदी नारे लगाये।

करेन्स्कीने हेमन्त-प्रासादसे भागकर कसाक-जेनरल क्रास्नोफसे मिलकर फिर अधिकार प्राप्त करनेकी कोशिश की। क्रास्नोफने १० नवम्बर (२८ अक्तूबर) को पेत्रोग्रादके नजदीक जास्कोयिसेलो (आधुनिक पुश्किन) पर अधिकार कर लिया, लेकिन राजधानीके कमकर भला यह क्यों होने देने लगे। वह बड़ी तादादमें क्रांतिकारी सैनिकोंके साथ लड़नेके लिए गये। जिस समय क्रांतिकारी उधर फंसे हुए थे, उसी समय १० नवम्बरकी रातको क्रांति-विरोधियोंने तख्ता उलटनेके लिए षडयंत्र किया। लेकिन उन्हें सफलता नहीं हुई। १३ नवम्बरको क्रास्नोफके कसाकोंको पुलकोवोके पास क्रांतिकारियोंने बुरी तरहसे हराया, और उससे भी ज्यादा वह कसाक सैनिकोंको समझानेमें सफल हुए, कि क्रांतिका विरोध करना अपने हितोंका विरोध करना है। कसाकोंने अपने जेनरलकी आज्ञा माननेसे इन्कार कर दिया। गतिचनाने सोवियत नौसैनिकोंके प्रतिनिधिने कसाकोंसे मिलकर उन्हें कहा, कि अगर तुम सोवियतोंसे लड़ना बंद कर दो, तो तुम्हें घर जाने की छुट्टी मिल जायगी।

पेत्रोग्रादके विद्रोहकी खबर सुनकर ७ नवम्बरको ही मास्कोकी बोलशेविक पार्टीकी कमेटीने भी विद्रोह आरम्भ कर दिया। उसी रातको क्रेमलिनके विद्रोही सैनिकोंको विद्रोह कर देनेकी आज्ञा देनेकी जगह वहांकी क्रांतिकारी सैनिक समितिके नेताओंने क्रांति-विरोधी सैनिक हेडक्वार्टरसे समझौता करनेकी बातचीत शुरू की। ८ नवम्बरकी शामको मास्कोकी बोलशेविक पार्टीकी कमेटीने समझौतेकी बातचीत बंद करनेकी मांग की। इस सुस्तीके कारण क्रांति-विरोधियोंको मौका मिल गया और उन्होंने ९ नवम्बरको मास्को नदीके ऊपरके सभी पुलोंको अपने अधिकारमें कर लिया। इसके बाद क्रेमलिनको भी उन्होंने घेर लिया। देरी करना गलती थी। क्रांतिकारी शक्तियां मास्कोमें भी संगठित और सशक्त थीं। १३ नवम्बरको मास्कोके बड़े डाकखाने, केन्द्रीय तारघर और रेलवे स्टेशनोंपर क्रांतिकारियोंका अधिकार हो गया। दो दिन बाद उन्होंने क्रेमलिनपर गोलबारी शुरू की। १५ नवम्बरको ९ बजे शामको ६ दिनकी लड़ाईके बाद क्रांति-विरोधियोंने हार खाकर आत्मसमर्पण किया और उसी दिन सारी शक्ति मास्को सोवियतकी क्रांतिकारी सैनिक समितिके हाथमें चली आई।

मास्को और पेत्रोग्रादमें बोलशेविक सरकारके स्थापित हो जानेपर अब और जगहोंमें भी क्रांतिका वेग जोरसे फैला। क्रांति-विरोधी हजार कोशिश करते रह गये, लेकिन वह बोलशेविकोंकी बाढ़ रोक न सके। फरवरी-क्रांतिकी तरह पुराने शासनयंत्रके बलपर बोलशेविक शासन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उस यंत्रमें परिवर्तन किया। पुराने शासन-संबंधी बड़े-बड़े अफसरोंका स्थान सोवियतों और उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियोंने लिया, और शासनयंत्रके भीतर रहकर षडयंत्र करनेका मौका पुराने स्वार्थोंके लिए नहीं रह गया। १२ नवम्बरको सोवियत सरकारने घोषित करके मजदूरोंके लिए आठ घंटेका कामका दिन निश्चित कर दिया। २७ दिसम्बरको सभी निजी बैंकोंको राष्ट्रीय बनाकर उन्हें राज्यबैंकमें मिला देनेकी सरकारी घोषणा निकली।

सशस्त्र विद्रोहके समय स्मोल्नी पार्टीका तथा सैनिक-असैनिक शासनका केन्द्र रही। अब मंत्रालयोंको अपने-अपने कामको और सुव्यवस्थित रीतिसे करनेके लिए पुराने कार्यालयोंमें परिवर्तित कर दिया गया। २८ नवम्बरको जनकमीसर परिषद् (मंत्रिमंडल)ने आज्ञा दी, कि सभी मंत्रालय अपनी-अपनी इमारतोंमें चले जायें और मंत्री केवल शामके वक्त स्मोल्नीमें एकत्रित हों।

१५ नवम्बर १९१७ ई०का वह महत्त्वपूर्ण घोषणा की गई, जिसके द्वारा जारके राज्यमें रहनेवाली सभी जातियोंको बिना किसी भेदभावके समानाधिकार दिया गया :—

(१) रूसमें रहनेवाली सभी जातियाँ समानता और पूर्ण प्रभुत्व रखती हैं, (२) रूसकी जातियोंको स्वतंत्रतापूर्वक आत्मनिर्णय तथा अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य कायम करनेका अधिकार है, (३) किसी जाति या जातीय धर्मके विशेषाधिकार या हस्तक्षेपको उठा दिया जाता है, (४) रूसकी भूमिमें रहनेवाली अल्पसंख्यक जातियों और वंशिक समूहोंको स्वतंत्र विकासका अधिकार है।

इस घोषणाने जारशाही साम्राज्यकी सभी जातियोंको एक सूत्रमें बांध दिया, उनके भीतर फूट पैदा करनेके सारे प्रयत्न सदाके लिये निकम्मे हो गये।

४. दास जातियोंकी मुक्ति

मध्य-एसियामें क्रांतिके वारेमें आगे हम कहनेवाले हैं। यहां इतना जान लेना चाहिये, कि जिस समय पेत्रोग्रादमें सशस्त्र विद्रोहकी सफलता और उसके बादके विरोधोंको हटानेके लिये संघर्ष हो रहा था, उस समय ताशकन्दके बोलशेविक भी चुप नहीं थे। हमें मालूम ही है, कि जारशाही मध्य-एसियाका शासनकेन्द्र ताशकन्द था। १० नवम्बर १९१७ ई०को बोलशेविकोंको दवानेके लिये कसाक और कादेतोंने ताशकन्द सोवियतको घेरकर वहांकी क्रांतिकारी समितिके सदस्योंको पकड़ लिया। इसकी सूचना कारखानेके भोंपूको बजाकर दी गई, इसपर तीन हजार हथियारबन्द रूसी और उज्बेक मजदूरोंने बोलशेविक बंदियोंको छुड़ानेके लिये युद्ध छेड़ दिया। कसाक और कादेत ताशकन्दके किलेमें जमा थे, जहांसे नगरपर प्रहार करनेके लिये वह हथियारबन्द मोटरें भेजते थे। क्रांतिकारी कमकरोंने रास्तेको रोकनेके लिये जगह-जगह बाड़े खड़ी कर दी थीं। चार दिनतक लड़ाई होती रही। खबर मिलनेपर आसपासके गांवोंके उज्बेक और किर्गिज मजदूर भी मदद करनेके लिये आ गये। जबर्दस्त संघर्षके बाद १३ नवम्बरको राजशक्ति सोवियतोंके हाथमें चली गई, क्रांतिकारी समितिके सदस्य जेलसे निकाल लिये गये, और उसी दिन तुर्किस्तानकी सोवियत सरकार ताशकन्दमें स्थापित हुई। सोवियत शक्तिको मध्य-एसियासे खतम करनेके लिये पूंजीवादके पक्षपाती, राष्ट्रीयतावादी मध्य-एसियाई तथा रूसी क्रांति-विरोधी एक हो गये। अंग्रेजोंने भी उन्हें मदद पहुंचाई। राष्ट्रीयतावादियोंने नवम्बर १९१७ ई०में खोकन्दमें अपनी सरकार कायम की। उसका नाम रक्खा "खोकन्द स्वशासन"। इसीने मध्य-एसियामें गृहयुद्ध आरम्भ किया। फरवरी १९१८ ई०में खोकन्दकी सरकारको तुर्किस्तानके लाल गारदने खतम कर दिया। लाल गारदमें जहां नगरके रेलवे और कारखानोंके रूसी मजदूर थे, वहां बहुत-से उज्बेक, किर्गिज, कजाक और तुर्कमान कारीगर और किसान भी थे।

बोल्शेविक-क्रांतिने जारशाही रूसके भीतर ही अपने प्रभावको नहीं दिखलाया, बल्कि सुदूर बाह्य मंगोलियाके लोगोंको भी समाजवादके पथपर आरूढ़ किया। जारशाही सेनाके भगोड़े जेनरलोंने वहांपर अड्डा जमाकर क्रांतिका विरोध करनेका मनसूबा बांधा था, लेकिन उन्हें उसमें विफल होना पड़ा।

दूसरे पूंजीवादी और सामन्तशाही सरकारोंकी तरह जारशाहीके भी शासनका स्रोत नीचे नहीं ऊपर था। जार सर्वसर्वा था। वह अपनी ओरसे महाराज्यपाल और राज्यपाल नियुक्त करता, जो अपने प्रदेशके छोटे जार होते। इसकी जगह बोल्शेविक-क्रांतिने शासनयंत्रके ढाँचेको सोवियतोंपर आधारित किया। सोवियतका अर्थ वही है, जो हमारे यहां पंचायतका, यदि अन्तर है, तो यही कि सोवियत प्रभुत्व-सम्पन्न पंचायत है। ग्रामोंके शासनका काम ग्राम-सोवियतोंने लिया, और जिलोंके शासनका काम वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित जिलाकी सोवियतोंने, इसी तरह प्रदेशोंके शासनका काम वहांकी सोवियतोंने। अपने कामोंको सफलतापूर्वक करनेके लिये, तथा जनताको क्रियात्मकरूपसे यह दिखलानेके लिये, कि सरकार उनकी है, अब जारशाही गुर्बनियोंका अनुकरण नहीं किया जा सकता था। उसकी जगह क्रांतिके दो साल ही बाद १९२० ई०के आरम्भमें रूसका विभाजन जातियोंके अनुसार हुआ, और १९२०-२२ ई०के बीचमें इस तरहके कितने ही स्वायत्त सोवियत समाजवादी गणराज्य कायम किये गये, जिनके संघको रूसी सोवियत संयुक्त समाजवादी गणराज्य कहा जाने लगा। इन स्वायत्त गणराज्योंमें बाश्किर भी था, जिसकी स्थापना मार्च १९१९ ई०में हुई थी। रूसी जमींदारों और कुलकोंने जारशाहीके जमानेमें बाश्किर-किसानोंसे जो जमीन छीन ली थी, अब उसके मालिक बाश्किर किसान हो गये। अभीतक बाश्किर अधिकतर घुमन्तू थे, लेकिन अपना खेत मिल जानेपर अब वह अपने गांव बसाने लगे। उनमें शिक्षाका प्रचार भी बढ़ने लगा। बोल्शेविकोंने अच्छी तरह समझ लिया, कि सोवियत शासनकी मजबूतीके लिये यह जरूरी है, कि लोग लिखना-पढ़ना जानें। तभी वह बोल्शेविकोंके उद्देश्यको समझ पायेंगे, और मुल्लों तथा क्रांतिविरोधी सत्ताधारियोंके हाथमें नहीं खेलेंगे। इसीलिये उन्होंने मातृभाषाको शिक्षाका माध्यम स्वीकार करके उसीमें लोगोंको जल्दी-से-जल्दी शिक्षित बनानेका प्रयत्न किया। अपनी भाषाको सीखनेकी अवश्यकता नहीं थी, उसके लिये जरूरत थी लिपिकी। सोवियत रूसके भीतरकी अधिकांश भाषायें अभी न अपनी लिपि रखती थीं, न लिखित साहित्य। ऐसी भाषाओंको रोमन लिपिमें पहले लिखा जाने लगा, पीछे (१९४१ ई० में) लोगोंने रूसी लिपि अपना ली। शिक्षाकी वृद्धि कितनी जल्दी हुई, इसके लिये इतना ही कहना काफी है, कि प्रायः पचीस लाखकी आबादीवाले बाश्किर गणराज्यमें १९२४ ई०में ही दो हजार स्कूल खुल चुके थे।

१९२० ई०के वसन्तमें बाश्किरोंके पड़ोसमें तारतारोंका स्वायत्त सोवियत गणराज्य कायम हुआ। अक्टूबर १९२० ई०में कजाकस्तानकी सोवियतोंकी प्रथम कांग्रेसमें किर्गिज स्वायत्त गणराज्यकी स्थापनाकी घोषणा हुई। इस प्रकार सोवियत रूस सोवियत गणराज्योंके संघका रूप धारण करने लगा। पहले रूसके अतिरिक्त उक्रइन-जैसे गणराज्य कायम हुये थे। दिसम्बर १९२० ई०में उक्रइन सोवियत समाजवादी गणराज्य और रूसी सोवियत संयुक्त समाजवादी गणराज्यमें आपसमें एक सैनिक और आर्थिक मित्रताकी संधि की। इसी तरहकी संधि बेलोरूसिया, आजुर्बाइजान, अमनिया और गुर्जीके गणराज्योंमें भी हुई। तबतक निम्न की सात स्वतंत्र सोवियत गणराज्य बन चुके थे :—

(१) रूसी सोवियत संयुक्त समाजवादी गणराज्य, (२) उक्रइनी सोवियत समाजवादी गणराज्य, (३) बेलोरूसी सोवियत समाजवादी गणराज्य, (४) आजुर्बाइजान सोवियत समाजवादी गणराज्य, (५) अर्मेनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य, (६) गुर्जी सोवियत समाजवादी गणराज्य, और (७) तुर्किस्तान सो० सं० ग०। इस प्रकार सात गणराज्य और कितने ही स्वायत्त गणराज्य, पांच वर्ष बादतक चलते आये। ३० दिसम्बर १९२२ ई०को सोवियतोंकी प्रथम

कांग्रेस हुई, जिसने निश्चय किया, कि अबसे सारे बहुजातिक राज्यका नाम सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ रखकर उसे एक केन्द्रीय राष्ट्रका रूप दिया जाय। सभी जातियोंकी समानताकी अक्षुण्ण रखनेके लिये यह विधान स्वीकार किया गया, कि सोवियत संसद्के "प्रतिनिधि-सदन"में जहां संख्याके अनुसार प्रतिनिधि भेजे जायं, वहां "जातिक सदन"में सभी स्वतंत्र गणराज्योंको उनकी संख्याका कोई भी ख्याल किये बिना बराबर संख्यामें प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार है।

इस प्रकार सफल क्रांति और सफल सोवियत शासनकी स्थापनाके बाद २१ जनवरी १९२४ ई०को लेनिनका देहान्त हुआ।

स्रोत-ग्रन्थ

१. History of Civil War in U. S. S. R. (2 vols., G. F. Alexandrov and others, Moscow 1946)
२. History of U. S. S. R. (Ed. A.M. Pankratova, Moscow 1947)
३. La Revolution russe (4 vols., Cloude Anet, Paris 1918-20)
४. La reign de Raspoutine (Rodzianko, Paris 1928)
५. La revolution russe (Al. Ular, Paris 1905)
६. इस्तोरिया सससर (अ. म. र्व्दोनिकस्, ४ जिल्द)

अध्याय २

उज्बेकिस्तानमें क्रांति

१. उज्बेक जाति

उज्बेक गणराज्यका क्षेत्रफल १८८००० वर्गमील, तथा आबादी बासठ लाखसे ऊपर है। उज्बेक जाति तुर्कोंकी ही एक शाखा है। सुवर्ण-औदू के मंगोल खान उज्बेकके नामपर तुर्कोंके बहुत से कबीलोंने यह नाम धारण किया। उज्बेक कबीलोंमें कितने ही कजाकोंमें भी मिलते हैं, इसलिए उज्बेकों और कजाकोंका पहले एक होना सिद्ध है। उज्बेकोंके सबसे बड़े चार विभाग हैं—(१) उइगुर-नैमन, (२) कंगली-किपचक, (३) कियात-कुंग्राद, (४) नोकुस-मंगित। और छोटे-छोटे विभाग मिलकर उज्बेक कबीलोंकी संख्या ९७ होती है, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

उज्बेक कबीले—

- | | |
|---|------------------------------|
| १. मंगुत (मंगित)(करशी-बुखारा; जुक मंगुत, जुकअकरा) | २७. खिताई |
| २. मिंग | (बुखारा और करमीनाम) |
| ३. युज | २८. कंगली |
| ४. किर्क | २९. उज |
| ५. उंग | ३०. चपलेनी |
| ६. उंगाचित | ३१. चपची |
| ७. जलैर | ३२. उतार्ची |
| ८. सराय (समरकन्द और करशीके रास्तेपर) | ३३. उपुलेची |
| ९. कुंग्राद (करशी और शहरसब्जमें) | ३४. जूलून |
| १०. येलचिन | ३५. जिद (आमू-दरियापर) |
| ११. अरगन | ३६. जुयुत |
| १२. नैमन | ३७. चिलजूयत |
| १३. किपचक (कत्ताकुर्गान और समरकन्दके बीच) | ३८. बुइमौत |
| १४. चीचक | ३९. उएमौत |
| १५. थअवरत | ४०. अरलत |
| १६. कल्पक | ४१. क्किरेइत |
| १७. कर्तू | ४२. उंगुत |
| १८. बरलस | ४३. कंगित |
| १९. बसलक | ४४. खलेउअत |
| २०. सेमारचिम | ४५. मसद |
| २१. कतगन | ४६. मेरकत |
| २२. कलेची | ४७. बेकूत |
| २३. कुनेगज | ४८. कुरालस |
| २४. बतरेक | ४९. उगलान |
| २५. उजोय | ५०. करी |
| २६. कबात | ५१. अरबत (करशी और बुखारामें) |

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ५२. उलेची | ७५. किरदार |
| ५३. जूलेगन | ७६. किरकिन |
| ५४. किशलिक | ७७. उलगान |
| ५५. गेदोई | ७८. गुरलेत |
| ५६. तुर्कमान (आमू-दरिया) | ७९. इगलान |
| ५७. दुमैन | ८०. चिलकेस |
| ५८. ताबिन | ८१. उइगुर |
| ५९. तामा | ८२. अगिर |
| ६०. रिनदान | ८३. याबू |
| ६१. मूमिन | (बुखारा और मियानकुलमें) |
| ६२. उइशुन | ८४. नरगिल |
| ६३. बेरोई | ८५. यूजक |
| ६४. हाफिज | ८६. कहेत |
| ६५. किनगिज | ८७. नवार |
| ६६. उइरुची | ८८. कूजालिक |
| ६७. जुइरेत | ८९. बूजन |
| ६८. बूजाची | ९०. शीरिन |
| ६९. सिंहतियान | ९१. बखरिन |
| ७०. बेताश (बुखारा) | ९२. तूमे |
| ७१. यागरिनी | ९३. नीकुज |
| ७२. शुइदुर | ९४. मुगुल |
| ७३. तुमाई | ९५. कयान |
| ७४. तलेउ | ९६. तारतार |

किसी-किसीके अनुसार उज्बेकोंके पांच विभागोंमें निम्न कबीले हैं:—

I. उइगुर चौबह—

- | | |
|-------------|--------------|
| १. उरुस | ८. गाले |
| २. कराकुरसक | ९. तुपकारा |
| ३. चुल्लिक | १०. कारा |
| ४. उयान | ११. कराबुरा |
| ५. कुल्दौली | १२. नोगाई |
| ६. मिल्लेक | १३. बिलकेलिक |
| ७. कुरतुगी | १४. दुसतनिक |

II. ओमली नौ —

- | | |
|-------------|-------------|
| १. अखताना | ६. बिसबाला |
| २. कारा | ७. कराकल्पक |
| ३. चुरान | ८. कचाई |
| ४. तुर्कमान | ९. हजबेचा |
| ५. कुउक | |

III. कुश्तमगली नौ —

- | | |
|------------|-----------------------|
| १. कुलअबी | ५. चुबुरगान |
| २. बरमक | ६. कराकल्पक-कुश्तमगली |
| ३. कुजरहुर | ७. सफरबीज |
| ४. कुल | ८. दिलबेरी |

९. चचकली

IV. यकतमगली सात —

१. तर्तुगू
२. अगामइली
३. इशिकली
४. किजिनजिली

५. उयुगली
६. बूकजली
७. कौगली

V. फिर पांच --

१. जुजिली
२. कूसउली
३. तिस

४. बलिकली
५. कूबा

इतिहासकार वाम्बेरीने उज्बेकोंके बत्तीस कबीलोंको मुख्य माना है, जो कि निम्न प्रकार हैं :—

- | | |
|--------------------|------------------|
| १. अकबेत | १७. जगताई |
| २. अचमइली | १८. जेलेर |
| ३. अलचिन | १९. ताज |
| ४. अज | २०. इशिकिली |
| ५. इशिकिली | २१. तिकिश |
| ६. उइगुर | २२. दुमेन |
| ७. उशुन | २३. नैमन |
| ८. कनली | २४. नोक्स |
| ९. कराकुरसक | २५. नोगाई |
| १०. कंजिगली | २६. बागुलू |
| ११. कपचक | २७. बलगली |
| १२. कुंग्राद कीयेत | २८. बिरकुलक |
| १३. कूलन | २९. मंगित (ओगुत) |
| १४. केत्तेकेसेर | ३०. मिंग |
| १५. केनेगुज | ३१. मितन |
| १६. खिताई | ३२. सायत |

इन कबीलोंके नामोंको देखनेसे मालूम होगा, कि इनमें ऊसुन-जैसे शक कबीले, कुंग्राद-जैसे मंगोल, कपचक-जैसे पुराने तुर्क, खिताई-जैसे चीनी, बर्मक-जैसे खुरासानी कबीलों और जातियोंका भी नाम है। इसीलिये तुर्की अंशकी प्रधानता रहते भी उज्बेक जातिमें बहुतसी दूसरी जातियोंका सम्मिश्रण है। उसकी भाषामें व्याकरणका ढांचा तुर्की होते भी शब्दकोष और मुहावरे अधिकतर ईरानी (फारसी) हैं।

उज्बेक जातिका निर्माण—उज्बेकों, तुर्कमानों तथा किर्गिजों का ऐतिहासिक विकास निम्न प्रकार हुआ :—

काल	सिर-उपस्थका	सोग्द	तुखार	ख्कारेज्म
ई० पू० १०००००		मुस्तेर	मुस्तेर	
" ५००००		मदलेन		
" ४०००	फिनो-द्रविड़	फिनो	फिनो-द्रविड़	फिनो-द्रविड़
" ३५००	"	"	"	"
" ३००० नवपाषाण	शक-आर्य-द्रविड़	शकार्य-द्र०	शकार्य-द्र०	शकार्य-द्र०
" २५००	शक	आर्य	आर्य	आर्य
ई० पू० १५००	पिस्तल	शक	सोग्दी	ईरानी
" ७००		शक	सोग्दी	ईरानी

ई०पू०	५५०	शक	सोग्दी	ईरा०	शक
"	३२६	शक	सोग्दी	ईरा०	शक
"	२०६	शक	सोग्दी	ईरा०	शक
"	१३०	हूण-शक	सो०-शक	ईरा०	शक
"	१००	हूण-शक	सो०-शक	ईरा०	शक
ईसवी	१००	कृषाण	हूण-शक	सो०-शक	ईरा०-शक
"	४२५	हेथता	हूण-कंगली	सो०-शक	ईरा०-शक
"	५५७	तुर्क	तुर्क-कंगली	सो०-तुर्क	ईरा०-शक
"	६७३	अरब	तुर्क	सो०-तुर्क	ईरा०-तुर्क
"	८९२	सामानी	तुर्क	ईरानी-तुर्क	ईरा०-तुर्क
"	१२२०	मंगोल	तुर्क	ईरा०-तुर्क	ईरा०-तुर्क
"	१५००	तुर्क (उज्बेक)	उज्बेक-ईरा०	ईरा०-उज्बेक	उज्बेक-ईरा०
"	१७४७	उज्०-कजाक	उज्०	उज्०	उज्०
"	१८६५	उज्०-कजाक	उज्०	उज्०	उज्०
"	१९१७	उज्०-कजाक	उज्०	उज्०	उज्०

२. उज्बेकभूमि

वर्तमान उज्बेकिस्तान खोकन्द, खीवा (ख्वारेज्म), और बुखारा रियासतोंकी भाग सम्मिलित हैं, जिनमें बुखाराका तो करीब-करीब सारा ही भाग उज्बेकिस्तानमें है। उज्बेकोंकी वर्तमान राजधानी ताशकन्द बिलकुल एक छोरपर कजाकोंकी भूमिके पास पड़ती है, लेकिन रूसियोंके आनेसे पहले ही वह प्रसिद्ध नगर उज्बेकोंकी भूमिके साथ संबद्ध था। तुर्किस्तानकी राजधानी बननेपर जहां वहां रूसी काफी संख्यामें आये, वहां एसियाइयोंमें सबसे अधिक उज्बेकोंकी आबादी थी, इसलिये वह पहले तुर्किस्तान गणराज्य, फिर उज्बेकिस्तान और ताजकिस्तानके सम्मिलित उज्बेक गणराज्य और अन्तमें उज्बेकिस्तानकी राजधानी रह गया। मध्य-एसियाके समस्कन्द और बुखारा-जैसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर भी उज्बेकिस्तानमें ही पड़ते हैं।

३. क्रांतिकी लपट

रूसमें फरवरी-क्रांति होनेपर भी उस समय बूजर्वा रूसी शासकोंने मध्य-एसियाकी जातियों—उज्बेकों, कजाकों, किर्गिजों, ताजिकों, तुर्कमानों—के ऊपर होते आये जारशाही शासनमें कोई परिवर्तन करनेकी अवश्यकता नहीं समझी। अप्रैल १९१७ ई०में शचेप्किनकी अध्यक्षतामें एक तुर्किस्तान समिति बनाकर भेजी गई, जिसको तुर्किस्तानके सूबेके शासनका पूरा अधिकार दे दिया गया था। जब पेत्रोग्रादमें अस्थायी सरकारमें थोड़ा और परिवर्तन हुआ, और वैधानिक जनतांत्रिकोंकी जगहपर मेन्शेविकोंकी प्रधानता हुई, तब तुर्किस्तान कमेटीमें नाममात्रका ही परिवर्तन किया गया। यह कमेटी पुराने जारशाही अफसरों और सफेद क्रांति-विरोधियोंके प्रभावको कम करना नहीं चाहती थी। क्रांतिका एक फल यह हुआ, कि मार्च १९१७ ई०से मध्य-एसियाइयोंमें शूरा-इस्लामिया और शूरा-उलेमा जैसे धार्मिक या अर्धधार्मिक राजनीतिक संगठन अस्तित्वमें आये। उज्बेक राष्ट्रीयतावादी मध्यवर्गने शूरा-इस्लामिया नामकी पार्टी स्थापित की थी, और मुल्लाओंने हमारे यहांकी जमायतुल-उलमाकी तरह उलमाओं (धर्माचार्यों) की एक पार्टी खड़ी की थी, जिसके पोषक बड़े-बड़े जमींदार और दूसरे सामन्त थे। दोनों संस्थाओंने अस्थायी सरकारके प्रति अपनी भक्ति कई बार प्रकट की थी।

तुर्किस्तान-कमेटी क्रांतिके और युद्धके कारण उठ खड़ी हुई समस्याओंमेंसे किसीको भी हल करनेमें समर्थ नहीं हुई। एसियाई जातियोंके ऊपर पहलेकी तरह ही शासन और अत्याचार होता रहा। किसानोंकी अवस्था वैसी ही रही। कारखानेके मजदूरोंकी ओर भी ध्यान नहीं दिया

गया। १९१७ ई०के सितम्बरमें तुर्किस्तानके मजदूरोंको अब भी बारह घंटे काम करना पड़ता था, जब कि रूसमें वह आठ घंटेका कर दिया गया था। तुर्किस्तान-कमेटीको आगे बढ़नेकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस इलाकेमें १९१७ ई०के अन्ततक बोल्शेविकोंके अपने स्वतंत्र संगठन नहीं थे। ताशकन्द, समरकन्द, पेरोव्स्की (किजिल ओर्दा), नवीन-बुखारा आदिमें जो बोल्शेविकोंके भिन्न-भिन्न गिरोह थे, वह रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टीसे सम्बद्ध थे। इस पार्टीकी द्वितीय स्थानीय कांग्रेस २१-२७ जूनको ताशकन्दमें हुई थी, जिसमें मेन्शेविकोंकी प्रधानता थी, जिसके कारण कांग्रेसने अस्थायी सरकारमें अपना विश्वास प्रकट किया। ताशकन्दमें बोल्शेविकोंका अपना कोई पत्र नहीं था, इसलिये समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टीके अखबार "रबोचेये देलो" (मजदूरोंका कार्य) पत्रमें ही उन्हें भी अपने विचारोंको प्रकट करना पड़ता था, जिन्हें मेन्शेविक कितनी ही बार छापनेसे इन्कार कर देते थे। बोल्शेविक-नेता स्वेर्देलोफने ओरेनबुर्गके बोल्शेविकों द्वारा तुर्किस्तानके बोल्शेविकोंके पास कभी-कभी संबंध स्थापित करनेकी कोशिश की, लेकिन उसमें बहुत सफलता नहीं हुई। लेकिन जब मध्य-एसियाके लोगोंको मालूम हुआ, कि रूसमें बोल्शेविक क्या कर रहे हैं, तो वहांके लोगोंमें भी बोल्शेविकोंका प्रभाव जल्दीसे बढ़ने लगा। ई० प० बाबुश्किनके नेतृत्वमें खोकन्दमें बोल्शेविकोंकी एक मजबूत जमात कायम हो गई—बाबुश्किन १९०३ ई०से ही बोल्शेविक था, और खोकन्दके मजदूर-सैनिक प्रतिनिधियोंकी सोवियतका उस समय अध्यक्ष था। समरकन्दमें समाजवादी जनतांत्रिकोंके भीतर रहते हुये बोल्शेविक बड़ी तत्परतासे काम करने लगे। अक्टूबर (बोल्शेविक) क्रांतिके समय नवीन बुखारामें पोल्तरोत्स्कीके नेतृत्वमें एक बोल्शेविक गिरोह काम करने लगा था। पोल्तरोत्स्की १९१८ ई०में समाजवादी क्रांतिकारियोंके हाथ मारा गया, जिनका मुखिया करेन्स्की था।

ताशकन्दके बोल्शेविकोंका नेता अ० पेशिन रेलवे मजदूर, और न० शूमिलोफ कारखानेमें मिस्त्री था। शूमिलोफ १९१८ ई०में ताशकन्द सोवियतका अध्यक्ष बनाया गया।

इस प्रकार हम देख रहे हैं, कि तुर्किस्तानके बोल्शेविक अधिकतर रूसी थे, लेकिन उनको वहांके मुसलमान मजदूरोंके "इत्तिफाक" (लीग)का सहयोग प्राप्त था। स्कोबेलेफमें मार्च १९१७ ई०में फरगानाके मुसलमानोंका प्रथम मजदूर संगठन स्थापित हुआ था—मध्य-एसियाई लोगोंको रूसी मुसलमान कहा करते थे। फरगानाके बाद इस तरहके संगठन ताशकन्द, समरकन्द, खोकन्द, मर्गिलान, कत्ताकुर्गान, खोजन्द (आधुनिक लेनिनाबाद) तथा दूसरे नगरोंमें भी स्थापित हुये। १९१६ ई०में जारशाहीने बहुतसे एसियाइयोंको मजदूर-सेनामें भर्ती करके युद्धपंक्तिके पीछे काम करनेके लिये भेजा था। यही मजदूर जब लौटकर तुर्किस्तान आये, तो रूसमें बोल्शेविकोंका काम देखे होनेके कारण उन्होंने यहां भी "मजदूर-इत्तिफाक" (मजदूर लीग)को संगठित करनेकी घोषणा करते हुये अपने उद्देश्यके बारेमें कहा—"तातार (मंगोलायित) और सर्त (ताजिक) गरीब किसानों और मजदूरोंका एक परिवार बनाना है, जो कि पूंजीवादके खिलाफके संघर्षमें मजदूरवर्गका समर्थन करेगा और सच्चे जनतांत्रिक सिद्धान्तोंके आधारपर नये समाजके निर्माणमें सहायता करेगा।" इस उद्देश्यसे ही मालूम हो जायगा, कि मध्य-एसियाके देहकान (किसान) और मजदूर रूसमें रहते वक्त बोल्शेविक पार्टी और वहांके मजदूरोंके सम्पर्कमें आकर कितने प्रभावित हुये थे। आरम्भमें इत्तिफाकी दलवाले मेन्शेविकोंके जबर्दस्त प्रभावमें रहे, लेकिन जल्दी ही उन्हें मालूम हो गया, कि मेन्शेविकों और जारशाही साम्राज्यवादियोंमें बहुत अन्तर नहीं है; इसलिये वह बोल्शेविकोंके नजदीक आने लगे। स्थानीय सरकारी संस्थाओं और संविधान-सभाके चुनावोंके समय उन्होंने बोल्शेविकोंसे मिलकर अपने उम्मीदवार खड़े किये। शूरा-इस्लामिया और उलमाके साथ इत्तिफाकियोंका संघर्ष दिन-पर-दिन बढ़ता गया। मुस्लिम और मुस्लिम साम्प्रदायिक नेताओंने हर तरहसे लोगोंको यह समझानेकी कोशिश की, कि मुसलमान-मुसलमानमें कोई अन्तर नहीं, सभी मुसलमानोंको एक हो जाना चाहिये। लेकिन मध्य-एसियाके मजदूर-किसानोंको यह समझनेमें देर नहीं लगी, कि उनकी भलाई इस्लामके नारा लगानेवालोंके साथ रहनेमें नहीं, बल्कि बोल्शेविकोंका साथ देनेमें है। सितम्बर १९१७ ई०में मजदूरी बढ़ाने और आठ घंटा काम करनेकी मांगके लिये

ताशकन्द, समरकन्द, नमंगान, अन्दिजान, कत्ताकुर्गान और नवीन-बुखाराके मजदूरोंने हड़तालें कीं। देहातमें किसानोंने भी जमींदारोंके विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया।

रूसमें फरवरी-क्रांतिके होनेके बाद तुर्किस्तान-प्रदेशमें उतना भी परिवर्तन नहीं किया गया, जितना कि रूसके पासवाले इलाकोंमें। सेना और शासनमें अब भी यहां जारशाही जमानेके ही अफसर थे। जब करेत्स्की प्रधान-मंत्री हो गया, तो एम्-एर् (समाजवादी क्रांतिकारी) दल अपनेको सरकारी दल समझने लगा, और उसकी यहां प्रधानता हो गई। लेकिन इससे पहिले १९१६ ई०में जो विद्रोह मध्य-एसियाके लोगोंने किया था, यद्यपि उसे दबा दिया गया था, तो भी उसके प्रभावसे लोगोंके हृदयोंमें शासनके प्रति विद्वेषका भाव अब भी कम नहीं हुआ था। बल्कि अब उसने एक नया रूप लिया था, जिसमें उज्बेक मध्यवर्गने अपने पुराने खोये हुये राज्य खोकन्दके नाम-पर "खोकन्द स्वायत्तता"की मांग पेश की। अभीतक बुखाराका अमीर अपनी जगहपर बना हुआ था। जारशाही अफसरों और पूंजीपतियोंने भी स्वायत्ततावादियोंके पक्षका समर्थन करना आरम्भ कर दिया, और जब रूसमें बोल्शेविक-क्रांति हो गई, तो उन्होंने खुल्लमखुल्ला उनका साथ देना शुरू किया। यद्यपि स्वायत्ततावादियोंने अपना काम ताशकन्दमें शुरू किया था, लेकिन वहां उनको उतनी सफलता नहीं हुई, इसलिये उन्होंने खोकन्दको अपना केन्द्र बनाया।

४. बोल्शेविक-प्रभाव-वृद्धि

ताशकन्दमें पहले मेन्शेविकों और एस्-एर्-दलका ही जोर रहा। ताशकन्द एसियाका सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र था। वहांके कारखानोंमें रूसी मजदूर बड़ी संख्यामें काम करते थे। इनके ऊपर पहले नरमदली समाजवादियोंका प्रभाव होना स्वाभाविक था, क्योंकि रूसी मजदूरोंको एसियाई मजदूरोंकी अपेक्षा ज्यादा रियायतें मिली हुई थीं, लेकिन धीरे-धीरे मजदूरोंकी आंखें खुलने लगीं, जब कि उन्होंने देखा कि यह दक्षिणपक्षी दल उनका हित-साधन नहीं कर सकता। वामपक्षी और झुकाव देखकर एम्-एर् (समाजवादी क्रांतिकारी) दलमें फूट पड़ गई। वामपक्षी उनसे अलग हो गये, जो कितने ही समयतक बोल्शेविकोंके साथ मिलकर काम करते रहे। जून (१९१८ ई०)के अन्तमें बोल्शेविकोंकी पहली कांग्रेस हुई, जिसमें चालीस-पचास प्रतिनिधि शामिल हुये थे, लेकिन जब १९-२९ दिसम्बर (१-१० जनवरी) १९१९ ई०को द्वितीय कांग्रेस हुई, तो उसमें एक सौ अस्सी प्रतिनिधि थे। इस समयतक अंग्रेजोंकी मददसे वर्तमान तुर्क-मानिस्तानपर क्रांति-विरोधी रूसियोंकी प्रभुता कायम हो गई थी, इसलिये वहांके प्रतिनिधि इस कांग्रेसमें शामिल नहीं हो सके, लेकिन सप्तनदके प्रतिनिधि आये थे। इस कांग्रेसके प्रधानमंडलमें जूराबयेफ, बेदीलोफ जैसे स्थानीय (एसियाई) बोल्शेविक भी निर्वाचित हुये थे, जिससे मालूम होगा, कि मध्य-एसियामें रूसी बोल्शेविक कहांतक अपनेको एसियाइयोंके साथ एकताबद्ध करनेमें सफल हो चुके थे। नरम समाजवादियों और बोल्शेविकोंके बीच किसका साथ देना चाहिये, इसका निर्णय करनेमें एसियाई कमकरोंको दिक्कत नहीं हुई, जिसका पता कांग्रेसमें एसियाई बोल्शेविकोंकी संख्याकी वृद्धिसे मालूम है।

ताशकन्द—पहली कांग्रेसतक बोल्शेविक पार्टीके २६१ सदस्य थे, जिनमें २८ स्थानीय (प्रायः उज्बेक) थे। इनके अतिरिक्त पुराने ताशकन्दमें भी १२५ व्यक्ति पार्टीके साथ थे। दूसरी पार्टीके समयतक बोल्शेविक पार्टीमें २००० सदस्य हो गये थे, जिनमें ९०० स्थानीय, ७०० रूसी और ४०० विदेशी कमकर थे। विदेशियोंमें लत्वियन, उक्रइनी, ईरानी, तारतार और किर्गिज जातियोंके भी लोग थे। १२ अक्टूबर १९१८ ई०में सारे ताशकन्द नगरकी पार्टी-कांफ्रेंस हुई।

समरकन्द—१९१७ ई०के सितंबरके अंतमें यहां बोल्शेविककी पहली जिला-कांफ्रेंस हुई थी। अक्टूबरके मध्यतक समरकन्द जिलेमें अटठाइस शाखायें और पैंतीस सौ सदस्य थे।

खोकन्द—१९१७ ई०के अक्टूबरमें यहां बोल्शेविकोंकी तीस-पैंतीस जमातें थीं। पहली कांग्रेसतक सदस्योंकी संख्या दो सौ हो गई और रूसियोंसे बाहरके कमकरोंमें भी काम होने लगा था। १९१८ ई०के अंततक पार्टीके सदस्योंकी संख्या ७५० थी। आगे हम देखेंगे, कि मध्य-एसियाके

पूँजीवादियोंकी संगठित शक्तिका मुकाबला सबसे ज्यादा खोकन्दके बोल्शेविकोंको करना पड़ा था। यहांके ७५० सदस्योंमें २५० स्थानीय लोगोंमें से थे।

खोजन्द (लेनिनाबाद)—सिर नदीके तटपर अवस्थित इस ऐतिहासिक नगरमें भी बोल्शेविकों और नरम-दलियोंका संघर्ष रहा। १९१८ ई०के अप्रैलतक यहां बोल्शेविकोंका संगठन हो गया था, और उनकी प्रथम कांग्रेसमें यहांसे बीस प्रतिनिधि शामिल हुए थे। खोजन्दमें पार्टी-मेम्बरोकी संख्या २४६ थी, और इलाकेके दूसरी जगहोंमें भी बोल्शेविक थे, जिनमेंसे २१६ खोजन्द नगरमें, पचीस खोजन्द रेल स्टेशनमें, छत्तीस द्रागोमिरोफ स्टेशनमें, तीस कोपीमें, अस्सी पलॉविकामें, ८०० सरी-दुमानमें, ३१२ उरालके जिले (बोलोस्त)में, पैतीस चपकुल जिलेमें, पच्चीस बोकल वेदरानमें, साठ इनफान इलाकेमें थे। १९१८ ई०के जून और दिसंबरके छ महीनोंमें बड़ी तेजीसे बोल्शेविकोंकी शक्ति और संख्या बढ़ी। उन्होंने तबतक अपनी लाल सेना भी संगठित कर ली। पीछे प्रतिगामी हो गया शेख एरगस, एक समय बोल्शेविकोंके साथ था।

अन्दिजान—फरगानाका मशहूर औद्योगिक केंद्र होनेके कारण यह बोल्शेविकोंका भी गढ़ था। दूसरी कांग्रेसके समय (१९१८ ई०के अंत)तक यहां दो सौ पार्टी-मेम्बर थे। लेकिन यहांपर जनतांत्रिक संगठन औरोंकी अपेक्षा बहुत पीछे हुआ था और १९१८ ई०के अंतमें ही नगर-दूमाकी स्थापना हुई।

फरगाना—फरगाना-उपत्यका रूसी कारखानोंके लिये कपास पैदा करती थी। इसके कारण वहां अन्दिजान, फरगाना तथा दूसरे शहरोंमें छोटे-छोटे कारखाने खुल गये थे, जिनमें रूसी मजदूर भी काम करते थे। १९२८ ई०की जुलाईमें अर्थात् रूसमें बोल्शेविकोंके राज्य संभालनेके नौ महीने बाद यहां पार्टीका संगठन हुआ और इस सालके अंततक २३७ पार्टी-सदस्य हो गये।

नमगान—यहां १९१७ ई०के दिसंबरमें सात पार्टी-सदस्य थे। अप्रैल १९१८ ई०में १८० और द्वितीय कांग्रेसके समय सदस्योंकी संख्या छ सौ थी, जिनमें दो तिहाई स्थानीय और केवल दो सौ रूसी थे।

किज़िलकिया—१९१८ ई०की फरवरीमें सात सदस्योंको लेकर बोल्शेविकोंका यहां काम शुरू हुआ, लेकिन दिसंबरतक उनकी संख्या ४५१ हो गई।

मर्गोलान—यहां १९१८ ई०के अगस्तमें पार्टीकी टुकड़ी स्थापित हो गई, और द्वितीय कांग्रेस के समयतक बोल्शेविकोंकी संख्या १७० पहुंच चुकी थी।

कस्ताकुर्गान—१९१८ ई०के अंतमें द्वितीय कांग्रेसके समय यहां सदस्योंकी संख्या करीब तीन सौतक पहुंच गई थी, और यहांके तीन प्रतिनिधि द्वितीय कांग्रेसमें शामिल हुए थे।

जोङक—यहां १२६ सदस्य १९१८ ई०के अंततक हो गए थे।

चारखैय—आमू-दरियाके बायें तटपर अवस्थित इस महत्वपूर्ण स्थानमें १९१८ ई०के दिसंबरमें बोल्शेविकोंका संगठन हो चुका था और द्वितीय तुर्किस्तान पार्टी कांग्रेस जब ताशकन्दमें हुई, तो यहांके बोल्शेविक सदस्योंकी संख्या सौतक पहुंच चुकी थी। लेकिन इस इलाकेमें अंग्रेजोंकी मददसे क्रांति-विरोधियोंका बल बढ़ गया, इसलिये यहांके बोल्शेविकोंको उनका सह्य सामना करना पड़ा।

इन आंकड़ोंसे मालूम होगा, कि मध्य-एसियामें बोल्शेविकोंका प्रभाव कितनी जल्दी बढ़ा। इस समय तुर्किस्तान-प्रदेशकी आर्थिक स्थिति बड़ी खतरनाक हो गई, तेल और कोयला मिलना मुश्किल हो गया, रेलका यातायात बिगड़ गया था। कपासका उद्योग मध्य-एसियाकी आयका सबसे बड़ा साधन था और उसको कोई पूछनेवाला नहीं था। ऊपरसे अन्नका अकाल पड़ा हुआ था। साथ ही क्रांतिके कारण संघर्ष बहुत उग्र हो रहा था। मन्शेविकों और दक्षिणपंथी एस्-एर् इन कठिनाइयोंके लिये कोई रास्ता निकालनेमें असमर्थ थे। ऊपरसे काशगर, ईरान, अफगानिस्तान आदिके रास्ते क्रांति-विरोधी शक्तियोंको अंग्रेज पूरी तौरसे मदद दे रहे थे।

५. खोकन्द स्वायत्ततावादियोंका अन्त

प्रथम विश्व-युद्धके समय एसियाकी बहुतसी पिछड़ी जातियोंमें राजनीतिक स्वतंत्रताके भाव

जगे। मध्य-एसियामें तो १९१६ ई०में उसने खूनी विद्रोहका रूप लिया था। इसी समय भारतमें प्रथम विश्वयुद्धके बाद देशकी परतंत्रताको और भी कड़ा करनेके लिये अंग्रेज रोलेट-कानून बनाने जा रहे थे। अंग्रेज मध्य-एसियामें 'खोकन्द स्वायत्तता'को सहायता देनेके लिये पूरी कोशिश कर रहे थे। जारशाहीके उच्छेद, क्रांतिकारियोंकी निर्बलता और अंग्रेजोंकी शहमें मध्य-एसियाके मध्यवर्ग-ने इस आंदोलनको खड़ा करके नवंबर १९१७ ई०में खोकन्दमें अपनी सरकार भी कायम कर ली, जो तीन महीने बाद (फरवरी १९१८ ई०) तक शासन करती रही। जिस समय ताशकन्दमें ग्यारह दिन (११ जनवरी १९१९ ई०) तक बोल्शेविकोंकी पार्टी कांग्रेस होती रही, उसी समय खोकन्दके क्रांति-विरोधी अपने शासनको कायम करके आगेके लिये बड़े-बड़े स्वप्न देख रहे थे। लेकिन खोकन्दके इस आंदोलनमें खोकन्दसे बाहर सारे तुर्किस्तानके मध्यवर्गकी सहानुभूति रहने भी उनसे सहायता उतनी नहीं मिल सकी। नवंबर १९१७ ई०में बोल्शेविक-क्रांति रूसमें सफल हो चुकी थी, इसलिए मध्य-एसियामें कारबार करनेवाले रूसी पूंजीपति बदहवास हो गये थे। अन्दिजानका सबसे बड़ा रूसी पूंजीपति खोकन्द-स्वायत्तताका सबसे जबरदस्त समर्थक था, और वहांका एक बड़ा रूसी वकील नेन्सबेर्ग उसमें खास तौरसे भाग ले रहा था। लेकिन सभी जगहके क्रांति-विरोधी बूज्वाजीके भीतर एकता नहीं थी, नमंगानवाले खोकन्दियोंके साथ नहीं हुये। खोकन्दके इस आन्दोलनमें सबसे बड़ा हाथ फरगानाकी बूज्वाजीका था, जिन्हें ताशकन्दके देशी और रूसी बूज्वाजीसे भी पूरी सहायता मिली। ताशकन्द तो वस्तुतः इस आन्दोलनका उद्गम स्थान ही था, और पहले वही उसका केन्द्र भी रहा। लेकिन सबसे पिछले खानकी राजधानी खोकन्द थी, इसलिये वहां सामन्तशाही तत्त्वोंकी अब भी कमी नहीं थी। खोकन्दके नामपर राष्ट्रीय भावनाके जगानेमें आसानी थी, इससे भी लाभ उठानेके लिये इमी नगरको प्रतिगामियोंने अपना अड्डा बनाया।

खोकन्द स्वायत्तताका आन्दोलन समरकन्दके मध्यवर्गमें भी बढ़ा, और वहां उन्होंने 'इत्तिफाक' के नामसे अपना संगठन मजबूत किया। किर्गिज-मध्यवर्गने भी इस आन्दोलनमें अपने लाभकी आशा देखी, और वह भी इसमें क्रियात्मक रूपसे भाग लेनेकी प्रतीक्षा कर रहा था। यही नहीं, वर्तमान तुर्क-मानिस्तानमें कास्पियन तटतक खोकन्दकी 'स्वायत्तता'की गूंज सुनाई देने लगी। सब होते हुए भी इस आन्दोलनका केन्द्र ताशकन्द या समरकन्द न होकर खोकन्द रहा। खोकन्द फरगानाका सबसे बड़ा नगर होनेके कारण आर्थिक केन्द्र भी था, लेकिन वह औद्योगिक केन्द्र नहीं था। कमकरोंकी कमजोरीके कारण खोकन्द क्रांति-विरोधी स्वायत्ततावादी इसे अपना केन्द्र बना सके। यहांपर जहां मिलें और फैक्ट्रियां बहुत ही कम थीं, वहां सैनिक महत्वका स्थान न होनेसे रूसी सैनिकोंकी संख्या कुछ दर्जनोंसे अधिक नहीं थी, जो भी घर लौटनेमें सफल न होनेके कारण खोकन्दके किलेमें रह गये थे। प्रतिगामियोंने इस्लाम धर्मकी भी आड़ लेकर जहादका प्रचार शुरू कर दिया था। यद्यपि इससे उनके पृष्ठपोषक रूसियोंको खतरा था, लेकिन तब भी वह इस समय बोल्शेविकोंके खिलाफ उनकी सहायता करनेके लिये तैयार थे। स्वायत्ततावादियोंका नेता मुस्तफा चोकायेफ था। लेकिन जैसा कि ऊपरकी बातोंसे मालूम होगा, असली सूत्रधार रूसी पूंजीपति और अफसर थे, जिनमें पीछे मेन्शेविक और दक्षिणपन्थी समाजवादी क्रांतिकारी भी शामिल हो गये। खोकन्द स्वायत्तता-विधानके निर्माणमें नेन्सबेर्ग-जैसे कितने ही रूसी वकीलोंका मुख्य हाथ था। कजखोफ स्वायत्ततावादियोंकी सेनाका मुख्य शिक्षक था। करेन्स्कीकी पार्टी (समाजवादी क्रांतिकारी)का खोकन्दके आन्दोलनमें खास हाथ था। ताशकन्दके शिक्षकोंके संघने भी प्रस्ताव द्वारा १० (२३) दिसम्बर १९१७ ई०के अपने सम्मेलनमें स्वायत्तताका समर्थन किया था। खोकन्दकी स्वायत्ततावादी सरकारने गांववालोंको अपने हाथमें करनेके लिये शिक्षितों और मुल्लोंको तैनात किया था। मदरसों, मस्जिदों, चायखानों, बाजारोंमें जहां देखो तहां 'स्वायत्तता'का घनघोर प्रचार हो रहा था, उसी तरह जैसे कि इसके साल-डेढ़ साल बाद भारतमें असहयोग आन्दोलन देशके कोने-कोनेमें। लेकिन जहां हमारी राष्ट्रीयताको अंग्रेजोंकी सड़ी-गली व्यवस्थासे भिड़ना था, वहां मध्य-एसियामें वहांके नब्बे प्रतिशत लोगोंके

हितोके जबर्दस्त समर्थक बोल्शेविकोंके साथ संघर्ष जारी हुआ था। इसलिये मध्य-एसियाके मुल्ला और शिक्षित बहुत दिनोंतक लोगोंको धोखेमें नहीं रख सकते थे। वह प्रचारके साधनके तौरपर लोगोंकी भुखमरीका उदाहरण दे रहे थे, लेकिन उसके कारण बोल्शेविक नहीं थे। वह बोल्शेविकोंके अत्याचारोंकी मनगढ़न्त बातें सुनाते थे, लेकिन मध्य-एसियामें जो थोड़े-से बोल्शेविक देखे जाते थे, वह गरीबोंके सबसे गहरे मित्र छोड़ और कुछ नहीं थे। यह भी कहा जाता था, कि बोल्शेविक काफिर इस्लाम और अल्लाहको यहांसे उखाड़ फेंकना चाहते हैं, लेकिन इस झूठको वह तभीतक लोगोंमें फैला सकते थे, जबतक कि रक्त-बीजकी तरह बढ़कर बोल्शेविक अपने उद्देश्योंके प्रचारके लिये सब जगह फैल नहीं गये। बोल्शेविक भी दूसरे रूसियोंकी तरह साम्राज्यवादी हैं, इस प्रचारको वहांके लोग अपनी आंखों देखकर झूठा समझ सकते थे, जब कि स्वायत्ततावादी नेताओंको जारशाहीके बड़े-बड़े अफसरों और पूंजीपतियोंके साथ घुलते-मिलते देख रहे थे।

ओरेनबुर्गमें आतमन दूतोफके विद्रोहके कारण उधरसे रूसका मध्य-एसियाके साथ संबंध कट गया था, और इधर कास्पियनके पूर्वी तटमें अंग्रेजी षड्यंत्रने कुछ समयके लिये सफलता प्राप्त की थी। ताशकन्दपर बोल्शेविकोंका अधिकार हो जानेसे उनका विरोधी दूतोफ ओरेनबुर्गसे अनाज आने देनेके लिये कैसे तैयार हो सकता ? सारे झूठे प्रचारके होनेपर भी मध्य-एसियाके कमकार-किसान बोल्शेविकोंके कामको देख रहे थे। उन्होंने किसानोंको अपनी जोती जमीन देकर अपनी तरफ कर लिया था। मजदूरोंमें काले-गोरे दोनोंको मिलाकर कल-कारखानोंके प्रबन्धमें भागीदार बना दिया था। धीरे-धीरे स्वायत्ततावादियों और बोल्शेविकोंके कामोंकी तुलना करनेसे इस्लाम और जातीय स्वतंत्रताके नाम पर होते हुये प्रचारका प्रभाव घटने लगा, और समझदारोंको यह समझनेमें दिक्कत नहीं हुई, कि खोकन्दके स्वायत्ततावादकी आड़में बड़े-बड़े रूसी स्वामी, पूंजीपति और पुराने शासक शिकार खेल रहे हैं।

फरवरीतक फरगानामें भी वर्ग-संघर्ष उग्र रूप ले चुका था और खोकन्दमें अब क्रांति-विरोधियोंका प्रभाव बहुत घट चुका था। उनका शासन केवल पुराने नगरमें रह गया था। नये शहरमें बोल्शेविकोंने सोवियत-शासन स्थापित कर दिया था। किलेमें जो १६ रूसी सैनिक रह गये थे, वह भी बोल्शेविकोंके साथ हो गये थे। खोकन्द सोवियतका अध्यक्ष बाबुशिकन था। क्रांति-विरोधियों (जिसमें सफेद रूसी भी थे)ने पहरेदारको मारकर बाबुशिकनके घरपर आक्रमण किया। उसके बीबी-बच्चे भी साथ थे, लेकिन बाबुशिकन पिस्तौलसे लड़ता रहा। क्रांतिविरोधियोंने योजना बनाई कि पहले किलेको हाथमें किया जाय, फिर टेलीफोनके स्टेशनको, और अन्तमें सोवियत-अध्यक्ष बाबुशिकनको। लेकिन इसी समय फरगानाके पूर्वी भागमें बोल्शेविकोंने सफलता पाई। उन्होंने अन्दिजानको लेकर सारे फरगानापर बोल्शेविक-शासन स्थापित कर लिया।

खोकन्दके पुराने नगरमें सजोनोफ और निकोलायेको खोकन्द स्वायत्त-सरकारके साथ बातचीत करने गये। १२ फरवरीके सबेरे दिन बहुत अच्छा था। बोल्शेविकोंका संगठन मजबूत था। १३ फरवरीको सबेरे स्कोबेलेफ और अन्दिजानसे १२० आदमियोंकी सहायता आ गई। स्वायत्ततावादियोंने बोल्शेविकोंकी बढ़ी हुई शक्तको देखकर अपनी योजनाको आगे बढ़ानेकी हिम्मत नहीं की, बल्कि लड़नेकी जगह सुलहकी बातचीत करनेको ही ठीक समझा। १७ फरवरी (२ मार्च)को दोनों ओरके प्रतिनिधि बात करनेके लिये जमा हुये, जिसमें सोवियतके सत्ताइस और स्वायत्तियोंके चौबीस प्रतिनिधि थे। लेकिन स्वायत्ती अपनी इच्छासे कैसे अपना खातमा कर देते ? इसपर बोल्शेविकोंने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया। समझौतेमें सबसे बाधक एर्गस और तानीशेफ थे। समझौता होते न देखकर उस दिन १० बजकर ३० मिनटको बैठककी काररवाई रोक दी गई, और तानीशेफके पाससे उत्तरके आनेकी प्रतीक्षा की जाने लगी। अगले दिन तानीशेफने अपनी सहमति दे दी, लेकिन एर्गस मुल्लाओंके बलपर कूद रहा था। जिस समय समझौतेके लिए बातचीत हो रही थी, उसी समय खोकन्दकी सभी

मस्जिदोंमें मुल्ला जहादपर व्याख्यान दे रहे थे। ममझीता न होनेपर अब शक्ति मुल्लोंके हाथमें चली गई थी, जो कि किसी तरहके सुधारको माननेके लिये तैयार नहीं थे। उनके लिये सुधारवादी उज्बेक भी काफिर थे, इसलिये उनके एक भागको मुल्लोंने गिरफ्तार कर लिया, और दूसरा भाग भागनेके लिये मजबूर हुआ। खोकन्दके सेठोंमेंसे कुछ तटस्थ हो गये और कुछने एर्गस तथा मुल्लोंका पक्ष लिया। जहांतक देहकानों (किसानों)का संबंध था, वह समूहरूपेण सोवियत-सरकारके पक्षपाती हो गये थे। इस प्रकार एर्गसको भारी जनसंख्याका बल प्राप्त नहीं हो सका। खोकन्दमें मजदूरोंकी भी स्थिति डावांडोल रही, उनकी सभा (इत्तिफाक) एक बार मुल्लोंके प्रचारके प्रभावमें इतनी आ गई थी, कि उसने सोवियतके विरुद्ध प्रस्ताव पास करके अपनेको स्वायत्तियोंके पक्षमें घोषित किया, लेकिन जब एर्गस और मुल्लोंकी सरकारका मजा चखा, तो उनकी आंखें खुलीं। उन्होंने "मुसलमान कम-कर संघ" नामक बोल्शेविक-पक्षपाती संघ बनाया, फिर 'इत्तिफाक' भी सोवियत शासनका समर्थक बन गया। व्यापारियोंमें जरूर काफी भाग ऐसा था, जो मुल्लोंकी तरफ था।

खोकन्दकी ऐसी स्थिति थी, जब कि बोल्शेविकोंने स्वायत्ततावादियोंको खतम करनेका निश्चय किया। अबतक ताशकन्दमें भी उन्हें महायत्ना मिलने लगी थी। सोवियत कमांडरने १९ फरवरी (४ मार्च) १९१८ ई०के १० बजेकर १५ मिनटपर एर्गसको अल्टीमेटम दिया। दिनके १ बजे अल्टीमेटमका समय बीतनेवाला था। पीन बजे एर्गसका जवाब मिला। उसने सोवियत-कमांडरकी मांग पूरा करनेसे इन्कार कर दिया। १ बजेसे बीचमें कभी-कभी हककर शामके अंधेरेतक तोपें पुराने नगरपर गोला-बर्षा करनी रहीं। २० फरवरीको सबेरे लाल सैनिकोंने पुराने नगरपर धावा बोल दिया। एर्गस अपने आदमियोंको लेकर पहली ही झड़पमें भाग खड़ा हुआ, इसलिये नगरपर अधिकार करनेमें अधिक प्रतिरोधका सामना नहीं करना पड़ा। एर्गसके भाग जानेपर अब पुराने खोकन्दके प्रतिनिधि सुलह करनेके लिये आये। सुलह-सम्मेलन २१-२२ फरवरी (८-९ मार्च) १९१८ ई०को रुमी-एसियाई बैंकके मकानमें हुआ। सुलहकी शर्तोंके अनुसार हथियारोंको सोवियत कमांडरके हाथमें दे देना पड़ा, खोकन्दमें स्वायत्ती सरकार तोड़कर प्रादेशिक सोवियत जनकमीसर मंडलके शासनको स्वीकार किया गया। इस प्रकार खोकन्दपर किसानों-मजदूरोंका राज्य स्थापित हुआ। एर्गसने यद्यपि यहां असफलता पाई, लेकिन आगे बाममन्ची (डाकूओं) बन अपनी निपटुर खून-खराबियों द्वारा उसने तथा मध्य-एसियाके और भी कितने ही अधिकारच्युत धनियों और अमीरोंने बोल्शेविकोंको हटाकर अपनी तानाशाही स्थापित करनेका असफल प्रयत्न किया।

खोकन्द स्वायत्तीय आन्दोलन और सरकारके जीवनका चिट्ठा पुराने रुमी पंचांगकी तारीखों (जो कि तेरह दिन पहले पड़ती थी)के अनुसार निम्न प्रकार है :—

दिसम्बर	६-७,	१८१८ ई०	फरगाना जिलेकी सोवियतोंकी कांग्रेस
"	९-११,	"	मुसलमानोंकी कांग्रेस
"	११,	"	खोकन्द स्वायत्तताका आरम्भ
"	२१-२४,	"	खोकन्दमें अखिल तुकिस्तान समाजवादी क्रांति-कारी कांग्रेस
दिसम्बर	२७,	१९१८ ई०	ताशकन्दमें बोल्शेविकोंका प्रदर्शन
फरवरी	१२,	१९१९ ई०	खोकन्द दुर्ग बोल्शेविकोंके हाथमें और खोकन्दमें सैनिक क्रांति-समितिका संगठन
"	१३,	"	स्कोबेलेफ और अन्दिजानसे खोकन्दमें कुमक आई, खोकन्द स्वायत्ती सरकारसे प्रथम बातचीत
"	१४,	"	स्वायत्ती सरकारसे द्वितीय बातचीत
"	१४-१६,	"	एर्गसका किलेपर आक्रमण करनेका प्रयत्न
"	१५,	"	स्कोबेलेफ नगरकी दूमाका खोकन्दके शान्ति-

			सम्मेलनोंमें एक प्रतिनिधि भेजनेका निश्चय
फरवरी	१७,	”	शांति-सम्मेलनका उद्घाटन
”	१८,	”	मुल्लोंका स्वायत्ती सरकारको अपने हाथमें ले लेना
”	१९,	”	ताशकन्दसे खोकन्दमें सेना आनेपर सोवियत कमांडरने अल्टिमेटम भेजा, पुराने नगरपर गोला-बारी शुरू
”	२०,	”	एगंस खोकन्द छोड़कर भागा
”	२२,	”	सुलहनामेपर हस्ताक्षर

६. समरकन्द-विजय

खोकन्द स्वायत्तियोंपर विजय प्राप्त करना मध्य-एसियामें साम्यवादकी जबर्दस्त विजय थी। उसके बाद यह निश्चय-सा हो गया, कि नगरोंसे बोल्शेविकोंको हटाना बहुत मुश्किल है। १९१८ ई०में बोल्शेविकोंका शासन सिर्फ नगरोंपर था। नगरोंके आसपासके कुछ किसान भी उनके प्रभावमें आये थे। खासकर सिर-दरियाके आसपासवाले इलाके, फरगाना जिला और समरकन्दके जिलोंके किसानोंपर बोल्शेविकोंका प्रभाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन उधर मुल्लाओंका संगठन “शूरा-इस्लामिया” (इस्लामी लीग) भी काफिरोंके विरुद्ध धुआंधार प्रचार करके मुस्लिम-जनसाधारण-को रूसियोंके, खासकर बोल्शेविकोंके, विरुद्ध खूब भड़का रहा था। दिसम्बर १९१७ ई०के अन्त और जनवरी १९१८ ई०के शुरूमें समरकन्दमें क्रांतिकारियोंने विरोधियोंको दबा दिया। वहां बोल्शेविकोंका संगठन भी हो गया और रेव-कम (रेव्यूयूशनरी कमेटी, क्रांति-समिति)ने बोल्शेविक सेनाके संगठनका भी सूत्रपात कर दिया। लेकिन इसी समय कजाकोंने समरकन्दको खतरमें डाल दिया। मध्य-एसियाकी जातियोंमें कजाक सबसे ज्यादा लड़ाकू और अभी भी बहुत कुछ घुमन्तू जीवन बिताते थे। साइबेरियामें क्रांति-विरोधियोंने अपने पक्षको मजबूत किया था, और इन कजाकोंका उनसे सीधा संबंध था। समरकन्दके आसपासको घेरनेवाले कजाकोंके साथ बात करनेके लिये बोल्शेविकोंने अपना प्रतिनिधि-मंडल भेजा। किजिल-तेप्पेमें दोनों ओरके प्रतिनिधियोंने बातचीत की। फिर क्रांति-सरकारके नामसे अल्टीमेटम दिया गया, और कुछ अफसरों और प्रतिगामी कजाकोंको छोड़ सबके हथियार ले लिये गये।

अक्टूबर-क्रांतिके तुरन्त ही बाद समरकन्द-जैसे मध्य-एसियाके महत्वपूर्ण नगरमें क्रांतिकी सशस्त्र सेना तैयार करनेमें कैसे ढिलाई की जा सकती थी? इस सेनामें रूसी और एसियाई दोनों ही जातियोंके आदमी थे। जारकी सेनामें काम किये हुये सिपाहियोंके अतिरिक्त काफी संख्यामें नये आदमी भर्ती हुये। इस प्रकार जनवरी १९१८ ई०में लाल सेनाका प्रथम संगठन यहां हो चुका था। समरकन्दको रूसी गैरिसनके सिपाही पहलेसे सैनिक शिक्षा पाये हुये थे, नये क्रांतिके सिपाहियोंने भी सैनिक-शिक्षा तेजीसे ली। साथ ही पुराने सिपाहियोंमें राजनीतिक चेतना लानेके लिये पूरी कोशिश की गई। कजाक कत्ताकुर्गान शहरपर अधिकार किये हुये थे। अभी भी उनसे खतरा दूर नहीं हुआ था। प्रदेश (क्राइ)की सरकारने पोल्तरा-त्स्कीको उनसे बात करनेके लिये नियुक्त किया। कजाकोंके भी प्रतिनिधि आये। समरकन्दमें दोनोंकी बातचीत होते समय क्रांतिकारी कमेटीने उनसे हथियार रखनेकी मांग की, लेकिन कोई निश्चय नहीं हो सका। फिर बोल्शेविक-प्रतिनिधि सीधे कजाक सैनिकोंसे बात करनेके लिये समरकन्दसे दस वर्स्त (१०६ फर्सख)पर अवस्थित जूमा रेलवे स्टेशनपर गये, लेकिन कजाक किसी बातको सुननेके लिये तैयार नहीं थे। वह समरकन्दपर आक्रमण करनेके लिये उतारू थे। समरकन्दमें भी कमकरोने बड़ी तेजीसे सैनिक तैयारी की। मजदूरोंने अपने परिवारको छोड़कर बन्दूक उठाई और कजाकोंको जीजक स्टेशनमें ही रोकनेका प्रयत्न किया। बोल्शेविक पार्टीका एक भाग सेनाके लिये बाहरी तैयारीपर नियुक्त हुआ। बहुतसे पार्टी-मेम्बर किलेकी

रक्षामें लगे और कितने ही युद्धक्षेत्रमें गये। एसियाई और युरोपीय दोनों ही मजदूर और बोल्शेविक-कर्मी एक-दूसरेसे मिलकर कजाकोंसे समरकन्दको बचानेके लिये बड़ी तत्परतासे काम कर रहे थे। कजाक अपनेको करेन्स्की की अस्थायी सरकारका सैनिक बतलाते थे, जब कि वह सरकार रूसमें खतम हो चुकी थी। सारा प्रयत्न करनेपर भी कजाक सफल हुये। वह मुक्ति-दाताके तौरपर समरकन्द शहरमें दाखिल हुये। रूसी और एसियाई बूजवाजीने उनका भारी स्वागत किया, बढ़िया शराब पिलाई, भोज और उत्सव मनाया। क्रांतिकारियोंमेंसे जो भी हाथ आये, उन्हें कजाकोंने बड़ी निष्ठुरतासे मारा। लेकिन अधिकांश बोल्शेविक अन्तर्धान हो चुके थे। उनका संगठन भी नष्ट न हो, अन्तर्हित हो गया था। इस समय कमजोर दिलवाले अपने आप पार्टीसे अलग हो गये, लेकिन पक्के बोल्शेविक और मजबूतीके साथ अपने संगठनको चलाते रहे। बोल्शेविकोंकी कार्य-तत्परता, कुबानी और बतविने एसियाई गरीबों और मजदूरोंके दिलमें और भी उनके प्रति विश्वास पैदा कर दिया।

लेकिन, समरकन्द थोड़े ही दिनोंके लिये बोल्शेविकोंके हाथसे गया। ताशकन्दमें बोल्शेविक शासन मजबूत हो गया था। ज्योकन्दमें भी शत्रुओंकी दबा दिया गया था। अब समरकन्दको फिरसे लेनेके लिये उन्होंने तैयारी शुरू की। ताशकन्दने भी सेना भेजी, समरकन्दके मजदूरोंने भी बहुतसे सैनिक दिये। समरकन्दके पुराने सैनिकोंमेंसे बहुतसे उनके साथ थे, और कुछ ओरेनबुर्गमें क्रांतिविरोधियोंसे लड़कर अभी लौटे थे। बोल्शेविकोंके सब मिलाकर तीन हजार पैदल और सवार दोनों ही तरहके सैनिक कजाकोंके मुकाबिलेके लिये तैयार थे, लेकिन इनके पास एक ही मैदानी तोप थी। उधर क्रांति-विरोधियोंके पास २७०० सैनिक थे, जिनमें ईरान और खीवाके युद्धक्षेत्रमें आये हुए भी कितने ही थे। उनके पास दो मैदानी तोपें और दो दूसरी तोपें थीं। यह बतला चुके हैं, कि ओरेनबुर्गमें आतमन दूतोफ साइबेरियाके क्रांति-विरोधी जनरलोंके साथ था, और उसका प्रभाव खीवा होने कास्पियनके पूर्वी तट तथा ईरानकी सीमातक पहुंच रहा था। बुखाराका अमीर यद्यपि अभी मीधे तौरसे बोल्शेविकोंके विरुद्ध होनेकी हिम्मत नहीं रखता था, लेकिन उसके अफसर वहाके पूंजीपति क्रांति-विरोधियोंकी हर तरहसे सहायता कर रहे थे। युद्धके दो दिन पहलेतक कजाकोंके साथ उनकी बराबर बैठकें होती रहीं। अन्तिम आक्रमणके पहले जीजक स्टेशनके पास एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें एसियाई मजदूर बड़ी संख्यामें शामिल हुये थे। तुर्किस्तान गणराज्य मोवियत जनकमीसर-परिषद्के अध्यक्ष कोलेसोफने अपने भाषणमें गणराज्यकी सारी स्थितिपर प्रकाश डाला। इसी सभाके बाद योजना बनाई गई। फिर क्रांतिकी सेना दक्षिणवाले गस्तेमे रेलवेके साथ-साथ लाइनसे दाहिने और बायें होतें आगे बढ़ी। रोस्तोवमेंवां स्टेशनमें पहुंचनेपर गोलाबारी शुरू हुई। कजाक समरकन्दकी ओर पीछे हटे। बोल्शेविक आगे बढ़ते गये। अन्तमें मोवियतकी क्रांति-विरोधियोंपर विजय हुई, और लाल सेनाके हाथमें बहुतसा गोला-बारूद और दूसरे हथियार आये। पेरफिल्येफ लाल सेनाका कमांडर था। दूसरे अफसर थे—फेदोर कोलेसोफ, पोल्तरात्स्की, फ्रोलोफ, पोतोमारेफ, पेन्दो, दूनायेफ, मिखाइलोफ, पेस्पेलोफ, एसाउलेंको, वेग, शुस्तोफ, बारकुस, ओर्लोफ, इसायेफ आदि। क्रांति-विरोधियोंकी तरफ थे—कजाची, कर्नल जायित्सेफ, रिलको, सिबको, स्तेपानोफ, गिजबुर्ग, सियानोफ, तोकारेफ, गोरेलोफ, गपेयेफ आदि जारशाहीके पुराने सैनिक अफसर तथा दूसरे।

जनवरी १९१८ ई०के आरम्भमें हुई समरकन्दकी इस विजयने फरगाना, समरकन्द और ताशकन्दके बीचकी भूमिको बोल्शेविकोंका एक दृढ़ केन्द्र बना दिया।

लेकिन, अभी भी बोल्शेविक निर्दिष्ट नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि अफगानिस्तान और ईरानके रूसी सीमान्तपर अंग्रेजोंका पड्यंत्र बड़े जोरसे चल रहा था, और चर्चिल सारी शक्ति लगाकर रूससे बोल्शेविकोंको उखाड़ फेंकनेके लिये तैयार था।

७: बुखारा-अमीर भगा (१९२०ई०)

मध्य-एसियामें रूसका शासन स्थापित हो जानेके बाद भी बुखाराके अमीरका शासन हमारे यहांकी बड़ी रियासतोंके ढंगपर ही रहा था। मध्य-एसियाके लोग भी तुर्क हैं, और

तुर्कीके लोग भी। मध्य-एसियाके तुर्क सुन्नी होनेसे तुर्कीके खलीफाको अपना सबसे बड़ा धर्मचार्य मानते हैं। इस प्रकार भाषा और धर्मके घनिष्ठ संबंधके कारण मध्य-एसियाके शिक्षितोंका तुर्कीके साथ घनिष्ठता होनी स्वाभाविक थी। इसीलिये जिस तरहके आन्दोलन तुर्कीमें होते, उसका कोई-न-कोई रूप मध्य-एसियामें उठ खड़ा होता। तुर्कीमें नवीन-तुर्क दलने सुधारके लिये बहुत जद्दोजहद की, और वर्तमान शताब्दीके आरम्भमें उसने इतनी सफलता पाई, कि तुर्कीके सुल्तानको अनवर पाशा और दूसरे नवीन तुर्क-नेताओंको शासनमें साझीदार बनानेके लिये मजबूर होना पड़ा। नवीन-तुर्क पुराने जमानेकी कितनी ही बातोंको हटाकर तुर्कीको सामन्तशाहीसे पूंजीवादी समाजमें लाना चाहते थे। इन्हीं नवीन-तुर्कोंकी नकलपर मध्य-एसियामें 'जदीद' (नवीन) आन्दोलन शुरू हुआ, जिसका केन्द्र बुखारा था। रूसी इलाकेमें अक्तूबर-क्रांतिके बाद खोकन्दी स्वायत्तियोंने शक्तिको अपने हाथमें लेना चाहा, लेकिन जदीदोंने इतना जोर नहीं दिखलाया। जदीद मुल्लाशाहीके भी खिलाफ थे, इसलिये मुल्ला उन्हें फूटी आंखों देखना नहीं चाहते थे। वर्तमान शताब्दीके आरम्भसे ही जदीदवादका प्रचार बुखारामें होने लगा था। १९१७ ई०के मार्च-अप्रैलमें जदीदोंका नारा 'हुरियत' (स्वतंत्रता) बड़े जोरोंपर था। फरवरी-क्रांति द्वारा जारके सिंहासनसे हटा दिये जानेके बाद बुखाराका अमीर आलमखान भी डर गया, और उसने एक बार तुर्कीके सुल्तानका अनुगमन करते हुये जदीदोंकी बहुतसी मांगें मान लीं। लोगोंको मालूम होने लगा, कि यहांपर भी अब जदीदोंका शासन स्थापित होगा। लेकिन सालभर बीतते-बीतते अमीरको फिर इतनी हिम्मत हो गई, कि मार्च १९१८ ई०से उसने जदीदोंका कल्लेआम शुरू कर दिया। चारों ओर मुल्लोंका जोर था। बड़े-बड़े पगड़वाले मुल्ला जदीदोंके खूनकी नदी बहते देखकर दाढ़ी फड़फड़ाते कह रहे थे—“देखा न शरीयत-शरीफ (सद्धर्म)की ताकत !” बुखारामें सैकड़ों आदमी बुरी तरहसे पकड़-पकड़कर तलवारके घाट उतारे जा रहे थे, खूनमें भरी खाइयोंके पास बीसों मुर्दे दम तोड़ रहे थे।

जदीदोंके प्रभावके जमानेमें नसरुल्ला कुशबेगीने जदीदोंके साथ सहानुभूति दिखलाई थी, जिसके लिये उसे अपने बीबी-बच्चों और संबंधियोंके साथ बुखारासे निर्वासित करके करमीनामें नजरबन्द कर दिया गया, और उसकी जगहपर मिर्जा उरगंज महामंत्री बनाया गया। जदीदोंने पुराने ढंगके मकतबोंकी जगहपर लड़कोंके पढ़नेके लिये नये ढंगके स्कूल स्थापित करना चाहा। मुप्ती हाजी अकरामने उनके कामका समर्थन किया था, इसलिये उसे भी गुजारमें निर्वासित कर दिया गया। बुखारा-शरीफका रईस अब्दुस्समद खां जदीद होनेके कारण पदच्युत कर दिया गया। इसी तरह मिर्जा शहबाई और हाजी दादखाह-जैसे प्रभावशाली दर-बारी जदीद होनेके इल्जाममें निर्वासित करके कवादियान भेज दिये गये। जिस तरह खोकन्दमें मुल्लोंने अन्तमें सारी शक्ति अपने हाथमें ले ली थी, वही बात अब १९२० ई०में बुखारामें दुहराई जा रही थी। चारों तरफ जहाद (धर्मयुद्ध)का नारा घोषित हो रहा था। मुल्लोंने फतवा दे रखा था, कि जदीदोंका खून हलाल और उनकी जोरू हलाल।

लेकिन अमीर और मुल्लोंकी यह धींगा-धींगी छ महीने भी नहीं चल पाई। २० अगस्त १९२० ई०को बुखाराकी हालत परेशान देखी जाने लगी। बुखाराके आर्क (किले)से अमीरका सामान घोड़ा-गाड़ियोंपर ढोया जा रहा था, और उधर बोल्शेविक तोपें समय-समयपर भूमिको कपाते हुये गुम्-गुम्की आवाज कर रही थीं। अमीर आर्क छोड़कर सितारामुखासा नामक बागमें ठहरा हुआ था, जहांपर उसकी बेगमें और उसकी कामुकताके शिकार छोकरे गाड़ियोंपर चढ़ा-चढ़ा करके भेजे जा रहे थे। बोल्शेविक केवल तोपके गोले ही नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि उनके कागजी गोले और भी शक्तिशाली रूपमें लोगोंके बीचमें फेंके जा रहे थे, जिनकी आखिरी पंक्तियों—“बुखाराके मेहनतकश जिन्दाबाद ; बोल्शेविक पार्टी जिन्दाबाद ; सोवियत-सरकार जिन्दाबाद ; अमीर और उसकी सरकार नेस्तबाद” को पढ़-मुनकर बुखाराके गरीब बड़े उत्साहके साथ नये दिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और उधर जनाब आली अमीर-बुखारा मीर आलम खान भागनेकी फिकरमें परेशान थे।

३०-३१ अगस्त और १ सितम्बर (१९२० ई०)के सोमवार, मंगल और बुधके तीन दिनोंमें सारा बुखारा उलट-पलट गया। नगरमें आग लगी हुई थी। आर्क(किले)के अन्दर हर जगह, खासकर अमीरके गद्दीघर और रनिवासमें, आगकी ज्वालामयें लपलपा रही थीं।

अमीरके लिये अब सुरक्षित जगह अपने देशके भीतर नहीं रह गई थी। जब उसकी प्रजामें सबसे अधिक संख्या रखनेवाले गरीब किसान और मजदूर बोल्शेविकोंके फेरमें पड़ गये थे, तो उसे कैसे त्राण मिल सकता था? उसे अब अफगानिस्तानके भीतर ही जान बचानेकी जगह दिखलाई पड़ने लगी। लेकिन, वह उज्बेकोंके मैदानी इलाकोंमें गुजरना खतरेकी बात समझता था, इसलिये उसने पहाड़ी रास्ता लिया। बाइसूनमें जाकर उसने डेरा डाला। मुल्लोंके धुआधार जहादी व्याख्यानोंसे, और उससे भी अधिक लूटके लोभसे पूर्वी बुखारावाले हिसार, कुल्याब, बलजुवान, दरवाज और करातगिनके इलाकोंसे बहुतसे गाजी आये थे, लेकिन आधुनिक हथियारोंसे सुसज्जित और मुशिखित बोल्शेविकोंके सामने भला यह शिवजीकी पलटन क्या कर सकती थी? अमीरको बाइसूनसे भी भागकर दुशाम्बा जाना पड़ा। वहाँपर एक ही यूरोपीय ढंगकी इमारत 'दोखतरखाना' थी, जिमें अमीरने अपना महल बनाया। जब लुटेरोंकी पलटन उसके आसपास आकर जमा होने लगी, तो अमीरको विश्वास हो गया, कि अब बुखारा तो गया, दुशाम्बा (आधुनिक स्तालिनाबाद) राजधानीमें ही शायद मैं मंगीतोंके शासनको मजबूत करनेमें सफल होऊँ। लेकिन फरवरी १९२१ ई०में फिर अमीरका पैर कांपने लगा। पासके खजानेको कहीं गाजीके नामसे इकट्ठा हुये यह डाकू न छीन लें, यह भी उसको डर था। इसलिये निराश हो कुल्याब होता वह कुछ समय बाद पंज (वधुकी ऊपरी शाखा)के किनारे पहुँच दरकदके घाटसे वधु पार हो अफगानिस्तान चला गया। जाते-जाते वह डाकूओं (बासमचियों)के सरदारोंको अपना प्रतिनिधि बनाकर छोड़ गया, जिन्होंने १९२१ से १९२६ ई० तकके पांच वर्षोंतक पूर्वी बुखारा (ताजिकिस्तान)में बहुत लूट-पाट मचाई, गरीबोंके खूनसे हाथ रंगा, लेकिन अन्तमें उन्हें सोवियत-शासनने खतम कर दिया। बोल्शेविक क्रांतिके बाद सारा रूसी मध्य-एशिया तुर्किस्तान गणराज्यके नामसे संगठित हुआ था। इसके बाद उज्बेकिस्तानका गणराज्य स्थापित हुआ, जिससे १९२४ ई०में ताजिकिस्तान पहले स्वायत्त गणराज्य फिर पांच साल बाद १९२९ ई०में स्वतंत्र गणराज्य होकर अलग हो गया।

स्रोत-ग्रन्थ

१. स्पिसोक् नरोइनोंस्नेइ तुर्किस्तान्स्कओ क्राया (ड. इ. जारुबिन्, लेनिनग्राद १९२५)
२. रेवोल्युत्सिया व् स्नेइनेइ आजिइ (ताशकन्द १९२९)
३. "वास्तोको वेदेनिया" (१९४५/३, पृष्ठ ५९-७९, लेनिनग्राद)
४. नसेलेनिये समरस्क-दुस्कोइ औव्लास्ति (ड. इ. जारुबिन्, लेनिनग्राद, १९२६)
५. दाखुन्दा (उपन्यास, सदरुद्दीन ऐनी, अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्रयाग, १९४८)
६. जो दास थे (उपन्यास, सदरुद्दीन ऐनी, अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्रयाग, १९४९)
७. बुखारा (संस्मरण, सदरुद्दीन ऐनी, अनुवादक स. बोरोदिन्, मास्को, १९५२)

कजाकस्तानमें क्रांति

१. कजाक-जाति

इतिहासके आरम्भसे वर्तमान कजाकस्तानकी भूमिमें किस तरह मानव जातियोंका आगमन, निस्सरण और सम्मिश्रण होता रहा, इसे हम जगह-जगह कह चुके हैं। आज जो विशाल भूमि कजाकस्तान गणराज्यके नामसे प्रसिद्ध है, वह भौगोलिक तौरसे इतिहासकी दृष्टिसे साइबेरिया, किपचकभूमि, अल्ताई और सप्तनदके भिन्न-भिन्न भागोंमें विभक्त रही। मध्य-पाषाण-युग (ई० पू० ४०००)से पहलेकी पुरापाषाणयुगीन मुस्तेर आदि जातियोंमें से कौन इस भूमिमें रही, इसके बारेमें हमारे पास पुरातात्विक प्रमाण नहीं हैं। तुलनात्मक नृवंश-तत्त्व और भाषा-तत्त्वके अध्ययनसे हम यह कह सकते हैं, कि मध्य-पाषाणयुगमें दशकपिपचकमें फिनो-द्रविड़ थे और वही जाति सप्तनदमें भी थी, अर्थात् तुर्किस्तान शहर और जम्बुल जिलेके इलाकोंमें किसी समय वही फिनो-द्रविड़ जाति रहती थी, जिसके अवशेष भारतमें द्रविड़ तथा सोवियतमें कौमी स्वायत्त गणराज्य, और एस्तोनिया तथा फिनलैंडके लोगोंके रूपमें अब भी मौजूद हैं। लेकिन उससे हजार वर्ष बाद नव-पाषाण-युगमें हम यहां विशेषकर अराल और निम्न-सिर-दरियाकी उपत्यकाओंमें आर्य घुमन्तुओंके आनेका पता पाते हैं। २५०० ई० पू०में फिर किपचक-भूमि और अल्ताईमें उनका स्थान उन्हींके भाई-बन्द शक लेते हैं। सारे पित्तल-युग और लौह-युगमें घुमन्तु पशुपाल और कुछ थोड़ेसे खानोंमें काम करनेवाले शक, किपचक, सप्तनद और अल्ताईके निवासी थे। हम देख चुके हैं, कि ई० पू० ५वीं शताब्दीमें भी, जब कि दुनियाके बहुतसे भागोंमें लोहेका प्रचार हो चुका था, अभी ये शक पीतलके हथियारोंका ही इस्तेमाल करते थे। ई० पू० ४थी सदीमें कजाकस्तान (उस समय शक-भूमि)के पूर्वी भाग अर्थात् अल्ताई-प्रदेशके पड़ोसी हूण थे, जो ई० पू० २री शताब्दीमें शक-भूमिके ऊपर टूट पड़े, और उन्होंने शकोंकी प्रभुता वहांसे खतम कर दी। उस समयसे शक-आर्य शरीराकृतिका स्थान मंगोलायित आकृतिने लेना शुरू किया। जो शक इस भूमिमें रह गये, वह मंगोलायितोंमें मिल गये। ईसाकी ५वीं सदीके पूर्वार्धमें किपचक-सप्तनद-अल्ताईकी भूमिमें रहनेवाले हूण-वंशज मंगोलायित अपनी सामान्य होने-वाली गाड़ियोंके कारण कंगली कहे जाते—वर्तमान शताब्दीके आरम्भमें पश्चिमसे आनेवाले घुमन्तु सिरकी वालोको पूर्वी उत्तरप्रदेशमें कंगडा कहा जाता था। ६ठी सदीके उत्तरार्धमें फिर तुर्कोंका प्रभुत्व स्थापित होनेके बाद इस भूमिके निवासी तुर्क नामसे प्रसिद्ध होने लगे। तबसे मध्य-एशियाके और भागोंकी तरह आज भी तुर्क जाति यहां रहती है, जो भाषाके थोड़े भेदके कारण कहीं कजाक, कहीं किर्गिज, कहीं उज्बेक और कहीं तुर्कमानके नामसे पुकारी जाती हैं। यदि हम आजकी कजाक जातिके ऐतिहासिक विकासको देखते हैं, तो हमें उनके भीतर निम्न क्रमसे जातियोंके स्तर मिलते हैं :—

कजाक जातिका निर्माण :—

काल	किपचकभूमि	सप्तनद	अल्ताई
ई० पू० ४००० (मध्य-पाषाण)	फिनो-द्रविड़	फिनो-द्रविड़ (जम्बुल)	
	(अराल-सिर)		
” ३५००	”	”	...
” ३००० (नवपाषाण)	शकार्य	”	...

" २५००	शक	शक	शक
" १५०० (ताम्र-युग)	श०	श०	श०
" ७००	श०	श०	श०
" ५५०	श०	श०	श०
" ३२६	श०	श०	श०-हूण
" २०६	श०	श०	श०-हूण
" १३०	हूण	हूण-श०	हूण
" १००	हूण	हूण-श०	हूण
ईसवी १००	हूण	हूण-श०	हूण
" ४२५	कंगली	कंगली	कंगली
" ५५७	तुर्क	तुर्क	तुर्क
" ६७३	तुर्क	तुर्क	तु०-किर्गिज
" ८९२	तुर्क	तुर्क	किर्गिज
" १२२०	तुर्क	तुर्क	किर्०-मंगोल
" १५००	तु० (कजाक)	तु० (कजाक-किर्०)	किर्०-मंगोल
" १७५७	कजाक	कज-किर्०-मंगोल	किर्०-मंगोल
" १८६५	कजाक	कज०-रूस	कज०-रूस
" १९१७	कज०-रूस	कज०	कज०-रूस

कजाक

अक्टूबर-क्रांतितक कजाक लोग अब भी बहुत कुछ घुमन्तू पशुपाल थे। हम यह देख चुके हैं, कि इन घुमन्तू जातियोंका पशुपाल-अवस्थामें रहना उनके सामन्ती समाजके विकसित होनेमें बाधक नहीं था। इस प्रकार वर्गके तीरपर कजाकोंके मुखिया और शासक सामन्ती जीवन व्यतीत करते सामन्ती संस्कृतिसे भी परिचित थे। घुमन्तू जातियोंमें दूसरी घुमन्तू जातियोंका हजम होना बहुत आसान है, और अपने सरदारों या वीरोंके नाम स्वीकार करनेके कारण उनके प्राचीन नामोंका पता लगाना भी मुश्किल है। कजाकोंके बारेमें हम देख चुके हैं, कि पहले इन्हें उज्बेक या उज्बेक-कजाक कहा जाता था। सुवर्ण-ओर्दूका नाम एक शक्तिशाली उज्बेक खान (१३१३-४० ई०)के अधीन होनेके कारण पड़ा। कजाकका शब्दार्थ चाहे अरबी भाषामें डाकू हो, लेकिन यहांपर तुर्कोंने इसका इस्तेमाल साहसी लोगोंके लिये किया। किर्गिज-कजाक और उज्बेक-कजाक नामके अन्तके कजाक और किर्गिज नाम अब रह गये, जो अपनी-अपनी जातिके परिचायक हैं। कजाक कबीलोंके नामोंके देखनेसे हमें पता लगता है, कि पुराने कौन-कौन-से कबीले या जातियां आकर इस भूमिमें मिश्रित हो एक जातिके रूपमें परिवर्तित हुईं। कबीलोंके ये नाम कजाकों और उज्बेकों में बहुत-कुछ एक-से मिलते हैं, जिससे इस बातकी पुष्टि होती है, कि मूलतः कजाक और उज्बेक एक ही कबीलेके अंग थे। दोनों जातियोंके कुछ कबीले हैं:—

कजाक	उज्बेक	आनेका काल
कुंग्राद (सुवर्ण-ओर्दू)	कुंग्राद	मंगोल-काल
किपचक (मध्य-ओर्दू)	किपचक	तुर्क-काल
किताई (लघु-ओर्दू)	खिताई	
नैमान (मध्य-ओर्दू)	नैमान	मंगोल-काल
उजुन (मध्य-ओर्दू)	ओजुन	शक-काल
उसिउन (सुवर्ण-ओर्दू)	"	
तज़लर (लघु-ओर्दू)	ताज	
तरी-उइगुर (मध्य-ओर्दू)	उइगुर	मंगोल-काल

कंजीगली (मध्य-ओर्दू)	कंजीगली	
जलैर (सुवर्ण-ओर्दू)	जलैर	मंगोल-काल
कंगली (सुवर्ण-ओर्दू)	इचकिली	
अलचिन (लघु-ओर्दू)	अलचिन	

इतिहासमें इन कबीलोंमेंसे कितनोंका हमें पता लगता है। कंगली (कंकली, कंग) बहुत पुराना नाम है, जो यहां आये हूणोंके पुराने वंशजोंको दिया गया। नैमन किसी समय ईतिशसे मंगोलियाकी पुरानी राजधानी कराकोरमतक—अर्थात् पीछेकी उत्तरी जुंगारियामें बसते थे, जहांसे मंगोल-विजेताओंके ओर्दूका भाग बनकर यह मध्य-एसियामें आये।

जलैर वैकाल-प्रदेश तथा दौरियाके बीचमें किसी समय रहते थे, जहांसे ये मंगोलोंके साथी बने।

उद्गुर लोगोंका केन्द्र भी किसी समय बिशवालिग था। एक बार तुर्कोंके स्थानमें इन्होंने अपनी प्रभुता स्थापित की थी, फिर मंगोलोंके अनुयायी हो उनकी विजयोंमें शामिल हो गये।

कुंजुर्द या कुग्रद मंगोलोंका एक बहुत प्रतिष्ठित कबीला था, जो किसी समय दोलेनोर सरोवर, निम्न कैरुलोन तथा अर्गुनकी उपत्यकाओंमें रहता था।

अलचिन पहले खिगन पर्वतमालाके वासी थे।

कजाक कबीलोंको आजके कजाकस्तानके भिन्न-भिन्न भागोंमें हम निम्न प्रकार वितरित देखते हैं:—

(१) महा-ओर्दू—इसके उद्गुर और सीखिम कबीले ताशकन्दके जिलेमें मिलते हैं। औलि-याअता (जम्बुल)में इसके जानी, तेमिर, चीमिर और बोटपाई (खित्तन) कबीले रहते हैं। तुर्किस्तान-शहरके पास और चू-उपत्यकामें सिरगिली, उस्ती, ओतकची, जलैर, चपराच कबीले बसते हैं। कंगली ताशकन्दके पासमें रहते हैं।

(२) मध्य-ओर्दू—इस ओर्दूका किपचक कबीला ताशकन्दके पास रहता है। कुग्रद भी वहीं बसते हैं। इनके अतिरिक्त ताशकन्दके आसपास मध्य-ओर्दूके अल्तीअता, कोकतुनगुलू अल्तीअता, कोकतुनचुई, अर्गुन, नैमन भी बसते हैं।

२ १९१६ ई० का विद्रोह

(जारशाहीसे)

जारशाहीके प्रसारके वारेमें लिखते वक्त हम यह बतला चुके हैं, कि किस तरह अपने शासनको दृढ़ करनेके लिये साइबेरिया और दूसरी जगहोंपर रूसी किसानों और व्यापारियोंकी औपनिवेशिक बस्तियां बसानेकी कोशिश की गई। कजाकस्तानकी भूमिमें ये बस्तियां अधिकतर उसके उत्तर तथा उत्तर-पूर्वमें हैं। लेकिन, आगे चलकर वह ओरेनधुर्गसे सिर-दरियाके किनारे ताशकन्द, और फिर सप्तनद तथा अल्ताई होते साइबेरियाके ओम्स्क आदि नगरीतक चली गई। पीछे ओरेनबुर्गसे अराल समुद्रके तटतक और फिर ताशकन्द होते बर्नीतक रेल बन गई। तुर्किस्तानको साइबेरियासे मिलानेवाली रेलवे लाइन बोल्शेविक-क्रांतिके बाद बनी, लेकिन इससे पहले भी ओरेनबुर्ग, अरालस्क, अरिस, चिमकन्द, वेर्नी (अल्माअता), बुल्युत्युबे, आयागुज, सेमीप्लातिन्स्क, बर्नौल, नवोसिबिर्स्कके आधुनिक रेल-मार्गपर जहां-तहां रूसियोंकी बस्तियां बस चुकी थीं। जार शाहीने पूरी कोशिश की, कि गोरोंके साथ विशेष रियायत करके उन्हें किंगिजोंसे अलग रक्खा जाय। भारतमें अंग्रेजोंके लिये ऐसा करनेमें सुभीता था, क्योंकि यहांपर अंग्रेज किसान और मजदूर आकर बसने नहीं पाते थे, और भारतीयोंके लिये सभी अंग्रेज साहेब (स्वामी) थे; लेकिन कजाकभूमिके लोग साहेब-रूसियोंको ही अपने पास नहीं, बल्कि लाखोंकी संख्यामें रूसी मूजिकों (गरीब किसानों)को भी देखते थे। उपनिवेशोंमें आकर बसे रूसियोंकी हालत कुछ बेहतर जरूर थी, और मूजिक या मजदूरकी शकलमें आये रूसी भी कुलक (धनी किसान) बननेमें

सफल हो जाते थे, इसलिये भी वह स्थानीय कजाकोंके साथ भाईचारा स्थापित नहीं कर सके। घुमन्तू पशुपाल कजाकोंको कृषि-भूमिकी उतनी अवश्यकता नहीं थी। जितनी कि गोचर-भूमिकी, इसलिए वह अपनी भूमिके साथ उतनी घनिष्ठताका भाव नहीं रख सकते थे, जितना कि किसान। जारशाही सरकारकी बराबर कोशिश रहती थी, कि खेतीके लिये उपयुक्त भूमि कजाकोंसे छीनकर रूसियोंको दे दी जाय। ९ नवम्बर १९०६ ई०को इसके बारेमें बल्कि भूमि-संबंधी एक नया कानून बनाकर कजाकोंको उनकी भूमिसे वंचित करनेका भारी उपक्रम किया गया। कजाकोंकी जमीनपर रूसी कुलकोंके पत्नेकी यही कथा है।

कजाकोंकी सांस्कृतिक अवस्था बड़ी हीन थी। उनमें निरक्षरताका अखंड राज्य था, और केवल उनके बाय (सामन्त) और मुल्ला पढ़-लिख सकते थे। स्त्रियोंकी अवस्था तो इस्लामकी रूकावटोंके कारण और बुरी थी। कजाक अपने पूर्वजोंके स्वतंत्रता-संवर्षको बहुत-कुछ भूल चुके थे। अगर उनमें कोई संघर्ष होता था, तो आपसी कवीलोंका, जिसको जाग्रत रखनेके लिये जारशाही शासक पूरी कोशिश करते थे। एक प्रकारसे कजाक गहरी नींदमें सोये थे, या किस्मतकी बदनसीबी समझकर निष्क्रिय-से हो गये थे। इसी समय १९०६ ई०का अत्यायपूर्ण भूमि-संबंधी कानून जारी हुआ, और उधर १९०५-६ ई०की रूसी-क्रांतिकी प्रतिध्वनि कजाकस्तानके रूसी मूजिकों द्वारा कजाकोंमें भी पहुंची। यहां आकर बसे रूसी सरकारी अफसरों, व्यापारियों या कुलकोंको उस क्रांतिसे कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन तो भी उसकी चर्चा तो होनी ही थी; इसलिये रूसकी मुनी-मुनाई खबरोंने कजाकोंमें फिर कुछ चेतना पैदा की। ऊपरसे जारशाहीकी नतपूत होनेवाली लालचने थपड़ लगाकर उन्हें जगानेकी कोशिश की। १९१३ ई०में सप्तनदके राज्यपाल फोल्बोमने लिखा था—रूसी सरकारके प्रति कजाक गरीबोंमें शत्रुताके भाव देखे जाते हैं।

प्रथम विश्वयुद्धमें कजाकोंके ऊपर और भी संकट पैदा हुआ। उनसे बड़ी भारी सख्यामें घोड़े, ऊंट ले लिये गये, फौजोंके खानेके लिये बकरी, भेड़ और दूसरे जानवरोंका मांस लाखों टन भेजा जाने लगा। अनाज भी ढो-ढो कर सेनाके खानेके लिये भेजा गया। जीवनोपयोगी सभी चीजोंका अभाव तो होना ही था, ऊपरसे जारशाही अफसरों, देशी-विदेशी व्यापारियों और जमींदारोंने चीजोंके दाम को मनमानी और सट्टेबाजीसे बहुत चढ़ा दिया, जिसके कारण कजाक जनसाधारणकी अवस्था दुस्सह हो गई। फिर २५ जून १९१६ ई०को जार निकोलाइ II का उकाजे (राजादेश) निकला, जिसके अनुसार १९ से ४३ वर्षके पुरुषोंको जबर्दस्ती भर्ती करके युद्ध-पकितियोंके पीछे काम करनेके लिये भेजा जाने लगा। कितने ही वर्षोंसे भीतर-ही-भीतर सुलगती हुई असीतोपकी आग १९१६ ई०के विद्रोहके रूपमें भड़क उठी, और सप्तनद तथा तुरगाईके जिलोंमें सब जगह बगावत फैल गई। ३ अगस्तको पहलेपहल बेर्नी (आधुनिक अल्माअता) के उयेज्द (जिले)के किज़िल बुरकोव्स्की मंडलमें विद्रोह शुरू हुआ, और १० अगस्ततक वह सारे इलाकेमें फैल गया। १९१६ ई०के सितम्बरके उत्तरार्धमें तुरगाई ओब्लास्त (तहमील)में विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोहका नेता एक गरीब मां-बापका लड़का अमनगेलदी इमानोफ था, जिसने अपनी वीरता और मूझ-बूझसे विद्रोहियोंका इतना अच्छा नेतृत्व किया, कि जारशाही सरकार वर्षोंतक उससे परेशान रही और केवल अपने खातमेके साथ ही उसे उमसे छुट्टी मिली, यह पहिले बतला चुके हैं। १९१६ ई०के अक्टूबरमें हजारों विद्रोही जत्थे जारशाहीसे लोहा ले रहे थे, जिनमें कभी-कभी पन्द्रह हजारतक आदमी शामिल थे। उनको दवानेके लिये जेनरल लावरेन्तेफके अधीन सैनिक अभियान भेजा गया, लेकिन विद्रोह दवानेकी जगह, उस सालके नवम्बर महीनेतक सभी कजाकोंमें फैल गया, तुरगाई ओब्लास्तके पचास हजार आदमी उममें शामिल थे। यह विद्रोह गरीबोंके विद्रोहका रूप ले चुका था, जिसके कारण कजाक धनियों और सामन्तोंको, उससे डर लगा, और वह जारशाहीको विद्रोह दवानेमें पूरी तौरसे मदद करने लगे। वाइतुरमुतोफ, दुलातोफ आदि ऊपरी वर्गके कजाक-नेताओंने उस समय रूसी सरकारके प्रति अपनी क्रियात्मक राजभक्ति दिखलानेमें कोई कमर उठा नहीं रखी। नवम्बरके उत्तरार्धमें रूसी सेनाओंके प्रहारके कारण अमनगेलदी इमानोफको तुरगाईमें भागकर बतपक-करणके इलाकेमें पनाह लेनी

पड़ी, और खूली लड़ाईकी जगह उसने छापाकारी स्वीकार की। १९१७ ई०की जनवरीमें इमानोफने फिर तुरगाईमें आकर विद्रोहको भड़काया। जनरल लावरेन्त्सोफने फरवरी १९१७ ई०में बतपक-करापर चढ़ाई करके इमानोफकी शक्तको खतम करनेका निश्चय किया, और २४ फरवरीको उसने इमानोफके प्रतिरोध-केन्द्र बतपक-करापर अधिकार कर लिया। इमानोफ अपने बहुतसे सहकारियोंके साथ दस्त (स्तेपी)की ओर भाग गया। विद्रोहको दमन करनेमें जारशाहीने बड़ी क्रूरताका परिचय दिया। सप्तनदके निवासियोंमेंसे एक-चौथाई—तीन लाख स्त्री-पुरुष—भागकर चीनके इलाकेमें चले गये, कितने ही गांव-के-गांव उजड़ गये। १९१६ ई०के विद्रोहको यद्यपि जारशाहीने दबा दिया, किन्तु उससे कजाकोंको जो शिक्षा मिली थी, उनके मनमें जारशाहीके विरुद्ध जो घृणा पैदा हुई थी, उसने बोल्शेविक-क्रांतिको मदद पहुंचाई। अपने संघर्षमें उन्होंने निम्न श्रेणियोंके रूसियोंको उतना क्रूर नहीं पाया था। उनका नेता इमानोफ जल्दी ही समझ गया, कि अब सभी गरीबों और कमकरोंकी भलाई बोल्शेविक-क्रातिमें ही है। वह अन्तमें बोल्शेविक पार्टीमें शामिल हो क्रांतिके लिये लड़ा। आज अमनगोस्वो इमानोफ कजाकस्तानका सबसे बड़ा यशस्वी वीर है।

फरवरी-क्रांतिके हो जानेके बाद १९१७ ई०की मईके अन्तमें भी तुरगाईमें अभी पूरी तरहसे शांति स्थापित नहीं हुई थी। अस्थायी सरकारने तुरगाई ओब्लास्तके लिये अलीखान बुक्रेखानोफकी सहायतासे बहुतसे कजाक-विद्रोहियोंको गिरफ्तार किया, जिनमें इमानोफ भी था। अक्टूबर-क्राति सिरपर आई, जिसने सप्तनदमें भी रूसियोंको क्रांतिकारी और क्रांति-विरोधी दो दलोंमें विभक्त कर दिया। उधर बोल्शेविक सरकारने जातियोंके आत्म-निर्णयका अधिकार देकर कजाकोंके हृदयमें अपने प्रति विश्वास और भक्ति भर दी, जिसके लिये १९१६ ई०के विद्रोही अब क्रांतिके सिपाही बन गये। इसी समय दूतोफके नेतृत्वमें ऊपरी वर्गके कजाकोंने ओरेनबुर्गमें अपनी सरकार कायम करके लोगोंकी आंखोंमें धूल झाँककर अपनी ओर करना चाहा, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं हुई। नवम्बर १९१७ ई०से मार्च १९१८ ई०तक क्रांति और प्रतिक्रांतिका संघर्ष होकर अन्तमें सारा कजाकस्तान जारशाहीके अवशेषोंसे मुक्त हो गया।

कजाकस्तान उस समय जारशाही नीतिके कारण एसियाई और यूरोपीय दो प्रकारकी जमातोंमें बंटा हुआ था, इसलिये क्रांतिके लिये संघर्ष भी दोनों जमातोंमें अपने-अपने तौरसे हुआ। सप्तनदके क्रांतिके रूसी नेताओंमेंसे एक ग० फेदेरोफ भी था। उसने वहाँके बारेमें लिखते हुये बतलाया है, कि फरवरी-क्रांतिके होनेतक बेनी (आधुनिक अल्माअता) में सिर्फ एक तरुण संगठन था, जिसके सदस्य रूसी सरकारी अफसरों और व्यापारियों-पूज्यपतियोंके लड़के-लड़कियां होते थे, और जिनका नेतृत्व जारभक्त अध्यापकोंके हाथमें था। फरवरीके बाद अल्माअताके स्कूलके विद्यार्थियोंने "नौजवान विद्यार्थी संघ"के नामसे एक संगठन कायम किया। लेकिन, फरवरी-क्रांतिके पक्षपाती जारको हटा कर भी जारशाहीकी हरएक बातको कायम रखना चाहते थे, इसलिये इस विद्यार्थी संघका काम था वनभोज, नाच-गान और पान-गोष्ठियोंद्वारा मनोरंजन करना—आखिर, उसके सदस्योंमेंसे ९९ फीसदी अफसरों, सेठों और कुलकोंकी संतानें ही तो थीं।

३. क्रांति-संघर्ष

अक्टूबर-क्रांतिके होते समय यहांपर क्रांति-विरोधियोंका बोलबाला था। वह हर तरहसे कोशिश करते, कि यहां सोवियतका प्रभाव स्थापित न होने पावे। लेकिन अब समाजवादकी बातें अल्माअतामें भी पहुंचने लगी थीं। मार्च-अप्रैल (१९१८ ई०) तक तरुणोंने अपने कितने ही अध्ययनचक्र तथा दूसरे संगठन कायम कर लिये। अब गृहयुद्ध साफ दिखलाई पड़ रहा था, इसलिये कमकरों और तरुणोंके जबर्दस्त संगठनकी जरूरत पड़ी। फेदेरोफने लिखा है— एक दिन मैं अपने एक साथीसे मिला। उसने इर्कुत्स्कके छपे एक समाचारपत्रको दिया। मैंने उसे पढ़कर देखा, कि साइबेरियाके तरुण क्रांतिके लिये कितना काम कर रहे हैं। इसके बाद हमने इर्कुत्स्कके नमूनेपर तरुणोंका संगठन करना शुरू किया। इस प्रकार तरुण-विद्यार्थी-समाजवादी-

संघ अस्तित्वमें आया। फेदेरोफ और उसके साथियोंने जब अपने संगठनको मजबूत करते प्रचार करना शुरू किया, तो उनके एक सहकारी अध्यापकने कहा—“हम बोल्शेविकोंके साथ काम नहीं करना चाहते। लेकिन अब प्रवाहको रोका नहीं जा सकता था।” लाल सेनाकी सफलताओंकी खबरें भी क्रांति-पक्षियोंमें उत्साह और क्रांति-विरोधियोंमें निराशा पैदा कर रही थीं। फेदेरोफने एक दिन अपने क्लाममें कहा—क्रांति-विरोधी पथ सेठोंके हितका पथ है, हमको क्रांतिका पथ लेना चाहिये। इसपर अल्माअताके एक रूसी सेठके पुत्रने उसे मार डालनेकी धमकी दी। संघर्ष और उग्रता बढ़ता गया। फेदेरोफ-जैसोको गुप्त गुटोंका संगठन करना पड़ा। जनवरी १९१९ ई० तक अभी सन्तनदमें क्रांति-विरोधियोंका ही पल्ला भारी था, लेकिन जब ताशकन्दपर कम-करोकी विजय हो गई, तो अल्माअतामें भी उमाका प्रभाव बढ़ा, और वहां बोल्शेविक विद्यार्थी संघ स्थापित हुआ, जिगका निर्वाचन करनेके लिये २५ जनवरी १९१९ ई०को सौ सदस्य एकत्रित हुये।

इस प्रकार हम देखते हैं, कि अक्टूबर १९१७ ई० तक अल्माअतामें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। मार्क्सवादी साहित्यका वहां मिलना भी मुश्किल था, और कुछ तरुण गुप्तगुप्त केवल क्रांतिके बारेमें विचार-विनिमय भर कर लिया करते थे। कजाकों और रूसियोंको इस तरह अलग-अलग रक्वा गया था। कि यह एक-दूसरेके साथ अभी विचारों द्वारा भी सहयोग नहीं कर पाते थे। लेकिन, ताशकन्दमें लालझंडा गड़ जतनेपर सन्तनदमें भी क्रांतिके लिये रास्ता साफ था। जून १९१९ ई०में पार्टीके संबंधमें लोगोंको शिक्षा देनेके स्नेल्मागेरकी लिये आया। इससे पहले वह लाल सेनामें राजनीतिक प्रचारका काम कर चुका था। फेदेरोफ १९१९ ई०में साइबेरियाके क्रांति-विरोधियोंके साथ लड़नेके लिये युद्धक्षेत्रमें चला गया था, लेकिन जब वह नवम्बर १९१९ ई०में वहांसे लौटा, तो उस समयतक सन्तनदके क्रांतिकारियोंने बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर दिया था, और किसानों और मजदूरोंमें से तीन सौसे अधिक तरुण क्रांतिके प्रचारमें पूरा भाग ले रहे थे। इस संगठनका नाम “लाल समाजवादी तरुण-संघ” था। इसके प्रचारक अब रूसी गावों और कजाक औलोंमें भी पहुंच चुके थे। इस समयतक कराकोल, पिशापेक (आधुनिक फ्रंजे) और जारकेन्द आदि नगरोंमें भी संगठन हो चुका था। “यूनी कम्युनिस्ट” (यूनि कम्युनिस्ट) पत्र भी निकलने लगा था, जिससे और जगहों में क्रांतिके लिये क्या हो रहा है, उसकी खबरें मिलने लगीं, और अल्माअता तथा सन्तनदके तरुण समझने लगे थे, हम अकेले नहीं हैं, क्रांति सब जगह सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। इसके कारण लोगोंमें उत्साह बढ़ना जरूरी था। दिसम्बर १९१९ ई०में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें रूसी और कजाक दोनों जातियोंके तरुण रायन (जिन्हे)के भिन्न-भिन्न भागोंमें आकर शामिल हुये। इसीमें ताशकन्दमें होनेवाली तुर्किस्तान-प्रदेश-तरुण-कम्युनिस्ट कांग्रेसके लिये प्रतिनिधि चुने गये। प्रदेश कमेटीके अन्दुरहमानोफ, जीय-कारोफ और कजाक तरुण भी सम्मेलन चुने गये। कजाकों और रूसियोंके बीचमें खी की गई दीवार टूट गई थी, इसलिये दोनों एक होकर काम करने लगे। यमसोफ, सदासोफ, येन्नाकोफ, यार महम्मदोफ, उमायेफ-जैसे तरुण कजाक आगे बढ़े। उस समय लेनिनवाद और मार्क्समें सद्गुणके कारण नाशका अकाल पड़ा हुआ था, जिसमें सहायता देनेके लिये तरुणोंने अन्न जमा करना प्रारंभ किया। पिशापेककी तरुण कम्युनिस्ट कमेटीने अपने कार्यालयकी छतको अन्नमें भर दिया था।

अप्रैल १९२० ई०के अन्तमें प्रथम सन्तनद तरुण कम्युनिस्ट कांग्रेस हुई, जिसमें अल्माअता, पिशापेक, फ्रंजे, जारकेन्द और कराकलके प्रतिनिधि शामिल हुये। इन प्रतिनिधियोंमें दस कजाक थे। एक मालके भीतर ही दुसरी कांग्रेस हुई, जिसमें सभी तरहकी तथा बहुतेसे औलोंके भी एक सौ पचास तरुण शामिल हुये।

अल्माअताके अतिरिक्त कजाक भूमिमें किजिलओर्दा (अनपूर्व पेरोव्स्की), कजालिन, तुर्किस्तान शहर, औलियाअता आदिमें क्रांतिके पक्षपातियोंने सबसे पहले अपने संगठन मजबूत किये। १९१८ ई०में ताशकन्दमें जो कांग्रेस हुई थी, उसमें किजिलओर्दाके तीन प्रतिनिधि शामिल हुये थे। १९१८ ई०में यहांके अधिकांश पार्टी-मेम्बर वन्दुकें लेकर युद्धक्षेत्रमें क्रांति-विरोधियोंसे लड़ने चले

गये थे। १९१८ ई०के अन्ततक किजिलओर्दाकी पार्टीमें चार सौ मेम्बर थे, जिनमें दो सौ रूसी और दो सौ कजाक थे। राजनीतिक जागृतिके साथ-साथ कजाकोंमें पढ़नेके लिये ज्यादा उत्साह होना स्वाभाविक था, जिसके लिये कजाक भाषामें पुस्तकें और पत्र छापे जाने लगे।

कजालिनमें बोल्शेविकोंका पहला संगठन जून १९१८ ई०में हुआ। यहांके लोगोंको भी क्रांति-विरोधियोंके साथ लड़कर अपनी निष्ठाका परिचय देना पड़ा।

तुर्किस्तान शहरमें नगरकी कम्युनिस्ट पार्टीका संगठन पहलेपहल अप्रैल १९१८ ई०में हुआ, और औलियाअतामें वह उसी सालके अगस्तमें। औलियाअताकी पार्टीमें सालके अन्ततक एक हजार कजाक मेम्बर थे। वामपक्षी क्रांतिकारी समाजवादी पहले पार्टीके साथ सहयोग देते रहे, लेकिन पीछे उन्होंने विरोध शुरू कर दिया, और इस प्रकार वह क्रांतिसे भी दूर हो गये।

अल्माअताके बारेमें हम पहले कह चुके हैं। तरुणोंके संगठनके बाद जनवरी १९१८ ई०में वहां पार्टीका संगठन हुआ। अगस्तमें कराकुल, जुलाईमें जारकेन्दमें भी संगठन हुये।

४. सोवियत-शासनकी स्थापना

१९१८ ई०में मध्य-एशियामें सोवियतका शासन स्थापित हो चुका था, और उसी सालके अप्रैल-में ताशकन्दमें प्रदेश-सोवियतोंका सम्मेलन हुआ। इसीमें तुर्किस्तान स्वायत्त सोवियत गणराज्यका निर्माण हुआ, जिसमें अल्माअता, औलियाअता (जम्बुल), दक्षिण-कजाकस्तान, और किजिल-ओर्दाके जिलोंको मिलाकर कजाक-सोवियत-समाजवादी-गणराज्यकी स्थापना हुई, और कजाक भाषाको गणराज्यकी मुख्य भाषाके तौरपर स्वीकार किया गया। वसन्त १९१८ ई०से १९१९ ई०की समाप्ततक कजाकस्तानमें भीषण गृहयुद्ध होता रहा। क्रांति-विरोधी रूसी और कजाक दोनों ही तरुण सोवियत सरकारको उखाड़ फेंकनेके लिये हर तरहकी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका संघर्ष जितना ही सख्त होता गया, उतना ही रूसी सर्वहाराका कजाक सर्वहारासे भातृभाव दृढ़ होता गया, और रूसी क्रांतिकारियोंने अपने आचरणसे दिखला दिया, कि सर्वहाराके राज्यमें काले-गोरेका कोई भेद नहीं है। गृहयुद्धके समय १९१८ ई०की जुलाईके आरम्भमें कई भागोंको क्रांति-विरोधियोंने छीन लिया था, तो भी अल्माअता, जम्बुल, दक्षिण-कजाकस्तान, किजिलओर्दा, अक्युबिन्स्कके जिले सोवियत शासनमें रहे। १९१९ ई०में क्रांति-विरोधी जनरल कोलचेकसे आखिरी लड़ाई हुई, जिसमें कजाकस्तानके क्रांतिकारियोंने पूरी तौरसे भाग लिया। कोलचेकके हारनेके बाद ४ अप्रैल १९१९ ई०को कजाकस्तानकी सोवियतोंकी कांग्रेस हुई, जिसमें किर्गिजोंके बारेमें भी विचार करके किर्गिज क्रांतिकारी कमेटी संगठित की गई। अभीतक किर्गिज और कजाक दोनों एक ही गणराज्यमें थे, बल्कि यह कहना चाहिये, कि मध्य-एशियाकी सभी जातियां अभी एक तुर्किस्तान स्वायत्त गणराज्यमें मानी जाती थीं। लेकिन आगे जातिश्रेणिके आत्मनिर्णयके सिद्धान्तके अनुसार किर्गिजोंको भी अपने स्वतंत्र गणराज्यके कायम करनेका अवसर मिला। बोल्शेविक-क्रांतिने सोवियत संघके क्षेत्रफलमें दूसरे नंबरके सबसे बड़े गणराज्य कजाकस्तानको स्थापित किया। अनेक पंचवर्षीय योजनाओंने कजाकोंके आर्थिक और सांस्कृतिक तलको बहुत ऊंचा कर दिया। इर्तिश नदीके जलको ध्रुवीय समुद्रसे हटाकर दक्षिणकी ओर मोड़नेकी जो विशाल योजना बनाई जा रही है, उसके कारण तो मनुष्य अपनी महान् शक्तिका उपयोग करके इस भूमिको एक-दूसरा ही रूप देने जा रहा है।

स्रोत-ग्रंथ

१. History of Civil War in U. S. S. R (2 vols., G. F. Alexandrov and others, Moscow 1946)

२. History of U. S. S. R. (Ed. A. M. Pankratova, Moscow 1947)

३. रेवोल्युत्सिया व् स्वेदनेइ आज़िइ (ताशकन्द, १९२९)

४. द्वादत्सत् लेत् कजाखस्ताना (लेनिनग्राद १९४०, पृष्ठ ७-१५)

किर्गिजस्तानमें क्रांति

१. किर्गिज

किर्गिजस्तान मध्य-एशियाके सबसे ऊँचे पहाड़ों त्यानशान्का देश है। यहींपर सात हजार मीटरसे भी अधिक ऊँचे लेनिस्क और खानतिगरीके सनातन हिमाच्छादित पर्वतशिखर हैं। इसकी कितनी ही हिमानियां ८० किलोमीटर (६० मीलसे ऊपर) लम्बी हैं, और मध्य-एशियाकी सबसे बड़ी नदियां सिर-दरिया, आमू-दरिया (बक्षु), चू, तलस और जरफशां यहींसे निकलती हैं। हमारे यहांके हिमालयके सबसे अधिक सुन्दर दृश्य यहां देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्यके अतिरिक्त किर्गिजस्तान (किर्गिजिया)में कोयला, पेट्रोल, रांगा, सुरमा, सोना, चांदी आदि धातुओंकी बड़ी-बड़ी खानें हैं। चू-उपत्यका, फरगाना, तलस-उपत्यका और इस्सिक्कुलकी द्रोणी-जैसी खेती और बागबानीके लिये बहुत ही उर्वर भूमि यहांपर मौजूद है। प्रकृतिने इतना समृद्ध इस भूमिको बनाया था, लेकिन यहांके निवासी किर्गिज बोल्शेविक-क्रांतिसे पहले मध्य-एशियाकी सबसे पिछड़ी हुई जातियोंमेंसे थे, और घुमन्तू तथा अर्ध-घुमन्तू रहते अपने भेड़-बकरियों तथा घोड़ों-ऊंटोंको लिये जगह-जगह चराते फिरना ही उनकी जीविकाका साधन रखते थे। जारशाही शासन यद्यपि १९वीं शताब्दीके उत्तरार्धके शुरू हीमें स्थापित हो गया था, लेकिन उसने यहांके लोगोंको चूसना छोड़ और कोई काम नहीं किया।

किर्गिज साइबेरियामें मध्य-एशियामें सबसे पीछे आनेवाली जातियोंमेंसे हैं। घुमन्तू होनेकी वजहसे उनके लिये पूर्वमें इतिश और पश्चिममें वोल्गाको भी अपनी विचरणभूमि बनाना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन मूलतः यह अल्ताईके उत्तर-पूर्वके रहनेवाले थे, जहांपर उनके भाई-बन्द खकाश अब भी रहते हैं। अलाताउ १७१६-१९ ई०में ओब और इतिशके बीचकी भूमिके रूसके हाथमें चले जानेके समय इनको अपनी मूलभूमिमें हटना पड़ा, नहीं तो पन्द्रह सौ मीलतक साइबेरियाकी दक्षिणी सीमा किर्गिजोंकी भूमिमें मिलती थी। घुमन्तू किर्गिज लूट-मार किया करते थे, जिसके कारण रूसी बस्तियोंको खतरा रहता था, इसलिये रूसियोंने इन्हें तितर-बितर करना आवश्यक समझा। किर्गिजोंकी परम्पराके अनुसार इनके किसी पौराणिक खान अलशने इन्हें तीन ओर्दुओंमें बांटा था, जिनमें महा-ओर्दू बल्काश महासरोवरके आसपास सप्तनद और चीनी तुर्किस्तानमें घूम करता था, मध्यओर्दू अरालके उत्तर-पूर्वी तटपर और लघु-ओर्दू तोबोल नदी और अरालके बीचमें पञ्चारण करता था। रानी अन्ना (१७३०-४० ई०)के शासनकालमें मध्य-, लघु-ओर्दूका महा-ओर्दूके साथ-झगड़ा हुआ। बाकी दोनों ओर्दुओंने महा-ओर्दूसे अपनी रक्षाके लिये १७३२ ई०में रूसमें अधीनताके लिये प्रार्थना की। इससे बढ़कर जारशाहीके लिये और अवसर क्या मिलता? ऑरेनबुर्गका व्यापारिक नगर इस वक्ततक स्थापित हो चुका था। मध्य और लघु-ओर्दूके हाथमें आ जानेपर साम्राज्यके बढ़ानेमें बड़ी सहायता मिली, और इसके बाद मध्य-एशिया और ईरानकी सीमातक पहुंचना रूसके लिये आसान हो गया। १८२२ ई०के राजादेशके अनुसार किर्गिज लघु-ओर्दूको ऑरेनबुर्गकी सरकारमें डाल दिया गया, और मध्य-ओर्दू या पश्चिमी किर्गिजोंकी भूमिको पश्चिमी साइबेरियाके प्रदेशमें। किर्गिजोंको रूसका बल मिलनेसे, अब वह बुखारा, खीवा या खोकन्दकी पर्वाह नहीं करते थे, और उनके कारवांको लूटा करते थे। यही नहीं, वह रूसी कारवांको भी लूटनेसे बाज नहीं आते थे। इसके लिये रूसको कई

सैनिक गढ़ियां बनानी पड़ीं। किर्गिज रूसियोंको लूटते तो दक्षिणवाले खान उनकी सहायता करते और खानोंसे झगड़ा होनेपर वह रूसकी शरण लेते। वह रूसी नर-नारियोंको भी गुलाम बना कर मध्य-एशियाके बाजारोंमें बेच दिया करते थे।

किर्गिज जातिका निर्माण—किर्गिजोंका ऐतिहासिक विकास—निम्न प्रकार हुआ :

काल	त्वानशान	पामीर
ई०पू० २५००	शक	आर्य
" १५००	शक	सोग्दी
" ७००	शक	सोग्दी
" ५५०	शक	सोग्दी
" २०६	शक	सोग्दी
" १३०	शक-हूण	सोग्दी
ईसवी १००	हूण-शक	सोग्दी
" ५५७ तुर्क	तुर्क	सोग्दी
" ६७३ अरब	तुर्क	ताजिक
" ८९२	तुर्क	"
" १२२०	तुर्क	"
" १५००	किर्गिज	"
" १७४७	किर्गिज	किर्गिज-ताजिक
" १८६५	किर्गिज-रूसी	किर्गिज-ताजिक
" १९१७	किर्गिज	किर्गिज-ईरा०
" १९४७	किर्गिज	

२. १९१६ ई०का विद्रोह

वर्तमान कजाकस्तानकी भूमिमें कई जगह बिखरे हुये किर्गिज कजाकोंमें मिल गये, बाकी भी बोलशेविक-क्रांतिके बाद कितने ही दिनोंतक कजाकोंमें सम्मिलित थे। जब पता लगा, कि किर्गिजोंकी संस्कृतिमें कुछ अपनी विशेषताएं हैं, इस पर जातियोंके आत्मनिर्णयके सिद्धान्तके अनुसार उनका गणराज्य बना। १९१६ ई०में कजाकोंमें भी जबर्दस्त विद्रोह हुआ था, लेकिन किर्गिजोंका विद्रोह उनसे भी बढ़ा हुआ था, जिसके कारण पहले जहां जारशाहीको बहुत क्षति उठानी पड़ी, वहां बादमें किर्गिजोंको भी जारशाहीके भयंकर अत्याचारोंका सामना करना पड़ा।

विद्रोहके कारण—एशियामें अपने राज्यका विस्तार अंग्रेजों और रूसियों दोनोंने किया, लेकिन दोनोंके ढंगोंमें अन्तर था। अंग्रेज हिन्दुस्तानसे बहुत दूरके वासी थे, वह अपनी जन्मभूमिसे समुद्रके रास्ते ही संबंध स्थापित रख सकते थे। पर, एशियासे रूसकी भूमि मिली हुई है। रूसी झंडेके आगे बढ़नेके साथ-साथ जहां रूसी सैनिक-असैनिक अफसर, व्यापारी और जमींदार आगे बढ़कर अच्छे-अच्छे पदों और भूमिपर अधिकार करते थे, वहां रूसी किसान और मजदूर भी अपने-अपने गांव बसानेमें लग जाते थे। यह रूसी गांव आत्मरक्षाके लिये रूसकी सेनाका एक अंग बने हुये थे। रूसी अफसर अपने किसानों-मजदूरोंका सब तरहसे विशेष ख्याल रखते थे, और स्थानीय लोगोंकी उपयुक्त जमीनको किसी-न-किसी बहाने छीनकर रूसियोंको दे देते थे। १८७४ ई०में पहिले पहिल सप्तनद और पासकी भूमि (पिशपेक, औलियाअता, चिमकेन्द आदि जिलों)में रूसियोंके गांव बसाने शुरू हुये, जो तेजीके साथ आगे बढ़ते स्थानीय लोगोंकी पैतृक-भूमियोंपर हाथ साफ करते रहे। वर्तमान शताब्दीमें १९१५ ई०तक १८ लाख एकड़ (७१२०८९ हेक्टर) भूमि केवल पिशपेकके जिलेमें किर्गिजोंके हाथसे छिन गई। उसी साल किर्गिजोंवाले फरगानाके इलाकेमें ८०००० हेक्टर जमीन छीनकर रूसी किसानोंको दे दी गई। पर इतनेसे भी संतोष नहीं हुआ, और

९ जुलाई (२५ जून) १९१६ ई०को (प्रथम विश्वयुद्धके समय) जारने जलेपर नमक छिड़कते हुए एक राजादेश निकाला, जिसके अनुसार किर्गिजों और दूसरी एसियाई जातियोंको जबर्दस्ती सैनिक सेनाके पीछे काम करनेके लिये भर्ती किया जाने लगा। किर्गिजोंने कौन-सा सुख जारशाही शासनमें पाया था, कि वह सेनाके पीछे कुलीका काम करनेके लिये अपनी जन्मभूमि छोड़ दूर देशमें जाते? उन्हें यह भी क्या विश्वास था, कि वहां जाकर कुलीका काम करना पड़ेगा या सिपाही बनकर मरना पड़ेगा। इस राजादेशके निकलनेपर मध्य-एसियाकी सभी जातियोंमें तहलका मच गया। किर्गिज सबसे ज्यादा शोषित, थे क्योंकि ये सबसे पिछड़े हुये घुमन्तू पशुपाल थे; लेकिन जारने इनके मनापों (सरदारों)को अपने हाथमें कर रक्खा था। धनी मनाप जारशाही-का विरोध करके पहले देख चुके थे, कि इससे वह रूसके जूयेको हटा नहीं सकते। इस समय सारा तुर्किस्तान एक रूसी प्रदेश था, जिसमें तयानशान्के पहाड़ों—सप्तनदसे ताशकन्द लेते अराल समुद्र तकके इलाके भी सम्मिलित थे। तुर्किस्तानका महाराज्यपाल करोपत्किन था और सेना अध्यक्ष फोल्बोम बेर्नी (अल्माअता) का सैनिक सेनापति था।

राजादेश निकलते ही लोगोंने उसके प्रतिरोधके बारेमें सोचना शुरू किया। ११ (२४) जुलाईको जारकेन्तके किर्गिजों और कजाकोंने इसके प्रतिरोधके लिये अपनी सभायें कीं। किर्गिजों-कजाकोंके भीतर दुंगान (चीनी मुसलमान) भी रहते थे, जो अधिकतर धनी बनिये और महाजन थे। किर्गिजों-कजाकोंमें अशांतिके लक्षणको देखकर सबसे पहले २६ (१३) जुलाईको उन्होंने चीनी इलाकेकी ओर भागना शुरू किया। ५ अगस्त (३० जुलाई)को पिशपेक जिलेके किर्गिजों-ने विरोध-प्रदर्शन किया।

६ (१९) अगस्तको पिशपेक जिलेके अतेकिन इलाकेमें किर्गिजोंने पहले पहल सशस्त्र विद्रोह आरम्भ किया। उसी दिन बतबयेफ इलाकेके किर्गिजोंने भी विद्रोह कर दिया।

७ (२०) अगस्तको तोकमकके किर्गिजोंने हथियार उठाया, उसी दिन सरीवागिसेफ इलाके-वालोंने भी विद्रोहका झंडा फहरा दिया।

९ (२२) अगस्तको कराकेचिन, जम्बल्, उरमान जोजिन, पोचकर, आबेलदिनके इलाकोंमें विद्रोह फैल गया।

१० (२३) अगस्तको पिशपेक जिलेके बेलोवद्स्क इलाकेके किर्गिज विद्रोही हुये। उसी दिन जमानसरतोफ, तलेउबेदिन, बाकिन, तलदीबुलाकके इलाकोंमें बगावत हो गई, और औलिया-अताके करालतिन इलाकेके किर्गिज भी विद्रोहमें शामिल हो गये।

११ (२४) अगस्तको प्रभेवाल्स्क जिलेके मारिन्स्क गांवके दुंगान (चीनी, मुसलमान) भी विद्रोहमें शामिल हुये।

१२ (२५) अगस्तको प्रभेवाल्स्कके जेलखानेमें बंदियोंपर रूसियोंने गोली चलाई, जिसमें उनसठ किर्गिज मारे गये और बहुतमे घायल हुये।

१३ (२६) अगस्तको तोकमकमें किर्गिजोंपर रूसी सेनाने प्रहार किया, उसी दिन बेलोवद्स्कमें भी विद्रोहियोंको सैनिकोंने दबानेका प्रयत्न किया, और १३८ किर्गिज मारे गये।

१४ (२७) अगस्तको किर्गिजोंने तोकमकको घेर लिया।

२२ अगस्त (४ सितम्बर) को रूसियोंने तोकमकमें किर्गिजोंपर प्रहार करके उन्हें तितर-बितर कर दिया।

१६ (२९) अबतूबरतक रूसी विद्रोहपर काबू पा सके।

इस विद्रोहमें किर्गिजोंके मनाप (धनी) अधिकतर जारशाहीके साथ रहे और सबसे ज्यादा आगे किर्गिज जनसाधारण थे। कितना भीषण जनसंहार हुआ, यह इसीसे मालूम होगा, कि विद्रोहसे पहले जहां ६२३४० किर्गिज रहते थे, उसी जगह जनवरी १९१७ ई०में उनकी संख्या २०३६५ रह गई, अर्थात् ४१९७५ आदमी मारे गये, कितने ही जगहोंपर ६६% किर्गिज मारे गये। इस अत्याचारके मारे यदि बहुत भारी संख्यामें किर्गिज भागकर चीनी इलाकेमें चले गये, तो इसमें आश्चर्य क्या? कुरोपत्किनने इस मौकेसे फायदा उठाते हुये चाहा था, कि किर्गिजोंकी छोड़ी भूमिमें

रूसियोंको बसा दिया जाय। लेकिन, किर्गिजोंके विद्रोहको दबाते देर नहीं हुई, किं जारशाही ही खतम हो गई। यद्यपि उसका स्थान लेनेवाली पूंजीपतियोंकी करेन्स्की-संरकारने पुरानी नीतिको जारी रखना चाहा, लेकिन उसे भी सात महीनेके भीतर ही खतम हो जाना पड़ा।

जैसा कि अभी बतलाया, उस समय किर्गिज कजाकोंसे अलग नहीं समझे जाते थे, और सप्तानद तथा सिर-उपत्यकाके कजाकोंकी तरह किर्गिज भी तुर्किस्तान-प्रदेशके माने जाते थे। इसलिये विद्रोहके बाद जो घटनायें घटीं और स्थितियोंमें जिस तरह परिवर्तन हुआ, वह वही था, जो कजाकस्तान-उजबेकिस्तानमें हुआ। जब बोल्शेविक-क्रांतिने किर्गिज भूमिमें कदम रखा, उस समय वहाँके किर्गिज धनी पहले हीसे धनी रूसियोंके समर्थक हो चुके थे।

किर्गिज शिक्षा और संस्कृतिमें बहुत पिछड़े हुये थे, जिसके कारण राजनीतिक तौरसे भी उनका पिछड़ा होना स्वाभाविक था। इनकी भूमिमें ओश, उज्जेंद, पिशपेक, प्रभेवाल्स्क जैसे कुछ नगर थे, लेकिन वहाँपर भी किर्गिजोंकी अपेक्षा दूसरोंकी संख्या या प्रभाव अधिक था। ताशकन्दमें बोल्शेविकोंके आ जानेके बाद, किर्गिज भूमिके कस्बोंमें भी क्रांति फैलने लगी। यहाँके रूसियोंमें अधिकतर मेन्शेविक और एस्.एर्. (समाजवादी क्रांतिकारी) ही जारशाहीके विरोधी थे, और वह पुराने आर्थिक ढाँचेमें नाममात्रका परिवर्तन करना चाहते थे, तथा एशियाइयोंको समानताका अधिकार देनेके पक्षपाती नहीं थे। ओशमें दिसम्बर १९१७ ई०में दो सौसे अधिक एस्.एर्.के सदस्य थे, जब कि बोल्शेविकोंको अंगुलियोंपर गिना जा सकता था। पिशपेक (आधुनिक किर्गिज-राजधानी फुजे)में मार्च १९१८ ई०में अब भी एस्.एर्.का प्रभाव था। लेकिन जब बोल्शेविकोंके उद्देश्यका पता लगा, तो गरीब किर्गिजोंने बड़ी तेजीके साथ आगे बढ़कर उनका साथ देना शुरू किया। वह देखते थे, कि बोल्शेविक दिलसे और व्यवहारसे भी समानताके पक्षपाती हैं, सचमुच वह गरीबोंके राज्यको कायम करना चाहते हैं। क्रांति सफल हुई। आगे १९२६ ई०में किर्गिजोंकी भूमिका अलग स्वायत्त गणराज्य कायम हुआ, जिसे १९३६ ई०में स्वतंत्र गणराज्यके तौरपर सोवियत संघका अंग बननेका मौका मिला।

किर्गिजिस्तानका क्षेत्रफल ७८००० वर्गमील तथा जनसंख्या इस वक्त पन्द्रह लाखसे ऊपर है। आज वह मध्य-एशियाकी सबसे पिछड़ी जाति नहीं है, बल्कि रूसियोंकी तरह आगे बढ़ी हुई जाति है।

स्रोत-ग्रंथ

१. रेवोल्युत्सिया ब्रसेद्नेइ आजिइ (ताशकन्द १९२९)
२. किर्गिजिया (व. वित्कोविच, १९३८)
३. वोस्तानिये १९१६ गदा व किर्गिजिस्ताने (ल. व. लेस्नोइ, मास्को १९३७)
४. किर्गिजिया (त्रुदी पेवोइ कान्फेत्सिइ, लेनिनग्राद १९३४)
५. तुर्कैस्तान्स्को वोयेन्नओ ओक्रुग् (जिल्द १, पृष्ठ ३३८-५१)
६. तेमिर (उपन्यास, तो तुगेल्वाइ सिदिकवेकोफ् अनु० व. रोझदेस्त्वेन्स्की, लेनिनग्राद, १९४७)
७. History of civil war in U. S. S. R. (2 vol., G. F. Alexandrov and others, Moscow 1946)

ताजिकिस्तान में क्रांति

१. सोगिदियोंके वंशज

हम देख चुके हैं, कि किसी समय सिर-दरियासे वक्षु-दरियातक, पामीरसे कास्पियन तटतक सोगद और ख्वारेज्मकी ईरानी जातियां बसती थीं, जिनके समयमें यहांका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास बहुत हुआ। ईसाकी पांचवीं सदीतक यद्यपि शक और हेफ्ताल-जैसी जातियां बाहरसे आकर इस भूमिमें बसती गईं, किन्तु वह हिन्दी-यूरोपीय जातिकी होनेकी वजहसे इनके भीतर आसानीसे घुल-मिल गईं और पुरानी सांस्कृतिक परम्पराके आगे चलते रहनेमें बाधक नहीं हुईं। छठी शताब्दीमें तुर्क मंगोलाघित भाषा और मुखमुद्रा लिये यहां आये, जिन्होंने भी यद्यपि मुखमुद्रामें कुछ परिवर्तन किया, लेकिन सांस्कृतिक तौरसे बहुत भेद नहीं पैदा किया। ७वीं सदीका अन्त होते-होते अरब इस भूमिमें छा गये, और कुछ ही समयमें यहांके सभी लोग मुसलमान हो गये। लेकिन पुराने सोगिदियोंने अपने संघर्षको जारी रक्खा, इसका परिणाम यह हुआ, कि अरब-शासकों और उनके अनुचर खुरासानी मुसलमानों ने सोगदी वीरों और उनकी भाषाको दुर्गम पहाड़ोंमें शरण लेनेके लिये मजबूर किया। १९वीं सदीसे बहुत पहले ही पुराने अन्तर्वेदकी भाषा तुर्की हो गई, केवल शहरों और कुछ गांवोंके रहनेवाले सर्त या ताजिक ईरानी भाषा बोलते थे, लेकिन यह ईरानी भाषा सोगदी नहीं, बल्कि खुरासानी मुसलमानोंके साथ आई उनकी फारसी थी। पहाड़ोंमें भाग गये सोगिदियोंके पीछे एकके बाद एक दूसरे भी फारसीभाषी शरणार्थी आते रहे, जिनके कारण धीरे-धीरे सोगदी भाषाका स्थान वहां भी फारसीकी स्थानीय बोली ताजिकी लेती गई। आज तो पुरानी सोगदी भाषाकी बोली गलचा या यग्नाबी केवल जरफशांकी एक शाखा यग्नाब नदीके किनारेके कुछ थोड़ेसे गांवोंमें रह गई है। वहांपर भी ताजिकी भाषा कितनी घुस गई है, यह १९३४ई०के वहांके गांवोंके आंकड़ोंसे मालूम होगा:—

ग्राम	यग्नाबी	ताजिक
नवाबाद	१५१८	६३४
यग्नाब	६४०	१७७०
दोनों गांवोंमें	२१५८	२४०४

इस प्रकार पुराने सोगिदियोंकी भाषा और उनके प्राचीन समाजके कुछ अवशेष वर्तमान ताजिकिस्तान गणराज्यमें जरफशां नदीकी शाखा यग्नाब और बरजाबके किनारेके कुछ गांवोंमें अब मौजूद हैं। सोवियत शासनके स्थापित होनेके बाद इन प्राचीन सांस्कृतिक अवशेषोंके जांच-पड़तालकी काफी कोशिश की गई। रूसी वैज्ञानिकोंने वहांपर प्राचीन संघवादी पारिवारिक जीवनके चिह्न पाये। कितने ही गांवोंमें कई परिवारोंके रहने लायक एक-एक घर उन्हें मिले, जिनकी बड़ी-बड़ी शालायें केवल यग्नाबियोंमें ही मिलतीं। कोकतेपा, जूमान, गराब, आबेसफेद-जैसे कितने ही गांवोंको उन्होंने देखा। देहबुलन्द ऊपरी यग्नाबमें सामूहिक परिवारोंका आलाखाना और मेहमानखाना इस बातका प्रमाण था।

यग्नाबी भाषा—यग्नाबी भाषाको कोई-कोई ईरानी और भारतीय आर्यभाषा-वंशोंसे अलग बतलाते हैं, लेकिन यह बात सही नहीं मालूम होती। वस्तुतः सोगदीकी पुत्री यग्नाबी ताजिकी और पारसीसे कितनी ही बातोंमें अन्तर रखते भी ईरानी-भाषावंशकी ही है। सोवियतके भाषा-शास्त्रियोंने यग्नाबी भाषाके बहुतसे नमूने कहानियों आदिके रूपमें जमा किये हैं। बाइस वर्षीय इब्राहिम सफर

द्वारा कही गई एक जनकथाका कुछ अंश हम यहांपर देते हैं। गांवके 'मेहमानखाने' (सामूहिक घर)में जमा हो ऐसी कहानियोंके कहनेका यगनाबियोंमें बहुत रवाज है* :—

इकम्पिरओइ । ईकल् जू तश् ओइ । के ई मेत् कलि व अवोफ—“अने दाँदो-त् बिसियार पैदागर खोइ । यक् तंग अवारिस्त सत् तंगा अकून अउर् ।” के कल् यक् तंगा अनोस् अनीज अतेर अशौ इयो-कइ इ मूसफ़दे तीरक् अस्त खरे बोरा ई वुज् चि खरे दुम् बस्तगी । कल् आस्ताक् अशौ वीत पक्क अकून वूज् अनोस् अवोउ बूज् अउर कोये अखश् । तिक् अमोन अतेर अशौ मूसफ़दे अबियोर अवोव ये बाँबो वीत जाम् कुन् । अख् अगोर, अवोव अने वीत-म् ई वुज् ओइ वुज् नख । खरे अवोव इगुम् चक् दाँर मन सोउम वूज् कोवाँम् । कल् अवोव बाँबो दर वाँउ खरे लाँइ खस्चे । मूसफ़द अतेर । कल् खरे गूश दुम्-श पक्क अकून अवार ई कोये अखश् गूश दुम्-श अउर लोइ नुत् अनीदोन् के अवोव ए बाँबाँ वाँऊ खरे लोइ अखश् ।

(एक बुढ़िया थी । उसका एक दुष्ट लड़का था । एक दिन उसने अपने दुष्ट लड़केको कहा—“तेरा बाप बहुत पैदा करनेवाला था । एक तंगा ले जाता और अभी सौ तंगा ले आता ।” फिर दुष्ट लड़का एक तंगा लेकर बाहर गया । एक जगह एक गदहेके ऊपर सवार एक श्वेतकेश (बूढ़े)को आते देखा, गदहेकी दुममें एक बकरी बंधी हुई थी । दुष्ट लड़का आहिस्तेसे गया, और रस्सीको काटकर बकरीको ले गया । . . . पीछे बूढ़ेको आकर कहा:—“हे बाबा, रस्सी समेट लो ।” उसने देखकर कहा—“मेरी रस्सीमें बकरी थी, किन्तु बकरी नहीं है ।” दुष्ट लड़केने कहा—“जल्दी जाओ बाबा . . . ।” बूढ़ा चला गया । दुष्ट लड़केने गदहेके दुम और कानको काट लिये । फिर आकर उसने बूढ़ेसे कहा—“हे बाबा, चलो, गदहा कीचड़में फंस रहा है ।” बूढ़ा चला गया ।)

इस भाषाको देखनेसे मालूम होगा, कि फारसी समझनेवालेके लिये भी इसका समझना मुश्किल है । एकके लिये यहां ई और थीके लिये आई शब्दका प्रयोग हुआ है । दिनके लिये मेरका शब्द पुरानी सोन्दीमें 'मुद' था, जिसका फारसीमें कहीं पता नहीं । इसी प्रकार गदहेकी पूँछके लिये दुमे-खरकी जगह खरे-दुम (खर-पुच्छ) आया है । हिन्दीकी समीपता देखनेके लिये यगनाबी भाषाके गरीब ताजिक “करके” (करके) रोद्-के (रोकर) शब्दोंको भी देखें । †

बुखारा और खोकन्दके पिछले इतिहासके बारेमें लिखते हुये हम बतला चुके हैं, कि ताजिकिस्तानका पहाड़ी प्रदेश कभी अलग-अलग छोटे-छोटे सामन्तोंके स्वतंत्र राज्योंमें बंटा रहता और कभी उसे खोकन्दके मदली खान-जैसे बाहरी शासकोंके अधीन बनना पड़ता । यह पहाड़ी इलाका अपनी खनिज और दूसरी सम्पत्तियोंको रखते हुये भी उस समय बहुत गरीब था । यहांके लोग सुन्नी मुसलमान थे, इसलिये उनके लड़के-लड़कियोंको गुलाम बनाकर बेचा नहीं जा सकता था । तो भी अपने सौंदर्यके लिये प्रसिद्ध यहांकी लड़कियोंकी अमीर और उसके सामन्तोंके हर्मोमें बड़ी मांग थी । यहांके पुरुष मजदूरी करनेके लिये बुखारा, समरकन्द, खोकन्द आदि शहरोंमें चले जाते । पुरुष जब वर्षोंके वास्ते रोटीके लिये धक्का खाने चले जाते, तो उनकी स्त्रियां बेचारी घर और खेतीको संभाले बाट जोहा करतीं । इस समयकी अवस्थाका वर्णन बहुतसे लोकगीतोंमें पाया जाता है । एक लोकगीतमें कहा गया है :—

बुलबुल बागमें रोती हुई आई,
गुलाबकी सूखी डालीपर जाकर बैठी ।
बुलबुल अपने मुंहसे बोली—
“यह वियोगका घाव कितनोंके दिलपर है ।”

× × ×

*“त्रुदि ताजिकिस्तान्कोइ बाज़”, इस्तोरिया-यज़ीक लितेरतुरा (अकदमी नाउक सससर १९४० मस्क्वा)

† कितनी ही बातोंमें फारसी या ताजिकीसे विलक्षण है, यह उसके गाउ (गाय) कुतर (कुत्ता) और ओरता (आटा) शब्द भी बतलाते हैं ।

जगत्के कर्ता तेी विचित्र महिमा,
तेरे बन्दे सोये और तू खुद जागा ।
अमृत-भोजन दुनियाके सामने फेंककर,
चुगने और जानेका तू तमाशा देखता,

× × ×

अपने सफेदेके लिये अपनी हरनीको खोया,
लोगोंके द्वारपर अपनेको फेंका ।
लोग कहते कि तू दीवाना हुआ,
दीवाना हूँ, क्योंकि मैंने अपनी प्रियाको खोया ।

× × ×

हे पथिक, किसीके साथ मैं नहीं हूँसी,
न केश धोया न कूर्ता पहना ।
बहुतेरे कारवां आये, पूछनेपर
उन्होंने कहा— “मैंने न देखा न जाना ।”

इसी अवस्थामें ताजिकिस्तानके पहाड़ी लोग अमीर-बुखाराके पूर्वी इलाके (पूर्वी बुखारा)में रह रहे थे, जब कि बोल्लेविक-क्रांति हुई ।

ताजिकिस्तान भाषाके तौरपर पुराने सोविदियोंकी विस्तृत भूमिका अवशेषमात्र है, जिसके दक्षिणी सीमांत वधु नदी और उत्तरी टेढ़ा-मेढ़ा होता सिर-दरियाके उत्तरतक पहुंच गया है। आजकल इसका क्षेत्रफल पचपन हजार वर्गमील और जन-संख्या पन्द्रह लाख है। ताजिक भाषा-भाषियोंकी बस्तियां वैसे वधुसे बहुत दक्षिण काबुल नगरके पासतक चली आई हैं, लेकिन अभी अफगानिस्तानमें रहनेवाले ताजिक उतने सौभाग्यशाली नहीं हैं, जितने कि क्रांतिकी अग्निमें तपकर निकले उत्तरी ताजिक । मध्य-एसियाकी और किसी जातिको क्रांतिके समय नरपिशाच बासमच्चियों की निष्ठुरताका उतना शिकार नहीं होना पड़ा, जितना कि कश्मीरके उत्तरी-पूर्वी सीमान्तके पासके इन पहाड़ियोंको ।

ताजिक जातिको निर्माण—ताजिकोंका ऐतिहासिक विकास निम्न प्रकार हुआ:—

काल	पामीर	क्षिर-उपत्यका
ई० पू० ४००० (मध्य-पाषाण)		फिनो-द्रविड़
” ३५००		शकार्य-द्रविड़
” ३००० (नव-पाषाण)		”
” २५००	आर्य	शक
” १५०० (पित्तल-युग)	ईरानी	श०
” ७००	ईरा०	श०
” ५५०	ईरा०	श०
” ३२६	ईरा०	श०
” २०६	ईरा०	श०
” १३०	ईरा०	हूण-श०
” १००	ईरा०	हू०-श०
ईसवी १०० (कुषाण)	ईरा०	हू०-श०
” ४२५ (हेप्ताल)	ईरा०	हूण-कंगली
” ५५७ (तुर्क)	ईरा०	कंगली-तुर्क
” ६७३ (अरब)	ईरा०	तुर्क
” ८९२ (सामानी)	ईरा०	तुर्क
” १२२० (मंगोल)	ईरा०	तुर्क

ईसवी	१५००	ईरा०	तुर्क (उज्बेक)
"	१७४७	तुर्क-ईरा०	तुर्क-उज्०
"	१८६५	ईरा०तुर्क	उज्०-ईरा०
"	१९१७	ईरा०-तुर्क	उज्०-ईरा०
"	१९४७	ताजिक	

२. बासमची-उत्पीड़न

खोकन्दके स्वायत्तियोंके हार खानेके बाद बासमचियों (जहादी डाकुओं)ने जोर पकड़ा। १९१९ ई०के वसन्तमें ओश नगर और पामीरके बीचका रास्ता सफेद रूसियों और बासमचियोंके हाथमें था, जिनका मुखिया मुखानोफ और एरगेशताम थे। पीछे कर्नल तिमोफियेफ नामक एक शाही अफसरने यहां नेतृत्व करना शुरू किया। बुखारा की कमजोरियों को देखकर अब यहांके पहाड़ी सामन्त स्वयं बादशाह बननेका स्वप्न देखने लगे। जब १९२१ ई०के फरवरीमें आलम खान (बुखारा-अमीर) दुशाम्बे होकर अफगानिस्तानकी ओर भाग गया, तो यहांके कुछ लोगोंने अफगानिस्तानके अमीरको भी राज्य संभालनेके लिये लिखा, लेकिन ताजिकिस्तानके पहाड़ोंके लिये काबुलको न उतना प्रलोभन हो सकता था, न उसमें उतनी शक्ति ही थी। हां, मीर आलम खान ताजिकिस्तानमें लूट-मार मचानेवाले बासमचियोंसे पैसा पाता और उसके बदलेमें कुछ हथियार जरूर भेज देता था। जब-तब अंग्रेजोंने भी हथियारसे मदद की, लेकिन उस वक्त असहयोग का आन्दोलन सारे भारतमें चल रहा था, जिससे अंग्रेजोंका दिमाग बहुत परेशान था, और वह बासमचियोंको खूबकर मदद देनेके लिये तैयार नहीं हो सकते थे।

(१) अनवर पाशा-अमीरके जानेके बाद एक तरफ बासमची भिन्न-भिन्न गिरोहोंमें बंटे लूट-मार मचा रहे थे, दूसरी तरफ क्रांतिकारियोंने भी गरीबोंको संगठित करनेका काम शुरू किया। लेकिन, बुखारा अभी पूरी तौरसे बोल्शेविकोंके हाथमें नहीं आया था। उनकी ओरसे जो आदमी शासनका भार देकर भेजे गये थे, वह उच्चवर्गके होनेसे अपने पुराने स्वार्थोंको छोड़नेके लिये तैयार नहीं थे, इसीलिये उन्होंने क्रांतिके साथ विश्वासघात किया। बासमचियोंमें जिस तरहके पत्र-व्यवहार हो रहे थे, उनसे उस समयकी स्थितिका कुछ पता लगेगा। एक पत्रमें मुल्लोंने लिखा था—

अमीरुल्-मोमिनीन् अल्लमल्लाह तआला

वह महाविजयी

रक्षक प्रभु सम्माननीय मीर-बी-बाबखाह, लश्करबाशीको हुआ और सलामके उपायनके बाद मालूम हो, कि हम आपके हुआ-वाचक परमभक्त आलिम (पंडित) लोगोंने सुल्तानाबादमें पुण्य ईद पर्वके समय इकट्ठा हो आपसमें मंत्रणा की। कुछ लोगोंके बारेमें हमने सुना, कि वह जनाबअली (अमीर-बुखारा) और श्रीमान्के विरोधी और बागी हैं। श्रीमान् उनके बारेमें हमें सूचित करें। जे कोई अनवरका अनुयायी है, उसे कुरान और हदीस (स्मृति)के अनुसार काफिर सिद्ध कर सभी यहां एकत्र हुये हम आलिम-फाजिल शरीअतके अनुसार कत्ल करा देंगे। जो लके (किर्गिज) ताजिक या कर्लुके अनवरका अनुसरण करते हैं, उनके बारेमें सूचित कीजिये। उनको भी शरीअतके अनुसार हम आलिम-फाजिल लोग एकत्र हो कत्ल करायेंगे। हम लोग शरीअतके अनुसार काम करेंगे। यह सब (काम) हम लोगोंके सिरपर है, यदि वह श्रीमानको उचित जान पड़े। आगे आप स्वयं भली भांति जानते हैं। अल्लसलाम् व अल्लकुम्।

पत्र भेजनेवालों की मुहर और हस्ताक्षर

मुल्ला अहमद सलीमी मुर्धारस

मुल्ला अली महपबी मुर्धारस

खलीफा मुल्ला अल अंजर मखदूम
मुल्ला तुगाय मुरादो मुर्दारस

मुल्ला अस्मतुल्ला मखदूम
मुल्ला अब्दुर्रहमान मखदूम
मखदूम महमदो तुकसाबा

इस पत्रसे मालूम है, कि उस समय अनवरपाशा इन पहाड़ोंमें अपनी भाग्य-परीक्षाके लिये आया हुआ था। प्रथम विश्व-युद्धके बाद जर्मनोंके पक्षपाती अनवरका प्रभाव तुर्कीमें उड़ गया, जब कि मुस्तफा कमाल नवीन तुर्कीका नेता हुआ। इसके कारण अनवरको तुर्की छोड़कर भागना पड़ा। कुछ समयतक वह बुखारामें रहा, फिर वहांसे भी भागकर इन पहाड़ोंमें आ गया। अनवर नवीन तुर्कीका नेता था, जिससे बुखाराके जदीदोंको भी प्रेरणा मिली थी। लेकिन बुखाराके मुल्ले जदीदोंके खूनके प्यासे थे, इसीलिये वहां अनवर और उसके अनुयायी कुछ नहीं कर सकते थे।

इन पहाड़ोंके सभी लोग क्रांति-विरोधी मुल्लोंकी तरह अन्धे नहीं थे, वह अनवरकी योग्यता और प्रभावसे पूरा फायदा उठाना चाहते थे। इसीलिये अनवरको यहांपर काफी समर्थन प्राप्त हुआ। लेकिन तो भी महत्त्वाकांक्षी बासमची तथा दूसरे सरदार अनवरकी सैनिक योग्यताको अपने मतलबके लिये इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिये स्वनिर्वाचित 'अमीर-लश्कर-इस्लाम, नायब-अमीर-बुखारा व दामाद खलीफा-मुसलमीन अनवर' को सफलता प्राप्त करनेका मौका नहीं मिला और अगस्त १९२२ ई०में बल्जुवान इलाकेके एक गांवमें ४२ वर्षकी उम्रमें वह मरा। और चगन गांवमें दफनाया गया।

(२) ईशान सुल्तान*—ताजिकिस्तानमें क्रांतिका एक और जबर्दस्त विरोधी ईशान सुल्तान था। ईशान मध्य एसियामें पीर या गुरुकी कहते हैं, जिनका कई शताब्दियोंसे वहांपर जबर्दस्त प्रभाव रहा है। १९वीं सदीमें दरवाज कला-खुम्बके शाहोंका बहुत प्रभाव था। यह अपने खानदानको सिकन्दर और दूसरे पुराने राजाओंसे मिलते थे। सीधे-सादे पहाड़ी लोगोंमें राजवंशके होनेसे इनका बहुत मान था। इन्हींके इलाकेमें १८वीं सदीके अन्तमें सागिद दरतसे डेढ़ मीलपर अवस्थित सैदान गांवमें सैयद-वंशमें एक आदमी पैदा हुआ, जो कि आगे ईशान औलिया (मृत्यु १८६७ ई०)के नामसे प्रसिद्ध हुआ। ईशान औलिया या मिर्जा रहीम पहले कन्दहारमें जाकर किसी पीर ईशान आखुनसाहेंबकी सेवामें रहा, जहां उसने ईशानोंके सभी हथकंडे सीखे। फिर लौटकर कुछ दिनों वह अपने गांव सैदानमें रहा, फिर सफेदारान और बादमें दराजमें रहने लगा। उसकी ख्याति दिन-पर-दिन बढ़ती गई और बहुतसे लोग उसके मुरीद हो गये। ईशानके लिये अमीरों और सामन्तोंकी तरह बीबी-बच्चोंके रखनेमें कोई दिक्कत नहीं थी। ईशान औलियाकी कई बीबियां थीं, जिनसे उसके सात पुत्र हुये। उनमें शेख मिर्जाको दरवाजके शाह याकूब खाने अपनी लड़की दी थी। ईशान औलियाको कई गांव बर्त-बंधानमें मिले थे। औलियाके मरने (१८६७ ई०)के बाद उसके सातों पुत्र भी ईशानगिरीसे धन और सम्पत्ति जमा करने लगे। उनमें ईशान शेख अपने समयमें इन पहाड़ोंमें बड़ा ही सम्पत्तिमान तथा प्रभावशाली आदमी था। उसके मुरीदों (चेलों)की संख्या बहुत थी, और बहुतसे गांव भी उसे मिले थे। चिहकाका, सैदानके अतिरिक्त ईशान शेखकी हवेलियां सफेदारान, याइकपस्ते, याजगंद और दरा-जूमें भी थीं। इसीका लड़का ईशान सुल्तान था, जो पूर्वी बुखाराका सबसे बड़ा धनी सामन्त था। इसका जन्म याहकपस्तेमें हुआ था, जहां दस सालकी उमरतक रहा। इसके बाद याजगन्द चला गया। जिस वक्त १९१७-१८ ई०में क्रांतिकी लहर पहाड़ोंमें पहुंची, उस समय ईशान ४५ वर्षका बहुत तजुबेकार और शक्तिशाली आदमी था। बापके बाकी भाइयोंमें सबसे बड़ा होनेसे उसका प्रभाव सबसे ज्यादा था। उसकी जागीरमें याजगन्द, याहकपस्त, यानकुर्गान आदि बहुतसे गांव थे। अमीर-बुखाराकी तरफसे वह अपने इलाकेका 'हाकिम' (सरकारी अफसर) था। ईशान सुल्तानकी धनसे भी ज्यादा धार्मिक प्रभुता थी। आसपासके इलाकोंके लोग उसकी

*"श्रुति ताजिकिस्तान्कोइ बाजि (९), इस्तोरिया-यजीक-लितेरा पुरा" (अफदमी, नाउक १९४०, पृष्ठ ३-२७)

एक दूसरेसे लड़ा अपने विश्वासघातका परिचय दिया, साथ ही इस्लामके मुजाहिदोंसे तीन सौ बन्दूकों और दो सौ मशीनगनों लेकर रुक्षियोंके साथ सुल्हकी, जिसके कि कागज-पत्र हमारे हाथ लगे।

“फरगानियों और किर्गिजोंमें झगड़ा डालकर इस्लामी मुजाहिदोंकी शक्तको निर्बल करनेकी संज्ञासे उसने रुक्षियोंके साथ मेल किया। इस तरह इस्लामी उद्देश्यको हानि पहुंचाने और लोगोंके युद्ध करनेके उत्साहको दबानेके लिये वहाँके प्रबन्धालयोंको खतम कर दिया, और इस तरह निराशा फैल गई। अल्लाके रास्तेमें लड़नेवाले मुहम्मद अकबर तुकुसाबाको (ईशानन) अपने घरमें ले जा दस्तरखानपर बँठाकर उसे कत्ल करवा दिया, उसके मालको ले बाल-बच्चोंको नंगा कर बाटका भिखारी बना दिया। इसके अतिरिक्त (उसने) कितने ही मातवर सेनानायकोंको कत्ल कराया। फिर फरगानावाले शेरमहम्मद (शेरमत) बेकीको खबर दे तुर्की और करातगिनके स्वामी फुजुलुद्दीन मखदूमको पराजित करनेका निश्चय किया। हमारे ऊपर भी उसने आक्रमण किया, लेकिन हमने सैनिक तरीकेके अनुसार उसके हमलेका मुकाबिला किया और ईशान सुल्तानकी फौजको भागना पड़ा। पहले हमने शेरमहम्मदको रोकनेके लिये चहलदरकि रास्तेको खराब किया था। ईशानने खराब रास्तेको फिरसे तैयारकर शेरमहम्मदकी फौजको रास्ता दिया और हमारी फौजको न जाने देनेके लिये रास्तेको खराब कर दिया। फिर अपने भाई ईशान सुलेमानको हमारे मुकाबिलेके लिये भेजा, इस प्रकार शेरमुहम्मदको दरवाजके रास्ते निकल जाने दिया। इसके अतिरिक्त दरवाजवाले गैरतशाह बी दादशाह, दिलावरशाह बी लश्करबाशी और कितने ही दूसरोंको कत्ल करवाया। हमारी फौजोंका पीछा करते हुये ईशान सुलेमान तबीलदर्दा और सागरदस्तमें बन्दूकवाले सैनिकोंको जमाकर शेरमुहम्मदकी सेनासे मिलकर हमारे ऊपर हमला किया। जब हम दरवाजमें थे, उसी समय दर्रासे होकर उसने क्लाखवाले महम्मद अशुरबेक बी दादशाह लश्करबाशीको कत्ल कराया। अब हमारी फौजको आगेसे घेरकर दरवाजेमें भूखे मार आत्म-समर्पण करने या अफगानिस्तान भागनेके लिये मजबूर करना चाहता है। उसकी इस तरहकी योजनायें और पत्र हमारे हाथमें आये हैं, ... इसलिये उसके इन कामों, अपराधों और विश्वासघातोंके लिये शरीयत और सैनिक कानूनके अनुसार उसे मृत्युवन्द देनेका निश्चय किया गया है ...”

२८ माह रबीउल अब्दल सन् १३४१ (२१ नवंबर १९२२ ई०)

मूहर सेनापति मुसलमान जन-सेना सामीपाशा”

लेकिन ईशान सुल्तान अनवरपाशाका बहुत कदरदान दोस्त था। अगस्तको अनवरपाशा जब मारा गया, तो इसका ईशानको बहुत भारी दुःख हुआ। अनवरके सहायक सामीपाशा (खाजा सलीम बी)का भी वह बहुत सहायक रहा। सामीपाशा १९२२ ई०के शरदमें सीमान्तपर गया, तो कलाखुमके पास उसे दरवाजेके बासमची नेताओं दिलावरशाह और हैरतशाहने पकड़ लिया। पता लगते ही ईशान सुल्तान स्वयं वहाँ गया और सामीपाशाको छुड़ाकर अपने साथ याजगन्द ले आया। ईशानने और भी घनिष्ठता स्थापित करनेके लिये याजगन्दकी एक ७-८ वर्षकी लड़कीसे सामीपाशाका ब्याह करवाया—लड़की पहले ही किसी दूसरेको दी जा चुकी थी। लड़कीके बापने इसका विरोध किया, तो उसे गिरफ्तार करवा लिया।

बोल्शेविकोंके साथ प्रतिरोधको बेकार तथा बासमची सरदारोंके आपसके विश्वासघातोंके कारण जब ईशान सुल्तानका विचार बदलने लगा, तो फुजैल और सामीपाशाने अफगानिस्तान भागनेसे थोड़ा पहले ईशानको मारनेका निश्चय किया, जैसा कि उपर्युक्त पत्रसे मालूम होगा। फिर सामीपाशाने ईशान सुल्तानको गिरफ्तार कर लिया और फुजैलके आदमियोंने उसके भाई ईशान सुलेमानको भी पकड़ लिया। यही नहीं सामीके आदमियोंने याजगन्दमें ईशानोंके घरोंको ध्वस्त कर दिया, वहाँकी सभी कीमती चीजें तथा स्त्रियोंको लूट लिया और ईशानके तीसरे भाई

शाह रहमतुल्लाको भी पकड़ लिया। इसके बाद बासमची सरदारों सामीपाशा, फुजैल और दानियाल ने तवील दरके सभी अफसरों, मुल्लों, काजियों, मुफ्तियोंको जमा करके शरीयतके अनुसार अभियोग लगाया कि ये ईशान लाल बोल्शेविकोंसे मिले हैं, इन्होंने एक बासमची सरदार अकबरको मारा। इसपर उन्हें मृत्युकी सजा हुई, और दोनों भाइयोंको १९२२ ई०की शरदमें मौतके घाट उतारा गया।

(३) फजल मकसूम—बासमचियोंके सरदार फुजैल मकसूमने १९२३ ई०में उत्तरी ताजिकिस्तानके पहाड़ोंमें लूट-पाट करते अपना दड़ शासन स्थापित कर लिया था। गरमका इलाका अच्छे समयमें भी जीविकाके लिये स्वावलम्बी नहीं था। वहाँके बहुतसे लोग नेपालियोंकी तरह फरगानामें जाकर मजदूरी किया करते थे। बासमचियोंके उपद्रवके कारण अब वह रोजी कमाने बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए सारे इलाकेमें भुखमरी फैली हुई थी, जिससे गरीबोंमें बोल्शेविकोंका प्रभाव बढ़ रहा था। इसी साल लाल सेनाने वहाँ पहुँचकर फुजैलको बुरी तरहसे हराया, जिसके बाद फुजैल फिर नहीं संभल सका। मजार गांवमें एक बार फिर उसने मुकाबिला करनेकी कोशिश की, लेकिन उसका घोड़ा मारा गया, फिर दूसरा घोड़ा लेकर वह सीधे अपने गांव मोतीनान गया, और सब तरफसे निराश होकर नकद और मालको ले उसने अपने हाथसे घरमें आग लगा दी, फिर चोपचाकके रास्ते वखेया इलाकेमें होते पंज (वक्षु) नदीके किनारे पहुँचा। रक्षियोंने पकड़ना चाहा, लेकिन वह अपने दो-तीन आदमियोंके साथ नदी पार हो अफगानिस्तान निकल जानेमें सफल हुआ।

बोल्शेविकोंने कुछ ही महीनोंमें करातेगिन, दरवाज और वखेयासे बासमचियोंका उच्छेद कर दिया। १८ जुलाई १९२३ ई०को गरम बोल्शेविकोंके हाथमें आ गया, ११ अगस्तको कला-खुम्ब (दरवाज) पर भी अधिकार हो गया, इस प्रकार ताजिकिस्तानपर क्रांतिकी विजय हुई। लेकिन अभी भी ताजिक जन निश्चित नहीं हो पाये।

(४) इब्राहीम गल्लू—बासमचियोंके सरदार पुराने डाकू इब्राहीम गल्लूने बहुत सालोंतक ताजिकिस्तानके पहाड़ोंमें लूट-पाट मचाकर लोगोंको तंग किया, लेकिन अन्तमें जून १९२६ ई० में उसे भागकर अमीरकी तरह अफगानिस्तानमें शरण लेनेके लिये मजबूर होना पड़ा। उस समय-तक वह "मुल्ला मुहम्मद इब्राहीमबेक, दीवानबेगी, तोपचीबाशी, लश्करबाशी, चक्कवे, तुकसाबा-पुत्र"की बड़ी-बड़ी उपाधियोंसे विभूषित तथा अमीर-बुखाराका नायब था।

३. ताजिकिस्तान गणराज्य

पूर्वी बुखारा या ताजिकिस्तान पहले तुकिस्तान गणराज्यका अंग था। १९२४ ई०में वह स्वायत्त गणराज्य बना और १९२९ ई०में संघ गणराज्य बनकर सोवियत संघके स्वतंत्र गणराज्योंमें से एक हो गया।

स्रोत-ग्रंथ

१. History of civil war in U.S.S.R. (2 vols., G.F. Alexandrov and others, Moscow 1946)
२. रेडियुन्सिया व् स्नेइनेइ आजिइ (ताशकन्द १९२९)
३. श्रुदी ताजिकिस्तान्कोइ बाजी : इस्तोरिया यजीक-लितेरातुरा (लेनिनग्रद १९४९)
४. सोवियत्स्कया एतनोग्रफिया (लेनिनग्रद १९३६/६, पृ० १११)
५. दाखुन्दा (उपन्यास, स० ऐनी, अनु० राहुल, प्रयाग १९४८)
६. गुलामान (उपन्यास, स० ऐनी, अनुवाद "जो दास थे" राहुल, प्रयाग १९४९)

तुर्कमानिस्तानमें क्रांति

१. तुर्कमान कबीले

तुर्कमान कबीलोंने किस तरह अपनी स्वतंत्रता कायम रखनेके लिये रूसियोंसे अंतिम लड़ाई लड़ी, इसके बारेमें हम पहले बतला आये हैं। तुर्कमानोंके मुख्य-मुख्य कबीले थे :—

१. चौदार	उस्त-उर्तमें
२. यामूद	चौदारोंके दक्षिण कास्पियन और निम्न वक्षुके बीचमें
३. गोकलान	ईरानकी सीमापर
४. तेक्के	सबसे अधिक शक्तिशाली मुर्गाब-उपत्यका और पासके रेगिस्तानोंमें
५. सरिक	मेर्वमें
६. सलार	मशाहदके पूर्व बुखाराके रास्तेमें
७. एरसारी	
८. करदाखली	बुखारा-राज्यकी सीमापर वक्षुके किनारे

आठ सौ वर्ष पहले महमूद काशगरीने और इतिहासकार रशीदुद्दीनने भी तुर्कमान कबीलोंके बारेमें लिखा है। उनके कथनानुसार पौराणिक आगूज खानके छ लड़के थे, जिनमेंसे प्रत्येकके चार-चार लड़कोंके अनुसार तुर्कमानोंके चौबीस कबीले बने। इन दोनों लेखकोंके अनुसार वह कबीले निम्न प्रकार हैं :—

महमूद काशगरी	रशीदुद्दीन
१. कीनिक	कीनिन
२. काईइग	काईई
३. बायोन्दुर	बायोन्दुर
४. ईवे	ईइवे
५. सल्गुर	सल्गुर
६. अफशर	अवशा
७. बेकतिली	केबदिली
८. व्युकद्युज	व्युकद्युज
९. बयात	बयात
१०. याजगिर	याजिर
११. येएम्युर	येइम्युर
१२. करायुल्युक	कराएवली
१३. इगदेर	ईइगदेर
१४. यूरेकी, यूरेकिर	यूरेकिर
१५. तूतिरगा	टूदुरगा

१६. उला-इओन्दलुग	उला-इओन्तली
१७. त्युकेर	द्युकेर
१८. पेचेनेत	बीजने
१९. जुवाल्दर	जावुल्दुर
२०. जेबनी	चेबनी
२१. जारूकलुग
	याचिर ली
	कारिक
	कार्किन
	तमगी

दोनों सूचियोंका एक-दूसरेसे न मिलना, यही बतलाता है, कि कितने ही पुराने तुर्कमान कबीलोंने नये नाम धारण किये और कुछ दूसरे तुर्कोंमें विलीन हो गये ।

तुर्की भाषाएं उराल-अल्ताई भाषा-जातिसे संबंध रखती हैं, जिसके भेद हैं :—

१. तुंगुस—जिसमें मंचू भाषा भी सम्मिलित है ।
२. समोयद—उत्तरी साइबेरियावालोंकी भाषा ।
३. फिन्नी—फिन (सूओमी) तथा मगयार (हंगरी) भाषा ।
४. मंगोल—इसमें खलखा, कल्मक और बुरयत मंगोलोंकी भाषाएं सम्मिलित हैं ।
५. तुर्की—इसकी एक शाखा (क) चगताई, जिसकी शाखायें उद्गुर, तुर्कमान, उज्बेक, कजानकी तारतारी भाषाएं हैं, (ख) शुद्ध तारतार-भाषा, जिसमें किर्गिज, बाश्किर और कराकल्पक भाषाएं हैं, (ग) शुद्ध तुर्क-भाषा, जिसमें ईरानी और उस्मानी तुर्कोंकी भाषायें सम्मिलित हैं । भाषाकी दृष्टिसे तुर्कमानी भाषा पश्चिमी तुर्की अर्थात् तुर्की और आजुर्बाइजानकी भाषाके समीप है ।

तुर्कमान जाति-निर्माण—तुर्कमानोंका एतिहासिक विकास निम्न प्रकार हुआ :—

काल	रक्ष।रेज्म	सेव	कास्पियन-तट
ई०पू० ५००००			मदलेन
" ४००० (मध्य-पाषाण)	फिनो-द्रविड़		फिनो-द्रविड़
" ३५००	द्र०		द्रविड़
" ३००० (नव-पाषाण)	आर्य-द्र०	आर्य-द्र०	आर्य-द्र०
" २५००	आर्य	आर्य	आर्य
" १५००	ईरानी	ईरानी	ईरानी
" ७००	शक	ईरानी	ईरानी
" ५५०	शक	ईरानी	शक
" ३२६	शक	ईरानी	शक
" २०६	शक	ईरानी	शक
" १३०	शक	ईरानी-शक	शक
ईसवी १०० कृषाण	शक	ईरा०-श०	शक
" ४२५ हेफताल	ईरानी-हूण	ईरा०-श०	श०-कंग
" ५५७ तुर्क	ईरा०-तुर्क	ईरा०	ईरा०-तुर्क
" ६७३ अरब	ईरा०-तु०	ईरा०	तुर्क
" ८९२	तु०-ईरा०	ईरा०-तुर्क	तुर्क
" १२२० मंगोल	तु०-ईरा०	ईरा०-तु०	तुर्क
" १५००	तुर्क	तुर्क	तुर्क

ईसवी १७००
" १७४७

तु०-उज्बेक
उज्बे०-तुर्क

तुर्कमान
तुर्कमान

तुर्कमान
तुर्कमान

तुर्कमान

२. लालसेना-निर्माण

करेन्स्कीकी अस्थायी सरकारको रूसी गरीबों और मजदूर-किसानोंके बलपर निकाल फेंकना आसान था, क्योंकि रूसमें क्रांति-विरोधियोंके साथ लोहा लेनेवालोंकी संख्या और शक्ति कम नहीं थी, लेकिन मध्य-एसिया और उसमें भी तुर्कमानिया बहुत पिछड़ा देश था, जहाँके लोगोंमें शिक्षा एक प्रकारसे नहीं-सी थी। जो साक्षर और शिक्षित भी थे, वह मुल्लोंके मकतबोंमें पढ़े और उन्हींके प्रभावमें थे, इसलिए अपने द्वेष और असंतोषको वह गैर-मुस्लिमोंको काफिर कहकर ही निकालना जानते थे। तुर्कमानोंमें साम्यवादका संदेश और आन्दोलन पहलेसे बिलकुल ही नहीं था। क्रांतिके बाद वह पहिले मध्य-एसियामें रहनेवाले रूसी मजदूरोंमें फैला, जिसके बाद एसियाई लोगोंमें भी घर बनाने लगा। करेन्स्कीकी सरकारको हराकर जब बोल्शेविकोंने शासन-सूत्र अपने हाथमें लिया, तो मध्य-एसियामें भी उन्हें पुराने शासकोंका स्थान ग्रहण करनेमें पहले अधिक कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ा, तो भी बोल्शेविक आनेवाले खतरेको समझते थे। ताशकन्दमें अक्टूबर-क्रांतिसे महीना भर पहले (सितम्बर १९१७ ई०में) ही रेलवे मजदूरोंने अपनेको हथियारबन्द कर लाल-गारदका संगठन कर लिया। लेकिन सैनिक के तौरपर उनका संगठन अक्टूबर-क्रांतिके संघर्षके समय ही हुआ, जब कि ताशकन्दके बहुतसे मजदूर लाल-गारदमें भर्ती हो गये। लालगारदके सैनिक ओरेनबुर्गके मोर्चेपर सफेद-जेनरल दूतोफकी सेनासे भी लड़ने गये थे, जिसने लड़ाकू कजाकोंको भी अपने साथ मिला लिया था।

ताशकन्दका अनुकरण करते हुये मध्य-एसियाके दूसरे शहरोंमें भी लाल-गारदका संगठन हुआ। उस समय तुर्कमानियाको पारे-कास्पियान (पारे-कास्पिड) कहा करते थे। पारे-कास्पियाके नगरोंमें लाल-गारदका पूरी तौरसे संगठन फरवरी १९१८ ई०में शुरू हुआ, जब कि सोवियत शासनको उखाड़ फेंकनेके लिये उत्तरसे कजाक और दक्षिणमें ईरानसे अंग्रेजोंके भाड़ेके सैनिक सफेद-रूसियोंके मददके लिये आ पहुँचे। चारजूय, तथा दूसरे पारे-कास्पियाके नगरों और स्टेशनोंके मजदूर लाल-गारदमें धड़ाधड़ भर्ती होने लगे, और वह फरवरीके अन्त (मार्चके मध्य) तक काफी शक्तिशाली हो गये। गारदने क्रांति-विरोधी कजाकोंको दबानेमें बड़ा काम किया। जब विदेशी शक्तियोंका जोर भी इस प्रदेशमें देखा जाने लगा, तो ताशकन्द और दूसरे नगरों से भी लाल-गारदके संगठनकर्ता भेजे गये। त० कजलोफके अनुसार पारे-कास्पियामें २० (७) दिसम्बर १९१७ ई०को बोल्शेविक पार्टीके सदस्योंको सम्मिलित करके लाल-गारदकी स्थापना हुई। गारदमें यूरोपीय मजदूरोंके अतिरिक्त उज्बेक, तुर्कमान, कजाक आदि स्थानीय (एसियाई) जातियोंके भी मजदूर सम्मिलित थे। जनवरी १९१८ ई०में जब मुल्लोंने शासन हाथमें लेनेका प्रयत्न किया, तो उस समय ताशकन्दके एक लाल-गारदमें केवल उज्बेक स्वयंसेवक सैनिक दो सौ थे। तुर्कमानियाम अवेज बेदी कुलियेफ-जैसे बोल्शेविकोंने लाल-गारदके संगठनको आग बढ़ाया, और दिसम्बर १९१७ ई०तक उसमें १७५ सवार तैयार हो गये। ६ दिसम्बर (२३ नवम्बर) १९१८ ई०तक तुर्कमानियाके हर नगर, हर बड़े स्टेशनपर लाल-गारदके संगठन थे। इनका काम था तुर्कमान मजदूरवर्गको हथियारबन्द कर क्रांति-विरोधियोंसे लोहा लेना और पूंजी-वादियोंसे मजदूरोंके हितोंकी रक्षा करना। पहलेपहल उन्हें ईरानसे आये क्रांति-विरोधी सैनिकों और खीवाकी ओरसे आये कजाकोंसे मुकाबिला करना पड़ा। लाल-गारद दूतोफके कजाकोंके मनोरथको भी विफल करनेमें सफल हुआ।

१९१८ई०के अन्तमें मध्य-एसियामें बोल्शेविकोंकी अवस्था बहुत खतरनाक हो गई थी। रूससे यातायातका संबंध टूट गया था। उस समय पारे-कास्पियामें (समाजवादी क्रांतिकारी) दलका जोर था और बोल्शेविक निर्बल थे। क्रांति-विरोधियोंके नेता जारशाहीके पुराने सैनिक और असैनिक अफसर थे। खोकन्दके स्वायत्तियोंके खतम कर देनेपर वहां बासमचियों (जहादी डाकुओं)का जोर बढ़ा, जिसके कारण बोल्शेविक उनको दबानेमें लग पड़े, और महीनों कहींसे कोई सहायता नहीं मिली। यहांके कम्युनिस्तोंमें अभी न उतना तजर्बा था, न अनुशासन और उनमें निम्न-मध्यमवर्गके अराजकतावादी भाव ज्यादा दिखाई पड़ते थे। लेकिन तो भी उच्च आदर्शके प्रति प्रेम और सर्वस्व-त्यागका भाव उनमें काम कर रहा था, जिसके बलपर शत्रुके कितने ही शक्तिशाली होनेपर भी वह लड़नेके लिये तैयार थे। १९१८ ई०के अन्तमें मास्कोसे रेडियोग्राम आया, कि सारी पूंजीवादी दुनिया—फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका आदि—ने सफेद (क्रांति-विरोधी)-रूसियोंकी सेनाको सक्रियरूपसे मदद देनेका निश्चय कर लिया है। वह और हथियार ही नहीं देंगे, बल्कि अपनी सेना भी भेजेंगे। इस बेतारके तारने जहां अवस्थाकी भीषणताको स्पष्ट करके सामने रख दिया, वहां यह भी बतला दिया, कि पूरी तौरसे अनुशासनकी पाबंदी करते हुये हथियारबन्द होकर लड़ना ही एकमात्र रास्ता रह गया है। उस समय बोल्शेविकोंकी कांग्रेस हो रही थी, जिसने निश्चय किया, कि सफेद-गारदोंसे हमें ऊपरका अनुशासन मानते हुये लड़ना है। अन्नका अभाव था, कारखाने बन्द थे। खैर इसका एक फायदा यह भी था, कि मजदूरोंको काम नहीं करना था। रेलवे लाइनें भी बेकार पड़ी थीं।

३. केर्की-कांड (१९१९ ई०)

मध्य-एसिया पहुंचनेके यातायातके बड़े रास्तोंमें एक स्थल-मार्ग ओरेनबुर्गसे होकर था, और दूसरा बाकुसे जहाज द्वारा कास्पियन पारकर वर्तमान तुर्कमानिस्तान होकर। ओरेनबुर्गको दूतोफ-ने लेकर उधरका रास्ता बन्द कर दिया था, और कास्पियनके पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटोंपर अंग्रेज आ गये थे। इस प्रकार मध्य-एसियाके बोल्शेविक केन्द्रसे बिलकूल अलग-अलग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उनका मुकाबिला भी केवल सफेद (क्रांति-विरोधी) रूसियों और स्थानीय उच्च और मध्यवर्गसे ही नहीं था, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीपतियोंकी दुनिया भी उनकी शक्तिकी परीक्षा कर रही थी। बोल्शेविकोंका सबसे ज्यादा बल था—स्थानीय गरीब और मजदूर जनता, जिसके हितोंके लिये वह सब तरहकी कुर्बानियां दे रहे थे। १९१९ ई०के वसन्तके आनेतक अब अमीर-बुखारा भी ज्यादा हिम्मतके साथ क्रांति-विरोधियोंकी सहायता करने लगा था। कास्पियनके पूर्वी तटसे आगे बढ़ते हुये सफेद-रूसियोंने आमू-दरियाके किनारे तथा बुखारासे नातिदूर चारजूयके महत्त्वपूर्ण स्टेशनको अपने हाथमें कर लिया था। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, कि आमू (वक्षु) दरिया पारकर सीधे बोल्शेविकोंपर प्रहार करें। बुखारा राज्यके भीतर बुखारा नगरसे कुछ ही मीलपर कगानका रेलवे-जंक्शन जारशाहीने अपने हाथमें कर रक्खा था, जो अब बोल्शेविकोंके हाथमें था। सफेद रूसियोंने सीधे बुखाराकी ओर बढ़नेकी जगह पहले केर्कीको लेनेका निश्चय किया था, जिसके बाद वह बुखाराके अमीरसे मिलकर तुकिस्तान-प्रदेशसे बोल्शेविकोंको खतम करना चाहते थे। मेर्व (बैराम अली)में कुछ उच्च अमरीकी अधिकारियोंने सफेद रूसियोंसे मिलकर योजना बनाई। १९१९ ई०की मईके मध्यतक उन्होंने अलग-अलग टोलियोंको बनाकर उनके लिये काम निश्चित किया। ऐरापेतोफ एक टोलीका कमांडर नियुक्त किया गया, जिसे केर्कीपर अधिकार करनेका काम दिया गया। वह खर्कोफसे आकर बाकूम सेनाके साथ शिक्षकका काम करता रहा। इससे पहले वह जारकी सेनामें अफसर रह चुका था, लेकिन इससे पहले कभी उसने सैनिक अभियानमें नेतृत्व नहीं किया था।

२४-२५ अप्रैलको कप्तान ऐरापेतोफने अपनी सैनिक टुकड़ी संगठित की। पैसेकी कमी थी। पैसे हीके लिये तो क्रांति-विरोधियोंको सिपाही मिल रहे थे। यदि केर्कीपर अधिकार

कर ले, तो अमीर-बुखारा तीस हजार रूबल देनेके लिये तैयार है, कहकर उसने लोभ-लालच दिखला पैसठ आदमियोंको इकट्ठा किया, जिनमें चार रूसी, तीन ईरानी और कुछ आर्मेनियन भी थे। अंग्रेजोंके दिये हुये हथियारोंकी कमी नहीं थी। उनके साथ दो सौ बन्दूकें, काफी गोली-बारूद भी थी, इनके अतिरिक्त कुछ मशीनगनें भी थीं, लेकिन तोप नहीं थीं।

सैनिक टुकड़ीने संगठित हो जानेके बाद बैराम अलीसे कूच किया। पहले वह ताशके-परी फिर तख्तबाजार पहुंचे। मेवसे अफगानिस्तानकी सीमाके पास कुस्कतक आई रूसी रेलवे लाइन पकड़कर वह पहले दक्षिणकी ओर चले। तख्तबाजारसे ८ (२१) मईको, वह उत्तर-पूर्वकी तरफ केर्कीकी ओर बढ़ने लगे। रास्ता रेगिस्तानका था। यदि ऐरापेतोफके सैनिकोंको रास्तेके बारेमें अच्छी तरह मालूम होता, तो शायद उनमेंसे कितनोंकी हिम्मत टूट जाती, लेकिन एक बार जब रेगिस्तानमें पड़ गये, तो पीछे हटनेका सवाल कहां था? ऐरापेतोफने उन्हें बतलाया था, कि तख्तबाजारसे केर्की दूर नहीं, सिर्फ तीन दिनका रास्ता है। वह नौ दिन बाद १४ (२७) मईको रेगिस्तानी रास्ता खतमकर केर्कीसे चार फर्सखपर एक बागमें ठहरे। कुछ ही समय बाद अमीर-बुखाराका अफसर नूरुद्दीन निराखुर और नासिरुद्दीन कराउलबेगी मिलने आये। केर्कीके बेग (राज्यपाल)ने सौ हथियारबन्द स्थानीय तुर्कमान ऐरापेतोफकी सेनाके लिये भेजे, और जल्दी ही सैनिक कार्रवाई करनेके लिये जोर दिया। रेगिस्तानके रास्तेसे आकर थके-मांदे पड़े ऐरापेतोफके आदमी अभी उसके लिये तैयार नहीं थे। इसपर बुखारी अफसरोंकी सलाहसे ऐरापेतोफ अपने सैनिकोंको लिये केर्कीसे चालीस फर्सख दूर किजिलअयाकमें चला गया। यहां डेढ़ सौ तुर्कमान सवार और आ मिले, इस प्रकार ऐरापेतोफकी सारी सेना अब तीन सौ पंतालीस थी। केर्कीका बेग बराबर ऐरापेतोफसे लिखा-पढ़ी कर रहा था। कपासका बहुत बड़ा व्यापारी मलिक-कपामेंस समसोन क्रांति-विरोधियोंकी सहायता कर रहा था। फरवरी (१९१७)ई० क्रांतिके समय वह नगरके आर्थिक कमीशनका अध्यक्ष था, लेकिन अक्टूबरकी क्रांतिके बाद वह बोल्शेविकोंके साथ सहानुभूति पैदा करके अपनेको सोवियत संगठनका सदस्य बनानेमें सफल हुआ। उसने एक पत्र केर्कीके बेगके पत्रके साथ ऐरापेतोफके पास भेजा। पत्र पकड़ा गया, फिर समसोन भी गिरफ्तार कर लिया गया।

केर्की अफगान-सीमाके नातिदूर वक्षु नदीके तटपर व्यापारिक और राजनीतिक महत्त्वका स्थान था, जहां १८८९ ई०में जारशाहीने एक किला बनाया था। इसके व्यापारिक महत्त्वका पता इसीसे लग जायगा, कि १९१० ई०में यहां बाइस लाख रूबलका व्यापार हुआ था। बुखाराके पासके कगान जंक्शनसे करशीको एक रेलवे लाइन लाई गई थी। यह कपासकी बहुत बड़ी मंडी तो थी ही, साथ ही अफगानिस्तानके साथके आयात और निर्यात का भी यह बहुत बड़ा द्वार था। यहांपर दो कपास ओटनेकी मिलें भी थीं। अक्टूबर-क्रांति द्वारा जब ताशकन्दपर सोवियत-शासन कायम हो गया, तो यहांके गैरिसनके सिपाहियोंने भी लाल झंडा फहराया। मजूर और निम्नमध्यम-वर्गके लोग सोवियत-शासनके पक्षमें थे। ऐरापेतोफके आक्रमणसे पहले यहां बोल्शेविक पार्टीके सौ मेम्बर बन चुके थे।

१२ (२५) मईको केर्कीकी सोवियतको खबर मिली, कि सफेद-गारदके तीन हजार सैनिक आठ तोपों और सोलह मशीनगनोंके साथ आ गये हैं। अगले दिन यह भी पता लगा, कि सफेद-गारदका कुछ भाग किजिलअयाकमें पहुंच गया है। इसी दिन शामको सोवियतकी एक खास बैठक हुई, जिसमें प्रतिरक्षाके लिये तैयारी करनेका निश्चय किया गया। इसके लिये एक परिषद् (कलेगियो) बनाई गई, जिसका अध्यक्ष नस्तेरोफ और सदस्योंमें शीरियानेत्स (सोवियत-अध्यक्ष), बबायेफ, वासिलेव्स्की और बर्जानोफ थे। बर्जानोफ युद्धके विशेषज्ञके तौरपर लिया गया। १३ (२६) मईके १० बजे अमीरके पास रहनेवाले सोवियतके रेजिडेंटके पास केर्कीसे शीरियानेत्स, नस्तेरोफ, और लादोगोने खबर भेजी, कि अश्काबादियोंकी पलटन यहांसे अट्ठाईस वेर्स्टपर आ पहुंची है। हो सकता है, हम आपके साथ यह अन्तिम वातालाप कर रहे हैं। जो हो सके, मदद हमारे पास भेजें। आज ही शामको युद्ध शुरू होनेकी संभावना है। बेग और

उसके अफसर उनके साथ हैं। उनकी सेनामें ७५० सैनिक, आठ तोपों और सोलह मशीनगनोंके साथ शामिल हैं। एक अंग्रेज कर्नल सेनाका कमांडर है। इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं, कि हम विशेष सहायताकी आवश्यकता है। यदि सहायता न पहुंची, तो हम बच नहीं सकते, तो भी हम अंतिम समयतक लड़ेंगे।

उस समय केर्कीके गैरिसन (छावनी)में किलेके एक सौ पचास सैनिक—सौ सवार थे। इनके अतिरिक्त नगरमें भी करीब अस्सी लाल स्वयंसेवक थे। समासोनोफ स्टेशनमें भी रेलरक्षक पचहत्तर हथियारबन्द सैनिक थे। इस प्रकार सब मिलाकर तीन सौसे कुछ ऊपर आदमी उनके पास थे।

१५ (२८) मईको सफेद-गारदकी ओरसे सोवियतको अल्टिमेटम मिला, जो जेनरल देनिकिनकी सेनाकी ओरसे भेजा गया था : भाईका खून बहानसे परहेज करनेके लिये हम चाहते हैं, कि तुम केर्कीको समर्पण कर दो। अल्टिमेटमके बाद दो घंटेतक हम प्रतीक्षा करेंगे। जिसके बाद किलेपर गोलाबारी शुरू हो जायगी। अल्टिमेटमपर निम्न अफसरोंके हस्ताक्षर थे :—

अंग्रेजी सेनाका कमांडर कर्नल लोमकार्ट,
फ्रेंच सैनिक मिशनका अध्यक्ष कर्नल वाल्नेर,
रूसी सेनाका संचालक मेजर-जेनरल युदेनिक,
तुर्कमानी सेनाका संचालक कर्नल गर-सरदार।

अल्टिमेटमके हस्ताक्षरों और सफेद गारदकी सेनाकी बढ़ा-चढ़ाकर बतलाई संख्याको देखकर केर्कीकी सोवियतको भारी डर लगता ही था, लेकिन चाहे कुछ भी हो, बोल्शेविक किलेको क्रांति-विरोधियोंके हाथमें देनेके लिये तैयार नहीं थे। परिषद्ने हर तरहसे नगरकी रक्षा करनेका निश्चय किया, और अल्टिमेटमका जवाब देते हुये कहा—“आत्मसमर्पणकी जगह निष्कलुष रूपसे मृत्यु प्राप्त करना बेहतर है।” परिषद्ने शिर्निकोफ और श्वांस्कीके द्वारा पत्र भेजा। सवेरे दूकानें अभी बन्द ही थीं, तभी सोवियतके प्रतिनिधि नगरसे बाहर हो गये। उन्होंने ऐरापेतोफसे कारवांसरायमें मिलने जाते ढाई सौ हथियारबन्द तुर्कमानीको देखा। किसीने बात करते हुये बतलाया, कि सेना-संचालक लोमकार्ट है। आदमीने प्रतिनिधियोंसे बात करते ऐरापेतोफको बतलाया, कि केर्की घिर गई है, बुखारासे तारका संबंध कट गया है, केर्की और करशीके बीचकी रेलवे लाइन भी काट दी गई है। तेरमिजके ऊपर पांच सौ सैनिक भजे जा चुके हैं। हमारी भारी सेनामें अंग्रेज, तुर्कमानी, रूसी आदि बहुत-सी जातियोंके लोग हैं। जब बातें हो रही थीं, उसी समय किसी आदमीने आकर ऐरापेतोफसे कहा, कि अंग्रेज तोपखाना-अफसर सिगरेट मांग रहा है। ऐरापेतोफने प्रतिनिधियोंसे बतलाया, कि सिगरेटका मतलब है सिपाही। इस प्रकार उसने प्रतिनिधियोंपर बहुत रोब डालना चाहा। उसने और बात करनेके लिये अपनी ओरसे स्तेपानोफ, उराल्स्की और मूजातिचको शीर्निकोफके साथ भजा, लेकिन श्वांस्कीको जामिनके तौरपर अपन पास रख लिया। शीर्निकोफ आकर बतलाया, कि सब झांपड़ी है, कहीं तोप-ताप नहीं है। हां, अमीर-बुखाराके आदमी उनके साथ हैं। युद्ध-समितिनने श्वांस्कीको लौटाने तकके लिए ऐरापेतोफके दो प्रतिनिधियोंको रख लिया, फिर अल्टिमेटमका उत्तर दिया—“हम अमर प्रोलेतारियोंके पुत्र, तुम्हें सूचित करते हैं, कि सोवियत रूस और तुर्किस्तानके राज्यके सिवा हम किसी राज्यको स्वीकार नहीं करते। हम सिर्फ सोवियतकी शक्तको स्वीकार करते, उसीकी आज्ञा मानते, और उसके लिये हम अपने खूनकी अंतिम बूंदतक देनेके लिये तैयार हैं।

केर्कीके बेगकी बहुत-सी कारवाइयां पकड़ी गई थीं, इसलिये १६ (२९) मईकी शामको सवा छ बजे युद्ध-परिषद्ने उसे अल्टिमेटम दे दिये, कि अश्काबादके विद्रोहियोंको तुमने मदद दी है, और शहरके रूसी भाग तथा किलेको उनके हाथमें देनेकी कोशिश करते १५ (२८) मईकी शामको मीर आखुर कादिरकुलोफको पत्र देकर भेजा। दो घंटेका समय देकर बर्जानोफने तोप चलानेका हुक्म दिया। किलेकी तोपें आग बरसाने लगीं। पुराने नगरपर सत्रह गोले छोड़े गये। इसपर बुखारा राज्यपालने अपने प्रतिनिधि भेजे। तुरन्त दो तोपों, दो मशीनगनों

और तीन सौ रूसी बन्दूकोंको देना स्वीकार किया। फिर भी बेगके किलेपर चार और गोले छोड़े गये, जिसपर उसने अपनी दो तोपों, दो सौ बन्दूकोंको भी बोल्शेविकोंके हाथमें दिया। बाकी हथियारोंके बारेमें उसने कहा, कि लोगोंने डरके मारे आमू-दरियामें फेंक दिया है।

अब स्वयंसेवकोंकी बड़ी तेजीसे भर्ती होने लगी। बेगको स्वतंत्र रखना खतरेकी बात समझ उसे और उसके आदमियोंको गिरफ्तार करनेका निश्चय किया गया। अमीरके बहुतसे अफसर, तथा बड़े-बड़े व्यापारी अपने धन और परिवारको नगरमें ही छोड़ गांवोंकी ओर भागे, जिससे आसपासके तुर्कमानोंको लूटका प्रलोभन हुआ। उन्होंने लूटके लिये अपने दल संगठित करने शुरू किये, जिसमें सबसे पहले चाकिर, तराजा और खोजा हैरान गांवोंके लोग शामिल हुये। उन्होंने १९ मई (१ जून)को लूट-मार शुरू कर दी। रूसी इसे क्यों बर्दाश्त करने लगे, इसपर तुर्कमानों और रूसियोंमें जंग छिड़ गई, जो दो महीनेतक चलती रही। आसपासके गांवोंसे चीजोंका आना-जाना बन्द हो गया, नगरके लोग दिन-पर-दिन भूखे मरने लगे, न बच्चोंके लिये दूध था, न लोगोंके लिये खानेका सामान। तुर्कमानोंने काफी रूसियोंको मारा, और खुद भी उनकी काफी क्षति हुई। ३१ मई (१३ जून)को ३ बजे सबेरे तुर्कमानोंपर आगे बढ़ कर आक्रमण करनेके लिये बोल्शेविकोंकी टुकड़ी भेजी गई, जिसने उनको काफी नुकसान पहुंचाया। अन्तमें १ (१४) जुलाईको सुलह करानेके लिये बुखाराके अमीरने ईशान सदूर तथा दूसरोंके साथ अपने आदमी काजीबेकको बातचीत करनेके वास्ते भेजा, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद ४, ५, ६ (१७, १८, १९) जुलाईको तुर्कमानोंने आक्रमण करके नगरपर अधिकार करना चाहा, लेकिन सोवियतकी तोपों और मशीनगनोंने उन्हें मार भगाया। जुलाईके मध्य (अन्त)में स्टीमरसे एक दूत-मंडल ताशकन्द भेजा गया, जिसे बुर्दालिक गांवमें तुर्कमानोंने रोक लिया। फिर केर्कीमें बातचीत हुई, अन्तमें तुर्कमानोंने स्टीमरको जाने दिया। अमीर-बुखारा उस समय करमीनामें था। केर्कीमें बोल्शेविकोंके इतने जबरदस्त प्रतिरोध और तुर्कमानोंकी हानि देखकर अमीर बुखाराके आदमी सुलह करानेके लिये १० जुलाईके १२ बजे दोपहरको केर्की पहुंचे। १२ (२५) जुलाईके ७ बजे सबेरे तुर्कमानोंके साथ संधिकी बातचीत शुरू हुई। इस बातचीतमें बुखाराके प्रतिनिधि थे—तोकसाबा मिर्जा खोजा, मीर अखुर कारी उसमानबेक और कराउलबेगी जाहिरोफ, और तुर्कमानोंके प्रतिनिधि—ईशान सदुर, ईशान उराक, मुल्ला वलीनियोज, मुल्ला बाबा और मुल्ला जूराकुल तोकसाबा। १९ जुलाई (अगस्त) संधिके ऊपर हस्ताक्षर भी हो गया। तुर्कमानोंने केर्कीके घेरेको हटा लिया। ३० जुलाई (१२ अगस्त)को केर्कीका बाजार खुल गया, गांवोंसे सब तरहकी खानेकी चीजें आने लगीं।

इस प्रकार ऐरापेतोफकी बंदर-घुड़कीको खतमकर तुर्कमानोंके खतरेसे भी अपनेको मुक्त करके केर्कीमें बोल्शेविकोंने अपनी शक्ति मजबूत कर ली। २२ सितम्बर (५ अक्टूबर) को स्टीमर द्वारा चारजूसे नई कम्प्युनिस्त सेना केर्की आ रही थी, लेकिन केर्कीसे पच्चीस वेस्तपर तुर्कमानोंन फिर स्टीमरको रोक लिया। लेकिन चार घंटेके बाद उन्होंने उसे छोड़ देनेम ही खैरियत समझी। इसी साल ताशकन्दसे कुछ लाल सैनिकोंके साथ तीस लाख रूबल खजाना लेकर लगोदा और शीनिकोफ आ रहे थे, जिन्हें २५ अक्टूबर (८ नवम्बर)को उसी गांव खोज-म्बाजमें तुर्कमानोंने फिर रोक लिया। उन्होंने हथियार और खजाना छीन बोल्शेविकोंको मौतका दंड दिया। चार दिन इसी स्थितिमें रहे। केर्कीके बेगपर दबाव पड़ा, तो तुर्कमानोंने उन्हें छोड़ दिया। केर्कीकी क्रांतिकारी समितिने इस बातका बहुत विरोध किया, कि ईरानी, जर्मन, अफगान या दूसरे आदमियोंको न रोक तुर्कमान केवल रूसियोंको रोकते हैं।

केर्की-कांड (१९१९ ई०) की तारीखवार घटनायें निम्न प्रकार थीं :—

२४ अप्रैल (७ मई) केर्कीपर चढ़ाईके लिये ऐरापेतोफने सिपाही जमा करने शुरू किये।

५ (१८ ") तख्तबाजारसे ऐरापेतोफकी सेना रवाना हुई।

१२ (२५ ") केर्की-सोवियतकी शत्रुके आनेकी सूचना मिली।

- १३ (२६ ") युद्ध-परिषद्का संगठन, और नगरकी प्रतिरक्षाकी तैयारी ।
- १४ (२७ ") ऐरापेतोफकी सेना केर्कीके नजदीक पहुंची ।
- १५ (२८ ") ऐरापेतोफने अल्टीमेटम दिया, श्वांस्की और शिर्निकोफ बात करने गये । परिषद्ने अल्टीमेटम स्वीकार नहीं किया ।
- १६ (२९ ") युद्ध-परिषद्ने केर्कीबगको हथियार रख देनेके लिये अल्टीमेटम दे पुराने नगरपर गोलाबारी की ।
- १७ (३० ") पुरान नगरके प्रतिनिधि बात करने आये । बेग और उसके अफसरोंको गिरफ्तार करके पुराने केर्की नगरको बोलशेविकोंने ले लिया ।
- १९ मई (१ जून) कगानकी सोवियत सेना समसोनोफ स्टेशनपर आई । तुर्कमानोंने केर्कीका मुहासिरा शुरू कर दिया ।
- २-३ (१५-१६") तुर्कमान नेताओंके साथ प्रथम बातचीत ।
- ३ (१६ ") केर्की-सोवियतने अपनेको खतम करके सारी शक्ति युद्ध-परिषद्के हाथमें दे दी ।
- ४-६ (१७-१८") तुर्कमानोंने आक्रमण करके केर्की नगरको लेना चाहा ।
- १० (२३ ") बुखारासे बोइत्केविच तथा अमीरके आदमी सुलह करानके लिये केर्की पहुंचे ।
- १२ (२५ ") तुर्कमानोंके साथ सुलहकी बात शुरू हुई ।
- १९ जन (२ जुलाई) सुलहनामे पर हस्ताक्षर ।
- २८ सितम्बर (११ अक्टूबर) अपने अपराधोंके लिये बर्जानोफ शिरियानेत्स् और नेतेरोफको गिरफ्तार किया गया ।

४. ईरानका दावा

१९०७ ई०में इंगलैंड और जारशाही रूसका जो समझौता हुआ था, उसमें दोनों राज्योंने बीचके थोड़ेसे स्थानको छोड़कर ईरानको अपने प्रभावक्षेत्रमें बांट लिया था, और बहुतसे राजनीतिक और आर्थिक सुभीते अपने लिये प्राप्त किये थे । क्रांतिके बाद सोवियत सरकारने इस तरहके साम्राज्यवादी संधिपत्रोंको फाड़कर फेंक दिया । २६ फरवरी १९२१ ई०को मास्कोमें ईरानके साथ नये संधिपत्रपर हस्ताक्षर करते हुए सोवियतने ईरानके साथ हुई अन्यायपूर्ण शर्तोंको खतम कर दिया धातु-धुनों, पेट्रोल आदिके संबंधमें जो रियायतें ईरानसे जारशाहीने ली थीं, उन्हें छोड़ दिया । जुल्फा तब्रज और दूसरी जगहोंमें जारशाहीने जो रेलवे लाइनें बनाई थीं, उन्हें ईरानको दे दिया । उरमिया (रजाइया) महासरोवरमें चलनेवाले रूसी स्टीमरोंको ईरानके हवाले कर दिया । तेली ग्राफ, बिजली-स्टेशन, बैंकोंकी इमारतों आदिपर से भी अपना अधिकार छोड़ दिया । कुल मिलाकर प्रायः सात करोड़ सुवर्ण रूबलकी अपनी संपत्तिको देते रूसियोंके वाह्य-राज्यमें विशेष अधिकारको भी छोड़ दिया । एक ओर रूसके नये शासक इस तरहकी उदारता दिखला रहे थे, दूसरी तरफ बख्तियारी सामन्त समसामुस्सलतनतके नेतृत्वमें ईरान सरकार मार्च १९१९ ई०में पेरिसके अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेसमें कौरेश और दारयोशके समयकी ईरानी सीमाको फिरसे कायम करना चाहती थी । समसामुस्सलतनत उसी बख्तियारी कबीलेका सरदार था, जिसने १९१६ ई०में इंगलैंडके साथ समझौता करके ईरानके प्रसिद्ध तेल-क्षेत्रको अंग्रेजोंके हवाले किया था । इसीके शासनके समय इंगलैंडने ईरानपर पूरी तौरसे अपना अधिकार जमाया, इसलिये अंग्रेजोंकी सम्मतिके बिना वह ऐसी मांगोंको रखनेकी हिम्मत नहीं कर सकता था । उस समय एक ओर अंग्रेज जनरल डेन्स्-टरविलकी सेना बगदादसे बाकू पहुंची थी, वहां दूसरी सेनाका कर्नल रोल्लिसनके अधीन अश्काबाद आई थी । अंग्रेजी सेनाओंके बलपर ईरानकी मांगे यदि लंबी हो जायें तो आश्चर्य क्या ? वस्तुतः यह नई सीमा ईरानकी नहीं, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्यकी होती । ईरान सरकारने अपने स्मारक पत्रमें मांग की—बाकू नगरके साथ सारा आजुर्बाइजान, एरेवान, नखचेवान, कराबख आदि नगरोंको साथ रूसी आर्मेनिया, दरबेंदके साथ दागिस्तान (अर्थात् प्रायः सारा काकेशस) ईरानको मिलना

चाहिए। पारे-कास्पियाको लेते हुये ईरानकी सीमा आमू-दरिया, अराल समुद्र और पूर्वी कास्पियन-तट माना जाय, अर्थात् अश्काबाद, मेर्व, खीवा आदिपर ईरानका अधिकार होना चाहिये। कुल मिला पांच लाख सत्तर हजार वर्ग किलोमीटर सोवियतकी भूमिपर ईरानका दावा था। ईरानने बोल्शेविकोंको इतना कमजोर समझा था, और अपने सहायक पश्चिमी साम्राज्यवादियोंको इतना मजबूत, कि उसने सोवियत-शासकोंके सात करोड़ स्वर्ण रूबलके स्वार्थ-त्यागको उनकी कमजोरी समझा।

लेकिन ईरान और उसकी पीठ ठोकनेवाले ब्रिटिश साम्राज्यवादियोंके सारे मनसूबोंको मध्य-एशियाके बोल्शेविकों, उनके लाल-गारद और लाल-सेनाने विफल कर दिया। रूसियोंके दांत खट्टे करनेवाले तुर्कमानोंको यह समझनेमें दिक्कत नहीं हुई, कि उनके भाग्यका सितारा बोल्शेविकों के साथ फिर उगनेवाला है। दूसरी जगहोंकी तरह तुर्कमानोंमें भी उच्चवर्ग और मुल्ला क्रांति-विरोधी सफेद-गारदोंके साथ हुये, और अधिकांश गरीब जनता बोल्शेविकोंके साथ। इसी जनशक्ति-के बलपर तुर्कमानियामें १९२४ ई०में किसान-मजदूर-राज्य जातियोंके आत्मनिर्णयके अनुसार एक लाख सत्तासी हजार वर्गमील भूमिपर कायम हुआ। यद्यपि इस भूमिका अस्सी सैकड़ा कराकुम (कालाबालू)का महारेगिस्तान है, लेकिन तेरह लाखके आबादी के लिये बाकी बीस सैकड़ा भूमि भी कम नहीं है। अब तो दक्षु (आमू-दरिया)को कास्पियनसे मिलानेके लिये ग्यारह सौ किलोमीटरकी जो नहर खोदी जा रही है, उसके कारण इस रेगिस्तान-का बहुत बड़ा भाग उर्वर भूमिमें परिणत हो जायगा। तुर्कमान घुमंतू कबीले, और उनके लूट-पाट और लड़ते-भिड़ते रहनेके जीवनका अंत हो चुका है, उनमें शत-प्रतिशत आधुनिक शिक्षा से शिक्षित नर-नारी हैं। वह जीवनके हर क्षेत्रमें बड़ी तेजीसे आगे बढ़े हैं।

स्रोत-ग्रंथ

१. रेवोल्युत्सिया स्नेदनेइ आजिइ (ताशकन्द १९२९)
२. History of civil war in U S S R. (2 vols., G. F. Alexandrov and others, Moscow 1947)
३. La revolution russe (4 vols., C. Anet, Paris 1918-20)
४. La revolution russe (Al. Ular, Paris 1905)

परिशिष्ट

रूसी भाषा और भारत

१. ऐतिहासिक सिंहावलोकन

सिकन्दर (मृत्यु ३२३ ई० पू०) से पहिलेके भी भारतीय युनानियोंको जानते थे। 'माजिझम-निकाय'के एक सूत्रमें बुद्धने कंबोज (उत्तरी अफगानिस्तान) और यवन (यूनान) का नाम लिया है। पाणिनि (ई० पू० ४थी शताब्दी)को भी यवनोंका नाम मालूम था। उसके बाद तो बहुत भारी संख्यामें यवन हिन्दुस्तानमें आये, और ईसा-पूर्व दूसरी और तीसरी शताब्दीमें उत्तरी भारतके कितने ही हिस्सोंपर यवनोंका राज्य रहा। ई० पू० पहली शताब्दीसे ईस्वी तीसरी शताब्दीतक उत्तरी भारतका बहुत-सा भाग शकोंके हाथमें था, और पंजाब तो पांचवीं शताब्दीतक शकोंके शासनमें रहा, जब कि इतिहासमें गलतीसे श्वेत-हूणके नामसे प्रसिद्ध किन्तु वस्तुतः शकोंकी ही एक शाखा हेफ्तालों (तोरमान-मिहिरकुलके वंश)ने उनको हटाकर अपना राज्य स्थापित किया। मिहिरकुलको मालवाके यशोधर्माने भगाया, जिसके साथ अंतिम शकोंका राज्य भारतसे लुप्त हुआ। इसी समय बाहलीक (बाख्तर या बलख), तुषार और सोगदको भी उनसे तुकोंने छीन लिया। आठ-आठ शताब्दीतक यवनों और शकोंका भारतसे इतना घनिष्ठ संबंध रहा, वे लाखोंकी संख्यामें हमारे देशमें आकर बस गये, और आज वह शाकद्वीपी ब्राह्मण, चौहान, बनाफर-जैसे बहुतसे राजपूतों और जाट-गुजर जैसी जातियोंके रूपमें हिन्दुओंके अभिन्न अंग बन गये। तो भी हमारे यहाँ इस तरफ ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ, कि उनकी भाषाओंका हमारी भाषासे बहुत घनिष्ठ संबंध है, और उससे ऐतिहासिक परिणाम निकाले जा सकते हैं।

१८वीं शताब्दीके अंतमें युरोपके विद्वानोंका ध्यान संस्कृतकी तरफ खास तौरसे आकृष्ट हुआ, जब कि उन्होंने देखा कि संस्कृत और युरोपीय भाषाओंमें आपसमें कितनी ही जगह अद्भुत समानता है। इसका श्रेय जर्मन अध्यापक बॉपको है, जिसने अपने विस्तृत अनुसंधानके बल-पर इस समानताको दिखलाया और हिन्दी-युरोपीय भाषा-तत्त्वकी नींव डाली। अब यह सर्वसम्मत बात है, कि संस्कृत तथा युरोपीय भाषाओंकी समानता आकस्मिक नहीं है, जैसे :—

संस्कृत—दवामि	दास्यमानस्	दातर
ग्रीक—दिदोमि	दोसोमेनोस्	दोतेर्

इसी तरह :—

संस्कृत—वाक् वाचस् वाचाम् वचस् वाग्म्यस्
ग्रीक—वोक्स् वोकिस् वोकेम् वोकेस् वोकिबुस्

इन समानताओंने सिद्ध कर दिया कि "हिन्दी-युरोपीय भाषाएं सभी एक ही मूल-भाषा की संतानें हैं।"*

हिन्दी-युरोपीय भाषाओंकी इस एकताके सिद्धांतको स्वीकार कर लेनेपर रूसी भाषाका भी संबंध संस्कृतसे है, यह मान ही लिया जाता है। किन्तु इससे एक भ्रम पैदा होता है, कि रूसी भाषा भी उतनी ही दूरसे संस्कृतके साथ सम्बन्ध रखती है, जितनी कि ग्रीक और अंग्रेजी भाषा। फारसी भाषाका भी संस्कृतसे संबंध है, हिन्दी-बंगलाका भी संस्कृतसे संबंध है, लेकिन यहाँ तारतम्य एक समान

* अन्ध्रापौलोजी (सर एडवर्ड टेलर) जिल्द १, पृष्ठ ८

नहीं है। फारसी भाषा अंग्रेजीसे तुलना करनेपर संस्कृतकी सगी बहन-भतीजी मालूम होती है, उसी तरह युरोपकी दूसरी भाषाओंसे तुलना करनेपर रूसी और उसकी स्लाव बहनें संस्कृतकी बिलकुल भागिनेयी और प्रभागिनेयी सिद्ध होती है। वस्तुतः रूसी भाषा युरोपीय भाषाओंके वर्गकी नहीं है, बल्कि वह संस्कृत-ईरानी भाषा-वर्गसे संबंध रखती है। १८ वीं सदीके आरंभतक रूसी भी अपने कां युरोपसे अलग समझते थे। आज भी उनके मुखसे जब-तब अपनेसे पश्चिमके देशोंको 'युरोपा' कहकर पृथक् करनेकी प्रवृत्ति देखी जाती है।

ईरानियों और हिन्दी-आर्योंका घनिष्ठ संपर्क भाषाके अतिरिक्त उनकी देवावली और पूजा-प्रकारसे भी सिद्ध होता है। रूसी भाषाका संस्कृतसे कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसके बारेमें हजारों उदाहरण हम यहां देने जा रहे हैं, इसलिये बहुत लिखनेकी अवश्यकता नहीं है। लेकिन मूल-भाषा और उसके बोलनेवालोंसे इतिहास-शृंखला कैसे जुड़ती है, इसे यहां संक्षेपमें दिखलानेकी जरूरत है।

हम आसानीके लिये उस भाषाकी "प्राक्-हिन्दी-युरोपीय भाषा" मान लेते हैं, जिसे भारत और ईरानके आर्यों और रूसी तथा युरोपीय जातियोंके पूर्वज एक कबीला होनेके वक्त बोला करते थे। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है, कि भाषा बोलनेसे यह मतलब नहीं, कि वह अपने पूर्वजोंके विशुद्ध वंशज हैं। मानव-जातियां स्थावर नहीं, जंगम हैं। कभी वह स्वयं दूसरी जातियोंके देशोंमें गईं और कभी दूसरी जातियां उनके देशोंमें आईं। यदि भिन्न-भिन्न भागोंमें भारतीय आर्योंके रक्तमें द्राविड़, किरात और मंगोल जातियोंका प्रचुर हथिर है, तो युरोपकी जातियां भी प्राचीन भूमध्यीय जातियों, और रूसी जाति हूणों, तुर्कों और मंगोलोंके रक्तसे बची नहीं है। हां, यह कहा जा सकता है, कि हिन्दी-युरोपीय-भाषा-भाषी जातियोंमें उनके प्राक्-हिन्दी-युरोपीय पूर्वजोंका रक्त अधिक है, परन्तु पश्चिममें यह बात केवल युरोपमें रहनेवालोंपर ही लागू है।

प्राक्-हिन्दी-युरोपीय जातिके निवास और कालको ढूंढते-ढूंढते हम नवपाषाण-युगतक पहुंचते हैं। उनके आधुनिक वंशधरोंकी शब्दावलीसे तुलना करनेपर इतना पता लगता है, कि अभी वह कृषिको नहीं जानते थे। इसका अर्थ यह भी हुआ, कि वह नवपाषाण-युगके आरंभिक कालमें थे। यह समय ईसा-पूर्व तीसरी-चौथी सहस्राब्दी या कुछ आगे-पीछे हो सकता है। मानव-तत्त्ववेत्ताओंमें इस सम्बन्धमें मतभेद है, कि प्राक्-हिन्दी-युरोपीय जाति एसियाकी रहनेवाली थी या युरोपकी। बहुतसे विद्वान् कहते हैं, कि अंतिम हिम-युगकी समाप्तिके बहुत देर बाद एसियाकी एक जातिने युरोपपर धावा बोला और वही प्राक्-हिन्दी-युरोपीय जाति थी। दूसरी तरफ ऐसे भी विद्वान् हैं, जिनका कहना है कि हिम-युगके बाद जिन जातियोंका युरोपमें पता लगा है, उन्हींकी वंशज यह प्राक्-हिन्दी-युरोपीय जाति थी। * हमें अभी इस विवादमें नहीं पड़ना है। यदि प्राक्-हिन्दी युरोपीय जाति एसिया-मध्य-एसिया—से युरोपमें गई, तो उसकी पूर्वी शाखा गोबीकी मरुभूमिसे कार्पाथीय पर्वतमालातक फैली हुई थी। पीछे इसके विभाग हुये—आर्य और शक। आसानीके लिये हम पूर्वी शाखाको 'शत वंश' या 'शकाऽऽर्य' कह लेते हैं। पश्चिमी शाखा 'केन्ट' या पश्चिमी युरोपीय जातियोंके पूर्वज थे। लेकिन यहां हम यह भी स्मरण रखना चाहिये, कि हालकी स्वारेज्म (निम्नवक्षुनदी)की खोजोंने बतलाया है, कि वहांकी संस्कृति सिन्धु-उपत्यकाकी संस्कृतिसे सम्बद्ध थी, अर्थात् सिन्धु-उपत्यकाकी जाति और प्राक्-हिन्दी-युरोपीय जातिकी सीमा अराल-समुद्र और सिर-दरिया थी।

यदि हम यह मान लें, और जिसकी संभावना भी अधिक है, कि प्राक्-हिन्दी-युरोपीय जाति हिम-युगके बादकी युरोपीय जातियोंसे निकली थी, तो उसके विचरण-स्थानकी सीमा वोल्गा या एम्बा नदी रही होगी, अर्थात् विशाल 'भूखे बयावान' (कजाकस्तान)से पश्चिम ही। इसी विशाल

* 'स्केलेंटेन रिमेन्स ऑफ अर्ली मैन' (हरदूलिच्का), स्मिथसोनियन् मिसलैनियस् पब्लिकेशन जिल्द ८३ (१९३०) पृष्ठ ३४७-४९

भू-भागके पूर्वीय अंशमें पूर्वी शाखावाले शकार्य रहते थे। शकार्य-काल में भी संस्कृतिके तलमें बहुत अन्तर नहीं पड़ा था। कृषिकी संभावना कम है। शिकारके साथ पशुपालन भी वह करते थे। समाज जन-सत्ताक था, यानी व्यक्तिकी जगह जनकी प्रधानता थी।

शकार्य जातिका सम्मिलित वासस्थान कार्पाथीय पर्वतमालासे पूरब रहा होगा, जिसके पूर्व-में आर्य रहा करते थे और पश्चिममें शक। जनसंख्याकी वृद्धि या प्राकृतिक विपत्तिके कारण शकों और आर्योंमें संघर्ष हुआ। परिणामतः आर्योंको अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा। उनका एक भाग कास्पियनके पश्चिम काकेशस पर्वत-मालासे होते क्षुद्र-एसिया (तुर्की) और उत्तरी ईरानके तरफ बढ़ते असीरियाके सम्य देशकी सीमापर पहुंचा, और दूसरा भाग कास्पियनसे पूरबकी तरफ अराल समुद्रके किनारे होते ख्वारेज्मकी भूमिमें पहुंच वहांकी सभ्यताके सम्पर्कमें आया। काकेशससे होकर जानेवाले आर्योंका पता हमें ईसा-पूर्व द्वितीय सहस्राब्दीमें बोगजकुई (अंकराके पास)में मितनी आर्योंके अभिलेखसे मिलता है। यह भी स्मरण रखना चाहिये, कि इसी सहस्राब्दी में हिन्दी-युरोपीय ग्रीक ग्रीस देशमें दाखिल हुए।

अराल-समुद्र और ख्वारेज्ममें पहुंचे आर्योंका वहांकी संस्कृत जातिसे संघर्ष हुआ होगा, इसमें संदेह नहीं। ख्वारेज्मकी सभ्य जाति उसी तरह घुमन्तू आर्योंके समक्ष नतमस्तक हुई, जिस तरह हजार वर्ष बाद ईसा-पूर्व द्वितीय सहस्राब्दीमें हिन्दी आर्योंके सामने सिन्धु-उपत्यकाकी संस्कृत जाति परास्त हुई, और वहां आर्योंका अधिकार जमा। शकोंसे आर्योंके प्रथम अलग होनेका काल ईसा-पूर्व ३००० वर्षके आसपास था। आगे मध्य-एसियामें आर्य कस्पियनसे पामीर तक फैल गये। वक्षु (ख्वारेज्म) सभ्यताने उन्हें कृषि और संस्कृतिकी दूसरी बातें सिखलाई। आगेके लिये यह भूमि आर्यों का बीजस्थान (आर्याना बेइजा) बन गई। ईसा-पूर्व २५०० के आसपास आर्योंके भाई-शक संख्या-वृद्धि, दैवी उत्पात या अच्छी चरागाहोंकी भनक पा पूरबकी ओर बढ़े। संभव है, अराल-समुद्र और सिर-दरियाके उत्तरके पशुपाल आर्य-जनोंसे उन्हें लड़ना पड़ा हो। कुछ भी हो, वह धीरे-धीरे पूरब-में बढ़ते त्यानशान् और अल्ताईकी उपत्यकाओंको लेते गोबी और क्विनलुन्तु पर्वतमालातक पहुंच गये।

ईसा-पूर्व १५०० में तरिम, इली और चूकी समृद्ध उपत्यकायें शकोंके निवासस्थान थे। संभव है, वहां वे कुछ खेती भी करते हों, अल्ताईकी खानोंसे सोना तो वह जरूर निकालते थे। लेकिन शक अपनी जीविकाके लिये मुख्यतया निर्भर थे पशुओंपर—घोड़ा, गाय और भेड़ें उनके मुख्य धन थे, ऊंटोंसे उनका प्रेम न था। इस प्रकार ईसा-पूर्व १५ वीं सदीमें गोबीसे कारपाथीय-पर्वतमालातक शक-जातिका वासस्थान था। ईसा-पूर्व ६ठी सदीमें ग्रीक इतिहासकार दुनाइ (डैन्यूब)के उत्तर तथा अराल-तटपर शकों (स्कुथ, सिथ)के होनेकी बात करते हैं। ईसा-पूर्व ६ठी सदीमें ईरानी शाहशाह कोरोस-को शकोंसे बचनेके लिये दरबन्द (बाकूसे उत्तर)की किलाबंदी करनी पड़ी थी। सिर-दरियाके किनारे भी उसे शकोंसे लड़ना पड़ा था और एक शक योद्धाके हाथ ही घायल होकर उसे मरना पड़ा। ईसा-पूर्व ४थी सदीमें अलिकसुन्दरको दुनाइ और सिरदरियाके तटपर फिर शकोंसे मुकाबला करना पड़ा। इस तरह स्पष्ट है, कि ईसा-पूर्व २००० से अलिकसुन्दर (सिकन्दर)के समयतक कारपाथीय पर्वतमालासे गोबीतककी भूमि शक घुमंतुओंकी विचरण-भूमि रही, और यही महाशक-द्वीप था। यह भी स्मरण रखना चाहिए, कि अराल समुद्रके पास मगेसगेत् (महाशक) नामकी एक शक जाति का वर्णन हेरोदोतने किया है। ई० पू० २०६ में जब कि ग्रीक-बाल्हीक राजा युथिदेमोने सिर-दरियापर चढ़ाई की थी, उस वक्त भी वहां शक लोगों हीका निवास था। कितने ही पश्चिमी विद्वानोंका विचार है, कि वहां (महाशकद्वीपमें) रहनेवाली शक जाति वस्तुतः एक जाति नहीं थी, अर्थात् वह भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलते थे, और उनके रक्तमें भी भिन्नता थी। भिन्न-भिन्न भाषाका मतलब यदि यह है, कि उनमें कई बोलियां थीं, शब्दोंके उच्चारणमें कुछ अंतर था, तो इसमें किसीको आपत्ति नहीं। किन्तु यदि इसका यह अर्थ है, कि वहां 'शतम्' वंशकी भाषासे बिलकुल ही अलग, अथवा हिन्दी-युरोपीय भाषासे भी बिलकुल अलग भाषा बोलनेवाले कबीले रहते थे, और रक्तसे भी वे शकार्य या हिन्दी-युरोपीय जातिसे भिन्नता रखते थे; तो इसके लिये कोई आधार नहीं है। वस्तुतः भाषाके

मामूली स्थानीय भेदके साथ भी इस सारे महाशक-द्वीपमें शक जातिका अक्षुण्ण आधिपत्य १७२ ई० पू० तक रहा ।

गोबीसे उत्तर, और पूरबमें मंगोल-वंशीय जातियां निवास करती थीं, जिनमें सिन् (चीनी) और हूणका इतिहासमें सबसे पहले नाम आता है। २५० ई० पू०में तूमन् शन्-यूके नेतृत्वमें हूण बहुत प्रबल हुये और चीनको उनके सामने झुकना पड़ा। ये हूण—जिनके ही वंशज पीछे चिंगिज खांके मंगोल थे—आधुनिक मंगोलियामें रहा करते थे। इनके आतंक और आक्रमणोंके मारे चीनी परेशान थे और इसीलिये उनसे बचनेके लिये विश्वविख्यात चीनकी दीवार बनी। हूणोंके पश्चिमी पड़ोसी शक थे। तूमन् शन्-यूके बाद उसका पुत्र माउ-डुन् हूणोंका राजा हुआ, और वह १८३ ई० पू०में मौजूद था। इसने चीनको कई बार बुरी तरह परास्त किया, और उससे अपनी शतें मनवाई। इसके समय हूण राज्य पश्चिममें अल्ताईतक पहुंच गया, और पूर्वमें कोरियातक। अल्ताई और बलखाशसे पूर्वके शकों-ने माउ-डुन्की अधीनता स्वीकार की, और शायद इससे पहले ही बापके समयमें ही अल्ताईके उत्तरकी सोनेकी खानें हूणोंके हाथमें चली गई थीं। संभव है, अब भी वहां काम करनेवाले शक ही रहे हों। जो भी हों, माउ-डुन्ने शकद्वीपके कुछ भागपर अधिकार करके भी उसने अपनी तरहके घुमंतू शकोंके उच्छेद करनेकी अवश्यकता नहीं समझी। उसके पुत्र ची-युड (मृत्यु १६२ ई० पू०)ने शकोंके साथ पिता जैसा बर्ताव नहीं करना चाहा और उसने १७२ ई० पू०में शकोंके उच्छेदका काम शुरू किया। उसने तरिम्-उपत्यकामें बस गये शकों (यू-ची)के राजाको मारकर उसकी खोपड़ीका मद्य-चषक बनाया। इस समयसे शकों और हूणोंका संघर्ष शुरू हुआ, और शकद्वीपके पूर्वी भागमें खलबली मच गई। शक अपने पुराने स्थानको छोड़कर दक्खिनकी तरफ भागने लगे। दक्खिनकी तरफ भागनेवालोंमें सबसे पहले थे यू-ची, जिन्होंने ई० पू० १३० में बाख्तर (बलख)में ग्रीक-बाल्हीक राज्यको समाप्त कर अपने राज्यकी स्थापना की, और इस तरह हिंदुकुशतकका भूभाग शकोंके हाथमें चला गया।

हूणोंके दक्षिणी पड़ोसी चीनी उनसे तंग आये हुये थे। हूण उन्हें दुधार गाय समझते थे, और चीनी किसान एवं शिल्पी जो कुछ धन जमा करते, हूण सवार आक्रमण कर लूट ले जाते। जब हूणोंका शकोंसे भी संघर्ष हो गया, तो उनसे मिलकर एक साथ हूणोंपर आक्रमण करनेके लिये चीनने अपने एक सेनापति और महापर्यटक चाङ्-क्यान्को १३८ ई० पू०में शकोंके पास दूत बनाकर भेजा। चाङ् रास्तेमें हूणोंके हाथमें पड़ गया और दस सालतक उनका बंदी रहा। इस वक्त त्यान्-शाङ् और अल्ताई पर्वत-मालाओंके बीच इली-उपत्यकामें वू-सुन् शक रहा करते थे। किन्हीं-किन्हीं विद्वानोंका कहना है, कि वू-सुन् कुषाण शब्द हीका चीनी रूपान्तर है। जब वू-सुनोंने १२८ ई० पू० में हूणोंसे अपनेको स्वतंत्र कर लिया, तो चाङ्-क्यान्को मुक्ति मिली और वह फर्गानाके रास्ते सिर-तटपर खोकंद नगरमें पहुंचा। वह पहला चीनी यात्री था, जिसने इन देशों और निवासियोंका सुंदर वर्णन किया, जिसका पीछेके दूसरे चीनी यात्रियोंने अनुकरण किया। चीनने यू-ची सरदारोंसे मिलकर उन्हें चीनके सहयोगसे पश्चिमकी तरफसे हूणोंपर हमला करनेके लिये प्रेरित किया। लेकिन यू-ची इसके लिये तैयार नहीं हुये। उन्हें अपना देश छोड़े ३० सालसे अधिक हो गया था। यद्यपि वह अब भी सोगद, तुषार और बाख्तरमें घुमंतू जीवन ही बिता रहे थे, लेकिन उनके लिये नगरों और गांवोंके रहने-वाले सोगदी (ताजिक) सारी भोग-सामग्री जुटाते थे। यद्यपि चाङ् शकोंको हूणोंके विशद नहीं कर सका, तो भी चीनने अपने ही बलपर एक विशाल सेना हूणोंके विशद १२१ ई० पू०में उनकी भूमि (आधुनिक मंगोलिया)पर भेजी। चीनियोंकी भारी विजय हुई, लेकिन घुमंतू जातियोंपर विजय टिकाऊ नहीं हुआ करती। पीछे फिर हूण लूट-मार करने लगे। लौटते वक्त चाङ्-क्यान् फिर एक साल हूणोंका बंदी रहा। उसने चीन-सम्राटसे सारी बात सुनाते हुये जे-चुआनके रास्ते भारतसे संबंध स्थापित करनेके लिये कहा। चीन-सम्राटने फिर उसे इली-उपत्यकाके वू-सुन् शकोंके पास साथ मिलकर हूणोंपर आक्रमण करनेकी बात करनेके लिये १२१ ई० पू०में भेजा।*

*देखो जिल्द १, हूण भी।

साथ-साथ यू-चियोंने भी अंतमें (चाङ्-क्यान्) की मृत्युके दो वर्ष बाद) चीनकी अधीनता स्वीकार की। यही समय है, जब कि शक-राजाओंने चीनी उपाधि 'देवपुत्र' धारण की।

माउ-डुन्से परास्त यू-चियोंने लोबनोरके तटको छोड़ भागकर बाख्तरके ग्रीक-राज्यको हाथमें ले लिया था, लेकिन वह उतने हीसे संतुष्ट नहीं हुये। सीस्तान (उन्हींके नामसे शकस्तान) और बिलोचिस्तान होते ११० ई० पू०में सिध पहुंचे, फिर धीरे-धीरे समुद्र-तटके भागपर अधिकार करते ई० पू० ८० में तक्षशिला और गांधारके स्वामी बन गये, और उन्होंने एक शताब्दीसे जड़ जमाये यवन-राज्यका उच्छेद कर दिया। इससे पहले ८७ ई० पू० में यू-ची काबुलको भी ले चुके थे। यू-ची सरदार मोग भारतका प्रथम शक राजा था। ११०-८० ई० तक गुजरातभी शकोंके हाथमें चला गया था। ६० ई० पू० तक मथुरामें भी शक-छत्रपी कायम हो गई। मोग (Maus) की मृत्यु ५८ ई० पू०में हुई, जिसके बाद शकोंके भिन्न-भिन्न कबीलोंमें झगड़ा हो गया और राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। तब शकोंके कुषाण कबीलेके यवगू (सरदार) कजुल कदफिस् I की शक्ति बढ़ी। उसने हिंदुकुश पार हो बाख्तर और तुषारपर भी अधिकार कर लिया। कजुलके पुत्र वीम कदफिस् द्वितीय (७५-७८ ई०), ने सारे उत्तर भारतको जीता। इसीका पुत्र 'वसीलेउस् वसीलेउन्कनेर् कोस्' (राजाधिराज कनिष्क) हुआ जिसने शक-संवत् चलाया और ७८-१०३ ईसवीतक राज किया। इसके सिक्के अराल-समुद्रसे बिहार तक मिलते हैं। शकोंमें यह सबसे बड़ा राजा था। इसे बौद्ध धर्ममें नये तौरसे दीक्षित होनेकी अवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यू-ची शकोंकी मूल-भूमि तरिम्-उपत्यकामें ईसा-पूर्व द्वितीय शताब्दीमें ही बौद्ध धर्म पहुंच चुका था और शक ही नहीं, हूण सामन्तोंमें भी बौद्ध धर्मके माननेवाले थे।

शकोंके भिन्न-भिन्न कबीले ईसा-पूर्व द्वितीय शताब्दीमें इस प्रकार थे—(१) लोबनोरके आसपास यू-ची, (२) इली-उपत्यकामें वू-सुन्, (३) इस्सिककुल् झीलके तटपर सह-धाङ्ग, (४) ऊपरी तरिम्-उपत्यकामें—जहां आजकल काशगर्-यारकन्द नगर है,—में कस या खश, (५) मध्य सिर-दरिया तटपर शक, (६) सिर-दरियाके मुहाने तथा अरालके पश्चिमी किनारेपर भी मसगेत (महाशक) रहते थे। जान पड़ता है, काशगरवाले कश नामी शकोंका ही एक उपनिवेश काश्मीरमें था, जिससे उसका यह नाम पड़ा। उधर हूण और चीनका द्वन्द्व जारी रहा। अंतमें इसधी प्रथम शताब्दीके मध्यमें हूण चीनके प्रहारसे जर्जर होकर उसकी अधीनता स्वीकार करनेको मजबूर हुए। इसपर सारा हूण-जन उत्तरी और दक्षिणी दो भागोंमें विभक्त हो गया। यद्यपि विभाजन अधीनता स्वीकार करनेके विरुद्ध ही हुआ था, किन्तु स्वतंत्रतावादियोंके लिए वह बहुत महंगा पड़ा। चीन और अपने भाइयोंकी सम्मिलित शक्तिके सामने अब निर्बल हो गये और ७३ ई०में उत्तरी हूणोंका पश्चिमाभिमुख महा-अभियान आरम्भ हुआ। धीरे-धीरे शकद्वीपसे शकोंको हटाकर वह उनकी जगह लेने लगे, लेकिन सिर-दरियाके दक्खिन उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया। ३७० ई० में अराल और काम्पियन-तटपर रहनेवाले आलानोंका उन्होंने ध्वंस किया—यह भी शकोंका ही एक कबीला था। ३७५ ई०में अपने सरदार वालामेरके नेतृत्वमें दोन-तटपर पहुंच उन्होंने माओस्त-गत (जाट)को छिन्न-भिन्न किया। फिर दनियेपर पहुंच गाथोंका ध्वंस किया। आगे भी उनका प्रभुत्व बढ़ता ही गया और हूण-सरदार अत्तिला (मृत्यु ४५३ ई०)के समय मध्य-दुनाइ (डैन्यूब) तक हूणोंके हाथमें आ गया।

मंगोलियासे आरम्भ हो मध्य-दुनाइतक पहुंच गये पौने पांच सौ सालके इस भयंकर हूण-तूफानने सबसे अधिक क्षति शकोंको पहुंचाई, और वोल्गासे गोबीतकके शकद्वीपको शकोंसे खाली करवा लिया। सबसे आखिरमें शकद्वीप छोड़कर भागनेवाले शक हेपताल थे, जिन्हें गलतीसे भारतमें हूण और पश्चिममें श्वेत-हूण कहा जाता है। ३६० ई०में हूणोंके एक कबीले अवार (ज्वेन्-ज्वेन्)ने शक्ति सम्पन्न हो पश्चिमकी ओर बढ़ना शुरू किया। इन्हींके प्रहारसे उत्पीड़ित हो हेपताल भगे और धीरे-धीरे ४२५ ई०में उन्होंने सारे मध्य-एसियाको सिर-दरियासे हिन्दुकुशतक लेकर अपने पूर्ववर्ती कुषाण-राज्यका उच्छेद किया। इनका संगठन कबीलाशाही था, किन्तु सरदारोंका बहुत प्रभाव था। किदार इनका प्रथम महान् नेता था। इसीके नामसे

हेफ्तालोंका दूसरा नाम किदारिय हूण पड़ा। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि हेफ्तालों (किदारियों) का नाम हूण इसीलिये पड़ा, कि वह हूणोंके शासनमें चिरनिवासके बाद वहाँसे भागकर आये थे। किदारका पुत्र ४५५ ई०में श्वेत हूणोंका राजा था। संभवतः इसीका पुत्र तोरमान था, जिसने ग्वालियर और सागर-दमोहतकको जीत लिया था। ५०२ ई०में इसकी मृत्युके बाद इसका पुत्र मिहिरकुल राजा बना। मिहिर मित्र (सूर्य)का ही प्राचीन फारसी रूप है मित्र—मित्र > मिथ्र > मिहिर। पीछे शकद्वीपियोंके प्रयाससे मिहिर भी उसी प्रकार शुद्ध संस्कृत बन गया, जिस प्रकार शक-द्वीपीय ब्राह्मण शुद्ध भारतीय ब्राह्मण बन गये। कुल—यह हूणी शब्द गुल या ग्युलका अपभ्रंश है, जिसका अर्थ राजकुमार या दास होता है। तोरमान ने ग्वालियरमें सूर्य-मन्दिर बनवाया था, यह उसके शिलालेखसे पता चलता है। मिहिरकुलने मगधपर आक्रमण किया था, किन्तु मगधराज बालादित्यने उसे बुरी तरह हराया। ५३२-३३ ई०के आसपास मालवाके विजयी राजा यशोधर्मा विक्रमादित्यने मिहिरकुलको हराकर उसे कश्मीरकी ओर खदेड़ दिया। हूण नामसे प्रसिद्ध, किन्तु वस्तुतः शक मिहिरकुल अंतिम शक राजा था; जिसे भारतीय इतिहास जानता है। हेफ्तालोंकी राजधानी बुखाराके पास बरख्सा में थी, जहाँ हालकी खुदाईमें कितने ही भारतीय शैलीपर बने भित्तिचित्र मिले हैं।

हमने शकोंको ईसा-पूर्व द्वितीय शताब्दीके आरम्भमें गोबीसे कारपाथीय-पर्वतमालातक अपने महाशकद्वीपमें बसे देखा। फिर उनकी एक शाखा यू-चीको मध्य-एसिया, तुषार, सीस्तान, सिन्ध, काबुल, तक्षशिला होते मथुरा और उज्जैनतक फैलते देखा। फिर यू-चीकी एक शाखा कुषाणोंको कनिष्कके रूपमें अराल-समुद्रसे बिहारतक राज करते पाया और अंतमें फिर तोरमान और मिहिरकुलके रूपमें शकद्वीपसे सबसे पश्चात् निकलें 'श्वेतहूण' नामधारी शकोंको मगधतक धावा मारते देखा। शकोंके सबसे प्रबल जातीय देवता सूर्य थे। मिहिरकुल (सूर्यदास)का नाम भी इसी बातका परिचायक है।

शकद्वीपीय ब्राह्मणोंके उद्गमके बारेमें यह सर्वमान्य कथा है, कि वह शकद्वीपसे आये और सूर्यपूजा उनका मुख्य कार्य था। शकद्वीप कहाँ था, इसे ऊपरके वर्णनसे अच्छी तरह समझा जा सकता है—अर्थात् वह गोबीसे वोल्गा और, पश्चिम कारपाथियातक फैला शकोंका-मुख्य निवास था। दक्षिणकी ओर भारततक भागकर आनेवाले शक पूर्वीय-शकद्वीपके थे।

शकद्वीपी ब्राह्मण और सूर्य-पूजाका घनिष्ठ सम्बन्ध है, इससे शक-द्वीपियोंकी सारी परम्परा सहमत है। शकद्वीपी-प्रधानतावाले इलाकोंमें अधिकांश सूर्य-मूर्तियां द्विभुज मिलती हैं। इनके कंधेके ऊपर सिरकी दोनों तरफ सूर्यमुखीके फूल कुछ असाधारणसे जरूर मालूम होते हैं, क्योंकि भारतीय परम्परामें सूर्यमुखी फूलका कोई स्थान नहीं। लेकिन आश्चर्यकी बात तो यह है, कि सूर्यके पैरोंमें दो बूट होते हैं—बूटधारी हिन्दू देवता दूसरा कोई नहीं; और, यह बूट भी घुटनोंतक पहुंचते हैं। इसकी व्याख्या करते पंडित लोग कहते हैं, सूर्यके चरणके दर्शनसे आदमीका अमंगल होता है, इसीलिये सूर्यके पैरोंको ढांक दिया गया है। परन्तु उसे बूटसे ही ढांकनेकी क्या अवश्यकता? और, फिर वही बूट हमें मथुरासे मिली कनिष्क-प्रतिमाके पैरोंमें दिखाई पड़ता है। यहाँ कनिष्क, शक, सूर्यमूर्ति और सूर्यपूजक शकद्वीपी ब्राह्मणोंका पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। साथ ही यह भी जानना कुतूहलजनक होगा, कि आज भी रूसी लोग जाड़ोंमें उसी तरहके घुटनेतकके बूटों को पहनते हैं, जिन्हें कि हम कनिष्क और सूर्यकी प्रतिमाओंके पैरोंमें देखते हैं।

इस समानताका क्या कारण है? इसके लिये आइये, हम शकद्वीपमें रह गये शकोंकी सुध लें। हूणोंने वोल्गासे पूरबके शकद्वीपको शकोंसे खाली करा लिया और वोल्गासे मध्य-दुनाइ (डैन्यूब) तक भी वह अपनी एक चौड़ी पट्टी खींचते चले गये। इन्हीं हूणोंके वंशज तुर्क, उइगुर और पीछे मंगोल हुए। फिर ५५७ ई०के लगभग तुर्कोंने मध्य-एसियासे अवारों (हेफ्तालों)का राज्य खतमकर वहाँ अपना अधिकार जमाया और पीछे तो मध्य-एसियामें न शकोंका नाम रहा, न आर्यवंशी सोगर्दां (थोड़ेसे ताजिकोंको छोड़कर) का।

लेकिन, वोल्गासे पश्चिमकी कहानी दूसरी है। दोन और दनियेपर तटपर जिन जातियोंका हूणोंने ध्वंस किया, वह शक-वंशकी थीं। ईसाकी ४थी-५वीं सदीमें-मध्य दनियेपर और क्रिमिया-में शकोंके बहुत-से पुराने नगर-ध्वंस मिले हैं। यद्यपि उत्तरके घने जंगलोंमें अब भी घुमन्तू शक पशुपाल रहा करते थे, लेकिन दनियेपर और क्रिमियाके तटपर वह गांवों और शहरोंमें रहने लगे थे, और ग्रीक सभ्यतासे बहुत प्रभावित हुए थे। हूणोंने अपनी ध्वंस-लीला मचाकर सभ्यताकी इस प्रगतिमें बाधा डाली। ६ठी सदीमें हम पश्चिमी शकोंके कबीलोंमें वेन्द (वेनेत्), अन्त, स्लाव, और सरमात् नामके कबीले पाते हैं। अकदमिक् देम्भिविनके अनुसार इनमें पहले तीन एक ही जातिके नाम थे, और सरमात् भी शकोंकी ही जाति थी। आगे चलकर पश्चिमी शकद्वीपके ये सारे शक स्लावके नामसे मशहूर हुए।

शकोंकी पुरानी नगरियोंकी खुदाईमें निकली चीजें भी बतलाती हैं, कि आधुनिक स्लाव उन्हींके वंशज हैं। शकोंके रेखाचित्र, दीवार और पात्रोंके अलंकरण अभीतक उक्रइन्के गांवोंमें प्रचलित हैं। उनके आभूषण रूसी किसानोंमें तबतक प्रचलित थे, जबतक कि उनमें पश्चिमी सभ्यता भीतरतक नहीं घुस गई। उनके गोखरूवाले सोनेके कुंडल और हंसलियां तो आजके भारतमें भी देखी जाती हैं। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा, हूणोंके तूफानने काकेशस और कालासागर तटसे शकोंका संबंध तोड़ दिया। अब वहां हूण कबीले पशु-चारण करने लगे। यही हूण कबीले पीछे पेचेनगा अथवा वोल्गा-तटपर वोल्गार, काकेशसके पास खाजार (काजार) आदि नामसे मशहूर हुए। हूण-उपद्रवके कारण शक अपनी दक्षिणी भूमिसे ही वंचित नहीं हुए, बल्कि उनका उन्मुक्त सभ्यता-प्रवाह भी रुद्ध हो गया, और एक बार फिर वे केवल घुमन्तू-जीवन वितानेपर मजबूर हुए। इतना ही नहीं, इसी परिवर्तनके साथ शक या स्किफ नाम भी इतिहाससे लुप्त हो गया और आगे हम अन्त, वेन्द नामवाले कबीलोंको पाते हैं। अरबोंके प्रभावसे जिस तरह ८वीं शताब्दीमें पहुंचते-पहुंचते सारा ईरान और मध्य-एशिया मुसलमान हो गया, इसी तरह खजार, बुल्गार आदि हूण-जातियोंने भी इस्लाम स्वीकार किया (बुल्गार आजकल चुवाश के नामसे पुकारे जाते हैं, उनका आजकलके बुल्गारिया देशसे कोई संबंध नहीं। बुल्गारियावाले स्लाव हैं, जब कि वोल्गावाले बुल्गार हूण-वंशज)।

अभी भी रूसी ईसाई नहीं हुए थे, और बहुतसे पुराने देवी-देवताओंको मानते थे; जिनमें सूर्य सबसे बड़ा देवता था। सूर्यके एक खास पर्वपर वे लोग घीमें पके लाल चीले उसी तरह खाते थे, जैसे बिहारमें आज भी कार्तिककी सूर्य-वृष्टीके दिन लाल ठकुरा खाया जाता है। आज भी यद्यपि उस दिन रूसी लोग मोठे चीले खाते हैं, पर अब उनमें पुराने धर्मका माननेवाला कोई नहीं है। ९वीं शताब्दीके एक अरब पर्यटकने वोल्गाके किनारे खरीद-बेंचके लिये आये रूसियोंको देखा था। वहां एक रूसी मर गया। लोगोंने लकड़ीकी चिता बनाई और पतिके साथ पत्नी भी सती हो गई।

आगे चलकर इन सभी शक कबीलोंका स्लाव (स्क्लाव <शकल) या श्रव नाम पड़ गया। जिस तरह हमारे यहां उपनिषद्-कालमें सोमश्रवा आदि श्रवान्त नाम बहुत होते थे, उसी तरह स्लावोंमें स्लावांत (स्वेत-स्लाव, व्याचिस्लाव) नाम अब भी होते हैं—मोलोतोफका नाम व्याचिस्लाव है। स्लाव जाति आज दो भागोंमें विभक्त है—(१) पश्चिमी स्लाव जिनमें पोल, चेक और स्लावक हैं, और (२) पूर्वी स्लाव, जो दक्षिणी और उत्तरी दो भागोंमें विभक्त हैं। दक्षिणी स्लावोंमें बुल्गार, सर्ब और क्रोवात (क्रोत) सम्मिलित हैं और उत्तरी स्लावोंमें रूसी, उक्रइनी तथा वेल्ोरूसी हैं। पोल-चेक् भाषाओंका रूसीसे उतना ही अंतर है, जितना अवधीका बंगलसे। दोनों एक-दूसरेकी भाषाको कुछ कठिनाईसे समझ सकते हैं। रूसी-उक्रइनी भाषाएं भोजपुरी और मैथिलीकी तरहकी हैं, और रूसी-बुल्गारीमें उतना ही अंतर है, जितना मैथिली और अवधीमें। सारे पूर्वी स्लाव एक-दूसरेकी भाषा समझ सकते हैं। पश्चिमी स्लावोंके उच्चारणमें अंतर कुछ अधिक हो गया है, जिससे वे एक-दूसरेकी भाषाको सुगमतासे नहीं समझ सकते।

स्लावोंमें सबसे पहले बुल्गारोंन सभ्यतासे संबंध स्थापित किया और ग्रीसके ईसाइयोंके संपर्क में आ ईसाई-धर्मको स्वीकार किया। छठी-सातवीं सदीमें हंगर या मजार (अत्तिलाके हूणोंके वंशज)

के बलको तोड़नेमें बुलगारोंने बहुत काम किया, और वे बढ़ते-बढ़ते ग्रीसके पड़ोसी बन गये। यद्यपि उन्होंने ग्रीसको सांस लेनेकी फुर्सत दी, किन्तु स्वयं कांटेकी तरह चुभने लगे। लड़ाकू धुमंतुओंको पालतू बनानेके लिये सस्कृतिमें उन्नत धर्म बहुत अच्छे साधन होते हैं। बुलगारोंपर भी ग्रीसने वही शस्त्र चलाया। स्लाव जातियोंका सबसे प्राचीन लिखित साहित्य बुलगारियाकी भाषामें ही मिलता है। उस वक्त पश्चिममें ईसाई-धर्म रोम और ग्रीक दो सम्प्रदायोंमें विभक्त हो चुका था। दोनों सम्प्रदायोंमें जहां क्रिया-कलाप और मतमतांतरका कितना ही अंतर था, वहां दोनोंकी लिपियां भी अलग थीं। लिपिहीन असभ्य जातियां जिस चर्च (सम्प्रदाय)से धर्मकी दीक्षा लेतीं, उसीकी लिपिको स्वीकार करतीं हैं। स्लाव-जातियोंमें पोल, चेक, स्लावक यानी सारे पश्चिमी स्लाव तथा पूर्वी स्लावोंमें क्रोवात रोमन-चर्च द्वारा ईसाई बनये गये, इसलिये उन्होंने रोमन-लिपि स्वीकार की। बाकीने ग्रीक चर्चका अनुयायी बन ग्रीक-लिपि स्वीकार की।

बुलगारियाके ईसाई होनेका यह मतलब नहीं था, कि सारे पूर्वी स्लाव भी जल्दी ही ईसाई बन गये। स्लावों की मूल भूमिमें अब भी पुराने देवी-देवताओंका जोर था। ये उस समय बहुत लड़ाके भी थे। हूणी कबीलोंका जब-जब प्रहार ग्रीसपर होता, तो वह स्लावोंसे मदद मांगता। क्रिमियामें ग्रीक लोगों की बहुत-सी व्यापारिक वस्तियां थीं और यहां हर वक्त उनका हूण-वंशज पेचेनगोंसे झगड़ा रहता था। अभी इन स्लावोंमें राजा नहीं थे, कबीलाशाहीका जोर था। सारा काम जन-सभा (वेचे) कबीले का जिर्गा करता था। लेकिन जैसे-जैसे बाहरके राज्योंसे लड़ने-भिड़ने और लूट-पाटकी प्रवृत्ति बढ़ती गई, वैसे-ही-वैसे सरदारोंका अधिकार बढ़ा।

९वीं सदीके अन्तमें एक स्वीडिश राजकुमार रूरिक आकर उनका शासक बन गया। रूरिकके पुत्र ओलेग (९११ ई०) और ईगर (९११-५७ ई०)ने अपनी लड़ाकू प्रजाको खूब संगठित किया और दूर-दूरतक विजय-यात्राएं कीं। ईगरने काकेशसके खजारोंके खान और ग्रीस (विजन्तीन)के सम्राट् दोनोंको नतमस्तक किया। ग्रीकोंने उसे एक किला और बहुत सा धन क्षतिपूर्तिके तौरपर दिया, साथ ही संधिद्वारा ईगरको वचनबद्ध किया, कि तुर्की धुमंतुओंके आक्रमणके वक्त वह ग्रीक-साम्राज्यकी रक्षा करेगा। ईगरने अपनी शक्ति बहुत बढ़ाई। उसका पड़ोसियोंपर बहुत आतंक रहा। ईगर के पुत्र स्व्यातोस्लाव (९५७-७३ ई०)ने पिताकी शक्तको और आगे बढ़ाया। उसने हूणी बुलगारोंके बोल्गा-तटवर्ती तथा उनके संबंधी चेर्कासोंके कूवन-तटीय नगरोंको लूटा, और अपने पूर्वज शकोंके खोये काला-सागर-तटपर फिर प्रभुत्व जमाते हुए कियेफको एक शक्तिशाली राज्यकी राजधानीमें परिणत कर दिया। स्व्यातोस्लाव जब विजय-यात्रा करते (९६९-७१ ई०) दुनाइ (डैयूब)के तटपर पहुंचा, तो ग्रीस-सम्राट् घबड़ा उठा और उसने कालासागरके उत्तरी तटके बयाबानके निवासी पेचेनेगा धुमंतुओं और दुनाइ-तटवर्ती बुलगारोंको मिलाकर स्व्यातोस्लावका मुकाबला करना चाहा। लेकिन ग्रीसको स्व्यातोस्लावके साथ संधि करनेको मजबूर होना पड़ा। स्व्यातोस्लाव अपने समयका महान् विजेता था। ग्रीक ऐतिहासिक उसके आकार-प्रकारके बारेमें कहते हैं—“उसका आकार मझोला, नाक उभड़ी हुई, दाढ़ी भरी और लंबी, शिर बिलकुल तंगा, सिर्फ एक ओर कुछ छूटा बाल (शिखा)था, जो कि कुलीनताका परिचायक था। उसकी गर्दन मोटी, कंधे चौड़े, सर्वांग संतुलित शरीर। उसके एक कानमें दो मोतियों और पदाराग-जटित सोनेका कुंडल था।” स्व्यातोस्लावने विजयीके तौरपर गर्वके साथ विजन्तिन (ग्रीस)की राजधानी कन्स्तन्तिनोपोलमें प्रवेश किया। लौटनेपर पेचेनेगा धुमंतुओंने दनियेपरके जल-प्रपातोंके पास धोकेसे उसे मार डाला।

स्व्यातोस्लावका पुत्र व्लादिमिर (९७८-१०१५ ई०)पिताकी ही तरह बहादुर निकला और नतमस्तक शत्रुओंको उसने धिर उठानेका भीका नहीं दिया। उसने अपने राज्यका विस्तार पश्चिममें बाल्तिक समुद्रतक किया और पोलों तथा लियुवानियोंके कितने ही नगरोंको छीन लिया। विजंतिन्का तो वह संरक्षक ही था। जब ग्रीक सेनाने विद्रोह किया, तो सम्राट्की गहारपर व्लादिमिर ने जाकर उसे दबाया। सम्राट्ने पारितोषिकमें अपनी बहनसे व्लादिमिरका ब्याह कर दिया। विजंतिन् वरबारकी तड़क-भड़क, उसके सामंती विलास, कला, संगीतने व्लादिमिरको मुग्ध कर दिया, और

१८८ ई०में उसने ईसाई-धर्म स्वीकार करनेका निश्चय किया। उसने अपनी प्रजाको हुंम दिया, कि कल द्निपेरजो धर्माभि-वेक (बप्तिस्मा)के लिये नहीं पहुंचेगा, वह मेरी कृपाका पात्र नहीं होगा। किसकी मजाल थी, राजाकी कृपाका अभाजन हो। इस तरह प्रायः सारी राजधानी एक दिनमें ईसाई बन गई। ईसाई-पुरोहितोंने परामर्श दिया और व्लादिमिरकी आज्ञासे कियेफके सारे देवालय स्लावोंके पुराने देवताओंसे खाली हो गये। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं, कि लोगोंने अपने हजारों वर्षोंसे चले आये धर्म और देवताओंको असानासे छोड़ दिया। उसके लिये कितनी ही जगह विद्रोह हुए।

कियेफके रूसोंने इस तरह अपनी प्राचीन संस्कृतिकी बहुतसी निधियोंको खोया। पुराने देवताओंकी मूर्तियों और पूजा-प्रकारोंके साथ उनके हजारों शब्द भी लुप्त हो गये। लेकिन अब उसकी जगह उन्हें एक उन्नत संस्कृतिसे संपर्क स्थापित करनेका मौका मिला, अपनी भाषाके लिए लिपि मिली, ग्रीक-साहित्य, ग्रीक-कलाके सीखनेका रास्ता खुल गया।

१०१५ ई०में व्लादिमिरके मरनेपर उसके लड़कोंमें झगड़ा हो गया और तीन पुश्तोंके परिश्रमसे एकताबद्ध कियेफ-रूस-राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा। इसमें संदेह नहीं, कि प्राचीन परम्परासे अत्यंत विच्छेद होना भी इसका एक कारण हुआ। ग्यारहवीं सदीसे रूस बहुतसे राज्योंमें विभक्त हो गया। तेरहवीं सदीके मध्यमें पहुंचनेतक छिड़ गिस् खानके मंगोल उसके पौत्र बातूखानके नेतृत्वमें पहुंचे और फिर प्रायः डेढ़ सौ वर्षोंतक रूसियोंको शिर उठानेका मौका नहीं मिला। हां, मंगोलोंके शक्तिशाली शासनसे लाभ उठाकर मास्कोके राजूलने अपने प्रभावको बढ़ाया—मंगोलखानके कृपापात्रके तौरपर ही। तेमूग्ने दिल्ली लूटने (१३९८ई०)से तीन साल पहले जब (१३९५ई०) मास्कोके पास तकका धावा करके मंगोल-खान तोक्तामि की शक्तिको क्षीण कर दिया, तो मास्कोके महाराजुलोंको रूसको एकताबद्ध करनेका मौका मिला। यह काम वासिली प्रथम (१३८९-१४२५ई०)के कालमें आरम्भ हुआ, और उसे पांचवें उत्तराधिकारी तथा प्रपौत्र महाराजुल (पीछे जार) क्रूर ईवान चतुर्थ (१५३३-ई०)ने पूर्णताको पहुंचाया। उसके पुत्र फेदोर (१५८४-९८ई०) के साथ रूरिक-वंशकी समाप्ति हो जाती है। लेकिन, वह अपने कर्तव्यको पूरा कर चुका था। अब रूसी रियासतें मिलकर एक ही नहीं हो गई थीं, बल्कि रूसी राज्य कास्पियनके तटपर पहुंचकर बोलगा और उरालसे भी पूरबकी तरफ पैर बढ़ा चुका था। यह अकबरका समय था, जबकि भारतने भी देशकी एकतामें कम सफलता नहीं प्राप्त की थी।

हमने देखा, हूणोंके प्रहारके बावजूद भी पश्चिमी शक-द्वीपके रहनेवाले शक एक बार जंगलों की तरफ भागे। फिर स्लावोंके रूपमें प्रगट हो अंतमें आधुनिक रूसियों और दूसरी स्लाव जातियोंकी शकलमें अस्तित्वमें आये, और आज भी मौजूद हैं। शकद्वीपसे भागकर पूर्वी शक दूसरे कितने ही देशोंमें बिखरने भारतके शकद्वीपी ब्राह्मणों, कितने ही राजपूतों, गूजरो, जाटों आदिके रूपमें हिन्दुओंमें मिल गये। इस सारे इतिहासपर गौर करनेसे स्पष्ट ही जायेगा, कि क्यों रूसी भाषासे संस्कृतका इतना घनिष्ठ संबंध है। यह इसीलिए कि रूसी उन्हीं शकोंके वंशज हैं, जिनके भाई-बंद आर्य पुराने कालमें आकर हिन्दुस्तान और ईरानमें बस गये, और उनका पारस्परिक संबंध वहीं नहीं टूट गया, बल्कि सहस्राब्दियां बीतनेपर फिर बहुतसे शक हिन्दुस्तानमें आये। संस्कृत और रूसी भाषाओंमें जो घनिष्ठ संबंध मालूम होता है, वह उन्हीं पुराने संबंध ही के कारण।

स्लाव भाषा—रूसी भाषाकी संस्कृतसे कितनी समीपता है, इसके लिये शब्दकोष और शब्द-विश्लेषणको देनेसे पहिले यहां दो शब्द कहनेकी आवश्यकता है। यह एक मान्यता बन गई है, कि लिथुवानी भाषा संस्कृतके बहुत समीप है। रामानंद और कबीरके समयतक लिथुवानी लोग ईहाई धर्ममें दीक्षित न हो अपने प्राचीन धर्मपर आरूढ़ थे, उनके कितने ही देवता वैदिक देवताओंमेंसे थे। उनकी भाषाका विकास भी बहुत मंद गतिसे हुआ था। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं, कि लिथुवानी भाषा रूसीकी अपेक्षा संस्कृतके बहुत समीप है। हिन्दी-यूरोपीय भाषाओंके 'शतम्' और 'केन्तम्' दोनों भाषा-समुदायोंमें स्लाव-भाषायें संस्कृत और ईरानीके साथ 'शतम्' वंशकी हैं, जब कि लिथुवानीकी समीपता 'केन्तम्'

से ह। उच्चारण भी उसके रूसीकी अपेक्षा संस्कृतसे कितन दूर है, इसे निम्न तालिका में देखिये :-

लिथुवानी	प्राचीन स्लाव	रूसी	संस्कृत
केतुरि	चेतुरे	चेतीरे	चतुर्
केत्वित्स्	चेत्वरेते	चेत्वेर्त्	चतुर्थ
ब्रोतेरेलिस्	ब्राते	ब्रात्	मातृ
मोते	माति	मात्	मातृ
गुवस्	झिवे	झिव्	जीव

रूसी भाषा स्लाव-भाषा-वंशकी पूर्वी शाखाकी एक भाषा है। पूर्वी स्लाव-भाषायें हैं—रूसी, बोलगारी और सर्बिया। उक्रइनी और वेलोरूसी भाषायें यद्यपि अब स्वतंत्र साहित्यिक भाषायें हैं, किन्तु वह रूसीके अत्यंत समीप हैं। इसलिये तालिकामें उनके शब्द पृथक् नहीं दिये जा रहे हैं। पूर्वी और पश्चिमी स्लाव-भाषाओंका आपसका सम्बन्ध निम्न तालिकासे मालूम होगा —

पूर्वी स्लाव				पश्चिमी स्लाव		
प्राचीन स्लाव	रूसी	बोलगारी	सर्बिया	स्लोवानी	चेकी	पोली
बेल् (था)	बिल्	बिल्	दियेल्	बेल्	बेलु	इयलु
दिम् (धूम)	दिम्	दिम्	दिम्	दिम्	दूम	दूम
दन्. (दिन)	देन्	देन्	दन	दन	देन्	झिएन्
सन् (सूनु)	सोन्,सिन्	सन्	सन	सन्ज	सेन्	सेन्
म्लेको (दूध)	मोलोको	म्लाकु	म्येको	म्लेको	म्लेको	म्लेको
गलवा (गल)	गोलोवा	गलवा	गलवा	गलव	गलव	गलोवा
सम्प्रत्. (मृत्यु)	स्मेर्त्	स्म्रत्	स्म्रत्	स्म्रत्	स्म्रत्	शिमएरे
मृत्व (मृत्यु)	मेर्त्विइ	म्रत्	म्रत्	म्रतेव	म्रत्	मर्त्वु
प्ल.न्. (पूर्ण)	पोल्न	प्लन्	पुन्	पोल्न	प्ल	पेलन्
पत् (पंच)	प्यत्	पेत्	पेत्	पेत्	पेत्	पिएत्स
रउका (कर)	रुका	(रका)	रुका	रोका	रुका	रेका
मेभ्दा (मध्य)	मेभ्दा	मेभ्दा	मेह	मेया	मेजे	भिएउजा
जेम्ल्यु (जमा)	जेम्ल्या	जेम्या	जेम्ला.	जेम्ल्या	जेमे	झिएमिए

हम रूसी शब्दों* को नागरी अक्षरमें दे रहे हैं, जिसमें कुछ नये संकेतोंकी आवश्यकता है। ओ का उच्चारण रूसीमें कभी ओ और कभी अ होता है, किन्तु सन्देह उत्पन्न हो जानेके डर से हमने यहां उच्चारणका विचार न कर लिखे जानेवाले अक्षर (ओ)का ध्यान रखा है। रूसी स्वरोंका ह्रस्व-दीर्घ उच्चारण ऐच्छिक है, इसलिए नागरी स्वरोंमें ह्रस्व-दीर्घको ध्रुव नहीं समझना चाहिये। रूसीमें उदात्त संकेत लगानेकी प्रथा है, जिससे उच्चारणमें ही अन्तर नहीं हो जाता, बल्कि अर्थमें भी भेद हो जाता है। हम यहां उदात्त संकेतको विस्तार और दुरुहताके कारण नहीं दे सके।

*रूसी शब्दोंके संग्रहमें हमने ब. क. म्युलर, स. क. बीयानुस्के कोश (रुस्को-आंग्लिइ-स्किइ स्लोवार, मास्को १९३५) के ६०,००० शब्द, तथा ब. फ. रीतस्ताइन्के कोश (मास्को १९३८)का उपयोग किया है।

परिशिष्ट (१)

रूसी शब्द-कोश

(१) शब्द

अ-अ (निधार्थ)

अजर्त-आज्वालाः, ताप

आ-आह !

बेग्-वेग (दौड़)

बेगत्-वेजति (दौड़ना)

बेग्लेत्स-वेगक (भगेलू)

बेगस्त्व-वेगकत्व (भगेलुत्व)

बेगून्-वेगकत्व (भागून, भग्ग)

बेजात्-वेजति (भागना)

बेज्-विना (विना)

बेज्-बोज्जिनिक्-वि-भगक

(आनीश्वरवादी)

बेज्-वेत्रेन्निइ-वि-बातीय (बिना

(वायुका)

बेज्-बोलोसिइ-वि-बाल,

(केशरहित)

बेज्-गलविइ-वि-गल

(शिर बिना)

बेज्-गोलोविइ-वि-ग्रीव

(शिर बिना)

बेज्-दोडिदए-विदुह (वर्षा

बिना)

बेज्-दिमिन्इ-वि-धूम (धूम-

रहित)

बेज्-जिन्नेविइ-वि-जीवन

(जीव बिना)

बेज्-नोसिइ-वि-नास,

(नासिका बिना)

बेजो-वि (बिना)

बेज्-रोगिइ-विशृंग (शृंग

बिना)

बेर्योजां-भुर्ज (वृक्ष)

बेस्-वि (बिना)

बेस्-प्रि-मेस्नि-वि-प्र-मिश्रण

(मिश्रण-रहित)

बेस्-सेवेचनोस्त्-वि-हृदयत्व

(हृदयहीनता, श्रद्-हीनत्व)

बेस्-स्लाविये-वि-श्रवी

(कीर्त्तिहीन)

बेस्-स्लावेस्निइ-वि-श्रवणक

(वाणी-हीन)

बेस्-स्मेतिये-वि-मर्थता

(अमरत्व)

बेस्-स्नेज्निइ-वि-स्नेही (हिम-

हीन), स्नेह-स्नेज (बर्फ)

बेस्-सो-ज्नातेल्-निइ-वि-सं-

ज्ञातर् (चेतना-हीन)

बेस्-सोस्त्रिता-वि-स्वप्नता

(निद्राहीनता)

बेस्-स्त्राशिन्इ-वि-त्रास्नु

(त्रास-हीनता)

बिर्युक-वृक (भेड़िया)

बिस्-द्विस्र (फिरसे)

बित्-भिद् (तोड़ना, ताड़ना)

बित्.स्या-भिद् (ताड़ना,

भिड़ना)

बत्.यो-भिद् (तोड़ना,

भिड़ना)

ब्लागो-भर्ग (अच्छा, आशीः)

ब्लागो-दात्-भर्गदाति (आशी-

दान)

ब्लागो-देतेल्-भर्गदात्

(उपकारक)

ब्लागो-देयानिये-भर्गदान

(आशीदान)

ब्लागोइ-भर्ग (अच्छा, सुखी,

उपयोगी)

ब्लागो-प्रियात्निइ-भर्गप्रियत्नु,

(प्रिय)

ब्लागो-रोद्निइ-भर्गरोध्नु

(सुजात)

ब्लागो-स्लोवेनिये-र्गभ-श्रवण ।

(मंगल सुनना, आशीर्वचन)

ब्लागो-त्वोरीतेल्-भर्गत्वष्टर्

(उपकारक)

बोग्-भग (भगवान्)

बोगातेइ-भगत (धनी पुरुष)

बोगात्स्वो-भगतव (धनाह-

यता)

बोगाच्-भगक (धनाहृय)

बोगी-निया-भगिनी (भगवती)

बोगो-मातेर्-भगमातर्

(भगवान्की मां, मरियम)

बोगो-पोची-नियेभग-पूजा

बोगो-रोदित्सा-भग-रोहिणी

(मरियम)

बोगो-स्लाविये-भगश्रवणा

(भगवान्की भक्ति, धर्म-

शास्त्र)

बोगो-स्लुजेनिये-भगश्रूषणा

(भगवान्की सेवा)

बोजे मोइ-भग मे ! (मेरे भग

वान्)

बोजेस्त्वो-भगतव (भगवत्-

तत्त्व)

वोक्-पक्ष, वक्षशरीर-पार्श्व)

वोकोवाइ-पक्षतः (शरीर-

पार्श्वसे)

बोकोम्-पक्षेण (शरीरपार्श्वसे)

बोले-भूरि (बहु, अधिक)

बोलेये-भूरि (बहु अधिक)

बोल्लात्-बोल्लति (बोलना)

बोल्लोव्या-बोल्लति (बोलना)

बोल्लिइ-बोल्लन्त (बोलक्कड़)

बोल्लून्-बोल्लू (बोलक्कड़)

बोल्लो-भरिशः (बहुत-सा)

कुस्क्या

बोल्लोविक-भरिक (बहुमतिक)

बोलशिइ-भूरिशः (अधिकतर)
 बोल्, शे-भूरिशः (अधिकतर)
 बोल्, शिन्स्त्वो-भूरित्व (बहुमत)
 बोल्, शोइ-भूरिशः (बहुतर)
 बोयाउन्-भयान (भय, आतंक)
 ब्रात्-भातृ
 ब्रातानिये-भ्रातृना (भाई
 बनना)
 ब्रात्वा-भ्रातृक (भैया)
 ब्रात्स्किइ-भ्रातृकीय (भाई-
 चारा)
 ब्रात्.-भरति, हरति (लेजाना)
 ब्रात्. स्या-भ (ह) रति (ले
 जाया जाना)
 ब्रेम्या-भर (भार)
 ब्रोवि-भ्रू (भौं)
 ब्रोव्.-भ्रू (भौं)
 ब्रोदित-ब्रधतिः (उठना,
 हटाना)
 ब्रोस (सि) त्. (स्या)-भ्रंशति
 (फेंकना, फिकाना)
 बुदुचि-भूतिः (होना)
 बुदुश्चिइ-भविष्यतिः (होने
 वाला)
 बुद्.-भूतिः (हो सकना)
 बिवात्.-भवति (हो जाना)
 बिक्-वृष (बैल)
 बिलो-भूतः (भइल, भोजपुरी)
 बित्.-भूतिः (होना)
 वाम्-वां (तुमको)
 वामि-वां (तुम्हारे द्वारा)
 वस्-वः (तुम, तुम्हारा)
 वश्-वः
 व्-वेगात्.-वि-वेजतिः (भीतर
 भागना)
 व्-वेदेनिये-वि-वेदना (निवे.
 दना, भूमिका)
 व्-वेस्ति-विविशति (भीतर
 लाना)
 व्-व्यजगात्.-वि-बंधति (भीतर
 बांधना)
 व-ग्लुबद्-वि-गर्भ (हृदयमें)
 व-दलेके-विदीर्घ (द्वार)

व्-द्वोये-द्विः (दो बार)
 व्दोवो-विधवा
 व्दोव्स्त्वो-विधवात्व
 वेदत्.-वेत्तिः (जनाना)
 वेदेनिये-वेदना (जाना, विद्या)
 वेलीकान्-वरक (बड़का)
 वेलीकिइ-वरक (बड़ा)
 वेलिचाइशिइ-वरेण्य (सबसे
 बड़ा)
 वेर्नुत्-वर्तयति (लौटाना)
 वेर्तेत्.-वर्तयतिः (घुमाना)
 वेर्तूश्का-वर्तूक, (लट्टू, परेता)
 वेसेन्निह-वासंतिक
 वेस्ना-वसंत
 वेस्.-स्वे (सारे)
 वेतेर्-वात (हवा)
 वेतेरोक्-बातक (हवा)
 व्ज्-वेगात्-विवेजति (दौड़
 जाना)
 वेशात्.-विशति (लटकना)
 वयात्-वयति (फूंक लगाना,
 फटकना, वृणना)
 विवात्.-भवति (वो, दीर्घ
 जीयो)
 विद्-विदि (देखना, प्रकट
 होना)
 विदेनिये-वेदना (दर्शन)
 वीदेत्.-वेत्ति (देखना)
 विद्नेत्.स्या-वेहेते (दिखाई
 देना)
 व्-लेतात्.-वि-डयति (उड़ना)
 व्-ल्युवित्.-वि-लोभति (प्रेम में
 पड़ना)
 व्-ल्युबन्योन्नोस्त-विलोभित्व
 (प्रेम-परायणता)
 व्-ल्युब्ल्यत्-बिलोभति (प्रेम
 करना)
 व्-ल्यपत्.स्या-वि-ल्लपति
 (चिपकाना)
 व्-माजत्-विमःषति
 (चिपकाना)
 व्-मेशातेल-विमिश्रयितर्
 (बीचमें पड़नेवाला)

व्-मेशवात्.-विमिश्रति
 (मिलाना)
 व्-नीज्-वि-नीचैः (नीचे)
 व्-नीजु-नीचैस् (नीचेकी
 जगह)
 व्-निकात्- (निगाह करना)
 व्-नोवे-वि-नव (नया)
 व्-नोसित्.-वि-नेषति (भीतर
 लाना)
 व्-नुत्रि-अन्तरीय (भीतरमें)
 वोदा-उद (पानी)
 वोदापाद्-उदपात
 वोदुनिक-उदनिक (जलकल)
 वोज्-वाह (गाड़ीका बोझ)
 वोज्.-वुदित्. } वि-बोधिति
 वोज्-वुददात्. } (जगाना, तेज)
 करना, बढ़ाना)
 वोज्-वेदेनिये-विवोधना
 (यशोगान करना)
 वोज्-व्रात्.-वर्तति (लौटाना)
 वोज्-विसित्-वि-विशति
 (उठाना)
 वोजित्-बहति, वोहितः
 (लेजाना)
 वोज्का-वाहक (गाड़ी डोना)
 वोज्को-वाहक (डोनेवाले)
 वोज्कोपित्.-वि-हवति (पुकारना)
 वोज्-रा शोवात्. स्या-वि-
 राधति (आनन्द मनाना)
 वोल-बैल (बैल)
 वोल्क-वृक (भेड़िया)
 वोलोस्--वाल (केश)
 वोलचोनोक-वृक शाव
 (भेड़ियेका बच्चा)
 वोप्रोस्-वि-प्रश्न (प्रश्न)
 वो-प्रोसित्. } वि-पृच्छति
 वो-प्रोसात्. } (पूछना)
 वोर-हार (चोर)
 वोसेम्.-अष्ट (आठ)
 वोसेम-न-देस्यत्-अष्टादश
 (अठारह)
 वोसेम्-देस्यत्-अशीतिः
 (अस्सी)

वोस्-पोलिनत्-विपूर्णयति: (अंदर भरना)

वोस्-सेदात्.—वि-सीदति: (बैठना)

वोस्-स्तवात्-वि-स्थाति: (विद्रोह में उठ खड़ा होना)

वोस्-ख्वलेनिये-वि-स्वरति: (प्रशंसा करना)

वोत्-वत् (यहां, हं)

व्-पदात्.—विपतति: (गिरना)

व्-पिवत्.—विपिवति (पीना)

व्-प्लाव्.—वि-प्लाव (तैरना)

व्-प्लिवात्.—वि-प्लवति;

(भीतर तैरना, नौयात्रा करना)

व्-पोल्ने-वि-पूर्ण (पूर्णतया, सारा)

व्रात्.—भ(ह)रति (लेटना)

व्-रेक्नात्.—वि-रेजति: (रेज्जोदन्-फ़ारसी)

व्-रेज्जक-वि-रेजक (काटना, भीतरी काट)

व्-सदीत्-विशातयति: (भीतर कुतरना)

व्-सादनिक-वि-सादनिक (घोड़े पर बैठने वाला, सवार)

व्-स्यो-स्वे (सारे)

व्-स्क्रिचात्.—वि-क्रोशति:

(चिल्लाना)

व्-स्लुख्-वि-श्रू (जोरसे बोलना)

व्-स्लूश् (इव)त्-स्या-वि-श्रूषति: (सुनना)

व्स्-पाचेइवात्-विपाययति

व्स्-पोइत् (पिलाना)

व्स्-प्लि (वा) त्.—विप्लवति (उतराना, तिरना)

व्स्-पो-मिनत्.—विप्र-मनुति (सोचना, श्मरण करना)

व्-स्तवानिये-स्थापना (उठना)

व्-स्ताव्का-वि-स्थापका (अंदर रखना)

व-स्तव्लयात्-वि-स्थापयति (भीतर डालना)

व्-ध्याखिवात्.—वि-त्रासयति (हिलाना)

व्-तिकात्.—वि-टीकति (टिकाना भीतर डालना)

व्-शि (वा) त्.—वि-सीव्यति (सीना)

वि-व: (तुम)

वि-वेगात्-वि-वेजति (दौड़ना)

वि-वेजात्

वि-बिवात्.—वि-भवति (मार गिराना)

वि-बिरात्.—वि-वरति (चुनना)

वि-बोर-वि-वर (चुनाव)

वि-बोरका-विवरका (चुनना)

वि-त्रासिवात्-वि-त्राशयति (फेंक देना)

वि-त्रोसित्-वि-त्राशति (फेंक देना)

वि-वारिवात्.—वि-बालति (उबालना)

वि-वेदिवात्.—वि-विदति (पाजाना)

वि-वेजित् } —वि-वहति (बाहर ले जाना)

वि-व्यजात्.—वि-बंधति (बांधना, गूंथना)

वि-इघात्.—वि-श्रीडति (जोतना, खेलना)

वि-गौवारिवात्.—वि-गवति (बौलना)

वि-दाबित्.—वि-दाबति (दाबना)

वि-दिरात्.—वि-दाशयति (बिदारना, फाड़ना)

वि-जितात्.—वि-जिनति (काटना)

वि-जौश्.—वि-ह्वि (पुकारना)

वि-कजात्.—वि-काशवति (खिलाना)

वि-कपिवात्-वि-कल्पि (खौदना)

वि-किलकात्.—वि-किलकति (चिल्लाना)

वि-मिरानिये.—वि-मरण (मरना)

वि-नुदित्.—विनोदयति (जोर-डालना)

वि-पाद्-वि-पात (भीतर डालना घुसेड़ना)

वि-पदेनिये-वि-पतना (गिरना)

वि-पिलवानिये-वि-पीडना (चीरना)

वि-पिसात्-वि-पिषति

वि-पिसिवात्— ,, (लिखना)

वि-पोल्नेनिये-वि-पूर्णना (पूरना)

वि-रेजेनिये-वि-राजना (प्रकाशन)

वि-रगात्.—(रिगाना, गाली-देना, चिढ़ाना)

वि-स्लुशात्.—वि-श्रूषति (खूब सुनना)

वि-स्तवका-वि-स्थापका (प्रदर्शन)

वि-स्नुपात्.—वि-स्तोति (बोलना)

वि-सुशिवात्-वि-शुष्यति (सुखाना)

वि-सिपात्-स्या-वि-स्वपिति (खूब सोना)

वि-सिखात्.—वि-शुष्यति (सूखना)

वि-तिरात्.—वि-तिरति (झाड़ना पोंछना)

वि-त्योचिपात्-वि-तक्षति (आकार काटना)

वि-तोपित्-वितपति (गर्मकरना)

वि-त्यसात्-वि-त्रासयति (हिला देना)

वि-त्रिखात्.—त्रूष

वित्.—भिद् (काट गिराना)

वि-त्यशुत्स्या-वि-त्तनोति (फैलाना)

वि-व्बेनिक्-वि-त्रावनिक'

वि-उचात् (शिक्षित)

वि-चितात्.-वि-चितयति
(पढ़ना)
वि-श्चुपात्.-वि-श्चुवति (छूना)
व्यज् नका-बधका (बोधबांधना)
व्यजात्.-बंधति (बांधना)
गदालका-गदका (भाग्य भाखना)
गदानिये-गदना (भाग्यभाखना)
गलेरा } -(गली, गलियारा)
गलेर्का }
गर्.-ज्वर (जलन)
गल्-स्तुक्-गल-बंधनी (टाई)
गदे-कुत्र (कहाँ)
गेइ-हे (संबोधनार्थ)
गिर्या-गुरु (भार)
गलवा-गल (शिर)
गलवाल्-गलक (सरदार)
गलोतात्.-गलति (निगलना)
गलोत्का-गल (कंठ)
ग्लुबीना-गर्भीणा (गहराई)
ग्लुबोकिइ-गर्भिक, गंभीरक
(गहरा)
गोवोर् (गवार)-गवति
(बोलना)
गोवोरित्. (गवरित्)-गवति
(बोलना)
गोव्यादिना (गव्यादिना)-
गव्यादनीय (गोमांस)
गोलोवा (गलवा)-गल (शिर)
गोलोस्-गलक- (स्वर)
गोलिइ-नगन (नंगल)
गोरा (गरा)-गिरि (पहाड़)
गोरेल्का-ज्वरक (ज्वालक, बर्नर)
गोरेनिये (गरेनिये)-ज्वरणा
(जलना)
गोर्लो (गर्लो)-गल (कंठ)
गोर्किइ (गर्की)-ज्वर (जलन-
वाला, कड़वा)
गोर्युचिये (गर्युचिये)
ज्वरक (जारन, ईंधन)
गोर्याचिइ (गर्याची)-
ज्वलक (गर्म)
गोर्बोर्-ग्राभ (ह)क
(लूटनेवाला)

ग्रबीतेल्-गुभी (ही) तर्
(लुंठक)
ग्रेर्.-ज्वलन (गर्माना, तपाना)
ग्रीवा-ग्रीवा (गर्दन)
ग्रोजित्.-कुयति (धमकाना)
गुबा.-जिह्वा (ओंठ)
गुबित्.-कुभति (नष्ट करना)
दवात्.-दाति (देता)
दविलो... (दाबल, भार,
दबाव)
दवित्.-... (दावत, दवाना)
दव्का-दाबक (दबाव)
दालये-दूर
दाल्योकिइ-दीर्घक (दूरका)
दालेको-दीर्घक (दूरका)
दाल्.-दीर्घ (दूर)
दाल्.नि-दीर्घ (दूर)
दालनो-विदेनिये-दीर्घवेदना
(दूरदर्शक)
दाम्का-दामा (राजा, रुद्र-
दामा)
दन्निइ-दान (भेंट, दिया)
दात्.-दान (भेंट)
दार्-दान
दरेनिये-दान (दान देना)
दरोवानिये-दान (दान देना)
दरोवोइ-दान (भेंट)
दात्.-दाति (देन)
दावा-दान
दयानिये-देय
द्वा-द्वौ (दो)
द्व-द्वत्सत्.-द्वाविंशति (बीस)
द्वाषिद-द्विः (दोबार)
द्वे-ना-द्वत्सत्.-द्वादश (बारह)
द्वेर्नोइ-द्वारीय (द्वार)
द्वेर्.-द्वार
द्वे-स्ति-द्विशत (दो सौ)
द्विगात्.-वेगति (चलना)
द्वोये-द्वौ (दो)
द्वोइत्.-द्वितयति (द्वाना करना)
द्वोइका-द्विक (जोड़ा)
द्वोर्-द्वार (आंगन)
द्वोरेत्स-द्वारक (महल, दरबार)

द्वोयानि-द्वारीय (राजाबाबू)
द्वोयु-रोद्निइ-द्विरोधनीय (चचेरा
भाई)
देवेर्-देवर
देवा-देवी (कुमारी)
देवित्सा-देविका (कन्या, चेरी)
देव्का-देविका (कन्या, षोडशी,
श्यामा)
देवोमातेर्.-देवमातेर्
(कुमारी मरियम्)
देवोच्का-देविका (बच्ची)
देवस्त्वेन्निक्-देवत्विक (ब्रम्ह
चारी)
देव्चंका-देविका (कन्या)
देवुस्का-देविका (कन्या, कुमारी)
देव्चाता-देविका (कन्या, कुमारी)
देद्-पितामह (दादा)
देद्-प्रे.-प्रपितामह (परदादा)
देदुस्का-पितामह (दादा)
देदुस्का-प्रे.-प्रपितामह (परदादा)
देका-द्विक-दश-दिनक
देलत्.-दारयति (करना)
देलित्.-दरति (विभाजित करना)
देलो-दर, घर, धर्म (काम)
देन्.-दिन
देरेवा-दाह (वृक्ष)
देरेवत्सो-दाहक (छोटा वृक्ष)
देर्झाव्-दृंहति (शक्ति)
देर्झानिये-दृंहना (रोकना,
थामना)
देर्झातेल्.-दृंहितर् (थामने-
वाला)
देर्झात्.-दृंहति (थामना)
देस्यत्.-दश (दस)
देस्यातिइ-दशम (दसवां)
देस्यत्का-दशक (दस)
दे (वा)त्.-धाति (रखना)
देयातेर्.-धातर् (कर्मी, चाकर)
द्लिन्ना-दीर्घ (लंबाई)
द्लिन्निइ-दीर्घ (लंबा)

द्वेष्णिक-दैनिक (डायरी)
 दो-तावत् (तक)
 दो-वावित्.-तावद् भवति (जोड़ना)
 दो-ब्रूदित्.-तावद्-ब्रुध्यति (जागना)
 दो-गोवोर् (दगवार्)-(सम-झीता)
 दोदात्.-ददाति (जोड़ना, बढ़ाना)
 दो-एदात्.-तावद् अत्ति (खा डालना)
 दो-एनिये-दुहति (दूहना)
 दो-इ-द-दुहति (बरसना)
 दो-झि (वा) त्.-तावद् जीवति (तबतक जीना)
 दो-ज्वोनित्.स्या-तावद् ध्वनति (द्वार पर ध्वनि करना)
 दो-ज्ज (वा) त्स्या.-तावद् जानाति (जानना, चाहना)
 दो-इत्.-दु हति (दूहना)
 दो-इनिक्-दुहनिक (दूहनीबर्तन)
 दो-कञात्.-तावत् काशति (प्रकाशना)
 दो-कुदा-कुत्र यावत् (कहांतक)
 दो-ल्लिङ्-दीर्घ (दूर)
 दो-लेये-द्राघीय (दीर्घतर)
 दो-लिना (दलिना)-द्रोणी, (उपत्यका, दून)
 दोल्-शे-द्राघीयस् (दूरतर)
 दोम्-दम (घर)
 दोम्ना-धूमक (भट्ठा)
 दोच्.(का)-दुहितर् (पुत्री)
 द्राञ्जित्-त्रासयति (चिढ़ाना)
 दात्.-दरति (चीरना)
 द्रात्.स्या-दरति (लड़ना)
 द्रोवा-दार (ईधन, लकड़ी)
 दुनुत्.-धुनोति (फूंकना, हवा देना)
 दुनेत्.-दुर् नीति (क्रूरुप होना)
 दुर्-नोइ-दुर् (बुरा)

दिम्-धूम (धुआं)
 दिरा-दरी (छिद्र, चीर)
 दाद्या-दादा (चाचा, मामा)
 दादेन्.का-(चाचा, मामा)
 एदा-अद (भोजन)
 एदोक् (एदक्)-आदक (भक्षक)
 एक्षे-गोदूनिक्-एकवार्षिक (वर्षपत्र)
 एक्षे-वेकादनो-एकैकदशदिन (प्रतिदशाह)
 एक्षे-नेदेल्.निक्-एकैकसप्ताह (साप्ताहिक)
 एस्त.-अस्ति (है)
 एस्त-अश्नोति (खाना)
 एस्म्.-अस्मि (मैं हूँ)
 एस्तेस्त्वो-अस्तित्व, (स्वभाव, द्रव्य)
 एस्त.-अत्ति (खाना)
 एखात्.-एथति (हटाना, चढ़ाना, जाना)
 झार-ज्वल (जलन, तपन)
 झारा-ज्वाला (तपन, गर्म)
 झरेनिये-ज्वलन (जारना, भूजना, तलना)
 झरेन्निइ-ज्वलित (जारी, भुनी, तली)
 झार्किइ-ज्वालक (गरम, मुस्तैद)
 झे-हि (किंतु, और)
 झे-वानिये-चर्वणा (चबाना, जेंवना)
 झ्योल्तेन्किइ-हरितक (पीला-सा)
 झे-ल्तेत्-हरितामति (पीला करना)
 झे-लतोक्-हरितक (अंडे का पीला)
 झे-ल्तिइ-हरित (पीला, जर्द)
 झे-ना-जनि (स्त्री)
 झे-नित्.(स्या)-जनीयति (व्याहना)
 झे-नित्वा.-जनितव्य (व्याह)
 झे-निष्-जनिक (वर)
 झे-योन्का-जनिका (वधु)

झे-नोल्युविविइ-जनिलोभी (स्त्रीप्रेमी)
 झे-नुस्किइ-जनिका (स्त्री)
 झे-नुश्का-जनिका (मेहरिया)
 झे-नुश्चिना-जनि (स्त्री)
 झे-रुवा-ज्वलत्व (यज्ञ)
 झे-च्.-दह, धक्ष, दाग (जलाना)
 झि-व्-जीव (जीता, जिंदा),
 झिवितेल्.निइ-जीवयितर् (जीता)
 झिवोइ-जीव (सजीव)
 झि-मो-नये-जीवन्त (प्राणी, पशु),
 झि-नुश्चिइ-जीवक (जीता)
 झि-व्-चिक्-जीवन (जीवटवाला)
 झि-व्-योम-जीवक (जीता)
 झि-ज्जन-जीवन (जिंदगी)
 झिलित्स-जीवस्थ (निवास-स्थान)
 झिलोइ-जीवल (बसल, बसा)
 झितेल्-जीवितर् (रहनेवाला)
 झितिये-जीवन (जीवन-चरित्र, जीवन)
 झि-वु.-जीवति-(जीना, रहना)
 जा-पश्चात्, आ, ता (बाद, आगे)
 जा-विरात्.-आ-भ (ह) रति (ले जाना)
 जा-बोल्तात्.-आ-बोल्लति (बहुत बोलना)
 जा-भ्रसिवात्.-आ-भ्र शति (फेंकना)
 जा-त्रात् (स्या)-आ-भ (ह) रति (ले जाना)
 जा-बोसत्.-आ-भ्र शति (फेंकना)
 जा-बिवात् आ-भवति (भूलना)
 जा-वर्नोइ-आ-वारित (उबाला)
 जा-वेदेनये-आ-वेदना (उच्च-शिक्षणालय)
 जा-वेत्तेत्.(स्या)-आवर्तति (धूमना, फिरकना)
 जा-विदेत्.-आ-विदति (देखना)
 जा-वाजित्-आ-वहति (लेजाना, खींच ले जाना)

जा-व्यक्का-आ-बंधक (बंधन)	जा-प्रोस्-आवृच्छ (पूछना)	जेम्ल्याक-उमाक (देश-भाई)
जा-व्यज्जिवात्.-आ-बंधति (बंधना)	जा-रेज (इव)ात्.-आ-रिहति, आ-रेतति (हनन करना)	जेम्ल्यानिका } -ज्मालिका जेम्ल्यान्का } (स्टाबरी)
जा-गार्-आ-ज्वल (धूपमें जला)	जा-रेकात्.स्या-आ-रेचति (त्यागना)	जेमनोवोद्निइ-ज्मोदकीय (जल-थलका जीव)
जा-ज्लाविये-अ-गल (उपाधि, पदवी)	जा-ह्वात्.-आ-हंभति (कुठार से गड़ना)	जेमनोइ-ज्मानीय (भूमिय)
जा-गोरानिये-आ-ज्वालन (आतपत्पत, भूरा)	जा-सद्का-आ-सीदना(बैठाना, बीज बोना)	जिमा-हिम (जाड़ाऋतु)
जा-गोरेन्निइ-आ-ज्वल (धूपमें जला)	जा-स्वेतित्.-आ-श्वेतति (प्रकाश करना)	जिमोवानिये } -हिमानना जिमोव्का } (जाड़ा बिताना)
जा-दाचा-आ-दन (समस्या)	जा-सुखा-सूखा (जल-अकाल, सूखापन)	जिमोइ-हिमीय(जाड़ा,हंमन्त)
जा-दोतोक्-आदत्त, आधत्त (रखना, निधि)	जा-सुशोन्नेइ-सुखान (सूख गया)	जलातो-हरित (सोना)
जा-द्रात्-आ-दरति (भेडियेका भेड खा जाना)	जा-सिखात्.-आ-शोषयति (सूख जाना)	जिलत्.-त्रेति: (सिहराना, चिड़ना)
जा-एदात्.-पश्चाद् अत्ति (पीछे खाना)	जा-तप्लिवात्.-आतपति (आग जलाना)	जनाकवात्.-जानाति(जानना)
जा-झिवानिये-पश्चाद् जीवन (धाव पूरना)	जा-तेम्नेनिये-आ-तमना (अंधकार करना)	जनाक-ज्ञानक (चिह्न)
जा-झिवो-यावद्जीवं (जीवन- भर)	जा-तिखात्.-आतुष्यति (शांत होना)	जनाकोमित्.-जानापे त (परिचय करना)
जा-झिगालका-जाज्वलक (सिगरेट जलावक)	जा-तोपित्.-तोपना (जहाज डुबाना)	जनाकोम्स्टो-जानकत्व (परिचय, ज्ञान)
जा-काजू-आ-काश (आज्ञा)	जा-तुमानित्.स्या-आ-धूमति (अंधेरा होना)	जनाकोमया-जानक (परिचय)
जा-कोनो-दातेल्.-धातर- दातर(विधाता, दाता, कर्ता)	जा-तुखानिये-आ-तोपयति: (बुझाना)	जनामेनिये-जानना (चिह्न)
जाल्-शाल, हाल	जा-शिपेत्.-आ-शपति (सिसकारना)	जनामेनितोस्त-ज्ञातित्व(प्रसिद्धि)
जाला-शाला	ज्वानिइ-ध्वनीय(पुकारा गया)	जनामेनोवात्.-जानापेति (दिखलाना, सिद्ध करना)
जा-लिजात्.-आलिहति (चाटना)	ज्वेनेत्. } -ध्वनति ज्वोर्नित्. } (घंटी बजाना)	जनात् निइ-ज्ञान (प्रसिद्ध)
जानिमात्.-आ-जानाति (पढ़ना)	ज्वोनोक्-ध्वनक (घंटी)	जनात्नोस्त.-जातीयत्व (कुली- नता, सामन्तता)
जा-मेर्न-मृत (मरा)	जेवात्.-जंभति(जम्हाई लेना)	जनातोक्-ज्ञाता(जज, विशेषज्ञ)
जा-मोरित्.-मरति (भूखा मरना)	जेलेनेत्.-हरितायति (हरित होना)	जनात्.-जानाति (जानना)
जा-ओबलाच्चीनइ-आ-अन्नक (बादलोंसे परे)	जेलेनोइ-हिरण्य (हरा)	जनाचेनिय-जानना (महत्त्व, अर्थ)
जा-पद्-पश्चात्-पद (पश्चिम)	जेल्पोनिइ-हरित (हरा)	जनाचितेल्.-ज्ञातर् (जानने- वाला)
जापिस्.-आपिश् (अभिलेख)	जेलेन्.-हरित (जर्द, हरा)	जनाचितेल्.नोस्त.-ज्ञातृत्व (महत्त्व)
जा-पो-प्रेद्-आ-प्र-वेद (आज्ञा, विधि)	जेम्लेवेदेनिये-ज्मावेदना (भूविद्या, भू-गोल)	जनाचित्.-जानाति (जानना, अर्थ लेना)
	जेम्ल्या-ज्मा (भूमि)	जोव्-हव (पुकार, निर्मंत्रण)
		जोलोता-हरित, जर्द (सोना)
		जोलोतोइ-हरितीय(स्वर्ण-मुद्रा)
		जुव्-जह्वा, जबान (दांत)
		जुवोक्-जिअक (छोटा दांत)
		ज्यात्.-जामाता, दामाद

इ-च, अ (और, अपि)
 इयो-इव (जैसे, लिये)
 इगो-युग (जुआ)
 इदति-एति (जाना, आना)
 इज्-अत्, अज् (से)
 इज्-ब्रानिये-आ वरणा (चुनाव)
 इज्-ब्रात्.-आवरति (चुनना)
 इज्-दवात्.-... (प्रकाशन)
 इज्-दानिये-(संस्करण)
 इकात्.-हिवकति (हिचकियाना)
 इस्-पोल्नेनिये-आपूर्णा
 (पूरा करना)
 इस्-पोल्नितेल्.-आ-पूर्णयित्
 (पूरा करनेवाला)
 इस्-प्राज्ञे-निये-अपराजयना
 (दोष, खाली करना)
 इस्-प्राशिवात्.-आनृच्छति
 (मांगना, पूछना)
 इस्-स्यकात्.-... (सँकना, सुखा
 देना)
 इस्-तोपित्.-... (तोपना)
 इतक्-इतिक (ऐसे, तैसे, और)
 इत्ति-एति (जाना, चलना)
 इख्-... (इसका)
 क- को, से, लिये, प्रति)
 कजात्-स्यां-काश्यते (प्रका-
 शित होना, दिखाई पड़ना)
 काक्-कयं (कैसे, जैसे, यथा)
 कको [कयं (किस भांतिका)
 कनोव-खनुवा, कंदन् (ख.ई.)
 करात्.-कारयति (दंड देना,
 सासत देना)
 केमु-केन (किसके द्वारा)
 कोये-कहाँ (कहींपर)
 कोजा-कोश (चमड़ा)
 कोइ-कः (कौन)
 कोमु (कम्)-कम् (किसको)
 कोलेसो-ब्रक, बख (पहिया)
 कपानिये-कापना (खोदना)
 कोपित्. (कपित्)-गोपायति

(रक्षा)
 कोरोचे-क्षुद्र, खुदं (जटा)
 कोचान्-गुच्छ (गोभी फूल)
 क्रिसिन्-कृषति (अलंकार करना,
 रंगना, चित्रित करना)
 क्रस्नेत्.-कृ-णोति (लाल करना)
 क्रस्त्.-ग्रसति (चुराना)
 किचान्-क्रीशति (विल्लाना)
 क्रोव्.-कुभा (गूहा, छत, घर)
 क्रोव्.-क्रव्य (रुधिर)
 क्रोइका-कृन्तन (काट डालना)
 क्रोइत्.-कृत् (कटाना)
 क्रुग्-चक (चर्ख-फरसां),
 गोल
 क्रुशित्-स्या-वक्रीयो (चक्कर
 काटना)
 क्रुझोक्-चक्रक (वृत्त)
 क्रित्-कृती (ढांकना)
 क्तो-कतर (कोन)
 कुब्रोक्-कुंभक, कुप्पक (प्याला,
 गिलास)
 कुवशिइ-कूपिका (लोटा)
 कुदा-कदा (कहाँ)
 कुर्त्का-कुर्त्ता
 कुसात्.-कुस (काटना)
 कुचा-गुच्छा (समूह, ढेर)
 कुचूका-गुच्छक (छोटी ढेरी)
 कुशात्.-ग्रसति, घसति (ख.ना)
 लजित्.-लंघति (लांघना)
 ल्योग्किइ-लघुक (हल्का,
 आसान)
 लेग्को-लघुक (हल्का,आसान)
 लेग्चे-लघीयस् (आसानतर)
 लेझात्.-लेटना
 लेत्यइका-लेत्क (आलसी)
 ल्योत्-डयन (उड़ना)
 लेतात्.-डयति (उड़ना)
 लेतो-ऋत् (शीष्म)
 लिजानिये-(चाटना)
 लिजात्.-लिहना (चाटना)

लिप् किइ-लेपकी (चिपकना,
 उलझना)
 लिप्नुत्.-लिपति (लगाना,
 चिपकाना)
 लोबजानिये-लोभना (चूमना)
 लोबिजात्-लोभति (चूमना)
 लोबित्.-लविन्-लोभति
 (लुब्धक, फंसाना, शिकार
 करना)
 लोव्या-लोभाना (शिकार
 करना)
 लोवुशका-लोभका (जाल,
 फंसाव)
 लोव्चिइ-लोभिक, लुब्धक
 (शिकारी)
 लोइका-रोधका (नाव)
 लोदि-रुद्र (लदभेसर, आलसी)
 लोझित्-स्या-लोटत (लोटना,
 गिरना)
 लंपत्स्या (लोधनुत्)-लोपत
 (तोड़ना, फोड़ना)
 लुच्-रोचिः (किरण)
 लुचो-रोचीयः (बेहतर)
 ल्युबितेल्-लोभितर् (कुत्ता
 शिकारी)
 ल्युबित्.-लोभति (प्यार
 करना)
 ल्युवोव्-लोभ, लभ (प्यार)
 ल्युवोव्निक्-लोभिक (प्रिय,
 प्रेमी)
 ल्युब्याश्चिइ-लोभीय (प्रेमी)
 ल्युइ-रोध (लोग, जनता)
 माज्त् (माज्त्)-माषत
 (माखना, मांजना)
 मज्या-माषना (नेल माखना,
 मांजना)
 मज्.-माष (माखना, मांजना)
 मम्लो-मसका (मकड़न)
 मात्का-मात्का (माता)
 मात्गुका-मात्का (माता)

मात्.—मातृ (माता)
 मखात्.—मंहति, मिहति
 (माखन, हिलाना)
 म्योद्—मधु (शहद)
 म्योद्बेद्—मध्वद (भालू)
 मेद्निद्—(तांबका)
 मेदोव्निक्—माध्वीक (अमृतीय,
 मधुर)
 मेदोक्—मधुक (अमृत, मदिरा)
 मेद्—मधु (तांबा)
 मेद्द् } —मध्य (बीचमें)
 मेद्द्दु }
 मेन्या—मे (मुझे)
 मेरेत्.—मरति (मरना)
 म्योर्—त्वद्—मृत (मरा)
 मेस्येत्स—मास (महीना, चंद्र)
 मेतित्.—म.ति (चिह्नन करना,
 लक्ष्य करना)
 मेशात्.—मिश्रयति (मिश्रित
 करना)
 मिगानिये—मलकाना
 मीलोस्त्.—मेल (कृपा, अनुकंपा)
 मीलोच्का—मिलक (मेली,
 प्रिय)
 मीलिद्—मेली (मधुर, दयालु)
 म्ने—मे (मुझे)
 म्नेनिये—मनन (विचार, मनन)
 म्निन्त्.—मनुते (सोचना)
 म्नोगो—महा (बहुत, बड़ा)
 म्नोइ, म्नोयु—मथा (मेरे द्वारा)
 मोगूवेस्त्.—महत्त्व, महिष्ट
 (शक्ति)
 मोगूचिद्—महात् (शक्तिशाली)
 मोग्यो, मोइ—मे (मेरा)
 मोइका—मोइत (भोजपुरी)
 (धोना)
 मोलनिया (मलनिया)—विद्युत्
 (मेघकी)
 मोलोत्.—मर्दति (पीसना)
 मोलोत्बा—मर्दन (दाबना)

मोरित्.—मरत (भूखे मरना,
 मारना)
 मोचा—मुंच (पेशाब)
 मोचित्.—मेहति (भिगोना, नम
 करना)
 मूङ्—(मनुष्य, पति)
 मुरात्, योद्—मूर (फारसी), चींटी
 भक्षक
 मुवा—मक्षी, मगस् (फा०)
 (मक्खी)
 मुश्का—मग्स (मक्खी)
 मी—हम
 मित्.—मोइत् (धोना)
 मिश्का—मूषक (चूहा)
 मिश्.—मूषक (चूहा)
 म्यासो (म्यास)—मांस
 म्यत्.—मंथति (मथना)
 न—नि, परि (ऊपर, द्वारा)
 न—वेग—निवेग (दौड़, आक्रमण)
 न—बेलो—न-अविल (परिशुद्ध
 साक्ष)
 न—वोर—नि-हार (एकत्रित
 करना)
 न—वेश (इवात्)—नि-वेशयति
 (टांगना)
 न—विसात्.—निवेशयति
 (टांगना)
 न—वोजित्.—नि-बहति (ले आना
 ले जाना)
 न—व्यज् (इवात्)—निबंधति
 (बांधना)
 नगिशोम् } —नग्न (नंगा)
 नगोइ }
 नगोलो—नग्नल (नंगा)
 न—गोवत् (रेत).—
 नि-ज्वलति (जलना)
 न—रेगो—नि-गिरि (गिरि पर)
 न—ग्रबित्.—नि-गृभीति (लूट
 लेना)
 नाद्—परि, उपरि (ऊपर)
 ना—दोल्गो—नि-दीर्घ (चिर-

कालसे)
 ना—एखात्.—नि-एषति (आना)
 न—फिनात्.—नि-छिनत्ति (फसल
 काटना)
 न—काज्—नि-काश (शासन-
 पत्र, आज्ञा)
 न—लगात्.—नि-लगत (ऊपर
 रखना, लागू करना)
 न—लेगात्.—निलगत (आश्रित
 होना)
 न—लेपित्.—निलिपति (चिप-
 काना, लेपना)
 नामि—नः (हमारे द्वारा)
 न—पदेनिये—निपातना (आक्रमण
 करना)
 न—पेकात्.—नि-पचति (पकाना,
 भूनना)
 न—पिवात्.स्या—नि-पिवति
 (पीना)
 न—पिरात्.—नि-पीडयति
 (दाबना)
 ना—पितोक—निपीतक (पान)
 न—पोकाज्—नि-प्र काश (दिखाने
 के लिये)
 न—पोल्नेनिये—नि-पूर्णना
 (पूरा करना)
 न—पोस्लेदोक् (न-पस्लेदक्) —
 नि-पश्चात्तन (पीछे, अंतमें)
 न—रोद्—नि-रोध (जनता)
 नोस् (नस्)—नासिका, नासा
 न—सादित्.—नि-सादयति (रोपना)
 न—भूदात्.—नि-सादयति (रोपना)
 न—सेदानिये—निषीदका (बहु-
 संख्यकोंका बैठना)
 न—सेदका—निषीदका (बैठकी)
 न—स्लिश्का—नि-श्रूषका
 (सुनना)
 न—स्मेखात्.स्या—निस्मयति
 (हसनना)
 न—स्तावित्.—नि-स्थापयति
 (रखना)
 ना—सुख—नि-शुष्क (सूखा)
 नश्—नः (हमारा)

ने-न (नहीं)
 ने-ब्लागो-प्रियत्निइ-न-भर्ग-
 प्रियत्नु (अशुभ, अननुकूल)
 ने-वेदेनिये-न-वेदना (अविद्या,
 अज्ञान)
 ने-वीदल्-न-वित्त (अनदेखा,
 अद्भुत)
 ने-नदा-नकुत्र (कहीं नहीं)
 ने-पोचतेनिये-न-पूजना
 (असम्मान)
 ने-प्रियातेल्-न-प्रियतर् (शत्रु,
 अमित्रं)
 ने-प्रियत्न-न-प्रिय (अप्रिय)
 ने-प्रोबदन्कि-न-प्रबोधक
 (बिजली-रोधक)
 ने-प्रोशेन्निइ-न-प्रश्नीय (बिना
 पूछा)
 ने-स-वेदुश्चिइ-न-संवेदीय
 (अज्ञ)
 ने-सो-प्नातेल्-न-संज्ञातर्
 (अचेतन, अनभिज्ञ)
 नेस्ति-नेषति (लेजाना, ढोना)
 नेत्. } -नेति (नहीं)
 नेत्तो }
 ने-उच्-अन्-अनूचान(अपठित)
 ने-चेगो-न-किं (कुछ नहीं)
 ने-याव्का-न-आयान(अप्रका-
 शन)
 नि-न (नहीं)
 नि-न्दे-नकुत्र (कहीं नहीं)
 नि-झइशिइ-नीचीयस् (बहुत
 छोटा, बहुत नीच)
 नि-भे-नीचेस् (नीचे)
 नि-भ्-नीच (सबसे नीचे)
 नि-झ्किइ-नीच (नीचे)
 भ्नि निइ-नीचीय (नीचेका)
 नि-ज्-नीच(सबसे नीचे)
 नि-ज्वात्-नहति (बांधना)
 नि-ज्नीना-नीचीय (निस्तस्थान,
 नीचा)
 नि-ज्किइ-नीचक (नीचा,

छोटा, तुच्छ)
 नि-जोस्त्-नीचत्व (नीचता)
 नि-ज्शिइ-नीचीयस् (बहुत
 नीचा)
 नि-काक्-न कथं (किसी तरह
 नहीं)
 नि-ककोइ-न कः (कोई नहीं)
 नि-कोग्दा-न कदा (कभी नहीं)
 नि-क्तो-न कः (कोई नहीं)
 नि-कुदा-न कुत्र (कहीं नहीं)
 निस्-निस् (नहीं)
 नस्-पदात्-नि-पतति (गिरना)
 नो-नु (किंतु)
 नोवेइशिइ-नवीयस् (नवीन-
 तम)
 नोवो (नवो)-नव (आधुनिक)
 नोवोस्त्-नवत्व (समाचार)
 नोगोत्-नख (नर)
 नोस् (नस्)-नासा (नाक)
 नोसिक-नासिका (नाक)
 नोसितेल्-नेष्टर् (ले जानेवाला)
 नोसित्-नेषति (लेजाना, ढोना)
 नोसो-रोग-नासा-शृंग (गैंडा)
 नोचेब्का-निशीयिका (रात
 को रहना)
 नोच्-निशा (रात)
 नु-नु (सचमुच, हां, क्यों ?)
 नुत्-रो-अन्तर, अंदर (फारसी)
 (भीतर)
 ओ-अ (निषेध)
 ओवा-उभौ (दोनों), अभि
 (उपसर्गं)
 ओव्-वि-नितेल्-अभि-वि-नेतर्
 (अपराध लगानेवाला)
 ओव्-वि-नित्-अभि-वि-नेति
 (दोषारोपण करने
 वाला)
 ओव-विसात्-अभि विशति
 (लटकाना)
 ओबे-उभे (दोनों)
 ओव्-एद्-अभि-अद (भोजन)
 ओव्-झिगानिये-अभिजागरण

(जगाना, बालना)
 ओव्लक-अभ्रक, अब्र (फारसी)
 (बादल)
 ओवो-रोना-अभि-रग (रक्षार्थ
 युद्ध)
 ओवो-रोन्यत्-अभि-रुजति
 (फटकारना, रिगाना,
 गाली देना)
 ओव्-रगात्-अभि-रुजति
 (रिगाना)
 ओव्-ससिवात्-अभि-चूषति
 (स्तन पीना)
 ओव्-स्लुझिवात्-अभि-शूषति
 (सेवा करना)
 ओवेन्-अवि (मेष, भेड़)
 ओव्चिइ-अविक (भेड़क)
 ओव्का-अविका (भेड़ी)
 ओग्ने-अग्नि (आग)
 ओग्ने-विद्निइ-अग्निविध
 (आग-जैसा)
 ओग्ने-स्लुझे निये-अग्नि-भूषण
 (अग्नि-पूजा)
 ओग्ने-तुशीतेल्-अग्नि-तोष्टर्
 (आग-बुसावक)
 ओगो-अहो!
 ओगोन्योक्-अग्निक (प्रकाश)
 ओदिन् (अदिन्)-(एक)
 ओदनो-आदि (एक बार)
 ओ-झिवात्-आ-जीवति (फिर
 जिलाना)
 ओ-झेग्-आ-ज्योति (जलन)
 ओ-झे-आ-ज्वर, अंजोर
 (जलाना)
 ओको-अक्षि (आंख)
 ओलेन्-हरिण
 ओन्-एषत् } यह
 ओना-एषा }
 ओनो-एनत् }
 ओ-पिवात्-स्या-आ-पीयते
 (पी-पीकर अपनेको
 मारना)
 ओप्यत् (अपेत्)-अपि

ओ-प्,यामेनिये-आ-पीवना
(शराब पीना)

ओसादा-आ-साद (दुर्गबद्ध
करना)

ओ-स्वेतित्-आ-स्वेतति
(प्रकाश करना)

ओ-स्लुशानिये-अवश्रूषणा
(आज्ञा न मानना)

ओ-स्लिशात्-स्या-अवश्रूषति
(ठीक न सुनना)

ओ-स्मेनिवात्-आ-स्मयत
(परिहास करना)

ओस्-अक्ष (धुरा)

ओस्मि-नोग्-अष्टनख (अठपैरा)

ओत्-आत् (से)

अत्-वेचात्-उद्-वचति (उत्तर
देना)

ओत्-व्यञ्जात्-उद्-बंधति (बंधन
खोलना)

ओत्-दानिये-उद्-दान (प्रति-
दान)

ओ-स्योसिवात्-आ-सक्षति
(गढ़ना, पत्थर छांटना)

ओत्-ञ्जिवात्-अ-जीवति
(मरजाना)

ओत्-कञ्जात्-प्रति-कथयति
(इन्कार करना)

ओत्-कुदा (अत्-कुदा)-कुतः
(कहांसे)

ओत्-मिरानिये-उत्-मरण (मर
जाना)

ओतो-आत् (से)

ओत्-पदात्-आ-पतति (गिर
जाना)

ओत्-रञ्जात्-आ-राजते
(प्रतिबिंबन करना)

ओत्-तोचित्-उत्-तीक्ष्णति
(तेज करना)

ओत्-नुदा-ततः (वहांसे)

ओख्-आह !

ओखोता-आखेट (शिकार)

ओचरोवानिये-आश्चर्य करना,
जादूमै होना

ओचि-अक्षि (आंख)

पा-पाद (पग)

पदात्-पतति (गिरना)

पदेनिये-गतना (गिरावट)

पाइ-पाद (भाग)

पल्का-फलक (डंडा)

पार-त्राष्पर (भाप)

परेनिये-परायणा (पलाना)

पास्तुव-पातुक (मेनाल,
चरबाहा)

पते-पितर् (पिता)

पखात्-(जुती भूमि)

पेना-फेन

पेरविद्-पूर्व (पहिला)

पेरे-प्र, परि, प्राग्

पेरे-विरा(त्रा)त्-परि-भ (ह)
रति (हटाना)

पेरे-वोजित्-परिवहति

पेरे-व्यञ्का-परिवंध

पेरे-प्रिजात्-परि-ग्रसति
(काट डालना)

पेरे-देल-परिदार (पुनर्विभाजन)

पेरे-एदात्-प्र-अत्ति (बहुत
खाना)

पेरे-जिवानिये-परि-जीवना
(अनुभव)

पेरे-भोग्-प्रजाग (बहुत
गरमाना, दीप संजोना)

पेरे-लेजात्-प्र-लंधते (ऊपर
चढ़ना)

पेरे-पइवात्-प्र-पिवति (पान-
मत्त होना)

पेरे-पिवात्-प्र-पिवति (पान-
मत्त होना)

पेरे-पिलवात्-परि-प्लवति
(तैर जाना)

पेरे-पोइत्-प्र-पिवति (पान-
मत्त होना)

पेरे-पुत्-ये-प्रपथ (चौरस्ता)

पेरे-रोदित्-प्र-रोहति (पुन-
हज्जीवन करना)

पेरे-रुबात्-प्र-रुंभति (मारना,
काटना)

पेरे-सीदेत्-प्रसीदति (बैठ
जाना)

पेरो-यक्ष, पर (फारसी), पंख
(लेखनी)

पेचेनि (न्.)ये-पचना (पकाना)

पेचका-यचक (चूल्हा)

पेचुर्का-यचक (छोटा चूल्हा)

पेच्-पच (भूतना, तलना,
झुलसना)

पिवन्त्या-पिवनिया (मद्यशाला)

पीवा-पान (हलकी शराब)

पीला-पीडा (आरा)

पीलित्-पीडयति (चीरना)

पिसानिये-पिषाना (लिखना)

पिसालेल्-पिषायित् (लेखक)

पिसात्-पिषति (लिखना)

पित्-पीति (पीना)

प्लवानिये-प्लवना (तैराकी)

प्लाव (वि)त्-प्लवति
(तैरना)

प्लावेल्-प्लावक (तैराक)

प्लोद-फल (संतान)

पो-प्र, परि (द्वारा, ऊपर,
भीतर, को)

पो-वेग-प्र-वेग (भागना)

पो-वेजात्-प्रवेजति (भागना)

पो-ब्व (ब्वि) रात्-प्रभ (ह) रति
(ले जाना)

पो-बुदीतेल्-प्र-बोधितर्

(भड़कानेवाला)

पो-बुदीत्-प्र-बोधति (भड़-
काना, उठाना, उत्तेजित
करना)

पो-वेदेनिये-प्र-वेदना (प्रवृत्ति,
चाल-चलन)

पो-वेसित्-प्रविशति

पो-व्योर्तिवानिये-प्र-वर्त्तना
(धुमाना)

पो-वोजका-प्रवहका (प्रवहण,
यान)

पो-व्यञ्का-प्र-बंधक (सिर
बंद)

पो-गोलोव्निइ-प्र-गल (सरदार
जेनरल)
पोद्-पद (अन्तर, नीचे)
पो-दवात्-प्रदाति (देना, भेंट
देना)
पो-दारित्-प्रदाति (देना, भेंट
देना)
पो-दारोक-प्रदारक (भेंट)
पो-दात्-प्रदाति (कर देना)
पो-दाचा-प्रदाक (देना, सेवा)
पोद्-वोद्नया-पद्-उदीय
पोद्-व्यज्का-पद्-बंधक
पोद्-भारित्-पजारत (तलना)
पो-दिरात्-प्र-दरति (चीरना,
फाड़ना)
पोद्-तचिवात्-प्र-तीक्षणति
(तेज करना, धार लगाना)
पो-दुर्नेत्-प्रदुर्नेति (कुरूप
होना)
पो-एज्द्-प्र-एत् (ट्रेन)
पो-एज्दिद्-प्र-एति (चलना,
फिरना)
पो-भार-प्रज्वार (आग लगना)
पो-भार्निइ-प्रज्वारनिक
(आग-बुझावक)
पो-धिरात्-प्र-जीर्यति (खा
डालना)
पो-ज्योविवात्-प्र-जम्भति
(जम्हाई लेते रहना)
पोज्झे-प्रहि
पो-ज्ज (वा) निये-प्रजानना
(ज्ञान, प्रज्ञान)
पोइत्-पिबति (पीना)
पो-इती-प्र-एति (जाना)
पो-काज्-प्रकाश (दिखलाना)
पो-कज्जानिये-प्रकाशना
(गवाही)
पो-कुशात्-कोशीदन् (फारसी-
कोशिश करना, यत्न करना)
पोल्नेत्-पूर्णति (भरना, पूरा
करना)
पोल्नो-पूर्ण (पूर्णतया, भरा)

पोल्नो-वोद्निइ-पूर्णोदिनी
(गहरी नदी)
पोल्नोस्त्-यु-पूर्णत्व (पूर्णाता)
पोल्नोता-पूर्णता
पो-मजात्-प्र-माखत (तेल
लगाना)
पो-माज्जोक्-प्र-मार्जक (झाड़,
बुझा)
पो-मेस्यचनो-प्रतिमास
पो-नीझे-प्र-नौचै: (कुछ नीचे)
पो-पदानिये-प्र-पतना (गिरना)
पो-प्लवोक्-प्र-प्लावक (तिरने-
वाला, काग)
पो-पोइत्-प्र-माययति (घोड़ों
को पिलाना)
पो-पोइका-प्रपायिका (प्रपा,
नौका)
पो-प्रोसित्-प्र-पृच्छति (पूछना)
पो-राक्जे निये-पराजयना
(पराजय)
पो-रझात्-पराजयत
पो-रेज्-प्र-रिह, रेज (फारसी-
काटना, घायल करना)
पो-रोदा-प्र-रोह (संतान, जाति,
रुधिर)
पो-रोझ्-दात्-प्र-रोहति
(जन्म देना)
पो-सादित्-प्र-सादयति
(बैठाना)
पो-सीदेत्-प्र-सीदति
(थोड़ा बैठना)
पोस्ले-पश्चात्, पस् (फारसी)
पोस्लेद्निइ-पाश्चात्तन
(पिछला)
पोस्ले-दोवातेल्-पश्चाद्-
धावितर् (अनुगामी)
पो-स्लुशानिये-प्रभ्रूषणा
(आज्ञाकारिता, तपस्या)
पोस्-मेत्-निइ-पश्चात्-मृत्यु
(पोस्टमार्टम्)
पो-स्मेशित्-प्र-स्मयत (हंसाना)
पो-स्वान्-प्र-स्वपिति (थोड़ा

सोना)
पो-स्तावित्-प्र-स्तावयति
(रखना, उपस्थित करना)
पो-सुखु-प्र-शुष्क, खुष्क
(फारसी, सूखे मार्गसे)
पो-नुखानिये-प्र-तोषण
(बुझाना)
पो-नुशित्-प्र-नुषति (बुझाना)
पो-चितात्-पूजति (सम्मान
करना)
पो-चिनित्-प्र-चिनोति
(मरम्मत करना)
पो-चतेभिइ-पूजनीय (मान-
नीय)
पो-शिव्का-प्र-सीव्यक
(सिलाई)
प्र-प्र
प्र-प्र (महा)
प्राविलो-प्रभूत
प्रावितेल्-प्र-भवितर (शासक)
प्रावितेल्-स्वो-प्र-भवितृत्व
(सरकार, राज्य)
प्रावो-प्रभु (कानून, अधिकार)
प्रावो-वेद्-प्रभु-वेद (कानूनदां)
प्र-देद् } -परदादा
प्र-देदुच्का }
प्र-मातेर्-प्र-मातर् (जग-
न्माता)
प्र-रोदितेल्-प्र-रोधितर्
(पुरुखा), वंश-पिता,
प्रेदो-प्रति (सामने, सम्मुखे)
प्रेद् (पेरेद्)-प्रति, प्राग्
(सम्मुख, सामने)
प्रे-दातेल्-प्रति-धातर् (विश्वास-
घाती, देशद्रोही)
प्रेद्-वे (वि) देनिये-प्राग्वेदना
(पहिले जानना, भविष्य-
दर्शिता)
प्रेद्-गोर्-ये-प्रति-गिरि
(पहाड़को जड़, सानु)
प्रेद्-सेदातेल्-प्र-सीदितर्
(प्रेसीडेंट, प्रसीदन्त)

प्रेद्-स्कञ्जानिये-प्राक्-कथना
(भविष्यद्-वाणी)
प्रेद्-गदात्-प्राग्-गदति (भाषना,
दूर-दर्शिता)
प्रेद्-भेदे-प्राग्-दा (पूर्वतः)
प्रि-प्र
प्रि-वेगात्-प्र-वेजति (लेजाना,
करने जाना)
प्रि-वेभात्-प्र-वेजति (दौड़ना)
प्रि-वोञ्-प्र-वह (लाना)
प्रि-ज्नाक्-प्र-ज्जक (चिह्न,
भूचन)
प्र-ज्जानिये-प्र-ज्जानना (स्वी-
कारना)
प्रि-काञ्-प्र-कथ (आज्ञा)
प्रि-नुदित्-प्र-नुदति
प्रि-न्यातिये-प्र-नीति (स्वीकार,
स्वागत)
प्रि-भादोक्-प्र-भातक (आक्रमण)
प्रि-रोद-प्र-रोह (प्रकृति)
प्रि-रोस्त्-प्र-रोह (उगना,
बढ़ना)
प्रि-रुचात्-प्र-रोचति (पालतू
बनाना)
प्रि-सोस्का-प्र-चू (शो) षक
(चूसनेवाला)
प्रिसिलात्-प्रेषयति
प्रि-त्यनुत्-प्र-तनोति (तानना)
प्रि-चित्तानिये-प्र-चित्तना (शोक
करना)
प्रियातेल्-प्रियतर् (मित्र)
प्रियत्तिन्द्-प्रियत्तु (प्रिय)
प्रो-प्र (लिये, के)
प्रो-वेग्-प्र-वेग (दौड़ना)
प्रो-ब्लेस्क-प्र-भाज (प्रकाश)
प्रो-बुदित्-प्र-बुध्यति (जागना,
उठाना)
प्रो-वोञ्-प्र-वह (शकट, डोने
का साधन)
प्रो-दवात्-प्र-दापयति (बँच-
ना)

प्रो-दाञ्-प्र-दाक (बँची,
विक्रय)
प्रो-दानिद्-प्र-दत्त (बिका)
प्रो-दिरान्-प्र-दरति (चीरना)
प्रो-प्रो-वेदिनक-प्र-प्र-वेदनिक
(उपदेशक)
प्रो-सित्-प्र-पृच्छति (पूछना,
मांगना)
प्रो-सिपात्-स्या-प्र-स्वपिति
(जगाना)
प्रो-स्पात्-प्र-स्वपिति (सो
जाना)
प्रो-स्-बा-प्र-श्न (मांगना)
प्रो-तिव्-प्र-तीय (विहृद्ध)
प्रो-चित्तात्-प्र-चित्तयति (पढ़ना)
प्रो-च-प्राच् (दूर, दूर जाना)
प्रो-शि (वा) त्-प्र-सीव्यति
(सीना, टांकना)
प्रो-श्लोये-पश्चा (पिछला)
पुत्तिक-पथिक (यात्री)
पुत्योक्का-पथीयिका (यात्रा)
पुतेशेस्तिवये-पथिकत्व (यात्रा)
पुत्-पथ (मार्ग, सड़क)
पुन्-यानित्सा-पानका (मदिरा-
मत्ता)
पु-यानिस्त्वो-पानकत्व (मत्तता)
पिशात्-पिंशति (प्रकाशना)
प्यातोक्-पंचक (पांच)
प्यत्-ना-दत्सत्-पंच-दश (पांच
ऊपर दस)
प्यातो-पंच (पांच)
प्यातया-पंचतय (पांचवां)
प्यत्-पंच (पांच)
प्यत्-देस्यत्-पंचाशद् (पांच-
दस, पंचास)
राब्-लाभ (दास)
रबोता-लाभता (काम, श्रम)
राद्-राध, ह् लाद (प्रसन्न, खुश)
रादोवात्-ह्लादति (हर्षित
होना)

रादोस्त्-ह्लादिन्व (खुशी)
राञ्-राग (क्रोध)
राञ्-प्रति, —वि! (बिना,
रास्-दुर)
रञ्-वेग्-वेग (दौड़ना)
रञ्-बोर-वर (चुनना, बांटना)
रञ्-बुदित्-बुध्यति (जागना)
रञ्-वेदका-वेदका (खोजना)
रञ्-वेद्-चिक्-वेदक (ढूँढ़ने
वाला, स्काउट)
रइ-रै (स्वर्ग)
रन्-रण (घाव)
रस्ति-रोहति (उगना, बढ़ना)
रत्-निक-राति (योद्धा)
रत्-भ्रात (सेना)
रुदेनिये-रोहणता (लालपन)
रेव्योनक्-ऋभुक (लडका)
र्योव्-रव (शोर, गर्जन)
रेवेत्-रवति (शोर करना)
रेजत्-रिंहति, रेतति (काटना)
रेज्जुनिक-रेतक, रिहक (कसाई)
रेका-रेखा, लेखा (नदी)
रेच्-ऋक् (भाषण)
रिसोक्का-लेख, रेख (रेखां-
कन)
रोग्-शृंग (सींग)
रोद्-रोध (परिवार, वंश)
रोदिना-रोधिनी, रोहिणी
(जन्मभूमि)
रोदितेलि-रोदितर (माता-
पिता)
रोदित्-रोहति (पैदा करना,
जन्म देना, फारसी, रोईदन्)
रोझात्- } —रोधति
रोझ्-दात्. } (प्रसन्न
रोदित्-स्या- } करना)
रोझ्-देनिये-रोहणा (जन्म)
रोझोक्-शृंगक (छोटी सींग)
रोस्त्-रोह (वृद्धि)
रञ्का-रंभका (काटना)

हगात्.—(रिगाना, गालीदेना,
शाप देना, चिढ़ना)
हगान्.—(गाली] देना, शाप
देना, चिढ़ना)
हसिइ—ऋषि (पिंगल, श्वेत)
रिदात्.—रोदति (रोना-सिस-
कना)
रिखिइ—रोह, लोह (लाल)
रिचान्.—ऋचति (शोर करना,
चिल्लाना)
स्-स, सम् (सह, लिये, से,
ऊपर)
सद्-सद् (उद्यान)
सदिन्.स्या } —सीदति
सज्ञात्. } (बैठना)
साम्-स्वयं
सामो—वार्-स्वं बाल (समावार
चल्हा)
सामो-लेन्-स्वयं डयन (विमान)
ग्रामिइ-स्वयं
साखर-शर्करा
स्-वेगात्.—सं-वेगति (दौड़ जाना)
स्-बोर-सं-वर, सं-भर (सभा)
स्-वेदेनिये-सं-वेदना (ज्ञात,
सूचना)
स्-वेदुक्चिइ-सं-विदुम् (विद्वान्,
निपुण)
स्व्योकोर- श्वशुर (समुर)
स्वेक्रोवि-श्वश्रू (सास)
स्-वेख-स्वर्ग (ऊपर)
स्वेत्-श्वेत (सफेद, संसार,
प्रकाश)
स्वेतन्. } —श्वेतति (प्रकाशना)
स्वेतित्. }
स्वेत्लो-श्वेतल (प्रकाशमान)
स्वेतोच्-श्वेतक (मशाल, दीपक)
स्-विदानिये—सं-विदना
(मिलना)
स्-विदेतेल्.—सं-वेत्तर् (गवाह)
स्वोयो } —स्वीय (अपना)
स्वोइ }

स्वोइस्त्वो- स्वीयत्व (गुण)
स्वोयाक्-स्वीयक (बहनोई)
स्-व्यजूका-सं-बंधक (मूट्ठा)
स-व्यजू.—सं-बंध (बंधन)
स्-देरज्ञात्.—स-दृहति
(पकड़ना)
सेवे } —स्वीये (अपने लिये)
सेवे }
सेव्या }
सेगो-दनया-स्वक-दिन (आज)
सेदेन्.—श्वेतति (बाल सफेद
होना)
सेदोइ-श्वेत (सफेद बालवाला)
सेइ } —स (यह)
सिया }
सिओ }
सेमि-सोतिइ-सप्त-शती (सात
सौ)
सेम्-ना-दत्सत्.—सप्त-दश (सात
ऊपर दस, सत्रह)
सेम्-सप्त (सात)
सेम्-रेस्यत्-सप्त-दशन्
(सत्तासी)
सेम्-सोन्-सप्त-शत (सात सौ)
सेर्दत्से-श्रद, हृत् (हृदय)
सेस्त्रा-स्वसर् (वहिन)
सेन्त्.—सीदति (बैठना)
सिदेत्.—सीदना (घर बैठना)
पिदेन्.—सीदति (बैठना)
सीला-शील (बल)
स्-कजू-सं-कथा (कहानी)
स्-कजात्.—सं-कथयति
(कहना)
स्-कजूका-सं-कथका (कहानी)
स्-कुचात्.—सं-कुचति
(उदास होना)
स्लवा-श्रव (यश)
स्लाविन्.—श्रवति (यश
बखानना, श्लोक करना)
स्लाव्निइ-श्रवणीय

(यशस्वी)
स्ले.गुका-सं-लघुक (हल्का)
स्लुगा-श्रूषक (सेवक)
स्लुझान्का-श्रूषणिका
(सेविका)
स्लुझ्.बा-श्रूषा (सेवा)
स्लुझे.निये-श्रूषणा (सेवा
करना, काम करना)
स्लुझित्.—श्रूषति (सेवना,
काम करना)
स्लुख्-श्रूषा (सुनना, कान)
स्लुशानिये-श्रूषणा (सुनना)
स्लु (स्लि) शात्.—श्रूषति
(सुनना)
स्-मेझा (झि)त्.—सं-मेचति
(आंख मीचना)
स्-मेर्त्.—सं-मर्त (मृत्यु)
स्-मेस्-सं-मिश् (मिश्रण करना)
स्मेख्-स्मय (हंसना)
स्मेयात्.स्या-स्मयति (हंसना,
मुसकराना)
स्नेग्-स्नेह (हिम, बर्फ)
स्नोवा-सं-नव (नया, ताजा)
स्नोखा-स्नुषा (नोह, पुत्रवधु)
सो-सम्, स
सोबाका-श्वक (कुत्ता)
सो-विरानिये-सं-हरणा
(सभा एकत्रित होना)
सो-विरात्.—सं-हरति (एक-
त्रित करना)
सो-वेत्-संवेत (सभा, मंत्रणा)
सोवेलिक्-संवेतक (कौंसलर,
परामर्शदाता)
सोव्-पदत्.—सं-पतति (संपात,
एक साथ पड़ना)
सो-उनानिये-सं-जानना
(चेतना, ज्ञान, स्वीकार)
सो-उनतेल्.—सं-जातर् (जानने
वाला)
सो-इति-सं-एति (जाना)
सोल्न्त्से-सूर्य

सो-म्नेनिये-सं-मनना (संदेह)
 सोन्-स्वप्न
 सोन्निक-स्वप्नक (स्वप्न,
 जोतिसी)
 सो-रात्निक-सं-अरातिक (सह-
 योद्धा)
 सोसानिये-चूषणा (चूसना)
 सो-सेद्-सं-सद् (पड़ोसी,
 फारसी-दम्सद)
 सोसोक्-चूषक (स्तनमुख)
 सो-स्ताव्-सं-स्ताव (जोड़ना,
 गुंफना)
 सो-स्तोयानिये-सं-स्थाना
 (स्थिति, अवस्था)
 सोसून् (रोक्)-चूषण (चूसना,
 स्तन पीना)
 सोत्-शत (सौ)
 सोतिया-शती (सौ)
 सोतिह-शतीय (सौवां)
 सोखनुत्-शुष्णति: (सूखना)
 स्प-दानिये-सं-पतना (गिरावट,
 पतन)
 स्प-पोइवात्-सं-पाययति
 (मदिरामत्त बनाना)
 स्पाल्-न्या-स्वापालय (शयन-
 गृह, शयन-गान)
 स्पानियो-स्वपना (सुलाई)
 स्पात्-स्वपिति (सोना)
 स्प्यच्का-स्वपका (नींद)
 स्मम्-शर्म फारसी, लज्जा)
 स्नेदे-श्रद्, हृद् (मध्य)
 स्नेदस्त्वो-हृत्त्व (मध्यता)
 स्तवित्-स्थापयति (रखना)
 स्तान्-स्थान (कैप, आकार)
 स्तानोवित्-स्थानयति (रखना)
 स्तानोक्-स्थानक (बैंच)
 स्तानितस्या-स्थानका (स्टे-
 शन)
 स्-स्थोसिवात्-सं-तक्षति
 (काटना)
 स्तो-शत (सौ)
 स्तोइत्-स्थिति (ठहरना)

स्तोइ-स्थाहि (ठहर)
 स्तोइकिइ-स्थायुकीय (दृढ़)
 स्तोल्-(टेबुल)
 स्तोल्-स्थाल (स्थाणु, खम्भा)
 स्तोयानियो-स्थानि (खड़ा
 होना)
 स्तोयात्-स्थायति (खड़ा
 होना)
 स्-त्राख्-सं-त्रास (भय, लड़ाई)
 स्-त्राशित्-सं-त्रस्यति (भय-
 खाना, आतंकित होना)
 स्-त्रशानिये-सं-त्रासना
 (डराना)
 सु-दार्-न्या-सु-दाना (महिला)
 सु-दर्-सु-दान (भद्र पुरुष)
 सुत्-सत् (सत्त, सार)
 सुखो-शुष्क (सूखा)
 सुखोवेइ-शुष्कीय (सूखा,
 सूखी हवा)
 सुखो-पुत्निइ-शुष्क-पथ (खुश्की
 का मार्ग, स्थल-पथ)
 सुखोस्तु-शुष्कत्व (सूखाई,
 सूखा-सा)
 सुशा-शुष्क (सूखी भूमि)
 सुशो-शुष्कीयस् (अधिकतर
 सूखा)
 सुशोनिये-शोषणा (सुखाई)
 सुशित्-शुष्यति (सूखना)
 सुशुका-शुष्का (सूखना)
 सूप-सूप (मांस-रस)
 स-चित्तात्-सं-चित्तति (गिनना)
 सिन्-सूनु (पुत्र)
 स-युदा-इह (पाली- इध,
 यहां)
 स-यक-एतादृक् (ऐसा)
 स-यम्-तत्र (यहां)
 ता-सा (वह)
 तोत्-स (वह)
 तो-तद् (वह)
 तइत्-तायति (छिपाना,
 शरण देना)
 तइना-तायना (रहस्य, भेद)

ताक्-तादृक् (ऐसा)
 ताक्-भे-तादृक् हि (भी, ही)
 त्वोइ } -त्वदीय (तेरा)
 त्वोया }
 त्वोयो }
 तेम्नेत्-तमस्यति (अंधेरा
 करना)
 तेम्नो-तमस् (अंधेरा, अस्पष्ट)
 तेप्लेत्-तप (ल) ति (गर्म
 होना)
 तेप्लो-तपल (गर्म)
 तेप्लोता-तपलता (फैलती
 आंच)
 तेर्ञानिये-तर्जना (सताना,
 चीरना)
 तेर्ञात्-तर्जति (चीरना,
 छिन्न करना)
 तेसानिये-तक्षणा (काटना,
 फाड़ना)
 तेसात्-तक्षति (काटना)
 तेस्नित्-तीक्ष्णोति (दबाना,
 गारना)
 तेतिवा-तंतुव (धनुषकी ज्या)
 त्योत्का-ताती (चाची, बुआ)
 त्योत्या-ताती (चाची, बुआ)
 तिखिइ-तुषी (शांत, नीरव)
 तो-तद् (वह, नपुंसक)
 तोग्दा-तदा (तब)
 तो-एस्तु-स अस्ति (वह है,
 अर्थात्)
 तोनिन्का } -तनुका, तन्वी
 तोन्किइ } (पतली)
 तोपित्-तपति (तपाना,
 पिघलाना)
 तोर्का-तपका (लालटेन
 की बत्ती, गर्माना)
 तोत्-स (वह, पुल्लिंग)
 तोचेनिये-तक्षणा, तीक्ष्णना
 (घिसना, तेज करना)
 तोच्योनिइ-तीक्ष्ण (छेनी
 किया)
 तोचिल्का-तक्षलिका (घिसने
 का पत्थर)

तोचिल्नया-तक्षलका (घिसने की चक्की)
तोचित्-तक्षति (घिसना, तेज करना)
त्रवा-दूर्वा, तृण (घास, बूटी)
त्राव्का-दूर्वका (पत्ती, घास)
त्रेतिइ }-तृतीय (तीसरा)
त्रेत्. }
त्र्योख्-त्रिक (तिन-)
त्रिअदा-त्रिधा (त्रिप्रकार)
त्रि-द्वस्तत्-त्रि-शत् (तीस)
त्रिझ्दि-त्रिधा (तीन बार)
त्रि-ना-द्वस्तत्-त्रयोदश (तीन ऊपर दस, तेरह)
त्रि-स्ता-त्रि-शत (तीन सौ)
त्रोइका-त्रिका (तीनवाली)
त्रुसित्-त्रस्यति (भय खाना)
त्र्यसेनिये-त्रसना (कांपना, हिलना)
त्र्यस्ति-त्रस्यति (कांपना, डोलना)
तुदा-तत्र (वहां)
तुमान्-धूमन् (भाप, कुहरा, धुआं; फारसी-दूदमान्)
तुशित्-तुषति (बुझाना)
ति-ते (तू)
त्.मा-तम (अंधकार)
त्.फु-थू (शूकना)
त्यानुत्-तनोति (तानना, खींचना)
उ-उद्, अव, वि
उ-बेगात्-उद्-बेजति (भाग जाना)
उ-वेदित्-उद्-वेदयति (सम-झाना)
उ-वित्-उद्-भिदति (मार डालना)
उ-वितोक्-उद्-भित्क (क्षति, हानि)
उ-वझात्-उद्-भजति (सम्मान करना)
उगोल्-इंगाल, अंगार (कोयला)

उ-दाल्-उद्-दार (साहस)
उ-दार-उद्-दार, विदार (चोट, आघात; फारसी-दरीदन्)
उ-दारित्-उद्-दारयति (मारना, चोट करना)
उ-झ-उद्-हि (पहिले ही)
उ-इति-एति (जाता है)
उ-काज्-उत्-कथ (आज्ञा)
उ-लेतात्-उद्-डयति (उड़ता है)
उ-निझे निया-अव-नीचना (नीचा दिखाना)
उस्त-उत्स (मुंह, ओंठ)
उस्त.ये-ओष्ठ (मुंह, ओंठ)
उख्-(उंह, ओह, आह)
उचेनिये-ऊचना (पढ़ाना, सिखाना)
उचीतल-ऊचितर् (शिक्षक)
उचित्-ऊचिति, वक्ति (सीखना, सिखाना)
फु (इ)-थू (धिक्कारना)
ख्वाला-स्वर (प्रशंसा,)
ख्वालित्-स्वरति (प्रशंसा करना)
खोलोद्-शरद (सर्दी)
खुद्रेनिये-शुद्रणा (पतला होना)
खुदोइ-क्षुद्र (बुरा)
खुदिशका-शुद्रिका (पतली तरुणी)
त्सेत्-श्वेत (रंग, फूल)
त्सेलो-सकल (सारा, सियल)
त्सेन्त्र-केन्द्र
चशा-चष (प्याला)
चशेच्का-चषक (प्याली)
चशका-चषक (प्याली)
चेइ-कस्य (किसका, जिसका)
चेरेप्-कर्प (र) (खोपड़ी)
चेत्वेरो-चत्वारि (चार)
चेत्वेर्-चतुर्थ (चौथाई)
चेतिर्-चत्वारि (चार)
चेतिरेझ्द्-चतुर्धा (चार बार)
चेतिरेस्त-चतुःशत (चार सौ)

चेतिर्-ना-द्वस्तत्-चतुर्दश (चौदह)
चिनित्-चिनोति (मरम्मत करना, पेबंद लगाना)
चितातेल्-चितयितर् (पाठक)
चितात्-चितयति (पढ़ना)
चिखानिये-छिक्कणा (छींकना)
चिखात्-छिक्कति (छींकना)
चूमोकात्-चुंबति (चूमना)
च्तो-कति (किं) (क्या; फारसी, चि)
शकाल्-शृगाल (गीदड़; फारसी, शयाल)
शेभ्तात्-शपति (पुकारना)
शेस्ति-इनेक्का-षट्-दिनक (षडह)
शेस्तोइ-षष्ट (छठा)
शेस्त्-षट् (छ)
एइ-अधि
एता-एता (यह, वह)
एतत्-एष (यह, फिल्लग)
युनोस्त्-युवत्व (जवानी)
युनिइ-यून (जवान)
यावित्. }-आयाति (दिख-
याव्यात्. } लाना)
याव्का-(आवक, वर्तमान)
याव्लेनिये-(आवना, प्रकट होना)

(२) शब्दानुकरण

मर्गात्-आख मलकाना
आख्-आह
खाखा-हाहा
चप्कात्-चप्चप् (खाना)
इकात्-हिक्कति (हिचकी लेना)
चिखात्-छिक्कति (छींकना)
त्.फु-थू
फु-फू
कश.ल्यात्-खांसना
गेइ-हे (संबोधन)

पिण्ज् (सूचित करना)
वेर्झो निये, ओत्-; -अव + ववर्ज्
(अस्वीकार करना, फेंक देना)
वेर्तत्.- ववृत् (मोड़ना, लौटना)
वेशिवात्., प्रे-; -प्र + वविश्
(जोड़ना, लटकाना)
विवात्-वभव् (होना, दीर्घ-जीवी होना)
विदत्., प-; -प्र + वविद् (देखना)
विदेत्.- वविद् (देखना)
विद्नेत्. स्या-वविद्+य (दिखाई देना)
विनित्., ओब्-; -अव + वनी
(अपराध लगाना)
विसत्., पो-; -प + व विश्
(लटकाना)
वोजित्.-ववह (ढोना, लेजाना)
वोजित्., ना-; -ति + ववह
(लेजाना)
वोचत्., ओत्-; -उत् + ववच्
(उत्तर देना)
व्रतित्., प्रो-; -प्र + ववर्त्
(लौटाना)
व्रात्.-वहर, भर (रखना)
व्रात्., वोज्.; वि + ववर्त्
(काटना)
विसित्., प्रो-; -प्र + वविश्
(उठाना)
व्यजात्.-वबंध (बांधना)
गोवोरित्.- वगो (बोलना,
फारसी-गोईदन्)
गोरत्., वि-; -वि + वगर् (जलाना)
गोरत्., ना-; -
नि + वगर } जलाना,
नि + वज्वल } गर्म करना
गोरेत्.-वगर, वज्वल (जलाना)
ग्रेत्.-वगर, वज्वर (गर्म करना)
ग्रोवित्.- वगृभ
ग्रोवित्, उ-; -उद् + वगृभ
(गार डालना, नष्ट करना)
ग्रोझात्., उ-; -उद् + वगर्ह (धम-

काना, खतरेमें डालना)
ग्रिजात्., वि-; -वि + वग्रस्
(छिकोड़ खाना, चवाना)
ग्रिजात्., पेरे; -परि + वग्रस
(फाड़वाना)
गुवित्.- वक्षुभ, व खुभ
(खोभना, नष्ट करना)
दवात्.- व दा (देना)
दवात्., जा-; -आ + व धा
(रखना, सवाल पूछना).
दवात्., प्रो-; -प्र + वदा (बेंचना)
दावित्.- व दाब (दाबना)
दावित्., जा-; -आ + व दाब
(चढ़ दौड़ना, चूर्ण करना,
आ दाबना)
दावित्., प्रो-; -प्र + व दाब
(दवाना)
दारित्., पो-; -प्र + व दार
(देना)
दारित्. स्या, उ-; -उद् + वदार
(मारना, प्रहार करना)
दात्.- व दा (देना)
दात्., पो-; -प्र + व दा (भेंट देना)
दात्. (स्या), जा-; -पा + वधा
(रखना)
दे (वा) त्.- व धा (रखना)
देलत्. (स्या) - व दर् (करना)
देलित्.- व दार् (बांटना)
देलयत्., ओत्-; -उद् + वदार
(बांटना, अलग करना)
देर्झात्.- व दृह (थामहना,
रोकना)
दिरत्., वि-; -वि + व दर्
(चीरना, फाड़ना)
दिरत्., प्रो-; -प्र + व दर्
(चीरना, जीर्ण करना)
दोझ् दत्. स्या- व दुह् (पाना)
दोझ् दित्.- व दुह (बरसना)
दोहत्.- व दुह (दूध दूहना)
द्रात्. (स्या) - व दर् (चीरना,

लड़ना)।
द्रात्., जा-; -आ + व दर (फाड़कर
खाना)
दुवात्.- वि-; -वि + व धूम
(धौंकना, फूंकना)
दुनुत्.- वि + व धुन् (धौंकना)
येदत्.- वि-; -वि + व अत् (खा
डालना)
येत्.- व अष (खाना)
येत्.- व अस् (होना, है)
येखात्.- व एष (हांकना, चढ़ाना,
जाना)
झरित्.- व जवर (जारना,
तलना)
झेवत्.- व चर्व (चीभना, कूचना
जीमना)
झेल्तेत्.- व हरित (पीला
करना; फारसी-जर्दीदन्)
झ निये., परा-; -परा + व जिन
(हराना, पराजय करना).
झेनित्. (स्या) - व जनो
(व्याह करना)
झच्.- व धक्ष (जलाना)
झीवित्., ओत्- -अव व
जीव (मर जाना)
झीवित्.- व जीव (जलाना)
झिगात्, ओब्- - व अभि
झिगात्., पेरे-; -प्र व
जग (जलाना)
झिनेत्., वि-; -वि व छिद
(फसल काटना)
झित्. न-; -नि व छिद
(फसल काटना)
झित्.- व जीव (बसना, रहना)
झित्., - ओत्-; -अव व
जीव (मर जाना)
ज्वइवात्, वि-; -वि व
ध्वन (घंटी बजाना)
ज्वत्.- व हू (पुकारना, -
बुलाना)
ज्वेनेत्- - व ध्वन (घंटी

बजाना)
 ज्योमिन्—१ घंटी बजाना)
 जेवत्.— १ जृंभ (जंभाई लेना)
 जेवत्. पो; ओ—प्र १ जह (त्यागना, छोड़ देना)
 ज्योविवात्., पो-;— प्र १ जृंभ (जंभाई लेते रहना)
 जेलेनेत्.— १ हरित (हरा होना)
 ज्नात्. } १ ज्ञा (जानना
 ज्जनात्. }
 ज्जनात्. सो-;—सं १ ज्ञा (पहिचानाना, स्वीकार करना)
 ज्जाकोमिन्.— १ ज्ञाप् (परिचय कराना)
 ज्जामेनोवात्.— १ ज्ञाप् (दिखलाना, सिद्ध करना)
 ज्जोचित्.— १ ज्ञा (समझना, नेमिक, जताना)
 ज्जालोतिन्. वि.,-वि-; १ हरित (सोना लगाना, मुलम्मा करना)
 ज्ज्यन्नुत्.-इज्-आ.; १ हिम (बर्फ बनना, ठिठुरना)
 इदति—१ एत् (जाना, आना)
 इकात्.— १ हिक्क (हिचकी लेना)
 इत्ति—१ एत् (आना, जाना, टहलना)
 कज्जात् (स्या)—१ काश (प्रकट होना, जान पड़ना)
 कज्जात्. विस्-,-वि १ कथ }
 वि १ काश } (प्रकट करा)
 कज्जात्.स्—सं १ कथ (कहना)
 कजिवात्—कथ,

कहना, दिखलाना,
 इंगित करना)
 कज्जत्, ना:-नि १ कथ (काश) (इंगित करना)
 कज्जात्, प्रि,-प्र १ कथ (काश) इंगित करना
 किलकात्., वि-;—दि १ किलक (ऋश) (पुकारना)
 किलक्नुत्.—वि १ किलक ऋश (पुकारना)
 कर्त्.— १ कार (दंड देना)
 क्सी (शी) वत्., प्रिज्ज
 क्श (पुनः रंगना, मोमियाना)
 क्सित्., पेरे-;—परि १ कर्ष (पुनः रंगना)
 क्शात्., उ-;—उत् १ कर्ष (सजाना, अलंकृत करना)
 क्किकात्., व्स्-;—वि १ क्श (चिल्लाना, हल्ला करना)
 क्किसात्., व्स्-;—वि १ क्श (चिल्ला उठना)
 कोपात्.— १ कल्प (कांपना, खोदना)
 कोइत्.—१ कृत् (काटना)
 क्शात्., स्-;— सं १ कृष (तोड़ना, विचूर्ण करना)
 क्कित्.—१ कृत (ढांकना)
 कुचात्., स्-;—सं १ कुच (थूकना)
 कुचित्, प्रिस्-;— प्र १ कुच् (थूकना)
 कुशात्. पो-;—प्र १ कुश (कोशिश करना)
 लगात्., ना-;—नि १ लग (लगाना)
 लदत्, स्-;—सं १ हल्द (हला दित होना)
 लगात्.—१ लग (लेजाना)
 लेगात्., ना,-नि १ लग (लेजाना)

लेजात्.— १ लेट (लेटना, विश्राम करना)
 लेजात्.—१ लंघ (१) चढ़ना, लेजात्., पेरे-;—परि लंघ १ (चढ़ जाना)
 लेपित् वि.,-वि १ लिप (लेपना, चिपकाना)
 ,, , जा;—आ १ लिप (चिपकाना)
 लेतात्.— १ डय (उड़ना)
 लिजात्.— १ लिहू (चाटना)
 लिपात्.— १ लिप् (चिपकाना)
 लोबिजात्.— १ लुभ (चूमना)
 लोवित्.—१ लुभू (लुब्धकी करना, फंसाना, आहत करना)
 लोगत्., पो-;—प्र १ लम् (रखना, लगाना)
 लोमित्. (स्या)— १ लोट (लेटना, गिरना)
 लोपत्. स्या—१ लोप (फटना, टूटना)
 लुपित्., ओत्-;— उत् १ लोप् (मारना)
 लुचत्., इज्-;—आ १ रोच् (प्रकाशित होना)
 लुचत्., ओत्—अव १ रोच् (बहिष्कृत करना)
 लुच्शात्., उस्-;—उद् रोच् (धारना, बेहतर बनाना)
 ल्युवित्.— १ लोभ (प्यार करना)
 ल्युवित्., रज्ज-;—वि १ लोभ (प्यार करना)
 मज्जात्., मज्जनुत्.— १ माष् (माखना, चुपड़ना लगाना)
 मज्जात्., वू-;—वि १ माष् (चाटना)
 मज्जात्., पो-;—प्र १ माष् (तेल लगाना)

मञ्जोक., पो-; -प्रवमार्ज
(झाड़ना)

मरत्., वि-; -विवमर (घात
करना)

मचिवात्., जा-; -वमिह
(भिगोना)

मेक्ष (झि)त्., स्-; -संव मिष
(आंख मींचना)

मेरेत्.-वमर (मरना)

मेरेत्. वि-; -विवमर् (मर
जाना)

मेरित्.-वमा (नापना)

मेतत्.-वमथ (ढकेलना)

मेशिवत्. व्-; -विवमिश्र
(मिश्रण करना)

मीलोस्त्-वमिल (मेल करना,
कृपा करना)

मितात्.-वमिष (आंख
मलकाना)

मिगनुत्.-वमिष (आंख
मलकाना)

मिरत्., वि-; -विवमर
(मर जाना)

मनुत्.-वमनु (सोचना, मनन
करना)

मोकात्. वि-; -विवमुच्
(निकल जाना)

मोलोत्.-वमर्द (धिसना,
मलना)

मोरित्.-वमर (हत्या करना,
भूखा मरना)

मोचित्.-वमेह (भिगोना)

मि(वा) त्.-वमोना
(धोना)

नामेकात्.-वनाम (इंगित
करना)

नशिवात् जा-; -आवनश् (जीर्ण
करना)

निजात्-वनह (बांधना,
सूत पिरोना)

निजि (झि) त्., उ-; -अवव
नीच (अपमानित करना)

निमात्., वि-; -विवनय
(ले जाना)

नित्., ओव-; वि-; -अभि-
विवनय (अपराध लगना)

निचूतोझित्., उ-; -उद्वछिद्
(नष्ट करना, बंद
करना)

नोस्त्.-वनेष (ले जाना,
ढोना) (तेल्.)

नोस्त्., जा-; -आवनेष
(लिख छोड़ना)

नोचिवात्.-वनिश् (रात
बिताना)

नुदित्., वि-; -विव नुद
(बाध्य करना)

नु झदात्., -वि-; -विवनुद
(बाध्य करना)

पदत्.-वपत (गिरना)

पदत्., नस्-; -निस्वपत्
(गिरना)

पदत्. व्स-; -संवपत (एक
समय एक स्थान में होना)

पइवात्. व्स-; -विवपा य
(पिलाना, पोषण करना)

पेइवान् पेरे-; -परिवपाय
(मद्यपान में अति करना)

पेरेनिये—पलायना (भागना)

पास्त्.-वपा (पास्तुख्
मेषपाल)

पास्त्.-वपत (गिरना)

पेकात्., दो-; -आवपच्
(पकाना)

पेच्.-वपच् (पकाना, तलना,
भूजना)

पिवात्. जा-; -आवपिव्
(पीना)

पिवात् वि-; -विवपिव
(पीना)

पिलित्.-व पीड (चीरना)

पिलिवात्.-व पीड (चीरना)

पिसात्.-व पिश (लिखना)

पिसिवोत्.-पिश (लिखना)

पित्.-व पिव (पीना)

प्लवात्.-व प्लव (तैरना)

प्लवित्., वि-; -विवप्लव
(पिघलना)

प्लिवात्., व्-; -विवप्लव
(तैरना, नावपर चलना)

पोइत्.-वपिव (मद्यप बनना)

पोल्नोत्.-वपूर्ण (भरा पूरा
होना)

पोल्नोत्., निस्-; -विवपूर्ण
(भरना)

पोल्नित्., वि-; -विवपूर्ण
(पूरा करना)

पोतेत्., व्-; -विवपोन (पसीने
में नहाना विवस्विद्)

पोचितात्.-वपूज (संमान
करना)

प्रशिवात्., वि-; -विवपृच्छ
(पूछना)

प्रियुतित्. (स्या)-व प्रिय (?)
(शरण देना व पाना)

प्रोसित्-वपृच्छ (पूछना,
मांगना)

प्रोप्तत्., वो-; -विवपृच्छ
(पूछना)

पुखात्., ना-; -निवपुष् (फूल
जाना)

पुखात्., प्रि-; -प्रवपुष्
(फूल जाना)

पिशात्.-व पिश (दहकना)

राहोवात्.-वलाद (आबादित
होना)

रादोवात्. स्या, वेज्-; -विव
हलाद

रखात्., ओत्-; -आ व राज

दर्पणमें प्रतिबिम्बित होना)
 रन्त्.—४ रण (घायल करना)
 रस्ति-४ रोह (रोहण करना,
 बढ़ना, फारसी-रोईदन)
 रेव्रेत्.—४ रव (शोर करना)
 रेज्त्., रेज्जिवात्.—४ रिह
 (काटना, फारसी रेजीदन्)
 रेज्जिवात्, प्रि-प्र४रिह
 (मारना, जोड़ना)
 रेज़्जात्. स्या, जा-; आ४रेज्
 (तोड़ना)
 रोदित्. स्या-४रोध, रोह
 (जन्माना)
 रोज़्जात्.—४रोध, रोह
 (जन्माना)
 रोज़्जादत्.—४रोध, रोह
 (जन्माना)
 रोझित्.—४रोह (जन्माना)
 रुगात्., वि-;—वि४रिग-
 (रिगाना, फटकारना)
 रुगात्. ओव्-; अभि४रिग
 (रिगाना, फटकारना)
 रुबात् जा-;—आ४रुभ,४
 लंभ (कुल्हाड़े से गढ़ना
 काटना)
 रुबात्., पेरे-;—परि४लंभ
 (काटना, मारना)
 रुबात्. पो-;—प्र४सभ (चीर
 डलना)
 रिवात्.—नञ्-४रुद (सिसकी
 भरना)
 सदित्.—४सीट् (बैठना,
 सादी=असवार)
 सदित्.व्-;—वि४सीद
 (भीतर घाव करना)
 स्वेत्त्.—४श्चेत (प्रका-
 शित होना)
 ”, ओ-;—आ४श्चेत
 (प्रकाशित करना)
 स्वेतित्.—४श्चेत (प्रकाशित
 करना)

सेदेत्. — ४श्चेत (बाल
 सफेद होना)
 सिदेत्.— ४सीद (बैठना)
 स्लवित्.— ४श्रव (यश
 गाना)
 स्लुझित्.—४श्रुष (सेवा करना,
 काम करना)
 स्लुशत्.—४श्रुष (काम करना)
 स्मेनिवात्. ओ-;—आ ४
 स्मय (परिहास करना)
 स्मेखात्स्या, ना ; — न ४
 स्मय (परिहास
 करना)
 स्मेशित्., पो-;—प्र४
 स्मय (हंसाना)
 स्मेयात्. स्या— ४स्मय (हंसना)
 सोसात्.— ४चूप (चूसना)
 सोखनुत्.— ४शुष (सूखना)
 स्यात्. पो-;—प्र४स्वप
 (थोड़ा सोना)
 स्तावित्., पो-;—प्र४स्थाप
 (रखना, स्थापित
 करना)
 स्तानोवित्.—४स्थान
 (रखना, स्थापित करना)
 स्तोइत्.—४स्था (आना)
 स्तोयात्. ,पो-;—प्र४स्था
 (खड़ा होना)
 सुखनुत्.,—पो-;—प्र४
 शुष (सूखना, पो-सुखी
 —स्थल से)
 सुशात्., इस्-;—आ४शुष
 (सूखाना)
 सुशि (वा) त्.— ४शुष
 (सूखाना)
 सुशि, पेरे-;—प्र ४शुष (बहुत
 सूखना)
 सिपात्., पो-;—प्र४स्वप
 (पूरा सोना)
 सिखात्., वि-;—वि४ शुष
 (अति सूखना)

स्यकात्.— ४सैंक (सूख
 जाना)
 सह (वा) त्.—४ताय
 (छिपाना, श्राण देना)
 तल्किवात्. — ४तर्क
 (हिलाना)
 तल्किवात्., प्रो-;—प्र ४तर्क
 (ढकेलना).
 तेम्नेत्. ४तम्-
 (अंधकार करना). — ४
 तेप्लेत्. ४तप (गर्म होना)
 तेजत्.—४तर्ज (चीरना, खंडन
 करना)
 तेरेत्. स्या, वि-;—वि-४तिर
 (खतम करना, सुखाना)
 तेस्त्.— ४तक्ष (काटना)
 तेम्नित्.—४तीक्षण
 (दबाना, गालना)
 त्योसिवात्., वि-;— वि४
 तक्ष (आकार गढ़ना)
 तिरात्., वि-;—वि ४तीर
 (पोंछना, सुखाना)
 तिरत्, स्या, स, —सं
 तीर (भाग जाना)
 तिखात्. स्-; —सं४तुप्
 (शांत होना)
 तोपित्.—४तप (गर्म करना,
 पिघलाना)
 तोपित्., जा-;—आ ४तोप
 (जहाज डुबाना)
 तोप् (तिव) त्. वि-;—वि४
 दब (दाबना, रौंदना)
 तोपित्.— ४तक्ष (घिसना
 तेज करना)
 त्रशित्., सं-;—स४त्रस
 (डराना, खतरा मानना)
 त्रिगत., सोस् -; सं ४
 तृह (काटना)
 त्रुसित्.— ४त्रस (भय खाना)
 त्र्यसत्.,— वि-;—वि ४त्रस
 (हिलाना)

श्रुत्, पो-; -वऽत्रस्
(हिलाना)
श्रुस्ति— वऽत्रस् (हिलाना,
डुलाना)
श्रुख (खिवा), त्,.; -; -वि
वऽत्रास् (हिला डालना)
श्रुख, पो-; -प्रऽत्रास्
(हिला डालना)
तुमेनित्.स्या, ज्ञा-आऽतम
(मध्यम पड़ना,
भोथा होना, मंद पड़ना)
तुपित्., पो-; -प्रऽतुप्
(गिरना)
तुपित्, प्रि-; -प्रऽतुप्
(गिरना)
तुशित्., -जा-आऽतुष्
(बुझना, शनैः चला जाना)
तुसित्.पो-; -प्रऽतुप्
(बुझाना, शनैः चला जाना)
तिकात्.— (टिक, वटिकना,
घुसेड़ना)
त्वनुत्.—ऽतनु (खींचना,
तानना)
उचित्.—ऽ वच (सीखना,
सिखाना)
स्वलिन्.—ऽ स्वर (प्रशंसा
करना,)
खोदित्.—; -विऽसिद्
(चला जाना)
चनोत्., नेपेरे-; -नि प्रऽ
चित (गिनना, बतलाना)
चिनिन्.—ऽ चिन् (मरम्मत
करना, पेबंद लगाना)
चितात्.—ऽचित (पढ़ना)
चितात्.,पो-; -प्रऽ व चित
(पढ़ना)
चिनिवात्. व्स-; -विसंऽ
चित (गिनना)
चिखात्.—ऽ छिक्क (छींकना)
चकात्.—ऽ चुम्ब (चूमना)

शेतात्.—ऽ शप (फुसफुसाना)
शिवात्., वून-; -वि वऽसीव
(सीना)
शित्., व्-; -वि वऽसीव
(सीना)
श्चुपात्., वि-; -वि वऽछुप
(छूना) स्पर्श करना,
श्चुपात्., ना-; -नि वऽछुप
(छूकर पता लगाना,
बिक्कीटी काटना)
युमित्., वि-; -वि वऽयुज
(लादना)

(५) प्रत्यय-सूची

अत्— ति (बेगत्.)
अवत्.— ति (दवात्.)
इइ—इन् (बेजरोगिइ)
इक्.—इक (स्तोलिक्)
इकिइं—इक (बेलिइकिइं)
इको—इक (लिचिको)
इजन—(क्रिविजन)
इक्क—इक (पित्चका)
इत—थ (स्कजीते)
इत्—ति (बित्)
इत्सा—ता (बेस्-सोन्नि-
त्सा = निःस्वप्नता)
इत्सा—इका (वर्नित्सा-
मंदिर निर्माणगार)
इत्सा—इक (देवित्सा = देविका)
इत्सा—इक (नोदित्सा)
इना—इनी (ग्लुब्रीना = गंभी-
रिणी, ज्वेरिना)
इन्या—इनी (वोगिन्या =
भगिनी, भगवती)
इम्—म (वीदिम्, विद्म)
इये—इय (वेस्लाविये)
इवत्—ति (पिलिवत् = पीड-
यति)
इवोस्त्.—त्व (इप्रिवोस्त् =
क्रौडित्व)

इशिइ—इयस् (निष्ठाइ
शिइ = नीचीयस्)
इश्—सि, से (वीदिश् =
वीक्षसे)
इश्चा—इका (रुचिश्चा, अंगु-
लिका)
इश्चे—इक (दोमिश्चेदमिक)
इश्चे—(झिलिश्चे = जीव,
वास-गृह)
ईइ—इन् (बेज्-ग्लाविइ =
वि-प्रीवी)
ईइ—इय (ज्वनिइ = ध्वनीय)
ईत्—त (बित्.)
ईन्का—इनिका (प्रोस्तिन्का)
ईलो—(बिलो = भइल)
ईवत्.— ति (बिवत्.)
ईश्को—इक (पेरिश्को)
उ—मि- (बुदु = भवामि)
उत्—न्ति (इदुत् = यन्ति)
उत्.—(नावेर्नुत्.)
उन्—आन (बेगन्)
उश्का—उका (वेतुश्का =
वर्तु का, चकरी)
देवुश्का = देविका, बच्ची)
(देरेवुश्का)
उश्चिइ—इप्य (बुदुश्चिइ =
भविष्य)
उश्चिइ—न्त् (झिवश्चिइं, जीवन्)
उश्चिइ—वान् (वेतुश्चिइं, =
विद्वान्)
ओइ—इय (जेम्नोइं, मीय)
ओक्—क (वेतेरोक् = वातक)
(वोजोक् = वाहक, गाड़ी)
ओक्.—क (गोलोसोक्.)
ओचेक्—(ओगोन्योचेक्. =
अगिया)
ओच्का—का (त्सेपोच्का =
टोपियां, देवोच्का, देविका =
कुमारी)
ओता—इमा, ता (चेनोता =
कालिमा)

ओत्न्या—त्नु, (बेगोल्या)
 ओनोक्—क (वोव्चोनोक्—
 वृकक)
 ओवानिये ना (जिमोवानिये,
 हिमना)
 ओव्—ईय (इवानोव,
 इवानीय)
 ओन्न्या—नीय (बोल्लोन्न्या)
 ओस्त.—त्व (स्वेझोस्त.,
 ज्नामेनिमोस्त. = ज्ञातत्व)
 किइ—कीय (ब्रात्स्किइ =
 भ्रातीय)
 (गोर.किइ = कटुकीय)
 का—का (वोष्का = वाहक,
 डोना) (गोदालका—गदका,
 जोतिस) (ओव्शिक्वा—भूल)
 (ब्ल्यश्का)
 को—क (उश्को = कनवा)
 गा—षा (विस्लुगा = विश्रूषा,
 सेवा)
 ग्दा—दा (व्सेग्दा = सदा)
 चा—य (दाचा = देय)
 चिइ—(गोर्याचिइ = गरम)
 च्—क (बोगाच् = भगक, धनी)
 चिक्—क (श्चिक् = जीवक,
 जीव)
 चिक्—क (म्लादेन्चिक्.)
 चाता—ता (देव्चाता = देवता,
 तरुणी)
 जन्—आलु (बोदाजन् =
 भयालु)
 झ्दि—धा (द्वाझ्दि = द्विधा)
 ता—ता (पोल्लोता = पूर्णता)
 ति—ति (इद्ति = एति)
 तिये—ता (वेस्-मेंतिये =
 विमृत्युता)
 तिई—तीय (बोल्लिई =
 बोल्लतीय, बोल्लकड़)

तून्— (बोल्लून्— बोल-
 ककड़)
 तेई—तीय (बोगातेई = भगीतीय
 धनी)
 तेल्—तर् (बेस्सोफ्नोतेल् वि =
 विसंज्ञातर्, अज्ञानी)
 त्—ति (इकात् = हिक्कति,
 हिचकी मारता है)
 त्लिइ—त्नु (प्रियत्लिइ = प्रिय-
 त्नु प्रिय)
 त्वाये—त्नु (झिवोत्नोय =
 जीवत्नु जीव)
 त्से—इक (ब्ल्युद्-त्से)
 त्सो—व (पिस्. मेत्सो)
 (ओजोर्त्सो)
 (देरेव्त्सो)
 निक्—इक् (वोद्निक = उद-
 किक)
 (व्सादनिक = सादिन्)
 (द्वोनिक = दौवारिक)
 (जेम्लयानिका = जमालिका)
 नो— (स्व्याज्नी)
 नोइ—(द्वेर्नोइ)
 नोस्—(चेस्त नोस्त.)
 न्—न (दान्. = दान, भेंट;
 (पोल्लन = पूर्ण)
 न्का—क (जेम्लयान्का)
 न्या.—(रेज्ज्या)
 बा—(प्ल्बा)
 (खुदोबा)
 मोस्त.— (द्विझिमोस्त., =
 वेजनीय)
 (ज्नामेनिमोस्त. = ज्ञातत्व)
 यात्.—ति (देल्यात्., = दारयति)
 यानि—इन् (द्वोर्यानि, =
 द्वारिन्, बाबू)
 यानिये—ईय (दयानिये
 दानीय)
 युत्—न्ति

येचुक्—इका (दोश्का =
 छोटी मेज)
 येचको—इका (कोल्येचको =
 कुइयां, कूपिका)
 ते—थ (स्कजीते = कथयथ)
 येत्.—(वेग्लेत्स्)
 येत्स्.—(उरोदेत्स्.)
 येत्सो—(पिस्-मेत्सो)
 येद्—(मेद्वेद् = मध्वद)
 येनिक—इक (उचेनिक = वाचक)
 येनिये—(स्लुश्ने निये = श्रूषणा)
 यम्—आम
 येल्—इल (नाबेलो = नाविल)
 येश्—सि (देल्येश्)
 येत्.—त्व (स्वेझ् येत्.)
 योक्—क (ओगोन्योक् अग्निक)
 योश्.—क (ग्रब्योश् = ग्रामक,
 लुटेरा)
 र्—र (ग्लवार = ग्रीवार, नेता)
 र्—न (दार = दान)
 लो—न (नगोलो = नग्न)
 ल्या—ना (लोळ्या = लोभना),
 आखेट)
 वा—का (क्रनावा खनुवा = खांड)
 वानिये—ना (जिमोवानिये =
 हिमना)
 विइ—वीक (मेदोविइ = माध्वीक,
 अमृत-जैसा)
 वोस्त.—(लुकावोस्त.)
 शिइ—शः (बोल्. शिइ = भूरिश)
 शे—शः (बोल्शे = भूरिशः,
 बेहतर)
 शोइ—शः (बोल्शोइ = भूरिशः)
 शोन—ईयः (नगिशोन = नगनीयः,
 अतिनग्न)
 स्त्वये—त्व (देइस्त्वये)
 स्त्वो—त्व (बेग्वोस्त्वो = भगेलुत्व)
 स्या—य (आत्मनेपदी, भावार्थ)

(६) उच्चारण-पारवर्तन

संस्कृत-रूसी उदाहरण
 अ अ, (निषेधार्थ)
 अ ओ, ओस्. (अक्ष)ओगोन्
 आ जा, जाशिवात्=आसी-व्यति
 या याववित्. स्या
 उ वो, व्रोदा-उद
 ओ ओब्रे-उभे
 (ऋ आल्) शकाल-श्रगाल,
 ओल् वोल्क-वृक थर् क
 येर् देर्झात्-दृहति
 येल् झितेल्-जीवित्
 योर् म्योर्त्विइ-मृत्यु
 र् ग्रबित्-गृभीति
 रि क्रित्-कृति
 रु रुसिइ-ऋषि, ऋचि
 स्त्रुन-तृण
 रे रेव्योनोक्-ऋभुक छञ्ज
 रो प्रोसित्.-पृच्छति
 क कौ कोगदा-कदा
 क. तोरिह-कतर
 ग क, शकाल-श्रगाल
 इग्रोजित्.-कृष्यति
 क चेरेप्-कृर्ष
 क्ष स, ओस्.-अक्ष
 च, झेच्-धक्ष
 क्षु खु, खुदेत्.-क्षुदति
 खुदोइ-क्षुद्र
 ख क, कुसात्.-खुंसति
 स, रिमोवात्.-लिखति
 ग क, ऋस्त्.-प्रसति
 ग प्रिवा-प्रीवा
 ग्लोतात्.-गिलति
 नगोइ-नग्न
 झ वेझात्-वेग
 दोझ्द.-दोग्धि
 द् प्रेद्-प्राग्
 घ ग दोल्गिइ-दीर्घ
 ज लजित्.-लंघति
 च क प्रेदकी-प्राच् (पूर्वज)

च पोचितात्-पूजति
 ज निजु-नीचे येठञ्ज
 झ निझे-नीचे
 निझात्.-नीचयति
 स प्रिपासी-प्रपाञ्च
 (भोजन-सामग्री)
 सीरोक-चत्वारिंश
 छ च कुचा-गुच्छ
 झ झेवात्-छीवति
 (चबाना)
 श प्रशिवात्.-पृच्छति
 स प्रोसित्.-पृच्छति
 ज गद बेग-वेज
 गोरात्.-ज्वलति
 ज वेर्योजा-भुर्ज
 प्रिचनाक-प्रिज्ञानक
 जेम्लया-ज्मला
 झ झार-ज्वर
 पोझार-प्रज्वाल
 झेना-जनि
 द पोत्रेदा-प्रविजय
 ट झ लेझात्.-लेटति
 पोलझित्.-प्र-लेट
 ड ल, लेतात्-डयति
 पीला-पीडा (आरा)
 ड ल पोलोत्.- (लोढना)
 ण न पोलनो-पूर्ण
 त त स्त्राख्-त्रास
 द पदात्.-पतति
 न जेलेन्-हरति
 ज इज्-अत्
 द झ, झेच्-दह
 सझात्-सादयति
 द द्रोवा-दाह शिञ्ज
 दोल्शे-द्राघीय
 दोलिना-द्रोणी
 ध ज, जवान्-ध्वन
 झ मेझदु-मध्य
 रोझात्.-रोधति

द व्दोवा-विधैवा
 देयातेल्.-घातर
 (नेता)
 न न, तोन्किइ--तन्का
 प्रेस बा--प्रशन
 प प, पतात्.-पतति
 पास्तुख्--पातुक
 पिसात्.-पिराति
 फ प पल्का--फलक
 (लकड़ी)
 ब व
 भ व बोल्-शोइ--भूरिशः
 अब्लका-अभ्रक
 ब्रात्-भ्रात्
 ब्रोवि--भ्र
 म म, म्यासो-मांस
 य य युनोस्त्.-युवन्
 र र, ब्रात्-भ्रात्
 ल लुच्-रोविष्
 पोल्नो-पूर्ण
 व व, इबा-इव
 ओवोरोत्-अवबर्त
 बेज्-वि (विना)
 व वोज्-वह
 श च, नोच्.-निश्
 श ख, खोलोदे-शरद
 श शकाल-श्रगाल
 च मेशात्.-मिश्रयति
 स देस्यत्-दश न् (दस)
 मुखात्-शुष्यति
 सोवाक-इवक
 स्वेकोर-इवसुर
 ख सिखात्.-शुष्यति
 सुखोइ-शुष्क (सूखा)
 ज,
 झ कीझो-कोष (चर्म)
 श स्लुशत्.-श्रूषति
 स स सझ्दात्-सदयति
 सेव्या-स्वीय

ह शिवात्-सीव्यति
नश्-नस्
ह ओ, ओलेन्-हरिण फो
ख स्मेखात्-मेहति

ह ग, स्नेग्-स्नेह
ज जिमा-हिम
वोच्-वह

झ देर्खात्-बंधति
झ-हि
द पोरौदौ-प्ररोह (ध)

(७) सामाजिक विश्लेषण

संस्कृत रूसी उभयभाषाओं में एक से मिलनेवाले शब्दों के तुलनात्मक विश्लेषण से तत्कालीन सामाजिक विकास पर भी बहुत प्रकाश पड़ता है। “बील्तात्” (बोलना), “दब्ल्यात्” (दाबना)-जैसे शब्द बतलाते हैं, कि कितने ही संस्कृतमें अप्रसिद्ध किंतु प्राकृत, अप्रभ्रंश तथा आधुनिक भाषाओंमें प्रचलित शब्द अपनी जड़ बहुत दूर आर्य-शक कालमें रखते हैं। इसी तरह छींकना-खांसना जैसे अनु-करणात्मक शब्द उसी समयमें पहुंचते हैं। यहां हम इन शब्दोंके आधारपर यह बतलाना चाहते हैं, कि उस कालमें जबकि आर्य और “शक” अपने मूल-निवासमें अलग-अलग हुए, उनका सामाजिक विकास कहां तक हुआ था। इसके लिए हम शब्दोंका यहां वर्गीकरण करते हैं।

<u>भूमि वर्ग</u>	<u>नभ-वर्ग</u>	<u>ओलेन्-हरिण</u>
जेम्ल्या-ज्मा (भूमि)	स्वैर्ख-स्वर्ग (ऊपर)	शकाल-श्रृगाल
पुत्-पथ (मार्ग)	नेबो-नभस् (आकाश)	मेडेद्-मध्वद (भाल)
गोरा (गरा)-गिरि	ओब्लका-अभ्र (बादल)	मिश्-मूष
दोलिना (दलिना)-	सोल्त्से-सूर्य	ओखोता-आखेट
द्रोणी (दून)	मोल्निया-मालिनी	ओवेन्-ओठ्का, अवि (भेड़)
कामेन्-अहमन् (पत्थर)	(बिजली)	गोव्य-(दन्या)-गो(अदनीय)
<u>उदक वर्ग</u>	<u>काल-वर्ग</u>	वोल्-बैल
वोदा (वदा)-उद (पानी)	देन्-दिन	वोल्क-वृक (भेड़िया)
वोद्का-उदक (शराब)	नोच्-निशा	<u>शस्त्र-वर्ग</u>
पेना-फेन	मेस्यत्स्-मास	पालका-फलक (डंडा)
स्नेग्-स्नेह (हिम)	लेत्-झतु (वर्ष)	ओप्.-अक्ष (धुरा)
ल्योद्-रोधस् (वर्ष, फारसी- रूद नदी)	वेस्ता-वसंत	इगो-युग (जूआ)
<u>अग्नि वर्ग</u>	<u>वृक्ष वर्ग</u>	<u>पात्र-वर्ग</u>
ओगोन्-अग्नि	देरेवो-दारु (वृक्ष)	कुबोक्-कूपक (प्याला)
उगार्-अंगार	द्रोवा-दारु (ईंधन)	कुव्शिइ-कूपिका (ल्योटा)
उगोल्.-अंगार	वेर्योजा-भुर्ज (भोजपत्र वृक्ष)	चश-चषक (प्याला)
झार-ज्वाल (ताप)	त्रवा-तृण	चश्का-चषक (प्याला)
झारा-ज्वाल	<u>पशु-वर्ग</u>	<u>आहार-वर्ग</u>
तेम्नो-तम (अंधेरा)	झिवोत्नोये-जीवत्नु, जंतु	एदा-अद (भोजन)
तुमान्-धूम (धुआ, कुहरा)	(प्राणी)	एदोक्-अत्ता (भक्षक)
दिम्-धूम	पेस्.-पशु	सूप-सूप (मांसरस)
वायु-वर्ग	रोग्-शृंग	म्यासो-मांस
बेतेर्-वात (फारसी, बाद)	सोवाका-श्वक (कुत्ता)	क्रोव्.-ऋव्य (रधिर)
		म्योद्-मधु (शहद)

पीवो—(पीवा)—पेय
(हल्की शराब)

वस्त्रवर्ग

कोझा—कोष (चमड़ा)
नगीइ—नग्न (नंगा)
नगोला—नग्नल (नंगा)
शिवात्.—सीवन
शित्.—सीवन
ओदेवात्.स्या—अधिवास
(पहनना)

शरीरांग-वर्ग

ग्रिवा—श्रीवा (गर्दन)
गल—गाल
गोलोवा—गाल (शिर)
गोलो—गल (कंठ)
गलवा—गल (शिर)
गलोत्का—गल (शिर)
चरेप्—कर्पर (कपाल)
वोलोस्—बाल (केश)
ब्रोवि—भ्रू (भौं)
नोस्—नासा (नाक)
जुब्—जिह्वा (दांत)
ओचे—अक्षि (आंख)
पा—पाद (चरण)
पाइ—पाद (भाग)
पोद् (व्यक्का)—पाद-
(बंधक)

बोक्—वक्ष (पाद्वं)
सेर्दत्स—हृद् (हृदय)
क्रोव्.—श्रव्य (दधिर)
पेरो—पक्ष (फारसी, पर)
रेच्—ऋक् (भाषा)

संबंधि वर्ग

मात्—मातृ (मा)
भात्—भातृ (भाई)
सेस्त्रा—स्वसृ (बहिन)
सिन्—सनु (पुत्र)
दोच्—दुहितृ (बेटी)
देवा—देवी (कुमारी)
देव्का—देवी (कुमारी)
दंबोच्का—देविका (बालिका)
देवुश्का—देविका (कुमारी)
ज्यात्—जामातृ

स्नोखा—स्नुषा (पुत्र-वधू)
स्वेकोर—श्वशुर (ससुर)
स्वेफ्रोवि—श्वश्रु (सास)
झेना—जनि (स्त्री)
व्दोवा—विधवा
देव्रे—देवर
द्याद्या—दादा (चचा)
देद्—दादा (पितामह)
प्रेदेद्—परदादा
प्रियातेल्—प्रिय (मित्र)

व्यवसाय-वर्ग

ओखोता—आखेट
लोवुश्चा—लुब्धका (जालक)
लोव्चिइ—लुब्धक (शिकारी)
राना—रण (घाव)
पस्तुख—पातुक (मेषपाल)

वर्ण और धातु

जलातो—हरित (सीना)
जोलोता—हरित (मोना)
जेल्योनिइ—हिरण्य (हरा)
जेलेन.—हरित (=हार)

ज्योल्तिइ—हरित (पीला,
फारसी-जर्द)

स्वेत—श्वेत (प्रकाश)
सेदोइ—श्वेत (सफेद बाल)
त्स्वेत्—श्वेत (रंग)

धर्म-वर्ग

बोग्—भग (भगवान)
बोगिनिया—भगिनी (भगवती)
पोचितिये—पूजा (पूजना)

संख्या-वर्ग

एझे—एक = एझे (गोदनि,
एकवार्षिकी)
द्वा—दो
त्रि—त्रीणि (तीन)
चेतिरे—चत्वारि (चार)
प्येत्.—पंच
शेस्—षष् (छ)
सम्—सप्त (सात)
वोसेम्—अष्ट (आठ)
देस्यत्—दश (दस)
सोत्—शत (सौ)
स्तो—शत (शौ)

गृह-वर्ग

दिरा—दरि (छेद, गड्ढा)
दोम् (दम)—दम (गृह)
द्वेर्.—द्वार
द्वोर्—द्वार (आंगन)
जाल—शाल
जाला—शाला
शलश्—शाला

उस समय के शब्दकोशमें किसी अनाजका नाम नहीं आया है, न कृषि-संबंधी ही कोई शब्द है—इगो (युग) है, किंतु वह आरंभमें जोड़े (युगल)के अर्थमें रहा। इससे सूचित होता है, कि अभी लोग कृषिकी अवस्थामें नहीं पहुंचे थे। हिंदी और ईरानी आर्य एक जनके रूपमें रहते समय कृषि से परचिति थे, क्योंकि जौ, गोधूम, माष (उड़द)—जैसे धान्यवाची शब्द दोनोंके शब्दकोशोंमें मौजूद हैं। गाय, भेड़ (अवि)—जैसे शब्द आर्य-शक शब्दावली के हैं, किंतु दूधके लिए समान शब्दका अभाव है, हालांकि आर्य-शब्दावलीमें क्षीर (संस्कृत), शीर (फारसी) मौजूद है। इससे जान पड़ता है, कि यदि वे पशु पालक थे तो भी कम-से-कम क्षीरके उपयोगके लिये पशुओंका पालन आरंभ नहीं हुआ था।

धातुओं और वणोंके वाचक शब्दोंकी जिस प्रकारकी अनिश्चितता और व्यवस्था है, उससे जान पड़ता है, कि अभी धातुओंसे उनका परिचय न था।

हथियारोंपर विचारनेसे जान पड़ता है, उनके पास काष्ठ और पत्थारके हथियार थे, और ऐसे हथियारोंके गढ़नेके लिये "तक्ष" धातुका प्रयोग होता था। पीछे हम "तक्ष" को संस्कृतमें जहां काठ गढ़नेके लिये रूढ़ पाते हैं, वहां रूसी "तेसात्" और "त्योसिवात्" पत्थरके गढ़नेमें रूढ़ पाया जाता है।

सब देखनेसे पता लगता है, कि जिस समय आर्य और शक पृथक् जन (कबीले)के रूपमें परिणत हुए, उस समय वह अभी कृषि और धातु से अपरिचित थे। शिकार (आखेट)के अतिरिक्त वह पशु पालन शायद ही जानते थे; जिसमें श्वक(कुत्ता)उनका अवश्य सहायक था। यह युग मध्य पीषारण या आरंभिक नवपाषाण- युग रहा होगा। वह अपने निवासस्थानों को दम (दोम) कहते थे, जो प्रायः पर्वत की दरि (गुह) हुआ करते थे। द्वार गुहाके द्वार और आंगन दोनोंके लिये प्रयुक्त होता था। दाह, अश्म और अस्थि के हथियारों वाले इन दरी-निवासियों को अग्निकी सहायता मिल चुकी थी, और इसकी मददसे अपना त्राण और भक्षण प्राप्त करते थे। सरदीसे बचनेके लिये अभी वह सलोम चमड़े (कोष्ठा)का व्यवहार करते थे, जिसे हड्डीकी सूइयोंसे सी भी लेते थे—ऊनी कपड़ा अभी उन्हें मालूम न था। मांस उनका प्रधान भोजन था, जिसका वह पचन करके सूप भी बनाते थे, जिसका अर्थ है, किसी प्रकारका मिट्टी का बर्तन वह बना सकते थे। जंगली मधु उनका प्रिय भोजन था।

रुधिर-संबंधियोंमें नाता दूरतक चला गया था। मां, भाई-ब्रह्मिन, बेटा-ब्रेटी, देवर और विधवा ही नहीं स्नुषा (पुत्रवधू), ससुर और सास से भी परिचित थे; इससे यह भी स्पष्ट है, कि समाज मात-सताक नहीं पितृसत्ताक था। दम केवल घरके लिए ही नहीं परिवार और जनके लिए भी प्रयुक्त होता था, जिसका अधिपति दमक (दासका) भी कहा जाता था। यही राजवाची शब्द दामाके नामसे पीछे के शकों में राजाके लिये व्यवहृत होने लगा था।

आर्य-शक जनमें देवता (भग)का विचार आ चुका था। यह देवता अधिकतर सूर्य,अग्नि, जैसे प्रत्यक्ष देवता थे।

परिशिष्ट २

स्रोत ग्रंथ (१)

(भाग १ से भाग २ तककी छूट)

भाग १ अध्याय २

१. जामेउत्तवारीख : रशीदुद्दीन (१२४७-१३१७ ई०)
२. स्त्रोनिक मनेरिअओक अत्नोस्वदिवस्स्या क् इस्तोरिइ औस्तोइ ओर्दी (लेनिनग्राद १९४१)
३. History of Mangols, 3 Vols : H. H. Howarth (London 1876-88)
४. जुब्दतुत्-तवारीख : हाफिज अबरू (१२२६-८३ई०, अनुवादक के० एम० मैत्रा, लाहौर)
५. तारीख जहांगुशा : अलाउद्दीन अता मेलिक जुर्वनी
६. तबकाते-नासिरी : अबू-उमर मिनहाजुद्दीन उस्मान जुजजानी (११९३-१२०० ई०)
७. युआन् चाउ वि. शि. (१२४० ई०, संपादक ग० अ० कोजिन, लेनिनग्राद-१९४१)
८. सत्जुकनामा : नासिरुद्दीन यहिया इब्न बीबी (१२८२-८५ ई०)
९. जफरनामा : निजामुद्दीन शामी (१३९२-१४०० ई०)
१०. शज्रतुल्-अत्-राक
११. जोलौतया ओर्दा : अ० यू० याकुबोव्स्की
१२. Geschichte des goldeners Horde in Kiptchak : Hammer-Purgstall (Budapest 1840)

भाग १ अध्याय ३

१. जामेउत्त-तवारीख : रशीदुद्दीन (१२४७-१३१७ ई०)
२. History of Mangols : H. H. Howarth
३. असहृहत्-तवारीख : अनोनेम इस्कंदर
४. तवारीख जहांगुशा : जुर्वनी

भाग १ अध्याय ४

क. सिथ और स्लाव

१. एल्लिन्स्त्वो इ इरान्स्त्वो ना युगे रोस्सिइ : म० इ० रोस्तोव्स्केफ (पेत्रोग्राद १९१८)
२. Les Sycthes : F. Bergmann (Halles 1860)
३. ओब्रजोवानिये द्रेवने रुस्स्कओ गसुदास्त्वा : व० ग० मावरोदिन (लेनिनग्राद १९४५)
४. स्लाव्याने द्रव्नोस्ती : न० स० दे. रझाविन (मास्को १९४५)
५. On the Origin of the Antae : George Bernadsky (Journal of American Oriental Society Vol. 59, PP. 56- 64)

ख. सिथ सरमात

६. प्लेमैना येवरोपेइस्कोइ सरमातिइ : अ० द० उदाव्स्कीफे, सोवियेत्स्कया एत्नाग्राफिया १९४६।२५० ४१-५०

७. मतेरिअली क् व्से सो युज्जोमु अखेआलोगिचेस्केम सोवेश्चन्यो (मास्को १९४५)
८. स्लाव्यान्स्कोये यजीकोज्जानिये : अ० म० सेलिश्चेफ (लेनिन० १९४१)
९. इस्तोरिया वोल्गाइरिइ : न० स० देझाविन् (लेनिन० १९४६)
१०. इस्तोरिचेस्कया ग्योग्राफिया : स० म० सेरेदोन (पीतरबुर्ग १९२६)
११. एन्सक्लोपेदिया स्लाव्यान्स्कोइ फिलोलोगिया : दू० व० यागिचा (पीतरबुर्ग १९०९)

ग. कियेफ रूस

१२. कियेव्स्कया रूस : व० अ० ग्रेकोफ (मास्को १९४४)
१३. प्रोइस्वोझदेनिये रूस्कओ नरोदा : न० स० देझाविन् (मास्को १९४४)
१४. बोर्वा रसि जा सोउदानिये वयेवो गसुदास्त्वा व० अ० ग्रेकोफ (मास्को १९४५)
१५. इस्तोरिया रोसिइ (चित्रमय)
१६. इस्तोरिया रूस्कोइ लिनेरातुरी (लेनिनग्राद १९४१)
१७. Histoire de Russie : N. Brian Chamnor (Paris 1929)
१८. स्लवो ओ प्रोत्क इगोरयेवे (व्याख्या) : अ० स० ओर्लोफ (मास्को १९४६)
१९. ,, ,, (मूल) लेनिनग्राद १९४५)
२०. La Lithuanie : Michel Pietewicz (Bruxelles 1832)
२१. History of U. S. S. R. 3 Vols (Moscow)
२२. Histoire de l' Empire Byzantin : Ch. Dihl (Paris 1919)
२३. कियेव्स्कया रूस : एम्० सी० गुशेव्स्की
२४. ट्रेन्नेइशये अरव्स्कीये इज्वेस्तिये ओ कियेवे : अ० य० गर्कावी
२५. इज्वेस्तिया ओ खजाराख बुर्तासाख' बोलगराख, मद्याराख, स्लाव्यानाख इ रूससाख : अबूअली अहमद बिन्-उमर इब्न-दस्त

भाग २ अध्याय १

१. जामेउत्-तवारीख : रशीदुद्दीन (१२४७-१३१७ ई०)
२. तवारीख वस्साफ : शिहाबुद्दीन, अब्दुल्ला वस्साफ हजरत (१३००-२४ ई०)
३. History of Bokhara : Arminus Vambery (London 1873)
४. Heart of Asiea : E. D. Ross (London 1899)
५. History Mongol : H. H. Howarth
६. ओचेर्क स्तोरिइ सेमिरेच्या : व. बर्तोल्द (वेर्नी १८९८)
७. तारीख रशीदी : मिर्जा मुहम्मद हैदर दुगलत, अनुवाद (London 1888)
७. History of U. S. S. R. 3 Vols (Mascow)
९. इस्कुस्वो स्नेद्निइ आजिइ : व० व० वेइमाना
१०. " " " व० व० दनिके, १९२७
११. समरकंद प्रि० तिमूरे इ तिमूरिदाख अ० यु० याकूबोव्स्की (लेनिनग्राद, १९३३)
१२. Exploration in Turkistan, 2 Vols : R. Pumpelly (Washington 1808)
१३. इस्तोरिया कुल्तुर्नीइ झिज्जि तुर्कस्ताना : व० व० बर्तोल्द (लेनिनग्राद, १९२७)
१४. इस्कुस्वो सोवेत्स्कओ उज्वेकिस्ताना : व० व० चेपेलेफ (लेनिनग्राद १९३५)
१५. Voyages d' ibna. Batoutah

भाग २ अध्याय २

१. जामेउत्-तवारीख : रशीदुद्दीन

२. ,, इस्तोरिड जोलोतोइ ओर्दी (लेनिनग्राद, १९४१)
३. तवारीख वस्साफ : वस्साफ (-३००-२८-)
४. तारीख-गुजीदा : हम्दुल्ला कजवीनी (१२८१-१३२९-)
५. तारीख जहांगुशा : अलाउद्दीन जुवैनी (१२२६-८३)
६. History of Mangol : H. H. Howarth
७. History of U. S. S. R. 3 Vols
८. वोस्तोचनो-इरान्स्किइ वोप्रोस : व० व० बर्तोल्द (इज्वेस्तिया रोस्सिस्कोइ अकदमिइ इस्तोरिड मतेरिअल्नोइ कुलतुरी तोम II (पेत्रोग्राद, १९२२)

भाग २ अध्याय ३

१. जफरनामा : निजामुद्दीन शामी (-१३९२-१४००-)
२. मन्ला सादेन व मज्मा बहैरन : अब्दुर्रज्जाक समरकंदी (१४१३-८२)
३. History of Bokhara : A. Vambery
४. Heart of Asia : E. D. Ross
५. History of Mangol : H. H. Howarth
६. अलीशेर नवाई : अ० क० बरोव्कोफ आदि, मास्को, १९४६,
७. Memoire de Baber (बाबरनामा) : बाबर (संपादक : A. Beveridge)
८. खुलासतुल्. अखबार : खोंदमीर
९. The Miniature Painting and Painters of Persia, India and Turkey (London, 1912)
१०. The Persion Miniature Paintings (London 1933)
११. गिरात्स्केओ इस्कुस्त्वो व एपोखु अलीशेरा नवाई : अ० अ० सेमेनोफ
१२. सफरनामा : नासिर खूसरो
१३. मशारेउल्ल-उवशाक
१४. नवाई इ निजामी : ये० ए० वेर्तेल्स, अलीशेर नवाई पृ ६८-९१
१५. खमसा अलीशेर नवाई (ताशकंद, १९०५)
१६. बाबरनामा—संपादक न० इल्मिन्स्की, कजान, १८५७
१७. Histoire des Mongols et des Tatars (Peterburg, 1871)
१८. The Mobaiel-lughat : Mirza Mehdi Khan (Calcutta, 1910)
१९. Literary History of Persia : E. Browne (London, 1919)
२०. Le Meteriel du miniaturiste de l'enlumineur Iranien : (Behzaad Taberzadeh)
२१. Musalmanic Painting XIIth-XVIIIth centbry : E. Blochet. Tran. M. Binijon (London, 1929)
२२. Painting in Islam : Th. Arnold (Oxford, 1924)
२३. Manuel de' Art Musalman : G. Migeons (Paris, 1907)
२४. मॉनेती उल्लुगबेका, व० व० बर्तोल्द, इज्वे० रो० अकद० इस्त० म० कुलतुरी तोम II
२५. तारीख रशीदी : मिर्जा मुहम्मद हैदर दुगलत (लंदन १८८८)
२६. रौजतुस्सफा : खोंदमीर (बंबई)
२७. इस्कुस्त्वो स्रेदनेइ आजिइ : ब० प० वेइमार्न (मास्को १९४०)
२८. तैमूर अभिलेख (वोस्तोकोवेदेनिया १९४०-४५)
२९. इरान्स्कीये इस्कुस्त्वो इ ओर्खेआलोगिया (लेनिनग्राद, १९३९)
२९. उल्लुगबेक इ येओ ब्रेम्या : व० व० बर्तोल्द (१९१८)

३०. रयन गोज्देस् दे क्लावियो

३१ सोबोर्नया मेचेत् तिमूरा : बीबी खानम, म० ये० मस्सोन् (ताशकंद, १९२६)

भाग २ अध्याय ४

१ शैबानीनामा: मुहम्मद सालेह

२. Heart of Asia : E. D. Ross

३. History of Mangol : H H. Howarfth

४ तारीख रशीदी : मिर्जा हैदर

५. History of Bokhara : A. Vambery

भाग २ अध्याय ५

१. History of Bokhara : A. Vambery

२. Heart of Asia : E.D. Ross

३. History of Mongol : H.H. Howarth

४. ओ.चेत् ओ कोमन्दिरोव्के व तुर्कस्ताने : व० व० वेर्तोल्द (इज्जेस्तिया रोस्स्कोइ अकदमिइ इस्तोरिइ मतेरिअल्नोइ कुलतुरी, तोम II)

भाग २ अध्याय ६

१. किताबुल् हिंद : अबूरेहां अब्बेरुनी, अनुवादक सैयद असगरअली (अंजुमन तरक्की उर्दू, दिल्ली, १९४१)

स्रोत ग्रंथ (२)

अबुरू, हार्फिज : जुब्दुतुत्-तवारीख (अनुवादक: क० एम० मंत्र, लाहौर)

अलबसन्दरोफ, व० अ० : तुर्कमेनिया इ येये कुरोत् निये बगास्वो (मास्को, १९३०)

अब्बेरुनी, अबूरेहां : किताबुल् हिंद (अनुवादक : सैयद असगर अली, अंजुमन तरक्की उर्दू, दिल्ली १९४१)

इब्नदस्ता, अबूअली अहमद बिन-उमर : इज्जेस्तिया ओ खजाराख, बुर्तासाख, बोल्गाराख, मद्याराख, स्लाव्यानाख इ रस्साख

इब्नबीबी, नासिरुद्दीन यहिया : सलजुकनामा (१२८२-८५ ई०)

इस्कन्दर, अनोनेम् : असहू-तवारीख

उदाल्तसोफ, अ० द० : प्लेमेना येव्रोपइस्किइ सरमातिइ (सोवियेत्स्क्या एत्नाग्राफिया, १९४६/२)

ऐनी, सदरुद्दीन : गुलामान (जो दास थे, अनुवादक राहुल सांकृत्यायन, पटना, १९४९)

" " : दाखुन्दा " " प्रयाग, १९४९

" " : बुखारा (अनुवादक—स. बीरोदिन, (मास्को, १९५२)

ओर्लोफ, अ० स० : स्लवा ओ पोल्कु इगोरयेवे-व्याख्या (मास्को, १९४६)

ओस्त्रियालोक : इस्तोरिया त्सात्वर्वोवानिया पेन्ना बेलीकओ, (तोम् ५ पीतरवुर्ग, १९१५-७१ ई०)

- कजवीनी, हम्दुल्ला : तारीख गुजीदा (१२८१-१३२९)
 क्रुवेर, अ : आजियात्स्क्या रोस्सिया (मास्को, १९१०)
 कञ्जविवी, र्धुन् गोन्ज्देम्
 खान, मिर्जा मेहदी : मन्निउल्-लुगात (कलकत्ता, १९१०)
 खुसरो, नासिर : सफरनामा
 खोंदमीर : रीजतुस्सफा (बंबई)
 गकावी, अ० य० : त्रेन्नेइशये अरव्स्कोये इज्वेस्तिये ओ कियेदे ।
 भूम. ग्झिमाइलौ, ग. ये. म. ये. : पुतेशेस्त्वये ए जापद्निइ किताइ (पीतरबुर्ग, १९०१)
 गुशेव्स्की, म० म० : कियेव्स्क्या रुस
 ग्रैकोफ, व० अ० : कियेव्स्क्या रुस (मास्को १९४४)
 " " : त्रोवी क्लिम जा मोइशानिये स्वेयवी गमुदास्त्वी (मास्को, १९४५)
 जाशविन्, इ० इ० : त्रेन्नेइशिये सभरस्कन्दस्कोइ ओव्जास्ति (लेनिनग्राद, १९२६)
 जूज्जानी, मिन्हाज्हीन उस्मान (११९३-१२०० ई०) तबकतेनासिरी
 जूवैनी, अलाउद्दीन अता-मैलिक : तारीख जहांगुशा
 टेलर, अर्थर : अन्ध्रपोलोजी
 त्रेवर, क. व. काव्रा इज् नोइनउला (लेनिनग्राद, १९४७)
 देनिके, व. प. : इस्कुस्त्वी तेन्नेइ आजिइ (१९२७).
 द्मित्रियेफ् -कव्काज्स्की : पो तेन्नेइ आजिइ (पीतरबुर्ग, १८९४)
 देजाविन, न. म. : इस्तोरिया वींकारिइ (लेनिनग्राद, १९४६)
 " " : पोइस्वोइदेनिये रुस्कोओ नरोदा (मास्को, १९४४)
 " " : स्लाव्याने श् त्रेव्कोस्ती (मास्को, १९४५)
 नवई, अलीशेर : खम्मा अलीशेर नवाई (ताशकंद १९०५)
 पोतेम्किन् व. प. : इस्तोरिया दिप्लोमातिइ तोम (लेनिनग्राद, १९४५)
 पोलेस्स्क्या, न : क् यप्रोसु ओ खिस्नियान्स्त्वे ना रुसि दो व्लादिमीरा (१९१७)
 फेदोरोव्स्की, न. म. : पो गरामि पुस्तिन्याम् स्नेइ आजिइ (मास्को, १९३७)
 बरोव्कोफ, अ. क. : अलीशेर नवाई (मास्को, १९४६)
 वर्तोल्द, व. प. : इस्तोरिया कुलतुर्नीइ झिजिन तुर्किस्तान (लेनिनग्राद, १९२७)
 " " : उलुगबेक इ देओ वेम्या (१९१८)
 " " : ओचेक इस्तोरिइ नरोदा (१९२८)
 " " : ओचेक इस्तोरिइ सेमिरे च्या (वेनी, १८९८)
 " " : ओत्चेन् ओ कोमन्दिरोव्के व् तुर्किस्तान (इज्वेस्तिया रोस्सिइस्कोइ अकद'मइ इस्तोरिइ मतेरिअल्नोइ कुतुरि, तोम् २, द० १-२२)
 वर्तोल्द, व. व. : मोनेती उलुगबेका (इज्वे. रो. अ. इ. ह. म. कु. तोम् २, पृ० १९०-२)
 " " : वोस्तोचनी-इरान्स्किइ वोप्रोस (, १९२२ तोम् २, पृ० ३६१-८४)
 बाबर : बाबरनामा, Memoire de Babar, (edit. A. Beveridge)
 " : संपादक न इलिमन्स्की (कजान १८५७ ई०)
 ब्रिक्वस्सोक : इस्तोरिया एकातेरीनि धतरोय (बर्लिन १९९०० ई०)
 Bourgeois, E. : Manuel historique de politique étrangere (Paris, 1927)
 Bergmann, F. G. : Les Seythes (Halles 1860)

- बेर्तल्स, ये. ए. : नवाई इ निजामी अली शेर नवाई, पृ० ६८-९१ (लेनिनग्राद)
- Browne, E. : Literary History of Persia (London, 1919)
- Blochet., E. : Musalmanic Painting XII—XVIII century
(Tran. M.Binijon, London, 1929)
- मस्सोन, म. ये. : रेगिस्तान इ येओ मेद्रेसे (ताशकंद, १९२६)
- " " : सोबोर्नया मेचेत् तिमूरा बीबी खानिम् (ताशकंद, १९२६)
- मायूरोदिन, व. व. : ओब्रत्रोत्रानिये द्रेव्ने कस्सकओ गमुदास्वर्वा, (लेनिनग्राद, १९४५)
- यागिवा, इ. व. : एन्तिसम्लोपेदिया स्लाव्यान्स्कोइ फिलोलोगिया (पीतरबुर्ग, १९०९)
- याकुबोव्स्की, अ. यु. जोलोटया ओर्दा
- समरकंद प्रि-तिमूरे इ तिमूरिदाख (लेनिनग्राद, १९३३)
- रबीदुद्दीन (१२४७-१३१७ ई०) : जामेउत् तवारीख
- Rouire, A.M.F. : La rivalite anglo-russe en XIX Siecle en Asie
(Paris 1908)
- Robzianko, : Le regne de Rasputine (Paris, 1928)
- Ross., E.D. : Heart of Asia (London, 1899)
- रोस्तोव्सेफ, म. इ. : एन्लिस्स्वो इ इरान्स्वो ना युगे रोस्सिइ (पेत्रोग्राद, १९१८)
- रुवदोनिकस, व. इ. : इस्तोरिया सससर ४ तोम्
- लेस्नेइ, ल. व. : वोस्तानिये १९१६, गदा व् किर्गिजस्ताने (मास्को, १९३७)
- लोगोफेत्, द. न. : ना ग्रानित्साख खेदनेइ आजिइ (पीतरबुर्ग, १९०९)
- वस्साफ, शहाबुद्दीन अब्दुल्ला : तवारीख वस्साफ (१३००-२८ ई०)
- विल्कोविच् व. : किर्गिजिया (१९३८)
- विल्स्की, स. ग. : यजीकोज्जानिये इ इस्तोरिया लिते रातुरि (मास्को, १९१४)
- वेइमार्न, व. व. : इस्कुस्वो खेदनेइ आजिइ
- Vernadsky, G. : on the Origines of the Antae (Am. G. D. S.,
Vol. II L, pp. 56-64)
- वोल्खोन्स्की, स. : आ देकान्निस्ताख पो सेमेइनिम् वोस्पोमिनानियाम्
- शामी, निजामुद्दीन : जफरनामा (१३९२-१४०० ई०)
- समरकन्दी, अब्दुर्रज्जाक (१४१३-८२ ई०) : मत्ला-सादेन व मज्मा-बहरैन
- सालेह . महम्मद : शैबानीनामा
- सिदिकब्रेकोफ, तुगेलवाइ : तेमिर (उपन्यास, अनुवादक व. रोझवेस्त्रेन्स्की, लेनिनग्राद, १९४७)
- सेमेनोफ, अ. अ. : िरात्सकओ इस्कुस्वो व् एपोख, अलीशेर नवाई
- सेरेदोन, स. म. : इस्तोरिचेस्कया ग्योप्राफिया (पीतरबुर्ग, १९२६)
- सेलिश्चेफ, अ. म. : स्लाव्यान्स्कोये यजीकोज्जानिये (लेनिनग्राद १९४१)
- सोलोवियेफ, स. : इस्तोरिया रोस्सिइ २९ तोम् (१८७९-८५)
- Hanson, G.F. : Europe and China (London 1931)
- Hammer. Purgstall : Geschichte des goldenen Horde in Kipte-
haka (Budapest, 1840)
- Hardlicka : Scaleten remains of Early mecn (Smithsonian M S :
Pub. Vol. Lxxiii, pp. 34.-49)
- Howarth H. H. : History of Mongol, 3 Vols (London, 1876-88)
- : इरान्स्कोये इस्कुस्वो इ अखिलोगिया (लेनिनग्राद, १९३९)

- ० : इस्तोरिया रुस्कोइ लितेरातुरी (लेनिनग्राद, १९४१)
- ० : इस्तोरिया रोस्सिइ (चित्रमय)
- ० : ओचेर्क पो इस्तोरिइ कलौनिजात्सिइ सिविरि १७ वीं-१८ वीं शती (मास्को, १९४६)
- ० : किर्गिजिया, वुदी पेर्वाइ क.फ्रेन्त्सिइ (लेनिनग्राद, १९३४)
- ० : तुर्कैस्तान्स्कओ वोयेन्ओ ओक्रुग ३ तोम् (१८८०)
- ० : तेमूरी अभिलेख (वोस्तोकोवेदेनिया, १९४०, १९४५)
- ० : वुदी ताजिकिस्तान्स्कोइ बाजी इस्तोरिया यजीक-लितेरातुरा (लेनिनग्राद, १९४०)
- ० : द्वाद्सत् लेत् कजाकस्ताना (लेनिनग्राद, १९४०)
- ० : Persian miniature Paintings (London, 1933)
- ० : मतेरिअली क् व्सेसोयुज् नोमु अर्खेआलोगिचेस्केमु सोवेशचन्यो (मास्को, १९४५)
- ० : मशारेउल् उश्शाक
- ० : युआन्, चाउ. वि. शि (संपादक ग. अ. कोजिन् लेनिनग्राद, १९४१ ई०)
- ० : रेवोव्युत्सिया व् खेद्नेइ आजिइ (ताशकंद, १९२९)
- ० : वोस्तोकोवेदेनिया (लेनिनग्राद, १९४५)
- ० : “शजरतुल् अतराक”
- ० : सोवियत्स्कया एत्नोग्राफिया (१८३६/६-पृ० ११)
- ० : स्वोर्निक मतेरिअलोफ अत्नोस्यश्चिचरुस्स्या क् इस्तोरिइ जोल्तोइ ओर्दा (लेनिनग्राद, १९४१ ई०)

Histoire des Mongoles et des Tatares .. (Petersburg 1871)

History of Civil War in U S S R.

History of U S S R. 3 Vols (Moscow)

स्रोत ग्रंथ (३)

१. पमपेली, रा : एक्सप्लोरेशन इन तुर्किस्तान, २. जिल्द
२. स्वेन्-चाड : यात्रा २. जिल्द
३. स्क्रिन, एफ० एच०, और रास, ई० डी० : हार्ट् आफ एसिया (१८९९ ई०)
४. बरतील्द, वी : तुर्किस्तान डीन टु द मंगोल इन्वेजन (१९०० ई०)
५. होवर्थ एच० एस० : हिस्ट्री आफ मंगोल, ३ जिल्द (लंदन, १८८० ई०)
६. पारकर, ई० एच० : ए थौजंड यर्स आफ दी टारटर्स (शांघाई, १८९५ ई०)
७. लेम्ब, हेराल्ड : जिगिज खान (लंदन, १९२८ ई०)
८. कार्पिनी, जीन आफ प्लानो : ट्रेवल, (हक लइट सोसाइटी लंदन १९००)
९. इब्न-बतूता, : ट्रेवल, अनुवादक-दफ्रे मेरी और सांकी नेती, (पेरिस, १९५३ ई०)
१०. मार्को पोलो : ट्रेवल, अनुवादक हेनरी यूल् (लंदन, १९२१ ई०)
११. रूबरिक, विलियम : ट्रेवल टू दी ईस्टर्न पाटंस आफ दी वर्ल्ड (हकलूट सोसाइटी लंदन, १९००)

१२. ईनोसत्रान्तोफ, क : खुत्री ई गुत्री (लेनिनग्राद, १९२६ ई०)
१३. वाम्बेरी अर्मिनस, हिस्ट्री आफ बुखारा (लंदन, १८६३ ई०)
१४. बारतीलद, व. : ओचेर्क इस्तोरिड सेमीरेच्या (लेनिनग्रा, १९२८ ई०)
१५. रियाल गिरार्द दे मेम्बार सुर ला आजी सांत्राल (पेरिस, १८७५ ई०)
१६. हैदर, मिर्जा : तारीख रशीदी-ए हिस्ट्री आफ द मोगल आफ गेंट्रल एशिया, अनुवादक एलियस और रास ई. दी. (लंदन, १९९५ ई०')
१७. बरतालद, व. व. : ओचेर्क इस्तोरिड तुर्कमन्स्कओ नरोद (१९२८ ई०)
१८. बेर्गमान, एफ० जी०, ले सित, (हाल्स, १८६० ई०)
१९. ए हिस्ट्री आफ दी यू० एस० एस० आर० ३ जिल्द (मास्को, १९४८ ई०)
२०. दमोर्गन जेक, : ल' मानिते प्री-इस्तरिक (पेरिस, १९२४ ई०)
२१. मापेरो, जी. : इस्त्वार आसियान दे प्युप्ल दे लोरियां (पेरिस, १९०५ ई०)
२२. तार्न, डब्ल्यू, डब्ल्यू, : द ग्रीक्स इन वैक्ट्रिया एंड इंडिया (कैम्ब्रिज, १९३८ ई०)
२३. पीगुलेवस्कया न. : सिरिडिस्किये इस्तोचनिकी प' इस्तोरिड नरोदोफ एस० एस० एस० एर० (मस्क्वा, १९४१ ई०)
२४. त्रेवेर, क. व. : पाम्यातनिकी ग्रीको-वाख्त्रिडस्कवो इस्कुस्त्वा (मस्क्वा, १९४० ई०)
२५. त्रेवेर. कमीला : टेराकोटाज फ्राम अफासियाव, (मास्को, १९३४ ई०)
२६. ई. अ. ओबॅली, ई० अ०, और त्रेवेर क. व. : सासानिड् स्किई मेटल (मस्क्वा, १९३५)
२७. ईरान्स्कये इस्कुस्त्वा इ आखॅओलोगिआ (मस्क्वा, १९३९ ई०)
२८. सत्यश्रवा, : द शकाज इन इंडिया (लाहौर १९४७ ई०)
२९. पीगुडेवस्कया न. व. : बिजन्तिया इ ईरान (मस्क्वा, १९४६ ई०)
३०. रोस्तोव्स्केफ, म० ई०. : एलिन्स्त्व इ ईरान्स्त्व ना युग रोमिड (पेत्रोग्राद, १९१८)
३१. ईरान्स्किये यजीकि, (अकदमिड नावुक मस्क्वा, १९४५ ई०)
३२. चाइल्ड, गोर्डन : द ब्रौज एज (कैम्ब्रिज, १९३० ई०)
३३. चाइल्ड, गोर्डन, : प्रोग्रेस एंड आर्कओलोजी (लंदन, १९४१ ई०)
३४. हैडन, ए० सी०, : हिस्ट्री आफ अन्थ्रापोलोजी (लंदन, १९४५ ई०)
३५. टेलर, ई० बी०, : अन्थ्रापोलोजी, २ जिल्द (लंदन, १९४६ ई०)
३६. मार, न. य. : यजीक इ इस्तोरिया (लेनिनग्राद, १९३६ ई०)
३७. योवान चाउ बी. सी., अनुवादक कोजिन, स. अ. (मस्क्वा, १९४१ ई०)
३८. वेईमार्न व. व. इस्कुस्त्व त्रेदनेइ आजिइ (मस्क्वा, १९४० ई०)
३९. गिन्जबुर्ग, ब. व. : गोर्निये ताजिकी (मस्क्वा १९३७, ई०)
४०. इस्तोरिय दिप्लोमातिड, ३ जिल्द (मस्क्वा, १९४५ ई०)
४१. शुनकोफ, ब. ई. : ओचेर्क प. इस्तोरिड कलोनियात्सिड सिविर (मस्क्वा, १९४६ ई०)
४२. सेरेदोनिन, स. म. : इस्तोरि चस्कया ग्योगराफिया (पेत्रोग्राद, १८१६ ई०)
४३. द्मित्रीयेफ-कफकाजस्की ल. ई. : प त्रेदनेइ आजिआ जापिस्की खुरोजनिका(पीतरबुर्ग, १८९४ ई०)
४४. इस्तोरिआ रुस्कइ लितेरातुरि, अकदमी नाउक (मस्क्वा, १९४१ ई०)
४५. यागिच. ई. व. : एन्स्क्रिपेदिया स्लाव्यान्स्कोइ फिललोगिया, (सां पेत्रेबुर्ग, १९०९) ई.
४६. यत्रीकोज्ज निये इ इस्तोरिया लितेरातुरि (मस्क्वा, १९१४ ई०)
४७. युम अजीमाइलो, : पुतेशस्त्वये व् जापदनिड् किताई (पीतरबुर्ग, १९०१ ई०)
४८. प्रजेवालस्की, न० म० : मंगोलिया इ स्त्राना तुंगतोफ (मस्क्वा. १९४६, ई०)
४९. आजीआत्स्कया रोसिया (मस्क्वा, १९१० ई०)

५०. ग्रकोफ, व० द० : कियेफ्स्कया रूस (मस्क्वा, १९४४ ई०)
५१. मावरोदिन, व० ब० : ओबराजोवानिये द्रेन्न-रस्कवो गसुदास्त्व (लेनिनग्राद, १९४५ ई०)
५२. देश् विविन, न० स० : इस्तोरिया बोल्गारिइ, (मस्क्वा १९४६ ई०)
५३. देश् विविन, न० स० : स्लावियाने व् द्रेवनोस्ति (मस्क्वा, १९४५ ई०)
५४. स्वं. निर्क मातेरियालोफ क-इस्तोरिइ जोलोटोइ ओर्दि, जिल्द २ (मस्क्वा, १९४१) ई०
५५. बोरोफकोफ, अ० क०, संपादक : अलीशेर नवाई (मस्क्वा, १९४६ ई०)
५६. हिस्ट्री आफ दी सिविल वार इन दी यू. एस. एस० आर. २ जिल्द (मास्को १९४६ ई०)
५७. बोआस, फ्रांज और दूसरे, : जेनरल अन्ध्रापोलोजी (न्यूयार्क, १९३८ ई०)
५८. बर्किट, एम० सी० : आवर अर्ली एन्सेस्टर्स (कैम्ब्रिज, १९२९ ई०)
५९. ब्रेवेर कमीला, : ए.सकवेशंस इन नार्दर्न मंगोलिया (लेनिनग्राद, १९३२ ई० १)
६०. इस्तोरिया रसिइ, चित्रमय (पीतरबुर्ग, १९०४ ई०)
६१. केन-शोन-वेग, : रसो चाइनिज डिप्लोमेसी (शांघाई, १९२८ ई०)
६२. चूइमची : ए शार्ट हिस्ट्री आफ् चाइनिज सिविलिजेशन (लंदन १९४५ ई०)
६३. रिस्कूलोफ, तु. र : वोस्तानिये १९१६ ग० व०, किर्गिजस्ताने
६४. बेर्नस्ताम अ. , : तुरोक (मस्क्वा १९४६ ई०)
६५. ग्रेकोफ, व० द० : बोर्बा रोसी जा सोज्दानिये स्वोयेवो गसुदास्त्व (मस्क्वा, १९४५ ई०)
६६. देश् विविन, न० स० : प्रोइस्वोज्दानिये रस्कवो नरोदा (मस्क्वा, १९४४ ई०)
६७. लोगोफेत. द० न० : ना ग्रानित्साख् अेदनेइ अजीइ (पेतेरबुर्ग, १९०९ ई०)
६८. एफीमेन्को, प० प० : पेर्वोवित्नीवे ओव् शेस्त्वा (लेनिनग्राद, १९३८ ई०)
६९. स्त्रूवे, व० व० : इस्तोरिया द्रेन्नेओ वोस्तोका (लेनिनग्राद, १९४१ ई०)
७०. शचनित्सर, या० ब० : इस्तोरिया पिस्मेन (पीतरबुर्ग, १९०३ ई०)
७१. बाचिन्स्की, न० म० : आखिन्त्रोक्तुनिय पामेत्निक तुर्कमेनिइ (मस्क्वा, १९३९ ई०)
७२. अलेक्सन्ड्रोफ, व० अ० : तुर्कमनिया इ येवो कूरोर्तनिये बगात्स्त्व (मस्क्वा, १९३० ई०)
७३. वेइमार्न, व० व० : इस्कुस्त्व अेदनेइ आजिइ (मस्क्वा, १९४० ई०)

संग्रह और अनुसंधान-पत्रिकायें

१. सोव्येत्स्कये वोस्तोको-वेदनिये जिल्द I-III
२. सोव्येत्स्कया आख् ओलोगिया
३. सोव्येत्स्कया एतनोग्राफिया
४. वस्तनिक द्रेन्नेइ इस्तोरिइ
५. मतरियलि इ इस्स्लेदोवानिया प. आख् ओलोगिइ एस० एस० एस० एर०.
६. क्रतिकये सोओव्चनिये.
७. ताजिक्स्कया कम्प्लेक्सनया एक्सपेडिसिया १९३२ ई०
८. ताजिक्स्को-पामिस्क्या एक्सपेडिसिया १९३५ ई०
९. कराकल्पकिया
१०. इस्तोरिचेस्किये जापिस्की
११. ओजेरो इस्सिक्कुल (मस्क्वा, १९३५ ई०),
१२. किर्गिजिया, अकदमि नाउक (लेनिनग्राद, १९३४ ई०)
१३. इजवेस्तिया रोसिइस्कोइ अकदेमिया (पीतरबुर्ग, १९२२ ई०)

१४. नाञ्चनये इतोगी ताजिक्स्को-पामिर्सर्कोइ एक्सपदिस्ति (मस्ववा, १९३६ ई०)
१५. उज्वे किस्तान : त्रदि इ मातरियलि पर्वोइ कन्फरन्सिइ प: इजुचनियू प्रोजवोदिस्तीख सील उज्व-
किस्ताना देकाब्रव्या १९३२ (लेनिनग्राद, १९३४ ई०)
१६. मातेरियलि क. व्सेसोयुज्जोमु आख्ओलोगिचेस्कोमू सोवश्चेनीयु (मस्ववा, १९४५ ई०)
१७. नासलनिये समरकंदस्कोइ ओबलास्ति (लेनिनग्राद, १९२६ ई०)
१८. एपिग्राफिका दोस्तोका

नामानुक्रमणी

- अङ्गिर—२९७
 अङ्गुगिर—४८१
 (देखो एङ्गुगिर भी)
 अउमकाकुल—११
 अकार—५६
 अककु गान—२८०
 अक-ओर्दू—१८ (श्वेत-ओर्दू),
 ४२, ५०
 अककला—४८४
 अककामिश—४८३
 अककियक—३४९
 अककुयाश—३१०
 अकखोजा—५१
 अकताई खान—२०१
 अकताग—५९ (श्वेत-ओर्दू), ३६१
 अकत्युबिन्स्क—४१५
 अकदमी—२६५
 अकनजर—६९
 अकबर—१११, ११६, १५४,
 १८०, १८१, १८३, १८८,
 २१९, २२४, ३१३, ३२१,
 ३२४, ४४४, ५४६
 (-तुकसाबा बाममची)
 अकबास—३०२
 अकबुका—३२
 अकवेत—५१६ (उज्वेक)
 अकमस्जिद (पेरोव्स्की बंदर)—
 ३७८ (अकमेचेत), ३७९,
 ४२६, ४३०, ४३२, ४७४,
 ४७७
 अकपूर्त—१६६, २७५
 अकरमान—३६८
 अक-रवात—४९८
 अकराम—५२६ (मुफती हाजी)
 अक-शक्काल—२१० (जेठ),
 ४२५ (=अकसक्काल),
 ४४५, ४७०
 अकसाई—३११
 अकसी—१७६, १८८, २८१,
 ३०५, ३०७, ३०८, ४४२
 अकसू—२९६, ३०२, ३०३,
 ३०४, ३०७ (पू० तुकि-
 स्नान), ३०८, ३०९, ३१०,
 ३३१, ४२५
 अककल (ओसी)—४८९,
 ४९०, ४९२ (लेक्का), ४९९
 (में अरकाबाद)
 अकतुबर-क्रांति—५१०, ५१८
 (=बोल्शेविक-क्रांति), ४२४,
 ५२६, ५४९
 अकतुवरी—४१०
 अक्युबिन्स्क—५३४
 अखताची—३०५
 अखताना—५१५ (उज्वेक)
 अखतूवे—५१
 अखलकला—३६८
 अखसू—१६६
 अखुन—३१६, ३५४
 अखुन्दजादा—४७५
 अखोव्स्क—२४० (शिकार-
 वाला), २४४, २७१, ३८१
 अख्तो खोजा—४७१
 अगतमा—४४५
 अगताई—२००
 अगरका—३१७
 अगस्तस्—१०९, २४९
 अगामइली—५१६ (उज्वेक)
 अगिर—५१५ (उज्वेक)
 अचकियान—४२६
 अचमइली—५१६ (उज्वेक)
 अज—५१६ (उज्वेक)
 अजक—५६ (अजक जेनुक),
 ५९, ६०, ६२ (क्रिमिया),
 ६४, १५१ (=अजाक)
 अजीज—४३
 अजीम—२०५
 अजोफ—३५, ७४, ७७, २२९,
 २४७, २४८, २४९, २५१,
 २८९, ४०९
 अतबाश—२९७, ३०१, ३१०
 अतरक—४९४
 अतलांतिक समुद्र—३७२
 अताकारागुई—५८
 अताकुर—२९७
 अताजान—४७८ (ओमुराद),
 ४८५ (ओतेमूर, ओत्युरा)
 अतालीक—१४९, १९२, ४३९
 (मुख्य परामर्शक), ४४०,
 ४६९
 अतावेग (अध्यापक, संरक्षक)
 —३१२
 अतिक—११२
 "अतेचेस्तत्वेन्निये जापिस्की"—
 ३९२

अत्तार—१४७
 अत्तिला—७२
 अल्लसोफ—२५२, २५३
 अदकली—२०० (सैनिक)
 अदल्फस—२२५
 अदामत—२९१
 अदाशेफ—१०७
 अदेस्सा—३८०, ३८३, ३९१
 अड्नोदेरेव्की—७७ (एकदारक
 डोंगी)
 अद्रियातिक—६, २४
 अद्रियानोपोल—३४, ५९, ४११
 अधिकार-पत्र—९३
 अनवर पाशा—५२६, ५४२,
 ५४३, ५४४, ५४५
 अनस्तासिया—११५
 अनहाल्ट-ज्वर्स्त—२५८
 अनाकरागुई—५८
 अनादिर—२५२
 अनाम—७
 अनी—६
 अनुनीम इसकंदर—४१, ४३,
 ५१ (इस्कंदर भी)
 अनुशा—१९० (खान), २११
 (अनुशाह)
 अनोइचेंको—३७६
 अन्त (जन)—७१-७३, ९३
 अंतर्राष्ट्रीयतावादी—५९३
 अन्तर्वेद—५५, १२१, १२२,
 १२८, १३२, १३४, १६५,
 २७७, ३०६, ३५२, ५३६
 (वक्षु-सिरका द्वाबा, मावरा-
 उन्-नहर)
 अंतर-मंगोलिया—३२४
 अन्थनी—१९०
 अंधकार-भूमि—३७, ७३, ९४
 अन्दखुई—१३५ (अंदखोई),
 १८६, १९४, ४५१, ४८९,
 १९१, १९२, ४६१, ४६३
 (अंदखुद)

अंदराब—१३७, १७९, ४६०
 अंदा—१३०, १३१ (परममित्र)
 अन्दिजान—५५, १५३, १६१
 (फरगानामें), १६४,
 १७५, १७६, १८०, २८०,
 २८१, ३०२, ३०४, ३०६,
 ३०८, ३०९, ३१०, ३१२,
 ३३६, ३९४, ४२१, ४२२,
 ४२७, ४३१, ४३५, ४३६,
 ४३७, ४९९, ५१९-२२
 आन्ड्रेइ—२७, ५१ (वेनेरिस),
 ९१, ३१८ (= आन्ड्रेइ)
 अंद्रोनिकस्—३७
 अन्ना—८३, १०७, २५७,
 ४६७ (रानी)
 "अन्ना करेतिना"—३९३
 अन्नादे—२५५
 "अपराध और दंड"—३९२
 अप्पक—३२८ (खोजा),
 ३३३
 अफगान—१९२, १९४, ४२२,
 ४४२, ४४६, ४९८ (बस्ती)
 अफगानिस्तान—६, ३७, ४७,
 १२१, १३२, १३४, १३७,
 १४७, १५०, १५९, १७२,
 ३०४, ३४७, ३७८, ३८८,
 ३९०, ४०१, ४१५, ४५०
 (-युद्ध), ४५३, ४६२, ४७४,
 ४८८, ४९७, ४९८, ५२०,
 ५२५, ५२७, ५४१, ५४४,
 ५४५, ५४६, ५५१
 अफनासी—१०१
 अफशर—४२५ (अफसर),
 ५४० (तुर्कमान)
 अफ्रीका—१४१, ३७२, ४०८,
 ४११
 अबकस—२०९
 अबका—८, २८, २९, ३१
 (खान), १३०, १३१, १३२,
 १३८, १४३, १४४, २८५
 अबखात्रिया—३९
 अबदाबाद—४०
 अबनोस्की—३९० (विक्टर)
 अबरकुन—१०४
 अबलाई (मध्य-ओर्दू)—३३६,
 ३४१, ३६१ (अबलइ)
 अबलिन—२४१
 अबलेक—१९६
 अबलै—३१५ (O गिराई),
 ३३७ (O खान)
 अबालुल—२८५
 अबालक—११२, ११५
 अबिशका—१२८
 अबीवर्द—१८५, १९९, २०१,
 २०२, २०३, २०४, ४६७
 अबुल्बैर—१५६, १५९ (खान)
 १६५, १९६, १९७, २७५,
 २९१, ३०९, ३१७, ३१८,
 ३४३, ३४४, ४६७ (लघु-
 ओर्दू)
 अबुल्गाजी—१९०, २०६,
 २०७ (इतिहासकार), २०८,
 २०९, २८१, ३५६, ३५७,
 ४४०, ४६८ (द्वितीय खान),
 ४६९
 अबुल्फजल—१४७ (अकबरके
 प्रधान मंत्री)
 अबुल्फतह—१६७
 अबुल्-फेदा—४७
 अबुल्फैज—१९२, १९३, ३४९,
 ४६६, ४६९ (खान)
 अबुल्मन्सूर—१६६
 अबुल्मुहम्मद—२०३, ४६८
 अबूतालिब—१८७
 अबूबकर—६०, ६६
 अबू-याकूब-यूसुफ—१२५
 अब्-सईद—३३, ६३, १२१,
 १४५, १४७, १४९, १५९
 (खान, बाबरका दादा), १६०,
 १६५, १६६, १७७, १७८,

३०२ (मिर्जा), ३०३
 अब्दाली—१९२
 अब्दुर्रजाक—६४ (समरकंदी),
 १५०, १५६, १५७
 अब्दुर्रशीद—२७८
 अब्दुर्रहमान, मुल्ला—४९२
 (तेक्का)
 अब्दुर्रहमानोफ़—५३३
 अब्दुर्रहीम खान—४७२
 अब्दुल अजीज़—१९०, २१०
 (खान)
 अब्दुल अहद—४५३
 अब्दुल्करीम—४७१, ४७२
 अब्दुल-मोमिन—१८०, १८१,
 १८२, १९४, २०४
 अब्दुल्लतीफ़—१५८, १५९,
 १७९
 अब्दुल्ला—१३६, १४६, १५९,
 १६१ (खान), १६५, १७९
 (प्रथम), १८० (२), १८२,
 १८३ (द्वितीय), २०४,
 २८१, ३३१ (तख्तबेग),
 ४७७ (खीवा), ६८६ (मेहतर)
 अब्दुस्समद—४४६ (खां),
 ४५० (नायब—), ५२६
 (जदीद)
 अब्बास—१८१, १८२, १८३,
 १८५, १८६, १८७, २०७,
 २०९ (प्रथम), ६९०.
 (मिर्जा, शाह)
 अब्बासी—१२१
 अब्रामोफ़ (जेनरल)—४५३,
 ४५७, ४५८
 अमनगोल्दी—४१५
 अमलाकदार—४५३
 अमस—१०४
 अमामंची—३०३, ३०४
 (शैशी=अमासांजी)
 अमीन—१७७ (मिर्जा),
 १९६, ४७६ (खान)

अमीनियाना—४३३
 अमीनेक—१९६
 अमीर—११३, १४५, १४८,
 १५०, ४२५, ५२३ (देखो
 बुखाराके अमीर)
 अमीरअली (तुर्कमान)—४७१
 अमीरखली—५४, ५५
 "अमीरुल् मोमिनीन"—४४६
 मुसलमानोंका प्रमुख)
 "अमीरोंका घोंसला"—३९२
 अमुरसना—२६३, ३३५,
 ३३६, ३४६, ४६०
 अमूर—३८१
 अमेरिका—९, २४०, २५९, २६३,
 ३६६, ३७२, ५०५ (युद्धमें),
 ३९७
 (संयुक्त राष्ट्र), ४००, ५५०
 "अम्बन" (महामात्य)—३२४
 अम्बर—७५
 अयर्हून—२४३
 अयगुज़—५३०
 अरक—१६५
 अरक्चेयेफ़—३६५, ३७१, ३७४,
 ३७५
 अरखंगेल्स्क—२२६, २६५
 अरगान—५१४ (उज़बेक)
 अरगत—४६ (खान), १३१,
 १४३, ३८१, ५३० (नदी)
 अरंग—४६५
 अरतक—१६७, २९८ (कुत)
 अरपा—३६ (खान) १३२,
 २९७, ३१० (-उपत्यका)
 अरब—३१, ७४, ८१, ८९,
 १०३, २०४, २०६, ३०१,
 ४९३ (घोड़े), ५१७, ५३६,
 ५३९, ५४१, ५४८
 अरब मुहम्मद—३३८
 अरबशाह—१५३, ३१५ (शाह),
 ३३८ (मुहम्मद),
 अरबाज़ी—२००

अरबात—३०९
 अरबी—१५४, ५१४ (उज़बेक)
 ५२९
 अरलत—१३५, ५१४ (उज़बेक)
 अरसलन—१३८ (खान), २७९
 (अर्सलन), २८९ (बेग)
 अरसू—३२४
 अरा—३२४
 अराक तेमूर—१६६
 अराजकतावादी—५५०
 अराज़खान—४९० (किला—)
 अराजात—२९८
 अराल (सागर)—६, ६२, १९६,
 २०६, २०९, २१०, २९०,
 २९१, ३५२, ३८७, ४३०,
 ४६४, ४६७, ४७३, ४८६,
 ४८९, ५२८, ५३५, ५३७,
 ५५५
 अरालद्वीप—४७१
 अराली—३५३, ४६१, ४६६
 अराल्स्क—३५८, ३७९, ४२९,
 ४३०, ४७६ ५३०
 अरिकबुगा—८, १२८, १२९,
 १४३ (=अरिगबुका)
 अरिखलार—३११
 अरिग—३०८ (मुग़ोलिस्तान)
 अरिदसियंका—११३, ११४
 अरिस—२७९, ५३०
 अरिस्तनबेल—४८२
 अर्क—१६५ (=अरक), १९०
 अर्ज़मस—२३७
 अर्ज़म—८, १०४, २०३
 अर्दहान—३८६, ३८७
 अर्ध-दास—९४, २१८, ३७६,
 ३८५
 अर्पचन (रब्तन)—३३१,
 ३५० (=अर्बतन भी)
 अर्मनी—६, ३९, १२५, १२७,
 १४१, १४५ (अर्मेनिया),
 २५१, २६३, ५१२ (गण-

राज्य), ५५१, ५५४	(ओगलान), ५४४	५३०, (अता)
अरानि—२८, ३१, ३३, ५५	(उराक)	अल्तून-कला—४२६
(द० काकेशसमें नगर),	अली—५७ (-बेक), १०३,	अल्तवीन—१०३
१४१, १४५, १४६	१३६ (-सुल्तान), १५०	अल्तिशान—३२४
अलई पहाड़—४३७	(-मोवैयद), १८३, २००,	अल्पअर्सलन—३१८
अलक—१९६	३१५ (-ओगलोन), २५५	अल्पमास—४८४
अलकनंदा—१५२	(-मुल), ४६८ (-कुल्ली),	अल्बानिया—४११
अलकसंदरिया—१३५	५४४ (-उराक)	अत्माअता—२९८, ३३४ (सेबका
अलकुसुना—५६	अलेक्सान्द्र—३४ (त्वेर), ९५,	याप) ३६१, ३७९, ४१५,
अलगू—८, १२८, १२९	९७, ३४९, ४७८ (ज़ार),	५३०, (वैनी), ५३२, ५३३
अलचिन—५१६ (उज़बेक),	२६८ (१), २७१, ३७०,	५३४
५३०	३९३ (३), ४९५ (२)	आल्मालिक—५६, १२१, १२२
अलची—२९	अलेक्सान्द्र (उलियानोफ)—	१२५, १२६, १२८, १२९,
अलजई—३०	३९५	१३४, १३५, १३७, १३९,
अलतिन-एमेल—३३१	अलेक्सान्द्रोवयेव्स्क—४६५	१४९, २९६, २९८
अलतुन-क्युरगो—२९८	अलेक्सी—९८, १०७, २३५	अल्मीत—१३९
अलदल—२४०	(अलेक्सांद्र), २४१, २५१,	अल्लाकुल खान—४७३
अलवर्ट—९५	२५२, ४१९	अल्लावर्दी जीज़—४५९
अलबाजीन—२४२, २४३,	अलेक्सी नेवस्की—२१, २७,	अल्लामदार—१५३
२५५	९५, ९६ (=अलेक्सांद्र)	अवरत—५१४ (उज़बेक)
अलबानिया—२३	अलेक्सांद्रोवा-स्लवोदोवा—	अनशा—५४७ (तुर्कमान)
अलमाती—२९९	१०८, १०९	अवानेक खान—१७८, २००
अलश (खान)—५३५	अलेक्सेन्द्र (ज़ारिना)—३९४	अवार—२८४
अलसस्-लोरेन—४११	अलेप्पो—१४० (=हलब)	अव्वाकुम—२९
अलाउद्दीन—१३४, १४१,	अलेफ—१०३	अशगर—१८७
१४४, १५७, १५८	अलोई—२५४	अशुरवेक—४६४, ४६५, ४६५
अलाउल्मुल्क—१३५	अशकोशिदना—२९७	(=असुरवेक)
अलाकामक—१२७	अस्टीमेटम—५२२, ५२४, ५५२,	अशकखाशी—५४४
अलाची (बहादुर)—३०७	५५४	अशकाबाद—३८८, ४९३, ४९८
(=अलची)	अलतन—३१५ (=सुवर्ण)	४९९, ५४५, ५५१, ५५५
अलाताउ—१२७, २७७	अलतन खान—२२७, ३२१,	असदुल्ला—४३२ (डॉक्टर)
(=अलाताग) ३११,	३२४, ३२६, ३३८	असमानक—३१८
५३५	अलता-ओर्दू—२३१	असहयोग-आंदोलन—५४२
अलान—४८४	अलताई—४८, १२१, १३२,	असेत—६ (ओसेत)
अलानिया—५६	२३४, २६४, २६७, २७१,	अस्कौल्द—७५, ७७
अलाबुग—३०१	३२१, ३२६, ३७८, ३७९,	अस्त्राखान—५१, १००, १०८
अलास्का—१५६	३८७, ४०१, ४८९, ५२८,	१६७, १८५, २०५, २२५,
अलिकसुदंर—४५९	५३०, ५३५	२२६, २३६, २३७, २५०,
अलिमूत—२९६	अस्ताकुल—११०	२८७, २८८, २९१, ३३८,
अली—१०३, १८३, २००, ३१५	अल्ली—४२२, ४८२ (-कुवुक),	३३९, ३४०, ३४९, ४०३

- ४२०, ४४४, ४६५, ४७३,
४७४, ४७५
अस्त्रावाद—१५४, १५६,
१६१, १६८, १७६, २००,
२०३, २०४, ४६५, ४७०,
४९०
स्वहान—३, १०४, १५०,
१५४, २०९
स्वेराई—२०० (अस्त्रावाद
के समीप)
स्फन्दयार—२०४, २०६,
२०७ (=इस्फन्दयार)
स्साकी—४३७
हिमद—६७, १००, १२६,
१३०, १४३ (नगदर), १४७,
१५३ १६०, १९१ (२),
२७६, ३०४-५ (-मिर्जा)
हिमदशाह—१९४, ३४७, ४३९,
४४१, ४४२ (अब्दाली)
नहरार (खोजा)—१५३, १६१,
१८३
महीम—१४
मंका—५५ (-तुरा), ६३
मंगाल्युरी—२९७, २९८
मंगारा—२३८, २७२, ३२१
मंगोरा—१५२
मंग्रेज—२२२, २४०, ३९०,
४४४, ४९७ (मे तनातनी),
४९८, ५१९, ५२०, ५२२,
५३०, ५४२, ५५१, ५५२,
५५४
माइतोफ (लेफ्टनेट)—४७६
माइशा—२००
माइने-सिकंदरी—१६१
माकचा—१९४
माक्सफोर्ड—१५८
माक्सू—५४४
मागरा—१७७, ३१३
मागाखान—१४०
मागामुहम्मद—४४२ (तुर्कमान):
४९० (काजारवंश-संस्थापक)
मागा यूसुफ—४७२
मागिम—२००
मागूज—५७, २८२ (तुर्क),
४८९ (तुर्कमान)
माजुरवाइजान—३९, ५४,
६२, १२१, १३१, १४५,
१४६, १५०, १६०, १६४,
१७२, १७६, ३०१, ३७२,
३७७, ५१२, ५४८ (तुर्की),
५५४,
मातमन (सरदार)—११०,
२२३, २३०, २३५, २६१;
५२५ (=अतमन)
मातमाराम दीवानवेगी—४६०
मादमक्रिगन—४८२
"आधारिक राज्यविधान"—४०४
माफनात्रवा अब्दुर्रहमान—
४३४, ४३५
माफदी—४७८ (मुल्ला)
माफरीकंद—२८०
माबदरा—१७४
मावुदन—४५८
मावेदिन—५३७
मावेसफेद—५३९ (गांव)
मामिन मंधि—३६६
मासू—१२१, १३०, १७३,
१८९, २०५, ३३४, ४८२,
४९९ (=वक्षु), ५३५,
५५०, ५५५ (=आमूदरिया)
मासूर—२४०, २४२, २७१,
३८८
मासूस्की—३८९ (ग्राफ)
मासूल—१०३ (=चारजूय)
मासुसटडम—२४८
मायुवा—२३५, २५३, ३३२
(खान)
मायुबलीभद्र—१५
मासदौक—२०५
मासजित्जान—१०४
मारिस—५६
"मारोरा"—५०९ (कूजर)
मार्क—२११, ५२६ (किला),
५२७ (बुखारा)
मार्क लैम्प—३९६
माखैगैल्स्क—३६५
माथिक संकट—३९३
मार्थ—५१६, ५३६, ५४१,
५४८
मालक—३३० (अलाताउ)
मालमखान—५२६ (अंतिम
अमीर बुखारा), ५४१, ५४४
मालाखाना—५३९
(यगनाबमें)
मालान—१८
मालेस—१११
माल्प—२७०
मावक—६
मावा—७ (बर्मा)
मावार—७२, ७३
मास—२८४
मासफुदौला—४९० (खुरासान)
मासाम—१४
मासियाबी—४६२
मास्टालज (बोहीमिया)—
३६६, ३६७ (चेकोस्लो-
वाकिया)
मास्ट्रिया—२४८, २५९, २६०
२६३, २६६, २६९,
३८०, ३८६, ४०७, ४११,
४१२ (-युवराज), ४१३
मास्ट्रेलिया—२४४
माहंगर—१२९
माहनीदरवाजा—१७० (लौहद्वार)
माइगदेर—५४७ (तुर्कमान)
माइवे—५४७ (तुर्कमान)
माक—५९ (शकमाराकी शाखा)
माकान—३५३
माकोनियम्—१४३
"माखलास"—१६०

“इख्तियार”—४९२ (तेक्का)

इगदी—४८३

इगदर—५४७ (तुर्कमान)

इगलान—५१५ (उजबेक)

इगोल्स्त्रोमन—३५५, ३५६,
३५७

इगनातियेफ—३८९, ३९०

४७८ (जेनरल)

इचनीबुचनी—२९८

इज्जतुल्ला—४६० (इतिहासकार),
४६२

इज्जबोर्क—७५

“इज्जान्नया रादा”—१०७

इज्माइलोवो—२४६

इज्यास्लाव—८६

इड्स—२५३

इतशकी—२००

इताली—३९, २६६, २६८,

२६९, ३७३, ३७९, ३८२,

४११, ४१२

इतिहास—१५६, २०६-८,
३०४

(-लेखक), ४२५ (-कार)

इन्तू—१२८ (इ-इ)

इतेल्मेन—२७१

इत्तिल (वोल्गा नदी)—२०,

२६, ३०, ३१, ७१, ७३,

७४, ७५, ७९, ८०

“इत्तिफाक” (=लीग)—५१८,

५२१, ५२३

इदिकू—४९, ५६ (उजबेक),

६२, ६३, ६४, २८६

इनफान—५२०

इनारी—२८९ (नारी समान)

इन्तोसेत—२६

“इंस्पेक्टर जेनरल”—३८४

इपबिस—६६ (सिविर)

इपीर—६३

इब्राहीम—७३, १५६, १६६,

५३९ (सफर), ५४६

(-गल्लू बासमची)

इब्न-फजलान—७९

इब्न-बतूता—३६, १३४, १३५

इब्न-यमीन—१४७

इब्न-हौकल—७३

इमानीफ—५३१ (अमनगेलदी),
५३२

इमाम—१७४, १७७, १८१

(रजा), १८५, २०८

(-कुल्ली), ३०४ (-जाफर)

इमिल—२६, ३२७ (नदी)

इरबेक—४६८

इरलात—३०७

इरसारी—१९९, २००

इराक—३३, ३७ (केइलखान),
१२४, १४७, १५०, ३०१,

३०३

इरिना—११५

इर्किबइ—४८१, ४८२

इर्कुत्स्क—२३८, २४२, ३२४,
५३२

इर्गिच—३४१

इर्जइ—४५२

इताशअली ईनक—४८५, ४८६

इतिश (नदी)—११०,

११२, ११३, ११४, ११५,

१३२, १३३, २३५, २५१,

२७१, २७९, २९६, २९८,

३१६, ३१७, ३१८, ३१९,

३२५, ३२६, ३२८, ३३०,

३३३, ३३६, ३३८, ३४५,

५३०, ५३४, ५३५

इल-अलरगू—१२५

इलखान—२८, ३२, १३०,

१३२, १३३, १३९, १४३,

१४७, २८५ (ईराती)

इलबक—३१५

इलबर्स—१९३, १९६, १९९,

२०६, २०७, २०८

इला—१२५

इलाक—१६८

इलान्चुक—५८ (सर्पसदृश),
२७९

इलालबालिक—१२७

इलिकदई—१३४

इलिकमिम—५६

इलिन—३२७

इलिबै—४८४

इलिमिश—५६

इलिम्स्क—२४३

इलिया—६४, ३९२,

इलियास—१३७ (खोजा), १४९

इलिश—१११

इली—१२१ (इली नदी), १२५,

१२७, १२८, १३२, १३३,

२६४, २९७, २९८, ३००

३०४, ३२५, ३२८, ३३१,

३३३, ३३४, ३३६, ३३७,

३४०, ३४१, ३४२, ३४७,

३६०, ३६०, ३७८

(देखो इलि भी)

इलेत्स्क—३५७

इल्तजार—४४४, ४७० (खान)

इल्तेइजे—४८१, ४८४

इल्दिर नौयन—१२४

इल्बर्सखान—४६७

इल्मन—७५, ७७, ९३

इवान—३९, ४२ (मास्को),

५२, ९७ (प्रथम, द्वितीय)

९९-१०० (तृतीय), १०६

(चतुर्थ), १०७, १०९, ११५

१३३, २२०, २२७, २३४,

२८८, ३३३ ३९२

इवान—२५० (-माजोपा), ३१६

(-म्यारजोइ), ३३१ (चेरदोफ)

इवानगोरद—१०० (इवान-

नगरी), ११६, ४१३

इवान सुसानिन—३८५

“इवानोफ—२९२, ३८४, ४८६”

(लेफ्टनेंट), ४१७ (जेनरल)

इवानोवो-वोजनेसेन्स्क—५०८

- इवेंकी—२७१
 इशाकासिम—४६२
 इशाकिली—५१६ (उज्वेक)
 इशाबरदी—११३
 इशामा—१११
 "इशरतखाना—१६०"
 इशिकली—५६१ (उज्वेक)
 इशिम—११२, ११३, ११४,
 १८२, २८१, ३१५, ३१७,
 ३१८, ३१९, ३२५, ३२७
 (खान), ३४१, ३५५
 "इश्तेराक"—२८९
 इसनबुगा—१६६, २७५
 (=इस्सन बुगा)
 इसायफ़—५२५, ५३३
 इसुपोव्स्कोय—२२४
 इसंत—३१७
 इस्कन्दर—१५८, १७९, १८०
 (-खान), ४५८
 (-क़ूल, सरोवर)
 "इस्फ़ा" (=चिनगारी)—३९७
 इस्तख़र—१६१
 इस्तम्बूल—१०४ (समुद्र), ४७८
 इस्त्रा—७३
 "इस्फ़ारा"—४२१
 इस्मत—१५८
 इस्माइलोफ़—२५४
 इस्माईल—१४९, १६३, १७१,
 १७२, १७३, १८३, १९४,
 १९९, २६३, ३०४, ३०९,
 ३२८
 इस्माईली—१३९, १४०
 इसराईली—१५७ (=यहूदी)
 इस्लाम—३४, १२४, ३१६,
 ३४६, ४४६ (-खलीफ़ा),
 ५२२
 इस्सन—३२
 इस्सिक़ूल—१२५, १३३, २७५,
 २९५, २९७, २९८ (सरोवर),
 ३०१, ३०२, ३१०, ३१३,
 ७७
 ३३०, ३३१, ३३२, ४५२,
 ५३५
 इस्सुन—१२६
 इंगलैंड—३९, २२५, २२६,
 २४८, २५६, २६३, २६९,
 ३६६, ३७७, ३८०, ३८७,
 ४०६, ४०७, ४०८, ४१२,
 ४१४, ४७५, ४९७, ५०३,
 ५५०, ५५४
 इंग्रिया—२४१
 इंग्लिश-नैनल—२४
 इंजन—२६७
 इंबा—१०२ (यंबा)
 ईकान—३४६
 ईगर—७८, ७९ (फ़रिक-पुत्र),
 ८३, ८७, ८९, ९०
 "ईगर सेना-गाथा"—८९
 ईतम्—२७
 ईनक—१९७ (सरदार), ४६९
 (प्रधान-मंत्री)
 ईरक—३१५
 ईरान—७, ३३, ५५, ७१,
 ७५, १००, ११०, १२१,
 १३२, १४१, १५०, १५९,
 १७३, १८३, २३६, २५१,
 २७१, ३७१, ४०५, ४०६,
 ४०७, ४६६, ४८९, ४९८,
 ५२०, ५२५, ५३५, ५५४
 (का तुर्कमानियापर दावा),
 ५५५
 ईरान-इराक—१३२, १४५
 ईरानी—११० (शाह), १५३,
 १७७, १९२, ४०७ (क्रांति),
 ४५०, ४९४, ४९६, ५१६,
 ५१९, ५३९ (भाषावंश),
 ५४१, ५४२, ५४८, ५५१
 ईलक—४७८
 ईवे—५४७ (तुर्कमान)
 ईशान—१५३ (=पीर, गृह,
 आखन)
 ईशा नकीब—४४३ (-कीब),
 ५४३ (-औलिया, शेख,
 -सुल्तान), ५४४-४५ (-सुल्तान,
 सुल्तान), ५५३ (-उराक,
 सबूर)
 ईसन थैमी—३००, ३०१,
 ३०२
 ईसाइकी सबोर—३७५
 ईसाई—३८, ८३, १०४, १२५,
 ३१६, ३७२, ४४२
 ईस्ट इंडिया कंपनी—११०,
 २६८, ४४९
 उइगुर—९ (सिरियावाली), ३०,
 ५७ (लिपि), १२१ (डांडा),
 १२४, १६१, १६७, २०२,
 २०८, ४७०, ५१६ (उज्वेक),
 ५१५, ५२९, ५३०, ५४८
 (चगताई तुर्क)
 उइगुर नैमन—५१४ (उज्वेक)
 उइची—५१५, (उज्वेक)
 उइशुन—५१५ (उज्वेक), ५३०
 (उइसुन, वूसुन)
 उइस्क—३४६
 उई—३४३, ३५८
 उकमेत—४६२, ४६३
 उकाक—६१
 उकाजे (=राजादेश)—३५७,
 ३६१, ४३७, ४५२, ४९९,
 ५३१
 उकुर-कितची—२९८
 उक़इन—३९, १००, २२९,
 २३०, २३२-२३४, २४१,
 २५९, २८९, ३०२, ३७३,
 ३७५, ३७६, ३७७, ३९१,
 ३९९, ५१२, ५१९
 उख्तोम्स्की—४०३
 उगफेरमर—२९७ (पूर्वी तुर्किस्तान
 उगरी)—६६
 उगलान—५१४ (उज्वेक), ५१५
 उगलिच—१०२, ११५, २१८
 उगुजमान—१६८

उगेची खासाग—३००
 उगताइ—५ (छिङ्गिस्-पुत्र), २१
 उगोलिन—२४
 उग्रा—१००, ११४
 उग्रिउमोफ—३३४
 उचउचक—४८२, ४८३
 उचकुर्गान—४३५, ४३७
 उचमा—४८१
 उचाचर—१२८
 उज्ज—४५५, ४६०, ५१४
 (उज्ज्वेक)
 उज्जतेमूर—१६६, ३०३ (थैची)
 उज्जान—४०
 उज्जियाक—२७८, ३५०
 उज्जी—२९, ३०
 उजुन—१०४, १६० (हसन),
 २८१ (सुकाल),
 ४९५ (आदा), ५२६ (कजाक)
 उज्जकन्द—१२८, १६५, १८०,
 ४३५
 उज्जांद—१२९, २९७, ५३८
 उज्जयिनी—१५८
 उज्ज्वेक—२६, ३१, ३३, ३४,
 ३५, ३७, ४८, ५१, ६७
 (दशते कियचक), ९७, १४५,
 १५६, १५८, १५९, १६१,
 १६५, १६९, १७४, १७७,
 १७९, १९३, १९४, २०२,
 २०७, २०९, ३७८, ४१५,
 ४२१, ४३१ (कियचक),
 ४४२, ४४३, ४५५ (कबीले),
 ४५९, ४६४, ४६७, ४६९,
 ४८६, ५१४, ५१६ (जाति-
 निर्माण), ५१७ (भूमि),
 ५२७, ५२९, ५४२, ५४४,
 ५४८ (=चगताईतुर्क) ५४९
 "उज्ज्वेक-उलुस"—३१
 उज्ज्वेक-कजाक—२७५, २७६,
 ३०३, ३०५, ३११, ३१३
 उज्ज्वेक खान—३४, ९६, १३३,

१४६, ४६५, ५२९
 उज्ज्वेक सुल्तान—२७७
 उज्ज्वेकिस्तान—१२१, १६२,
 ४५३, ४५९, ५१४ (में
 क्रांति), ५१७, ५२७
 उज्ज्वेकी—१८३ (भाषा)
 उज्ज्वोई—४८०, ४८३
 उतखुर सूफी—४४३
 उतरार—४६, ४८, ४९, ५५,
 ५६, ६०, १६८, (=अतरार)
 उताची—५१४ (उज्ज्वेक)
 उत्किया—३५२
 "उत्तर तारा"—३७४
 उत्तर प्रदेश—५२८
 "उत्तरी संघ"—३९३
 "उत्तरी सम्मिलनी"—३७४
 उद्मुर्त—१०७, २३४, ३९०
 उन्कोव्स्की—३३१, ३३३
 उपा—२२१
 उपुलेची—५१४ (उज्ज्वेक)
 उपेन्स्की—९१
 उबसा (सरोवर)—३२६
 उवान—२८४
 उवैदुल्ला—१६० (-अहरार),
 १७४, १७६, १७८, १८३,
 १९२ (१), २०३, २८०,
 ३०५, ३०९ (खान)
 उमरशाजी—१७८, २०१
 उमरशेख—५५, ५६, ५९,
 १६०, १६३, २९७, ३०५,
 ३०६
 उयान—५१५ (उज्ज्वेक)
 उयुगली—५१६ (उज्ज्वेक)
 उयेज्द—५३१ (=जिला)
 उयेमौत—५१४ (उज्ज्वेक)
 उरगंज—५६, ६४, १३५,
 १७८, १९६, १९९, २०१,
 २०२, २०४, २०५, २०८,
 २०९, २१२, २८१ (स्वा-
 रेज्म), ३३०, ४४०, ४४४,

४६८, ४७०, ४७३, ४७५,
 ४७७ (-कुहना), ४७८,
 ५२६ (मिर्जा-)
 उरमानजोजिन—५३७
 उरमिया—५५६ (रजाइया)
 उरलुक—३१९, ३२१
 उर-सांग—३११
 उरातिप्पा—१८२, ३०६
 (उरातेपा), ४२२, ४२३,
 ४३७, ४४४, ४४८, ४५२,
 ४५८
 उरानिया—२८९ (देवी)
 उराल—२१ (ऊराल), ४९,
 ९४, १००, १०१, १०७,
 २०५, २०८, २३४, २३५,
 २४४, २६१, २६७, २८६,
 ३१७, ३२१, ३४४, ३५१,
 ३७६, ४०५, ५०८, ४२०
 उराल-अस्ताई—५४८ (भाषा-
 वंश)
 उराल्स्क—२८९, ३५६
 उराल्स्की—५५२
 उरियानकुत—३२१
 उरुस—१८, ५५, ५१५
 (उज्ज्वेक)
 उरुसखान—४३, ४८, ५४,
 ६१ (खान), ५० (-खोजा)
 उरुसलन—३२१ (थैशी)
 उरुसोफ—३४५, ४५७
 उरेंगयार—२९७
 उर्गा (अराल)—२४२, ३२४
 (उरगा), ३२९ (-महालामा),
 ४७८, ४८२,
 उर्जाय—५१४ (उज्ज्वेक)
 उर्दा—१०२
 उर्मितान—४५८
 उर्लुक—३२६, ३३८ (तोर्गुत
 राजा)
 उलकुम दरिया—४८४
 उलजइ—२९

उल-जैतू—१५, ३३, १३३,
(ईरान), १४५
उलरिच—२५७
उलाइओन्दलग—५४८ (तुर्क-
मान)
उला इवोन्तली—५४८(तुर्कमान)
उलागचारलिंग—२९७
उलाञ्ज तुमान—३२१ (लाल
ऊंटवाले और्दू), ३३९
उलाद—१४४
उलानबातुर—३२४ (=उर्गा,
ताहुरे)
उलियस्सुतै—३२४
उलियानोफ़—३९२, ३९४,
५१० (=लेनिन)
उलियानोव्स्क—२३७ (समारा),
३९४
उलुक—६६ (-मुहम्मद), ६७,
३१७ (-बरमा), ३४६
(-ताग)
उलुकची—२६
उलुगताग—५७ (महापर्वत),
१५१, १७०, २७९, २८०
उलुग-तूवे-ताश—२०२
उलुग-दुर्जी—१८
उलुगबेक—६७-६८ (शाह-
रुख-पुत्र), ६८, १५४,
१५५, १५६, १५७, १५८,
१६३, १६५, १७०, १९०,
२९९, ३००, ३०२
उलुग-मदरसा—१७१
उलुस—२९, ३३ (मंगोल,
=बातू, खुलाकू, चगताइ
और चीन), ५१, १२१,
१२५ (-इप्पू), ३०९,
(उलुसबेगी), ३२४(-धैशी)
उलेखातून—४९८
उलेची—५१५ (उज्बेक)
उलेमा—५१७ (धर्माचार्य,
मुल्ला)

उल्जे-थू—१६, ३२ (खान)
उश-तुर्फान—३३६
उशाकोफ़—२४१, २६३,
२६९
उशामला—४८०
उसरी—३८९
उसमानअली—१५२, १६४,
१७९, २०७, ६१
(=बहादुर), ५५३ (-कारी)
उसा—१११
उमिउन—५२९ (कजाक)
उसुन—५१६ (उज्बेक)
उस्तउर्त—१९७, २०४, ३५७,
४६५, (चिकया इकित्स
गिरि), ४८१, ४८२, ४८४
उस्तकामेन्नेगोस्कया— ३३३,
३४९, ३६१
उस्ती—५३०
उस्मानी—१७८, १८१,
५४८ (तुर्की)
उङ्गीसा—१२२
उंग—५१४ (उज्बेक)
उंगाचित—५१४ (उज्बेक)
उंगुत—५१४ (उज्बेक)
ऊफ़ा—३१९, ३५०, ३५१,
३५६
ऊ-हो-चे-यू—३२९
एउफ़ेसिया—२२
“एक शिकारीके पत्र”—३९२
एकातेरिना—२५९, २६७(१),
३४७, ३४९, ३५४-५६
३६१, ३६५, ३६६, ३७२
(२)
एकातेरिना-नहर—३६५
एकातेरिनोस्लाव्ल—२६३, ४१४
एगमन बातिर—४९६ (एगमन
बातिर, सुमस्क)
एचुवक—३५५
एडवर्ड सप्तम—४०७

एडिसन—३९६
एतियक—२८२
एतिसन—३३९
एदेनिया—३३७
एदेसा—८, १४१
एबट (कप्तान)—४७४, ४७५
एबुसूकिन—१२६
एमिल—१२१, २९५, २९६,
३३६
एमिलगूचूर—२९८
एम्पेरातोर—२५६
एयागुज—३४९ (नदी)
एरअली—३४५
एरगस—५२० (शेख), ५२२,
५२३, ५२४, ५४२
(एरगेशलाम)
एरगेना—१२७
एरदेनी लामा बातुर खुञ्ज
धैची—३३५
एरमिताञ्ज संग्रहालय—५७
(लेनिनग्राद)
एरमिन—३७
एरली—३५१ (-सुल्तान),
३५६, ४६८
एरसारी—५४७ (तुर्कमान)
एरापतोफ़—५५०, ५५१, ५५२,
५५३
एरेवान—५५४
एरेंक—२१२ (औरंग)
एचिश—३३८ (इतिश)
एर्ज़न—४८
एर्तकईनक—४६८
एर्दन-बआतुर—३२६
“एर्देनी सूकितू बआतुर खुञ्ज
धैशी”—३३३
एर्देबेर्ग (कर्नल)—४६७
एलची—३३ (जनदूत, महादूत),
१३९
एलबा—२४
एलात्ज़—६१

- एलिजाबेत्—१९३, २५५, २५७, २६८, २९१.
 एलिजाबेतोपोल—३७१
 एलियोत्—२४३, ३२६
 (ओइरोत्), ३३२
 एलूतियान—३७२
 एलेत्रोलिसिस—३८३
 एल्ब—३७० (द्वीप)
 एल्बर्स—४४२
 एवज ईनक—४६९
 एवरदी—१३५
 एवेंकी—२४४
 एस्० एर्० (=समाजवादी
 क्रांतिकारी)—५१९, ५३८
 एसम्पसन—६२
 एसाउलेंको—५२५
 एमुन—१३३
 एसेन—३०७
 एसेन—३२, १३३, १३४
 (-बुगा), १६६ (-खान)
 एस्तोनिया—५२८
 एंगल्स—३७४, ३८६, ३९२,
 ३९३, ३९५
 एंडरू विनियस—२२६
 ऐगुन—२५५, ३८८, ३८९
 (-संधि)
 ऐचुवत—३५३
 ऐदिन—४८३
 ऐनी—४९३ (सदरुद्दीन)
 ऐबक—१६१, १६७, १७९,
 ४६० (=बईबक)
 ऐबुगिर—४७८, ४८४ (खाड़ी),
 (=अइबुगिर)
 ओइनोग—२९७
 ओइरोत्—१४२, २७१ (मंगोल),
 ३०१, ३३७ (कस्मक), ३३८
 ओइरोतिया—२७१
 ओइरोद—१६६, ३२१, ३२४
 (=ओलियोत्, देखो
 ओइरोत्)
 ओका—२२, ५१, ७४, ८२,
 ९०, ९२, ९६, ९८,
 १००, १०९, २३४, २४७,
 ओगलान—६, ५४, ५६
 (राजकुमार), ६१, १०२,
 १३६, १४४, १४५, १६५
 आंगिन्स्की—३६५
 ओगूज—१०३
 ओगोताइ—४ (छिः गिस्-पुत्र),
 २३, २५, ४७ (आंगोदाई),
 १२१, १२५, १२६,
 १२७, १३० (कैदूका
 पिता), १३३
 ओङ्खान—१८
 "ओचाकोफ"—४०२
 ओजेरो—११४
 ओजेर्नया—३५१
 ओडेर—६, २३
 ओडेर-पर फ्रांकोर्ट—२५८
 ओडोनोवेन—४९१, ४९२
 ओतकची—५३०
 ओतरार—५६, १२७, १२९,
 १५३, १६०, १६९, २७७,
 ३४६, ३५३ (-उतरार)
 ओरतेपयेफ—२१८
 ओतामिश—४९१ (तुर्कमान,
 तैक्का)
 ओतियक—६
 ओदुलियो—२३८
 ओदूल—२७१
 ओनेगा—९४
 ओपेरा—३२४, २६६
 ओप्लेन—२७
 ओपेचनिना—१०८, १०९
 ओव—११४, २२७, २३८,
 ३१६, ३१७, ३१८, ३१९,
 ३२४, ३२६, ३३३, ४८९
 (ओबलास्त = तहसील)—५३१
 ओम्स्क—२५१, ५३०
 ओवसाया क्रेपोस्त—३३३
 ओयरोत्—२४३ (=ओइरोत्)
 ओइरोद)
 ओरखोन्—५ (मंगोलियामें)
 ओरगान—१२८
 ओरगाना—१२७, १२८, १३९
 ओरताग—५७ (उच्च पर्वत)
 ओरदा—१८, २०, ४५, ४६,
 ५० (-उलूम), ५१, १५७
 (जूछि-पुत्र), १६५, २८७,
 ३४३ (=ओर्दा)
 ओरदिन्-नाइचोकिन्—२४१
 ओरनाक—२९७ (=ओजनाक,
 अंतरतक)
 ओरमुजद—१०३, १५७
 ओरलोक—२५९, ५२५
 ओरमोवा—२३
 ओरी—३४३, ३५१, ३५९
 (नदी)
 ओरेन्ता—२६ (दुनियेपर दक्षिण-
 तट)
 ओरेन्बुर्ग—२६१, २६२, २७१,
 २९१, ३४४, ३४५, ३४८,
 ३५१, ३५२, ३५४, ३५५,
 ३५६, ३५७, ३५८, ३७८,
 ३७९, ४२५, ४३१, ४३२,
 ४३५, ४४५, ४४६, ४४८,
 ४५२, ४६८, ४७३, ४७४,
 ४८१, ४८४, ४८५, ४९५,
 ५१८, ५२२, ५२५, ५३०,
 ५३२, ५३५, ५४४, ५४९,
 ५५०
 ओरेल—११०, ४०९
 ओर्जोनीकिद्जे—४०५
 ओर्तुक—४८०
 ओर्तुकिया—४८३
 ओर्दाशेख—४२
 ओर्दू—४२ (अक्-), ५३० (मध्य-
 महा-)
 ओर्दू-बालि—५ (कराकोरम)
 ओर्मुज—१०३
 ओर्स्क—३४१, ३७८, ४४८
 ओ-ला-पू-सू-यं-र—२५३
 ओलगाई—९८
 ओलिओत्—३२४ (ओरिओत्)

- ओलेकमा—२४२
ओलेग—७७, ७८, ८३
ओलसिये—५०८
ओल्गा—८२, ८३
ओल्गार्द—३८, ५२
ओल्जे—१४८, १४९ (=ओल्जइ)
ओल्मरज—२४
ओश—३०५, ४२१ (अजीबी),
४२२, ४२५, ४३१, ४३५,
४३६, ५३८
ओशुन—५२९ (उज्वेक)
ओसतेइ—५२
ओस्तियाक—११०, ११२, ११३,
११४, ११५, ३१६
औरंगजेब—११६, १११, ११४,
२११, २१२, २४१, २४६,
२४७, २४८, २४९, २५२,
३२८, ४६४
औरंग तेमूर—५०
औल—३५८, ४२९ (गांव),
४७८, ४९३ (तुर्कमान
गांव), ४९५
औलियाआता—४२९, ४३२,
५३०, ५३३, ५३६, ५३६,
५३७
औहदी—१८८, १४५
कआन—१२१, १२६, १३२,
१३५ (चीन-मन्नाट्). १३९,
(=कगान. खाकान)
ककमा-बुरुजी—२९८
ककाई—१९२
कखोस्क—३७५
कगान—५५०, ५५१, ५५४
(=कआन)
कगानोविच—४१४, ५०८
कचर—६
कचाई—५१५ (उज्वेक)
कजखोरु—५२१
कजगन—१३६, १४८
कजतची—४९
कजलोऊ—५४९
कजवीन—१८१, २००
कजाक—११०, १५६, १६८,
१६९, १७०, १८०, १८७
२०९, २६१ (एसियाई),
२७६, २७७, २९३, ३०७,
३११ ३१३, ३१७, ३२१
३२६, ३ १, ३२७, ३४३
(उज्वेक-कजाक), ३४७,
३४८, ३७८, ४११, ४१५,
४३३, ४६४ ४६७, ४६९,
४७१ (चैकली, तुर्कनारा.
चुम, जलौर), ४७३, ५१७,
५२४, ५२५, ५२८,
(जातिका निर्माण), ५२९,
५३१, ५४९
कजाकखाना—२९१
कजाकस्तान—१२१, १५७,
३६१ (गणराज्य), ४५३,
४८९, ५१२, ५२८ (में
क्रांति)
कजंची—१२५
कजान—२७, ३०, ६८, १००,
१०२, १०३, १०६, १०७,
१०९, ११२, २३४, २६०,
३१५, ३५०, ३५१, ३५४,
३६६, ४०१, ४६५, ५४८
(तारतार)
कजाला—४३०, ४८०
कजालिन—५३३, ५३८
कजालिन्स्क—४८५
कजुलई—६५
कतक—२९६
कतगन—१६०, ५४९ ५१४,
(उज्वेक)
कताई—१९, ३६५,
कताकुल—१०
कतापुस्त—२५
कतुजांज—३६६, ३६८, ३६९,
३९८
कत्ताकुर्गान—४७७, ४५८
(कता), ५१८, ५१९,
५२०, ५२१
कतली—५१६ (उज्वेक)
कनवाग—१६६
कनाई—३२५
कन्जुर—१३ (बुद्ध-बचना-
नुवाद)
कन्दहार—१७२, १९२, १९३,
४९९ (कंधार), ५४३
कंदुर्च—५९
कन्फूसी—१२
कन्स्तन्तिनोपोल—२९, ३८,
३७, ७५
"कप्तान-कन्या—२६६, ३८४"
कफफा—५६, १०४ (कफा)
कबक—३०
कबतेरून—३२१
कबाका—३००
कबात—५१४ (उज्वेक)
कवादियान—१७७, १९२, ५२६
कबिलककला—३१०
कबीकलर—३१०
कबूल—१९०
कमकर-प्रतिनिधि-सोवियत—
४१७
कमवत्का—२५३
कमवादल—२५३
कमारोफ—४९७ (महाराज्य-
पाल), ४९८ (जेनरल)
कमाल—५५, १४७
कमालुद्दीन—१३८, १४४, १६२
कमिस्ती—४८४
कम्युनिस्ट—३७९. (-पार्टी,
लीग), ५५०, ५५३
"कम्युनिस्ट घोषणा"—३७९,
३९३
कम्युनिस्ट सरकार—३९१, ३९२
कम्स्चदाल—२७१
कयान—५१५ (उज्वेक)
कयालिक—१८, १२५, १२७
करइत (केरगुदी)—३२५
करकर—३३४
करकी—४५३ (=केकी)
करकुल—१२८
करगालचेन—३१०
करगोपोल—२२१
करताग—५७ (गंदा पर्वत),

१८७
 करदाखली—५४७ (तुर्कमान)
 करबला—१७७
 करमज़िन—२५, ३५, ६३,
 (करमाज़िन), २६६, २७१,
 ३१८
 'करमाज़ोफ़ भाई—३९२
 करमीना—१२४, १९०, २११,
 ४४७, ५२६
 करशी—१२९, १३२, १३४,
 १३६, १४८, १४९, १५०,
 १६२, १७०, १७४, १७५,
 १७६, २१०, ३००, ४३९,
 ४४६, ४४७, ४५१, ४५३,
 ४५६, ४५९, ४७१, ५५२
 करशी-संधि—२३४ (करसी०)
 करसागलेन—३२७
 कर सावरान—५५
 करस्तचिक—४८४
 करा—१२७, ४८९
 कराअसमन—२७९ (करासामा)
 कराइलू—२०३
 करा-ईतिश—३२६
 कराउज़ियक—४३०
 कराकल्पक-६२ (=काली टोपी),
 २८०, २९०, २९२, ३४६,
 ३४८, ३५०, ३५१, ३५३,
 ३५६, ३७८, ४६६, ४६९,
 ४७०, ४७७, ४८४, ४८६,
 ५१५ (उज़बेक), ५४८
 (तारतार-भाषा)
 कराकल्पक-कुशतमगली—५१५
 (उज़बेक)
 कराकस्ती—२१०
 करा-कसमक—२९७
 कराकिन—४८४
 कराकिगिज—४२८
 कराकुचिन छेरिज़—३४०
 कराकुम (काला बालू)—
 १२७, १४९, १९६, ४७३,
 ४८०, ४८१, ४८८, ४८९,
 ४९९, ५५५
 कराकुरसक—५१५ (उज़बेक),

५१६
 कराकुल—१६८, १७०, १७१,
 १७६, १९३, २१०, ४५६,
 ४७२, ४९९, ५३३, ५३४
 कराकेचिन—५३७
 कराकोरम—५, ६ (मंगोलिया
 में), ७, २६, १२७, १२८,
 १३५, १४५, ५३०
 कराखानी—१२४
 कराखिताई—२१, १२४, २९३
 कराखोजा—२९७
 करागन—४६५
 करातगिन—५२७
 करागुचुर—२९७, २९८
 कराचा—११३, ११५
 कराचार—१४८
 कराचिन—११२
 कराचिनबग—१६७
 कराची—१९६
 कराचुक—५७
 करातगिन—४२६, ५२७, ५४५,
 ५४६
 कराताउ—१८०, २७९, ४३२,
 ४८१ (पहाड़)
 कराताग—५० (=कराताउ)
 कराताल—५०, ५१, २९८,
 ३३१, ३६१
 करानुकाई—३०४, ३१२
 करानुराई—५८
 करातेपे—३३९
 कराबख—५५४
 कराबाग—५५, ६७ (ईरान),
 १४६
 करानुरा—५१५ (उज़बेक)
 करानुलात—३५८
 करामुहम्मद—५५
 करास्की—३९३
 करायुल्युक—५४७ (तुर्कमान)
 करायेबली—५४७ (तुर्कमान)
 कराशकाल—३४५ (काली
 दाढ़ी)

कराशर—१५२, २९८, ३०४,
 ३०९, ३३२
 करासू—१४३
 कराहुलाकू—१२६
 करी—५१४ (उज़बेक)
 करीमबर्दी—६५, ३०५ (-दोगलत)
 करेला—११६, २२२
 करेलिया—२५१
 करोपत्किन (राज्यपाल)—५३७
 कर्त—१३५, १४८ (खुरासान)
 कर्तू—५१४ (उज़बेक)
 कर्मकची—४३०
 कर्मिनिया—४४१
 कर्मिना—१७६
 कर्स—३८६, ३८७
 कलकत्ता—३७७
 कलखान—१८९ (महासेनापति),
 १९१, २०३ (युवराज)
 कलगन—२२७, २४२
 कलगा—१७३, १७६
 कलाखम्ब—५४३ (दरवाज़ा),
 ५४५, ५४६ (किला खुम)
 कलिनतई—१४४
 कलिनिन—९६, ४०६
 कलियान (हक्का)—४४०
 कलीम (भेंट)—४२९
 कलगा—२२०, २२२, ३७८
 कलेची—५१४ (उज़बेक)
 कलेगियो (=परिपद)—५५१
 कलोम्ना—२२, ५२, ६१, ९६,
 ९७, २२०, २८९
 कल्पक—४९४ (=टोपी)
 कल्परोत—२८९
 कल्मक—११४, १५९, १६६,
 १८७, १९६, २०६, २०८,
 २०९, २१०, २१२, २३५,
 २३७, २६१, २८०, २८२
 (मंगोल), २९१, २९६,
 ३०४, ३०५, ३०८, ३१०,
 ३१६, ३१८, ३१९, ३२१,
 ३२४ (जुंगर), ३२५,
 ३२६, ३२७, ३३२, ३३५,

- ३३७, ३३८, ३४०, ३४१,
३५१, ३५२, ३५४, ३५७,
३६८, ३७२, ३८५, ४६४,
४६७, ४८०, ४९०, ५१४
(उज्बेक), ५४८
- कल्मक-थैची—३०७, ४६५
(आयुका)
- कवामुद्दीन—१५७
- कवि—१७५, ५१९०
- कशलतिन—५३७
- कश्क—४५८ (-उपत्यका)
- कस्तुत—४५७, ४५८ (-डांडा)
- कश्मीर—२९९, ३११, ३१८
४२६
- कसतिमूर—४८
- कसलोफ़—२१७
- कसाक—३९, १०८, ११०,
२०६, २०८, २२४, २३०,
२४३, २८८, ३१७, ३४१
(रूसी-), ३४४, ३५७,
३७८, ४०१, ४०७, ४२४,
५०६, ५०९, ५१०
- कसाकान—३३५
- कसिमिर—३८, ३९
- कसौबी—८२ (चिरकास)
- कंगली—५१४ (उज्बेक-किपचक)
- कस्तेक—२९७
- कस्त्रोमा—६३
- कस्साव हैदर—१५०
- कहेत—५१५ (उज्बेक)
- कंकली—२१, ४७१ (तुर्कमान)
- कंकुरत—१८, २०, ३०, ४७,
५१, १९२, ४५९, ४६४,
४६९ (कुनगरद), ४७१
(तुर्कमान) कंकुरत वंश—
४७०-८७ (वंश)
- कंकोर—११०
- कंग—५१७, ५३० (=कंकली,
कंगली), ५४८
- कंगरबेइन—३४१
- कंग्-ली—२६, २०७, ४६१,
५१७, ५२८, ५२९, ५३०
(कजाक), ५४१
- कंगडा—५२८
- कंगुल—१६६
- कंचुवार—३१९
- कंजिगली—५१६ (उज्बेक),
५३० (कजाक)
- कंदुरता—६०
- काइइ—५४७ (तुर्कमान)
- काइइ—६
- काइतक—६१
- काइप—३५०, ३५३ (द्वितीय),
३५५, ३५६
- काउ-चुङ्क—२६४, ३३४, ३४७,
४२१
- काउंट वित्ते—४०४
- काउ-ताउ—४२१ (दंडवत्)
- काकेशस—५१, ६१, १०१,
१४१, १५०, १५१, ३६७,
३८३, ३९९, ४१३, ४५३,
४७२, ४८४, ४९४, ४९६,
४९७, ५०८
- काखोव्स्की—३७६
- काज़ान—१३६ (-कज़ान)
- काज़ार—१०७, ४४१, ४४२,
४७२ (ईरानी), ४९०
- काज़ी—१५७
- काज़ी अख्तियार—१७२
- काज़ी कुरगान—५४४
- काज़ी पायन्दा—१८३
- काज़ीबेग—५५३
- काज़ी मुल्ला—३७७
- कात—३२, ५३, ५४, ५६,
१९९, २००, २०१, २०२,
२०३, २०४, २०६, २०८,
३००, ४८५
- कादिर कुलोफ़—५५२
- कादिर नदी—३५३
- कादिर बर्दी—६९, २८६
- कादेत—४१०, ५०८, ५११
- कानियेफ़—२६
- कानून—१५४
- कांतन—३७४
- कास्तन्तिन—७३, ८७
- कास्तन्तिनोपोल—१०, ११, ७२,
७७, ७८, ७९, ८३, ८४,
१०१, १०५, १०६, ११६,
१५९, २३०, २६०, २८४,
३६७, ३७७, ३८०, ३८६,
४३४, ४७८, ४७९, ४९५,
४९७
- कापबहादुर—५०
- काफमान (जेनरल)—३८७,
४३५, ४३६, ४५२, ४५७,
४७९, ४८०, ४८१, ४८२,
४८५, ४९४
- काफिर (बौद्ध)—३१३, ३२४,
३३५, ५२३, ५४९
- काफिरनिहां—४५५
- काफिर-रबात—४४०
- काफिर-यारिग—३१०
- काफिरिस्तान—३११ (लदाल)
- काबिलशाह—१३७, १४९
- काबुल—१५१, १६६, १७२,
१७६, १८०, १८९, ३०७,
३०८, ३०९, ३१३, ४४१,
४४२, ४४७, ४४८, ४४९,
४५०, ४५९, ४६०, ४६३,
४७५
- काबूशान—१५०
- कामचत्का—२५६, ३७२, ३७३,
३८१
- कामरान—१७९
- कामा—७३, १०९, ११०, १११,
२३४, २८७, २८९, ३६५ •
- कामिल (हामी)—३०८
- कामेनेफ़—५०६
- काम्बालू—११ (पेकिङ्ग,
खान-बालिग)
- कायिप—४६८, ४६९ (=काइप)
- कार—२६२
- कारकिन—५४८ (तुर्कमान)
- कारपीनी—२४, २६
- कारपेथीय—२३
- कारवांसराय—५५२
- कारा—५१५ (उज्बेक)
- काराई—१८५, १८६
- कारासमन—५७

कारिक—५४८ (तुर्कमान)
 कार्ल मार्क्स—७७, ९५, ३७०,
 ३८२ (मार्क्स)
 कार्ल पीतर—२५७
 कासिका—२६९
 काल—२०१
 कालासागर—७२, ७८, १०१,
 १०४, १०७, ३६५, ३७७,
 ३८०, ३८६, ४००, ४०२,
 ४१३
 कालिदास—१६०, ३८३
 कालीकट—१०३
 काली हड्डीवाले—३५८
 (साधारण जनता)
 काले—९४, ४२५ (कालेखोजा)
 काले पहाड़ी—३३२
 कालजोफ़—११३
 काशकुपिर—४८५
 काशगर—३२, १२१, १२४,
 १२८, १४४, १४८, १४९,
 १६१, १६४, १७६, १८०,
 २७५, २९३, २९५, २९७,
 २९८, ३०२, ३०३, ३०७,
 ३०८, ३१०, ३१३, ३२५,
 ३२८, ३३२, ३३३, ३३५,
 ३४७, ४२२, ४२४, ४२५,
 ४६२, ५२०
 काशगरिया—३०२, ३०९
 काशान—१०४, १५३, १५७
 कासिम—१०२, १७२, १९०,
 ३०९, ४२९
 कासिम खान—६९, २७७(जानी-
 वेग-पुत्र)
 कासिम सुल्तान—१९०
 कासिमोफ़—२०७, ३१८, ३५८
 कास्पियन—३८, ७९, १०८,
 ११६, १३१, १३७, १९६,
 २०३, २०५, २३६, २८४,
 ३३४, ३४२, ३५२, ३७१,
 ३९०, ४६४, ४६५, ४७२,
 ४८८ (में वक्षु), ४८९,
 ४९४, ४९८, ४९९, ५२२,
 ५२५, ५३९, ५४८, ५५०
 किचकिन—४८४ (नदी)

किचिक खानिम—२९८(छोटीरानी)
 किजिनज़िली—५१६(उज्बेक)
 किज़िल—१७४
 किज़िल अगिर—४८४
 किज़िल अयाक—५५१
 किज़िल अर्बत—४८०, ४८९,
 ४९०, ४९५, ४९९
 किज़िल-ओर्दा—५१८, ५३३
 (पेरोव्स्की), ४३४
 किज़िलकाक—४८१
 किज़िलकिया—५२०
 किज़िलकुम—१७४, १९६,
 ४१५, ४८०, ४८१,
 ४८२, ४८६
 किज़िलजार—४२४
 किज़िल तेप्पे—५२४
 किज़िलपू सइस्सन—३२८(क्षील)
 किज़िलबास—१९१, २०२(शिया)
 २११, ४७२, ४७४(ईरानी)
 किज़िल-बुर्कोव्स्की—५३१
 किज़ी—३८१
 कितकी—४२४
 कितकी कराकल्पक—४२३
 किताई—४८४, ५२९ (कज़ाक)
 किताई किपचक—३२१, ३३९
 किताब—४५६, ४५७
 कित्तु-बुका—७
 कित्तन—४ (राजवंश)
 कि सु—४७७
 किदेरी—४८१
 किन्—५ (चीन)
 किनगिज़—५१५
 किनबर्न—२६३
 किनिर—४८४
 किन्द्रेली—४८४
 किपचक—६, १३, १८(वर्तमान
 कज़ाकस्तान), ३६(सुवर्ण-
 ओर्दू), ४९, ५०, ५२, ५४,
 ५५, ५६, ६०, ९७(मंगोल),
 १२१, १३०, १३१, १३२,
 १४३, १५६, १६५, १९१,

२७५, २८४, ३४३ (जूछि-
 उलुस), ४२७ (तुर्क) ४२९,
 (कज़ाक), ४३१, ४३३,
 ५१४(उज्बेक), ५१६, ५२९
 किपचक ओगलान—१३०, १३१
 किपचक-कज़ाक—४२७
 किपचक खान—१४४(तोकनाइ)
 १४५
 किपचक-तुर्क—२७७
 किपचकभूमि—४१, ५२८
 किबत मिर्जा—३३६
 किबित्का—२८२, ३३८, ४२९
 (=तंबू, परिवार), ४९२,
 ४९४, ४९६
 किबिरली—३१८
 किबेक—६६
 कियार् क—११४
 कियेफ—५ (-रूस), ६, २२
 (विजय), २३, २६, ६२,
 ६३, ७३, ७५, ७७, ७८,
 ८२, ८३, ८४, ८५, ८६,
 ८७, ८८, ९२, १००, १८३,
 २१८, २२९, २३०, २४१,
 २४६, ३७५
 किरकिन—५१५ (उज्बेक)
 किरकिपी—२१७
 किरगिन—१६६, २७१, २७८,
 २८२, २९३, ३०७, ३०८,
 ३१०, ३११, ३१३, ३२४,
 ३२५, ३२६, ३३०, ३३६,
 ३३७, ३४१, ३५८, ३७८,
 ३७९, ४०५, ४२४,
 ४१४, ४१५, ४२७,
 ४३४, ५१७, ५१९, ५२१,
 ५२९, ५३०, ५३४,
 ५३५ (पुराने कबीले),
 ५४४, ५४८ (तारतार
 भाषा)
 किरतास—२०३
 किरदार—५१५ (उज्बेक)

किर-मंगिशालक—२०१
 किरमान—१०४, ४४७ (-शाह)
 किरिलोफ—३४४, ३४५,
 ३५१, ३५२
 किरैइत—५१४ (उज्बेक)
 किरोफ—३९९, ४१४, ५०८
 किर्क—५१४ (उज्बेक)
 किर्गिज-कजाक—३१३, ३३२,
 ३४१, ३४४, ३५३, ५३८
 किर्गिज-जाति—५३६
 किर्गिजिस्तान—१२१, ४०५,
 ४५३, ५३५ (किर्गिजिया),
 ५३८
 किलदीबेग—४२
 किला—१२१, १९०, २०६,
 २११, ४६२
 किला-अफगान—४६१, ४६२
 किलिज नियाजबी—४८४, ४८५
 किशालिक—५१५ (उज्बेक)
 किशिनेफ़—३८३
 किदम—४६२
 किस्लेफ़—१०२
 कीतू-बुगान—१४०
 कीनिन—५४७ (तुर्कमाना)
 कीनिख—५४७ (तुर्कमान)
 कीसलपू-नोर—३२७ (सरोवर)
 कीसिम—१३१
 कुइलवाइन—२९२
 कुइलुक—१३२
 कुइबिशोफ—२३७, २९१, ५०८
 कुउक—५१५ (उज्बेकिस्तान)
 कुइ-सुई—३०२
 कुकचा-तेङ्गिज—२९६
 कुकिलताश—५५
 कुकेर्दलिक—२१०
 कुक्कुरगान—१६५
 कुङ्को—३८९
 कुक्रियान—५२
 कुचुक—१३१, ३१९
 कुचका—९१
 ७८

कुचुम—११०, १२, ११४,
 २८९ (खान), (=कूचुम)
 कुचेई—३०९
 कुजमा—२२४
 कुजदर—५१५ (उज्बेक)
 कुजाश—१९७
 कुतन कुनचेक—५१
 कुतुगाई—१११
 कुतुबुद्दीन—१२५, १४४
 कुतुलुक—५७, ६२, ६४, १४५,
 १५६, ३१० (मुगोलिस्तान)
 कुतुलुकबुगा—४९
 कुतुलुक मुराद—४७०, ४७१,
 ४७७ (खीवा खान)
 कुतुलुग निगार—३०४
 कुतेबेरोफ—३५८
 कुतैसी—३७१
 कुदुक—४८२
 कुनप्रद (कीयेत)—५१६
 (उज्बेक)
 कुनचुकताग—५७
 'कुती'—८६ (चर्म)
 कुनेंगज—५१४ (उज्बेक)
 कुन्दुज—५६, ४६०
 कुपरकी—२००
 कुबकसरी—३२७
 कुबरा—२७
 कुबलुक—४७ (बयलुक)
 कुवान—१२१, २९१, ३३९
 (स्तेपी)
 कुबिले—७, १३, १२१, १२८,
 १२९, १३०, १३१, १३२,
 १३९
 कुबी—४७
 कुबुलुक—४७, ४८
 कुम—१०४
 कुमकंद—२०१
 कुमा—३३९
 कुमासिया—२३
 कुरगान—४५९

कुरगानतेप्पा—४६०
 कुरचाकिश—३१९
 कुरतुगी—५१५ (उज्बेक)
 कुरतुत—३२१
 कुरमीतान—४२४
 कुरसेवे—१३३
 कुरा—६ (काकेशसमें नदी),
 २८, ३३
 ५५, ६१, ७९, १४३, १४६
 कुरान—१४८, १७२, १७९,
 ३४५, ३५२, ४७९
 कुरामा—४३६
 कुरालस—५१४ (उज्बेक)
 कुरी—३२१
 कुरक—१७२
 कुरेन—२०४
 कुरोपत्किन (जेनरल)—३९८,
 ४१५, ५३७
 कुर्द—४५०, ४९०
 कुर्बान बेक—४४८
 कुल—५१५ (उज्बेक)
 कुलअबी—५१५ (उज्बेक)
 कुलक—४०५, ४१४, ५३०
 (धनी किसान)
 कुलजा—१२१
 कुलपति—३९० (रेक्टर)
 कुलफा—४२
 कुलमलिक—१७४
 कुलमुराद—४६९
 कुला धैची—३२६
 कुलाब—५४ (-दर्, =कुल्याब)
 कुलारचोक—११४
 कुलारेप्स्कया—११३
 कुलिकोवो—९८
 कुलिबिन—२६७
 कुली—१५१
 कुलीन—३३१
 कुलेसालार—१८५

कुल्जा—२९५, ३२५
 कुन्दौली—५१५ (उज्बेक)
 कुल्याब—४२६, ४५९(कुलाब),
 ४६१, ५२७
 कुल्लरा—११४
 कुवान—४८०
 कुशवेगी—४२३, ४२६, ४४६
 (प्रधान सेनापति), ४४७,
 ४७४, ४७८, ४८१
 (कोशवेगी)
 कुश्क—३८८, ४९९, ५५१
 कुषाण—४९२, ५४१, ५४८
 कुसल—१५
 कुसान—३०८
 कुसियकबी—४२२
 कुस्सू—३६१
 कुंकुर्त—५३० (=कुंग्राद)
 कुंग्राद—२९२, ४१६ (उज्बेक)
 ४७८ (राजधानी), ४८२,
 ४८४, ५१५, ५१६, ५२६
 (कजाक), ५३०
 कुंचोक—१५३
 कुंजी ओगलान—५६
 कुंजेक—१३३
 कुंजुकबल—१४३
 कुंजीनगर—२५०
 “कुंजुल् मखानी”—१४५
 कुंदुज—१३६, ११७, १४९,
 १६३, १७३, १७४, १८६,
 १८९, ३०९, ४४२
 कुर्देलिंग तार्ईशी—२८२
 कूचा—२९५
 कूची—३१०, ३११
 कूचुकताग—१५१ (लघुपर्वत)
 कूचुनजी—१६६, १६९, १७३,
 १७६, १८३
 कूचुम—११०, ११२, ११४,
 २३५, २७९, २८१, २८९
 (खान), ३१५, ३१७, ३२६,
 ३३८
 कू-चू—५

कूजालिक—५१५ (उज्बेक)
 कू-तन—५
 कूनिश—२०२, ४२९(-कुर्गान),
 ४३०
 कून्ग्रत—२०२ (=कुंकुर्त,
 कुंग्राद)
 कूफ्रा—३१८
 कूफ्री—१५४
 कूबा—३७१, ५१६ (उज्बेक)
 कूबान—३६, ६२
 कूबेक—१४२ (ओलेज)
 कूमिस—२१, २५३
 कूयाशा—१२५ (सूर्य)
 कूयुफा—१२६
 कूरलंड, ड्यूक—२५६
 कूरिल—३७२
 कूरिस्ताई—३, ४, ५ (महा-),
 ७, ८, १४, २१(महासंसद्),
 २९, ३०, १२६, १२७, १३०
 (महापरिषद्), १३३, १३७,
 १३९, १४९, १५०, ३२५
 कूलन—५१६ (उज्बेक)
 कूली खुलाक—४६
 कूलेसालार—१८२
 कूसउली—५१६ (उज्बेक)
 कूसिम-तुरा—११५
 केखहोल्म—१२२
 केगेन—३३१
 केजक—१३०
 केतनेन—३३१ (पहाड़)
 केताक—१०२
 केत्तात्युरा—४५७
 केत्तेकेसर—५१६ (उज्बेक)
 केनिंगेज आइम—४५६
 केनेगुज—५१६ (उज्बेक)
 केनेसरी कासिमोफ़—३७८
 केन्दरलिक—२७९ (नदी)
 केपेक मङ्गुत—४९
 केबदिली—५४७ (तुर्कमान)
 केबेक—१३३, १३४

केरइत—१८
 केरगेदान—११०
 केरमान—१४५, १५७
 केरमारोन—३२
 केरलोन—३२१, ३२९, ३३०,
 ५३० (नदी)
 केरेन्स्की—४१८, ५०३, ५०५
 (समाजवादी क्रांतिकारी),
 ५०६-१०, ५१९-२१,
 ५२५, ५४९ (=करेन्स्की)
 केर्की—५५०-५४ (-कांड)
 केर्कीबेग—५५४
 केर्च—२६०
 केल्मिश—३०
 केलार—३१
 केलायस्त—७३
 केलेमा—३१७
 केशा (=शहरसब्ज)—४९,
 ५४, १३६, १४८, १४९,
 ४५०
 केसलोप—२१८
 कैखुसरो—१५०
 कैगली—५१६ (उज्बेक)
 कैजर—१०७
 कैथलिक—३८, १०१ १३४,
 २३०, ३८० (धर्म)
 कै-दू—१४ (मंगोल खान),
 २३, २४, २९, ४७, १२८,
 १२९, १३०, १३१-३३
 (=काइदू)
 कैदोल—११५
 कैरोली—४५५
 कैरुन—३२१
 कैसर—१०७, ३९७ (जर्मन)
 कोइचरी—३११ (भेड़ोंवाला)
 “कोइतुल”—१०२, १०३
 कोइबिन—३३१
 कोइरिअक—६१, ६२, ६३, ६६
 कोइसुइ—३०१
 कोइसू—३३१

कोक-ओई—१८ (नील-ओई),
४९
कोक-काशाना—१६६
कोकताल—३३१
कोकताश—१२५
(नीलपाषाण)
कोकतुनगुल—५३०
कोकतुनचुई—५३०
कोकतेपे—२९७, (पर्वत) २९८,
५३९ (गांव)
कोकतेरेक—३३१
कोकपताश—४२१
कोकलताश—१८१, १८३, १८६,
३०० (नीलपाषाण), ४८७
कोकशुल—३१९
कोकाजू—१३०
कोकोनोर—३२८, ३२९, ३३२
कोगिलदे—३५९
कोचकर—२९७, ३१०
कोजिन—४६५ (लेगटनेट)
कोजुकोफ—२४७
कोजारस्क—२२
कोतियक—२२
कोतो—२४१, ३७४
(साष्टांग दंडवत्, काउ-
ताउ भी)
कोनिचि—४६, १४४
कोनुंग—७५ (राजकुमार)
कोनुर-उलेन—३१०
कोनोक्लोफ—४१८
कोनोली—४२६, ४५० (अथर),
४७६ (कप्तान)
कोन्या—१४३
कोपी—५२०
कोपेतदाग—४८९, ४९०, ४९२
४९५, ४९९, ५०३
कोपोरथे—११६
कोबलेफ—३८२
कोबुक—१३३
कोदो—३२४ (पश्चिमी

मंगोलिया)
कोमानिया—२६
कोमी—९४, ९८, ५२८
(-गणराज्य)
कोयनिग्मवर्ग—२५८
कोरकान—१४८
कोरचिन—३२९
कोरफू—२६९
कोरिया—३, ५, ३९७, ३९८,
४००
कोरुक—५९ (सूखा)
कोर्ट—४४६ (अंग्रेज चर)
कोर्ट मार्शल—४०२
कोदंक—११४
कोर्निलोफ—५०५, ५०६
(जेनरल), ५०७
कोर्याक—३८, २७१ (=कारिअक)
कोर्निकोफ—३८८
कोलचक—५३४
कोलुमा—२४०
कोलेसोफ—५२५
"कोलोकोल"—३८२ (कलकल)
कोलोम्ना—६
कोन्चकली—३४७ (नदी)
को जोफ—१११, ११२, ३१७
(-मोसात्स्की)
कोल्मोफ—३८२, ३८२ (कवि)
कोवालेव्स्की—४४८ (कप्तान)
कोशकुगनि—४३०
कोशुर—३१९
कोशोत—२१०
कोसका—६४
कोस्त्रोमा—३५, ५१, १०२
(त्वैर)
कोस्मेस—११०
कोस्सागोल—३२१ (श्रील)
कोहक—१५७, १५९ (नदी)
कोहिस्तान—३०४, ४२६, ४५८
कौतू—२५३ (=काउ ताउ)
कौनदी—४८४

कोरदक—३१७
कोरोश—५५४
कन्याज—२२, ३१७
क्याउ-चाउ—३९७
क्याङ्क—४८८ (जंगली गदहा)
क्याङ्क-नान्—५
क्यास्ता—२५५, २५६, २५७,
३८९
क्योरिंग—३५७
क्राइ—५२४ (=प्रवेश)
क्राको—६ (=क्राकोफ), २३,
२६, २७, २१८, २३४,
४१०
क्रांति (१९०५ की)—३९८—
४००
क्रांति-विरोधी—५२२
"क्रामवेल"—३७०
क्रास्नोयास्क—२३८, ३५७,
४०३
क्रास्नोफ—५१० (जेनरल)
क्रास्नोवोदस्क—४६५, ४७२,
४८०, ४८१, ४८३, ४८६,
४८८, ४९४, ४९५, ४९६,
४९९
क्रिम—३०, ८३
क्रिमिया—३६, ३९, ५१, ५६,
६०, ७२, ८३, ९६, १००,
१०१, १०६, १०७, १०९,
११६, १५१, २२५, २३०,
२३१, २३२, २३३, २३५,
२४६, २४७, २४८, २५०,
२५७, २६०, २६१, २६२,
२६३, २८७, ३१८, ३३९,
३४०, ३५४, ३८० (युद्ध),
३६५, ३६८, ३८६, ४५३
क्रुजेन्स्तर्न—३७२, ३७४
क्रैमलिन—३५, ९८ (दुर्ग),
१०५, १०६ (=क्रैमल),
१०९, २१९, २२०, २२४,
३६९, ५१०

खुम्बान (चरमेसभज) — ४९९
 (डांडा)
 खुम्स — १०३
 खुरासान — ६, ५६, १०४,
 १३०, १३३, १४३,
 १४५, १५४, १७३,
 १७६, १९६, १९९,
 २७७, ४४३, ४५०,
 ४६७, ४७२, ४८२,
 ४९१, ४९२, ५३९
 खुर्रमसराय — ४२०
 खुलफा — ४८
 खुलाकू — ३, ६, ७ (हुलाकू),
 ८, २७, २८, २९,
 ३१, ३६, ३८, ४७,
 ५४, १२१, १२७, १३९
 (खुलागू)
 खुल्म — १७९ (खुल्म), १९४,
 ४४९, ४६०
 खुसरो — ७, ११४, १४६
 (अमीर), १६१
 "खुसरो-ब-शीरी" — १६१
 खू-जिन खातून — २०
 "खूनी रविवार" — ३९९, ४००,
 ४१०, ४१२, ४१४, ४१५
 खूरियानी — १५८
 खू-लुग — १४, १५
 खेसॉनिस — ८३
 खैरतुल्-अतरार — १६१
 खैयाम — १३९
 खैर हाफिज — १८३
 खैराबाद — ४९९
 खोकंद — १६३ (फरगाना),
 १८०, ३३६, ३३७,
 ३४७, ३५८, ३६०,
 ३७८, ३७९, ३८७,
 ३८८, ३९४, ४२१,
 ४४०, ४४८, ४५०,
 ४५१, ४५५, ४५९,
 ४७६, ४७७, ४७८,

४८६, ५११, ५१७,
 ५१८, ५१९, ५२०-२३
 (स्वायत्ततावादी), ५२४,
 ५२५, ५२६, ५३५, ५४०,
 ५५०
 खोजकी काशानी — १८३
 खोजंद — २७, ३२, ५६,
 ६७, १२२, १२८,
 १३०, १३८, १४८,
 १५९, १८०, २००,
 २११, २७९, २८०,
 ३०७ (-नदी), ३४३,
 ४२२, ४२५, ४३१,
 ४३२, ४३३, ४३६,
 ४४२, ४४४, ४४७,
 ४५१, ४५५, ५१८
 (=लेनिनाबाद), ५२०
 खोजम्बाज — ५५३ (गांव)
 खोजर — १७४
 खोजा — १४९, १६१, १६६,
 १६९ (-यहिया), १८३,
 २९१, ३३३ (-अहमद),
 ३३६, ३३७ (=संत),
 ४५५, ४६७ (=सैयद)
 खोजा दानियल — ३३२
 खोजा नियोज — ४७७
 खोजा — १७७ (-दीदार), १८३
 (-बहाउद्दीन), २०६ (-कुल),
 ३३२ (-दानियाल), ३३५
 (-यूसुफ)
 खोजार — १७०, १७५
 खोजेइली — ४८४
 "खोजेनिये जा-त्रि-मोर्या" —
 १०१ (अफनासी यात्रा)
 खोतन — १८०, ३६८, ४२५
 खोंदमीर — १६१
 खोव्दा — ३५७ (नदी)
 खोयेत — ३३५
 खोरबात — ७१ (क्रोवात्)
 खोरसोन — ८३ (खोरसुन)

खोरोत — ३२५ (चोरोस)
 खोरोशिन — ४८६
 खोर्तित्सा — २३०
 खोलोपगोरोदक — ३५
 खोल्मोगोरी — २६५
 खोशकुर्गन — ४२९
 खोशोत — १६६, २८२, ३००,
 ३२८, ३३२ (खोसोत्)
 ख्मेल्नित्स्की — २३१
 खिसोवेर्द — ८३
 ख्वाजा — १४३, १५३, १५६,
 ४९८ (=खोजा)
 ख्वारेज्म — १८, २१, २७, ३२,
 ३६, ३८, ४१, ५१, ५३,
 ५४, ५५, ५६, ६४, ६५,
 ६६, ७१, ७४, १४५,
 १५०, १५६, १५७, १५९,
 १६६, १६७, १६८, १७८,
 १८१, १८२, १९०, १९३,
 १९६, २०४, २०९, २१०,
 ३०८, ३१५, ३२५, ३३८,
 ४४२, ४६४, ४६७ (गुलाम-
 मंडी), ४९८, ५३९, ५४८
 ख्वारेज्मशाह — १२५
 गगरिन — ३३३
 गजान — ३१, ३९, ४६ (खान),
 ६४, ६५, १०३ (गजान),
 १३२, १४४ (=गजान)
 गजनी — २८, ४७, ४८
 (गजना), १३४
 "गजा" — ५४४ (=धर्मयुद्ध)
 गजारिन — २५३
 गटफिड प्रेशोरी — २४१
 गत्विना — २६८, ३९० (-बंदी),
 ५१०
 गदुनोफ — ११५, ११६, २३८,
 ३१८
 गन्दन — २८२, ३२९, ३३०,
 ३३१, ३३३ (-छेरिज्ज),
 ३४३, ३४६, ३५९, ३६०

(-कुसिमन), (=गल्दन)
 गपेयेफ़—५२५
 गपोन (पादरी)—३९९
 गफ़फ़ारी—४८, ६४, ६५
 गयतोन—१२७
 गयासुद्दीन—१४६, १५६, १५७,
 १६१
 गरबीन—३२
 गरम—५४६
 गरविलोन—२४४
 गरसरदार—५५२
 गराब—५३९ (गांव)
 "गरोद्निची"—२६२
 गलवाचेफ़—४३६ (जेनरल)
 गल्दन—१६६, ३२८, ३३४
 (गंदन), ३४५ (-छेरिड)
 गलिसिया—३८, २६०, ४१३
 "गसूदर"—१०० (=स्वामी)
 गंगा—४३०, ४९९
 गंधार—१४ (पूर्व-युन्नन्)
 "गाजी"—५४४ (धर्मयोद्धा)
 गाथ—७२
 गालिच—८३ (हालिज),
 ८४, ८८
 गालिच-वोलोहुस्क—९२
 गालित्ज़िन (राजुल)—४६५
 गालित्स—८२
 गाले—५१५ (उज्बेक)
 "गाड़ीवानोंके गीत"—३८४
 "गांवके गरीबोंसे"—३९७
 गिज्दुवान—१७५, २११
 गियाउर—४८९, ४९७,
 (उपत्यका)
 गिरती—२०५
 गिराई—१६७ (-बेग),
 २७७, ३०३
 गिरिदक—४९९
 गिलगित—३११
 गिलियक—२४०, २७१, ३८१
 गिल्ज़ई (अफ़ग़ान)—१९३,

१९४, ४४०
 गिज़्बुर्ग—५२५
 गीलान—१०३ (गेलान)
 गुइउक—२८५
 गुइगुदार—२४२
 गुचकोफ़—४१८, ४१९
 गुज़ार—१७२, ५२६
 गुर्बनिया (=प्रदेश)—२५१,
 २६२, ३७०, ४०४, ४३२,
 ५०३, ५१२
 गु-युक—२६
 गुयेदिक—४७५
 गुरज़ोफ़—१०४
 गुरलान—४८४
 गुरलेत—५१५ (उज्बेक)
 गुरियेफ़—४६५
 गुर्जिस्तान—३३ (जार्जिया),
 १४४
 गुर्जी (जार्जिया)—६, ६०,
 ९२, १४५, १८१, १९२,
 २५१, २७१, २७२, ३६९,
 ३७१, ३९५, ३९९, ४०५,
 ४७२, ५१२
 गुर्लिन्स्क—३५१
 गुलबाग—४२५
 गुलाम—४९१
 "गुलामान"—४९३
 "गुलिस्तां"—४१, १४३
 गुलिस्तान-संधि—३७२
 गुज़—२०७, ४८९ (तुर्कमान)
 गूनिब—३७७, ३७८
 गूनेजी ओगलान—५६
 गूरगान—१४८, ४२०
 (कूरकान), ४७०, ४८९
 (नदी), ४९०
 गू-युग—६, १३१ (गूयुक)
 गूशी (गूश्री)—३२८
 गेगेन्—१५
 गेदोई—५१५ (उज्बेक)
 "गेनरलिस्सिमो"—२७०

(महा-महासेनापति)
 गेनांदी—१०२
 गेनोवा—११, ३५, ३६
 (गेनोआ), ३९
 गेरेतू—३२४
 गेरेबाल—३२४
 गेरेसंजा—३२४
 गेर्विलोन—३२९
 गेलन—१९२
 गेलेसिया—३९ (=गिलि-
 सिया)
 गैसातू—१४४
 गैरतशाह—५४५
 गैरमुत्की—१२९
 गैरिसन (छावनी)—५२४,
 ५५२
 गोकलान—२००, ४७२, ४९०,
 ४९४, ५४७ (तुर्कमान)
 गोगलन—३८४, ३९२
 गोनजालेज़—१५२, १५३
 गोबी—३४२
 गोयेज़—३१३
 "गोयेबेन"—४१३
 गोरदेत्स—६३
 गोरलाने—२९२
 गोरलोब्का—४०३
 गोरियान—१७६, १८१
 गोरिल्ला-युद्ध—२२१
 गोरी—१७६, १७९, ४६०
 "गोरे-अमीर"—१५४
 गोरेलोफ़—५२५
 गोर्का—९२, २६७, ३९६,
 ४१७, ४४६
 गोर्डेन—२४६, २४९
 गोर्दयेफ़—२९१
 गोर्लिच—४१३
 गोलिस्सिन—२४६, २५६
 गोलोफ़—४८१
 गोलोवात्सोफ़—४८१ (जेनरल)
 गोलोविन—२३९

गोलोष्किन—३७४
 गौहरशाद—१५७, १६०
 ग्नेजदा—९२ (कुलाय, धोसला)
 ग्योक्तेपे—३८८, ४९३, ४९५,
 ४९७
 ग्रह-कक्षा—१५८
 ग्रानोवितया प्लाता—१०५
 ग्रिगोरी—१०, ११०, २१८
 (ग्रेगरी)
 ग्रिवोयदेफ—३८२, ३८३ (कवि)
 ग्रिवना—८५
 ग्रीक—३६, ५३, ७४, ७८-७९
 (-अग्नि), ८२ (पूर्वी रोम),
 १०५, २२९, २४०
 ग्रीक चर्च—३४, ८३, २३०,
 २५९
 ग्रीपस—१५८
 ग्रोबेत्स्क—४६५
 ग्रीस—३९, ८३, ४११
 ग्रोज्नी—१०९ (क्रूर)
 ग्रोद्नो—४१३
 ग्रोसा—१११
 ग्लादिदयेफ—२९१, २९२,
 ४६७
 गिलनका—३८४, ३८५
 गिलन्स्की—१०७
 गिलन्स्कया—१०७
 ग्लब—८४
 ग्वोडदेफ—२५६
 घग्घर—१४१
 घटना-लेखक—१५६ (=वका-
 यानवीन)
 चगताइ—१४ (खान), १७,
 ३२, ४९, ५६, १०३, १०४,
 १२१ (-वंश), १२२, १२४,
 १२५ (खान), १२७, १३०,
 १३३ (-उलूम), १३७, १६१,
 १६२, १७४, २७८, २९३,
 २९५, ३१२, ३१३, ५४८
 (तुर्की भाषा)

चगन—५४३ (गांव)
 चगान खान—२६४ (छवैत राजा),
 चगानतारा (एखे=वेत
 तारा)
 चचकली—५१६ (उज्बेक)
 चंदी—४७१, ४७८ (तुर्कमान)
 चपकुल—५२०
 चपची—५१४ (उज्बेक)
 चपराच—१३०
 चपलेती—५१४ (उज्बेक)
 चर्बी—३०, ३१
 चमगल—३१७
 चभन—४९९
 चरधा—४९३ (अग्नीवासी
 तुर्कमान)
 चरापेन—३४१
 चर्चिल—५२५, ५२६
 "चरमये कँज"—१४५
 चश्मी—२०८
 चहार देह—१९९
 चहार-राह—१६९, १७०
 चाड—१४१
 चाउ-हाइ—३३६ (जेनरल)
 चाउ-हो-येइ—४२१
 चाइ-काइ-शोक—१२
 चाइ-तू—५
 चाइ-ते—१२८
 चागन—५ (चगन)
 चागा—१३२
 चागकय—१३९, ३२६
 चाता—३१८
 चादिरकुल—२९८, ३१०
 चापर—१४, ४७, १३२, १३३
 चापरगिर—२९७
 चाबुकोफ—३१६
 चारजूय—१९३, २११, ४४२,
 ४५६, ४५८, ४६७, ४६८,
 ४७३, ४९५, ४९९, ५२०,
 ५५०, ५५३ (चारजूइ)
 चारबेकर—४६७

चारयक—४३३
 चारिन—३००, ३३१
 चारनचलाक—३०८
 चार्ल्स—२२२, २३४, २४९,
 २५०
 चार्लोत—३७४
 चालिश—२९८, ३०४, ३०८
 (कराशर)
 चिकिसलर—४८१, ४९५
 चिङ्ग-गिस्—६५, ४६०, ४६४
 (छिङ्ग-गिस्)
 चिङ्ग-साङ्ग—१६६ (उपराज)
 चिङ्गकला—३९३
 चित्राल—४६०, ४६२ (-मेहतर)
 चिन्नरन—४४३
 चिनास—१४९
 चिमकन—४२८, ४२९, ४३२,
 ४३५, ४५१, ४६०,
 ५३०, ५३६
 चिमकुगान—४२९, ४३०
 चिमताई—४२, ४८
 चियान-लुङ्ग—३४७
 चि-येन-लुङ्ग—३३४
 चिर—१६६, १६८
 चिरचिक—१६८, ४२८ (नदी)
 चिरागकुश—३०४ (दीपबुझाव
 सम्प्रदाय)
 चिरागची—४५७
 चिलकेस—५१५ (उज्बेक)
 चिलिक—३१७ (झील), ३३१
 (-उपत्यका)
 चिह काका—५४३
 चिहक-दरा—५४४, ५४५
 चिगीज—३११, ३१६, ४६९
 (खान), ४८८ (छिङ्ग-गिस्)
 चीचक—५१४ (उज्बेक)
 चीचिहार—२५३
 चीता—४०३
 चीन—३, ९, १६, ३८, ७१,
 ७५, १०३, १२१, १३३,

१४५, १८३, २४०,
 २४१, २५४, २६३,
 २६४, २७३, ३२२,
 ३२४, ३२७, ३४१,
 ३४७, ३४८ (-भाषा),
 ३८९, ३९७, ३९८,
 ४०८ (-क्रांति), ४२१
 (-समाप्त,) ४२५, ४९८, ५३७
 चीन-रूस-संघि- -३९०
 "चीनीखाना" - १५८
 चीनी तुर्किस्तान - ४२४
 चुकची - २७१
 चुकोत्स्क - २५६, ३७३
 चुपसुन तन्वा - ३१८ (जे-चुन-
 तन्-पा), उर्गाका लामा
 चुबुरगान - ५१५ (उज्बेक)
 चीमिर - ५३०
 चुरान - ५१५ (उज्बेक)
 चुरिगेइ - ३६१
 चुलपान - ५६ (मलिक)
 चुल्लिक - ५१५ (उज्बेक)
 चुवाक - ३१५
 चुवाद - १३०
 चुवाश - ७१, १०७, ११२,
 २२०, २३४, २३७, ३१६,
 ३७२, ४०१
 चु-सिमा - ९, ४०० (चूशिमा)
 चुसोवया - १०९, ११०
 चू - १२५, १२८, १३२,
 १४१, २७५, ३००, ३०९,
 ३७९ (-उपत्यका), ४३२,
 ५३०, ५३५ (-नदी)
 चूकी - ३३४
 चूके - ३३१
 चूचेलैई - ३१९
 चुनिपचू - २४३
 चूबावोफ - ३१९
 चूमिश - ३२६
 चू-चाङ्ग - १६
 चूलाक - ४२७, ४२८
 चूलिम्स्कोये - ११३

चेक - २४
 चेकली - ४७१
 चेका - ४३३
 चेकोव्स्की (संगीतकार) - ३९६
 चेखोफ - ३०६
 चोगेन - ३३४
 चेचन - ३७७
 चे-ताइ - ३३०
 चेन्-डू - ११ (संदा)
 चेबरी - ५४८ (तुर्कमान)
 चेरकास - २२ (राजा), ३३,
 ३९, ४२ (बेग) ५६, १४५,
 २०९, ३१७, ३३९
 चेरदिन - ११३
 चेरमिस - ११०
 चेरें सन्लुप - ३११ (छे-
 रिङ्गसम्-डुप.)
 चेरमिसी - २२१, २३४
 चैन्यियेफ - ३८६, ३८७
 चेर्चीबाशी - ४३४
 चेर्नीक्लोबुक - ८२ (करा-
 कल्पक)
 चेनिगोफ - ७२, ८४, ८६, ८८,
 ९१, १००, २२५, ३७५
 (=चेरनीगोफ)
 चेनियेफ - ३८६, ३८७
 (चैन्यियेफ), ४३२,
 ४५१
 चेर्नीशेव्स्की - ३८५, ३८६, ३८७
 चेलखान - ९७
 चेलियाविन्स्क - ३४९
 चोका - ३४९
 चोगा - ७९
 चोकायेफ - ५२१ (मुस्तफा)
 चोर्सी हाई - ३३१ (गंदन-
 पुत्री)
 चोपचाक - ५४६ (गांव)
 चोपान-अता - १५८
 चोबान - ३३, ३९, १४५,
 १४७, १५०

चोमरी - ४९३ (घु।न्तू तुर्क-
 मान)
 चोरोस - ३००
 चोनिये - ९४
 चोयान - २७९
 चौदार - ५४७ (तुर्कमान)
 च्यान-लुङ्ग - ४२१ (=चियान-
 लुङ्ग)
 ज्वाङ्ग-चिन्-वाङ्ग - ३३६
 छगदोर - ३२९
 छङ्ग-अन् - ५ (सि-यन-फू,
 शेन्सीमों)
 छ-नगर - ३३३
 छलनी - १२२
 छिङ्ग-गिम् - ३, १०, १३, ३२,
 ४०, ५४, ५८, १२१, १२६,
 १३७, १३९, १४०, १४४,
 १४८, १५३, १६३, १६६,
 १७७, १८०, १९६, २००,
 २८०, ३००, ३०९, ३३०,
 ३५८, ४२०, ४३९, ४७०
 (=चिगीङ्ग)
 छ-मिश - ३२४
 छेरतन परजोर - ३३१
 छेरिङ्ग-बोण्डुब् - ३३१ (=दीर्घायु
 सिद्धार्थ, ०ममडुब्), ३३३,
 ३३४, ३३५
 छेवङ्ग-अर्पचन - २८२, ३२९
 (=अवर्तन्), ३३०, ३४०
 (-रब्तन), ३३१, ३५३
 (=दोर्जे)
 जकात (=शुल्क) - ४२९, ४३३
 जगताइ - ८, ५३, १२१, ५१६
 (उज्बेक)
 जगात - १४२, १४३
 जज्जीरत् - ८ (मेसोपोतामिया)
 जदीद - ४५३, ५२६ (नवी-
 नतावादी)
 जहा - १०३
 जन-कमीसर - ५१०, ५११,

५२३, ५२५ (मंत्री)	४०८, ४११, ४१२, ५०३,	जाते—१४८
जनतंत्रता—३५१	५०४, ५०५, ५०७	जादरूम—१५७
“जनता संकल्प”—३८७	जलाना—८० (मुद्दि-)	“जा-दुनाइस्की”—२६० (दम्यु- बवाला)
“जनतांत्रिक समाजवादी पार्टी” —५०४ (कम्युनिस्ट पार्टी, बोत्शेविक)	जलयर—१४७, १४८, १५० (=जलैर)	जान—६४
जनदूत—१३९	जलाल—१५६	जान मुराद—४७१
जनयुग—८३ (कवी-आवाही), ८५	जलालुद्दीन—६४, ६५, १४३, १६५	जानिवेग—३८, ४०, १६६, १६७, १७३, १७९, १८५, ३०३, ३०९, ५३० (-वेग)
जनवादी—३८७	जलियांवाला बाग—३९९	जापान—८, ९, १४०, ३७२, ३९७, ३९८, ४०० (संधि), ४०६, ४०७, ४१० (-युद्ध) ४१२),
जनसमाजवादी दल—४१८	जलील—१५७	जापोरोज्ये—२२१, २३०, २३१ (=जापरोजे)
जनसीज (गुप्तचर)—७७८	जलैरताह—१३१	जापोरोशियान—३९
जनेवा—३९३ (स्त्रीजल्लेण्ड)	जलैर—५१४ (उज्वेक), ५३० (का का, उज्वेक)	जाबत्—१०, १०३ (जावा)
जब्बा—४९४ (चोंगा)	जवात—१३१	जाम—१७७, १८१
जब्बारबदी—६५, ६६, ३०७, ३०८ (-बर्दी)	जम्मकतु खान—३२१	जामा मस्जिद—४५३
जमजम—१८०	जहाद (=धर्मयु) —३४७, ५२१, ५२६, ५३६	जामी—१६१, १६३
जमशबर—३२	जहादी—४४३ (=धर्मयोद्धा)	जामुकशिर—४८३
जमशेद—१५७, ३१३ (जमशेद), ३७६ (ईरानी)	जहानशाह—१०४	“जामे उत तवारीख”—२६, १४५
जानानसरतोफ—५३७	जहागीर—५३, ५४, १५०, १५५, १८७, १८८, १८९, २०६, २९७	“जामेजम”—१४६
जनायतुल्लेना—५१७	जहांगीर खांजा ४२४	जामोस्तये—२३२
जनाल—१२९	जहांगीर—१५८ (बाबर)	जायित्सेफ—५२५
जनालुद्दीन मिताजी—१३८	जंगली ऊंट—३००	जार—१०७, १८८, २०६, २१७, २३३, २३४, २५५, २५६, २८१, ३९९, ४५२
जमीन—१८०, १८२, १८३	जर्गी अना—३६	जारकंद—५३३, ५३७
जम्बुल—५२८, ५३० (=भीलियाअता), ५३४	जजौरा—१४१	जारग्राद—७९ (राजनगरी)
जरगजान—३३१	जंद—८८	जारशाही—५१४
जरफशा—१३१, १४१ (मोह्य), १७५, ४५२, ४५७, ४९९, ५३५, ५३९	जाइन्जेन्की—३८५	जारिना—४१६, ४१७ (=जारपत्नी)
जरलिया—२९२	जाइमन—२३५, ३२५	जारितिसन—२३६, २६२, २८८ (=स्तालिनग्राद)
जरनाद—४९१	जा उल्दुर—५४८ (तुर्कमान)	जारुत्स्की—२२३, २२५
जर्मन—३८, ९४, १००, १०९, २२२, २४०, २५६, २७०, ३४० (-उपनिवेश), ३६८, ३७२ (-प्रवासी), ३९२ (भाषा), ३९६	जाक्रास्पी—५४९ (पारेकास्पि- यन)	जार्ज—२१, २२, ३४
जर्मनी—२३, २४, ३९, ७४, ३६६ (बवेरिया), ४०६,	जागन नोमेन—३२६	जजिया—६२, १०३, २६३,
७९	जागिलो—९८	
	जाता—३१२ (सीमांती)	
	जाति-व्यवस्था—१२	
	‘जातिक सदन’—५१३ (सोवियत)	
	जातियोका अधिकार—५११	

४४३, ४४६ (गुर्जी)
 जार्कोयोसेलो—३८३, ४१७,
 ५१० (=पुश्किन)
 जाल—१५३
 जालेस्की—६३
 जावा—१० (=जावत्), १०३
 जासी—२९७
 ज़ास्लाव्स्की—३९१
 ज़ाहिरुफ—५५३ (कराउल
 बेगी)
 जिगित—४९२ (=बहादुर)
 “जिजे इलखनी”—१४२
 (इलखानी नक्षत्र-सूचि)
 “जिजे-उलुगबेग”—१५८
 (उलुगबेगी नक्षत्र-सूचि)
 जिद—५१४ (उज्बेक)
 जिप्सी—४३३ (=रोमनी,
 सिगान्)
 जिमावेइएफ—२६१
 जिम्बल—३३४
 जिरियानी—१११
 जिलॉन्गिग—२७९
 “जिबो नचालनथा त्रोइत्जा”—
 १०२ (जीवन-प्रदायक
 त्रिमूर्ति)
 जिगिस—३४९ (=छिङ्गिस,
 चिंगीज)
 जीजक—१६६, १६९, १७१,
 १८०, ४१५, ४२४, ४२६,
 ४३१, ४३२, ४४३, ४५२,
 ४५५, ८८१, ५२०, ५२४,
 ५२५
 जीतीकेंद—३०३
 जीयाकुलोफ—५३३
 जीलानउति—१८०
 जीवा—७३
 जुइरेत—५१५ (उज्बेक)
 जुगमले—३१०
 जुगश्विली—३९५ (स्तालिन)
 जुजजानी—२०, २७

जुज़िली—५१६ (उज्बेक)
 जुवान—५४४
 जुबेनी—१२८, १३१ (जुवैनी)
 जुरज़ान—२०३
 जुराकूल तोकसाबा—५३३
 (मुल्ला)
 जुरावयेफ—५१९
 जुरा बेक—४५७
 जुल्फा—५५४
 जुलियन—२१, १५२ (-पंचांग)
 जुलून—५१४ (उज्बेक)
 जुल्फिकार—४९८ (डांडा)
 जुवाल्दर—५४८ (तुर्कमान)
 जुंगर (कल्मक वाम-उल)—
 २६३, ३२५, ३२६, ३२८,
 ३३२, ३३३ (वंश), ३३४
 (-सेना), ३३६, ३३७, ३४३,
 ३४४, ३४५, ३४६, ३४७,
 ३४८, ३५०, ३५२, ३५९,
 ३६०, ४२०, ४२२
 जुंगारिया—२३५, २८२,
 २९१, २९६, ३१९, ३२८
 (कल्मक-भूमि), ३२९,
 ३३४, ५३०
 जूके—३०
 जूकोव्स्की—४१२
 जूजी—३९ (=जूछी, तूशी),
 जूजीबुका—३१५
 जू-छि—१७, १८ (=पंथक),
 ३९, ४३ (-वंश), ४५
 (तू-शी), ४९, ५१, ५४,
 ६९, १२१, १२२, १२८,
 १२९।-उलुस), १३२, १६२,
 १६५, १८५, १९६, २७७,
 ३०३, ३१५ (जूजी मी)
 जूमा—५२४
 जूमान—५३९ (गांव)
 जूयुत—५१४ (उज्बेक)
 जूयुत (चिल)—५१४ (उज्बेक)
 जूयेबार—२११

जूलेक—४२९
 जूलेगन—५१५ (उज्बेक)
 जेगुर—२०५
 जेखात्—४७
 जेइ गिन कुर्जी—१२४
 जेचुन तम्पा—३२९ (उर्गा लामा)
 जेजेह—१९९
 जेते—१४९, १५०, १६९
 (मुगोलिस्तान खानकी
 सेना), २९६
 जेनेवा—४०२
 जेन्किन्सन—२०५, २०६,
 २८७, ३१३
 जेद—२७
 जेबक—४६२
 जेवनी—५४८ (तुर्कमान)
 “जेम्ला-इ-वोत्या”—३८७
 जेम्स्की सबोर—१०८, ११६,
 २१७, २१९, २२४, २२६
 (राष्ट्रीय सभा), २२८,
 २३३
 जेम्सुचिना—१०८ १०९
 जेम्स वाट—२६७
 जेया—२३९, २४०, ३८८,
 ३८९
 जेरेवो गोरोद्वी—११५
 जेरेभिया—११६
 जेजिन्स्की—४१७
 “जेल-जामे-उत्तवारीख”—३२
 जेलेर—५१६ (उज्बेक)
 जेताउल मामित—४८४
 जेसुइत—३२९ (ईसाई)
 जेंकिश—१३५ (जिकशी),
 १३६
 जेंकिन्स—१९०
 जेंक्रिया—२८६
 जेंगिर-सराय—५५
 जोइ-सान् ताउ-फू—१२५
 जोकी—६८
 जोचोकवालिक्—१३२

जोरकुल--४९८ (विनटोरिया झील)	४१, ४३, ५४, १०४, १३९, १४१, १४४, १५०,	१३०, १३२, १३३, १८०, २७८, २७९,
जोहरा--१८५, १८७ (-वान्)	४४६, ५५४ (=तबीज)	२४९, ४३२, ५३५
जोहाब--३१३	नब्रोल--५१, २३४, ३१७,	(नदी)
जदानोफ--४१४, ५०८	३१८	तलिकू--१३३
ज्योतिषशास्त्र--२६५	नब्रोल्सक--११२, २१९	तल्लिन--१०८
ज्वालामार्ग--१०३	नमगाज चुरा--२०१	तलेउ--५१५ (उज्बेक)
ज्वेज्दा--४०९ (सितागा)	नमगीर--५४८ (तुर्कमान)	तलेउ बेदिन--५३७
ज्वेनीगोरद--५२, ९६	नभता--६	तववकल खान--१८०, २७९, ३२४, ३२५, ३५०
ज्वोइकोफ--३८८	नमदी--४८१	तवाची--५६
ज्वोरोफ--२३२	नमन--८४	"तवारीखे-नासिरी"--२०
टर्की--१७७	नवाताफन--३०	तवील-दरा--५४४, ५४६
टाडा(मेजर)--४७४, ४७५, ४७६	नमूतरकान--८४	तस्ली-यामिश--२०७
टामस हाइड--१५८	नम्मेरफॉर्म--४०२	तहमास्प--१७६, १७७, १७८, १८१, १८३, २००, २०२
टिमरमान--२४७	तरकू--३०	(शाह-)
टुलकू--३४० (अवतारी)	तरखन--५९, २३४, ३१६	तंका--४३३ (=छ आना), ४७८ (=तंगा)
टेम्स--२४८	(नखन-राजकुमार)	तंगिदीवान--१९२
डच--२४०	तरखन्फाये ओस्त्रोग--३१४	तंगुत--३, ३३१ (अम्बू)
डन्जिग--२६०	तरतू--८४	तंतसीला--३३१
डेनमार्क--१०८, २५६	तरनाफ--४१३	ताइ-चुङ--४ (मंगोल)
डेन्स्टरविल--५५४ (जेनरल)	तरवगताई--२९७	ताइगा--२७१
डेप्टफर्ड--२४८	तरतू--२९	ताइ-न्याउ--८ (धर्मशाला)
डोम--२०३, ४३३ (रोमनी, फिप्सी)	तरस--४६, १२७	"ताइ-युवान्-त्तोङ-शी--१५ (मंगोल-महाविधान)
ड्रेडनाट--४११	तराननिन--२९६	ताइ-चू--३२४
ड्रेसडन--३६८	तरानचिन्स्की--२९६	ताउ--१२
तकफीर--३७ (सम्राट)	तरगिम--१२४, १४१	ताउरा-अतलस--२९७
तकमक अता--४८४ (टीप)	तरी-उइगुर--५२९ (कजाक)	तागबुई--१९९, २०३
तकात--१०४	तरुण कम्युनिस्ट कांग्रेस-५३३	ताज--५१६ (उज्बेक), ५२९
तख्तबाजार--५५१, ५५३	तरुण तुर्क--४०७, ४०८	ताजन्द--४८८, ४९० (उप- त्यका)
तख्त-सुलेमान--८३१	तख्तन जारुकतू--३३४	ताजमहल--१५७
तगनरोग--३६५, ३७४ (तगनरक)	तर्गत कलमक--२५३	ताजिक--५६ (=सर्त), १३५, १९४, ३०५, ३७८, ४२७, ५१७, ५३६, ५३९ (सोगदी), ५४४
तगिल--१११	तर्तुगू--५१६ (उज्बेक)	ताजिकिस्तान--१२१, १७१,
तखलर (कजाक)--५२९	तर्मा छेरिङ--२० (=तरमा शेरिन), १३४, १३५	
तजीमारी--३०	तलजियान--४९	
तनजुर--१३ (शास्त्रानुवाद)	तलतंगा--३४६ (जेनरल)	
तनाव (भूकर)--४३३	तलदिक--४८०	
तबी नूस--४८१	तलदी बुलाक--५३७	
तब्रेज--३२, ३३, ३९, ४०,	तलस--२६ (तरस), १२७,	

३०६, ४५३, ४५८,	तानोपोल--५०५	तिब्बती--१५३
५१७, ५२७ (पू०	तालिकान--१३१, १७९, ४६०,	तिखविन--२६५
बुखारा), ५३९, ५४०,	४६२	तिफलिस--२८, ३९६, ४८०
५४१ (-गणराज्य)	तालिश--१४५	तिम्बत--७-९, १६, १३५,
तजिकी--५३९ (भाषा, फारसी)	ताले--३२४	३०९ (लदाख), ३१३,
ताजुद्दीन--१३८	ताल्की--३२८ (डाहा)	३२७, ३२८, ३३३
तातातुगा--१२२	तावदा--१११, ११३, ११४	(हस्तलेख), ३३४ (भाषा)
तातार--२३४ (तारतार),	ता--५२५	३४० (यिबोत)
२३७, २९८, ५१८,	ताशकंद--५५, ५७, १३२,	तिमिरियाजोफ--३९२
(मंगोलायित) ५१९,	१४९, १५०, १५९,	तिमुर कब्रक--४८१
ततिश्चेक--३४५	१६१, १७१, १७२,	तिमोवियोज--११०, ५४२,
तातीशेफ--३५२	१७६, १७४, १७८,	(कर्नल)
तान--३०	१८०, १८२, २०९,	तियान्सिन--३८९
ताना--३८	२७८, २८०, २८१,	तिर्किश--५१६ (उज्बेक)
तानिसेफ--३५२, ५२२	२९१, ३०२, ३०५,	तिर्म--५१६ (उज्बेक)
ताबिन--५१५ (उज्बेक)	३०७, ३२४, ३२५,	तिला--४३३, ४७८ (मिक्का)
तामा--५१५ (उज्बेक)	३३१, ३४३, ३४७,	तिलुजित--३६७, ३७०
ताम्र-युग--५२९	३४८, ३४९, ३५०,	तिसिया--७२
तायगा--९४ (=ताइगा)	३५१, ३५९, ३६०,	तीकासगरुत्कू--३०५
तायनखान--३२१, ३२२, ३२४,	३७८, ३८७, ४१५,	तीबेची--२००
३२५	४२०, ४२२, ४२३,	तुईरुवाजा--४९
तारतार--२४, ५१, ९३ (मंगोल,	४२८, ४३९, ४४४,	तुकातेमुर--२०, ४९
तुर्क,) १६७, २२४, २८४,	४५२, ४५५, ४८१,	तुकान--२२
३१६, ३६८, ३७२,	४८६, ५११, ५१७,	तुकाबेक--३१५
४०१, ५१२, ५१५	५१८, ५१९, ५२१,	तुकाल--१४३
(उज्बेक), ५१८ (मंगो-	५२२, ५२३, ५२४,	तुखार--४४२, ५१६ (देश)
लिया), ५१९, ५४८ (भाषा)	५२५, ५३०, ५३३,	तुखारिस्तान--१९१
तारतारी--३८१ (-खाड़ी),	५३७, ५३८, ५४४,	तुगराई--१४५
५४८ (चगतार्ड तुर्की)	५४९, ५५३	तुगलक--२०, १३४, १३५,
तारा--३१७ (नगर) ३१९,	ताश-कुपुरुक--२०८	१४८, १४९
३२६, ३३३	ताशकुर्गनि--४२९	तुगलक तेमूर--१३७
ताराब--१२२	ताशकंपरी--५५१	तुगाई--१४८, ४२२, ४२३
"तारीखेगुज़ीदा"--१४६	ताश तेमूर--२९६	तुगावार--२८
"तारीख मुकीभखानी"--१९०	ताशदकान--११४	तुगाशी--१२६, १२७
"तारीख रशीदी"--१७३, १७५,	"ताश-रबाद"--२९९	तुगुम--३६१
२९९, ३०२, ३०८	तासबुगा--३४ (ताशबेग)	तुङ-कुङ-जुङ-फू--७ (शेन्सी)
"तारीख वस्माफ"--१४६	ताहिर खान--३२४, ४६८	तुङ-गुस्--२७१
"तारीख शेख-उबेस"--२७, ३९	ताहिरी--१६३	तुजक--१५४
"तारीख हैदरी"--३१	ताहुरे--३२४ (=उलान-	"तुजक-जहांगीरी--१६३"
तारूम--१०३	बातुर)	तुजुकात--१४९
	तिउल--३५९	

- “तृजुकात-तेभूर”--१४८
 तुतार--२८ (ततार)
 तुतबेगा--२७
 तुदा-मड-गू--२९
 तुपकारा--५१५ (उज्वेक)
 तुवेदा--११४
 तुथाई--५१४ (उज्वेक)
 तुमान--३०, ६३, ४४५
 तमूलाइ--५ (मंगोल)
 तमेत--३२१
 तुमेनेत--२२७
 तुरका--१४८
 तुरखन--१११
 तुरगाड--१३७, १८८, ३४१,
 ३५८, ४१५, ५३१, ५३२
 तुरगुत--२६८, ४५७, ४५८
 (मंगोल)
 तुरतेस--११४
 तुरसुन--१८७, २०९, २८१,
 ३४५ (खान)
 तुसा--१११, १५४, १७६, २८०,
 ३०० (=यासाक, यास्ता),
 ३१६, ३१७, ३२१, ३२८,
 ४३५ (-कुर्गान)
 “तुराबी”--१८७, १८८
 तुरा मुराद--४७२
 तुराश--३१७
 तुरा सूफी--४६९, ४७०, ४७१
 तुरी--३१
 तुरे कुगुलुक--२९
 तुरेक्की--७३
 तुरोफ-पिन्स्क--८८
 तुर्क--५६, ७१, १००, १०२,
 १०५, ११६, १६१,
 १७२, २८४, ४६८ (-जाति),
 ५१७, ५२६, ५२९,
 ५३६, ५४१, ५४२,
 ५४८ (-भाषा), ५४९
 तुर्कमानि--५४, ५५, १५८,
 १६४, १७५, १७६
 (इस्माईलके सैनिक), २००,
 २०३, २०४, २०५,
 २०७, २०९, २८७,
 ३२१, ३३८, ३४८,
 ३४९, ३५५, ३५७,
 ३७८, ३८८, ४१५, ४५०
 ४६३, ४६७, ४७०, ४७१
 (तेक्के, यामूद, सलार,
 चंदोर, अमीरअली, बूजजी,
 कंकुरत कंकली, मंगित),
 ४८३, ४८४, ४८६, ४८८,
 ४८९ (-कबीले, -बूज, आगूज)
 ४८९-९३ (तेक्के, सारिक,
 सलोर), ४९४ (-रूससे
 युद्ध), ४९३ (पोशाक),
 रूपरेखा), ५१५ (उज्वेक),
 ५१७, ५४७ (कबीले),
 ५४८ (जाति-निर्माण
 चगताई तुर्की), ५४९
 ५५३, ५५५
 तुर्कमानिया--५४९
 तुर्कमानिस्तान--१२१, ४५३,
 ४८९, ४९७ (गणराज्य)
 ५१९, ५२१, ५४७, ५५०
 तुर्कमानी--५५२ (भाषा)
 तुर्क-वंश--१७२
 तुर्किस्तान--३७, ३८, ५७,
 १२१, १२८, १३४
 (पूर्वी), १४१, १६५,
 १६६, १६८, १६९,
 १७४, १८०, २६१,
 २७७ (सिर-उपत्यका),
 २७८, २८०, ३०२,
 ३०४, ३४८, ३५०,
 ३७८, ४३२, ४४२,
 ४५१, ४७९, ५११
 (-सोवियत सरकार), ५१२
 (-गणराज्य), ५१७, ५१९,
 ५२०, ५२७, ५३४, ५५२
 तुर्किस्तान कमेटी--५१७, ५१८
 तुर्किस्तान प्रदेश--३०४ (सिर-
 दरिया)- ४३५, ५३६,
 ४५२ (गुबनिया), ५५०
 तुर्किस्तान शहर--१८२, २७५,
 २८२, ३१०, ३३१, ३२५
 (निम्न सिर-उपत्यकामें),
 ३४३, ३४५, ३५३, ३६०,
 ४२०, ४२३, ४२९, ४३२,
 ४८१, ५२८, ५३०-३४
 तुर्की--८२, १००, १०३, १५४
 १५९, १८३ (भाषा),
 २०३, २२०, २२६, २३१,
 २३३, २४७, २४८, २४९,
 २५०, २५१, २५७, २५९,
 २६०, २६४, २६९, ३४०,
 ३५६, ३६७, ३६८, ३७१,
 ३८६, ४०६, ४१२, ४५०,
 ४९५ (युद्ध), ५२६
 (सुल्तान), ५४३, ५४५, ५४९
 तुर्गनेक--३९२
 तुर्तकारा--४७१
 तुर्फान--२९७ (तुरफान), ३००,
 ३०२, ३०४, ३०८, ३०९,
 ३१०, ३१३, ३२८, ३३०,
 ३३१, ३३२, ४२५
 तुलचिन--३७३
 तुलचिन्स्की--४१०
 तुलसी--२६६
 तुला--५ (मंगोलियामें नदी),
 २२१, २३५, ३२१, ३३०, ३८१
 तुलार--११३
 तुलिशिन--२६४
 तुलीख्वाजा--४९
 “तुलुगमेह”--१७१
 तुशिने--२२१, २२२ (चुशिमा)
 “तुशिनी जार”--२२१
 तुशियेतू--३२८
 तुंगर--३८१
 तुंगान--५३७ (चीनी
 मुसलमान)

तुंगुत्—१२ (अम्दू)	तेपियर—३५४	तेवकेलेत—३५१
तुंगुस—२३९, ५४८ (मंचू भाषा)	तेबेन्दा—११४	तेवल—२८४
तंद्गा-क्षेत्र—९४	तेमिर—५३०	तेहरान—१५७, १८१, ४९२
तुक—२०६	तेमिरलिक—३३४	तेंगरी—५
तूके किला—२०७	तेमूर—५०, ५४, ५५, ५६, ५७, १००, १२१, १२९, १३१, १३४, १४५, १४८, १४९, १५३, ४४७	तैलम्बार—५६
तूकेराबाद—१७३	तेमूर अब्दाली—४४२	तोइरिन—३३०
तूची—९ (=जू-छी)	तेमूर एजबेक—४९	तोकताई—१३२ (सुवर्ण-ओर्दू- खान), १४४, १४५, २८४
तूज—२१०	तेमूर कअान—३२ (चीन), १३२	तोकतामिश (खान)—४३, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ६३, ६८, १५०, १५१, १५८, १६५, ४९१ (तुकमान)
तूतिरगा—५४७ (तुकमान)	तेमूर कुतुलुक—५६, ६२	तोकमक—२८१, ३७९, ४३२, ५३७
तूफाङ्क—१२ (तिब्बती)	तेमूर खान—६४, १४४	तोकसाबा—५५३ (तुकसाबा)
तूमे—५१५ (उज्बेक)	तेमूर खोजा—४३	तोका—१३१
तूमेत—३२४	तेमूरताश—३९	तोकाजी—१३३
तूरातू—६१	तेमूर थैशी—१६६	तोकारेक—५२५
तूरान—१४१, १७३, २८६	तेमूर बेग—५०, ५८, ४८१	तोगताइ—२९, ३०, ४७, (तुगताइ भी)
तूराना-अधिलयका—१६५ (किरगिज-स्तेपी)	तेमूर बेग नोगाई—१६७	तोगताकिया—५०
तूरान-सुल्तान—५८	तेमूर मलिक—४९, ५६ (खान)	तोगतोगू—१३२
तूरिस्क—३१६	तेमूर लंग—१३, ४९, ५३, ५४, १६-१३७, १४१, १४८ (बंश), २८६, २९० २९८, ४७०, ४९३ (=तेमूर)	तोगान-तेमूर—१६, ११० (०तिमुर)
तूल मेहमत—३१८	तेमूरशाह—१३६, १९४, ४४१	तोदा—३१७
तूला—१५	तेमूर सुल्तान (खीवा)— ४६६, ४६७	तोप—६३, १०१ (खाना)
तूली-शिन्—२५३	तेमूरी—१६३	तोपचीवाशी—४४७ (तोपखाना का जेनरल)
तूलुइ—३ (छिङ्ग-गिस-पुत्र), ५, ६, (पो-लोइ), १७, १२१ उलुस), १३०, १३९	तेमूरी साम्राज्य—३१६	तोपियातान—४८३
तूशि—१८ (जू-छि)	तेयेन—२१०	तोबोल—५८, ११०, ११६, ११३, २७१, ३१६, ३१९, ३२४, ३२६, ३९०, ५३५
तूशियेतू खान—३२१, ३२९,	तेयेन्कू—३३०	तोबोल्क—२२७, २५३, ३१६ ३१७, ३१८, ३२१, ३२६, ३३१, ३३३, ३३८
तूस—१३, १५०, १७६	तेरक—२८	
तूतीय विभाग—३८५ (खुफिया- विभाग)	तेरमिङ्क—५४, १३०, १३४, १३५, १४३, १७७, ५५२ (=तेमिङ्क)	
तेअवका—३५०	तेरसेक—१९९	
तेक-ज़ाई—४३३	तेराक—१५१	
तेकुशचिख—३३१	तेरेक—६१, १०८, १४५	
तेकेस—१२५, ३३४	तेरेकचैकी—४१८	
तेक्के (तुकमान)—२००, २०४, २०७, २०९, ३३७, ३८८, ४७१, ४७२, ४७६, ४८३, ४८७, ४९०, ४९१-९३, ४९५, ४९७, ४९९, ५१७	तेरेंगुत—३१९	

३१९, ३२१ (तोरुत)
 तोरिदा—२६२
 तोरोपेत—२४९
 तोरोबोलोद—३२४
 तोरुत—२१०, ३००, ३१९,
 ३२१, ३२६, ३३८, ३३९,
 ३४० (बोलाकलमक),
 ३४१, ३४२, ३४३, ३४८,
 ३४९, ३५०, ३५५,
 ३६० (तोरुत)
 तोरुत—३०९ (डांडा)
 तौकेल खानम्—१५१
 तौकेलेफ—४६५ (=तवेकलेफ)
 त्यानशान—३२५, ३२६,
 ३२८, ३४१, ३७८, ४२५,
 ५३५-३७
 त्युकमे—१३३
 त्युकेर—५४८ (तुर्कमान)
 त्युतोनिक—९५
 त्युपा—३३१
 त्यूपेलिक करक—२९७
 त्युमेन—१११, २८६, ३१५,
 (प० साइबेरिया), ३१७,
 ३१८, ३१९, ३२१,
 ३२६, ३३८
 त्युलेस—२९८
 त्योम्नी—९९ (अंध)
 त्राउवेन्बर्ग—२६१, ३४१
 त्रान्सिल्वनिया—२३
 त्रिगट—४०७
 त्रिपोलितानिया—४०८
 त्रुदोविकी—४१०
 त्रुवेत्स्की—२२३, ३७५
 त्रुवोर—७५
 "त्रुतेन"—२६८
 त्रुपोजन्द—१०४
 त्रुइत्सा—९९
 त्रुइत्स्क—३४८, ३४९, ३५५,
 ३७८, ४४६ (=त्रोयत्स्क)
 त्रुइत्स्क सेगियेफ—२२१, २४६

त्रोक—६२
 त्रोत्स्की—५३७ (जेनरल),
 ५०६, ५०८
 "तृतीय भाग"—३७६
 त्वेर—२२, ३४ (कलिनिन),
 ९६, ९७, ९८, १००, १०१,
 १०२, ४०१
 त्वेर्त्सा—९६
 त्सित्सियानोफ—३७१
 थाई—७, १४ (=स्याम)
 थाऊ—१४ (वंश)
 थामस—१३५
 थुबु थेमुर—१४
 थेओगोनस्—३७
 थेगन-थेमुर—१६
 थैची—३२६ (तालेह), ३६०,
 (उबासा)
 थैशी—३०४, ३१९ (राजा),
 ३२५ (थैची)
 थोर्न—२६०
 थ्रेस—३४
 दक्षिणपक्ष—५१९
 दन्युब—५९, ७२, ७३, ८२,
 ८३, ८८, २५०, २६०,
 २६३ (हुनाइ), २८४,
 ३६७, ३८६, ४१२
 दन्दुर—४८३
 दब्सिया—१६९, १७१
 दमिस्क—१०३, १४०, १५२
 दरकद—५२७
 दरखन—३२९ (तरखन,
 तर्खन)
 दरबन्द—२२, २८, ३०, ३३,
 ४१, ५१, ५४, ५५, ६१,
 ६२, १०२ (कास्पियन),
 १३१, १४१, १४३, १४४,
 १५१, १७४, २५१, ४५९,
 ५५४
 दरबंदे-आहनी—१७४ (लौह
 द्वार)

दरवाज—४२६, ४५९, ५२७,
 ५४४
 दरवेश—१५३, ४२३, ४७९
 दरवेशखाना—४३४
 दराज—५४३
 दराजू—५४३
 दरदानियाल—२६० (दर-
 दानेल्स), ३६७, ३७७,
 ३८०, ४०७, ४०८, ४११,
 ४१३, ४९७
 दर्बेत—३२६, ३४०
 दर्विस—६६
 दरगिज—४६०
 दरकोह—४२३
 दलननोर—१४४
 दलनी—४००
 दलमासिया—६
 दलाई लामा—३२४, ३२८,
 ३२९, ३३२, ३३३, ३३४,
 ३३५
 दशत—१५६ (भैदान), २९३,
 ३५८ (स्तेपी), ४१५
 (निर्जन भूमि), ४८०
 दशते-कजाक—३७८, ४४५,
 ४६७, ४७६
 दशते-किपचक—३३, ३६, ४९,
 ५०, ५५ (कजाकस्तान),
 ५६ (तोकतामिश्का
 राज्य), १५६, १६६, १६८,
 १६९, १७६, १८०, २७७,
 २८०, ३०३, ३०९, ३५१,
 ४४५, ४८१, ५२८
 दशते-किर्गिज—३७९
 दशते-कुलाक—१७३
 दशते-खाजार—३३, १४६
 (-दशते खिज़िर)
 दसेया—२४०
 दहयक (दशांश)—४४५, ४५३
 दहित-स्तान—१४५
 दंगिल—४९६ (-गोल)

दंगिल लेप्चे—४९५, ४९६,
४९७
दाइशिग—३२१
दाइ-नोयन—१८
दागिस्तान—३७१, ३७७,
४६८, ५५४
दाजबग—७३ (सूर्य, स्वारोग-
पुत्र)
“दादखाह”—४५७, ४७१
(बुखारी), ५२६ (हाजी)
दानियल—९६, १३७, ५४६
(बासमची), ४३९, ४६९
(-बी),
दानिशमन्द—१३६
दाबुल—१०३
दारयोश—५५४
दारोगा—१२, १६८, १७८
दालय—३२१
दावा—१४ (खान), ४७,
१३१, ३४६
दाविद—८७
दाविदोफ़—३७३
दाशा सेवस्तापोल्स्क्या—३८०
दास—८५, ८६, ३०५, ४८६
(-प्रथा)
दिदेरो—२५९, २६७, ३७३
दिनीबेक—३३, ३८
दिमिनि—३४ (त्लेर), ५१,
५२, ५३, ९८, २१८ (१),
२२१ (२), २२५, ३९२
दिमित्रियेफ़—५२
दिमित्रोफ़—६३
दियारबेकर—५, ७, ८, १४१
दिग्—७५, ७७
“दिलक़ुशा”—१५१
दिलबेरी—५१५ (उज्बेक)
दिलावर शाह—५४५
दिल्ली—७, ५५, ६२, १४४,
१५१, १५७, १६३, १८९,
१९३

दिसंबरी—३८२ (वीर)
दीन अहमद—११०
दीन मूहम्मद—१७८, १७९,
१८१, १८५, २००, २०१
दीनार—५८
दीनू—२०१, २०३
दीनबेइ—३२१
दीपालपुर—१४४
दीर्घबाहु—९०
दीवान—१९० (कविता-संग्रह)
दीवानबेगी—१८७, ४२३,
४७८ (प्रधानमंत्री), ४८०
दुचात—११
दुदुरगा—५४७ (तर्कमान)
दुनाई—२४ (दन्यूब), २५०
दुनायेफ़—५२२
दुरानी—१९४
दुर्मन—५१५ (उज्बेक), ५१६
दुलातोफ़—५३१
दुलियाना—३८
दुवा—१३१
दुश—२६
दुशाम्बे—५२७ (स्तालिना-
बाद), ५४४
दुसतनिक—५१५ (उज्बेक)
दूतोफ़—५२२, ५२५ (आत्-
मन), ५३२, ५४९ (सफ़े
जेनरल), ५५०
दूमा—१०८, २२०, २२८,
३७०, (=संसद्), ४१६,
४१७, ५२३
दे क्लावियो—१५३
देझन्येफ़—२४०, २५६ (दे
जनिओफ़)
देनिकिन (जेनरल)—५०७,
५५२
देनिसोव्का—२६५
देमाबंद—१०३
देमियान्का—११३
देमियान्कोय—३१६

देमैसोन—४४८ (डाक्टर)
देरबेत—३२५, ३२६ (मंगोल)
देरून—१७८, १९९, २०१,
२०४
देर्जाबिन—२६६ (=दक्षिणबिन)
देलनोई—२९१
देलगारदी—२२२
देलंग—२५४, २५५
देवकेसकेन—२०४
देवा—७३
देवोत्तर-समपित्त (वक्फ़)—४५३
देसियातिन—३७२ (=अस्सी
एकड़)
देहकान (=किसान)—५१८,
५१९, ५२३
देहनौ—४५९
देहबिद—१८३
देहबुलन्द—५३९ (गांव)
देहरादून—१५१
देहलवी—१४४
दे-शिङ्ग—३३८
“दोखतरखाना”—५२७
दोगलत—२९५, ३०२, ३६१
(=दुलत)
दोङ्गुव् थैची—३५२, ३५४
दोन—२२, ३९, ५१, ६१,
६२, ७१, ७२, ७५, ९०,
९८, ११०, १५२, २१७,
२२०, २२५, २३०, २४७,
२६१, २३५, २३६, २३७,
२८४, २८७, २८८
दोन-कसाक—२७१, ३५४,
४८०
दोनेत्स—२३२, ४०३, ५८०
(=उपत्यका)
दोनेत्स-उपत्यका—४०९
“दोन्स्की”—९८ (दोनवाला)
दोबरोनीची—२१८
दोमनिकन—१३५
दोमोशेरोफ़—३१७

दोरपत —२४९, ३६६
 दोर्जे (दर्शा) लामा—३३५
 दोलोन्-नोर—३२४ (द०
 मंगोलिया), ५३०
 “दोल्गोस्की”—९१, २५६
 दोस्त खान—२०२
 दोस्त मुहम्मद—८४७ (खान),
 ४६१
 दोस्तोयेव्स्की—३९२
 दौग—४६२
 दौर—२७२
 दौरिया—५३०
 दौरी—२४०
 दौलत गिराह—१०९, ३१५
 दौलत बर्दी—६९
 दुकोर—५४८ (तुर्कमान)
 दुनियेपर—२२, २९, ३९,
 ६३, ७४, ७५, ७७, ७९,
 ८३, ८५, ९३, २१८,
 २३०, २५७, २६०,
 २६३, २८४
 दुनियेपररोयेव्स्की—२६३
 दुनियेस्तर—५१, ७१, ७२,
 २६०, २६३
 दुमित्रोफ—९२
 दुविड—५१६, ५२८, ५४८
 द्रागोमिरोफ—५२०
 द्रेव्ल्यान—७७, ७८, ७९,
 (दीहाती), ८३
 द्रेश्चेर्न (कर्नल)—४८२
 द्विना—७४, ७५, ९५, ३६५
 धनुर्धर—२२४
 धर्म-छे-रिङ्क—१३४ (तर्मा-
 शेरिन्)
 धर्मपाल—३३९
 धर्मशास्त्र—१२४
 धर्माचार्य—३५४
 धातु-उद्योग—३७६
 “धुआं”—३९२
 ध्रुवीय—२४०, २६५, ४०९

(कथा), ४८९ (महासागर)
 नई सराय—४१
 नकशबंदी—१५३
 नक्षत्र (तारा)-सूची—१५८
 (=जिज्)
 नक्षत्रबंदी—४४०, ४४५
 नखचेवान—३७७, ५५४
 नखजवान—५५
 “नखली”—१८७
 नखशेब—१३४, १४८, १८७
 नखिमोफ—३८०
 “नवलनया ल्येतोपिस्”—८५
 नवार—५१५ (उज्बेक)
 नज़र—१८७, १८८ (दीवान-
 बेगी)
 नज़ारोफ—४२४
 नज़िमोर—४६७
 नतालिया—२४७
 नद्रेजदिन्स्क—४१०
 नमंगान—४२२, ४३५, ४३६,
 ४३७, ५१९, ५२०, ५२१
 नमिश्का—३३४
 नम्दारोहण—८० (मिहासना-
 रोहण)
 नया आर्द्—४१
 नया गुलिस्तां—४१
 नये किर्गिज—३४८
 नरगिल—५१५ (उज्बेक)
 नरबुते—४५५
 नरिन—३०७, ४३७
 नरोद्नये—३७३ (बेचे, लोक-
 सभा)
 नरोद्निक—७३, ३८७, ३९१,
 ३९३, ३९५
 नवगोरद—२२, ३५
 नवपाषाण-युग—५२८
 नव-ताम्र-युग—३३४
 नवसिबेरीय—३७२
 नवाई—१६०, १६१, १६३
 नवाबाद—५३९

नवीन तूर्क—५२६
 नवोअलेक्सान्द्रोव्स्की—३५८
 नवोगोरद—७५, ७७, ८२,
 ८३, ८४, ८५, ८६, ८८,
 ९१, ९३, ९६, ९९, १०९,
 २१८, २२३, २२५, २२८,
 २४९, २६२, २६३
 नवोग्राद—२१, २७ (गोरद),
 ३९
 नवोशेखिमन्स्क—३५०
 नवोसिविस्क—४०३, ५३०
 नसरुल्ला—४२४, ४२६ (अमीर
 वृखारा), ४४७, ४६८,
 (मिर्जा), ५२६ (कुशबेगी)
 “नस्ख”—१५५
 “नस्खजहांनारा”—४८
 “नस्तालीक”—१५४
 नस्तरोफ—५५१
 नस्तोरी—२९६
 नाइटिंगल—३८०
 नाट्य-कला—१४, २४१, २६६,
 ३९३
 नाट्यशाला—१६१
 नादिर—१८५ (नासिर), १८७,
 (बजीर), १९०, १९२
 नादिर मुहम्मद—१८९, २१०
 नादिरशाह—१९२, ३५२,
 ३७८, ४४२, ४६७,
 ४७०, ४९० (तुर्कमान)
 नान्सेन—२६५
 नारवा—१००, २४९
 नारिन—२९९
 नारी (नारिन)—१७९ (डांडा)
 नार्थब्रुक (वायसराय)—४८१
 नावें—८४
 नासंमेन—७५
 नाविकशास्त्र—२६५
 नासिर—७, ३६
 नासिद्दीन—१०, १३, २०,
 २७ (मुहम्मद), १२७, १४२,

- १४४, १५१, ४९३ (शाह),
 ५५१ (कराजलवेगी)
 निकवेई ओगुल—१३०
 निकिता—२१७
 निकिलिच—६४, ११०
 निकितिन—१०१
 निकिफोरोफ (कतान)—४७६
 निकूदर—१३०
 निकोन—२२९, २३४, २४१
 निकोलस—४८२ (जेनरल)
 निकोलाइ—८३, १३५, ३९२,
 ३७९, ३९५, (२), ३९८,
 ४०६, ४७३
 (१), ५३१ (२)
 निकोलाइ स्पार्थेरी—२४२
 निकोलायेञ्क—३८१
 निकोलायेको—५२२
 निगपई—१३१
 निगार खानम्—२७७
 निजामी—१६१ (कवि)
 निजामुल्क—१३९
 निजार-उपत्यका—३१६
 निजनीनवोगोरद—५१ (निचला
 नवीन नगर), ५२, ६३,
 ९२, ९८, ९९, १०२,
 १२१, २२३, २६२,
 २६७, ४१६, ४४६,
 ४७३
 निपच—२४३
 निमिलन—२७१
 नियाज तुकसाबा—५४४
 “निर्दोष-भवत”—१५
 निलबर—१७९
 निसा—१८५, १९९, २०१,
 २०२, २०३, २०४
 निसिबी—८, १४४
 निकिची—१९९
 नीकुज—५१५
 नीतिशास्त्र—१२१
- नीमा—३४६
 नीमेन—९५, ३६८ (नदी)
 नीवखी—२७१
 नूजी—६२
 नूरअली—३३७, ३४१, (लघु-
 ओर्दू), ३४५, ३४९, ४८६,
 नूरजहां—१५५
 नूरतुकाई—१६६
 नूर मुहम्मद—२०३
 नूरवर्दी खान—४९२ (तेवका)
 नूर-हाचू—३२४
 नूरुद्दीन निराखुर—५५१
 नेक्रासोफ—३९२
 नेन्सी—९४, १०१, २३८
 नेन्स्कान्स—२५०
 नेन्सबेर्ग—५२१
 नेपल्स—२४, २६९
 नेपाली—५४६
 नेपोलियन—७८, २६९,
 २७०, ३६६, ३६७, ३६९,
 ३७०, ३७१, ३७२, ३७४,
 ४९०
 नेप्रयाद्वा—९८
 नेप्लुइयेफ—३५२, ३५३, ३५४
 नेमन—२६, १९६, २०२, २०६
 नेरेजेम—२११
 नेचिन्स्क—२४३, २५३, ३८१,
 ३८६
 नेवा—९४, ९६, २५०, २६७,
 ३७५, ४१६ (नदी)
 नेवेल्स्की—३८१
 नेशापोर—१३१, १४३ (खुरा-
 सान), १५०, १८१
 नेस्तोरी—१२५
 नेस्तोरीय—१३६
 नेस्तोरोफ—४१२, ५५४
 नैगरी—४४५
 नैपाल बाबा—१२२
 नैमन—२१, २०८, ३४७, ३४९,
- ३५३, ५१४ (उज्बेक),
 ५१६, ५२९ (कजाक),
 ५३०
 नौकस मंगित—५१४ (उज्बेक)
 ५१६
 नोवस—५१६ (उज्बेक)
 नोगाई—२७, २८, २९, ३०,
 ३१, ११०, १४१, १४५,
 १६७, १६८, १९७,
 २०१, २०८, २०९,
 २७७, २७८, २७९,
 २८७, ३१० (मंगीत),
 ३१६, ३१७, ३१८,
 ३२१, ३२४, ३३८,
 ३३९, ३४३, ४६५,
 ५१५ (उज्बेक), ५१६
 नोयन—६१, १०३, १४३,
 १४८
 नोविकोफ—२६८
 नौकर—६८ (अफसर)
 “नौजवान विद्यार्थी संघ”—
 ५३२
 नौरोज अहमद—३२४
 नौरोजवेग—४२
 नौरोज मुहम्मद—१७९
 न्यूस्टाट—२४, २५
 पगभुये—११४
 पचिमान—२२
 पजास्की—२२३
 पत्चीमन—६
 पद्य-नाटक—२२४, २६६
 (ओपेरा)
 पपाइ—३५२
 पपोफ—३९६ (बेतार-आवि-
 ष्कारक)
 पयार—३४६
 परताल—३०६ (रसद)
 परमाणु-विदरण—२६५
 परवानेजी—१८८

- परवैत्रिकोफ़—२४१
 पराक—३०६
 परिषद्—२२८, ३३३
 पर्लीविका—५२०
 पलासी—१६, २५८, ३३६,
 ४२०, ४५२
 पलियोलोगस्—२८४
 पवित्र-संधि—३७०
 पंचक—१६१
 पंचवर्षीय योजना—५३४
 पंचायत—४०१
 पंज—५२७ (वक्षु), ५४६
 पंजकंद—१७५, ४५८
 पंजदेह—४९१, ४९८
 पंजाब—१३४, ४१६, ४४८
 पातर—३२७
 पानिखेर—२७०
 पामीर—१०, १७४, १९२,
 ३०४, ३३४, ३७८,
 ४५०, ५३६, ५३९,
 ५४१
 पारस—११ (खाड़ी), १४५,
 १५०
 पारेकास्पियन—५४९ (जा-
 कास्पी), ५५०, ५५५
 पार्लियामेंट (ब्रिटिश)—४९८
 पावल—२६८ (१), ३४९,
 ३५७ (जार), ३६५
 पावलोक—३९६
 पाषाणपुल—२०८
 पाषाण-युग—५२८ (मध्य-
 पुरा, नव-), ५४१, ५४८
 पासख—१०४ (हैस्टर)
 पिलोतेइ—१०६
 पाषाण-युग (मध्य)—५४१,
 ५४८
 पित्तल-युग—५२८, ५४१, ५४८
 पित्रुस्का—३९१
 पित्यावका—२३२
 पिशापक (फ्रुंजे)—३७९, ४३२,
 ५३३, ५३७, ५३८, ५३९
 पिशागर—४४७
 पिशिमा—३१७
 पिसारोफ़—३९२
 पीतर—६४, ९७, ११६,
 २१२, २४६, २४७,
 २४८, २६५, ३३३,
 ३३९, ३७५, ४४८,
 ४६५, ४६६, ४९३,
 ४९५ (१); २५५,
 २५८ (२), २६१ (३)
 पीतर-पावल-दुर्ग—२५२, ३८५,
 ३९२, ५०८, ५१०
 पीतरबुर्ग—२१२, २५०, २५२,
 २५७, २६६, २६८, २७१,
 २९१, ३३७, ३४८, ३५०,
 ३५१, ३५३, ३६५, ३६६
 (=लेनिनग्राद), ३७०,
 ३८८, ३७४, ३७५, ३७७,
 ३७८, ३९०, ३९१-९५,
 ४०१, ४०२, ४०९, ४१२,
 ४२६, ४३२, ४४४, ४४८,
 ४५०, ४५३, ४६४, ४७५,
 ४७६, ४८६, ४९५, ४९८,
 ३९७-९९
 “पीतरबुर्गसे मास्कोकी यात्रा”—
 २६७
 “पिता और पुत्र”—३९२
 पीर मुहम्मद—१५१, १५४,
 १७९, १८२, २८१
 पीरअली—३५५
 पील—२००
 पुगाचेफ़—२६०, ३६१, २६२,
 २६८, ३५५
 पुतियातिन—३८९ (अद्मिरल)
 पुतिलोक—३९९, ४१६
 पुतिवल—२१८, २२०
 पुरगस—९२
 पुराना पंचांग—४०१, ४१७
 “पुराने वर्षोंका इतिहास”—८५
 पुलकोवो—५१०
 पुलाद—५४ (—ब्रेक), ६३,
 ६४, १०२ (—ब्रेग), १३६,
 १५६, १९६ (खान), २९५
 (ची)
 पुलकेशी—४९८
 पुलसिरात—४२३
 पुश्किन—२३८, २६६, ३७१,
 ३७३, ३७७, ३८२, ३८३
 (कवि), ३९२
 पुश्किन—५१० (जास्कोवोवेलो)
 पुस्तोजेस्क—२२९
 पूद (=१६ सेर)—३७, ४८४
 “पूजी” (माक्स)—३९३
 पूजीपति—४०८, ४०९
 पूजीवाद—३६५, ३७६, ३९३
 पूजीवादी—३९२ (युग), ४०६
 (व्यवस्था)
 पेइ-हौ—३८९
 पेकिङ्ग—४, ८, १०, ११, १६,
 २२७, २५३, २५४,
 ३२९, ३३७, ३४७, ३५४,
 ३६१, ३७४, ३८१, ३८९,
 ४२१
 पेचेनेग—७५, ७९, ८२, ८३,
 ८४, ८६, २८४
 पेचेनेत—५४८ (तुर्कमान)
 पेचेस्क—८४, ८५
 पेचिङ्ग—२५५, २६३, ३८८
 (पेकिङ्ग)
 पेचोरा—१११
 पेत्रोग्राद—४१६, ४१७, ४१९,
 ५०४, ५०५, ५०६, ५०७,
 ५०८ (पर बोल्शेविक अधि-
 कार), ५०९, ५११, ५१७
 पेत्रोग्राद सोवियत—५०८
 पेत्रोपावलोव्स्क—३४७, ३४८,
 ३४९, ३८०, ३८२
 पेत्रोफ़—२२७, ३८३, ३८५
 पेन्-किङ्ग—५ (नानकिङ्ग)

पेनुजा—२२
 पेन्दो—५२५
 पेपंच—१११ (पंस)
 पेरियेस्लाव्ल—६३
 पेरिश्किन—३९६
 पेरिस—२६९, ३७०, ३७४,
 ३७९, ३८०, ३८२, ३९०,
 ३९७, ४००, ४०६, ४१०,
 ४१२, ४१३, ५५४
 “पेरिस कमून”—३९१, ५०४
 पेहन—७३, ७६, ८४ (देव)
 पेरेइस्लाव—५२
 पेरेया—८२
 पेरेयास्लाव—८७
 पेरेयास्लाव्ल—८२, २३३,
 २४६, २४७
 पेरे-बोलोग—२८८ (प्राग्-
 बोलगा)
 पेरोफ—३९३ (चित्रकार)
 पेरोव्स्की—३७८, ३७९, ४३०,
 ४३१, ४५०, ४७३, ४७६,
 ५१८ (किजिल-ओर्दा)
 पेर्फिलियेफ—२४१, ५२५
 (पेर्फिलेफ)
 पेर्म—१००, ५०३
 पेर्शिन—५१८
 पेलेपेलिजिन—११३
 पेलोव्सी—८६
 पेशावर—१९३, ४४७, ४६०
 पेस्त—६, २३ (बृदापेस्त),
 २४
 पेस्टेल—३७३, ३७५, ३७६,
 ३८२
 पेस्पेलोफ—५२५
 पेञा—२६२
 पेंटलिन—२२७
 पैगम्बर—१२३
 पैमनार—१९३
 पोचकर—५३७
 पोतोभिकन” (युद्धपोत)—४००

पोनोमारोफ—५२५
 पोप—१०, २४ (ग्रेगरी),
 १०१
 पोयार्कोफ—२३९, २४०
 पोर्ट आर्थर—३९७, ३९८,
 ४००
 पोर्ट्समथ—४०० (-संधि),
 ४०६
 पोल—५३, १९०, २१९,
 २३२, २३४, २४०,
 ३१७, ३७७
 पोलकसाक—३१७
 पोलंद—३, १०, ३६, ३८,
 ५३, ८४, ९२, १००,
 १०९, २१८, २२७, २३३,
 २५९, २७२, ३६७, ३७०,
 ३९९, ४०२, ४०५, ४१३
 पोलाद-तेमूर—३१५
 पोलेयान—८३
 पोलेत्स—८२
 पोलेत्स्क—८८
 पोलेत्स्की—२४१
 पोलोव्सी—८७, ८९, ९०
 पोलोविना—९४
 पोलजुनोव्—२६७
 पोल्तरोत्स्की—५१८, ५२४,
 ५२५
 पोल्तावा—२५०, २५२
 “पोल्थार्नया जेचेवा” (ध्रुव-
 तारा)—३८२
 पोशारोफ (लेपटनेट)—४८६
 प्दयाचिये—२२८ (निम्न लेखक)
 प्योत्र अलेक्सियेफ—३९१
 “प्रतिनिध-सदन”—५१३ (सोवि-
 यत)
 प्रशांत—३७२, ३७४, ३८१,
 ३९०
 प्रशांत-महासागर—२५२, २७२,
 ३९७
 प्रशासन-संस्था—३७३

(देखा ज्ञानयात्रा)
 “प्राव्दा” (अधिकार, सत्य)—
 ८५, ४१०, ५०४, ५०५,
 ५०६ (बोशेविक
 पत्र); ५०८
 प्रासादी क्रांति—२५५
 प्राहा—४०५, ४०६ (प्राग)
 “प्रकाजी”—२२८
 प्रिस्तोफ—३४८ (किशिनस्की),
 ३६१
 प्रुय—२५० (नदी)
 प्रुशिया—२५८, २५९, २६०,
 ३५४, ३६५, ३६७ (जर्मनी),
 ३६८, ३७४, ३७९, ३८०
 प्रेयोत्रजेन्स्काये—२४१, २४६,
 २४९
 प्रोक्रोपी—२२३
 प्रोदुगोल—४०८
 प्रोदुमेत—४०८
 प्रोदुखद सेड्कीट—४०९
 प्रोलेतारी—५५२ (-सर्वहारा)
 प्रुजेमित्सल—४१३
 प्रुसेवाल्स्की—२९४, ५३७, ५३८
 प्रुयाजनुवा—३३३
 प्रुयाजनुवे ओजेरा—३३३
 प्लातेन—२३
 प्लातेन—१०४
 प्लेखार्नोफ—३९३, ३९७, ४०३
 प्लेग (महामारी)—३८
 प्लेक्षेयेफ—२२७, २२८
 प्लाद्निक—९१ (नगरपाल)
 प्सोल्स्की प्रिकाज़—२२८
 प्स्केविच—३७९
 प्स्कोफ—३९, ९६, ९७, १०६,
 १०९, २१८, २२५, २२८,
 २२९, २६७ (-प्रासाद),
 ४१७, ४१९
 प्स्खालिस—१३५
 फग्-पा—८९, १३ (तिब्बती
 लामा), १५ (फग्-पा=आर्थ)

फगफूर—३७ (भगपुत्र, देवपुत्र)

फजल—४५५

फजलान—७४

फजल्ला—१४५

फतेह अली—४९० (काजार)

“फतेहनामा-कुचुक”—६०

फना (खान)—४७९

फरगाना—१६७, १७६, १८०,

२८०, २९६, २९८, ३०४,

३०५, ३०७, ३३०, ३८८,

४१५, ४२०, ४५१, ५१८,

५२०, ५२१, ५२२, ५२३,

५२४, ५३५, ५३६, ५४४,

५४६

“फरहाद-शीरी”—१६१

फराखर—४६२

फरास—२०८ (जाऊ),

४२९ (मरगौल), ४८८

फरिश—८८१

फरीदुद्दीन—१४७

फरीदून मिर्जा—४७३

फर्खरी क्रांति—५०३, ५११,

५१७, ५१९, ५२६, ५३०

फालगर—४५७, ४५८

फान—४५८

“फानी”—१६१ (नामान)

फायनवा—२४

फारसी—१५४, ५३९

फाराश—४५७, ४५८

फितनियेफ—४७७

फिन (मुश्की)—७१, १००,

५४८

फिनलन्ड—७४, ७५, ९६, ११६,

२२३, २२५ (-काजी), २५०,

२५१, ३६७, ३९९, ४०२,

४०५, (= फिनलैंड), ५०४,

५०७

फिनो-ड्रविड—५१६, ५२८,

५४१, ५८८

फिलरतीन—५५, ३८०, ३८४,

४११

फिलारेन—२१७, २२४

फिलिपोफ—१०४

फिशर—३१६

फीरोज—१४०, १४१

फीरोजा—१७०

फुजैल मरदूम—५४४-४६

(बासमची)

फुनळोक्—३३४

फुते—३३६

फुमझ—१८१

फुदरोफ—५३२, ५३३

फुदोतोवा—३९३ (अभिनेत्री)

फुदोर—६४

फुजाबाद—४२५, ४५९, ४६२

फुोक—७३

फुोनविजिन—२६६

फुोलब्रौम—५३१, ५३७

फुयोदोरोफ—२५६

फुयोदोसिया—३६५, ४१३

फुयोरानेन्ते—१०५

फ्रांकेन्वर्ग (मेजर)—४६५

फ्रांस—२३, ३९, ८४, १६०,

२५९, २६३, २६९, ३६६,

३८०, ३८२, ३८८, ३९०,

३९६, ३९७, ४०६, ४०७,

४०८, ४१४, ५५०

फ्रांस-बेकोफ—२४२

फ्रांसिस—३६६ (१)

फ्रांसिस्कन—१३५

फ्रीडलैंड—३६७

फ्रुजे—४०५, ४१४, ५०८,

५३३ (पिश्पेक)

फ्रेंच—२४, १९१, २२२, ३७३

(भाषा), ३८९, ३९४, ५५२

फ्रेंच-क्रांति—१६५, २६७, २६८,

२७०, ३६५, ३७०, ३७३

“फ्रेंच महाभारी”—२६७

फ्रेडरिक—२४, २५८, २६०,

२६८-६९ (२)

फ्रोलोफ—५२५

फुयोदोर—२२, ११५, २०६,

२१७, २१८, २१९, २८१,

३१७, ३२५ (जार)

फुलोरेन्स—३८०

बइकेचर—१३३

बकलान—१७९

बकसी—१६२

बकुनिन—३९१

बकसी (भिक्षु)—१६२, ३२६

बकसीगिर—३३४

बखरिन—५१५ (उज्वेक)

बखसमवी—१६५ (मंगत)

बख्तियार—१६५

बख्तियारी—५५४

बगचतोफ—४६५

बगजले—६४

बगदाद—३१, ५६, १३२,

१४५, ५५४

बगाबाद—१९९, २०१

बगदान—२३१

बगरातियोन—३६६, ३६८,

३६९

बगोल्युवोव्स्की—९१

बतपकरा—४१५ (बत-

बकरा), ५३२

बतरेक—५१४ (उज्वेक)

बतलान—५६

बतानियेफ—४५०

बतुमसी—३३४

बतूता—३८, १३५

बत्का—२३६

बथोरी—१०९

बदरुआ—५६, १२१, १३१,

१५०, १६६, १७७, १७९,

१८१, १९१, १९४, २९७,

३०४, ३१०, ३१३, ४६०,

४६१

बनीकन्त—१४७

बन्दर—१०३, ३६८

बंदूक—१७७

बवायेफ़—५५१	(=बलखाश)	बहमनी—१५७
बयन्त—१३३	बलख—१३, ५६, १२१, १३५,	बहराम अली—४४१
बयात—५४७ (तर्कमान)	१४३, १४४, १४९, १५०,	बहरैन—१०३, १०४
बरका—२०, १४१, १९६,	१५१, १७१, १७६, १८१,	बहाउद्दीन—१२६, १२७
(बेरेका)	१८६, १८७, १९१, १९४,	बहादुर—१८७, २३४
बरका-सराय—२१ (सुवर्ण- ओर्दू)	२११, ४४२, ४५१, ४६०	बहावलपुर—१९४
बरकियारोक—६१	(वली), ५६१	बंगाल—१०, १३
बरकुल—१३३, २९६	बलखान—१९९, २०९, ४६८	बंदे-हरम—१९२
बरगंडी—१३५	(पहाड़ी), ४८०	बाइतक—२९७
बरगुत—३२१	बलगली—५१६ (उज्बेक)	बाइबल—८५
बरचिन—४१	बलजुवान—५२७, ५४३	बेगीजान—४४३ (शाह मुराद)
बरजाब—५३९ (नदी)	बलदुमाज—१९९	बाइवेगिस—३१९
बरदशा—७९	बलबर्स—१९९	बाइलियर—४८४
बरदंजा—२११	बलम्बर—७२	बाइसून—४५९, ५२७, ५४४
बरदी—४१, ४२ (बेग)	बलाकिरेफ़—३९३ (संगीतकार)	बाइ—३१०
बरनूली—२६५	बलाचिया—३६७	बाइ तुर्सुनोफ़—५३१
बरन्दा—१११	बलांजर—७४ (दक्षिणी दागिस्तान)	बाउलिन—३५७
बरमक—५१५ (उज्बेक), ५१६	बलिकची—४३६	बाकिन—५३७
बरमा—३१७	बलिकली—५१६ (उज्बेक)	बाकी मुहम्मद—१८६
बरलस—१४८, ३१३, ५१४ (उज्बेक)	बलिजक—५०	बाकू—१०३, २५१, ३७१, ४१२, ४१६, ४६५, ५५०, ५५४
बरसावा (पोलंद)—३६७	बलोगदा—४०६	बाक्सर (विद्रोह)—३९८
बराबिन—३१७, ३१९, ३४७	बलोचिस्तान—१५० (=बिलो- चिस्तान)	बागी—४९८ (उपत्यका)
बरातिन्स्की—३८२	बलूची—१४९	बागर्लू—५१६ (उज्बेक)
बरेकेजाम—१०२	बलोत्तिकोफ़—२२०, २२१	बागेनौ—१६९
बर्कुस—५२५	बल्कान—३७३, ३८६, ४०७, ४११, ४१२, ४९५	बात्तोरोफ़—२३९
बर्गर—९५	बलजुवान—४५९	बाज़नोफ़—२६७
बर्जानोफ़—५५१, ५५४	बल्तासदिर—४८१	बातुर—२३०, ४६८ (बातिर)
बर्नोल—२६७, ५३०	बल्ती-बालूर—३११	बातुर खुङ्ग-थैची—२८२ (खुङ्ग- थैची), ३२५ (थैची)
बर्मा—३, ९ (मी-यन), १०, १३, १४	बल्शोइ तियात्र—३८५ (महा- नाट्यशाला)	बातू—५ (छिङ्ग-गिस्-पौत्र), ६, १८, २०, ३२, ४९, ६३, ९२, ९५, १००, १२६, १२७, १२८, १४५, १६५, २८६, ३१५, ३७७
बर्कि तेमूर—१६६	बशीकुजी—२७५	बातूम—३८७
बर्लिन—२५८, ३६७, ४०७ (कांग्रेस), ४११, ९९६	बश्किर—१८, २६२, ३१५, ३१६, ३२१	बातूसराय—२१, २६, २७, २९, ३१, ३७
बलकान—१०१, १५९ (यूरोप)	बसकाकी—९३	बादगी—१९२
बलकाबी किला—५४४	बसमानोफ़—२१९	बादाकुल—३१५
बलकाश—४६, १२७, २६८, २८४, २९६, ३३१, ३४१, ३५२, ३८९, ५३५	बसलक—५१४ (उज्बेक)	
	बसुन—३३४	

- बापु—२३६
बाबर—६८, १०६, १४७,
१५४, १५८ (-मिर्जा), १५९,
१६०, १६३, १६५, १६७,
१६९, १७०, १७१, १७२,
१७३, १७४, १७५, १७७,
१७९, १८३, ३०२, ३०४,
३०५, ३०६, ३०७, ३०८,
३१३, ४२१, ४३७, ४६२
“बाबरनामा”—१७२
बाबा—३२, १४५, १८० (खान,
जान), २७८ (-सुल्तान),
४५७ (-बेक)
बाबुशिकन—५१८, ५२२
बाबूल—१०३
बामियान—४७, ४८, १२६,
१९४, ४६१
बामिर—४९६
बामे-डुनिया—२१०
बाय—५३१ (सामंत)
बायजीद—१७३, ३८७
बायन—९, ४७, १३२ (खान),
१३६ (-क़ल्ली, -मुल्दज़),
२१
बायर—३५ (अमीर), ४३,
५१, ५२ (सामंत), ८५,
१०४, १०६, १०९, २१९,
२२०, २२४
बारक़स—५२५
बाराबिन—३१६
बारोन—५०३ (बैरन)
बार्नेस—४५०, ४४८
(कप्तान) ४७३, ४९०
बालबलोफ़—१०४
बालिकची—४३४, ४३५
(बालीकिची)
बालिगू—१३०
बालुका वृष्टि—२९३, २९६
बालुका-समुद्र—२९४
बालूर—३११ (बाल्ती)
- बाल्तिक—७४, ७५, ८४,
९४, १००, १०८, ११६,
२२५, २३४, २४८, २६५,
३९९, ४१२, ४१३, ५०८
बाशिकर—२१ (तातार), २३,
३१, ५६, १०७, ११०, २३४
(तुर्क), २३५, २३७,
२५०, २६१, २८४, ३१७,
३२४, ३३९, ३४३, ३४४,
३४५, ३४७, ३४९, ३५१,
३५२, ३५४, ३५५, ३५७,
३६८, ३७२, ३७८, ४०१,
५१२, ५४८ (तारतार
भाषा, बाशिकर)
बासफोरस—४११
बासमची—५२३ (डाकू),
५२७, ५४२, ५४३, ५५०
बाह्य-धर्मी—३४० (रूसी)
बाह्य-मंगोलिया—३२१, ३२४
बाह्य राज्य-विशेषाधिकार—
५५४
बित्त—६३
बित्कोविच—४५०
बिन सब्बाह—१३९ (हसन-)
बिपुरी—२५१
बिरकुलक—५१६ (उज्बेक)
बिरलस—१३६, १३७ (तेमूर-
वंश), १४८ (बरलस)
बिलकेलिक—५१५ (उज्बेक,
बिलिकची—२९
बिलुक-अकची—१८६
बिशाअवित—४८१, ४८४
बिशाकंद—१७५
बिशाचगन—४८१
बिशाबालिग—१३५, ५३०
बिशाबाला—५१५ (उज्बेक)
बिस्मार्क—३९०, ४०६
बीजने—५४८ (तुर्कमान)
बीतेइ—३३७,
बीदर—१०१, १०३
- बीनाई—१७५
बीनीतर—७२
बीबी खानम्—१५४
बीबीजेह—२०३
बीरेन—२५७
बुआल—२८ (मोवाल)
बुइदश—२७८
बुइमोत—५१४ (उज्बेक)
बुकन्द—४८१ (पहाड़ी)
बुका-बोशा—१२५
बुकान—४८० (यर्वत)
बुकेइ—३५७, ५३२ (खानोफ़)
बुकइयेफ—३५८
बुकोबिच चेकस्की—४६५
(राजुल)
बुखारा—२६, ४९, ५४, ५५,
११०, ११२, ११३, ११४,
११५, १२२ (-विद्रोह),
१२४, १२९, १३२, १३४,
१३५, १३७, १४३, १५४,
१५८, १६३, १६७, १६९,
१७४, १७६, १७८, १८०,
१८१, १८५, १८८, १९०,
२०१, २०३, २०४, २०९,
२१०, २११, २२७, २७१,
२७८, ३०७, ३१५, ३१८,
३१९, ३२५, ३३०, ३३६,
३५३, ३५६, ३७८, ३७९,
३८७, ४२१, ४२२, ४२४,
४२६, ४२७, ४२८, ४३२,
४४०, ४४१, ४४३, ४५३,
४५४, ४५५, ४६४, ४६५,
४६६, ४६९, ४७०, ४७१,
४७२, ४७५, ४७६, ४८४,
४८९, ४९०, ४९३, ४९४,
४९८, ४९९, ५१७, ५१८,
५१९ (नवीन), ५२५
(अमीराका भागना), ५२७
(पूर्वी), ५३५, ५४१, ५४२,
५४३, ५४४, ५५०, ५५१,

५५२, ५५४
 बुखारेस्त—३६७, ३७१, ४११
 (-संधि)
 बुखोलज—३३३
 बुग—७८ (नदी), ८४, २६०,
 २६३
 बुगई—३१९
 बुगईली—४८३
 बुगान—२७९
 बुजान—१०२, १३५, ५१५
 (-बुजान उज्बेक)
 बुजुगा—२००
 बुद-जेक—६
 बुदग—१६६, १६७ (बुदग)
 बुम्सक—२९७
 बुन्दक—१५८
 बुरलक—६७
 बुराक—१५६ (खान), १६५
 बुरी—१२७, १३०, १३३,
 २९७ (-बावी)
 बुरुत—२७८, ३३०, ३३२
 (काले किर्गिज),
 ३४७ (जंगली किर्गिज),
 ३४८, ३५८ (करा-किर्गिज),
 ३४९, ३६०, ४२१
 बुर्जेअली—१४०
 बुर्ते-फुजिन्—१८
 बुयत (मगोल)—२३८, २७२,
 ४०१, ५४८
 बुल्युत्युवे—५३०
 बुराक—३४५, ३४६, ३५३
 (=बुराक)
 बुर्सबोल—३२४
 बुल्डुम—१६८
 बुलवा—२३०
 बुलालगर—१६६
 बुल्गार—३७, ४३, ५१, ५६,
 ५९ (कजाक), ८२, ८३,
 ९२
 बुल्गारिया—२७ (बुल्गारी),

८३, २८४, ३८६, ४११,
 ४१२
 बुशतु खान—३२८ (बोधिसत्व
 राजा)
 बुसाग—४८४
 बुअली सेना—१९२
 बुकजली—५१६ (उज्बेक)
 बुकेइ—३४९
 बुजाची—५१५ (उज्बेक)
 बुजेजी (तुर्कमान)—४७१
 बूतुलिन—३५०
 बूरब—३६६, ३७०
 बूरीची—२०६
 बूरत (किर्गिज)—३३७
 बूरुज ओगलान—३०५
 बूर्वा (पूंजीवादी)—४०५,
 ५२१, ५२५
 बूर्वाजी—३७०, ५२१, ५२५
 बेइनेगस—२८९
 बेइसखान—२९९
 बेउलिन—३५५, ३५६
 बेक—३२४, ४५३, ४५७
 (ठाकुर)
 बेकतिली—५४७ (तुर्कमान)
 बेक पुलाद—४७०
 बेकेचेर—१३२
 बेकोबिच—२५१, ३५१, ४६४-
 ६६, ४८४ (राजुल)
 बेग—५५१, ५५३ (=राज्य-
 पाल)
 बेगचिक—१६७
 बेगलरबेग—२०९
 बेग-तेमूर—१३०
 बेगफुलात—११३
 बेगातकिरी—१७८
 बेगीखान—१९४
 "बेचारी लीजा"—२६६
 बेतलहेम—३८०
 बेताश—५१५ (उज्बेक)

बेदिलोक—५१९
 बेन्देसेन—४९५
 बेरकुत—५१४ (उज्बेक)
 बेरेकेइ गुरयानी—२९७
 बेरातग्योजा—५५
 बेरिग—२४०, २५६, २७२,
 ३७३
 बेरियोजोफ—२५६ (साइ-
 बेरिया)
 बेरेक—८, २२, २६, २८,
 १२८ (-बान), १४१
 बेरेकचर—१२९, १३०
 बेरेकसराय—५१, ५५
 बेरेजिना—३७०
 बेरेदक—१६८
 बेरेफकिन (जेनरल)—४८९,
 ४८४, ४८५
 बेरेस्त—२३२
 बेरोडे—५१५ (उज्बेक)
 बेर्ग—५२५
 बेर्देस्की—५०६ (एडमिरल)
 बेर्देस्कोइ—३५१
 बेर्दीकुलियेफ—५४९
 बेर्ब—७७
 बेल्—२९१
 बेला—२३
 बेलिन्स्की—३८२, ३८३ (कवि)
 "बेलीकी गमुदार"—२२५,
 २२९
 बेलो—(=श्वेत)
 बलोअश्चोफ—५०४
 बेलोगोस्की—११५
 बेलोजेरोफ—४०९
 बेलोसिया—२३०, २६०,
 ३७७, ५१२
 बेलोरूसी—९८, १००, २३४,
 २५९
 बेलिजयन—३९४
 बेल्ली—२९३

बलोवदस्क—५३७
 बसकाउन-द्रोणी—३१०
 बेसराविया—३६७, ३६८
 बेस्तुजेफ-र्यूमिन—३७६
 बेहजाद—१६२, १७२
 बैकाल—२३८, २७१, २७२,
 ३२१, ५३०
 बैचगिर—४८४
 बैदू—१४४
 बमनतंती—४८२
 बैराम अली—१५० (मेर्घ),
 ५५१
 बैमुंकर—१५६, १५७, १६२
 बोइत्केविच—५५४
 बोकल—५२०
 बोकल-बेदंगन—१२०
 बोग—७२
 बोगुन—२३२
 बोगोल्युबोवो—९१ (भगवत्-
 प्रिय)
 बोन्दाउला—३२५
 बोतपाई—५३० (खित्तन)
 बोदी तायन—३२४
 बोन्द—१०४
 बोयकोफ—३१७
 बोयन्-यू—१५, ३३
 बोयक—८, ६६, ६७, ६८,
 ६९, १४३
 बोयकचीन—२९
 बोयकचिन खातून—२६
 बोयका—१८०
 बोयका—१२९, १३०, १३१,
 १५८, १६७
 बोराविन—४६५ (इतालियन)
 बोरिस—८४, ११५, २२६
 “बोरिस गदुनोफ”—३८४
 बोरोदिन—३९३ (संगीतकार)
 बोरोदिनो—३७३
 बोरोन मेयेदोर्फ—४४५
 बोरोलदाईताउ—४३२

बोरोशिलोफ—४०३, ४०६,
 ५०८
 बोर्गा—३६७
 बोलोस्त (पर्गना)—३७०
 बोल्गार—६, १८, २०, ७३
 बोल्गारी—१६६
 बोल्शेविक (बहुमतीय)—
 १८५, ३९७, ३९८,
 ३९९, ४०३, ४०४, ४०५,
 ४१३, ५०४, ५०५, ५०६,
 ५०७, ५०८, ५१८, ५१९,
 ५२०, ५३८, ५४९, ५५०,
 ५५१, ५५३, ५५५
 बोल्शेविक-कमीटी—४१६
 बोल्शेविक क्रान्ति—२५०, २५२,
 ३५८, ३६१, ३८५, ३९२,
 ३९६, ४०१, ४१५, ४१७,
 ४३९, ४४२, ४५३, ४७३,
 ४८६, ४९७, ५०१, ५०६,
 ५०७ (तैयारियां), ५०९,
 ५१२, ५१७ (तुर्किस्तानमें),
 ५२१, ५३२, ५३५, ५३६
 बोलशेविक नेता—५०८
 बोल्शेविक पार्टी—४०५, ४१७,
 ५०६, ५०८, ५२१ (-पार्टी),
 ५२६
 बोशोक्तू (बुस्तू)—३२८
 बोस—२५४, ३९६ (जगदीशचंद्र)
 बोसनिया—३८६, ४०७, ४०८,
 ४११
 बोसफोरस—४०७
 “बोस्ताने मुञ्जक्करीन”—१३८
 “बोस्तां”—१४३
 बोस्ताम—१७६, २०९
 बौद्ध—३०, ३४, १२७, १३५,
 २९६, ३०० (-कल्मक),
 ३२४, ३२८
 बौद्ध-धर्म—८, १५, २०, ३१,
 ४१ (मंदिर), १३३, १३५,
 १३८ (संत), १४५, ३२७,

३२८, ३३३ (-बिहार),
 ३४६
 व्येलोओजेरो—७५ (इवेत सरोवर)
 व्योर्क—४०६
 ब्रन्सविक—२५७
 ब्रांडेनबर्ग—२६०
 ब्रातिस्लावा—३९
 ब्रियास्गा—१११, ११४
 ब्रिटिश चैनल—३६६ (-चेनेल)
 ३८९, ५५५
 ब्रूलोफ—३८४
 ब्रेस्त—२३०
 ब्रेस्त-लितोव्स्क—४१३
 “ब्रेस्ला”—६, ४१३
 ब्रौनो—३६६
 ब्र्यांस्क—२१७
 ब्लांकेननागेल (मेजर)—४६९
 बिल्ट्जक्रीग—२५८
 भागीरथ—१५२
 भारत—३५, ३७, १५०, १५३,
 १५७, १६३, १७४, २७१,
 ३५१, ३५७, ३६६, ३८४,
 ३८७, ३९६, ४२६, ४४४,
 ४६७, ४७४, ४९७, ४९८,
 ५२१, ५२८, ५३०, ५४२
 भारतीय—७४, २२६, २२७,
 २९५, ३३१, ३७४, ४१२,
 ४३३, ४६५ (व्यापारी)
 भाषातत्व—५२८
 भिक्षु—१६२
 भूमध्यसागर—२६९, ३८६,
 ४१३
 “भूमि-घोषणा”—५१०
 भौगोलिक अभियान—३७२
 मंगोल—३१९ (पूर्वी-)
 मई-दिवस—३९७
 मकदूनिया—४०७
 मकरियेफ—४४६
 मकरी—१०७
 मक्का—१०४, १४३, १८०,

१८५, २०३, २०७, ३५८,
४३४, ४४९, ४५२
मखचकला—७४
मखदूम—१५३, ४९२ (कुल्ली,
तेक्का)
मखवेचंको—१९२
“मखजनुल्-असरार”—१६१
मगयार—२१, २२, २४
(हुंगेरियन), ३७९, ५४८
मगरदी—१४७
मगज—२०९
मङ्ग किरमान—६१
मङ्ग किशलक—१३०, १७८
(मङ्गकिशलक)
मङ्ग-गू—६, ७, २१, २९,
१२७, १२९, १४७ (खान),
२९० (चिपटी नाकवाला)
मङ्ग-गू तेमूर—२९, १३०, १४३
“मजदूर इत्तिफाक”—५१८
(मजदूर लीग)
मजदूर-प्रतिनिधियोंकी सोवि-
यत—४०१, ४०३
“मजनु-लैला”—१६१
मजार—५४६ (गांव)
मजीदुद्दीन—१२६
मतनियाज—४८६ (दीवानबेगी)
मतमुराद—४८५ (दीवानबेगी)
“मत्लउस-सादेन”—१५६, १५७
“मत्लउल-अनवार”—१६१
मत्सेन्स्क—६८
मत्स्य-न्याय—४०९
मथुरा—१५१
मदरसा—१७०, १९३
“मदरसा-खुसरविया”—१६१
“मदरसा निजामिया”—१६१
“मदरसा-शेरदिल”—१९४
मदलीखान—५४०
मदलेन—५१६, ५४८
मदिरावाद—१३७
मदीना—१८९, १९०

मध्य-एशिया—१०३, ४०५, ५११
मध्य-ओर्दू—३३२, ३३७,
३४३, ३४७
मनाप—५३७ (सरदार)
मनाहदान—१६५
मनोमाख—७, १०५
मन्तजोला—१३५
मन्लूक—१४०, १४१, १५२
ममाइ—५०, ५१, ९८ (खान)
मरकित—१८
मरगा—१४१
मरगिनान—१७६
मराग-जगात—२८
मरागियान—४१
मरिगोरोफ—३३३
मरियतबुर्ग—२४९
मरिया—११५ (नगाया), २८४
मरीना—२१९, २२५
मरन्स्क—३८८
मार्कोजोफ (कर्नल)—४८०, ४८३
मर्गिलान—१७६, ३०५, ३०६,
४२१, ४२४, ४२८, ४३१,
४३६, ४३७, ४४८, ४२०,
५१८, ५२० (मर्गिलान)
मलदाविया—६
मलिक—३६
मलिक अशरफ—३९, ४०, ४१
मशहद—१५८ (खुरासान),
१७३, १७६, १७७, १७८,
१८१, १८२, १८७, १९१,
२०३, २११, ४४२, ४४४,
४६१, ४६६, ४७६, ४९१
मशहदी—१४५
मसऊदबेग—१३०, १३२ (-बेग),
१५०
मसऊदी—७३
मसद—५१४ (उरबेक)
मसूरी—४६२, ४९९
मसूरी झील—४१३
मसोपोतामिया—५, ४११

(इराक)
मस्कत—१०४
मस्कवा—९० (मास्को)
मस्ची—४८२
मस्जिद—१८३
“मस्नवी”—१४३ (कथाकाव्य)
महमतकुल—११०, ११२,
११३, ११४, ३१८
महमूद—६९, १२२, १२३,
१९२, २७५
महमूद काश्गरी—५४७
महमूद—१६८-६९ (खान),
१९१, २११, २१६,
(-बी अतालीक), २७७
(मिर्जा)
महमूद मिर्जा—२७७
महम्मद—(देखो मुहम्मद,
मोहम्मद)
महरम—४३४ (एक अफसर)
महाओर्दू—३४३, ३४९, ४२५
महाकेबिन—३३१
महाखान—१२१
महा-गाडी—३ (-नगर)
महाचीन—१०३
महादूत—३२
महानोगाई—३३९
महासंघराज—३५, ११६, २२९
महराजुल—३४, ७७, ९३,
९६, ९७
महासागर—३७२
महीने—१९९
मंगजेमा—२३८
मंगलइ सूयाह—३०२
मंगला—२९५
मंगलाई-सूबे—२९५, २९६
मंगलिक—३३८, ३४६
मंगित—१६७, १६८, १६९,
१८५, १९२, १९४, २०९,
२७९, २८९, २९१, ४२०,
४७१ (तुर्कमान), ४३९

- (वंश), ४८४, ५१६
(औगुत, उज्जेक), ५२७
(=मंगीत)
- मंगिशलक—१६८ (कास्पियन तट), १८५, १९९, २०३, २०५, २०७, २०९, ४६९ (तुर्कमान), ४७२, ४८१, ४८९ (=मंगिशलक)
- मंगुत—२८७, २९१, ३१८
- मंगुत (मंगित)—५१४ (करशी बुखारामें)
- मंगुश्लक (मंगिशलक)—३५८
- मंगू तेमर—३१५ (मङ्गू-तेमूर)
- मंगोल — ३ (-खाकान), १३ (भाषा), ३१, ९२, १००, ११४, १२९, १४१, १४२, १५४, १९६, २१०, २२७, २६३, २७३, ३००, ३१३, ३१६, ३४० (तोर्गुत), ५१७, ५२९, ५३०, ५४१, ५४८
- “मंगोल-उन्निगुचा”—१३
(तोपची)
- मंगोलायित—२८४, ३०५, ४८६, ५२८, ५३९
- मंगोलिया—१२४, १४५, २३८, ३२२, ५१२ (बाह्य), ५३०
- मंगोलिस्तान—२९५
- मंगोलिस्तानी—१४९
- मंचू (छिङ्ग)—३२४, ३२९, ३३७, ३८९
- मंचूरिया—३९७, ४०२
- मंचूरी—३८९
- मदारिन—२५३ (अफसर)
- मंदोफ—२२७
- मंसी—२३५
- मंसूर—१६९
- माखिम—११०
- मागियान—१८७, ४५७, ४५८
- माचा—४५७, ४५८
- माचीन—१३०
- माजन्दरान—६३ (ईरान), १०३, १४५, १५४, १५७, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१, ७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३, ९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४, ९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १०००
- माजूर—४६०
- मानी—१६२
- मामियान—१८७
- मार—३१५
- मारमोरा—३८६ (समुद्र)
- मारी—१०७, २२१, २२४, २३४, २३७, ४०१
- मारीइन्स्क—३६५
- मार्कोनी—३९६
- मार्को पोलो—७, १०, १२, १३, ४६, ४८, ६६, १२५, ४६२
- मार्क्स—३७९, ३८६, ३९१, ३९३ (कार्ल मार्क्स), ३९५
- मार्क्सवाद—३८७, ३९३, ५०७
- “मार्क्सवाद और राष्ट्रीय प्रश्न”—४११
- मार्क्सवादी—४१०
- “मार्कोपोलोकी यात्रायें”—११
- मार्शल-ला—४१७
- “माली तियात्र”—३८५
- माल्ता—२६९, २७०
- माल्ता-धार्मिक-संगठन—२६९
- मावरा-उन्-नह्ल—१२१
(=अन्तर्वेद)
- मासूम—१९४
- मास्को—६, २२ (मकस), २६, ३५, ४३, ५१ (-ध्वंस), ५२, ५३, ६१, ९१, ९२, ९६, ९७, १०१, १०५, ११४, १५१, २०५, २१७, २१८, २१९, २२०, २२२, २२४, २३३, २३७, २४०, २४१, २४६, २४७, २४८, २४९, २५२, २६६, २८९, ३१७, ३१८, ३२५, ३२७, ३३८, ३६५, ३६६, ३६८, ३६९, ३७३, ३७७, ३८३, ३८५, ३८९, ३९८, ३९९, ४१६,
- ४४४, ४९३, ५०७, ५०८, ५१०, ५११, ५३३, ५५०, ५५४ (मस्क्वा, मास्क्वा)
- मास्को राजुल—३४
- मास्को-विजय—२२
- मास्क्वा—१०१ (नदी), २२१
- मिकादो—१४०
- मिखाइल—३४, ९६, ९७, १०२, १३५, १८८, २२४, ४०५, ४१९, ४८० (महाराजुल)
- मिखाइल रोमानोफ—४१९
- मिखाइलोफ—२४८, ५२५
- मिखाइलोव्स्कया—३८३
- मिखाइलोव्स्की—३९२, ४८८
(खाड़ी)
- मिङ्ग-वंश—१६ (=प्रकाश)
- मितन—५१६ (उज्जेक)
- मित्र-शक्तियां—५०३, ५०६
- मित्रासोफ़—३४१
- मितिल्न्स्कया—३८५
- मिनुसिन्स्की—३९५
- मिन्जान—४६२
- मिन्स्क—३९५
- “मिन्हाजुल्मज्जकरीन”—१३८
- मियानकुल—१६३, १७०, १७६, १८२
- “मिरातुल्-मफ़तूह”—१४५
- मिर्जा—११३, १६५, २८७
- मिर्जा अस्कन्दर—२९८
- मिर्जा खोजा—५५३
- मिर्जा रहीम—५४३ (ईशान औलिया)
- मिर्जा शम्स—४२५
- मिर्जा शहवाई (बुखारा)—५२६
- मिल—३६५
- “मिलियनी”—११ (=करोड़ी)
- मिलोरदोजिच—३७५
- मिलोस्लाव्स्की—२२७
- मिल्की खिराज—४५३
- मिल्तेक—५१५ (उज्जेक)
- मिलयुकोफ—४१८

मिस्त्र—३९, १०३, १३०,
१४०, १४१, १४२, १४४,
१४५, १५२, २६९, ४११

मिग्—१९१, ५१४ (उज्बेक),
५१६, ४२१ (कबीला)

मिग्लक—३००

“मिग्बाशी”—१४८, ४२८
(वजीर)

मिग् बुलाक—४८०, ४८१,
४८२

मीनारकलां—४५३

मीनिन—२२४

मीर अरब—१८३, १९३

मीरअली—१५४ (तन्नेजी),
१६२ (मजनु)

मीर अलीशेख—१८१

मीर आखुर—५५२, ५५३

मीरखोजन्द—१३६

मीर नजीम—१७५, १७६

मीरशब (कोतवाल)—४४९

मीरांशाह—५६ (तेमूर-मुत्र),
६१, ६६, १५०, १५९

मुखानोफ—५४२

मुकीम—१९१ (खान), १९२

“मुक्ति-संघ”—३७३

मुगजर—३५५

मुगल—१४८, ३०५, ३११,
३१३

मुगल-साम्राज्य—१८७

मुगोल—५१५ (उज्बेक)

मुगोलिस्तान—४९, ५५, ५६,
६९, १२१, १३४, १३७,
१४८, १५५, १६६, १६८,
१७१, १७३, १७४, १७५,
१७७, २७५, २७७, २७८,
२९३, २९८, ३०५, ३०७,
३०८ (सप्तनद)

मुगोलिस्तानी—१७१

मुञ्खे—२१, २६, १२७, १२८
(कआन), १३९

मुजफ्फर—१७२, ४३१, ४३२
(अमीर, बुखारा)

मुजफ्फरी—१४७, १५० (-वंश)

मुजार्त—३३६ (डांडा)

मुजाहिद—४४३ (धर्मयोद्धा)

मुद्दा-स्फीति—५०६

मुबारक—८, ४८, ६६, १२९
(शाह)

मरगाब—१४१, १७२, २०३,
४७७, ४८८

मुरमो—८२

मुरदिकन—२८८

मुराद—४६०, ४८९ (अमीर)

मुराबिन—४६७

मुरावयेफ—२७२, ३७३, ३७४

मुरावेफ—३७४, ३८०, ३८१,
३८८, ३८९, ३९०, ४७२

मुराव्योफ-अपोस्तोल—३७५,
३७६

मुरीद—४३, ३७७ (-वाद)

मुगाबि—४४१, ४८९, ४९८
(बाला), ४९१

मुर्जा—५३ (मिर्जा), २८७

मुर्तुजा—३१५, ३१६

मुलर—३१६

मुलतान—७, १८, १४४, १५१

मुल्ला कारी—४९५

मुल्ला नीरक—१८३

मुल्ला मुवाफिकी—१८३

मुल्ला शम्शुद्दीन—१२२

मुशारिफुद्दीन—१४३

मुसलमान—३०

“मुसलमान कमकर संघ”—५२३

मुसलमानकुल चूलाक (लुंज)—
४२७, ८२९

मुसिकी यङ्क-कि—५६

मुसैबी—१३५

मुस्तफा कमाल—५४३

मुस्तफा खान—१६५

मुस्तेर—५१६, ५२८

मुहम्मद—६९, १०३ (पैगम्बर),
१२५, १३५, १३६, १४२,
१४४, १४५, १५९ (२),

१६१, १६६, १६७, १६८,

१९०, १९१, २०१, २०४,

२०६ (देखो मुहम्मद भी)

मुहम्मद अमीन—४६९ (ईनक),
४९० (खान)

मुहम्मद अली—३९४

मुहम्मद उसमान—११६

मुहम्मद किर्गिज—३१०, ३१२

मुहम्मद खान—६७

मुहम्मद गूरगान—३०६

मुहम्मद जहूर—४२३ (दीवान-
बेगी)

मुहम्मद जौक्री—१५६

मुहम्मद तर्खन—१६०

मुहम्मद तेमूर—१६९

मुहम्मद नियाजबी—४७१, ४८२
(दीवानबेगी)

मुहम्मद रजा बेक—४७१

मुहम्मद रजाबेक—४२३ (तुगाई)
४७१

मुहम्मद रहीम खान—४७१
(खीवा)

मुहम्मदशाह—३११, ४७४
(ईरान)

मुहम्मद शिकाबी—१६२

मुहम्मद शैबानी—१६३, १६५,
१६७, १६८, १६९, १८०,

१८३, १९७, २७७, ३०६,
३०७ (शाहीबेग)

मुहम्मद सालेह—१८३

मुहम्मद सुलतान—५८

मुहम्मद हैदर—३०२

मुंगत नोगाई—२८६

मुंगा—१९७

मू-चुङ्क—२२७

मूजातिच—५५२

मूजार्त—३३१

मूजिक—२२८, ५३०, ५३१

मूमिन—५१५ (उज्जेक)
 मूरक्राफ्ट—४६०, ४६२
 “मूर्ख”—३९२
 मूलर—१११, ३४५, ३५९
 (मुलर भी)
 मूसा—१५०
 “मूसी”—४२५
 “मृत आत्माये”—३८४
 “मृतक गृहके संस्मरण”—३९२
 मेकआर्थर—१४०
 मेक्नेल—४४९
 मेक्सिको—४७३
 मोगलान बुका—१४३
 मेचनिकोफ—३९६
 मेज़मिर—७३
 मन्—१५३
 मेन्दली—४८४
 मेन्देलेयेफ—३९२
 मेन्डोविक—३९७, ४००, ४०,
 ४१०, ४१६, ४१७, ५०५,
 ५०६, ५०९, ५१७, ५१९,
 ५२१, ५३८ (अल्पमतीय)
 ममक—५०
 मेमना—१९१, ४५१, ४८९
 मेयाफरकिन—७
 मेरकॅद—४३४
 मरकुत—५१४ (उज्जेक)
 मरेगन—३२१, ३२४
 मरगास—१४२
 मेरगुल—१३१
 मेराजरिक—१२५
 मरिया—७७, ९०
 मर्कुलोफ—५४४
 मर्गलानी—१२६
 मेर्व—१३, १३१, १५४,
 १६१, १६७, १७०, १७३,
 १७६, १८१, १८५, १८९,
 २०३, २०४, ३०९, ३८८,
 ४४०, ४४१, ४४२, ४४४,
 ४७३, ४७६, ४८९, ४९१,
 ४९२, ४९७, ४९९, ५००,
 ५४८, ५५०, ५५५

मेशकरी—३५५
 मेइकेरियक—३५४
 मेहतर—४३४, ४३५, ४६०,
 ४७२ (वित्त-मंत्री), ४७५
 ४७७, ४७८
 मेहमानखाना—५४० (सामूहिक
 घर)
 मेहरबान खानम—१७७
 मेहरानरूद—४०
 मेहीन—१९९
 मेंगली गिराई—१००
 मेंगू—८
 मेंशिकोफ—२५५, २५६
 मैमना—१९४
 मैमाचेन—२५६, २५७
 मैलबाश—३२१, ३३९
 मोइसेचेको—३९३
 मोक्सी—४१
 मोगक—१८३
 मोगल—३१२
 मोगाकपुल—१७०
 मोगिलेफ—५०३
 मोज़ाइस्क—५२, ९७, २२१,
 ३६९
 मोज़ेर—४९४
 मोतिनान—५४६ (गांव)
 मोतुगान—१२६
 मोन्तेनिग्रो—३८६, ४११
 मोन्तेस्को—२५९
 “मोरगू”—२५४
 मोरान—१३३
 मोराविया—२३
 मोरोज़ोज़—२२६, २२७,
 २२८, ३७६, ३९३
 मोर्दवी—३७२
 मोर्दवी—९०, ९२
 मोर्द्वी—१०७
 मोर्द्विन—२२, २२१ (मोर्द्वी-
 वीन)
 मोर्द्विनी—२३४, २३७
 मोलियेर—२६६
 मोलोगा—३५
 मोलोटोफ—४०६, ४१६

मोल्दाविया—२३, ३९, ३८०,
 ३६७, ३८०
 मोसली—१४४
 मोहम्मद ओगलान—४९
 (सुल्तान), ५० (ओगलान),
 ६५ (खान), १६६ (मिर्जा)
 मोहीउद्दीन—३९ (बुरदइ),
 १५७
 म्निस्जेफ—२१८
 म्स्तिस्लाव—८४
 यजज़ा—२४६
 यक्सा—२४३
 यग्नान—४५७, ४५८
 यग्नान—५३९ (गांव, नदी)
 यग्नानवी—५३९ (भाषा, गलचा)
 यङ्गी—१३५, ३०२
 यज्द—१०३, १०४, ३०१
 (ईरान)
 यतीकंद—३०८
 यतीकुदुम—१७४ (सप्तकूप)
 यदकू—४९
 यदा-तासी—१८३
 यनकुर—१५२
 यमागुरची—१६७, २८६
 यमासोफ—५३३
 यमीशफ—३३३ (यामीशफ)
 यम्बा—२०५, २०८, २८४,
 २८६, ३२१, ३३९, ३५०
 (नदी), ३५६, ४६५, ४७८
 यलानतुश—२८२
 यवन—२६९
 यशमुत—१४३
 यस्सू-मङ्गू—२९
 यस्सी—५६ (तुर्किस्तान),
 ५७, १५९, १६५ (तुर्कि-
 स्तान शहर), १६८, १६९,
 १८०, २७९, ४३२
 यसाजर—१३४, १३५
 यहिया करती—१५०
 यहूदी—३६, ७४, ८३, ३९०,
 ४४२, ४४५, ४४६, ४५०,
 ४५२

- यंगी आरिक—४८५
 यंगी कला—४९६
 यंगीशहर—१९९
 यंगी-हिंसार—३०९, ४२५
 यंजील—१६०
 याइजी—२११
 याइलक—३० (याइलग),
 १३० (गरम चरागाह)
 याकुत्स्क—२३८, २४४, ३९१
 याकूगिर—२३८
 याकूत—७१ (साइबेरियामें),
 २३८, २७१, २७२, ४०२
 याकूतिया—३९१
 याकूब—११०, ४६२४, ७६
 (मेहतर)
 याकोब—३४८
 याकोबी—३८३
 यागरिनी—५१५ (उज्बेक)
 यागलान—६०
 यागलिबी—६१
 यागेलोन—६१
 यांगीकन्त—२९२
 याङ्ग-चाउ—१०
 याङ्ग-ची—५, १६ (याङ्ग ची)
 याचिरली—५४८ (तुर्कमान)
 याज्जगंद—५४३-४५
 याज्जगिर—५४७ (तुर्कमान)
 याज्जिर—५७७ (तुर्कमान)
 याजूज—२८०
 यादगार—१०४ (महम्मद),
 (खान), १०८, ११०, १६०,
 १६६, १९६, ३१६
 यान—२२१
 यान कुगनि—५४३ (गांव)
 यानीकला—४८४
 यानी कसगन—४८१
 यानी-किगिज—३४८
 यानीकुगनि—४२९, ४३१,
 ४५२
 यानीकन्त—२६ (सिरतटे)
 यानी दरिया—२९२ (नवीन
 नदी), ४८०, ४८१
 याबू—५१५ (उज्बेक)
 याम—११६
 यामच बी (बाबर)—४२१
 यामिश—३२६ (सरोवर),
 ३३३
 यामूत (तुर्कमान)—२००, २०७,
 ४६७, ४६८, ४६९, ४७०,
 ४७१, ४७७, ४८४, ४८७,
 ४९०, ४९४, ५४७ (यामूद)
 यायिक—२१, ४९, ५८
 (उराल), ७५, २०५,
 २०६, २३५, २३६, २६१,
 २८४ (उराल); २८५, २८६,
 २८७, ३१८, ३१९, ३३८,
 ३३९, ३४०, ३४१, ३४३,
 ३५०, ३५४, ३५५, ३५६,
 ३५७, ३५८
 ययित्स्क—२३६, २६१
 यारकंद—१६४, ३०३, ३०७,
 ३०९, ३१३, ३२८, ३३२,
 ३३३, ३४७, ४२५, ४६४,
 ४६५
 यार मुहम्मद—१७५, १९५
 यार मुहम्मदोफ—५३३
 यारलिक—२६ (शासन-पत्र),
 २९, ३३, ५१, ६०, ९३
 (अधिकार-पत्र, शासन-पत्र),
 १४३
 यारलिक तुराखान—४७७
 यारोपोल्क—८३
 यारोस्लाव—२६, ५२, ८४
 (१), ८५, ९२, २२४, ३१८
 "यारोस्लाव्स्की-प्राव्दा"—८४
 यालगू—१३०
 यालूतुरा—१२२
 यालीनिश—३१६
 यालीसेफ—२२७
 यालू (उपत्यका)—३९८
 याल्लोचकोफ—३९६ (विजली
 दीप आविष्कारक)
 याना—१२१ (यास्सा), १५४,
 १६३ (विधान)
 यासी—८२ (ओसेती), २९७
 यास्साक—१७६ (कानून,
 यासा)
 यास्सी—२६३
 याहक पश्ते—५४३, ५४४
 यिदिस्से—३४९
 यिमु-येमुर—१५
 यु-अन—९
 युक्लिक—५५
 युक्त राष्ट्र (अमेरिका)
 —४०८, ४१२, ४१४
 युग—१५८
 युगक्रमिक पद्धति—३९२
 युगुर—३१६ (उइगुर)
 युग्रा—९४
 युङ्ग-चेन—३३२
 युज्ज—५१४ (उज्बेक)
 "युद्ध और शांति"—३९३
 युन्नन—१४
 "यूनी कमनिस्त" (युवक कमू-
 निस्ट)—५३३
 युरेकिर—५४७ (तुर्कमान)
 युरेकी—५४७ (तुर्कमान)
 युर्ची—४५९
 युर्त—३०५ (आंदूवाले देश),
 १३२
 युलदुज—१३३, २९८, ३००
 युल्दाश—४५७ (परमांची)
 युवान-मिङ्ग-युवान—३८९
 युसकुदुक—४८१
 यूकागिर—२७१
 "यूगेनी-ओनेगिन"—३८४
 यूज्जक—५१५ (उज्बेक)
 यूदेनिच—५५२
 यूनस—१६६ (खान), २०२,
 २७७, २९३, ३०५, ३०६,
 ३१२, ४२१ (खोजा)
 यूनिया—२६९
 यूफियोसि—२८४

यूरियेफ—५२, ८४, १०८
 यूरी—९० (१), ९२, ९६ (३),
 ९७, ९९, २३७ (सेनापति)
 “यूरोपा”—२४१
 यूति—३१९
 यूलर—२६५
 यूसुफ—४२ (-मिडवाशी), ५३
 (सूफी), ५४, १५७, २७८
 (अमीर)
 येइययुर (तुर्कमान)—५४७
 येकाजुखोर—२४१
 येज्द—१०३ (उयेज्द), १०४
 येदेची—११६ (मंत्र द्वारा वर्षा
 करानेवाला)
 येदिस्सन (एतिसन)—३२१
 येनिसेइ—२३८, २७१, २७२,
 ३७६, ३९५, ४८९
 येनिसेइस्क—२३८
 येपंचिन्स्की—११५
 येम्बा—३४३ (यम्बा)
 येयेमयुर—५४७ (तुर्कमान)
 येरेवान (अरमनी)—३७१,
 ३७७ (येरिवान)
 यरोफेइ—२४२
 येर्मक—१०९, ११०, १११,
 ११२, ११३, ११४, २३५,
 २३८, २७१, २७२, ३१५,
 ३१६, ३७४, ३८०, ३९०
 (-एरमक)
 येर्मकोवो-गोरोदिची—११०
 येर्मकोवा पेरेकोफ—११४
 येर्मोलाई—११०
 येर्मोलोवा (अभिनेत्री)—३९३
 येलचिन—५१४ (उज्बेक)
 येलिगइ—११४
 येलदइ—३२१
 येलिज्की—३१७
 येली—४८९ (तुर्कमान), ४९०,
 येलेना—१०६
 येलतन—३५१
 येल्दिइ—३३८
 येल्यु—५

येल्यु चुत्साइ—४ (मंगोल)
 येवेकी—२३८
 येसू-मुइ-खे—१२६ (-येसू मइ-गू)
 येस्केल्विनियान—११३
 येस्सुन—१३६
 येसू मइ गू—१२६, १२७
 योदोकिया—२५१
 योव—११६
 योरोशिलम—३८०
 योलेतान—४९०, ४९१, ४९७
 (उपत्यका)
 योलोतेम (किला)—४७६
 योसफ—२६७, ३९६
 (=स्तालिन)
 योहन—१३५
 यौञ्जा—२४१, २४६
 “रईस शरीयत”—४४३ (धर्मा-
 धिकारी)
 रगूसा—२४
 रजब कराजार—४२४
 रजाइया—५५४ (उर्मिया
 सरोवर)
 रजाकुल्ली—१९३
 रजीमखान—४६६
 रणजीतसिंह—४४८, ४५०
 रतिबर—६, २३
 रबात—१६१ (धर्मशाला),
 २९८ (पांथशाला)
 “रबोचया जार्या” (कमकरो
 की उषा)—३९१
 “रबोचीपुत”—५०८ (बोल्शेविक
 पत्र)
 रबोचेयोदेलो—५१८
 रबूतन—३३२, ३३३
 रमजन—५१
 रशीद खान—२७७
 रशीदुद्दीन—२६, ४६, १३३,
 १४५, ५४७
 “रस्कोलनिकी—२२९”
 रस्तिसियन-द-पीसा—११
 रस्तोफ़—८२, २२४, ४०२

रस्पुतिन—४१५, ४१६
 रहमतुल्ला—५४६
 रहीम—१८८
 रहीमकुल खान—४७६
 रहीम बी—१९२, ४५५
 (मंगित)
 रा—७१ (वोल्गा नदी), ७३
 राइ—८१ (स्वर्ग)
 राइन—४११
 राइम्सक—३५८, ४२९, ४७६
 राग—४६२
 राजकुमार द्वीप—३१९
 राजा (वाइ)—३४७
 राजादेश—३५७ (उकाजे)
 राजिन—२३६, २३७, २३८,
 २६१
 राजुल—१ (कन्याज), ७५
 २५३, ३१७
 राजुल उरुसोफ—३५२
 राजुल गागरिन—४६४
 राजुल ल्वोफ—४१७
 राज्यदूमा—३७०, ४०४
 (संसद्), ४१०
 राज्यपाल—१६८, १७८, २१७
 राज्य-परिषद्—३७०, ५०६,
 ५०७
 “राज्य-विधानोंका संहिती-
 करण”—३७०
 रादा—२३२
 रादिमिची—७७
 रादिश्चेफ—२६७, २६८
 रानी—२५५ (एकातेरिना),
 ३४४, ३५१, ३५२ (अन्ना)
 राबर्ट (जेनरल)—४९८
 रायन—५३३ (=जिला)
 रायमुन्दर—१३५
 रावर्लपिडी—३१३
 राष्ट्रीय परिषद्—११६, २१७
 राष्ट्रीय सभा—१०८
 रिचार्ड—१३५

रिनदान—५१५ (उज्बेक)
 रिवालफो—१०५
 रिन्-छेन्-गल्—१६
 रिन्-छेन्-फग—१५
 रिपेन्स्की—३५७
 रिलेयेफ—३७४, ४७५, ३८२,
 ३८३ (कवि)
 रीगा—९५, १०८, २५१, ५०७
 रइकोफ—५०६
 रथेनिया—२३
 रबरिक—७, ८, १०, १२५,
 १२७
 रमानिया—३८६
 रम्यानसेफ—२५८, २६०
 “रस्क्या प्राब्दा”—८५, ३७३,
 ३७४
 रस्की अकदमी नाउक—२६४
 रस्तम—१५८
 रूजवेल्ड—४०० (अमेरिकन)
 रूजा—९६
 “रूदिन”—३९२
 रूबल—२५५
 रूम—१४३
 रूमानिया—१०३, २२९, ४००,
 ४१२
 रूमी—१४३, १४७, १५२
 रूरिक—७५, ३७२
 रूरिक-वंश—११५, २७८
 रूस—५, १६, २९, ६८, ७१
 ७३, ७७, ७८, ८३, १०३,
 १०४, १५३, १६७, २०६,
 २०७, २१०, २३३, २६९,
 २९१, ३२१, ३२४, ३२९,
 ३३२, ३४७, ३६६, ३९८,
 ४०७, ४२५, ४९०, ४९४
 (तुर्कमानयुद्ध) ५२९,
 ५३६
 रूस-जापान-युद्ध—३९७
 रूस में क्रांति—५०३, ५३१
 (१९०५)
 “रूसमें पूंजीवादका विकास”—

३९५
 रूसी—५६, ७२, ७४, २४३,
 २४४, २५३, २७०, २७९,
 ३१६, ३२६, ३७६, ३८९,
 ४९३, ५२२ (सफेद),
 ५३५, ५३६, ५५२
 रूसी अभियान—४७४, ४८०
 रूसी-एसियाई बैंक—४०९, ५२३
 रूसी किसान संघ—४०१
 रूसी गणराज्य—५१२
 रूसी गुलाम—४६५-६६
 रूसी-चीनी—४०९
 “रूसी तियात्र”—२६६
 रूसी भाषा—३९२, ५५६
 (और भारत)
 “रूसी मजदूरोंका उत्तरी संघ”—
 ३९१
 रूसी विज्ञान अकदमी—२६४
 रूसी सत्य-अधिकार—३७३
 “रूसी समाजवादी जनतांत्रिक
 मजदूर पार्टी”—४०५
 रूसो—२६७, ३७३
 रूस्तक—४६२
 रे—१०३ (तेहरान)
 रेगिस्तान—४४९
 रेडियोग्राम—५५०
 रेतैनकाम्फ—४१३
 रेनाड—३३१
 रेपिन—३९३ (चित्रकार)
 रेल-इंजन—३७६
 रेल-निर्माण—४९९
 रेव्-कम्—५२४ (रेवलय्शनरी
 कमिटी, क्रांति-समिति)
 रेवेल—१०८
 रेंगल—३७३
 रोज़ खान—४७०
 रोज़िन्स्की—२२१
 रोम—७३, १०६, १४१,
 १४५, १५०, २६९, ४३३
 रोमन—६ (ईगर-मुत्र), २२,
 ५३, ७३

रोमन-पोप—२२९
 रोमनोफ—११५, २१७, २५६
 रोमनोवा—११५
 रोमनी—२०३, ४३३, ४३४
 (=जिप्सी)
 रोमानोव्स्की—४३२, ४५२
 (जेनरल)
 रोयरिक—७५ (=रोइरिक,
 रोरिक)
 रोरिक—७५
 रोरिक-वंश—५१७
 रोलेट कानून—५२१
 रोस्तोफ—३५, ६३, ८६, ८८,
 ९०
 रोस्तोव्स्को—५२५
 रोहा—८, १४१
 र्ज़र्याद्नीप्रिकाज—२२८
 रूयान्जिन—२२, ३४, ५१, ५२,
 ६४, ६८, ८२, ८८, ९१,
 ९२, ९८, १००, १०६,
 २२०, २२३
 लगोदा—५५३
 लघु-ओदू—२७८, ३३७, ३३९,
 ३४३, ३४९, ४६७, ४६९
 लत्विया—४०१
 लत्वियन—५१९
 “लताफतनामा”—१५८
 लतीफ—१६६
 लदोगा—९४, ११६, २४९
 (सरोवर), ५५१
 लश्करबाशी—५४५
 लंका—१०, १०३
 लंग—१४९ (लंगड़ा)
 लंदन—३९, ३८२
 लाइप्ज़िक—२६७, ३७०
 लादा—७३ (=हादा)
 लादिगिन—३९६ (विजली-
 आविष्कारक)
 लादिस्लाउस—५३ (=दुला-
 दश्रवा)

लामा—१२ (साधु), १३८
 लायक पसंद (बासमची)—५४४
 लायोस कोसुन—३७९
 लार—१०३, १०४
 लारगा—२६०
 लाज गारद—५४९
 “लाल जेनरल”—४०६
 लाल सरोवर—४१५
 लालसेना—५३३, ५४६, ५४९
 (तुर्कमानियामें निर्माण),
 ५५५
 लावाजिपे—२६५
 लावरेन्तोफ (जेनरल)—५३१
 लाश—८०
 लाहार्प—३६५, ३६६, ३७०
 लाहौर—७, २८, १४४, ३१३
 लिबारेफ—३३३
 लिगनित्ज—६, २३, २५
 लिङ्ग-अन्—९
 लिन्वा—३१९
 लिन्के—३७३
 लिथुवन—९८
 लिथुवानिया—३४, ३८, ५३,
 ६०, ६८, ९७, १००,
 १०८, २२९, २३४, ३७७,
 ४१३
 लिथुवानी—५२, ६२, ८३,
 ९१, ९८, १००, २२१,
 ३१७
 लिथो—१५५
 लिपि—९
 लिफलेंदिया—२४९
 लियांगर—४२५
 लिवोनिया—७८, ९४, ९५
 (बालतिक-तट), १००, १०८,
 १०९, ११६
 ली-चूङ्ग—८, ९
 लुई—२३, २६७, ३७० (अठा-
 रहवां)
 लुगान्स्क—४०३, ४०६
 लुगुई—३१७

लुत्स्क—६३
 लुवलिन—६, २७, २३४
 लुवा—३१७
 लूओरावेतलन—२७१
 लूकस—११०
 लूल—४०
 लूज्कोइ—३१७
 लेना—२३८, २३९, २४०,
 २७१, २७२, ३७३, ३७६,
 ४०९
 लेनिन—३७६, ३८७, ३९२,
 ३९४-९६, ३९७, ३९९,
 ४०२, ४०३, ४०५, ४०६,
 ४१०, ४११, ४१३, ४१९,
 ५०३, ५०९ (प्रथम राजकीय
 धोषणा), ५१०, ५१३
 (देहांत)
 लेनिनप्राद—५७, १६२, २५०,
 ३९२, ५३३
 लेनिम-पर्वत—१०७
 लेनिन पुस्तकालय—२६७
 लेनिनाबाद—४३१, ४५१,
 ५१८ (खोजद)
 लेनिनरक—५३५ (शिखर)
 लेवेसा—३४९
 लेप्सा—३३१
 लेबाउपकी—३१६
 लेम्बर—२३
 लेमन्तोफ—३८२, ३८३
 (कवि), ३६९, ३८४
 लेव तालस्त्वा—१८०, ३९२
 लेवितन—३९६ (विषकार)
 लेंडसेल—२९९
 “लैला-मजनू”—१६१
 लोवा (सावेरिया)—३३५
 लो-डी-ग्यङ्-छेन—८
 लोपुखना—२५१
 लोव्—३००
 लोबनोर—२९७
 लोबाचेस्की—३८२
 लोन्जाङ्ग—३२१

लोन्जाङ्ग जाजेर—३४०
 लोन्जुङ्ग—३३८
 लोमकार्ट—५५२
 लोमनिदुङ्ग—२४
 लोमाकिन—४८१, ४८४, ४९५
 (जेनरल)
 लोमोनोसोफ—२६५, २६७
 लोयाङ्ग—५ (होनान्में)
 लोली—२०३, ४३४ (जिप्सी)
 लोवात—७५
 लोसवा—१११
 “लोह-पुरुष”—२७१
 लीह-युग—५२८
 ल्याउ तङ्ग (प्रायद्वीप)—३९७
 ल्याखोफ—४०७
 ल्यापुनोफ—२२३
 ल्यूप—३३१
 ल्योन-परिषद्—६
 ल्योनहार्ड—२६५
 ल्योन्ति—२२७
 ल्योपोल्ड—२५७
 ल्वोफ—२३२, ४१३, ४१८
 ल्हचन खान—३३२
 ल्हासा—३३२, ३४२
 “वक्राया”—६७ (घटना),
 १५६, १५९
 वकुलिचुक—४००
 वक्षु—६ (आमू दरिया), ७,
 १३०, १३१, १३४, १३७,
 १३९, १५४, १७३, १८६,
 १९४, २०५, २०८, ४३९,
 ४४२, ४६५, ४६७, ४८०,
 ४८८, ४९०, ४९९, ५२७,
 ५३९, ५४१, ५५१
 वखान—४६१, ४६२
 वखेया (इलाका)—५५६
 वजीर—१२५, १२६, १२७,
 १३१, १३७ (अमात्य),
 १८३, १८६, १८७, २०८,
 ४४५
 वजीरआजम—१३६ (महामंत्री)

वत्शिर—३२४
 वदगिस—६७
 वरंगी—७५, ७६
 वरसामिनार—४५८
 वरसावा—२३४ (वारसा)
 वर्गचेतना—३९१
 वर्णमाला—९
 वस्त—१११, ४२५ (= ८३
 फर्सख)
 वस्तुवाद—२४१
 वस्साफ—१२७, १२९, १३३,
 १४५
 वहीउद्दीन—१५३
 वर्षपत्र—१६
 वलाचिया—३९, ३८०
 “वलायत-उज्बेक”—१५६
 वली—३०४
 “वली-निअम”—४४२, ४५६
 वली नियाज़—५३३ (मुल्ला)
 वली मुहम्मद—१८६
 वसी कुरजी—१८८
 वाटरलू—३७०
 वादाचा—४५६
 वामपक्ष—५१९
 वामपक्षी—४०५
 वाम्बेरी—१७२, ४७६, ४७८,
 ४७९ (वम्बेरी)
 वायज़ीद—१४८, १६५
 वायोन्दुर—५४७ (तर्कमान)
 वारज़कंद—४८
 वारसा—२३४, ४१३ (वरसावा)
 वालरस—२४०
 वाल-स्टाट—६ (युद्धक्षेत्र), २३
 वाल्कोफ़—२६६
 वाल्तेर—५५२
 वास—१७४
 वासमची—५२७
 वासिलियेव्स्की—३९९, ५५१
 वासिली—४२ (त्वैर-), ५२,
 ५३, ६१, ६३, ६४, ९९
 (१, २), १०२, १०६,
 १०९ (३), ११०, ३१६

वासिली—२१९ (शुइस्की),
 ३९१ (गेरासिमोफ)
 वासिल्को—८७
 वास्को-द-गामा—१०१
 वाह्लीक—१४९, ४४२
 विज्ञान—३९६
 विजन्तीन—७३, ७५, ७७
 (पूर्वी रोम), ८४, १०५
 विजिक—११२
 विजयनगर—१५७
 वितुत—६० (विथोल्द)
 विस्कोविच—४४८
 विधान-संहिता—८५
 विनिक—२८
 विम—१११ (नदी)
 विमान-विद्या—४१२
 “विरा”—८५ (अर्थदंड)
 विलनोस्—५३, २३४ (विलनो),
 ४१३
 विलायत (अन्तर्वेद)—३०८
 (= वलायत)
 विलियनोफ़—३३३
 विलियम—४११ (विल्हेल्म)
 विलियासुबर—१४३
 विल्युइन्स्क—३८६
 विल्हेल्म—३७५ (३), ४०६
 (२)
 विशवालिग—१२७, ३०१
 विश्वेरा—१११
 विश्लिष्ट—९३
 विश्वयुद्ध—५२०
 विस्तुला—६, २७, २५९
 वीट्स बेरिंग—२५६
 वीना—१०१, २४९, ३७०,
 ३७९ (आस्ट्रिया)
 वीबोर्ग—४१७ (विपुरी)
 वुचेगदा—१११
 वुशिगुन—३२४
 वू-चाङ्ग—३११
 वूङ्ग—४६१
 वेइ-हाइ-वेइ—३९०

वेगुइश—११४
 वेगुइशेव्स्कोये—११४
 “वेचे”—८९ (पंचायत), ९३,
 ९४, ९६
 वेज़िर—१६८, १७८, १९६,
 १९७, १९९, २०१, २०२,
 २०३, २०४, २०५, २०७
 वेतुला—२३४
 “वेदोमोस्ती”—२५२
 वेधशाला—१५७
 वेनिद—७१ (वेँद)
 वेनिस—१०, ३६, ५१
 वेनिसी—३८
 वेनीउकोफ़—३६१
 वेनेविनोफ़—३८२, ३८२
 (कवि)
 वेनेवेनी (इतालियन)—४६६,
 ४९३
 वेन्द—७१
 वेन्द्युकोफ़—५३३
 वेम्बरी—१२४, १८३, २९२
 वेरदआ—५५
 वेरेन्दे—८२
 वेखोव्स्की (जेनरल)—५०६
 वेखोव्नी सबोर (उच्चतम
 सभा)—३७४
 वेखोमउराल्स्क—३४९
 वेखोव्-निजिन्सकया—३१९
 वेदगन—५२०
 वेनी—२९९ (अलमाअता),
 ३७९, ४१५, ५३०, ५३१,
 ५३७
 वेनीये—२७७, ३६१ (श्रद्धा),
 ३७९, ४३२ (अलमाअता)
 वेस्त—५५१ (वस्त)
 वेला—२४
 वेज़ली—३९०
 वेल्लोर—४५२
 वेल्यानोफ़—३३१
 वेल्स्की—१०६
 वेवोद—१०९ (राजपुरुष)
 वेसिफ़—७३
 वेसिर—१६८, १९६, ९१७

- वेसी—७७, ९०
वेस्ना—७३ (=वसंत)
वैदिक—५३
वैद्व—१४३
वैधानिक जनतांत्रिक—५१७
वोगोल—११०, १११, ११२,
११३, २३५
वोत्याक—२३४
वोदका (शराब)—४३६
वोयकोफ़—३१८
वोयवोद—२१७, २२३
(=राज्यपाल), २२८,
२३८, ३२७
वोरोदिनो—३६९
वोरोनेञ्ज—२४७
वोरोव्योवो—१०७
वोस्कॅला—२५०
वोल्निस्क—८२
वोलेस्लाउस्—८४
वोलोस्त (=जिला)—४०४,
५२०
वोल्खोफ़—२२१
वोल्खोव्स्की—११४
वोल्गा—२०, २९, ६०, ६१,
७१ (=रा, इत्तिल), ७७,
९०, ९२, ९६, १०२, १९६,
२०९, २१०, २३५, २३६,
२४७, २४८, २६१, २६४,
२८७, २८८, ३२१, ३२५,
३३९, ३४०, ३४२, ३४८,
३५५, ३५७, ३६०, ३७२,
४०१, ४२०, ४६९, ४८०,
५०८ (प्रदेश)
वोल्गा-कलमक—२३५, ३१९,
३३८, ३४५, ३५२, ३५५
वोल्गार—५, २१, ७३, ७४,
७५, १५१ (वोल्गार)
वोल्गारी—७१
वोल्ताइक आर्क (प्रदीप)—
३८३
वोल्तेर—२५९, २६६, २६७,
३७३
वोल्ना—६२
वोल्फ—१५३, ४९१, ४९२,
४९३, ४५० (डाक्टर)
वोल्हूनिया—२६, ३८
वोस्ताम—२०४
व्यत्का—२३४
व्यातिची—९०
व्युकचुज—५४७ (तुर्कमान)
वूनवोल्ड—१०८
व्लादिमिर—६, २१, २२, २४,
३५, ५२, ६१, ७८, ८३,
(स्व्यातोस्लाव-पुत्र), ८४,
८७, ९१, ९३, ९७, १०५,
२५२
व्लादिमिर मनोमाख—९०, ९४
व्लादिस्लाव—२२२
व्लारम्बेर्ग—४३०
व्सेवोलोद—४१ (खोल्म), ८६,
८७, ८८, ९१, ९४
व्सेस्लाव—८६
शक—७१, २८४, २८९
(=सियथिन), ३३४, ४५९,
५१६, ५१७, ५२८, ५२९,
५३६, ५३९, ५४१, ५४८
शकलाओ—२७
शकार्य—५२८, ५४१
शगनान—४५९
शगिन—२६२
“शञ्जतुल्-अतराक”—१८, २६,
२९, ३६
शतरंज—४९४
शफी—२०९
शबिनादाबेग—२५५
शमसमान—२८५
शमसा—११४
शमाजहान—२९८
शम्बेगाजानी—४०, ५४
शम्शुद्दीन—१३१, १४३,
१४४, १५०, १५३
शम्शवान् आइम—४३९
शम्सिन्स्की—११३
शरफुद्दीन यख्दी—३०१, ३०४
शरवान—१५६
शरातंजिन—३३४
शराबखाना—२८० (ताश्कन्द
इलाकेमें)
शराबखानी—२७९
शरीकाना—४३४
शरीयत—१३७, ४४५, ५२६
“शरीयत-शरीफ” (सद्धर्म)—
५२६
शर्रा-उसुन—३४१
शहबाई—५२६ (मिर्जा)
शहरसब्ज—१४८, ४२४
(=किश), ४२७, ४३९,
४४२, ४४९, ४५१, ४५२,
४५३, ४५६, ४५७, ४६२
(दक्षिणी)
शहरेखान—४३७
शाङ्क-तू—८ (कै-पिङ्ग-हू)
शादमुल्क—१५५, १५६
शादीबेक—६३, ६४, ६९
शान—१४ (बर्मा), ३८९
शान्ति-घोषणा—५१०
शापुरगान—१३१, १३५, १८६,
१९३, १९४
शाबिरगान—४६३
शाम—३३, ३९, १२१, १४०
शामिल—३७७
शावकान—३२
शाह अब्बास (१)—२०४
शाह इरमाईल—१७४, १७६
शाहजमां—१९४, ४४६
शाहजहां—१५७, १८७, १८९,
१९०, २०७, २२६, २२८,
२४०, ३२५
शाहजिंदा—१५४
शाहतेमूर—४४२
“शाहनामा”—१५७
शाह फखरुद्दीन—१३८
शाहबेग—१०२, १८६
शाह बूदग—१६६
शाह महमूद—१९४

शाहमातोफ—७१
 शाहमुराद—४२१, ४६०
 शाह याकूब—५४३
 शाह राजीउद्दीन—३०४
 शाहरख—६६, ६८, ६९,
 १५८, १५५, १५७, १५८,
 १६३, १६५, १९४, २९८,
 २९९, ३०१
 शाहरखिया—६७, १६७, १७१,
 २८०, ३०५
 शाह गुजा—४४८, ४४९
 शाह सफर—४४०
 शाह हुसेन (ईरान)—४६५
 शाही (सिक्का)—४७८
 शाहीबेग—३०६, ३०७, ३०८
 (मुहम्मद शैबानी),
 ३०९
 शांघाई—३८९
 शिकतुर—१४३
 शिगाई खान—३४६
 शित्का—२३९
 शिमला—४९९
 शिया—१४५, १५३, १७३,
 १७४, १७७, १८९, १९९,
 ४४१, ४४२, ४७२, ४९२
 शिरवान—२८, ३३, ३९, १०२,
 १४४, २०३
 शिरामून—२८
 शिरियानेत्स—५५३ (शीर्या-
 नेत्स), ५५४
 शिस्—११५
 शिस्तमक—११५
 शी-चुङ्ग—३३२
 शी-चू—२४१
 शीराज—३९, १०३, १०४,
 १५४, १६६, ३०१
 शीराजी—१४४, १४६, १५७
 शीरीन—५१५ (उजबेक)
 शीरी-खुसरो—१६१

शीरीं खोजा—१८३
 शुइस्की—१०६, २२२
 शुगनान—४२६
 शुमिलोफ—५१८
 शुलगिन—४१९
 शुल्दुर—५१५ (उजबेक)
 शुशोस्कोयो—३९५
 शुस्तर—१५४
 शुस्तोफ—५२५
 शकोर—३२८
 शूरखाना—४८२, ४८३
 “शूरा इस्लामिया”—५१७,
 ५१८, ५२४ (इस्लामीलीग)
 “शूरा उलेमा”—५१७
 शूलज—४२९
 शेक्सपियर (लेफ्टनेट)—४७५
 शेख—१६९
 शेख आरिक—४८३
 शेख जलील—२०६
 शेख नूरुद्दीन—१५५
 शेख मस्लहत—५७
 शेख मिर्जा—५४३
 शेखहैदर—१६७
 शेखुल्-इस्लाम—५९ (इस्लाम
 के महागुरु), १६६, १६९
 शेङ्ग-चू—२४३, ३२४
 शेदरिस—५६
 शेन्सी—५ (चीन), ३४०
 (शेन्शी)
 शेबास्त—१०३
 शेमाख—१०३
 शेमीअका—३४४, ३४५ (पुलाद)
 शेम्याका—९९
 शेअली—४६१
 शेकुली—१२५
 शेरागाजी—२०१
 शेरपुल—१९४
 शेरमत—५४५
 शेर महम्मद—५४५
 शेरवान—२०४
 शेराबाद—४५९

शेरेमेतोफ—२४९, २५०
 शेलगुनोफ—३८५, ३९४
 शैबान—६९, १६५, ३१५
 शैबानी—१६३, १६७, १७०,
 १७३, २७५, २८१, ३२१
 “शैबानीनामा”—१८३, १९६
 शैबानी-वंश—१६५
 शोकुर—१११
 शोनग्रावेन—३६६
 शचेफिन—५१७
 श्माइलर—३५८
 “श्रम-वेतन”—३९३
 “श्रमिक मुक्ति”—३९३
 श्रीनगर—१५२
 शिल्डट—९३
 श्लुशेल्बर्ग—२५०, २५७
 श्वेत-ओर्दू—४५ (अक-ओर्दू),
 ५०, ५१, ५६, ६८, १६५,
 १६७, १६८, ३४३
 श्वेत-मेश—१७२
 सइकुयु—४८४
 सइसान झील—३१८ (नोर)
 सइस्सन—३२९, ३३३
 सईदाबाद—४०
 सकसिन—२१ (निम्न वो.गा-
 उपत्यका)
 सकसीनत—१८
 सक्या पण्छेन्—८
 सखसौल (फरास)—४२९
 सखालिन—३७२, ३८०
 सगस्का—३२७
 सगीरदश्त—५४५
 सङ्ग-जी—३३४
 सजोनोफ—५२२
 सतलुज—१५१
 सती—८२
 सदरुद्दीन अईबेली—३९
 सदरे जहान—१२३
 सदोव्स्की—३९३ (अभिनेता)
 सद्दे-सिकंदरी—१६१
 सन्जक—३३४
 सन्तिसत-चापू—३३२

- सपिपहो—२२१
सपिक्रोफ—३७२
सप्तनद—१२१, १२५, १३२,
१३४, २९५, २९७, ३२४,
५१९, ५२८, ५३१, ५३२,
५३३, ५३६, ५३७, ५३८
सफर बी—४२८
सफरबीज—५१५ (उज्बेक)
सफावी—१७२ (वंश), १७३,
१७७, १७९, १८१, १९४,
१९६
सफेद खोजा—४२५
सफेद गारद—५५०-५२, ५५५
सफेदरान—५४३
सफेद हड्डी—३५८ (पुराना
राजवंश)
“सबका थोड़ा”—२५९
सबा—१०४
सब्जवार—१५०, १५४, १७८,
१८२, ४९९
“सन्नेमैसिक”—३८५ (सम-
कालीन)
समद—४४८
समय-माप—१५८
समर—५१९, ५२१, ५२५
समरकंद—२७, ३२, ४९, ५४,
५६, ५७, ६०, ६८, १२१,
१२२, १२५, १२७, १२८,
१२९, १३४, १३५, १३९,
१४८, १४९, १५०,
१५२, १५३, १५४,
१५५, १५७, १६०, १६३,
१६५, १६६, १६८, १६९,
१७२, १७४, १७६, १७७,
१७८, १७९, १८०, १८२,
२०८, २७७, २७९, २८०,
२८१, २९६, २९८, ३०२,
३०५, ३०७, ३३०, ३३६,
३४३, ३८७, ३९०, ४१५,
४२७, ४४७, ४५१, ४५५,
४५७, ४५८, ४६१, ४६२,
४६५, ४९९, ५१७, ५१८,
५१९, ५२१, ५२४-२५
(-विजय), ५२५
समरकंदी—६७, १५९
समसामुस्-सलतनत --- ५५४
(ईरान)
समसोनोफ—४१३, ५५२, ५५४
समंची—४२९
समंदर—७४
समाजवाद—५०४
“समाजवाद और राजनीतिक
संघर्ष”—३९३
समाजवादी क्रांतिकारी—३९७,
४१६, ४१७, ४१८, ५०५
(करेंस्की दल), ५१८, ५१९,
(एस्० एर्०), ५२१, ५५०
समाजवादी जनतांत्रिक पार्टी—
४०४, ५१८ (०मजदूर पार्टी)
समानोफ—४६४, ४६६ (राजूल)
समारा—२३७, २९१, ३५१,
३५८
समोयद (भाषा)—५४८
समोयित—९४
“समृद्धि-संघ”—३७३
सगडुव बआतुर—३३४
सरकश—५५
सरकेल—७४
सरखाबा—४३७
सररुशा—४७३, ४७६, ४९०,
४९७
सरतक—२६, २७
सरदाबाकुल—४८३
सरबाज—४३३, ४४८ (सिपाही)
सरमात—७१
सरवान—१३०, १३२, १८०
सरस्वती—१४१, ४८८
सरतोफ—२३७, २६२, ३७२,
३८६
सराय—१३, ३०, ३७, ३८,
१०२, १५१, ५१४ (उज्बेक,
महल)
सराय ओर्दा—२९८
सराय चिवा—२९
- सराय चुका—२८८
सराय तेमूर—४१
सराय बरका—३९, १८५
सराय बातू—३२
सराय बेरेक—६२
सराह—४०
सरिक—५४७ (तुर्कमान)
सरिकाभिश—४१३
सरिकौल—४९८ (पर्वतमाला)
सरी—२०१
सरीखाना—४३६
सरीडुगान—५२०
सरीपुल—१७१, ४६१, ४६३
(सरेपुल)
सरीदागिसेफ—५३७
सरीसू—५७
सरुकउजेन—५७
सरेजूय—४५९
सरोग—७३
सरोवर—११३, १२५, १८६
सर्गा—३३३
सर्त (फारसी भाषी)—
१९९, २०२, २०४, २०७,
२०८, ३३१, ३६०, ४२७,
४२८, ४३१, ४५२, ४६९,
४८६, ५१८ (ताजिक)
सर्व—७१ (मकदूनी)
“सर्वरूस महाराजुल”—३९
सर्वदारी—१४७
सर्वहारा—३८७, ३९३, ३९९,
५०४ (प्रोलेतारी)
सवियन—३८६
सविया—३८०, ३८६ (बोसे-
निया), ४११
सर्वेदार—१५०
सलगुर—५४७ (तुर्कमान)
सलजीदइ—३०
सलजूक—२०७
सलवर—३१९
गुलार (तुर्कमान)—४७१,
४७३, ५४७
सलाहुदीन—१५७

- सलूरी—२००
 सलोर (तुर्कमान)—२००, ४९०, ४९१ (सलूर)
 सलजूकी—१२३, ४९९
 सल्तानिया—३२१, ३३८
 सल्लिकोफ-श्वेदरिन—३९२
 ससीवूगा—४८
 संगीत—१५६, २६६, ३९३ (कला)
 संघराज—९७, ९८, १०७, ११६, २२३
 संजर—१२३, १६६, ४८९
 संत जाज—१२२, ४८२
 संत-महंत—२९१
 संत मिसाइल—३५
 संधि—३८६
 “संयुक्त स्लाव सम्मिलनी”—३७५
 संविधान-सभा—४०१, ५१८
 संसद—१०८, २२०, ५१३
 संस्कृत—९३
 संस्कृति—३९६
 साइबेरिया—६, ४६, ४७, ६३, १०१, १०८, १०९ (-विजय), १११, २१८, २१९, २२७, २२९, २३५, २४४, २६८, २८०, ३१५, ३१७, ३२६, ३२७, ३३३, ३३८, ३४६, ३४८, ३६१, ३७९, ३८८, ३९५, ३९७, ३९९, ४०९, ४९८, ४९९, ५२४, ५२५, ५२८, ५३५, ५४८ (सिबेरिया)
 साइन नोयन—३२१
 साइसन-सरोवर—३३२
 साईस—३०५
 साउस्त्रोफनी—११२
 सागिज—३५५
 सागिद दस्त—५४३, ५४४
 साजलू—४०
 सात बायर शासन—२२२
 दाी—१४३, १४७
 सादुमान—५६
 सान् स्तेफानो-संधि—३८६, ३८७
 साबरान—४९, २७९ (नदी)
 साम—६४
 सामंत—८५ (युग), १०९, ४०६ (-वादी)
 सामानी—४५३, ५१७, ५४१
 सामी पाशा—५४५, ५४६
 साम्प्रदायिक नेता—५१८
 साम्यवाद—५२४, ५४९ (देखो कम्युनिस्ट, कम्युनिज्म भी)
 सायन—२६ (भला राजा)
 सायत—५१६ (उज्वेक)
 सायब इस्पहानी—१९०
 सायो—२४
 सारडम—२४८
 सारणी—१५७
 सारा—१०३
 सारिक—२००, २०७, २१०, ४७६, ४९१ (तुर्कमान), ४९२
 सालार—११४
 सालिन्स्क—३१७
 सालीसराय—१४९, १५०
 सावरान—४८, ५६, ५७, ६०, १६७, १६८
 सावजी—१४७
 सावा व्लादिस्लाव—२२५
 साष्टांग प्रणिपात—२४१ (कौतौ)
 सासानी—७३ (ईरानी)
 साहेब गिराई—२८७
 साहित्य—१३७, १४७, ३९६
 सिकंदर (ग्रीक)—५४३ (अलिकमुन्दर)
 “सिकन्दरनामा”—१६१
 सिगनक—४६-४९, ५०, ५५, १६५, १६६, १६८, २७५, २८०, ३४६, ४५३
 सिगाई—१८०
 सिगान—३८४, ४३३, ४६१
 (रोमनी, जिप्सी, लोली)
 सिगवा—१११ (लपिना)
 सिगस्मिन्द—१०९, २१८, २२२ (३)
 सिङ्ग्याङ्ग—१८३, ३३५ (चीनीतुर्किस्तान)
 सिताजी—१३८
 सितारा-मुखासा—५२६ (बुखारामें)
 सिथ—७१
 सिद्दी अहनद मिर्जा—१५८
 सिनेउस—७५
 सिन्ताब—४८१
 सिबको—५२५
 सिमओन—३८, ३९, ५२, ११०, २४१
 सिम्बिस्की—२२, २३७, ३९४
 सियाङ्ग-याङ्ग—५, ८ (सियाङ्ग-फू), ११
 सियानोक—५२५
 सियापोश (काफिर)—४६०
 सिर(नदी)—४९, १२७, १५३, १७४, ३५२, ४३७, ४८४, ५१६, ५२०, ५३८, ५४१ (सिर-दरिया, यकजर्त)
 सिरगिली—५३०
 सिरदरिया—६, ५५, १२१, १२९, १४९, १५०, २७९, ३०५, ३५१, ३५७, ३६०, ४२५, ४६७, ४७६, ४७८, ४७९, ४८०, ५२४, ५२८, ५३०, ५३५, ५३९, ५४१
 सिरनाग—५१
 सिरवान—५४ (शिरवान)
 सिरिम(बातिर)—३५५-५७
 सिरिया—३९ (शाम), १३०, १४०, १४५, १५१, २८९
 सिर्दजान—१०३
 सिलजीबुल—७२
 सिल्ट बरगर—६६
 सिल्वा—११०
 सिबालिक—१३२

- सिबास—१५२
सिबिर—११२-१४, ११६,
२३५, २३८, २७९, २८७,
२८९, ३१९
सिविरखान—२८१
सिबोरगान—१३५
सिसिली—२४
सिंहतियान—५१५ (उज्बेक)
सिंधु—१५१, २७१, १९४,
४४२ (सिंधु)
सिबिस्क—३९२
सिंहल—१०३
सी-खिम्—५३०
सीनिङ्क-फू—३३२
सीनोप—३८०
सीमा कमीशन—४९८
सीला—३४६
सीलेंड—२९९
सीमांती—१४८
सीस्तान—१४९, १५०, १५४
सुइडनिच—१६६, १६९, २१०
(-बाला)
सुओमी—५४८ (फिन भाषा)
सुक—४३५
सुकलेन—११३
सुङ्ग-ताइ—२१
सुङ्ग-वंश—५ (चीने), ७, ८
सुजदल—२२, ३५, ८२, ८६,
९०, ९४, ९८
“सुद्दर” (अध्यक्ष)—५४४
सुन्ताइ—५ (मंगोल)
सुष्मी—१४५, ४४२, ४७२,
५२६
सु-बो-ताइ—२१, २३ (-सुबोदाइ)
सुभानकुल्ली—१९१, २११, ४६६
(द्वैत)
सुमारोकोफ—२६६
सुरखाब—१७४, ४५९, ५४४
सुरा—२३४
“सुरिम”—५८
“सुरून”—४९
सुल्मान—५६, १४७, १९४
सुल्तान—१४१, १४४, १४७,
१५४, १५६, १५८, १६५,
१६८, १८०, १९१, १९९,
२००, २०१
सुल्तान अली—१६२ (मशाहदी),
१६३, १७२
सुल्तान अबुल्फैज—३४८
सुल्तान—१६० (हुसैन), १६२
(-मुहम्मद), १६६ (-गिराई),
२७८ (-निगारखानम्),
३०४ (महमूद), ४४१
(-सजर)
सुल्तानिया—३३, ५५, ६०
(ईरान), १०४
सुवर्ण-ओर्दू—३, ८, १८, ३८,
५१, ९८, १००, १०६,
१२१, १२८, १३३, १४२,
१६५, १८५, ३१५, ५१४,
५२९
सुवाइत—३२१
सुवारोफ—२६०, २६३, २६९,
३६८, ३६९, ३८२, ३९८
सुसगन—११२
सुंगारी—२४२, २४३
सुइरमान—३३०
सूइलहिनु—३३०
सूकिन—३१६
सूक्ष्मचित्र—१५७
सूचाउ—५, ३१३ (चीन)
सूजक—१६५, १६८, ४३५
सूनित—३२१
सूफ्री—५६, १२४, ३०५ (संत),
१३८, ४३४ (मुअज्जिन)
सूबुइ—१९९
सूयुन्जिक—१७६
सूयुनजी—१९६
सूर—२६६
सूरिकोफ (चित्रकार)—३९६
सूर्यदेवी—१४०
सेइराम—३२८
सेकिज-इगाचे—२९७
सेगोन-गर—१६६
सेङ्गो—३२८ (सेल्सेन खान)
सेच—२३०
सेचक—३१९ (थैशी)
सेचेनोफ—३९२
सेतजुलेत सराय—६६
सेत्सेन खान—३२१, ३२८
सेनेकसे—४८४
सेपूकोफ—५१
सेप्तेन बल्जुर—३३१
सेबल—३७
सेबान—२१
सेमरेक—३६१ (सप्तनद)
सेमारचिम—५१४ (उज्बेक)
सेमियोन—५२, ११४
सेमीप्लातिस्क—२५१, ३१९,
३३३ (सप्तप्रासाद), ३४७,
३४८, ३७९, ५३०
सेमी-बायर्-श्चिना—२२२
सेमीरेचिन्क—४५२
सेमीरोद्सूक—३५५
से-मू—१२ (तुर्क मुसलमान)
सेमूर—५९
सेमेओन—९७
सेरख्स—१६१, १८१ (सरख्स)
सेरपूकोफ—६३, २२०, २८९
सेराब्रेका—१११
सेराय—४९, ६० (सराय)
सेरायचुक—६० (सरायचुक)
सेराय सोलकुल—५०
सेरेनइका—४०८
सेरोफ (चित्रकार)—३९६
सेर्गेयफ—५०८ (अत्योर्ग म्.)
सेलिगोर—२२
सेलिगिन्स्की—२५३, २५४
सेलीजर—२०५
सेली-त्रेन्नोय—५१
सेलेसिया—६
सेलडूज—१३७
सेल्गा—११०
सेल्वेस्तर—१०७
सेवक्रुन—१३३

सेवदिनी—३६९
 सेवलरी—२५
 सेवस्तापोल—३८०
 “सेवस्तापोलकी कथायें”—३८०
 सेविनबेइ—५३, ५४ (खानजादी)
 सेबेर—८२ (सिवरि)
 सेत्रेरियान—७७
 सेवेस्क—८४, ८९, १००, २१८,
 २२५
 सेहन—१२९
 सेडीकेट—४०८
 सैकाकी—१२५
 सैची केशेस—३१९
 सीदान (गांव)—५४३
 सैदिक—१६७
 सैदियत—११३, ११५
 सैफुद्दीन—२७ (बाखरी), ६०,
 १३७, १४०
 सैयद अबुलगाजी—१९४
 सैयद इमामकुल्ली—१८७
 सैयद उबैदुल्ला—१९४
 सैयद—६९ (-खान), १५०
 (-बरका), १५९ (यबका),
 १६६ (-बाबा), २३५
 (-सादिर), ४७७ (-मुहम्मद
 खान), ४७९ (-मुव्हीमखान)
 सैरान—४९
 सैराम—५५, १६६, १७६,
 १८०, २९७, ३०२, ३०७,
 ३०९, ३१०, ३३०, ३३१,
 ३४३, ३५०
 सैरामकामिश—५०
 सैसन झील—३३३
 सोख—४३४
 सोगद—५५ (देश), १७०,
 ४५८, ५१६
 सोगदी—५१६, ५१७, ५३६,
 ५३९, ५४१
 सोची—४०३
 सोद्बो—३३४
 सोनपुर (मेला)—४७३

सोफिइस्कया—९३
 सोफिया—८५ (-गिर्जा), १०६
 २४६, २४७, २४९
 सोफिया पालेओलोगस—१०१
 सोफियान—१९९, २२०
 सोलम्वर्सा—३३४
 सोलोव्रेत्स्क—३८०
 सोवियत—१२१, ५०३, ५०५,
 ५०८ (कांग्रेस), ५१२,
 ५२२, ५४९
 सोवियत-शासन—४९३, ५२३
 ५३९
 सोवियत समाजवादी गणराज्य-
 संघ—५१२, ५१३
 सोवित संयुक्त समाजवादी गण-
 राज्य—५१२
 सोसकान—११४
 सोसवा—१११
 स्कंदनेविया—३९, ७४, ७५
 (स्कैंडनेविया)
 स्किफिया—७३ (शकस्तान)
 “स्कोत”—८६ (पशु)
 स्कोवेल्लेफ—४३७ (जेनरल),
 ४८४, ४९५, ४९६, ५१८,
 ५२२
 स्कीन—४९७
 स्टाकहोम—४०४
 स्टुअर्ट—४२६
 स्टोडर्ट—४४८, ४४९, ४७४
 (कर्नल)
 स्तानित्सा—१०८ (थाना)
 स्तानिस्लाउस—२५९
 स्तार्क—३९८ (अइमिरल)
 स्तालिन—२६७, ३९६, ४०२,
 ४०५, ४१०, ४११
 स्तालिनग्राद—५१, २३६, २६२
 स्तासोफ़—३९३ (संगीतकार)
 स्तिफन—१०९
 स्तेपान—२३६, २३८
 स्तेपान खलतुरिन—३८७, ३९०
 स्तेपानोफ़—५२५, ५५२

स्तेपी—३१९, ४८० (दशत,
 मैदान, मह)
 स्तेकन वाथोरी—२३०
 “स्तेरेगुश्ती” (ध्वंसक पोट)—
 ३९८
 स्तेलमाशेस्की—५३३
 स्तोल्पिन—४१०
 स्तोत्रोवो—२२५
 स्त्रान्दमान—३४९
 स्त्रूवे—४३२
 स्त्रेलेत्सी—२२४, २३७, २४६,
 २४९ (गारद सैनिक),
 २३६ (राज-पैनिक), २५२,
 ३१७
 स्त्रेलेत्सी—२२८
 स्त्रोगोन—११० (पीटन)
 स्त्रोगनोक—१०९, ११०,
 १११, ११३
 स्थानीय बोर्ड (जेम्स्ट्रो)—
 ४०४
 स्पा—१०२ (त्राता)
 स्पाल्त्रो—२३
 स्पीरिदोन—१०९, ११०
 स्पेन—१५२, २४८, ३७३
 स्पेनिश—१३५, ३६८
 स्पेरिन्स्की—३७०, ३७२
 स्मोलेन्स्क—५, ७७, ८२,
 ८८, ९१, १०१, १०६,
 २१८, २२२, २२३, २२५,
 ३६८, ३९१
 स्मोल्नी—५०८, ५०९, ५११
 स्पाहकुलाह—२३
 स्पाहवाह (अंध कूप)—४४९
 स्लाव—३९, ७१, ७५, ८४,
 २३०, ३८६, ४०६ (-वाद)
 स्लावानिक—२५२ (अक्षर),
 २६५
 स्लावेत्स—८२
 स्लिंको—५२५
 स्लेज—९४

स्लोवोदा—११३
 "स्वतंत्र रूसी प्रेस"—३८२
 स्वापिनक समाजवाद—३९१
 (उटोपियन)
 स्वायत्तता वादी (खोक्रंद-)
 ५१९, ५२०
 स्वारोग्—७३, ७६ (देवता)
 स्वारोजिक—७३ (स्वारोचिष)
 स्वित्जरलैंड—२७०, ३६५
 (स्वीजलैंड), ४१२, ४१३,
 ५०४
 स्वीड—९४, ९६, १००, २२२,
 ४६५
 स्वीडन—१०८, १०९, ११६,
 २२२, २३४, २४८, २५०,
 २५३, २५६, २५९, २६३,
 ३१८, ३३१, ३६६, ३६७,
 ४३०, ५०३
 स्वीयात्रेस्क—१०७
 स्व्यातोपोल्क—८३, ८४ (१),
 ८७ (२)
 स्व्यातोस्लाव—७८, ८२ (१),
 ८४, ८६, ८७, ८८
 स्वेन्-वाङ्ग—२९३, ४५९
 स्वेर्द्लोफ्—४०५, ५१८
 हकीम—१२६
 हगान—३ (कआन, खाकान,
 खआन, खान)
 हङ्ग-वाउ—९
 हचवेवा—५१५ (उज्जेक)
 'हजरत'—४४६
 हजरत-इमाम—४६०, ४६१
 हज़ार—१९४
 हज़ारजमीन—३२
 हज़ारा—१४७, १७२
 हज़ारास्प—३२, १७८, १९६,
 १९९, २०१, २०२, २०३,
 २०४, २०६, २०७, २०८,
 २१०, २११, ४६७, ४६९,
 ४७५, ४७६, ४८३, ४८५
 हनफी—३२५
 हनीफा—३२५
 "हफ्त-किदवर"—१६१
 ८३

"हफ्त-नैकर"—१६१
 हवश आमिद—१२६, १२७
 हमदान—३३, १४०, २०९
 'हमारे मतभेद'—३९३
 हम्दुल्ला मुस्तीफी—१४६
 हम्माम—१६१ (स्नानागार)
 हरावल—२९५
 हरिद्वार—१५१
 हरिनोकै नरकट—५०
 हरीरूद—४९१, ४९८
 हबिन—३९७
 हमो'गन—२२३
 हर्शल—२६५
 हलब—८ (अरेप्पो), १४०
 "हस्त-बहिस्त"—१६१
 हशतरूद—४० (अष्टनद)
 हमजा—१७५
 हसन—१०२-४ (-वेग), १३९,
 १४४, १९९ (-कुल्ली), १५०,
 (-दमगानी), २००, ४७१
 (-मुराद)
 हडताल—४१४
 हंसीय—९४
 हंसे—९४
 हाकिम—५४३
 हाकिमत्रेग—३३२
 हागान—१३९ (हगान भी)
 हाजिम—२०३, २०५
 हाजी—४३ (खां), ६०-६२
 (-तखैन-अस्त्राखान), १३६,
 १३७, १५७, १९१, २०२-३
 (-मुहम्मद), ५२६ (अकर.म,
 -दादखाह)
 हाजी बिरलस—१३७, १४८
 हान्स-संघ—३५
 हाफिज़—१४७, १९१, ५१५
 (उज्जेक)
 हामी—३१० (चीन), ३३०
 हालैंड—२२५, २४८, ३६७
 हावड़ा—३७७
 हागकांग—३९७
 हिटलर—१०१, २५८, ३६८,

४०६
 हिंद-चीन—३, १०, ३९७
 हिंदी-युरोपीय—५३९
 हिंदुस्तान—१०३, १०४, १४४,
 १७६, १८३, २०३, ३५५,
 ४२६, ४४२, ५३६
 हिंदू—१०३, १८८, ४४२
 हिंदूकोह—१५१, १७२, १८९,
 १९०, ४४२ (हिंदुकुश),
 ४६१ (हिंदुकुश)
 हिंदू मंदिर—२९९
 हिंदू-विहार—२९९ (बौद्ध)
 हिण्डोकेत—१९२, २८९
 हिंदो-आंग्लियन—२६६
 हिमानी—५३५
 हिरात—६६, ६९, १५०, १५४
 (खुरामान), १५४, १५५,
 १५७, १५८, १५९, १६१,
 १७२, १७३, १७६, १७८,
 १७९, १८१, १८२, १८५,
 १९३, ३०३, ४४१, ४४२,
 ४४९, ४५५, ४६१, ४७४,
 ४९०, ४९७, ४९८, ४९९,
 ५२७
 हिल्ला—१४४
 हिसार—५६, १६७ (ताजि-
 किस्तान), १७१, १७३,
 १७४, १७६, १७७, १७८,
 १८६, २११, ३०६, ३०९,
 ४३९, ४५९, ५२७
 हिसार कुदुज—३०४
 हुगली—३७७
 हुमायूँ—१०६, १७७, १७९,
 १८३, ३०८, ३१३
 "हुरियत" (=स्वतंत्रता)—५२६
 हुलाकू—८ (वंश), १०, १७,
 १२५, १२६-३०, १३९,
 १४०, २८४
 हुलीजन हान—३३२
 हुसेन—३३ (चोबान), १०३,
 १३५, १४८, १५०, १५७,